

**TEXT FLY WITHIN
THE BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU 184357

UNIVERSAL
LIBRARY

Manikchand Digambara Jaina Granthamālā

No 41

GENERAL EDITOR: PROFESSOR HIRALAL JAIN



THE
MAHĀPURĀNA

OR

TISATṬHIMAHĀPURISAGUNĀLAMKĀRA
(A Jain Epic in Apabhram̄sa of the 10th Century)

OF

PUṢPADANTA

VOL. II

Critically Edited by

Dr. P. L. Vaidya, M. A. (Cal.); D. Litt (Paris)

Professor of Sanskrit and Allied Languages

Nowrosjee Wadia College, Poona

Published by

Manikchand Digambara Jaina Granthamālā, Bombay

1940

Price Rs. Ten

Printed by R. D. Desai at his New Bharat Printing Press, 6 Kelewadi, Bombay 4,
and Published by Pandit Nathuram Premi, Secretary,
Manikchand Digambara Jaina Granthamālā,
Hirabag, Girgaum, Bombay 4.

माणिकचन्द्रदिगम्बरजैनग्रन्थमालाया एकचत्वारिंशत्तमो ग्रन्थः

महाकविपुष्पदन्तविरचितं
त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकारं नाम
अपभ्रंशभाषानिवद्धं

महापुराणम्

तस्यायं
उत्तरपुराणप्रथमार्धभूतः
द्वितीयः खण्डः

पुण्यपत्तनस्थवाडियाकॉलेजाख्यविद्यामन्दिरनियुक्तेन
संस्कृतप्राकृतादिभाषाध्यापकेन
वैद्योपाह्वपरशुरामशर्मणा
संपादितः

प्रकाशिका
माणिकचन्द्रदिगम्बरजैनग्रन्थमालासमितिः

विक्रमाब्दाः १९९६]

[ख्रिस्ताब्दाः १९४०

मूल्यं दश रूपिकाः

TABLE OF CONTENTS

PREFACE	vii
INTRODUCTION	ix-xxi
1. Critical Apparatus	ix
2. Summary of Contents	x
3. The Appendices	xxi
TEXT WITH CRITICAL APPARATUS & FOOT-NOTES	१-५२५
३८ अजियणिव्वाणगमणं अट्ठीसमो संधि	३
३९ मयरणिव्वाणगमणं एक्कणचालीसमो संधि	२०
४० संभवणिव्वाणगमणं चालीसमो संधि	३२
४१ अहिणंदणणिव्वाणगमणं एक्कचालीसमो संधि	४५
४२ सुमहणिव्वाणगमणं दुचालीसमो संधि	५८
४३ पउमप्पहणिव्वाणगमणं तियालीसमो संधि	६८
४४ सुपासणिव्वाणगमणं चउयालीसमो संधि	७८
४५ पउमणाहवइजयंतसंभवां पंचचालीसमो संधि	८५
४६ चंदप्पहणिव्वाणगमणं छायालीसमो संधि	९६
४७ सुविहि (पुप्फयंत) णिव्वाणगमणं सत्तचालीसमो संधि	१०५
४८ सीयलणाहणिव्वाणगमणं अट्ठयालीसमो संधि	११६
४९ सेयसणिव्वाणगमणं ----- संधि	१३०
५० बलएववासुदेवउप्पत्ती पण्णासमो संधि	१३९
५१ सिंघमारणं कोडिसिलुच्चायणं एक्कवण्णासमो संधि	१४७
५२ विजयतिविट्ठहयगीवकहंतरं दुवण्णासमो संधि	१५८
५३ वासुपुज्जणिव्वाणगमणं तिवण्णासमो संधि	१८१
५४ अचलदुविट्ठतारयकहंतरं चउवण्णासमो संधि	१९०
५५ विमलणाहणिव्वाणगमणं पंचवण्णासमो संधि	२०२
५६ धम्मसयंभुमहुकहंतरं छप्पण्णासमो संधि	२०९
५७ संजयंतमेरुमंदरकहंतरं सत्तवण्णासमो संधि	२१७
५८ अणंतमुप्पहमहसूयणकहंतरं अट्ठवण्णासमो संधि	२३६
५९ धम्मसुदंसणाइकहंतरं एक्कणसट्ठिमो संधि	२४९
६० संतिणाहभवावलिवण्णं सट्ठिमो संधि	२६५
६१ वज्जाउहचक्कवट्ठिवण्णं एक्कसट्ठिमो संधि	२८४
६२ मेहरहत्तिथयरगोत्तणिबंधणं दुसट्ठिमो संधि	२९९
६३ संतिणाहणिव्वाणगमणं तिसट्ठिमो संधि	३१२
६४ कुशुणिव्वाणगमणं चउसट्ठिमो संधि	३१९
६५ अरणिव्वाणगमणं परसुरामविहवो पंचसट्ठिमो संधि	३२६
६६ सुभउमचाक्किहंतरं णदिसेणपुंडरीयणिसुंभकहंतरं छसट्ठिमो संधि	३४१

६७	मल्लिणाहणिव्वाणगमण पउमचक्किणंदिमित्तदत्तयबलिपुराणं सत्तसट्ठिमो संधि	३४८
६८	मुणिसुव्वयणिव्वाणं हरिसेणकहंतरं अट्टसट्ठिमो संधि	३६०
६९	रामलक्खणुप्पत्ती जागणिवारणं एक्कहत्तरिमो संधि	३६८
७०	सीयाविवाहकह्त्ताणं सत्तरिमो संधि	३९०
७१	णारयआगमणं रावणमणखोहणं एक्कहत्तरिमो संधि... ..	४०३
७२	सीयाहरणं दुसत्तरिमो संधि	४१७
७३	सुग्गीवहणुमंतागमणं सीयादंसणं तिसत्तरिमो संधि	४२६
७४	हणुमंतदूयगमणं चउहत्तरिमो संधि	४४६
७५	वाल्किणह्त्ताणं रामलक्खणविज्जासाहणं पंचहत्तरिमो संधि	४५७
७६	णदणवणमोडणं लंकाडाहं छहत्तरिमो संधि	४६५
७७	राहवरामबलसंणहणं सत्तहत्तरिमो संधि	४७३
७८	रावणणिह्त्ताणं विहीमणपट्टबधो अट्टहत्तरिमो संधि	४८३
७९	रामलक्खणगुणक्कित्तणं हरिसेणचक्कवट्टिकहंतरं एक्कणासीमो संधि	५०४
८०	णमिणिव्वाणं जयसेणचक्कहरकहंतरं असीतिमो संधि	५१३
NOTES	527-559	
APPENDIX : I दिगम्बरमतेन तीर्थंकरमूर्तिविज्ञानम्	560	
APPENDIX : II तीर्थंकरपित्रादिवर्णनपट्टिका	561-563	
APPENDIX : III गणधरसंख्या	564-565	
APPENDIX : IV चक्रवर्तिपित्रादिवर्णनपट्टिका	566-567	
APPENDIX : V बलदेववासुदेवप्रतिवासुदेवाः	568-569	
ADDENDA ET CORRIGENDA	570	

PREFACE

THE first Volume of the Mahāpurāṇa of Puspadanta containing the first thirtyseven samdhis out of a total of one hundred and two was issued in 1937 as No 37 of the Manikchand Digambara Jaina Granthamālā, Bombay, under the kind patronage of the Trustees of that Series. I am now issuing the second Volume of the work containing the next forty-three samdhis (xxxviii–Ixxx) in the same Series as No 41 and under the patronage of the same Trustees as also of the University of Bombay. I hope to issue the third and the last Volume of the work within a year from now.

It is my pleasant duty to thank all those who have assisted me in the production of this second Volume. In the first place I should like to thank most heartily the Managing Trustee of the Manikchand Digambara Jaina Granthamālā, Mr. Thakordas Bhagwandas Javeri, who, in spite of low funds of the Mālā, agreed to finance the publication. To Pandit Nathuram Premi and Professor Hiralal Jain of King Edward College, Amraoti, the Secretaries of the Mālā, I owe a special debt of gratitude. The funds of the Mālā, after the publication of the first Volume of the work, were completely exhausted, and I feared that I would be forced to abandon the work unfinished, but these learned scholars moved heaven and earth to find out the required amount for publication. I am to thank Professor Hiralal Jain specially for his having secured for my use the Ms. of the Uttarapurāṇa designated A in the Critical Apparatus and also of the Tīppaṇa of Prabhācandra from Master Motilal Sanghi Jain, Sanmati Pustakalaya, Jaipur, who very kindly placed them at my disposal as long as I wanted them for collation work. My thanks go to Master Motilal for this kindness. Mr. R. G. Marathe, M. A., formerly my pupil and now Professor of Ardha-Māgadhī at the Willingdon College, Sangli, helped me for the collation of this Volume also. My thanks go to him for the help he rendered me. Nor should I forget to mention thankfully the work of Mr. R. D. Desai of the New Bharat Printing Press, Bombay, and his willing staff of Proof-readers and Pressmen who are responsible for the excellent get-up and faultless execution of this Volume. I must particularly mention here that the brief Corrigenda at the end of the Volume is not at all due to their negligence but to oversight on my part.

Lastly, the Editor and the Publishers acknowledge their indebtedness to the University of Bombay for the substantial financial help (Rs. 650/-) it has granted towards the cost of publication of this Volume.

INTRODUCTION

1. Critical Apparatus

THE Text of Mahāpurāṇa or Tisatthimahāpurisaguṇālaṃkāra of Puspādanta in this Volume is based upon three Mss. designated K, A and P which are fully collated. Occasional help for the purpose of settling the text was also derived from the Tīpṇa of Prabhācandra. I give below the full description of this material :—

(1) K. This Ms. is fully described in my Introduction to Vol. I on pages xi and xii. The Uttarapurāṇa portion begins on leaf No 289 of this Ms. As this Ms was found to contain the older of the two recensions of the Ādipurāṇa with corrections to accord with the other recension, I have relied upon it for the constitution of the text in this Volume. It is to be regretted that no Ms. corresponding to Ms. G of the Ādipurāṇa Mss. could be discovered for this Volume. I may say here that the No. of the Uttarapurāṇa Mss known to me is much smaller than those of the Ādipurāṇa.

(2) A. This Ms was obtained for me by Professor Hiralal Jain of the King Edward College, Amraoti, from Master Motilal Sanghi Jain, Sanmati Pustakālaya, Jaipur. It consists of 423 leaves measuring 13 inches by 5 inches with 11 lines to a page and about 40 letters to a line. This Ms presents in its original form a recension as in P, but seems to have been corrected to another recension no longer available to me with the result that the variants recorded are those of the corrected recension. The Ms further seems to have been made up of (a) leaves of the original Ms of which a few were lost, and (b) of leaves newly added to make up the lost portion and written in a different hand. This hypothesis of mine is supported by reference to Folio No 383-384 which leaves half the page blank in order that the matter should run on with the first syllable on Folio No 385 of the original part. The pages so substituted have nine lines to a page and about 38 letters to a line. That this Ms. presents a recension different from those of K and P is clear from the fact that it contains Praśasti Stanzas 46, 47 and 48 (See Introduction to Vol I, page xxvii) which are not common to any other Ms of the Uttarapurāṇa. The Ms begins: ॐ नमो वीतरागाय । बंभहो बंभालयसामियहो and ends : इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्कयंतविरइए महाभवभरहाणुमणिणए महाकव्वे दुउत्तरसयमो परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि ॥१०२॥ इति उत्तरपुराणं समाप्ता ॥ शुभंमस्तु ॥ कल्याणंमस्तु ॥ संवत् १६१५ वर्षे माघदि ६ सुक्रवासरे उत्तरपुराणं समाप्तं ॥ बाईहटोपठनार्थं ज्ञानावर्णीकर्मखयार्थं ग्रंथसंख्या ॥ १२००० ॥

This last page however is not the original page of the Ms but is newly written. According to this colophon the Ms is dated Friday, the 6th day of the month of Māgha (Feb-March) of the Saṃvat year 1615, corresponding to 1558 A. D.

(3) P. This is Ms No 1106 of 1884-87 of the Deccan College Collection, now deposited in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. It has 681 leaves measuring 11 inches by 4½ inches with 8 lines to a page and 33 letters to a line. It is dated the full-moon day of the month of Bhādrapada (Aug-Sept.) of the saṃvat year 1630 corresponding to 1573 A. D. The last page of the Ms. is damaged and hence it was rewritten on the 6th day of the bright half of Āṣāḍha (July) of the saṃvat year 1934 corresponding to 1877 A. D. It has a brief marginal gloss. It begins; ॐ नमो वीतरागाय ॥

बंधो बंभालयसामियहो... The original page ends: इय महापुराणे.....दुहत्तरसहस्रो परिच्छेओ समत्तो. In second hand we have further : संवत् १६३० वर्षे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमातिथौ क (विवासरे उक्त) रामाद्रपदानक्षत्रे नेमिनाथचैत्यालये श्रीमूलसंघे बलात्कार...छे श्रीकुंदकुंदान्वये..... The replaced page ends : बलदेवदास टौंग्याकाकारज मीती असाडसुदी ६ समत १९३४ का सालम श्रीषीयामंडीका मंदर पंचाहतीमंदरने चडायो ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥

This Baladevadāsa had before him the damaged page of the Ms in two parts, the first part of which is still preserved along with the Ms at the Institute. The year 1630 put on the original page and the Paṭṭāvalī portion on the original page seems to have been written in a different hand.

In addition to these three Mss fully collated, I have made full use of the Ṭippaṇa of Prabhācandra, a Ms of which was procured for my use by Professor Hiralal Jain from Master Motilal Sanghi Jain of Jaipur. This Ms of the Ṭippaṇa has 57 leaves measuring 12 inches by 5 inches with 13 lines to a page and 31 letters to a line. It begins : ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ बंधो परमात्मनः and ends : श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिक-सहस्रे महापुराणविषमपदविवरणं सागरसेनसैद्धांतान् परिज्ञाय मूलटिप्पणकां चालोक्य कृतमिदं समुच्चयटिप्पणं ॥ अज्ञपातभीतेन श्रीमद्वलात्कारगणश्रीसंघाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना निजदोर्दैडाभिभूतरिपुराज्यविज-यिनः श्रीभोजदेवस्य ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचंद्राचार्यविरचितं समाप्तं ॥ छ ॥ अथ संवत्सरे-स्मिन् श्री नृपविक्रमादित्यगताद्वाः संवत् १५७५ वर्षे भाद्रवा सुदि । बुद्धदिने । कुसुजांगलदेसे । सुलितान सिक्करपुत्रु सुलितानब्राह्मिमुराज्यप्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे । भङ्गरकश्रीगुणभद्रसूरिदेवाः । तदाम्नाये जैसवालु चौ । टोडरमल्लु । इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं । सुभं भवतु । मांगल्यं ददाति लेखकपाठकयोः ॥ छ ॥

The colophon of this Ms raises some interesting problems which have been fully discussed in my Introduction to Vol I, page xv, and hence it is not necessary to restate and reexamine them here. I need only say that I have made full use of this T as also of the marginal gloss in K and P in constituting my text and in preparing my Foot-Notes.

There is one more Ms of the Uttarapurāṇa known to me. It is deposited in the Balātkāra Gaṇa Jain Mandir at Karanja, Berar, and bears No 7029 in the Catalogue of Sanskrit & Prakrit Mss in the C. P. and Berar, by the late Rai Bahadur Hiralal. This Ms is dated Thursday the 8th day of the dark half of Mārgaśīrṣa of the saṃvat year 1606, i. e., 1549 A. D. I have personally examined this Ms at Karanja during my visits to that place in 1927 & 1929, have had some trial collations, was promised the loan of it by the trustees of the temple, but could not get it when I actually required it owing to some strange attitude which the trustees then took. From my trial collations however, it appears that this Ms agrees very closely with P which is fully collated for this edition.

I have constituted my text in this Volume on the material described above. In doing so I have mostly relied upon the text as preserved in K which was found to represent the earliest of the three recensions of the Uttarapurāṇa.

2. Summary of Contents

This second Volume of the Mahāpurāṇa contains saṃdhis XXXVIII-LXXX of the great epic, and describes the lives of twenty Tirthaṅkaras beginning with Ajita the

second and ending with Nami the twenty-first, eight each of the nine Baladevas, Vāsudevas and Prati-Vāsudevas, and ten out of twelve Cakravartins from Sagara to Jayasena. In narrating these lives the poet has followed the information handed down by tradition and seems to have been greatly influenced by Guṇabhadra's Uttarapurāṇa in Sanskrit. It appears that the details of the lives of these Great Men were codified by old monks, but individual poets handling the theme were free to use their poetic genius in detailed description. Vimalasūri in his Paumacariya, for instance, says :—

नामावलिनिबद्धं आयरिषपरंपरागयं सव्वं ।

वोच्छामि पउमचरियं अहाणुपुब्बिं समासेण ॥ १-८.

Although most of the information seems to have been codified and tabulated and handed down by tradition of each of the two schools of the Jainas, there is considerable uniformity in the subject matter. I have myself prepared some Tables and given them in the form of Appendices to this Volume. I now proceed to give the summary of contents by saṃdhis where such summary cannot be given in a tabular form.

XXXVIII. The Poet at the beginning offers salutations to the five Parameṣṭhis and assures the reader to continue his work by narrating the life of Ajita the second prophet of the Jainas. But before he proceeds he says that for some reason he was uneasy at heart and so stopped his literary activity for some time. One day the goddess of Learning appeared before him in dream and asked him to offer his salutations to the Arhats. The poet woke up but saw nobody before him. At this juncture Bharata, his patron, came to his house and asked him whether he (Bharata) offended him any way as a result of which he did not continue his work. Bharata reminded the Poet further that the life was fickle and that he should make full use of the gift of his poetic powers. The Poet then said to his patron that he was uneasy at heart because he found the world to be full of wicked people, and that, for that reason, he was not inclined to continue his composition, but that he would resume it at his request which he could not refuse. The Poet then resumes the work and narrates the life of Ajita. For details see Notes and the Tables in Appendices I, II, and III.

XXXIX. There lived a king named Jayasena at Pṛthvīpura, the capital of Vatsāvati in the eastern Videha. He had two sons, Ratiṣeṇa and Dhṛtiṣeṇa by name, possessing great beauty. Of these Ratiṣeṇa died early. His father, overcome by grief, and disgusted with the worldly life, gave his kingdom to his son, Dhṛtiṣeṇa, and along with his minister Mahāruta, became a monk. Both Jayasena and Mahāruta practised penance, and after death became gods named Mahābala and Maṇiketu. These two gods made an agreement between themselves that whoever would be born on the earth earlier should be taught by the other the highest Dharma. Of these Mahābala was born first on the earth as king Sagara of Sāketa, and in course of time became a Cakravartin. Once a monk named Caturmukha attained Kevalajñāna, on which occasion gods arrived on the earth. Sagara went there to pay his respects to the monk. Maṇiketu saw king Sagara there and was reminded of his promise to god Mahābala. Maṇiketu thereupon took the opportunity to tell Sagara how fickle the earthly prosperity was, but Sagara paid no heed to him. Once again Maṇiketu came to Sagara's palace to enlighten him, but this time also he failed. Now just about this time, sixty thousand sons of Sagara approached their father and asked him to give some work of command as they were tired of being idle.

Sagara at first told them that there was nothing that was left for them to do as his cakra had already achieved everything for them. His sons however insisted and then Sagara asked them to go to Mandara mountain and make some arrangement for the protection of the temples of the twenty-four Jinas built by Bharata the first Cakravartin. The sixty thousand sons of Sagara then started on their mission, dug up a huge ditch round Mandara and filled it with waters of the Ganges which flowed into the Nāgaloka. This time Maṇiketu thought of enlightening Sagara by a new method. He became a big snake, looked at the sons of Sagara with anger, and burned them to ashes. Only two, Bhīma and Bhagīrathī, escaped alive. Sagara was informed of this disaster, was advised by a Brahmin on the fickleness of saṃsāra. Following his advice, Sagara placed his son Bhagīrathī on the throne, and with his son Bhīma, became a monk. Maṇiketu was delighted to see this and showed to Sagara how he wrought about by his magic the death of his sons. All the sons were then brought to life, but they also followed their father by becoming monks. Bhagīrathī also, in due course, became a monk and attained emancipation.

XL, XLI, XLII, XLIII, and XLIV. For the lives of Saṃbhava, Abhinandana, Sumati, Padmaprabha and Supārśva, see the Tables.

XLV. This saṃdhi describes the six previous births of Candraprabha the eighth Tirthaṅkara. In the earliest of these births, the soul of Candraprabha was born Śrīsarman or Śrīvarman, son of king Śrīseṇa and queen Śrīkāntā of Śrīpura in the Sugandha country of Western Videha. Leading a pious life he was next born as a god named Śrīdhara. In the next life he was born as a son named Ajitasena to king Ajitaṃjaya and queen Ajitasenā of Ayodhyā in the Alakā country. This Ajitasena became a cakravartin, led a pious life, and was next born as the lord of the Acyuta heaven. After this he was born as Padmanābha or Padmaprabha, son of Kanakaprabha and Kanakamālā of the town Vastusaṃcaya in the Maṅgalāvati region. In his next birth he was born as Ahamindra in the Vaijayanta heaven.

XLVI. For the life of Candraprabha as a Tirthaṅkara see the Tables.

XLVII. For the life of Suvidhī or Puṣpadanta see the Tables.

XLVIII. Śītala the tenth Tirthaṅkara was in his previous life king Pṛthvipāla of Susimā. His wife, Vasantalakṣmī by name, died in the prime of youth, and the king, reflecting on her death, renounced the worldly life. In his next birth he was born as a god in the Āruṇa heaven. In his next birth he was born as a son named Śītala to king Dṛḍharatha and queen Sunandā of the town of Rājabhadrā or Bhadrilapura. On seeing a bee dead in the lotus flower, he formed a disgust for the worldly life, renounced it, and going through the usual course of a Tirthaṅkara, attained emancipation. After his nirvāṇa Jainism fell on bad days for want of persons preaching and practising it. There was at this time a king called Megharatha at Bhadrilapura. He wanted to spend his wealth in making gifts to suitable persons and asked the advice of his minister what type of gift was the best gift. His minister mentioned Śāstradāna to be the best form. The king however, did not like this advice, and asked a Brahmin named Muṇḍaśālayana who told the king that he should make the gifts to Brahmins of girls, elephants, cows etc. The king followed his advice which only went to enrich the Brahmins but did the king no good.

IL. For the life of Śreyāmsa see the Tables.

L, LI and LII. These three samdhis describe the narrative of the first set of Baladevas, Vāsudevas and Prati-Vāsudevas. During the regime of Śreyāmsa there lived at Rājagrha a king named Viśvabhūti and queen Jainī. The king had a younger brother named Viśākhabhūti and his queen was called Lakṣmaṇā. Jainī gave birth to a son called Viśvanandi and Lakṣmaṇā to Viśākhanandi. One day Viśvabhūti saw an autumnal cloud disappearing in the sky. From this the king realised impermanence of saṃsāra, and giving his kingdom to his younger brother Viśākhabhūti, renounced the worldly life. When Viśākhabhūti became king, Viśvanandi became the Yuvarāja.

Now Viśvanandi once went to his pleasure-garden called Nandana, and while he enjoyed life there in the company of women, Viśākhanandi saw him. A desire to possess that very garden arose in his mind. He went to his father and pressed him to give it to him. The king agreed to do this, called Viśvanandi and asked him to take charge of his father's kingdom, and told him further that he (Viśākhabhūti) would go to the frontier to overcome the rebelling tribes. Viśvanandi did not like the idea that his uncle should go to fight, but told him that he would rather himself go for that purpose. Viśākhabhūti agreed and Viśvanandi went away. During his absence Viśākhabhūti gave the Nandana garden to his son Viśākhanandi. When Viśvanandi returned, he found that his garden was taken possession of by Viśākhanandi. Viśvanandi got angry with his uncle and cousin. He wanted to attack his cousin who climbed up the tree. Viśvanandi uprooted the tree with Viśākhanandi on, and wanted to smash them both. Viśākhanandi however escaped but climbed a stone pillar which Viśvanandi smashed into pieces. Viśākhanandi then ran away for life. At this time Viśvanandi was filled with pity that he attacked his cousin, and made up his mind to be a Jain monk. Viśākhabhūti also made up his mind to follow Viśvanandi, placed Viśākhanandi on the throne, went to the forest and practised penance. After his death he was born in the Mahāśukra heaven.

Now Viśākhanandi was overcome by a powerful enemy, and ran away from his capital. He went to Mathurā and became the minister of the king. Once his cousin, the monk Viśvanandi, was going along the road on his begging tour when he was hit by a young cow that had recently delivered a calf, and Viśvanandi fell on the ground. Viśākhanandi saw this from the terrace of the house of his courtesan, and insulted him. Unable to bear the insult Viśvanandi formed a hankering that he should in his next life have a revenge on Viśākhanandi. After his death Viśvanandi was born in the Mahāśukra heaven where his uncle Viśākhabhūti was born. Viśākhanandi also was later overcome with disgust for his conduct, practised penance, and after death was born in the same heaven.

Now there lived in Alakā a king named Mayūragrīva and queen Nilāñjanaprabhā. Viśākhanandi in his next life became their son and was named Aśvagrīva, a Prati-Vāsudeva. He defeated his enemies and became the lord of the three continents of the earth, i. e., an Ardha-cakravartin.

There lived in Podanapura a king named Prajāpati. He had two queens, Jayāvati and Mṛgāvati. Jayāvati gave birth to a son called Vijaya, who was Viśākhabhūti in his previous birth. This Vijaya is the first Baladeva of the Jain Mythology and had a white complexion. Mṛgāvati gave birth to a son called Triprṣṭha, who in his previous birth was Viśvanandi. This Triprṣṭha is the first Vāsudeva and had a dark complexion. These two step-brothers were greatly attached to each other.

LI. Once a report was brought to king Prajāpati that a terrific lion had been working a havoc on the subjects. His subjects requested him to remove this scourge. Thereupon the king himself prepared to go to kill the lion when his son Vijaya requested his father to allow him to go on that mission. The king allowed Vijaya to go, his younger brother Tripr̥ṣṭha followed him. Both of them approached the cave of the lion, which, on being roused by the din and cry of warriors, came out, and was about to attack Vijaya, when Tripr̥ṣṭha with his arms caught both the claws of the lion and struck it on the face. The lion fell dead.

One day the door-keeper approached the king and told him that there was at the door a Vidyādhara who wanted to see him. He was admitted to the king's presence. The Vidyādhara told king Prajāpati that he was Indra by name and had come there as a messenger of king Jvalanajaṭi. He came there to invite the king and his two sons to the region of the Vidyādhara in order that Tripr̥ṣṭha should lift up the huge slab of stone known as the Koṭiśilā, to kill Aśvagrīva and marry his daughter Svayamprabhā, and thereafter to rule over the three continents of the earth and to make Jvalanajaṭi the lord of both the sides of the Vaitāḍhya mountain. King Prajāpati accepted the invitation and went to the region of the Vidyādhara. King Jvalanajaṭi received them well and introduced them to his son Arkakīrti. In the course of their talk it was arranged that Tripr̥ṣṭha should first lift up the Koṭiśilā which would convince them that he was capable of killing Aśvagrīva. Thereupon they all went to the forest where the Koṭiśilā stood and asked Tripr̥ṣṭha to lift it up. He did so with ease. Jvalanajaṭi and others praised Tripr̥ṣṭha for his great strength. Thereafter they all returned to Podanapura and celebrated the marriage of Tripr̥ṣṭha with Svayamprabhā. The news of this marriage reached the ears of Aśvagrīva who resented the action of Jvalanajaṭi in marrying his daughter outside his clan, i. e., in giving her to Tripr̥ṣṭha, a human being, instead of to Aśvagrīva, a Vidyādhara. Aśvagrīva thereupon marched against Jvalanajaṭi and king Prajāpati even against the advice of his ministers.

LII. Spies brought the news of the arrival of the army Aśvagrīva to the gates of Podanapura. Thereupon king Prajāpati consulted with Jvalanajaṭi as to how they should meet the situation when Vijaya told them that he was sure in his mind that Tripr̥ṣṭha would kill Aśvagrīva. King Jvalanajaṭi then taught Tripr̥ṣṭha several magic lores, after which order was given to the army to march against Aśvagrīva. Before however the fight began Aśvagrīva sent a messenger to Tripr̥ṣṭha to see if Tripr̥ṣṭha was prepared to make peace with Aśvagrīva by handing over Svayamprabhā. Tripr̥ṣṭha rejected the proposal. The fight began. The goddesses gave to Tripr̥ṣṭha a bow called Śarṅga, a conch called pāñcajanya, Kaustubha gem, a gadā called kaumudī, and to Vijaya a plough, a pestle and a gadā. The armies met and there was a terrible fight between them. In the course of the fight, Aśvagrīva threw his discus at Tripr̥ṣṭha, but instead of doing any harm to him, it remained on his arm. He then used this very discus against Aśvagrīva who was killed. Immediately on his death Tripr̥ṣṭha became the Ardha-cakra-vartin. Jvalanajaṭi thereafter returned to his capital Rathanūpura, and enjoying the sovereignty of both the sides of the Vaitāḍhya mountain for a considerable time, became a monk. King Prajāpati also did the same.

Now Tripr̥ṣṭha remained ever unsatiated with pleasures, died and went to the seventh hell. After his death Vijaya handed over his kingdom to Śrīvijaya, practised penance and attained emancipation. Svayamprabhā also did the same.

LIII. For the life of Vāsūpūjya see the Tables.

LIV. This *saṃdhi* gives the narrative of the second set of Baladevas and Vāsudevas. There lived in Vindhyapura a king named Vindhyaśakti. King Suṣeṇa of Kanakapura was his contemporary. Both of them were great friends. Now king Suṣeṇa had at his court a beautiful courtesan named Guṇamañjarī. King Vindhyaśakti hearing about the beauty of Guṇamañjarī sent a messenger to Suṣeṇa and asked him to send the courtesan to him. This request was, of course, rejected and the two friends met in a battle in which Suṣeṇa was defeated. On hearing the defeat of Suṣeṇa, his friend, king Vāyuratha of Mahāpura, got disgusted with the worldly life and became a monk. King Suṣeṇa also became a monk, but formed a hankering to avenge his defeat in one of his next births. Both Vāyuratha and Suṣeṇa were born in the Prāṇata heaven. King Vindhyaśakti also was born in one of the heavens.

In the next birth Vindhyaśakti was born as son to king Śrīdhara and queen Śrīmatī of Bhogavardhana, and was named Tāraka, who, in course of time became an Ardha-cakravartin. Vāyuratha and Suṣeṇa were born sons to king Brahmā and queens Subhadrā and Uvavādevī or Uṣādevī and were named Acala and Dviprṣṭha who were the Baladeva and Vāsudeva. They had an excellent elephant. Now Tāraka had a desire to have that elephant and sent a messenger to Acala to hand it over. As Acala refused to do so, there was a fight between Tāraka and Dviprṣṭha in which Tāraka was killed. Dviprṣṭha then became the Ardha-cakravartin. After death both Tāraka and Dviprṣṭha went to hell, and Acala, seeing the death of his brother, became a monk and secured emancipation from *saṃsāra*.

LV. For the life of Vimala the thirteenth Tirthaṅkata see the Tables.

LVI. There was a king called Nandimitra in Śrīpura in the western Videha. One day he reflected on the impermanence of the world, renounced the pleasures, became a monk, and after death was born in the Anuttaravimāna heaven.

There lived in Śrāvastī a king named Suketu. There lived in the same town another king named Bali. They once indulged in the play of dice in which Suketu lost everything. Out of disgust he became a monk, but while practising penance he formed a hankering that he should take revenge on Bali in the next birth. Suketu, after death, was born in the Lāntava heaven. Bali also was born as a god in heaven.

In their subsequent births Bali was born as a son of king Samarakesarī and queen Sundarī of Ratnapura, and was called Madhu. He was a Prati-Vāsudeva and an Ardha-cakravartin. Nandimitra and Suketu were born as sons to king Rudra of Dvāravatī by his wives Subhadrā and Pṛthivī, and were named Dharma (Baladeva) and Svayambhū (Vāsudeva). One day Svayambhū, while seated on the terrace of his palace, saw an army encamped outside the city and asked his minister whose army it was. His minister told him that a feudatory named Śaśisomya sent his tribute to king Madhu and that it consisted of elephants, horses etc, which was being taken to him. Svayambhū would not allow that, defeated Śaśisomya and carried off the tribute. The news reached the ears of Madhu who thereupon marched against Svayambhū. In the fight that followed Svayambhū killed Madhu, and became an Ardha-cakravartin. After enjoying the kingdom Svayambhū died and went to hell. Dharma became a monk and attained emancipation.

LVII. . This *saṃdhi* narrates an episode of Saṃjayanta, Meru and Mandara, out of which the two latter were the Gaṇadharas of Vimala, the thirteenth Tirthaṅkara.

There are two more persons connected with the story, viz., Śrībhūti the minister and Bhadramitra the merchant. Of these the name of Śrībhūti is confounded with Satyaghoṣa. The poet describes the seven previous births of the first three and only a few of the last two. A glance at the lists given in Notes on this Saṃdhi will facilitate the understanding of the reader.

In the city of Vitaśoka there lived a king named Vaijayanta. His queen was called Sarvaśrī. She gave birth to two sons, Saṃjayanta and Jayanta, One day on hearing the discourse of a Jain monk they all renounced the world. In course of time Vaijayanta secured emancipation. Gods arrived on this occasion to show their reverence to Vaijayanta. Among them was the lord of snakes who was very beautiful. Jayanta formed a hankering to have a beautiful body like that of the lord of snakes in the next birth. He was then born in the nether world as lord of snakes.

One day, when Saṃjayanta was practising the pratimās, a Vidyādhara, Vidyuddanṣṭra by name, saw him, picked him up and threw him into the waters of the confluence of five rivers, and told the people that the monk was a demon. The people thereupon beat him, but the monk remained undisturbed, and bearing the hardships, died and attained emancipation. On the occasion of his nirvāṇa gods arrived including Jayanta who was then the lord of snakes. Finding the plight of his brother Saṃjayanta, the lord of snakes began to attack people. They however said that they beat the monk on the report of Vidyuddanṣṭra. The lord of snakes then caught Vidyuddanṣṭra, and while the former was about to throw the latter into the sea, god Ādityaprabha intervened and narrated the story of the former lives of them all.

There was a king named Simhasena in the city of Siṃhapura. His queen was named Rāmadattā. He had two ministers, Śrībhūti and Satyaghoṣa. There was a merchant named Bhadramitra, the son of Sudatta and Sumitrā of Padmaṣaṇḍapura. Now this Bhadramitra, while wandering, obtained precious gems in Ratnadvīpa, which, during his halt at Siṃhapura, he deposited with Satyaghoṣa (There is later a confusion between Śrībhūti and Satyaghoṣa). After some time Bhadramitra asked for the return of his gems, but Satyaghoṣa denied all knowledge of gems even though he was questioned by the king. Bhadramitra then went mad and ascending a tree in the neighbourhood of the king's palace, used to decry the minister. Queen Rāmadattā got angry with the minister, but arranged to play a trick on him, She arranged a game of dice with Satyaghoṣa, in which he lost his signet ring and the sacred thread to the queen, who then sent the ring to the treasurer of the minister through her maid, and obtained from him the gems of Bhadramitra. In order to ascertain that Bhadramitra has told the truth, the king got a few gems of his mixed with those of Bhadramitra, to whom they were shown. Bhadramitra picked only his gems saying that others were not his. The king was then pleased with him, punished the minister, treating him as a thief would be treated. The minister bore ill-will towards the king for this. In his next birth he became an agandhana snake, stood at the treasury of the king and bit him.

In his next birth Bhadramitra became the son of Rāmadattā, and was named Siṃhacandra. He had a younger brother called Pūrṇacandra.

It is in this strain that the previous lives of all the three persons mentioned at the beginning of the saṃdhi are narrated.

LVIII. For the life of Ananta the fourteenth Tīrthaṅkara, see Tables.

During his regime were born the fourth set of Baladeva, Vāsudeva, and Prati-Vāsudeva. Their names were Suprabha, Puruṣottama and Madhusūdana.

There was a king named Mahābala in Nandapura. He became a monk and after death was born in Sahasrāra heaven. There lived at this time at Podanapura a king named Vasuṣeṇa. His queen Nandā was very beautiful. Once his friend Caṇḍaśāsana came to stay with him, saw Nandā, fell in love with her, and asked Vasuṣeṇa to give her to him. He refused to do so, but Caṇḍaśāsana carried her by force. Vasuṣeṇa thereafter became a monk, and after death was born in the same heaven where Mahābala was born.

Caṇḍaśāsana in his next birth became the son of king Vilāsa and queen Guṇavati of Vārāṇasī. Mahābala and Vasuṣeṇa became sons of king Somaprabha by his queens Jayavati and Sitā, and were named Suprabha and Puruṣottama. Madhusūdana made a demand of tribute from them, and as they refused to pay it, there was a fight between Madhusūdana and Puruṣottama in which Madhusūdana was killed. After him Puruṣottama became the Ardha-cakravartin.

LIX. For the life of Dharma the fifteenth Tirthaṅkara see Tables.

During his regime there appeared the fifth set of Baladeva and Vāsudeva. There was a king called Naravṛṣabha in the city of Vitaśoka. He practised penance and was born in the Sahasrāra heaven. At this time there was at Rājagṛha a king named Sumitra. He was defeated in battle by Rājasimha. Sumitra thereupon practised penance, formed a hankering to defeat Rājasimha in the next birth, and after death was born in the Māhendra heaven. Now Rājasimha in his next birth became king Madhukriḍa of Haṣṭi-nāpura. King Naravṛṣabha and king Sumitra were born as sons to king Siṃhasena and queens Vijayā and Ambikā, were called Sudarśana and Puruṣasimha and were the fifth of the Baladevas and Vāsudevas. King Madhukriḍa sent his messengers to Sudarśana and demanded tribute from him which he refused. They fought. Puruṣasimha killed him and became an Ardha-cakravartin.

In the same regime there lived a king named Sumitra at Sāketa. He had a queen called Bhadrā. She gave birth to a son, Maghavan by name, who, having conquered the six continents of the earth, became the third sovereign of the Jain Mythology. After having enjoyed the kingdom for a long time, he renounced the world and attained emancipation.

After some time in the same regime there came the fourth cakravartin, Sanat-kumāra by name. He was the son of king Anantavīrya and queen Mahādevī of Vinitapura. He was said to be extremely beautiful. Two gods sent by Indra came to see his beauty and said to the king that his beauty would have been everlasting if there had been no oldage and death. On hearing the mention of oldage and death Sanat-kumāra renounced the world and attained emancipation.

LX. A Brahmin named Amoghajihva once predicted that within a week lightning would fall on the head of king Śrīvijaya, the son of Triprṣṭha Vāsudeva, and that he would receive a shower of gems on his head. When the Brahmin was asked how he could predict such a thing, he said he studied the science under a famous teacher. One day, when he asked his wife for his meals, she served him only cowries in a plate, as, owing to extreme poverty, she had nothing else in her house. His wife then rebuked him that he did not work and earn money. Just at this time a spark of fire fell on his

plate and his wife disbursed a pot of water over his head. It is from this incident that he predicted the fall of lightning on the head of king Śrīvijaya and a shower of gems over his head. The ministers thereupon advised the king to abdicate the throne for a while in order to escape the calamity and to place some one on the throne for the time being. The sam̄dhi then narrates the enmity and fight between Śrīvijaya and Amitatejas, a Vidyādhara. A monk intervenes, preaches them the doctrines of Jainism as a result of which they both become monks.

LXI. In their next birth Śrīvijaya and Amitatejas were born in heaven as gods Mañicūla and Ravicūla. In their next birth they were born as sons of Stimitasāgara of the city of Prabhāvati by his queens Vasundharā and Anumati, and were called Anantavīrya and Aparājita. They had two beautiful dancing girls in their court which were demanded by a Vidyādhara king named Damitāri.

LX-LXIII. These four sam̄dhis narrate the life of Śānti together with his previous births as also of Cakrāyudha, as detailed in LXIII. 11 and explained in the Notes.

LXIV. For the life of Kunthu see the Tables.

LXV. For the life of Ara see the Tables.

During the regime of Ara, there appeared the eighth cakravartin, Subhauma * by name. There was a king named Sahasrabāhu. His queen Vicitramati gave birth to a son, Kṛtavīra by name. Vicitramati's sister Śrīmatī was married to king Śatabindu. A son was born to them and was named Jamadagni. Owing to the death of his mother in early childhood, Jamadagni became a tāpasa ascetic. Śatabindu and his minister Hariśarman also became ascetics under Jainism and Hinduism respectively. After death Śatabindu was born in the Saudharma heaven and Hariśarman was born in the Jyotiṣka heaven. They both wanted to test the piety of Jamadagni, assumed the form of a couple of sparrows, built their nest in the beard of Jamadagni, and talked something insulting to him. He then got angry with the birds and threatened to kill them. One of the birds thereupon said to the sage that he did not know that he could not obtain heaven as he did not beget a son. Jamadagni was then set to thinking, went to his maternal uncle, and sought a girl for marriage. Owing to his oldage however, no girl was prepared to marry him. He thereupon cursed all the girls of the town to be dwarfish or hump-backed, which town thereafter became known as Kānyakubja (Modern Kanauj). He however found his uncle's daughter, all dusty, called her Reṇukā (Dusty), attracted her by showing her a plantain, made her sit on his lap, and married her, as, he said, she liked him. In course of time she gave birth to two sons, Indrarāma and Śvetarāma. Her brother gave to her a gift of a cow that would yield everything desired, as also a charm (mantra) of axe (Paraśu). Reṇukā and her husband Jamadagni thereafter lived happily.

One day king Sahasrabāhu with his son Kṛtavīra came to her hermitage. They were both treated to a royal feast by Reṇukā. The king and his son were struck with the excellence of the food and asked Reṇukā how she, the wife of an ascetic, could treat them so sumptuously. She said that her brother had given her a cow that yielded desired things. Kṛtavīra wanted that cow, and, inspite of Reṇukā's protests, carried her off.

* The story of Jamadagni, Paraśurāma and Subhauma here is a mixture of two stories on the side of the Hindu mythology, viz., the story of the carrying away of Vasiṣṭha's cow, Nandinī, by Gādhī, and of Kārtavīrya Sahasrārjuna and Paraśurāma...

In the fight that ensued between Kṛtavīra and Jamadagni, Sahasrabāhu killed Jamadagni. His sons Indrarāma and Śvetarāma were away, but when they returned and learnt from their mother that their father was killed by Sahasrabāhu and his son Kṛtavīra, and that their cow was carried off by them, they got angry. Reṇukā taught them the Paraśu-mantra. They then went to Sāketa, killed Sahasrabāhu and Kṛtavīra, and all other members of the Kṣatriya race twentyone times. After the extermination of all living Kṣatriyas they gave the earth to Brahmins who thereafter ruled over it. Vicitramati, the queen of Sahasrabāhu, was pregnant at this time, and bore in her womb the soul of a former king Bhūpala by name, who was destined to be a cakravartin. She ran for life into the forest, and was offered shelter by a sage named Śāṇḍilya. There in his hermitage she gave birth to a son who was named Subhauma.

LXVI. Subhauma passed his childhood in the hermitage of the sage Śāṇḍilya in the forest, and grew to be a strong and powerful youth. One day he asked his mother how it was that he did not see his father and pressed her to tell him his whereabouts. Thereupon Vicitramati narrated to him how his father Sahasrabāhu was killed by Paraśurāma.

In the meanwhile an astrologer came to the house of Paraśurāma who asked the astrologer how he would meet his death. The astrologer told him that he at whose glance the plate filled with the teeth of his enemies (Sahasrabāhu and Kṛtavīra) would turn into a plate of rice, would be his killer. Thereupon Paraśurāma established a dānaśālā in the city where Brahmins were served meals free and were shown the plate of teeth. Subhauma was asked to visit the dānaśālā to see if he was the person at whose hands Paraśurāma was to meet his death. Subhauma thereupon went to the dānaśālā, saw the plate when it turned into a plate of cooked rice. Immediately the keepers attacked young Subhauma who was unarmed. But the plate itself turned into a discus with which he killed them and also Paraśurāma. He thereafter became a cakravartin.

King Subhauma was once served a ciñcā fruit by his cook. He got angry with the cook and killed him for this offence. The cook was born as a Jyotiṣka god and assuming the form of a merchant offered the king some nice fruits. The king liked them very much and pressed the merchant to have more of them. The merchant said that gods gave him the fruits which were exhausted. As the king persisted in his demand, the merchant told him that the king would obtain them if he would accompany him to an island. The king agreed, went with the merchant who placed him on a rock and killed him. Subhauma after death went to hell.

In the regime of Ara, there appeared the sixth set of Baladeva etc, whose names were Nandiṣeṇa, Puṇḍarīka and Niśumbha. For details see Tables.

LXVII. For the life of Malli, see Tables.

During his regime there appeared the ninth cakravartin, Padma by name. For details of his life see Tables.

It is in the regime of Malli that there appeared the seventh set of Baladeva etc, whose names were Nandimitra, Datta and Bali. For details see Tables.

LXVIII. For the life of Suvrata see Tables.

LXIX-LXXIX. These eleven *samdhis* narrate the story of the eighth set *Baladevas* etc, and are popularly known as the *Rāmāyaṇa*, *Paumacariya*, or *Padmapurāṇa*. The story of the *Rāmāyaṇa* is so well-known that it need not be reproduced here fully. But there are some factors in the Jain version which have to be brought to the notice of the general reader. *Rāma* and *Lakṣmaṇa* in their previous births were sons respectively of king *Prajāpati* and his minister, and were named *Candracūla* and *Vijaya*. In youth they were intimate friends and carried off *Kuberadattā*, the wife of a merchant named *Śrīdatta*. The king got a report about this affair, got angry with them, and ordered his minister to take them to the forest and kill them. The minister took them to the forest, but instead of killing them showed them to a Jain monk, *Mahābala* by name, who told the minister that these youths were destined to be *Baladeva* and *Vāsudeva* in their third birth. They then became monks and practised penance. *Candracūla* once saw *Suprabha* *Baladeva* and *Puruṣottama* *Vāsudeva* on their way, and formed a hankering that he should have a similar fortune in his next birth. Both the young monks after death were born as gods named *Maṇicūla* and *Suvarṇacūla*. In their next birth they were born as sons to king *Daśaratha* by his queens *Subalā* and *Kaikeyī*, *Suvarṇacūla* (*Vijaya* in his former birth) becoming *Subalā*'s son named *Rāma*, and *Maṇicūla* (*Candracūla* in his former birth) becoming *Kaikeyī*'s son named *Lakṣmaṇa*.

According to the Jain version *Sītā* is the daughter of *Rāvaṇa*, a *Vidyādhara*, and *Mandodarī*. As it was predicted that *Sītā* would bring calamity on her father, she was put into a box and left buried in a field. She was discovered by a farmer while ploughing his fields, was brought to king *Janaka*, who adopted her as his daughter. He gave her in marriage to *Rāma*.

Once *Nārada* came to *Rāvaṇa* and told him that *Rāma* married the beautiful *Sītā* who was really fit for him. This created a desire in the mind of *Rāvaṇa* to have *Sītā*. *Rāvaṇa* then sent *Candramukhī* (better known as *Śūrpaṇakhā*) to *Sītā* to ascertain her mind, but she failed in her mission.

Rāvaṇa thereupon went in his celestial car to the forest where *Rāma* and *Sītā* were then enjoying pleasures, asked *Mārica* to assume the form of a golden deer and to tempt the mind of *Sītā* to have it. While *Rāma* was away in search of the golden deer, *Rāvaṇa* carried off *Sītā* to *Laṅkā*.

Rāma made a careful search for *Sītā* but did not get any trace of hers. *Daśaratha* at this juncture dreamt a dream which indicated that *Sītā* was carried off by *Rāvaṇa*. While *Rāma* was thinking how he should proceed to search *Sītā*, *Sugrīva* and *Hanūmat* came to *Rāma* to seek his aid for *Sugrīva* to get his place in the kingdom of his brother *Vāli*. In the course of their conversation *Hanūmat* promised to *Rāma* that he would obtain the news of *Sītā*. *Hanūmat* then went to *Laṅkā*. In the form of a bee he entered the palace of *Rāvaṇa*, searched it and at last found *Sītā* in the garden being coaxed by *Rāvaṇa* to yield to his desires. *Rāvaṇa*, however, did not succeed in his attempt to win her. She did not look at him. *Mandodarī* came there and recognised *Sītā* to be her daughter and comforted her. After her departure *Hanūmat* saw *Sītā*, convinced her that he was the messenger of *Rāma*, and conveyed to her his message. *Hanūmat* then returned to *Rāma* and told him that he saw *Sītā* in the garden of *Rāvaṇa*. Before *Rāma* undertook marching against *Rāvaṇa* he sent *Hanūmat* as a messenger to ascertain if *Rāvaṇa* would return *Sītā* peacefully, but *Rāvaṇa* insulted *Hanūmat*,

In the meanwhile Lakṣmaṇa fought with Vāli, killed him, and gave his kingdom to Sugriva. Rāma and Lakṣmaṇa practised fasts to acquire the magic lores which would enable them to fight successfully with Rāvaṇa. Vibhiṣaṇa, his brother, did not like Rāvaṇa's behaviour, left him, and came over to Rāma. Then there was a fight between Rāma and Rāvaṇa in which Lakṣmaṇa killed Rāvaṇa. After his death Rāma placed Vibhiṣaṇa on the throne of Lankā. Lakṣmaṇa thereafter became the Ardha-cakravartin. After enjoying the kingdom he died and went to hell. Rāma, grieved over the death of his brother's death, renounced the world, became a monk, and attained emancipation.

LXXX. For the life of Nami refer to Tables.

For details of Jayasena the tenth Cakravartin see Tables.

3. The Appendices

The monotony with which the traditional details of the lives of Sixty-three Great Men of Jain Mythology are given and a hint by Vimalasūri in his Paumacariya quoted on page xi above suggested to me the idea of tabulating the information under suitable heads. I have therefore appended to this Volume Five Tables. Appendix I gives the iconographical information about the images of the Tirthaṅkaras according to the school of the Digambaras. I have taken this Appendix from Mr. G. H. Khare's Mūrtivijñāna, a very valuable book in Marathi on Iconography. I have made slight modifications in Mr. Khare's Table so that the information in my Table should agree with the same as supplied in the works of Puṣpadanta and Guṇabhadra. Appendix II gives details about the Tirthaṅkaras such as their previous lives, place of birth, parents etc. Appendix III supplies the number of Gaṇadharas of different Tirthaṅkaras. Appendix IV supplies some information about the Twelve Cakravartins or sovereign rulers of the Jain Mythology. Appendix V gives information about the eight out of nine sets of Baladevas, Vāsudevas and Prati-Vāsudevas. The sources of my information are of course the Ādipurāṇa of Jinasena, the Uttarapurāṇa Guṇabhadra and the Mahāpurāṇa of Puṣpadanta, which works, I hope, represent one of the best, if not the best, of the Digambara tradition. At one or two places I used Śvetāmbara sources as my texts failed to give, or I failed to trace therein the material. I shall be greatly obliged to scholars if they bring to my notice inaccuracies or deficiencies in them which I shall most thankfully consider.

Nowrosjee Wadia College, Poona. }
August 1940. }

P. L. V a i d y a

तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारु

णाम

महापुराणु

वीउ खंडु



XXXVIII

बंभहु बंभालयसामियहु ईसहु ईसरवंदहु ॥
अजियहु जियकामहु कामयहु पणविवि परमजिणिदहु ॥ भुवकं ॥

1

सुहयरुओहं	सुहयरुमेहं ।	
वीरमघोरं	वयविहिघोरं ।	
उवसमणिलयं	पसमियणिलयं ।	5
कंदरवालं	कंदरणीलं ।	
मंदरसिचं	मंदरसिचं ।	
रामारमणे	रामारमणे ।	
विणयज्जणाणं	विणयज्जणाणं ।	
जेण कयं तं	जे ण कयंतं ।	10
आल्लोयंते	आल्लोयंते ।	
भमइ जसोहो	भवइ जसोहो ।	

1 १ A भवइ. २ A भमइ.

1 1 a बंभहु परमात्मनः; बंभालय^० मोक्षः. 2 a कामयहु वाञ्छितप्रदस्य. 3 a सुहयरुओहं सुष्ठु हतो रुजां रोगाणामोघो येन तम्; b सुहयरुमेहं शुभतरुमेघम्. 4 a अघोरं सौम्यम्; b वयविहिघोरं व्रतविधिः घोरो दुर्धरो यस्य. 5 a उवसमणिलयं उपशमस्थानम्; b पसमियणिलयं मोक्षप्रापकत्वेन प्रशमितो नृणां मनुष्याणां लयो विनाशो येन. 6 a कंदरवालं कन्दो मेघः तस्येव रवः शब्दो विद्यते यस्य; b कंदरणीलं कन्दरे नीडं गृहं यस्य. 7 a मंदरसिचं मेरौ स्थापितम्. 8 a रामारमणे स्त्रीक्रीडायाम्; b रामारमणे रा द्रव्यं मारः कामः तौ रामारौ तयोर्मथनं यत्र स्त्रीक्रीडने. 9 a विणयज्जणाणं विनयाज्जातं विनयजं तच्च तत् ज्ञानं च तत्प्रसिद्धं श्रुतज्ञानादिरूपं तदपि कृतं विनतजनानाम्. 10 a जेण कयं तं येन जिननायेन कृतं तं वन्दे; b जेण कयंतं येनेत्यादि, येन पुरुषा मुक्तिप्रापकोपायानुष्ठानेमास्थितत्वाच्च कृतान्तं यममालोकन्ते. 11 b-12 a आल्लोयंते भमइ जसोहो तेषां पुरुषाणामालोकन्ते यशओषश्च भ्रमति; किंविदिष्टो यशसामोषः. 12 b भवइ जसोहो भानां नक्षत्राणां पतिश्चन्द्रो भपतिस्तस्माज्जाता भपतिजाः किरणाः तद्दृच्छोभा यस्य यशओषस्य.

णाहो ताणं	जो भत्ताणं ।	
जो भयवंतो	जो भयवंतो ।	
जमकरणवहं	जमकरणवहं ।	15
अण्णाणमहं	सण्णाणवहं ।	
णिहारहियं	णिहारहियं ।	
अवसावसणं	आसावसणं ।	
आसासमणं	आसासमणं ।	
वररमणीसं	वररमणीसं ।	20
णीसंसाळं	णीसंसाळं ।	
परसमयंतं	परसमयंतं ।	
अहिवंदिययं	सुहमिंदिययं ।	
जेणं ण कहियं	तेलोक्कहियं ।	
णिरुवमदेहं	तं वंदे हं ।	25

घत्ता—पुणु पणविधि पंच वि परमगुरु णियजसु तिजगि पयासंवि ॥
घणदुरियपडलणिण्णासयरु अजियहु चरिउ तमासंवि ॥ १ ॥

2

मणि जाएण किं पि अमणोज्जे
णिन्विण्णोउ थिउ जाम महाकइ
भणइ भडारी सुहयरुओहं

कइवयदियहइ केण वि कज्जे ।
ता सिविणंतरी पत्त सरासइ ।
पणमेह अरुहं सुहयंरुमेहं ।

३ A णिदारहियं. ४ P जेण णं. ५ AP पयासमि. ६ AP समासमि.

2 १ A कइवयदियहं; P कइवयदियहं. २ K णिन्विणोउ थिउ but gloss निर्विण्णः;
P णिन्विणु उट्टिउ. ३ A पणमहु; P पणवह. ४ A सुहयरुमेहं but gloss in K शुभतरुमेघम.

13 a णा हो ताणं तेषां पुरुषाणां भक्तानां नाथः. 14 a जो भयवंतो यो ज्ञानवान्; b जो भयवंतो यः सप्तभयविनाशकः. 15 a जमकरणवहं जमकरणस्य रोगादेर्वधकं विनाशकम्; b जमकरणवहं यमानां व्रतानां करणमनुष्ठानं तस्य वहं पंथानं धारकं वा. 16 a अण्णाणमहं अज्ञानमथकम्; b सण्णाणमहं शोभनज्ञानतेजसम्. 17 a णिहारहियं निद्रारहितम्; b णिहारहियं निर्दारमकलत्रं हितं च; अथवा निर्दारा मुनयस्तेभ्यो हितम्;. 18 a अवसावसणं अपगतशापशब्दम्; b आसावसणं दिग्वाससम्. 19 a आसासमणं इहपरलोकाशोपशामकम्; b आसासमणं आसमन्तात्सा त्रैलोक्य-लक्ष्मीस्तयोपलक्षितः श्रमणः. 20 a वररमणीसं वररमणी मुक्तिवधूतस्या ईशः; b वररमणीसं वरं राति ददाति इति वररा बररा मनीषा बुद्धिःस्य. 21 a णीसंसाळं मनुष्यप्रशासकवन्तम्; b णीसंसाळं निर्गतसंसारम्. 22 a परसमयंतं परसमयस्यान्तो विनाशो यस्मात्; b परसमयंतं उत्कृष्टोपशमेन काष्ठं कमनीयं उत्कृष्टोपशमतन्त्रं वा. 23 a अहिवंदिययं धरणेन्द्रस्तुतम्; b सुहमिंदिययं सुखं इन्द्रियजं येन कथितम्. 24 b तेलोक्कहियं त्रैलोक्यहितम्. 26 पयासवि प्रकाशयामि. 27 समासवि संक्षेपेण कथयामि.

इय गिसुणेवि विउद्धं कइवर
दिसउ गिहालइ किं पि ण पेच्छइ
ताम पराइपण णयवतें
दसँदिसिपसरियजसतरुकंदें
छणससिमंडलसंणिहवयणें

सयलकलायर णं छणससहर ।
जा विमिहयमँइ णियघरि अच्छइ । 5
मउलियकरयलेण पणवतें ।
वरमहमत्तवंसणहयंदें ।
णवकुवलयदलदीहरणयणें ।

घत्ता—खलसंकुलि कालि कुसीलमइ विणउ करोपिणु संवरिय ॥
वञ्चंति वि सुंणसुसुणवहि जेण सरासइ उद्धरिय ॥ २ ॥ 10

3

अइयणदेवियव्वतणुजापं
जिणवरसमयणिहेलणखंभें
मँइ उवयारभाँवु णिव्वहणें
तेओहामियपवरकरहें
बोलाविउ कइ कव्वपिसलउ
किं दीसहि विच्छायउ दुम्मणु
किं किउ काइं वि मँइ अवराहउ
भणु भणु भणियउं सयलु पडिच्छंवि

जयदुंदुहिसरगहिरिणाणपं ।
दुत्थियमित्तें ववगयडिंभें ।
विउसविहुरसयभयंणिम्महणें ।
तेण विगव्वें भव्वें भरहें ।
किं तुहुं सञ्चउ वप्प गहिल्लउ । 5
गंथकरणि किं ण करहि णियमणु ।
अवरु को वि किं विरसुम्माहउ ।
हउं कयंपंजलियरु ओहच्छंवि ।

घत्ता—अथिरेण असारें जीविणण किं अप्पउ संमोहहि ॥

तुहं सिद्धहि वाणीधेणुयहि णवरसखीरु ण दोहहि ॥ ३ ॥ 10

4

तं गिसुणेपिणु दरविहसंतें
कसणसरीरें सुद्धुकुरुवें
कासवगोत्तें केसवपुत्तें
पुप्फयंतकइणा पडिउत्तउ
कालिमलमालिणु कालु विवरेरउ

मित्तमुहारविंदु जोयंतें ।
मुद्धापविगम्भसंभूवें ।
कँइकुलतिलपं सरैसइणिलपं ।
भो भो भरह गिसुणि णिक्खुत्तउ ।
णिग्घणु णिग्गुणु दुण्णयगारउ । 5

५ A विबुद्धउ. ६ AP विभियमइ. ७ P दसदिस°. ८ AP °णहचंदें. ९ P संवरिइ. १० A विसणु सुसुणु°. ११ P उद्धरिइ.

३ १ A अइयणदेविअंव्व°; P इयणुदेवियव्व°. २ A ववगयडिंभें. ३ AP परउवयार°, ४A °भार°; P °हार°. ५ A °रय°. ६ AP पडिच्छंमि. ७ A कयंपंजलि अरुहं अच्छंमि. ८ PT ओहच्छंमि. ९ AP तुहु.

४ १ A सुद्धुकुरुवें; P सुद्धुकुरुवें. २ P कयकुल°. ३ A omits सरसइणिलपं and reads उत्तमसत्तें in its place; P सरसय°. ४ P adds after this: उत्तमसत्तें जिणपयभत्तें.

2 4 a विउद्धउ जागरितः. 10 °सुसुणु व हि आकाशमारों.

3 3 b विउसविहुरसय विद्वज्जनकष्टशतानि°. 8 b ओ ह छ वि एष तिष्ठामि.

4 4 b णिक्खुत्तउ निश्चितम्.

जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु
राउ राउ णं संझहि केरउ
उव्वेउ जि वित्थरइ गिरारिउ

घत्ता—दोसेण होउ तं णँउ भणमि चोञ्जु अवरु मणि थक्कउ ॥

जगु एउ चडाविउं चाउं जिह तिह गुणेण सह वंकरुं ॥ ४ ॥ 10

5

जैइ वि तो वि जिणगुणगणु वण्णंवि
चायभोयभोउग्गमसत्तिइ
राउ साल्वाहणु वि विसेमिउ
कालिदासु जं खंधं णीयउ
तुहुं कइकामधेणु कइवच्छलु
तुहुं कइसुरवरकीलागिरिवरु
मंडु मयालसु मयणुम्मत्तउ
केण वि कव्वपिसलउ मंणणउ
णिच्चमेव सव्भाउं पउंजिउ

घत्ता—धणु तणु समु मज्झु ण तं गहणु णेहु णिकारिसु इच्छंविं ॥ 10

देवीसुय सुहणिहि तेण हउं णिलइ तुहारइ अच्छंविं ॥ ५ ॥

6

महुसमयागमि जायहि ललियहि
काणणि चंचरीउ रणुसुंइइ
मज्झु कइत्तणु जिणपयभत्तिहि
विमलगुणाहरणंकियंदेहउ
कमलगंधु धेप्पंइ सारंगं
गमणलील जा कय सारंगं
सज्जणदूसियदूसणवसणं

बोलइ कोइल अंबयकलियहि ।
कीरु किं ण हरिसेण विसट्टइ ।
पसरइ णउ णियजीवियवित्तिहि ।
एउं भरह णिसुणइ पइं जेहउ ।
णउ सालूरें णीसारंगं ।
सा किं णासिज्जइ सारंगं ।
सुक्कइकित्ति किं हम्मइ पिसुणं ।

१ A एएतउ. ६ A णव.

5 १ P जय वि. २ A वणम्मि; P वण्णमि. ३ AP अवगण्णमि. ४ AP सालिवाहणु. ५ APT मण्णिउ. ६ A मंडु; P थहु; T वंड जडः. ७ AP सव्भाव. ८ A तिणु. ९ AP इच्छमि. १० AP अच्छमि.

6 १ P एह. २ AP घिप्पइ. ३ AP वड्डियसज्जणदूसणं. ४ P सुकयं.

8 a गिरारिउ अतिशयेन.

5 7 b तिट्ठइ तृणया. 8 b मण्णउ पूजितः; b अवगण्णिउ अवज्ञातः.

6 3 a जिणपयभत्तिहि जिनपादभक्त्यर्थम्. 5 a सारंगं भ्रमरेण; b सालूरें मण्डूकेन गीसारंगं निःसाराङ्गेण निकृष्टशरीरेण.

कहमि कब्बु वम्महसंधारण

आजियपुराणु भवण्णवतारणु ।

घत्ता—जिणगुणरयणावलिवेयडिउ सहसुवण्णसमुज्जलु ॥

आहासइ गणहरु सेणियहु करहु कणिण कहकौडलु ॥ ६ ॥ 10

7

सरपंकयरयरत्तविदेहइ

जंबूदीवहु पुव्वविदेहइ ।

सीयहि दाहिणकूलि रवणणउ

वच्छउ गाम देसु वित्थिण्णउ ।

सहलारामहिं गामहिं घोसहिं

दहियविरोलणमथणिघोसहिं ।

पविउलपक्ककलवकेयारहिं

कणिसु चुणंतहिं जंपिरकीरहिं ।

घणकणगुरुभरणवियहिं धण्णहिं

हंसहिं णवंबंभहरणिसण्णहिं । 5

चंपयदेवदारुसाहारहिं

कुसुमालीणभमरसंकारहिं ।

णच्चिरमुक्कमोरकेकारहिं

पवलवलालवसहदेकारहिं ।

महिसंसेसजुज्जुच्छवमिलियाहिं

जो^१ सोहइ णंदंतहिं हलियाहिं ।

घत्ता—तहिं अत्थि सुसीमा गाम पुरि सररुहल्लणमहोसर ॥

णंदणवणंसंठियदेवसिरंमउडरयणकर सियघरं ॥ ७ ॥ 10

8

परिहाजलपरिघोलिररसणहिं

हिमपंडुरपाथारणिवसणहिं ।

विविहदुवारंतरवरवयणहिं

गेहगवक्खुग्घाडियणयणहिं ।

धूवधूमधम्मेल्लयकसणहिं

तोरणमोत्तियमालादसणहिं ।

लंबियचलच्चिंघावलिवत्थहिं

ठाणमाणलक्खणहिं पसत्थहिं । 5

मंदिरकंचणकलसयथणियहिं

किं वण्णिज्जइ सीमंतिणियहिं ।

जं वण्णहुं भेसइ वि ण सक्कइ

सुरवइ फणिवइ अवरु वि सक्कइ ।

अत्थि विमलवाहणु तहिं राणउ

जसुं विहवेण ण सक्कु समाणउ ।

५ AP सुवण्णु, ६ AP कहकुंडलु,

7 १ A उत्तर°; K उत्तर but corrects it to दाहिण°. २ A° पिक्क°. ३ AP° कलम°. ४ AP अण्णहिं; K धण्णहिं and gloss धान्यैः. ५ A° देवदारु° ६ AP कुसुमालीण°. ७ AP णच्चिरमोरमुक्क°. ८ P° केक्कारहिं. ९ AP महिसहिं मेसहिं जुज्जिवि मिलियाहिं. १० P omits जो. ११ P adds णिरु after णंदंतहिं. १२ P महासरि. १३ P° वण्णमंडिय°. १४ AP° देवसिरि मउड°. १५ P सियघरि.

8 १ P धूप°. २ AP° धम्मेल्लहिं कसणहिं. ३ P रायमाण°. ४ A जसु विहवें सक्कु वि ण समाणउ.

9 वे य ड्ठि उ जडितम्.

7 1 a° वि देहइ °पक्षिशरीरे. 3 a बो स हिं गोकुल्लै; b° वि रो ल ण° मन्थनकर्म. 5 b वं भ हर° °कमल°. 7 b बं लाल° बलवन्तः.

8 6 a भे स इ बृहस्पतिः; b सक्कइ सत्कविः.

जसु सोहगं वम्महु भज्जइ
जसु वइवसुवसु दंडहु संकर
पडिगयभइथड भड भंजंतहु
जाणियसारासारविवेयउ

तेण अणंगत्तणु पडिषज्जइ ।
तेयहु तरणि तवंतु चवक्कइ ।
तासु णरिंदलच्छि भुंजंतहु । 10
एक्कहिं दिणि जायउ णिव्वेयउ ।

घत्ता—पुरु परियणु हय गय रह सधय अंतेउरु अवगण्णिवि ॥
सीर्हासणछत्तइं चामरइं गउ सयंलइं तणु मण्णिवि ॥ ८ ॥

9

गुरुचरणारविंदु सेवेप्पिणु
वीयरायवयणेण विणायउ
अप्पाणउं तिहिं गुत्तिहिं भावैइ
वेज्जोवच्चु क्ररइ मुणिणाहहं
धम्मु अहिंसालक्खणु अक्खइ
आगच्छंतुवसग्गु समिच्छइ
दंसमसय सुडसंत ण साडैइ
दंसणसुद्धिविणउ आराहइ
विकहउ ण कहइ ण रुसइ ण हसइ
णाणु णिरंतरु तेणब्भसियउ
एम धोरु तवचरणु चरेप्पिणु

जायउ परमभिकखु तउ लेप्पिणु ।
पालइ पंचमहव्वयमायउ ।
णीरसु जेवैइ णिसिहिं ण सोवइ ।
वालहं बुद्धहं रुयहयदेहहं ।
मित्तु वि सत्तु वि समं जि णिरिक्खइ ।
लंबियकर उब्भुम्भउ अच्छइ ।
सप्प वि लंग देहि णउ फेडइ ।
सहइ परीसह इंदिय साहइ ।
भीसणि णिज्जाणि काणाणि णिरसइ ।
कम्म अहम्मकारि संपुसियउ । 10
तिथयरत्तु णाउं बंधेप्पिणु ।

घत्ता—तेलोककचक्कसंखोहणइं सुहकम्माइं समज्जिवि ॥
मुउ मुणिवरु णिरसणविहि करिवि चित्तु समत्ति णिउंजिवि ॥९॥

10

तेत्तीसंबुहिआउपमाणइ
किं वणैणवि पुण्णेणुप्पणउ
णिप्पडियारउ णिरहंकारउ

पंचाणुत्तरविजयविमाणइ ।
हत्थमेत्तणु ससहरवणणउ ।
भूसणहरु अहमिंदमडारउ ।

५ PT वइवसुपसु. ६ A चमक्कइ; P चमुक्कइ. ७ P 'पडथड'. ८ A सिंहासण?; P सिंघासण.
९ AP सयल वि तिणु.

9 १ P विणायउ. २ A गोवइ. ३ AP जेमइ. ४ AP विजावच्चु. ५ AP समु.
६ P उब्भम्भउ. ६ AP झाडइ. ७ A विकहउ कहइ ण हसइ ण रुसइ. ८ AP अणसण.

10 १ A तेतीसंबुहि. २ AP पंचाणुत्तरि. ३ AP वणमि. ४ A पुण्णेण पउण्णउ;
P पुण्णेण पउण्णउ. ५ AP हत्थमेत्तु तणु. ६ AP अहमिंदु.

8 a भजइ पराजीयते. 9 a चइषसुवसु यमसैन्यं यष्टिश्च.

9 2 a विणा यउ विशाताः; b पंचमहव्वयमायउ पञ्चविंशतिर्भावनाः तत्सैर्यार्थं भावनाः
पञ्च पञ्च. 7 a सुडसंत सुषु दशन्तः; सा डइ स्फेडयति निवारयति. 13 समत्ति समत्वे, स्वमात्रे आत्मनि वा.

णियवासहु वासंतरु ण सरइ
सीहासणि सुप्पिसणणउ अच्छइ
लेइ मणेण भक्खुं छुह णासहि
णिग्गयदइयंघवणणिहदुक्खहिं
छम्मासाउसु वट्टेइ जइयहु
सो अहंममराहिउ आवेसंइ
इम चिंतेवि भणिउ जक्खाहिउ
जंबूदीवभरहंउज्झाउरि

उत्तरवेउव्विउ वउ ण करइ ।
ओहिइ तिजगणाडि संपेच्छइ । 5
सो तेत्तीसंहिं वरिससहासहिं ।
णीसंसेइ तेत्तियहिं जि पक्खहिं ।
सोहम्मिंदे जाणिउ तइयहु ।
जियसत्तुहि घरि जिणवरु ह्योसइ ।
धरणीगयणिहाणलक्खाहिउ । 10
धणय कणयमयणिलयंण लहु करि ।

घत्ता — ता णयरि कुबेरं णिम्मविय कंचणभवणविसेसहिं ॥
सरिसरवरउंघवणजिणहरहिं पहंच्चरविण्णासहिं ॥ १० ॥

11

आर्यउ देविउ इंदापसें
सिरिहिरिदिहिमइकंतीकित्तिउ
तणुसंसोहणगुणसंजोर्यहिं
गम्भि ण थंसेहु अमरवरिडुउ
सुहदंसणि णियमणि संतुडुउ
पल्हत्थंतु णिहाणइं दिट्टुउ ।
णरवइंपंगणि दविणु ण माइउं
पवरिक्खाउवंससंभूयहु
विजयदेवि णं चंदहु रोहिणि
अहिणवसयदलकोमलगत्ती

पुणवरु माणवमाणिविसें ।
विजयादेविहि सेव करंतितु ।
थक्कउ णाणाविहिहिं विणोयहिं ।
वसुधारहिं वइसवणु वरिडुउ ।
जा छम्मासहिं ता परिउट्टुउ । 5

सयलहं दीणाणाहहं ढोइउं ।
वम्महरूवपरजियरूवहु ।
जियसत्तुहि णरणाहहु गेहिणि ।
हंसवणिण पल्लंकि पसुत्ती । 10

घत्ता—परमेसरि णिसि पच्छिमपहरि एक्केक्कउ जि समिच्छइ ॥
णिहालसवस मउलियणयण सोलह सिविर्णय पेच्छइ ॥ ११ ॥

७ P भिक्खु. ८ A तेतीसहिं. ९ P °दयिधवण°. १० P adds वि after णीससेइ. ११ AP वडुइ.
१२ AP सो लहु अमराहिउ. १३ AP आएसइ. १४ A जंबूदीवे भरहे उज्झा°; P जंबूभरहदीउ
उज्झा°. १५ P °णिलयहु लहु. १६ P °जिणहरउववणेहिं. १७ A अदरमणीयपएसहिं.

11 १ P आइउ. २ P °संजोवहिं. ३ P णाणविहिहिं. ४ A गम्भेच्छंतहु; P गम्भि ण
छंतउ. ५ A परिउट्टुउ but corrects it to परितुट्टुउ; P परिउट्टुउ; T परिउट्टुउ. ६ AP add
after this: घणु जिह पुणु वरिसंतु अणिट्टुउ. ७ AP °पंगणि. ८ A सविणय; P सिविणइ.

10 4 a वासंतरु स्थानान्तरम्; b उत्तरवेउ व्विउ वउ प्रतिशरीरं न करोति वपुः. 5 b
ओ हि इ अवधिशानेन. 7 a णि ग य द इ य ध व ण णि ह दु क्ख हिं खल्वाधमनी खीलधमनी, यदा मनुष्याः
श्रासं गृह्णन्ति तदा धमनीवत् दुःखमुत्पद्यमानम् (?). 10 b °णि हाण लक्खा हिउ °निधानस्वामी.

11 3 b थक्कउ स्थिताः. 4 a °वरिडुउ प्रधानः; b वरिडुउ वृष्टः. 5 b परिउट्टुउ
परितुष्टः. 11 समिच्छइ शुभं मन्यते.

12

मउल्लुगंडं	पमत्तं पयंडं ।	
गिरिंदप्पमाणं	गयं गज्जमाणं ।	
धरिन्ती खणंतं	चिसं ढेक्करंतं ।	
ह्यारिंदपक्खं	हरिं तिक्खणक्खं ।	
करिंदाहिसित्तं	सिरिं पोमवत्तं ।	
सयामोयधामं	णवं पुष्पदामं ।	
सुहं सेयमाणुं	दिसुम्भासिमाणुं ।	
सिणिद्धं समाणं	दहे कीलमाणं ।	
रईलीलयाणं	जुयं मीणयाणं ।	
वरं वारिपुण्णं	सियंभोयछण्णं ।	10
रमारामरम्मं	घडाणं च जुम्मं ।	
लयापत्तणीलं	विउद्धारणालं ।	
मरालालिरोलं	सरं सारसालं ।	
जलुल्लोलमालं	महामच्छवालं ।	
गहीरं रवालं	समुद्धं विसालं ।	11
पहारिद्धिरूढं	मइंदूढपीढं ।	
णहे धावमाणं	सुराणं विमाणं ।	
धरारंधणित्तं	पसत्थं पवित्तं ।	
जसेणुण्णयाणं	घरं पण्णयाणं ।	
गयासामऊहं	मणीणं समूहं ।	20
सिहालीचलंतं	हुयासं जलंतं ।	

घत्ता—इय सिविणयपंति मणोहरिय जोइवि सीलविसुद्धइ ॥

सुविहाणइ रायहु वज्जरिय सुत्तविउद्धइ मुद्धइ ॥ १२ ॥

12 १ P पोमवत्तं. २ AP विबुद्धा°. ३ P °णेतं ४ A सिहालीपलित्तं; P सिहालीवलत्तं but T सिहालीचलंतं. ५ P °विउद्धइ.

12 1 a मउल्लुगंडं मदार्द्रगण्डम्; b पयंडं प्रचण्डम्. 5 b पोमवत्तं कमलम्. 6 c सयामोयधामं सतः शोभनस्यामोदस्य स्थानम्. 7 a सुहं अनुपहतम्; सेयमाणुं चन्द्रम्. 11 c रमारामरम्मं रमा लक्ष्मीः, शोभा इत्यर्थः; तस्या आरामः वनं, समूह इत्यर्थः, तेन रम्यं मनोज्ञम्. 13 a मरालालिरोलं हंसभ्रमरकोलाहलम्. 16 b मइंदूढपीढं सिंहासनमित्यर्थः. 18 a °णित्तं निर्गतम्. 20 a °मऊहं किरणम्. 21 a सिहालीचलंतं शिखाली ज्वालासमूहश्चलन्ती यत्र 23 सुविहाणइ प्रभाते.

13

पट्टणा विहसिवि गुणगणवन्तहि
 होही तुह सुउ जियवम्मीसरु
 तासु विमलवाहणअहमिदहु
 कुंजरवेसें नृवरामाणणि
 गम्भि परिट्टिउ जिणु जगमंगलु
 णच्चिउ णवरसालु तियसेसरु
 तासु घरंगणि वण्णविचिच्चइं
 धणयापसें जक्खकुमारिहिं
 कामकोहमयमोहविहंजणि
 जलणिहिसमहं कालपरिवाडिहिं

सिविणयफलु विण्णासिउ कंतहि ।
 तिहुयणगुरु तिणाणजोईसरु ।
 आउ पउण्णउ बुहयणचंदहु ।
 झ सि पइट्टउ णं दिणयरु घणि ।
 उट्टिउ घरि सुरसंथुइकलयलु । 5
 अहिणंदिउ जियससु णरेसरु ।
 रयणइं पुणु णवमास णिहिच्चइं ।
 घोसियसुमहुरसाहुंक्कारिहिं ।
 णिव्वुइ रिसहजिणिदि णिरंजणि ।
 जा पण्णासलक्खुं गय कोडिहिं । 10

घत्ता—ता माहमाससियदसमिदिणि वीयउ सिवपयगामिउ ॥
 तित्थंकरुं णाणत्तयसहिउ उप्पण्णउ जगसामिउ ॥ १३ ॥

14

उप्पण्णइ जिणि आऊरिय घर
 कंहि वि मइंदणिणाय सुभइरव
 आसणकंपे विम्हांवियमइ
 दसणकमलसरणच्चियसुरवरि
 सयमहु मुणिमहसयणिव्वूढउ
 भंभाभूरिभेरिसंघायहिं
 जिणकमकमलजुयलसंगयमणु
 सोमभीमभूसाभाभासुर
 कोसलणयरि झउ त्ति पराइय

कंहि वि समुग्गय जयघंटारव ।
 कंहि वि समुग्गय जयघंटारव ।
 कंपिउ अहिवइ महिवइ सुरवइ ।
 मयजलमिलियघुलियवहुमहुयरि ।
 अइरावणि वारणि आरूढउ । 5
 वज्जंतहिं वाइत्तणिणायहिं ।
 सवहु सवाहणु सधउ सपहरणु ।
 चलिय हरि सरसरसिर सुरासुर ।
 परियंचेवि तिघार घरु आइय ।

घत्ता—पणवेप्पिणु पियरइं आयरिण सहसा चित्ति वियेप्पिउ ॥ 10
 जिणमायहि मायइ सुरवरहिं मायाबालु समप्पिउ ॥ १४ ॥

13 १ AP add after this : जेद्वहु मासहु पक्खि अचंदणि (P पक्खियचंदणि), मावसदिणि
 ससहरि थियरोहिणि. २ AP णिव°. ३ A कुमारहिं ४ A साहुक्कारहिं. ५ A लक्ख. ६ A मासि.
 ७ A सिवपुर°. ८ A तित्थंकर.

14 १ AP कंहि मि. २ A विभाविय°. ३ P भंभाभेरिपडह°. ४ P वायत्त°. ५ P
 वियप्पियउ. ६ P समप्पियउ.

13 1 b विण्णा सिउ विन्यसितं कथितम्.

14 5 a मुणि महसयणि व्वूढउ मुनेस्तीर्येकरस्य पूजाभिषेकशतनिर्वाहकः. 8 b हरि इन्द्रः;
 सरसरसिर प्रेम्णा शब्दवन्तः. 9 b परियंचे वि प्रदक्षिणीकृत्य. 11 मायइ मायया.

15

जगगुरु लेवि देव गय तेत्तहि
 तहि सीहांसणि णिहिउ भडारउ
 इंदजलणजमणेरियवरुणहं
 आवाहणु करेवि पोमाइवि
 अमरपंति अवितुट्टं करेप्पिणु
 किसलयलुण्ण कलस उच्चाइवि
 देविंदहिं जिणिंदु अहिंसिचिउ
 देवंगइं वत्थइं परिहाविउ
 भूसिउ भूसणेहिं साणंदं
 घत्ता—जाएण जेण जसु बंधुयणु कीलासु वि अविसंकिउ ॥
 बहिरंतरंगवइरिहिं ण जिउ अजिउ तेण सो कोक्किउ ॥ १५ ॥

सुरागिरिपंडुसिलायलु जेत्तहि ।
 मयणबाणसंताणणिवारउ ।
 पवणधणयभवससिखरकिरणहं ।
 जण्णभाउ सव्भावें ढोइवि ।
 णीरु खीरंमयरहरि भरेप्पिणु । 5
 मंतु पणवसाहा संजोइवि ।
 कुवलयकमलकयंबहिं अंचिउ ।
 देउं दिव्वगंधेहिं विलेविउ ।
 णामकरणु विरइउं देविंदं ।

10

16

णमो जिणा कयंतपासणासणा
 णमो कसायसोयरोयवज्जिया
 णमो अदीणकामबाणवारणा
 णमो विसालमोहजालच्छिंदणा
 णमो णिहित्तसुण्णवाइवासणा
 णमो गयालसालसीलभूसणा
 णमो विमुक्कदिव्वघोसणीसणा
 णमो अणंतसंतसम्मभावणा

णमो विसुद्ध बुद्ध सिद्धसासणा ।
 णमो फणिंदं चंदविंदपुजिया ।
 णमो महाभवंबुवासितारणा ।
 णमो जियारिरायरायणंदणा ।
 णमो अणयभेयभावभासणा । 5
 णमो पसण दिण्णरोसैदूसणा ।
 णमो रिंसी तवोविहीपयासणा ।
 णमो अरंहंत मोक्खमग्गदावणा ।

घत्ता—इय वंदिवि अमराणंदियहि णंदणवणसुच्छायहि ॥

आणेप्पिणु उज्झहि परमजिणु इंदं अप्पिउ मायहि ॥ १६ ॥ 10

15 १ AP सिंहासणि. २ A संताव°. ३ P अविर्दु. ४ P खीर. ५ A देव.

16 १ AP विसुद्धबुद्धिसिद्धसासणा. २ AP फणिंदं चंदविंदपुजिया. ३ AP दिण्णदोस°. ४ AP संतसोमभावणा. ५ A णमो अरंहंत.

15 ३ b भव शंकरः; खरकिरण सूर्यः. 4 a पो मा इ वि प्रशस्य; b जण भा उ यज्ञभागः, पूजाभागः. 5 a अ वितुट्ट अविच्छिन्ना. 6 b पणवसाहा ॐ स्वाहा. 10 जसु यस्य; कीलासु क्रीडाशीलः.

16 3 a अदीण° प्रौढः. 4 b जियारिरायराय° जितशत्रुराजाधिराजः. 6 a गयालसाल° गतं आलसं आलं असस्यं यत्र; b दिण्ण° विदारितः. 7 a विमुक्कदिव्वघोसणीसणा विमुक्ताः उच्चैश्चारिताः दिव्यघोषाः सर्वभाषाप्रकाशका निस्वनाः शब्दा येन.

17

काले जंतै जायउ पोढउ
का वि णारि आलिंगणु मग्गइ
का वि कुमारी भणइ मइ परिणाहि
एकंसु देहि दिट्ठि सुहगारी
इय णारीयणु होंतु रसिल्लउ
रक्खहि देवदेव णियसंगे
पिउणा सुरवइणा घरु गंपिणु
कह व कह व मडुइ इच्छाविउ
सुसिरु तंति घणु पुक्खरु वज्जइ
जहि उव्वसिरंभहि णच्चिज्जइ

जयवइ णवजोव्वणि आरूढउ ।
क वि कामाउर पायहि लग्गइ ।
विरहु भडारा किं तुहुं ण मुणहि ।
जा जीवमि ता दासि तुहारी ।
कामासत्तउ कामगहिल्लउ । 5
मारिजंतु वराउ अणंगे ।
पत्थिउ जिणकुमारु पणवेप्पिणु ।
कण्णासहसहिं पैहु परिणाविउ ।
जहिं तुंबुरुणा सुसरउ गिज्जइ ।
अणवमरसविसेसु संचिज्जइ । 10

घत्ता—जहिं मंगलदव्वविहत्थियहिं उरघोलिरहारमणिहिं ॥

आवंतिहिं जंतिहिं सुललियहिं छेउ णत्थि सुररमणिहिं ॥ १७ ॥

18

जहिं उवमाणउ किं पि ण दिज्जइ
सव्वतित्थपरिपुण्हिं कलसहिं
खीरतुसारतारणित्तारहिं
कोमलकिसलयछाइयवत्तहिं
मंगलघोसविलासविसेसहिं
किउ रज्जाहिसेउ सूर्यसेवहु
महि भुंजंतहु पीणियभव्वहुं
एक्कहिं दिणि णरणियरणिरंतरि
वसुवइवसुमइकंताकंतं

तं उच्छउ मइं किं वणिणज्जइ ।
मुणिवियणहिं णं वियलियकलुसहिं ।
जित्तं विलासिणिमोत्तियहारहिं ।
विसहरसुरणरखयरक्खित्तहिं ।
तियसिंदहिं मिलेवि पुहईसहिं । 5
बद्धु णिलाडि पट्टु तहु देवहु ।
एक्कुणवीसे लक्ख गय पुव्वहं ।
अच्छंतं अत्थाणव्वभंतरि ।
रयणिहिं गयणभाउ जोयंतं ।

घत्ता—ताँ तेण दीह ससहरधवल उक्क पडंती दिट्ठिय ॥

10

णं णहसिरिकंठहु परियलिय चलमुत्ताहलकंठिय ॥ १८ ॥

17 १ A एक सुदिट्ठि देहि सुहगारी; P एक सदिट्ठि देहि सुहगारी. २ AP add after this; कुमरत्तं (P कुमरत्तिं) पुणु काळु सुहासिउ, पुव्व अद्भुदहलक्ख पणासिउ. ३ A मंडइ; P मडइ. ४ P सह. ५ AP अणुवमं; T अणुवमं but the meaning given is शान्तरसरहितः.

18 १ AP णं मुणि°. २ P जिणिवि विला°. ३ A कमलकिसलयच्छाइयवत्तं; P कमलहिं किसलयछाइय°. ४ A सुरसेवहु; P सियसेवहु. ५ A एक्कुणलक्खवीस गय; P तयपंचास लक्ख गय. ६ P अच्छइ जा अत्थाण°. ७ A तो.

17 1 b जयवइ जगत्पतिः. 8 a मडुइ इच्छा विउ हठादिच्छां कारितः. 10 b अणवमरसं नवमरसरहितम्, शान्तरसं विना. 12 छेउ छेदः त्रुटिः.

18 6 a स्यसेवहु श्रीसेवितस्य. 9 a वसुवइ लक्ष्मीः; वसुमइ पृथ्वी. 10 उक्क उत्का.

19

पेच्छंतहु सा तहिं जि विलीणी
 गयणुम्मुक्क उक्क गय जेही
 लग्गामि णिरवज्जहि मुणिविज्जहि
 छणि छणि जडयणु किं हरिसिज्जइ
 जीय भणंतहं विहसइ तूसइ
 ण सहइ मरणह केरउ णाउं वि
 कालि महाकालिहिं घरुं दुक्कइ
 जोइणीहिं को किरं रक्खिज्जइ
 खयकालहु रक्खंति ण किंकर
 खयकालहु रक्खंति ण केसव
 होइ विसूई संपे धेप्पई
 जलि जलयर थलि थलयर वहरिय
 तो वि जीउ जीवेवइ वंछइ

ईसमणीस समासमलीणी ।
 अथिर णरेसरसंपय तेही ।
 पभणइ सामि जामि पावज्जहि ।
 आउ वरिसवरिसेणं जि खिज्जइ ।
 मर पभणंतहं रंजइ रूसइ । 5
 पहरणु धरइ फुरइ णित्थाउ वि ।
 मज्जु मासु ढोवंतु ण थक्कइ ।
 पीडिवि मोडिवि काले खज्जइ ।
 मय मायंग तुरंगम रहवर ।
 चक्कवट्टि विजाहर वासव । 10
 दाढिविसाणिमृगहिं दारिज्जइ
 णहि णहयर भक्खंति अवारिय ।
 लोहे मोहे मोहिउ अच्छइ ।

घत्ता—सुहुं वंछइ पंर तं णउ लहइ मरणहं तसइ ण चुक्कइ ॥

इच्छंभयपरवसु एहु जणु जममुहकुहरहु दुक्कइ ॥ १९ ॥ 15

20

तांवाइय लोयंतिय सुरवर
 चंगउ चित्तंडिभु संथवियउ
 छंडेहि पणइणि कंचणगोरी

ते भणंति जय जगगुरु सुरवर ।
 णाणणिहेलाणि पइं संथवियउ ।
 धरंहि भुवणसंबोहणगोरी ।

19 १ P पव्वज्जहि. २ AP वरिसु वरिसेण. ३ A मरणु भणंतहं; P मर पभणंतहं. ४ A किर को रक्खिज्जइ; P किं किर. ५ A संपेसिज्जइ. ६ AP add after this: दहि बुहुइ जलणेण पलिप्पइ. ७ AP^o मिगहिं. ८ AP add after this: विसविवक्खसत्थहिं मारिज्जइ. ९ A जीवेवउ; P जीवेव्वउ. १० P तं पर णउ. ११ A इच्छाहय परवसु; P मिच्छाभयपरवसु.

20 १ AP तावाइय. २ चित्तंडिभु but gloss बालकः. ३ A छंडिवि; P छुहुइ. ४ AP चंपय. ५ P वरहि.

19 1 b ईसमणीस स्वामिनो बुद्धिः; समासमलीणी सम्यगासमन्तादुपशमेन लीना. 2 a उं उम्मुक्क उद्गता. 4 a छणि छणि आयुर्मन्थिपर्वणि पर्वणि. 5 a जीय भणंतहं हरिसइ त्वं जीव इति कथिते हर्षति; b रंजइ दुष्टं शब्दं करोति. 6 b णित्थाउ निबलः. 11 a विसूई विषूचिका.

20 1 a तांवाइय तांवा तावत्, तदा, आइय आगताः; b सुरवर हे सुराराध्य. 2 a संथवियउ प्रबोधितम्; b णिहेलाणि गृहे; संथवियउ धृतम्. 3 b गोरी सरस्वती, अन्यत्र दिव्यस्त्री.

गइ दुचरिस्तकम्मसंताणइ
पभणिउ पुत्त चरसु संताणइ
तहिं अवसरि णहु छण्णु विमाणहिं
किउ दिक्खाहिसेउ तियसेसहिं
गय खग सुर णियसिवियाजाणें
णावइ णविउ सहेउवणामें
णिच्च करंति पणयकलहं सइ
तंडगंधव्वगीयकलहंसइ
तहिं सत्तच्छयतलि सुणिसण्णउ

यत्ता—मांहे मासे सियणवमिदिणे रोहिणिरिक्ख गयासें ॥

अवरणहइ केसलोउ करिवि लइय दिक्ख परमेसें ॥ २० ॥

अजियसेणु णिहियउ संताणइ ।
सयलमहीयलकयसंताणइ । 5
पत्तहिं गिब्वाणेहिं विमाणहिं ।
अंचिउ पट्टु पसत्थतियसेसहिं ।
फलतरुणविपं पवरुज्जाणें ।
सो सोहंतु सुद्धपरिणामें ।
जहिं सरि सरु मुयंति कलहंसइ । 10
ताहं चलणि रसियइं कलहंसइ ।
जिणु जिणंतु चत्तारि वि सण्णउ ।

21

जे धम्मेल्ल विमुक्क सुवत्ते
लेवि धित्त खीरणवणीरइ
विसयंपरीसहरिउहु ण संकिउ
णाणु चउत्थउ खणि उप्पण्णउं
उज्झाणयरिहि वीयइं वासरि
कुसुमवरिसु सुरवडहणिणायइं
गेहणैहबंधणु विच्छिण्णउं
पूसहु सुक्कपक्खि संपत्तइ

ते सुरणाहें मणिमर्यपत्ते ।
को णउ करइ भत्ति जइ णीरइ ।
नृवसहासु तें सहुं दिक्खंकिउ ।
छट्टुववासं व्रउ पडिवण्णउं ।
किउं पारणउं बंभरायहु घरि । 5
पंचच्छरियइं तहिं संजायइं ।
वारहवरिसइं तउ संचिण्णउं ।
पयारसि रोहिणिणक्खत्तइ ।

६ P धरसु, ७ A णर; P णिव. ८ A तावइ णमिउ. ९ AP सहेउअणामें; K सहेउपणामें but gloss and T सहेउवणामें सहेतुकनाम्नोद्यानम्. १० A णडगंधव्व°; P तडि गंधव्व°. ११ AP माहहो मासहो.

21 १ AP °वत्ते. २ AP विसहपरीसह°. ३ AP णिव°. ४ AP वउ. ५ A तीयइ. ६ AP °पडह°. ७ P गेहि गेह°.

4 a °क म्म सं ता ण इ क्रियाविस्तारे; b सं ता ण इ अन्वये वंशे. 5 a सं ता ण इ सत्पुरुषाज्ञया; b °क य-
सं ता ण इ कृतसत्पुरुषलक्षणेन. 6 a वि मा ण हिं विगतसंख्यैः. 7 a तियसेस हिं देवेन्द्रैः; b प सत्थ-
तियसेस हिं प्रशस्तस्त्रीविशेषाभिः. 9 a सहेउवणामें सहेतुकनाम्नोद्यानेन. 10 a पणयकलहं सइ
प्रणयकलहकं झगडकं स्वयं कुर्वन्ति; b सरि सरोवरे. 11 a गीयकलहंसइ गीतानां मनोज्ञताध्वंसकानि;
b ताहंचलणि रसियइं कलहंसइ तेषां तटगतगन्धर्वाणां पादेषु रसितानि शब्दितानि मनोज्ञहंसकानि
नूपुराणि; हंसशब्दोऽत्र नूपुरवाची. 13 गयासें विनष्टवाञ्छेन.

21 1 a सुवत्ते शोभनवक्त्रेण शोभनपात्रेण वा. 2 b णीरइ रजोरहिते. 5 a वीयइ वासरि
द्वितीये पारणादिने इत्यर्थः.

भावाभावालोयविराइउ
हय दुंदुहि णं गज्जिउ सग्गे

घत्ता—चत्तारि सयाइं सरासणहं सइइं देहु जिणिदहो ॥

अमरिंदे दूरासंकिणण मण्णिउ सरिसु गिरिदहो ॥ २१ ॥

केवलणाणु तेण उप्पाइउ ।

आय देव दिसिविदिसंहं मग्गे । 10

22

णवकणयवणु
संथुउ अणेण
जय भवं भवंत
जय भूयणाह
जय गोरिरमण
जय तिउरडहण
जय मोक्खमग्ग
जय सोमसीस
जय णायहार-
सुतिलोयणास-
सुरयंतवित्त-
णीसरियविमल
जय वेयभासि

खमभावु पुणु ।

अमराहिवेण ।

जय दाणवंत ।

विरइयविवाह ।

जय सुविसगमण ।

जय मयणमहण ।

णिग्गंथ णग्ग ।

जय तिहुवणीस ।

भूसियसरिर ।

हर हरविलास ।

पम्भाररत्त ।

चउवयणकमल ।

पसुवहपयासि ।

5

10

८ AP भावाभावलोएं पविरायउ. ९ A °विदिसहं मग्गे; P °विदिसि णहग्गे.

22 १ P भूवणाह.

9 a भा वा भा वा लो य वि रा य उ विश्वस्थितसमस्तपदार्थदर्शनेन विराजितम्.

22 3 a भव हे शंकर; भवंत संसारस्य अन्त अन्तक मोक्षप्रदानात्प्रलयविधानाच्च; b दा ण वं त अभयदानदायक एकः; अन्यो दानवविनाशकः. 4 a भूयणाह एकः सकलप्राणिस्वामी, अन्यः पिशाचनाथः; b विर इ य वि वा ह विरचिता विनष्टा बाधा येन, अन्यत्र कृतपाणिग्रहण. 5 a गो रिर म ण सरस्वतीप्रियः; अन्यत्र गौर्याः पार्वत्याः रमण पते; b सु विस ग म ण शोभनस्य वृषस्य धर्मस्य गमनं प्रवर्तनं यस्मात्; अन्यत्र शोभनबलीवर्देन गमनं यस्य. 6 a ति उ र ड ह ण जातिजरामरणलक्षणत्रिपुर-विध्वंसक; अन्यत्र त्रिपुरदानवविनाशक. 7 a मो क्ख म ग्ग मोक्षपथ; अन्यत्र मोक्षे वेध्ये मार्गो मार्गणो यस्य. 8 a सो म सी स उपशान्तशिष्य, चन्द्रोपलक्षितमस्तकोऽन्यत्र; b ति हु व णी स त्रिभुवनस्वामिन्, अन्यत्र त्रिभुवनायास्त्रिपथगाया गङ्गायाः स्वामिन्. 9 a णा य हा र सन्मार्ग एव हारो यस्येति वा, सर्प एव हारोऽन्यत्र. 10 a सु ति लो य णा स हर सुष्ठु त्रिलोकविनाशहर; परमकारुणिकत्वादजरामर-पदप्रापकत्वाच्च; अन्यत्र शोभनत्रिलोचनस्य धर, अथवा सुत्रिलोकस्य नासधरो धर्मधरो वा हरः शिवश्च; b वि ला स विगतक्रीड, विशिष्टक्रीड. 11 सु र यं त वि त्त प म्भार रत्त सुरतस्थान्तो विनाशो यस्मिन् वृत्ते चरिते तस्य व्रतस्य प्राग्भारे संघाते रतः; अन्यत्र सुरपर्यन्तं यद्वृत्तं चेष्टितं तस्य प्राग्भारे रतः. 13 a वे य भा सि प्रथमानुयोगादिपरमागमचतुष्टयप्रकाशकः; वेदकर्ताऽन्यत्र; b प सु व ह प या सि पशूनामपि सत्पथप्रकाशकः; अन्यत्र पशुबधप्रकाशकः.

णिहंद्बुडंभ
कंपावियक्क
जय चक्रपाणि
बहुसोक्खहेउ

जय परमबंभ ।
कयधम्मचक्र ।
जय दिव्वणीणि ।
जय गरुलकेउ ।

15

घत्ता—तुह गब्भणिवासि हिरण्णमयविट्ठिइ सुट्टु पसिद्धउ ॥

तुट्टुं तेण हिरण्णगब्भं भणिउ अण्णहु एउं णिसिद्धउ ॥ २२ ॥

23

वंदिवि एम सुरिंदे सत्तिइ
माणखंभसरवरसरपरिहहिं
णिम्मियपायारेहिं विचिच्चिहिं
कप्पहुमचेईहरचिंधिं
णडसालाहिं णैट्टतंडवियहिं
तोरणरयणालंकियदामहिं
जं पैहउं तहिं मोक्खहु पथिउ
पुर्वासासमुहुं आसीणउ

विरइउ समवसरणु जिणभासिइ ।
संकुसुमवेळ्ळिहिं मरगयफलिहहिं ।
धूहहिं सूरयंतमणिदिच्चिहिं ।
धूवहडेहिं सुधूवसुगंधहिं ।
थामि थामि मणिमयमंडवियहिं । 5
कणयदंडवैरफणिपडिहारहिं ।
अजियणाहु सीहासणि संठिउ ।
किं वण्णामि तेल्लोक्कपहाणउ ।

घत्ता—चउतीसातिसयविसेसधरु जिणु हरिवीढिं बइट्टुउ ॥

उययहिसिहरि उययंतु रवि छुहु णं लोपं दिट्टुउ ॥ २३ ॥ 10

24

सव्वभहु तं तहु सीहासणु
णवक्कंकेल्लिरुक्खु कोमलदलु
छत्तइं तिण्णि चंदसंकासइं

कुसुमवासु भसलावलिपोसणु ।
भामंडलु णं दिणयरमंडलु ।
चमरइं हिमगोखीराभासइं ।

२ A णिहंद्बुडंभ. ३ AP दिव्ववाणि. ४ AP °गब्भु. ५ A एउ ण सिद्धउ.

23 १ P सुकुसुम°. २ P सुर्यधसुयंधहिं. ३ A णट्टमंडवियहिं. ४ AP रयणतोरणालं°. ५ AP °दारहिं. ६ AP °दंडधर°. ७ P जं एहउ तं सक्के पथिउ, जगकारुणे आवेप्पिणु थिउ. ८ P पुर्वासासमुहुं तेण आसीणउ. ९ A णं तइलोपं दिट्टुउ.

14 a णि हंद्बुडंभ निर्दग्धदम्भः; अन्यत्र निश्चितो दग्धदम्भो निकृष्टदम्भो यस्य; b परमबंभ परमात्म-स्वरूपः; अन्यत्र परमब्रह्म आत्मा स्वरूपं यस्य, एकमूर्तिस्त्रयो भागा ब्रह्मा विष्णुमहेश्वर इत्यभिधानात्. 15 b कयधम्मचक्रं कृतधर्मचक्रं; अन्यत्र कृतं धर्मस्य धनुषः चक्रं मण्डलं येन, संप्रामकाले कृतचक्राकार-चाप इत्यर्थः. 16 a चक्रपाणि चक्रं लाञ्छनं पाणौ यस्य; अन्यत्र चक्रं प्रहरणं पाणौ यस्य. 17 a बहुसोक्खहेउ बहुमिरिन्द्रादिभिः सौख्यार्थं सेव्यः; अन्यत्र वधूमिः सौख्यार्थं सेव्यः; b गरुलकेउ गरुडध्वजः. 18 विट्ठिइ °वृष्टया.

23 3 b सूरयंतमणि° सूर्यकान्तमणिः. 4 b धूवहडेहिं धूपघटेः. 7 a पथिउ पान्यः. 10 उययंतु उदयन्.

वज्जइ दुंदुहि भुवणाणंदणु
णिग्गय दिव्वभास सञ्चुण्णय
अक्खइ जिणु सत्त वि पायालइं
अक्खइ जिणु भावणसंपत्तिउ
अक्खइ जिणु अहमिंद वि सुरवर
अक्खइ जीवकम्मभेयंतरु
सीहसेणरायाइय गणहर

विरहयरिद्धिउ सहं सक्कंदणु ।
तं णिसुणंति अमर णर पण्णय । 5
णरयलक्खदुक्खग्गिविसालइं ।
वेंतरजोइससग्गुप्पत्तिउ ।
बहुविह णर तिरिक्ख तस थावर ।
अक्खइ पेक्खइ तिजग्गु णिरंतरु ।
जाया णउइं तासु सम्मयधर । 10

घत्ता—सहसाइं तिण्णि पण्णासियइं सयइं सत्त भयवंतहं ॥
पुव्वंगधरहं तहिं मुणिवरहं जायइं संतहं दंतहं ॥ २४ ॥

25

उडुसयाइं इगिवीससहासइं
चउसयाइं णवसहसइं सिट्ठइं
केवलणाणिहिं वीससहासइं
ताइं जि पुणु चउसयाहिं समेयइं
तवसमसहसइं पुणरवि उत्तइं
सग्गारोहणसुहयणिसेणिहिं
तेत्तियइं जि पण्णासइ रहियइं
एवं गणंतगणंतहुं आयउ
अज्जहं लक्खइं तिण्णि समासविं
तेत्तिय हउं सावय आहासविं
संखारहिय देव णिहेसविं

सिकखुयरिसिहिं विमुक्कधणासइं ।
णाणत्तयसंजुत्तहं दिट्ठइं ।
जाइं अणंगसंगणिण्णासइं ।
विक्रियारिद्धिहरहं णेयइं । 5
चउसयाइं पण्णासइ जुत्तइं ।
संभूयइं मणपज्जवणाणिहिं ।
दिण्णुत्तरहं विवाइहिं विहियइं ।
एक्कु लक्खु भिक्खुहुं संजायउ ।
उप्परि सहसइं वीस णिवेसविं ।
पंचलक्ख अणुवइयहिं घोसविं ।
देविहिं किहं परिमाणु गवेसविं । 10

घत्ता—इय एत्तियसंघे परियरिउ पुव्वहं विरहयपरहिय ॥
तेपण्णलक्खु महियलि भमिवि वारहवारिसहिं विरहिय ॥ २५ ॥

24 १ P दिव्ववाणि. २ A सञ्चुण्णय; P सव्वण्णय; but K सञ्चुण्णय and gloss सत्थो-
ज्जता. ३ P °कम्महो यंतरु. ४ A तिजयभंतरु. ५ AP णवइ; K णउवि and gloss नवतिः.
६ A सम्मइधर.

25 १ AP °संजुत्तहं. २ P °उत्तहं. ३ AP सुहणिसेणिहिं, but T सुहय° सुखद°. ४ P
संभूयहिं. ५ P वहियइं. ६ AP एम. ७ AP समासमि. ८ AP णिवेसमि. ९ AP सावइ आहासमि.
१० AP घोसमि. ११ AP णिहेसमि. १२ AP कहिं. १३ AP गवेसमि. १४ AP विहरइ परहिय.
१५ A तेवण लक्ख; P सो एक्कु लक्खु.

24 4 b विरहयरिद्धिउ विरचितद्धिरिन्द्रः स्वयमेव शरीरेण. 5 a सञ्चुण्णय सत्थोज्जता.

25 1 a उडुसयाइं षट् शतानि. 5 a तवसमं द्वादश°. 6 a °सुहय° °सुखद°. 7 b
दिण्णुत्तरहं दत्तोत्तराणाम्. 9 a °अजहं आर्याणाम्. 12 बिरहयपरहिय कृतपरहितः.

26

सिहरिहि दरिसियदरिमयवेयहु
 मासमेत्तु थिउ पडिमाजोपं
 पक्कपिंड वाहत्तरिलक्खइं
 मासि चइत्ति पक्खि ससिजोणहइ
 रोहिणिरिक्खि कम्मसंधारणु
 अंतिमझाणु झ त्ति विरएप्पिणु
 भुवणत्तयसिहरहु सुहठाणहु
 कय णिव्वाणपुज्ज सुरसारहिं
 गउ सुरवइ जिणगुणरंजियमणु

पुणु अवसाणि नंपि संमेयहु ।
 जाणामि णाहु विमुक्कउ जोपं ।
 जीवेप्पिणु पुव्वहं कयसोक्खइं ।
 पंचमिदिवसि जाइ पुव्वणहइ ।
 दंडकवाडुरुजगजगपूरणु । 5
 तिण्णि वि तणुबंधणइं मुएप्पिणु ।
 अज्जिउ भडारउ गउ णिव्वाणहु ।
 तणु संपूइउ अग्गिकुमारहिं ।
 अवरु वि जहिं आयउ तहिं गउ जणु ।

यत्ता—जिह रिसहें भरहहु वज्जरिउं तिह हउं तुह स्यमाणण ॥ 10
 आहासमि सयररायचरिउ कुंदपुप्फदंताणण ॥ २६ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
 महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे अजियणिव्वाणगमणं णाम
 अद्वतीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ३८ ॥

॥ अजियचरियं समत्तं ॥

26 १ A दावियदरिसरिवेयहु; P दरिसियदरिसरिवेयहु. २ AP जाणिवि. ३ AP कय-
 संखइं ४ A दंडु कवाड पयरजयपूरणु; P दंडु कवाडु पयर जयपूरणु. ५ A भुवणंतय^०; P भुवणत्तइ.
 ६ AP संकारिउ. ७ APT सियमाणण. ८ AP omit अजियचरियं समत्तं.

1 a दरिसियदरिमयवेयहु दर्शितो दरीषु मृगाणां वेगो यस्मिन्मेरी. 6 b तिण्णि वि
 तणुबंधणइं औदारिकतैजसकर्मणानि. 8 a सुरसारहिं देवेन्द्रैः. 10 स्यमाणण हे श्रीमानन श्रेणिक.

XXXIX

गुणगणहरु भासइ गणहरु बहुरसभावाणिरंतरु ॥
मगहाहिव णिसुणि मंहाहिव सयरणरिदकहंतरु ॥ ध्रुवकं ॥

1

इह जंबुदीवि खरयरकराहि	मंदरगिरिपुव्विल्लइ विदेहि ।
सीयहि दाहिणयलि संणिसणु	उहामगामसीमापउणु ।
णं धरणिइ दाविउ सुहपपसु	वच्छावइ णामे अत्थि देसु । 5
मायंदणवदलुकंठियाउ	जहिं कलयलंति कलंयंठियाउ ।
कमलायर धरियसुपुंडरीय	णं णरवइ धरियसुपुंडरीय ।
उववणइं विविहवच्छंक्रियाइं	गोउलइं धवलवच्छंक्रियाइं ।
जहिं मंडव दक्खाहल वहांति	घरि घरि करिसेणियहं हल वहांति ।
जहिं णिच्चु जि सुंहु सुंहिक्खु खेउं	कामिणुउ देति कामुयहं खेउं । 10

घत्ता—विम्भिर्यसुरु तहिं पुहईपुरु पविमलमाणिमयमहियलं ॥
सरयामलु चंदयरुज्जलु घरचूलाहयणहयलं ॥ १ ॥

2

तहिं णिवसइ सिरिजयसेणु राउ	जिणसेणापणइणिजणियराउ ।
रइसेणु पुत्तु पररमणिअवर	उप्पणु ताहं दिहिसेणु अवर ।

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

शशधरविम्बाकान्ति (न्ति ?) स्तेजस्तपनाद्भ्रभीरतामुदधेः ।
इति गुणसमुच्चयेन प्रायो भरतः कृतो विधिना ॥ १ ॥

This stanza is also found at the beginning of Samdhi XVIII of this Work in certain Mss. of the Mahāpurāṇa. For details see Introduction to Vol I. pp. xvi-xxvii and also foot-note on page 295 of the same Vol. K does not give it there or here.

1 १ AP महाणिव. २ A उत्तरयलि; K उत्तरयलि but corrects it to दाहिणयलि. ३ A कलियंठियाउ. ४ AP दक्खारसु. ५ A करसणियहं. ६ AP सुत्थ. ७ AP सुभिक्षु. ८ AP विभियं. ९ AP महियल. १० चूडाहयं. ११ AP णहयल.

1 2 महा हिव महाधिप. 3 a खरयरकरा हि आदित्यकरामे, आदित्यतेजोयुक्ते इत्यर्थः. 4 a सीय हि सीतानद्याः; b °पउ णु पूर्णः. 6 b कलयंठियाउ कोकिलाः. 7 a °पुंडरीय कमलम्; b °पुंडरीय छत्रम्. 8 a °वच्छंक्रियाइं वृक्षलाञ्छितानि. 9 a दक्खाहल द्राक्षाफलानि. 10 a खेउं क्षेमं कुशलम्; b खेउं आलिङ्गनम्. 11 पुहईपुरु पृथ्वीपुरं नाम नगरम्.

2 २ a पररमणि अवर पररमणीनां अभर्ता, अपुंश्रल इत्यर्थः; सुशील इति वा.

ते बिण्णि वि जण पञ्चक्खकाम
ते बिण्णि वि जण ससिसूरधाम
ते बिण्णि वि जण पराहियविवेयं
गुरुदेवमित्तबंधवविणीउ
करपल्लवग्गताडियउराइं
अप्पउ ण मुणंति ण धैरु दुवारु

ते बिण्णि वि जण संपण्णकाम ।
ते बिण्णि वि जण जयलच्छिधाम ।
ते बिण्णि वि जण जणणहु विहेय । 5
रइसेणु णवर कालेण णीउ ।
पडियइं पियरइं सोयाउराइं ।
सिसुमोहणीउ मुणिहिं वि दुवारु ।

घत्ता—णिवडंतहं विहिं वि रडंतहं उवसमभाउप्पायणु ॥

कयसंतिहिं दिण्णउं मंतिहिं जिणवरवयंणु रसायणु ॥ २ ॥ 10

3

कुलकंचुईहिं संबोहियाइं
जणमयगलमूलालाणरज्जु
जयसेणे णासियरइरुएण
णियदेविइ सहुं रयंविहुणएहिं
दुज्जयदुण्णयदुज्जसहरासु
परिसेसेप्पिणु णीसेसु संगु
वोलीणइ गुरुसेवाइ कालि
मणि तिहुयणलच्छीवइ सरेवि
मुणिवरहिं मयणघणमारुएहिं

कहं कह व ताइं उम्मोहियाइं ।
तक्खणि दिहिसेणहु देवि रज्जु ।
सामंतं समउं महारुएण ।
अण्णेहिं मि बहुणरमिहुणएहिं ।
वउं लइयउ पणविवि जसहरासु । 5
तउ चिण्णउं तेहिं दुवालसंगु ।
पच्छा संपत्तइ मरणकालि ।
वरपरंगणचरियइं पइसरेवि ।
दोहिं मि जयसेणमहारुएहिं ।

घत्ता—दुरियल्लइं तिण्णि वि सल्लइं हिययहु कड्ढिवि घित्तइं ॥ 10

किउ अणसणु दूसहु भीसणु पंच वि करणइं जित्तइं ॥ ३ ॥

4

जयसेणु मरेवि महाबलक्खु
वेउव्विउ जहिं णीरोउ काउ

संजायउ सुरवरु जसवलक्खु ।
बावीसजलहिंसमपरिमियाउ ।

2 १ A संपुण्णकाम. २ A °विहेय but gloss °विवेकः. ३ AP घर दुवारु. ४ AP कुलमंतिहिं. ५ A °वयणरसायणु.

3 १ P कह व कहव. २ A णं मयगलथूणा°; P णं मयगलाथूला°. ३ AP रइविहुणएहिं. ४ A दुक्कियदुण्णयदुज्जसहरासु; P दुक्कियदुण्णयदुज्जयहरासु. ५ AP वउ. ६ AP परपरगण°.

5 a परहि य वि वे य परहितविवेकिनौ; b वि हे य विनययुक्तौ. 8 b सि सु मो ह णी उ पुत्रस्नेहः.

3 2 a ज ण म य ग ल मू ल ल ण र ज्जु ज न ा ए व म त्त ग ज ा स्ते षां मू ल भू त ा आ ल ण र ज्जुः ब न्ध न दोरः. 3 a ण ा सि य र इ रू ए ण ना शितरतिरोगेण; b म हा रू ए ण म हा रू त ना म्ना म न्त्रि णा सह. 6 a परि से से-प्पि णु त्यक्त्वा. 8 a ति हु य ण ल च्छी व इ त्रि भु व न ल क्ष्मी प ति र्जिनः; स रे वि स्मृ त्वा. 10 घि त्त इं क्षि त्तानि.

4 1 a महाबलक्खु महाबलनामा; b ज स व ल क्खु यशसा शुक्लः उज्वलः.

इयरु वि सुहकम्मं तहिं जि धांमि
तणु मुद्दवि महारुंउ पउरतेउ
ण मुयंति सयणं ससणेहबंधु
जो पावइ अग्गइ मणुयजम्म
बिण्णि वि ते दिवि णिवसंति जांव
कोसलपुरि राउ समुद्विजउ
विजया णामं तहु अत्थि घरिणि
सो तियसु सग्गसिहराउ व्हसिउ

सोलहमइ अञ्चुयकप्पणामि ।
संभूयउ सिरिमणिकेउ देउ ।
किउ दोहिं मि पडिबोहणणिबंधु । 5
तहु अमरु समासइ परमंधम्म ।
कालेण महाबलु ढल्लिउ तांव ।
जसु घरि घोसिज्जइ णिच्चविजउ ।
परमेसरि णाइ अणंगधरणि ।
तहि केरइ गम्भणिवासि वसिउ । 10

घत्ता—हरिकंधरु बहुलक्खणधरु छणससहरमंडलमुहु ॥

कणयच्छवि णावइ णवरवि जाणियउ जणणिइ तणुरुहु ॥ ४ ॥

5

संगामसमुद्दरउद्दमयरु
णं केसरि दरदीसंतदाहु
कालेण गलंतं जाउ पोहु
तणु तासु जोहकरभूसणाहं
मंदरभित्ति व उत्तुंगिमाइ
तहु णिवकुमारकील्लाइ लल्लिय
तेत्तिय जि महामंडलवइत्तु
गय जइयहुं तइयहुं सुकियसारु
असि चम्मं छत्तु गहवइ पुरोहु
वरजुवइ थवइ वरकुलिसदंडु
चोइह रयणइ महियलु छखंडु
दुइ पोम संख दुइ अवरुं दिव्वु

कोक्किउ कुमारु ताएण सयरु ।
दुव्वारवेरिसंगामसोहु ।
पलयक्कु व तिक्कपयावरुहु ।
चउरउसयाइं सरासणाहं ।
छज्जइ गोरी सेविय रमाइ । 5
पुव्वहं अट्टारहलक्ख गल्लिय ।
पालंतहु पत्थिवपय पयत्तु ।
उप्पण्णउ चक्कु फुरंतधारु ।
कैरि हरि कागणि मणि सेण्णणाहु ।
परपहरणगणणिइल्लणचंडु । 10
महकालु कालु पिंगलु पियंडु ।
माणव इय णव णिहि देंति सव्वु ।

4 १ AP धामि. २ A महारुह. ३ A सयणि. ४ AP पवरु धम्म.

5 १ A पयायरुहु. २ P उत्तंगिमाइ. ३ P कुमारलीलाइ. ४ AP चम्म. ५ AP गिहवइ.
६ AP हरि करि. ७ K omits थवइ. ७ AP दढ°. ८ A णिहणचंडु; P णिव्वहणचंडु. ९ A
चउदह. १० AP पचंडु. ११ A तह पोम संख णेसणु सव्वु. १२ P पवरभव्वु.

5 a ससणेहबंधु स्वस्नेहबन्धः; b णिवंधु वाग्बन्धः. 6 b समासइ कथयति. 7 b ढल्लिउ च्युतः.
10 a तियसु महाबलदेवः.

5 1 a उद्दमयरु रौद्रमकरः; b सयरु सगरः. 4 a जोहकरभूसणाहं चापानाम्.
5 a उत्तंगिमाइ उन्नत्या; b गोरी सरस्वती; रमाइ लक्ष्म्या. 7 b पयत्तु प्रयत्नेन. 9 b सेण्णणाहु
सेनापतिः. 10 a कुलिसदंडु वज्रम्. 12 a दुइपोमपन्नो महापन्नश्च; संख दुइ शंखो
महाशंखश्च.

घत्ता —महि हिंडिवि समरु सैमोड्डिवि दुर्जेण दुड्ड दुसाहिय ॥
जलथलवइ णहयर णरवइ देव वि तेण पसाहिय ॥ ५ ॥

6

वरवसुमइ असिणा वसि करेवि
आवेप्पिणु कउ उज्झहि णिवासु
जिंवं भरहहु तिंवं सयरहु जि होइ
णामेण चउम्मुहु देउ संतु
आसीणु भडारउ णिलइ जेत्यु
किंकरकरवालकरालधारु
गउ वंदणहंत्तिइ सयरुं राउ
अवलोइउं जिणपयणिहियचित्तु
भो देव महाबल णिव्वियप्प
पुहईपुरि णरवैरसंथुपहिं
चिरु चिण्णउ तउ जइणिदमग्गि

णीसेसणरेसहं कप्पु लेवि ।
एत्तिय संपय भुवणयलि कासु ।
तं वण्णहुं ण वि सकंति जोइ ।
उप्पण्णउं तहु केवलु अणंतु ।
संजायउ देवागमणु तेत्थु । 5
अण्णहिं दिणि सुंदरु सपरिवारु ।
अवयरिउ तहिं जि मणिकेउ देउ ।
बोल्लाविउ तियसें परममित्तु ।
ओलक्खहि किं मइं णाहिं बप्प ।
होइवि जयसेणमहारुपहिं । 10
जाया धिण्णि वि सोलहमि सग्गि ।

घत्ता—तुहुं सुहमइ ह्यउ णरवइ हउं ओहंछविं सुरवरु ॥
जं जंपिउ आसि वियप्पिउं तं हियउल्लइ संभरु ॥ ६ ॥

7

जे गय ते मय मउलवियणयण
संदण ण मुणंति विइण्णु णेहु
रायहं हियवइ धम्मु जि ण थाइ
अंतरि छत्तइं छसहर देंतु
अंगइं लच्छिहि दोसंकियाइं
रायउलइं पहु पइं जेरिसाइं
णिवडंति णरइ घोरंधयारि
किं रक्खइ तेरउ विजयचक्कु

जे हरिवर ते चल वंकवयण ।
किंकर णियकज्जहि देंति देहु ।
चामरपवणं उड्ढेवि जाइ ।
तं तइ वि बप्प पेक्खइ कयंतु ।
भुजंतइं केव ण संकियाइं । 5
पंचिंदियसुहविसरसवसाइं ।
ण विरप्पइ किं तुहुं भोयभारि ।
सिरि पडइ भयंकरु कालचक्कु ।

१३ AP सुमंडिवि. १४ P दुजस.

6 १ AP जिम. २ AP तिम. ३ P वंदणभत्तिइ. ४ AP सयरराउ. ५ P अवलोयउ.
६ AP णरवइ°. ७ AP सो अच्छमि.

7 १ P मउलेवि णयण. २ P वियण्णु. ३ A के णउ संकियाइं; P केम ण संकियाइं.

13 स मो ड्डिवि उड्डय.

6 1 b कप्पु कर: दण्डो वा. 8 b तियसें मणिकेतुना. 13 संभरु संसर.

7 1 a मउलवियणयण सुकुलितनेत्राः. 2 a विइण्णु वित्तीर्णो दत्तः. 5 a अंगइं
सञ्ज्याङ्गानि सप्त, गीतवृत्त्यादीनि वा. 7 b विरप्पहि विरज्यसे.

तं ह्यु वयणहु तेण ण दिण्णु कण्णु
पुणुं अण्णहिं वासरि रयणकेउ
मुणिवरु होइवि कयधम्मसवणि
तं पेच्छिवि पुरु जंपइ असेसु

घत्ता—जणणेत्तइं जहिं जि णिहित्तइं तहिं जि णिरारिउ लग्गइं ॥
बुहयंदहु तासु मुणिंदहु को वण्णइ तणुअंगइं ॥ ७ ॥

8

तं वंदिवि चित्तइ सयरु एंव
पहउ सुरूवु णउ वम्महासु
मुणि किं तुह किर वेरंगु थियउ
तं मुणिवि भणइ मायारिसिंदु
भरियउ पुणु रिउत्तउ होइ राय
तणु धणु परियणु सिविणयसमाणु
किज्जइ तरुणत्तणि तवपवित्ति
जर पसरइ विहडइ देहबंधु
पब्भट्टुचेट्टु गयरमणराउ

डहु थेरु सो वि किं णिव्वियारि
जीविज्जइ जहिं सो णिययदेसु

घत्ता—किं भव्वे पंडियगव्वे लोउ असेसु णडिज्जइ ॥

विउसत्तणु तं सुकइत्तणु जेण ण णरइ पडिज्जइ ॥ ८ ॥

9

सो सूरउ जो इंदियइं जिणइ
सो इट्टु बंधु जो धम्मु कहइ
ते कर जे पडिल्लिहणउं धरंति

सां सुद्धबुद्धि जा तच्चु मुणइ ।
तं तणुवल्लु जं वयभारु वहइ ।
ते कम जे मउयउं संचरंति ।

४ P omits पुणु. ५ AP आइवि. ६ P एहउ णरु ण अच्चुयसुरेसु.

8 १ A सरुउ; P सरुव. २ AP दरविहसियासु. ३ A मुणि; P मुणे. ४ P वइरगु.
५ A वणजोगु; P वणिजोगु. ६ AP सुद्धु पट्टुत्तणु.

9 १ A सो सुद्धबुद्धि जो. २ AP पडिल्लेहउ धरंति.

10 b °ओ हा मि य° तिरस्कृतः. 11 b सयरजिणिंदभवणि सगरचैत्यालये. 13 णिरारिउ अतिशयेन. 14 बुहयंदहु बुधचन्द्रस्य.

8 2 b दरवियसियासु ईषद्विकसितास्यः. 3 a मणि चित्ते. 4 b झिजंतु क्षीयमाणः. 5 a भरियउ पुणु रिउत्तउ होइ यो भूतः स रिक्तो भवति. 7 a तवपवित्ति तपःप्रवृत्तिः. 10 a डहु दग्धः; थेरु वृद्धः; b पंडउ नपुंसकः. 13 णरइ नरके.

9 1 a तच्चु तत्त्वम्. 2 b वयभारु व्रतभारः. 3 a पडिल्लिहणउं मयूरपिच्छम्.

तं सिरु जं जिणपयजुयलि णवइ
 ते चक्खु ण जे तियमइ णियंति
 सा जीहं ण जा रसलोल लुलइ
 सुंकारु देंतु णिंदइ दुगंधु
 तं अंगु ण जं कुसयणहु तसइ
 ते चारु केस संजमधरेहिं
 सँकयत्थइं जईकररुहइं ताइं
 डज्जउ कामाउरु सीलरहिउ

घत्ता—उज्जयमणु जं गुणभायणु तं माणुसु सुकुलीणउ ॥

तं जोव्वणु हउं मँणविं घणु जं तवचरणे खीणउ ॥ ९ ॥

तं तौडु णं जं विप्पियँइं चवइ ।
 ते सवण ण जे रइसुइ सुणंति । 5
 तं हियउ ण जं परमत्थि चलइ ।
 तं णकुं ण जं इच्छइ सुयंधुं ।
 सो मित्तु समउं जो रण्णि वसइ ।
 उप्पाडिय जे मुणिवरकरेहिं ।
 लगाइं विलासिणियणि ण जाइं । 10
 तं जीविउ जं चारित्तसहिउ ।

10

आवेहि जाहुं लइ तुहुं वि दिक्ख
 इय कहइ जइ वि सो देवसाहु
 लइ अँज्जि वि ण लहइ काललद्धि
 गउ चक्खवट्टि सणिहेलणासु
 अत्थाणि परिट्टिउ छुडु जि जाम
 आयाइं भणंतइं जीयं देव
 दे देहि तुरिउ आपसु किं पि
 मंदर महिहर जेवँडु जं पि
 तं णिसुणिवि सक्कसमाणपण
 आपसहु कारणु किं पि णत्थि
 अणुहुंजहु महु रिद्धिहि फलाइं

घत्ता—किं वग्गह पेसणु मँगगह मंडलाइं धणारिद्धइं ॥

महु एक्के मुक्के चक्के सुट्टु दुसज्जइं सिद्धइं ॥ १० ॥

सिक्खहि गयमयरय मोक्खसिक्ख ।
 पडिबुद्धउ तो वि ण पुहविणाहु ।
 जाणिवि देवे^३ कय गमणसिद्धि ।
 णं इंदिरु कमलिणिवणासु ।
 सहसाइं सट्टि तणुरुहहं ताम । 5
 पायडहुं तुहारी पायसेव ।
 णोसरहुं महारिउ रणि पयं पि ।
 लीलाइ समाणहुं कज्जु तं पि ।
 विहसेप्पिणु बुत्तउं राणपण ।
 आरुहिवि तुरंगम मत्तहत्थि । 10
 मा जंपह वयणइं चप्फलाइं ।

१ A जं ण. ४ AP विप्पियउ. ५ AP णकु. ६ A सुगंधु. ७ P सकइत्थइं. ८ AP जणं.
 ९ A उज्जयमणु. १० AP मण्णमि.

10 १ A पुहइणाहु. २ AP अज वि. ३ P कय देवे जाणसिद्धि. ४ AP जीव. ५ AP
 जेवँडु. ६ P तं सुणिवि. ७ P उत्तउ. ८ P लगाह.

5 a तियमइ स्त्री; b रइसुइ रतिशास्त्रं कामशास्त्रम्. 7 a णं कु नासिका. 8 a कुसयणहु भूमि-
 शयनात्. 10 a जइकररुहइं यतीनां नखानि. 11 उजयमणु सरलचित्तः.

10 4 a सणिहेलणासु स्वर्गदे; b इंदिरु भ्रमरः. 6 b पायडहुं प्रकटीकुर्मः. 7 b
 णोसरहुं न अपसरामः पश्चात्पादं न दद्याः. 11 b चप्फलाइं चपलानि चिप्फलानि. 12 वग्गइ
 उच्छृंखलचेष्टां कुरुत.

11

अह जह सुर्यंतु दक्खेविउं अज्जु
देवेण जाइं चक्खेसरेण
लंबियघंटाचामरधयाहं
घरसिहरहं चउवीसहं वि ताहं
जिहं णासइ खलमाणवहं मग्गु
ता णिग्गय तणय पसाउ भणिवि
धरंधरणक्खम उद्धुद्धसोंड
धाइय जुवाण मुहमुक्कराव

घत्ता—पविदंडं खणरुइचंडं फाडिउ खाणि खोणीयलु ॥

णरसारहिं रायकुमारहिं देवहुं दाविउं भुयबलु ॥ ११ ॥ 10

तो करह महारउ धम्मकज्जु ।
कारावियाइं भरहेसरेण ।
केलासु गंपि कंचणमयाहं ।
परिरक्ख पउंजह जिणहराहं ।
तिह विरयह तरसिलसलिलदुग्गु । 5
जमदंडचंड भुयदंड धुणिवि ।
णं मयगल मयंजलगिल्लगंड ।
णं पलयजलय गज्जणसहांव ।

12

णियचिरंपवाहपिहुपहु मुयंति
परिभमियवारिविब्भम भमंति
परिमलमिलियालिहिं गुमुगुमंति
सविसइं विसिविवरइं पइसरंति
गिरिकंदर दरि सर सरि भरंति
उत्तुंगतरंगहिं णहि मिलंति
कच्छवमच्छोह समुच्छलंति
पविउलजलवलयहिं चलवलंति
वलइयउ ताइ कइलासु केंव

घत्ता—धवलंगइ वेढिउ गंगइ पुणु वि मज्झु सो भावइ ॥

सुरमणहरु मंदिरमहिहरु तारापंतिइ णावइ ॥ १२ ॥ 10

करिकरडगलियमयंमलु धुयंति ।
कमलोयरमयरंदइ वंमंति ।
वणयवजालोलिहिं सिमिसिमंति ।
फणिफुक्कारिहिं दरोसरंति ।
दिसं णहयलु थलु जलु जलु करंति । 5
विर्यडयरसिलायल पक्खलंति ।
हंसावलि कलरव कलयलंति ।
कड्डिय गंगाणइ खलखलंति ।
वेसाइ पमत्तु भुयंगु जेंव ।

11 १ A सयत्त. २ AP दक्खवहु. ३ A वर रक्ख. ४ A जिम. ५ A जयदंड°. ६ A वर-
धरणुक्खम उद्दायसोंड. ७ A जलमयगिल्ल°. ८ A राय. ९ A सहाय. १० A परियट्टिउ गंगाजलु;
P परियट्टिउ गंगाजलु.

12 १ A चिरु पवाहपिहमहु. २ A मयजल चुवंति; P मयजल धुयंति. ३ P सुयंति.
४ AP वणदव°. ५ A विसिविवरइ. ६ A दिसि. ७ P जलु थलु. ८ A वियलयलसिलायलि.
९ P खलहलंति. १० A मज्झ. ११ P भाइ.

11 1 a सुयत्तु पुत्रत्वम्. 4 b परिरक्ख पउंजह रक्षां कुस्त. 5 b दुग्गु अगम्यस्नानम्.
8 b जलय° मेघाः. 9 खणरुइचंडं विद्युद्वत्प्रचण्डेन.

12 1 a पिहुपहु पृथुमार्गम्; b मयमलु मद एष मलः. 3 b वणयवजालोलिहिं
बनंदावज्वालापंक्तिभिः. 4 a विसिविवरइ सर्पाणां विवराणि बिलानि; b दरो सरंति ईषदपसरन्ति.
9 b भुयंगु विटः. 10 भावइ प्रतिभासते.

13

फणिभवणि विलग्गउ दंडरयणु
भयथरंहरंत कुंडलिय णाय
झलझलियं जलहि ढलढलिय धरणि
पडिबोहर्णकारणु मुणिउं तेण
फणिमणिपहपिहियदिणाहिवेण
तिहुयणजणमरणुप्पायणेहिं
जोइवि कुमार कय भूइरासि
तहिं कांसु वि ण हवइ पलयकालु
भूमुयाइं वि मुयाइं व दिट्ठु बंधु
उव्वारिय कह व ते विहिवसेण

तहु सहें कंपिउ सयलु भुवणु ।
वणि वणयरेहिं पविमुक्क णाय ।
विभिहउं सुरिंदु कपंविउ तरणि ।
मणिकेउणा हिं पवरामरेण । 5
होइवि मायाणायाहिवेण ।
गुंजारुणदारुणलोयणेहिं ।
णं पुंजिय सजसंविभूइरासि ।
दरिसाविउ देवे इंदजालु ।
गय भीम भईरहि पुंहे सच्चिधु ।
घरु पत्ता मुक्का पोरिसेण । 10

घत्ता—घह गंपिणु पिउ पणवेप्पिणु आसणेसु आसीणा ॥
सविसापं विण्णि वि तापं दिट्ठु सुट्ठु विहाणा ॥ १३ ॥

14

कक्केयणकिरणुभासणाहं
बिहिं ऊणी सट्ठि दुसंठिएण
मणिमयकुंडलचंचइयगंडु
दुइ आया इयर ण पइसरंति
पुव्वं चिय सुरसंकेइएण
तं णिसुणिवि मंतिं बुत्तु तेण
अत्थमंइ ण किं रवि उययभाउ
ण वि णासइ किं ताडि मेहसोह

जोयंवि सहसहं सुण्णासणाहं ।
सुयदंसणसोक्खुक्कंठिएण ।
राएण पलोइउं मंतितांडु ।
भणु कारणु तणुरुह किं करंति ।
संबोहणबुद्धिविराइएण । 5
हें महिवइ महिलहिययथेण ।
उल्हाइ ण किं पज्जलिउ दीउ ।
फुट्ठति ण किं जलबुब्बुओह ।

13 १ A थरहरंति. २ A झलझलिय. ३ A ढलढलिय. ४ AP विभिउ. ५ AP कंपियउ. ६ A पडिबोहणु. ७ AP वि. ८ P फणमणि. ९ A भूय. १० P सजसविहूइ. ११ A कासु ण हूयउ. १२ AP अमुया वि. १३ AP पुरि. १४ A उव्वरिय ते ण कह विहिवसेण.

14 १ A जोइवि सहास सुण्णा; P अवलोइवि सुयसुण्णा. २ A सुक्खुक्कंठिएण; P मोहुक्कंठिएण. ३ A पलोयउ; P पलोविउ. ४ A ते महिवइ महिलहियय; P हे महिवइ महिलहिआय-येण. ५ A अत्थवइ. ६ P उयणभाउ. ७ A जलपुव्वओह but gloss जलबुब्बुद.

13 2 a कुंडलिय कुण्डलाकारा जाताः; b णाय नादाः शब्दाः. 3 a ढलढलिय कम्पिता. 5 b °णायाहिवेण सर्पाणामधिपेन. 7 a भूइरासि भस्मराशिः; b सजसविभूइरासि स्वकीयस्य मणिकेतोर्यशसो विभूतिराशिः. 9 b सच्चिधु सध्वजः. 12 विहाणा ग्लानवदनौ.

14 1 a कक्केयण° कर्केतनरत्नम्. 2 a दुसंठिएण व्याकुलचित्तेन. 3 a °चंचइय° भलंङ्कतौ. 7 a उययभाउ उदयभाक्; b उल्हाइ विध्याति. 8 a मेहसोह मेषशोभाभूता; b °बुब्बु-ओह° बुद्बुदौषः.

थिरु होइ ण संझारायरंगु
विहडइ ण काइं सुरचावदंड
कालेण गिलियं देविंद देव

गउ आवइ णउ सरिसरतरंगु ।
किं खयहु ण वच्चइ मणुयपिहु । 10
पच्छण्णपउत्तिहिं कहिउ एम्ब ।

घत्ता—ता रायहु वाड्डियसोयहु बाहजलहइं णेत्तइं ॥
चलपत्तइं ओसासित्तइं णं गलंति सयवत्तइं ॥ १४ ॥

15

तावेक्कु परायउ दंडपाणि
जिणवरु व णिवारियभव्वविहैरु
सोत्तरियफुरियजणोववीउ
सो मंतिहिं गहियखणेहिं महिउ
ता भासइ लद्धावसरु विप्पु
संसारु असारु णिरायराय
जिह तरुवेळ्ळिहिं परगम्मु होइ
जिहोवत्थहिं जगमारणेहिं
संसारिय सयल सणेहु लेंति
मोहें बद्धा भँवि संसरंति

कासायचीरंधरु महुरवाणि ।
कुंडलियणीलभमरउलचिहुरु ।
रुवेण गुणेण वि अहुत्तीउ ।
कुलवंभणु भणिवि नृवस्सुं कहिउ ।
को पुत्तु एत्थु किर कवणु बप्पु । 5
किं सासय मण्णहि अम्मछाय ।
तिह णरु णारिहि अप्पउं ण वेइ ।
डिंभहिं डंभुंभवकारणेहिं ।
केसा इव बंधणजोग्ग होंति ।
पुणु पुणु हंवंति पुणु पुणु मंरंति । 10

घत्ता—महु वित्तइं पुत्तकलत्तइं एम भेणंतु जि णिज्जइ ॥
सुंहुं माणइ धम्मु ण याणइ जगु खयरक्खें खज्जइ ॥ १५ ॥

16

दारिवि धरणीयलु दिढभुपहिं
अहिभवणि विलग्गउ दंडरयणु

आणिय मंदाइणि तुह सुपहिं ।
णिग्गउ फणि गरलुप्पेच्छणयणु ।

८ A गलिय. ९ A पच्छण्णयउत्तिहिं.

15 १ A °चीरु धरु. २ AP°विहुरु. ३ A अहुईउ; P अदुईउ. ४ AP णिवस्स. ५ A डिंभुंभव°. ६ A मोहें बद्धा. ७ P जगि. ८ P संसरंति. ९ A मंरंति; P भवंति. १० A हवंति. ११ A रुणंतु. १२ P सुकु माणइ.

16 १ P गरलु दुपेच्छणयणु.

11 b पच्छण्णपउत्ति हिं प्रच्छन्नोक्तिभिः. 12 बाहजलहइं बाणजलेन आर्द्राणि. 13 ओसासित्तइं हिमबिन्दुभिरभिषिञ्चितानि.

15 2 a °विहुरु कथाः. 3 a सोत्तरिय° उत्तरीयवस्त्रेण सह; जणोववीउ यशोपवीतम्; b अहुत्तीउ अद्वितीयः. 4 a गहियखणेहिं तपोनिमित्तं गृहीतनियमैः. 6 a णिरायराय नृराजराज. 7 a परगम्मु होइ परवशाभिः भूयते; b अप्पउं णवेइ आत्मानं न जानाति. 11 णिज्जइ नीयते. 12 खयरक्खें यमराक्षसेन.

16 1 a दारिवि विदार्य. 2 b गरलुप्पेच्छणयणु गरलपरिपूर्णनयनः.

आरूसेपिणुं आसीविसेण
ता चवइ सयरु गयदुरियकलिलु
किं एण पणासइ ईदुसोउ
जहिं कहिं मि ण पेच्छमि सुहिविओउ
जहिं सयलकाल अयरामरत्तु
तं सिउ साहंवि गिण्हंवि चरित्तु
लइ वसुह ण इच्छिय तेण केम
ता थविवि भईरहि पुहइरज्जि
दढधम्महु पायंतिइ समग्गु

घत्ता—सहुं भीमें णिज्जियकामें चारित्तेण विहूसिउ ॥

चक्रेसरु हुउ जोईसरु मणिकेउं वि सुरु तोसिउ ॥ १६ ॥

जोइय णिवै णंदण वइवसेण ।
ण्हाइज्जइ दिज्जइ काइं सलिलु ।
वैर पंचमुट्टि सिरि देमि लोउ । 5
ण हु होइ कयाइ अणिदुजोउ ।
जहिं थकइ अप्पउ णाणमेत्तु ।
पुणु भीमकुमारु णिवेण वुत्तु ।
गुणवंतें परगेहिणिय जेम ।
अप्पणु लग्गउ परलोयकज्जि । 10
आराहिउ भावें मोक्खमग्गु ।

17

गउ तेत्तहि जेत्तहि पडिय पुत्त
अवहरिवि विउव्वियगरलै भप्पु
उट्टिय ते सायरि सायरेण
वसु वसुमइ सीहासंणु मुएवि
णियजीवियचायपरिग्गहेण
ता तेहिं विमुक्कउ णिहिलु गंधु
जाया जइ णियजणणाणुयारि
दोर्वासपयडपासुलियगत्त
उत्ताणखप्परोयरकराल
जणदिदुपुट्टिगंयवंसपव्व
कडयडियजाणुकोप्परपपस
कंकालरूव जगभीमवेस

मायाविसमुच्छारयंवलित्त ।
जीवाविय कउ णिम्मलु वियण्णु ।
भासियसुरेण महुरक्खरेण ।
गउ तुम्हहं पिउ पावज्ज लेवि ।
तुम्हइं विणडिय गंगगहेण । 5
गउ जेण महाजणु सो जि पंधु ।
णीरंजण थिरमंण णिव्वियारि ।
सकवालमूलसुणिलीणणेत्त ।
दीहरणह भासुररोमंवाल ।
विच्छिंणगाव तवतावतिव्व । 10
उववासखीण चम्मट्टिसेस ।
णिज्जणंणिवासि सुइसुकुलेस ।

२ P रूसेपिणु आसीविसविसेण. ३ AP तुह. ४ A दुदुसोउ. ५ P वरि. ६ AP सव्वकाल.
७ AP अयरामरत्तु. ८ AP साहमि. ९ AP गेण्हमि. १० AP मणिकेउ वि संतोसिउ.

17 १ AP जेत्तहि तेत्तहि. २ A °रसपलित्त; P °रयपलित्त. ३ A °गरलु दप्पु; P °गरलु
सप्पु. ४ AP सिंहासणु. ५ A °जीवियराय°. ६ AP मायागहेण. ७ P थिर मणि. ८ AP दोपासु-
पयडपंसुलिय°. ९ A उत्ताणुयखप्परो°. १० AP °रोमजाल. ११ P गयवंमपव्व. १२ AP विच्छिण्ण-
गव्व. १३ AP णिज्जणे णिवासि.

3 b व इ व सेण यमेन. 6 a सु हि वि ओ उ सुहदां वियोगः. 8 a सा हं वि साधयामि.

17 1 b °मुच्छारयं मूर्च्छावेगः. 2 a भप्पु भस्म. 3 a सा य रि सगरपुत्राः. 4 b पा व ज्ज
ले वि दीक्षां गृहीत्वा. 5 a °चा यं त्यागः; b गं गा ग हे ण ग ज्ञानयनग्रहेण. 8 a दोवासपयड° द्रयोः
पार्श्वयोः प्रकटानि; °पा सु लि यं पार्श्वस्थि. 10 b वि च्छि ण्ण गा व नष्टगर्वाः.

घत्ता—दिहिपरियर पसमियमयजर जमसंजमधरणुच्छव ॥
बहुखंमदम कुंचियकरकम णावइ थलगत्य कच्छव ॥ १७ ॥

18

सुरधणुवलए	विज्जुज्जलए ।	
गज्जंतघणे	हयविरहियणे ।	
सरिवहसरिसे	धारावरिसे ।	
संविहियथले	पवहंतजले ।	
मृगंरवमुहले	वणविडवितले ।	5
णिवसंति इसी	विलुलंति विसी ।	
गलकंदलए	पुणु कंदलए ।	
ओसापसरे	पत्ते सिसिरे ।	
दरिसियगयणे	वाहिरसयणे ।	
णिकंमपणा	धीरा समणा ।	10
तमच्छइयदिसं	गमयंति णिसं ।	
हिमणिग्गमणे	गिम्होंगमणे ।	
गिरिसिहरगया	सज्झाणरया ।	
संताघणिहिं	रविकिरणसिहिं ।	
विसहंति जई	सुविसुद्धमई ।	15
णिज्जियविसयं	इय परिसयं ।	
पालेवि समं	पुत्तेहिं समं ।	
विद्धत्थरंयं	णिष्वाणर्गयं ।	
जणतोसयरो	पत्तो सयरो ।	
णिट्टवियरिउं	णिसुणेवि पिउं ।	20
अयमेय वयं	गयमयणमयं ।	
णियपुत्तयहो	वरयत्तयहो ।	
जयलच्छिसहिं	दाऊण महिं ।	
आंसमि गुणिहे	गुत्तयंमुणिहे ।	

१४ AP पिहुखमदम.

18 १ AP विज्जुज्जलिए, २ AP संपिहिय^०; K संविहिय but gloss संपिहित^०. ३ AP मिगरव^०. ४ AP दरसिय^०. ४ AP णिभागमणे, ५ A रंहं. ६ A गंहं. ७ AP अपमेयवयं. ८ A वरदत्तयहो; P वरपत्तयहो. ९ P असमे. १० AP गोत्तयमु णेहें.

18 3 a सरिवहसरिसे नदीप्रवाहसदृशे. 7 b कंदलए मस्तकप्रदेशे. 8 a ओ सापसरे तुषापसरे. 13 a सज्झाणरया ध्यानरताः. 21 a अयमेय वयं एतदेव व्रतम्. 22 b वरयत्तयहो वरदत्तस्य.

घत्ता—अरितरुसिहि राउ भइरहि हिंसारंभु सुपप्पिणु ॥ 25
सरहंगहि तडि थिउ गंगहि जिणंपावज्ज लपप्पिणु ॥ १८ ॥

19

ताराहारावलिपविमलेहिं	सतुसारखीरसायरजलेहिं ।	
कलहोयकलसकविलियकरेहिं	तहु पयजुयलउ सिंचिउ सुरेहिं ।	
तप्पायधोयसलिलेण सिच्च	तहिं हूई सुरवरसरि पवित्त ।	
हिमवंतपोमसरवरपसूय	अज्ज वि जणु मण्णइ तित्थभूय ।	
मंदारजाइसिंदूरएहिं	अरविंदकुंदकणियारएहिं ।	5
सुपउरमयरंदायंबएहिं	अंचिवि णवकुसुमकरंबएहिं ।	
आमोयमिलियचलंमहुलिहेहिं	गंधेहिं दिण्णणासासुहेहिं ।	
थोत्तेहिं जईसरु धरियजोउ	वंदेवि देव गय समगलोउ ।	
उप्पाइवि केवलु तिजगचक्खु	संपसु भईरहि परममोक्खु ।	
घत्ता—सो मुणिवरु अजरामरु हूयउ खाणि असरीरिउ ॥		10
भरहत्थहिं णिवसत्थाहिं पुप्फदंतु जयकारिउ ॥ १९ ॥		

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे सयरणिव्वाणगमणं णाम
एकूणचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ३९ ॥

॥ सयरचरियं समत्तं ॥

११ AP जिणपव्वज्ज.

19 १ A °महुवरेहिं; P °महुयरेहिं. २ A असरीरउ. ३ AP omit सयरचरियं समत्तं..

26 सरहंग हि सरथाङ्गायाः चक्रवाकसहितायाः.

19 1 b सतुसार° सकर्पूर°. 3 a तप्पाय° तस्य पादाभ्याम्. 6 a °आयम् ए हिं आतामैः.
7 a °महुलिहे हिं भ्रमरेः. 11 भरहत्थ हिं भरतक्षेत्रवासिभिः.

पणवेपिणु संभवु सासयसंभवु संभवणासणु मुणिपवरु ॥
पुणु तहु केरी कह रंजियबुहसंह कहंवि सरासइ देउ वरु ॥ ध्रुवकं ॥

1

सदयं परिरक्खियमयं	अदयं विद्धंसियमयं ।	
चूरियअलियलयंसयं	लुंचियअलिअलयं सयं ।	
दूसियपरहणहरणयं	पुसियवंभहरिहरणयं ।	5
विणिवारियपरदारयं	परदरिसियपरदारयं ।	
रयणीभोयणविरमणं	धीरं अंविवेविरमणं ।	
कयगिहिसंगपमाणयं	बहुणयणिहियपमाणयं ।	
णाणेणं अपमाणयं	संवरणं पि पमाणयं ।	
पविहियभव्वसुरायमं	णिंदियसोंडसुरायमं ।	10
जं तवतावेणुग्गयं	जेण वीयराउग्गयं ।	
अणुहुत्तं संसारयं	णो बद्धं हरिसा रयं ।	

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

विनयाङ्कुरसातवाहनादौ नृपचक्रे दिवि (व) मीयुपि क्रमेण ।
भरत तव योग्यसज्जनानामुपकारो भवति प्रसक्त एव ॥ १ ॥

This stanza is also found at the beginning of Samdhi XXXIII of this Work in certain Mss. See foot-note on page 530 of Vol I. K does not give it there or here.

1 १ AP °बुहसुह. २ P वीरं. ३ AP add after this : देवं जं सुपमाणयं; T seems to omit it. ४ P सवरे दरिसियमायमं. ५ P adds after this : सवरेवि परमायमं; T seems to omit it. ६ P सुरामयं.

1 3 a सदयं परिरक्खियमयं सदयं यथा भवत्येवं परिरक्षितमृगम्; b अदयं विद्धंसियमयं यथा भवत्येवं विध्वस्तमदम्. 4 a चूरियअलियलयंसयं चूर्णिता अलीकलताया अंशा येन; b लुंचियअलिअलयंसयं लुञ्जिता अलिसमाना अलकाः केशा येन, स्वयं आत्मना. 5 b पुसिय निराकृतानि. 6 b परदरिसियपरदारयं परेषां दर्शितं मोक्षद्वारं येन. 7 a रयणी भोयणविरमणं रात्रिभोजनविरमणं यस्मान्द्रव्यानाम्; b अविवेविरमणं अविवेपिरं परीषहादिभ्यो निश्चलं मनो यस्य. 8 a कयेत्यादि कृतं गृहिणां सङ्गस्य परिग्रहस्य प्रमाणं येन; b बहु इत्यादि बहुभिर्न्यायैर्युक्ताभिर्निहिते स्थापिते प्रमाणे येन. 9 b णाणेणं अपमाणयं ज्ञानेन कृत्वा अप्रमाणकं सर्वव्यापकम्. 9 a सवरेत्यादि स्वपरेषामपि प्रकृष्टलक्ष्मीप्रापकम्. 10 a पविहियेत्यादि प्रविहितं कृतं भव्यसुराणामागमनं येन; b °सुरायमं मद्यप्रशंसकं शास्त्रम्. 11 a तवेत्यादि तपसस्तापः शरीरक्लेशस्तेन उग्रम्; b वीयराउग्गयं वीतरागत्वेनोद्गतं उत्पन्नम्. 12 a अणुहुत्तं संसारयं अनुभुक्तं संसुखं सारं अनन्तं सुखं येन; b हरिसारयं हर्षात्प्रापम्.

दूरज्झियसंसारयं	ण हि संसासंसारयं ।	
देवासुरकंपावणं	जं देवं कं पावणं ।	
जयपायडियसयारयं	सिद्धिपुरंधिसयारयं ।	15
कंतं तीइ अयारयं	पढंमट्टाणि अयारयं ।	
बीएँ सरहंकारयं	अरुहं णिरहंकारयं ।	
उयरलीणसयलक्खरं	मंतेसं परमक्खरं ।	
भुवणकुमुयवणसंभवं	तं वंदे हं संभवं ।	
ओसोरियअसिआउसं	णविऊणं असिआउसं ।	20
भणिमो संभवसंकहं	जोणीमुहदुहसंकहं ।	

घत्ता—तियसिंदफणिंदहिं खयरणरिंदहिं जं थुव्वइ कयपंजलिहिं ॥
तं जिणगुणकित्तणु महं सुकइत्तणु अमिउं पियह कण्णंजलिहिं ॥ १ ॥

2

दिणयरपईवए	इह पढमदीवए ।	
मेरुपुव्विल्लए	पसुंक्कणधणिल्लए ।	
तहिं विदेहे वेरे	सीयसरिउत्तरे ।	
पविमलदियंतरे	कच्छदेसंतरे ।	
रायहंसुज्जलं	सच्छविच्छुल्लु जलं ।	5
फुल्लपंकयवणं	पवणहल्लिरवणं ।	
णवकुसुमपरिमलं	सरंससुमहुरफलं ।	
रुणुरुणियमहुयरं	रइरमियणहयरं ।	

७ A पढमट्टाणअयारयं. ८ A सुमहियसरहंकारयं. ९ AP add after this : पाइय (A झाइय) णिरहंकारयं, पावियसाहुक्कारयं. १० AT ओहामियं; P ऊसारियं. ११ A भरिऊणं.

2 १ P वसुकणं. २ P विदेहे पुरे. ३ A विच्छुल्लजलं. ४ AP सरसमहुरं फलं.

13 b ण हि संसासंसारयं हि स्फुटं स्तुतिनिन्दोपरतम्. 14 b ज मि त्या दि यं देवं कं ब्रह्माणं तथा पावनं पवित्रं च. 15 a ज य इ त्या दि जगतः प्रकटितः सन् शोभन आचारोऽनुष्ठानं स्वकीयो वाचारोऽनुष्ठानं येन; b °स यारयं सर्वदानुरक्तम्. 16 a कंतं इ त्या दि कान्तं नाथम्, ती इ तस्याः सिद्धिपुरंध्याः, अ यार यं चारेण उपचारेण दूतेन वा रहितम्; b पढ मे त्या दि प्रथमस्थाने अकारं; ततः सुमहितं सुभूजितम्. 18 a सर हं का र यं रेफहंकारम्, अरुहं इत्यर्थः; b णिरहं का र यं अहंकारान्निःक्रान्तम्. 18 a उ य रे त्या दि उदरे मध्ये लीनानि प्रविष्टानि सकलान्यकारादीनि सकारपर्यन्तान्यक्षराणि यस्याहमित्यस्य; b मंतेसं मन्त्रोत्पत्ति-स्थानं मन्त्रप्रधानं वा; परमक्खरं परं परमात्मानं अक्खरं विनाशहीनम्. 19 a भुवणे त्या दि भानि नक्षत्राणि तानि पातीति भपश्चंद्रः; भुवनमेव कुमुदवनं तस्य समीचीनो भपश्चन्द्रः. 20 b ओ सा रि य-अ सि आ उ सं स्फेटितं लक्ष्म्या आयुखस्थानं येन; b अ सि आ उ सं पञ्चपरमेष्ठिनम्. 21 b जो णी त्या दि योनिमुखदुःखं जन्मदुःखं तस्य शङ्का भयं तस्या घातकम्.

2 1 a दिणयरपईवए सूर्यप्रदीपे. 4 b °देसंतरे देशविशेषे.

तुंगपाथारयं	गोउरदुवारयं ।	
विरहयमहुच्छवं	तुरयहिलिहिलिरवं ।	10
रसियनृववारणं	णीलदलतोरणं ।	
चिंधमालाउलं	विविहजणसंकुलं ।	
हेममयमंदिरं	खेमणामं पुरं ।	
तहिं सुहडसाहणो	पहु विमलवाहणो ।	
वसइ सिरिसेविओ	पणइणीणं पिओ ।	15
चारुज्जे कए	दीहकाले गए ।	
तिविहणिव्वेइणा	तेण वरराइणा ।	
थोरदीहरभुए	विर्मलकित्तीसुए ।	
सधरधरणी पया	विणिहियां संपया ।	
जिणमसंसयपहं	पणविवि सयंपहं ।	20
जायओ जइवरो	णिम्मम णिरंबरो ।	
संहिवि तवतावणं	धरिवि सुहभावणं ।	
जिणगुणनिबंधणं	भुवणयलखोहणं ।	
चिणिवि सुहसंपयं	धुणिवि भवभवरयं ।	
उवसमविहसणं	करिवि संणासणं ।	25
अवियलियसंजमो	मरिवि मुणिपुंगमो ।	
पढमगइवेयए	पढमयणिकेयए ।	
विस्सुयसुदंसणे	दुक्खविद्धंसणे ।	
अहममरवइ हुओ	भविययणसंथुओ ।	
घत्ता—तेवीस अणूणइं जलहिसमाणइं आउ णिबड्डं सुरवरहु ॥		30
बिहिं रयणिहिं जुत्तउ अद्दु णिरुत्तउ तणुपरिमाणु वि भणिउं तहु ॥ २ ॥		

3

तेवीसवरिससहसहिं असइ
वण्णे भावेण वि सुक्किलउ
णउ गेयवज्जसरकलयलउ

तेत्तियहिं जि पक्खिहिं ऊससइ ।
विलुलंतहारमणिमेहलउ ।
णउ णारि ण हियवइ कलमलउ ।

५ P तुरिय^०. ६ AP णिववारणं. ७ A विवलवाहणो. ८ A विवलकित्ती^०. ९ APT विणिहया.
१० A सहइ तव^०. ११ AP सुहसंचयं. १२ A भवभयरयं. १३ AP अविहलिय^०. १४ A पढमणिकखे-
यए; P पढमइ णिकेयए. १५ A विहरयणिहिं.

3 १ A तेवीससहासवरिसहिं; P तेवीससहसवरिसेहिं. २ A सुक्किलउ.

17 a ति वि ह णि व्वे इ णा संसारशरीरभोगवैराग्येण. 19 b वि णि हि या समर्पिता. 24 a चि णि वि
अर्जयित्वा. 26 a अ वि य लि य^० अन्नष्टः. 28 a वि स्सु य सु दं स णे विश्रुते विख्याते सुदर्शने विमाने.

3 1 a असइ अ भो ति. 3 a ^०वज्जसर^० वाद्यस्वरः, b कलमलउ ध्याकुलत्वम्.

पाविट्ट दुट्ट जहिं णत्थि जणु णाणं जाणइ सुरणरणियइ तं तेत्तिउ वैट्टइ णिट्ठियउं ता एत्तहि उववणि रमियंसुरि इक्खाउवंसु सुविसुद्धमइ धणुगुणसंधियपंचमसरहु एक्कहिं दिणि णिसि पच्छिमपहरि घत्ता—सा सालंकारी सेण भडारी पइवय सोलह सुंदरइ ॥ महिमंडलसामिणि मंथरगामिणि अवलोयइ सिविणंतरइ ॥ ३ ॥	जो जो दीसइ सो सो सुयणु । सत्तमणरयंतु जाम णियइ । 5 जांवाउसेसु तहु णिट्ठियउं । इह भरहखेत्ति सावत्थिपुरि । हयसदुं ददु णामं पुहइवइ । तहु घराणि सुंसेण सेण सरहु । सुहुं सुत्ती देवि सवासहरि । 10
---	---

4

करिणं वसहं केसरिणं झसजुय कुंभजुयं च वरं हरिवीढं देविदघरं विष्फुल्लिगपिंगलियणहं इय जोइवि पीणत्थणिया सिसुमयणयणा पत्तलिया अहिणववेत्ति व कोमलिया करि धरिवि सविलासिणियं पत्ता कंता रायंहरं अवलोइवि पइमुहकमलं णियबुद्धीइ परिग्गहियं जस्स वसा तेलोक्कसिरी अमरउलं चियं भिच्चउलं सो भदे तुह दिणवरो	लच्छि दामं चंदमिणं । सरवरममलिणमयरहरं । फणिभवणं फुडमणिणियरं । सिद्धिणं जलियं दीहंसिहं । पविउद्धा सीमंतिणिया । 5 णीलुण्णलदलसामलिया । गहियाहरणा संचलिया । कलहंसी विव हंसिणियं । सिहरोलंबियसलिलहरं । पुच्छइ सत्था सिविणहलं । 10 तेण वि तिस्सा तं कहियं । मज्जणवीढं मेरुगिरी । जस्स घरं तिजगं विउलं । होही तणओ तित्थयरो ।
--	---

३ AP वट्टइ. ४ A रमियसरि. ५ A इक्खागुवंस. ६ A हयसयददु. ७ A समेण. ८ A सुहसुत्ती; P सुहं सुत्ती.

4 १ AP झसजुयलं कुंभजुयं पवरं. २ A दीयसिहं. ३ P विउद्धा. ४ P मयसिसु°. ५ P रयणहरं. ६ A विय; P पिय°. ७ P तित्थहरो.

5 a °णि यइ °कर्मविपाकः; b णि यइ निरीक्षते. 6 a णि ट्ठियउं निर्गतम्; b णि ट्ठियउ निश्चयेन स्थितम्. 8 b ददु इदरथः. 9 b सुसेण सुषेणानाम्नी; सेण सरहो स्मरस्य सेना सैन्यम्. 11 सेण सुषेणा.

4 1 b इणं सूर्यम्. 2 b °मयरहरं समुद्रम्. 3 a दे विं द घरं सुरविमानम्. 6 a सिसु मय° शिशुमृगः. 9 a रायहरं राजमन्दिरम्; b °सलिलहरं मेघम्. 11 a परिग्गहियं परिज्ञातम्. 13 a भिच्चउलं भृत्यकुलम्.

घत्ता—तं गिसुणिवि सुंदरि सरमहिहरदरि रोमंचिय पुलपण किह् ॥ 15
महुसमयहु वत्तइ पोसियसोत्तइ पणइणि पियमाहविय जिह् ॥ ४ ॥

5

वज्जिणा धम्मकज्जं तओ पीणियं
एत्थ सावत्थिरायस्स गेहे जिणो
जाहि ताणं तुमं होहि तोसायरो
तामयासाहिवाणाइ मावट्टणं
सव्वहेमालयं सूरयंतप्पहं
आगया गव्वसंसोहणत्थं इरी
जाम छम्मास ता संपयालिंगणे
फग्गुणे मासए सुक्कपक्खंतरे
सिंधुरायारधारी सुहेणुण्णओ
णारिदेहे थिओ सुद्धधाउत्तए
धम्मचंदस्स सच्चंदिमाणंदिया
णिच्च माणिक्करासी पुणो घत्तिया
दीहरद्धीसमाणं खणेणं खणं
जित्तसत्तसुए कम्मणिम्मक्कए
कत्तिए पुण्णिमासीइ भे पंचमे
तइउ तइया तिणाणी समुप्पण्णओ
आइया भावणा जोइसा वित्तरा
अंकुसो भामिओ देहभाधारिणा
णच्चमाणा परे गायमाणा परे

चित्तियं चित्तणिज्जं मेणे भावियं ।
जक्ख होही सुसेणासईणंदणो ।
वासवित्ताइरिद्धीपवित्तीयरो ।
दव्वणाहेण वेउव्वियं पट्टणं ।
सव्वकालंधिवं सव्वसोकखावहं ।
कंतिं कित्ती दिही लच्छि बुद्धी हिरी ।
भम्मबुट्टी कया राइणो पंगणे ।
पंचमे रिक्खए अट्टमीवासरे ।
पुज्जगेवज्जदेवो समोइण्णओ ।
वारिबिंदु व्व राईविणीपत्तए । 10
देवदेवेण मायापिऊ वंदिया ।
दोससंखेहिं पक्खेहिं णिव्वत्तिया ।
कोडिलक्खा गया तीस जइया घणं ।
पैत्तिए बीर्यत्तित्थंकरे दुक्कए ।
सोमंजोए दुज्जोयावलीणिग्गमे । 15
इंदुं इंदो रवी कंपिओ पण्णओ ।
सायरा भासुरा कप्पवासी सुरा ।
चोइओ वारणो झत्ति जंभारिणी ।
धावमाणा परे खेलमाणी परे ।

८ P जह.

5 १ A मणे जाणियं; P कजयं जाणियं. २ AP मावट्टणं. ३ A सूरयंतं पदं. ४ A सोहणत्थे इरी and gloss इरी त्वरिता; T इरी; PK सिरी. ५ P कित्ति कंती. ६ P पुव्वगेवज्जं. ७ AP पत्तए. ८ A बीइ तित्थंकरे. ९ A सोमजोए. १० A इंदु इंदो रई किं पि उप्पण्णओ; P सहसु लक्खणहं वसुअहियसंपुण्णओ. ११ A देहभावारिणो; P देहसाधारिणा. १२ A जंभारिणो. १३ AP खेलमाणा.

15 सरमहिहरदरि स्मरपर्वतदरी. 16 पणइणि सस्नेहा; पियमाहविय प्रिया माधवीलता यस्याः सा कोकिला.

5 1 a पीणियं पीनं महत् कृतम्. 3 b वासवित्ताइं गृहद्रव्यादि. 4 a अमयासाहिवाणाइ इन्द्राज्ञया; मावट्टणं लक्ष्मीप्रवर्तनम्. 5 a सूरयंतप्पहं सूर्यकान्तप्रभम्. 6 a इरी त्वरिताः. 10 a सुद्धधाउत्तए अदूषितवातपित्तश्लेष्माणः; b राईविणीं पद्मिनी. 11 a धम्मचंदस्स धर्मद्योतकस्य जिनस्य; सच्चंदिमां शोभनदीप्तिः; b दोससंखेहिं अष्टादशभिः. 13 a दीहरद्धीसमाणं दीर्घसागरोपमानम्. 14 b पत्तिए प्रवृत्ते. 15 a भे पंचमे मृगशिरोनक्षत्रे.

सदृहासा परे गजमाणा परे सीहसर्दा परे संखसदा परे । 20
 छाइयासारसा सारसा सासुरा चित्तचारेहि पत्तेहि पत्ता सुरा ।
 घत्ता—पुरु परियंचेपिणु घरु जाणपिणु जणणिहि देपिणु सिसु अवरु ॥
 पियरइं पुजेपिणु कर मउलेपिणु लइउ सुरिदें तिथ्यरु ॥ ५ ॥

6

जिणरुवरिद्धि पेच्छंतियइ सुरवरपंतिइ गच्छंतियइ ।
 तक्खणि तारायणु लंघियउ सुरसिहरिसिहरु आसंघियउ ।
 पविलोइय पंडुर पंडुसिले सा खंडससंकसमाण किले ।
 ता तहिं सईइ सईं धारियउ करिकंधराउ उत्तारियउ । 5
 हरिआसणि पहु वइसारियउ इंदेण मंतु उच्चारियउ ।
 दिण्णउं दग्धासणु णिहयमलु दसदिसु परिघित्तु संकुसुमजलु ।
 दसदिसु सुंधूवु उच्चाइयउ दसदिसु चरुभाउ णिवेइयउ ।
 दसदिसु थियं सुरवर कलसकर दसदिसु वित्थरिय मुइंगसर ।
 खीरोयखीरधारधरहिं सिंचिउ जिणिंदु सयलामरहिं ।
 हारावलितडिफुरिणहिं किह गज्जांतिहिं मेहहिं मेरु जिह । 10
 घत्ता—मंगलु गायंतिहिं पुरउ णडंतिहिं दावियवहुरसर्भावहिं ॥
 णाणाविहभासहिं थोत्तसहासहिं जगगुरु संथुउ देवहिं ॥ ६ ॥

7

हरिणा परमेद्धि पसाहियउ सुइथुइगिराहिं आराहियउ ।
 सिहिणा तहु दीवउ बोहियउ जउं जंपइ हउं पइं साहियउ ।
 रिंछाहिउ रिंछहु ओयरिउ विणएण णएण जि संचरिउ ।
 जडवइणा जडमणु परिहरिउ परमप्पउ णियहियवइ धरिउ ।
 वाएण भडारउ विज्जियउ रयणेसें रयणाहिं पुज्जियउ । 5

१४ A सदृहासा. १५ P संखसदा परे पडहसदा परे. १६ A चित्तचारेहि; P चित्तयारेहि.

6 १ AP पंडुसिला. २ AP किला. ३ P सुकुसुम°. ४ A दसदिस सुधूसु; P दसदिसु
 उधूसुच्चा°. ५ AP सुरवर थिय. ६ A °भावहिं; P °भावेहिं. ७ A णाणाविहभासहिं;
 P णाणाविहिभासेहिं.

7 १ P सदृथुइ°. २ AP जडवयणा.

21 a सारसा उत्कृष्टलक्ष्मीकाः; सासुरा ससुराः सुरसहिताः; b चित्तचारेहि नानाप्रकारवृत्तिभिः;
 णत्तेहिं वाहनैः. 22 परि यंचेपिणु प्रदक्षिणीकृत्य.

6 2 b आसंघियउ आश्रितम्. 3 b खंडससंकसमाण अर्धचन्द्रसदृशी. 4 a सईइ
 शब्दा. 7 a उच्चाइयउ उत्क्षितः; b चरुभाउ चरुभागः. 12 णाणाविहभासहिं विचित्रभाषायुक्तैः.

7 2 b जउं यमः. 3 a रिंछाहिउ नैर्ऋतः. 4 a जडवइणा वरुणेन. 5 b रयणेसें धनदेन.

ईसाणं ईसु भणिवि णविउ
सूरेण वि मोहंधारहरु
धरणिदं धरणिसमुद्धरणु
इय बहुगिब्वणहिं वंदियउ

सुसुहासूपं सुहाहि णहविउ ।
सुरु जि णिज्झाइउ परमपरु ।
पत्थियउ महुं देव तुहुं जि सरणु ।
ध्रुवु संभवु संभवु सहियउ ।

घत्ता—पुणु पुणु पणवेप्पिणु घरु आणेप्पिणु दिणु सुसेणासुंदरिहि ॥ 10
गुरुचरणइं अंचिवि सुक्किउ संचिवि गउ सुरवइ सुरवरपुरिहि ॥ ७ ॥

8

कणयच्छवि सुट्टु सलक्खणउ
अंगउ लायणमहिड्डियउ
जसु आयत्तउ सयमेव विहि
जसु अंगि दुट्टु लोहिउं गणमि
जसु गुणपरिमाणु णेय लहंवि
अच्छरणरामाणंदणहु
कीलंतहु अमरवरेहिं सहं
घरघडियारयदंडेण हय
पइरत्तउ पेच्छिवि तरुणियणु
उर्वणेप्पिणु नृवंइकुमारिगणु
घत्ता—तूरहिं वज्जंतहिं गलगज्जंतहिं तियसेहिं किं ण विसंट्टु महि ॥
जिणणाहु णहवन्तिहिं वारि वहंतिहिं किं जाणहुं सोसिउ उवहि ॥ ८ ॥

जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणउ ।
चउचावसयाइं पवड्डियउ ।
सो किं वणिज्जइ रुवणिहि ।
सो खमवंतउ किं किर भणमि ।
सो सूहउ हउं किरं किं कहंवि । 5
तेहु तेत्थु सुसेणाणंदणहु ।
भुंजंतहु रायकुमारसुहुं ।
पुव्वहं पणारहलक्ख गय ।
आहंडल्लु आयउ तहिं वि पुणु ।
पारंभिउ रायहु परिणयणु । 10

9

भालयलइ पट्टु चडावियउ
चित्तंतहु तासु णयाणयइं
पुव्वहं परमाउहि संचलिय
तइयहं तहिं दियंहि सुसोहणइ
अवलोइवि गयणि विलीणु घणु
वेरग्गु पह्यउं जिणवरहु

रायासणि राउ चडावियउ ।
पालंतहु गाम्पणयरसयइं ।
चालीस चयारि लक्ख गलिय ।
अच्छंतहु सुहुं सणिहेलणइ ।
थिय महिगयणयणु विसणमणु । 5
हरि सजव वि णंति ण सिवपुरहु ।

३ A सुसुहासूहं; P सुसुहासूहं. ४ A ध्रुव संभव संभव; P ध्रुउ संभव संभव. ५ A आवेप्पिणु.

8 १ AP महड्डियउ. २ A किं किर. ३ A रामावंदणहु. ४ A ता तेत्थु. ५ AP पेक्खिवि.
६ T उवणेप्पिणु. ७ AP णिवहं. ८ AP णाहु. ९ P विसट्टु.

9 १ P पट्टु. २ A णयरगामसयइं. ३ A दिवसि. ४ AP सुहुं. ५ A पह्वउं.

6 b सुसुहासूहं चन्द्रेण; सुहा हि अमृतेन.

8 3 a आयत्तउ अभीनः. 4 a लोहिउं लोहितम्. 9 a पइरत्तउ स्वामिनि रक्तम्.
10 उवणेप्पिणु दत्त्वा. 11 विसट्टु उल्लसिता. 12 उवहि समुद्रः.

9 2 a णयाणयइं न्यायान्यायम्. 6 b हरि सजव अश्वः सवेगाः.

गय मत्ता महुं वि जणंति मउ
 चामरवापं नृवु मोडियउ
 सिरि धरियई वारिणिवारणइं
 तहिं अवसरि लोयंतिय अइय
 जं इंदियसोकखु समुज्झियउं
 घत्ता—जो पइं संयोहइ सो संवोहइ सूरहु दीवउ मूढमइ ॥
 पइं मुइवि गुणुभव सामिय संभव को परियाणइ परमगइ ॥ ९ ॥

पहु रह रहंति मुणिधम्ममउ ।
 भणु कवणु ण कालें तोडियउ ।
 पुणु होंति ण मारिणिवारणइं ।
 ते विण्णवंति भत्तिइ लइय । 10
 तं चारु चारु पइं बुज्झियउं ।

10

आणंदु ण हियवइ माइयउ
 पुणु परिवृद्धिं देवावलिहिं
 थिरदीहरहत्थगलत्थियहिं
 संगहैविउ णविउ पोमाइयउ
 दुम्मोउं मुप्पिणु रज्जंगहु
 परमेसरु पणइणिपाणपिउ
 बहुखगमाणियफलसाउयउं
 परिसेसेप्पिणु सिरिरमणिउरु
 उप्पाडिउ केसकलाउ किह
 सकुसुमु सभसलु सु करिवि करि
 किउ रोसपसायहं णिकखवणु
 उववासु करेप्पिणु सावसरि
 सावत्थिहि चरियामग्गु किउ

पुणु तेत्थु पुरंदरु आइयउ ।
 आहूय दुद्धसलिलावलिहिं ।
 चामीयरघडपत्तहत्थियहिं ।
 वन्थालंकारविराइयउ ।
 सिद्धत्थयसिवियारुद्धु पहु । 5
 णरखयरहिं नियसहिं वहिवि णिउ
 णंदणवणु गंपि सहेउयउं ।
 पणवेप्पिणु देवें सिद्धगुरु ।
 भवकुरुहंमूलपब्भारु जिह ।
 सइरमणें घित्तउ मयरहरि । 10
 रीयहं सहसं सहं णिकखवणु ।
 वीयइ दिणि दिणयरकरपंसरि ।
 देविंदेदत्तणिवभवणि थिउ ।

६ AP णिवु. ७ AP गुणणव.

10 १ AP परितुद्धिहिं. २ A आहूउ. ३ A सो णविउ. ४ A दुम्मोह. ५ P रज्जुगहु. ६ P णरखेयरतियसहिं. ७ P adds after this: आगहणमासि सियकुहुयदिणि, मिलउवरि णिहिउ उइयइणि. ८ A रमणियरु. ९ A मूल पब्भारु. १० A रोसकमायहं. ११ AP रायहंससहमें. १२ A °कयपसरि. १३ P देवेंदुदत्त°.

7 b पहु मार्गम्; रहंति रुन्धन्ति आच्छादयन्तीत्यर्थः; मुणिधम्ममउ उत्तमक्षमादिरूपः. 8 a मोडियउ भगवद्भ्रूकृतः. 9 a वारिणिवारणइं छत्राणि. 10 a अइय आगताः. 12 संयोहइ प्रञ्जालयति.

10 2 a परिवृद्धिं वर्धिताभिः; b आहूय आनीय. 4 a पोमाइयउ प्रशंसितः. 5 a दुम्मोउ दुःखेन मोचनीयः. 7 a °साउयउं स्वाहु; b सहेउयउं सहेतुकसंज्ञम्. 8 a परिसेसेप्पिणु त्यक्त्वा; °उरु चित्तम्. 9 b भवकुरुहंमूलपब्भारु संसार एव कुरुहो वृक्षस्तस्य मूलानां समूहः. 10 b सइरमणें इन्द्रेण. 11 a रोसपसायहं रोपतोप्राणाम्. 12 a सावसरि निजप्रस्तावे पारणवेलायाम्. 13 b देविंददत्तणिव° इन्द्रदत्तनृप°.

घत्ता—सुररबु मंदाणिलु घणर्वरिसियजलु सुरहिउ मणिकोडिहिं सहिउ ॥
दायारउ पुज्जिउ दुंदुहि वज्जिउं दाणपुणुं देवहिं महिउं ॥ १० ॥ 15

11

देंतेण ण संकडु चितविउं	जं अण्णहु कासु वि णिम्मविउ ।
जं संजमजोगउ बुज्झियउं	दहिसप्पिखीरतेल्लुज्झियउं ।
तं भुंजइ सउवीरोयणउं	पडिसेहियदप्पुंक्कोयणउं ।
गहणंति कहिं वि अहणिसु गमइ	जंपइ ण किं पि सं संसमइ ।
विहरइ मणपज्जवणाणधरु	विसमें जिणकण्णं जिणपवरु ।
तउ एंव करंतहु झीणाइं	चउदहवरिसइं बोलीणाइं ।
कत्तियसियपक्खि चउत्थिदिणि	अवरण्हि जम्मरिक्खि वियणि ।
छट्टेणुववासं णिट्ठियहु	सुविसालसालतलि संठियहु ।
गइ पढमि बीइ सुक्कुग्गामणि	चउकम्मकुलक्खयसंकमणि ।
उप्पणउं केवलु केवलिहि	गयणोवडंतकुसुमंजलिहि ।

घत्ता—तहु जाएं णाणं णेयपमाणं जे केण वि णं वि चितविय ॥
ते विवरि अहीसर महिहि महीसर सग्गि सुरिंद वि कंपविय ॥११॥

12

खगामिणा	ससामिणा ।
समेयया	अमेयया ।
अमाहरा	रमाहरा ।
मलासयं	णियासयं ।
कुणंतया	थुणंतया ।

१४ A °वरसिय.° १५ AP गज्जिउ. १६ A दाणवंतु.

11 १ A चितियउ. 2 A दुक्खुक्कोहणउं. 3 A सं सम्ममइ. ४ A ण वि चितिय; P ण वि चितविया. ५ A वि कंपिय; P वि कंपविया.

14 सुरहिउ सुरभिवातः.

11 2 b उज्झियउं त्यक्तम्. 3 a सउवीरोयणउं काज्जिकोदनम्; b पडिसेहियदप्पुंक्कोयणउं प्रतिषेधितदर्पोत्कोचनकम्. 4 a गहणंति वनान्ते; b सं संसमइ आत्मानं सम्यक् शमयति. 7 b वियणि वने. 9 a सुक्कुग्गामणि शुक्लध्याने उद्भूते सति. 12 विवरि पाताले.

12 1 a-b खगेत्यादि आकाशगामिना स्वस्वामिना समेताः सुरासुराः (12 b) प्राप्ताः इति संबन्धः. 2 b अमेयया प्रचुराः. 3 a अमाहरा अलक्ष्मीषिनाशकाः; b रमाहरा लक्ष्मीधारकाः; 4 a मलेत्यादि मलासयं मलक्षेपकम्; b णियासयं निजचित्तम्. 5 a कुणंतया कुर्वन्तः; b थुणंतया स्तुवन्तः.

मुणीसरं	सरो सरं ।	
ण संधण	ण विंधण ।	
ण जम्मि सा	मलीमसा ।	
रइच्छिहा	कया विहा ।	
महाजसं	तमेरिसं ।	10
महाइया	पराइया ।	
समासुरा	सुरासुरा ।	
सिमुग्गया	समुग्गया ।	
रसुद्धुरा	इमी गिरा ।	
सुसाइया	अणाइया ।	15
सुवत्तया	अवत्तया ।	
रसंकिया	रसुज्झिया ।	
सरूवया	अरूवया ।	
सुंगंधया	अगंधया ।	
सकारणा	अकारणा ।	20
ससंभवा	असंभवा ।	
ससंगया	असंगया ।	
रयासवं	पुणो णवं ।	
देयाणिही	तवोविही ।	
अहंगया	अहंगया ।	25
ण ते णया	वरायया ।	
सरायया	समायया ।	

12 १ P रईच्छिहा. 2 P adds after this: सतच्चया, अतच्चया. ३ AP संगंधया. ४ P दयामही.

6 b सर इत्यादि स्मरः कामः शरं बाणम्. 8 a ण जम्मीत्यादि यस्मिन् मुनीश्वरे सा प्रसिद्धा; b मलीमसा मलिना. 9 a रइच्छिहा रतिस्पृहा; b कयाविहा द्विधा खण्डिता पुनर्न संजाता यस्मिन्नित्यर्थः. 10 b तमेरिसं तं ईदृशं मुनीश्वरम्. 11 a महाइया महादृतास्ते सुरासुराः. 12 a समासुरा समं युगपत् आसमन्तात् शोभनं रान्तीति. 13 a सिमुग्गया सिं तेषां सुरासुराणां उद्रता निःसृता; b समुग्गया सम्यगुच्चैर्दशदिक्षु गता. 14 a रसुद्धुरा रसाढ्या. 15 a सुसाइया हे शोभनश्चासौ सादिश्च सर्वज्ञरूपेण; b अणाइया जीवद्रव्यापेक्षया हि अनादिभूत. 16 a-b सुवत्तया अवत्तया इत्यादयः सुव्यक्ता अव्यक्तादिधर्माः शरीरापेक्षया ज्ञानापेक्षया च योजनीयाः. 21 a ससंभवा सह संभवेन सुखसद्भावेन वर्तमाना; b असंभवा संसारहिता. 22 a ससंगया सह समीचीनेन गतेन ज्ञानेन संयुक्ता; b असंगया सङ्गरहिता यदि वा असंगया असंप्राप्ता. 23 a-b रयासवं पुणो नवं कर्माश्रवं पुनरपि नवम्. 25 a अहंगया अभंगक भंगरहित देव; b अहंगया अधं पापं गता. 26 a ण ते णया न ते तव नताः; b वरायया वराकाः. 27 a सरायया सरागाः नृपतिसहिता वा; b समायया वञ्चनायुक्ताः परवञ्चकाः.

खयं गया	महादिया ।	
सहंदिया	अणिदिया ।	
णिविंदियाँ	णिवंदियाँ ।	30
पसाहिओ	पबोहिओ ।	
कुक्कम्मरं	सुयंतरं ।	
कहंति जे	कुयुद्धि ते ।	
णगेसु या	पुरीसुं या ।	
पढंतुं मा	ण ताण मा ।	35
सुसांसया	णिरंसया ।	
सुणीरण	तुहारण ।	
अदुण्णए	बुहा मए ।	
कउज्जमा	महाखमा ।	
चरंति जे	लहंति ते ।	40
महुंणइं	परंगइं ।	
सुहं गया	हयावया ।	
णिरामया	सरामया ।	
णिरंजणा	णमो जिणा ।	

घत्ता—कयंमाणवखंभहिं सारसरंभहिं वेल्लीदुर्ममणिवेइयहिं ॥ 45
 वरधूलीसालहिं णच्चणसालहिं गोउरधूहहिं चेइयहिं ॥ १२ ॥

13

जहिं समवसरणु सुरणिम्मविउं

गुरु कंठीरवविट्ठरु ठविउं ।

५ AP णिवंदिया. ६ A omits this foot. ७ P कुक्कम्मदं. ८ AP णएसु वा. ९ P पुरेसु वा.
 १० A पढंत मा. ११ A सुसंसया. १२ APT महुण्णइं. १३ A माणवहरखंभहिं; K omits कयं.
 १४ P वल्ली°.

13 १ A विट्ठर.

28 a-b खयं गया क्षयं गतास्ते महाद्विजा लिङ्गिनो वा. 29 a सहंदिया द्रव्येन्द्रियसहित; b अणिदिया भावेन्द्रियरहित, अथवा अणिदिया अनिदित. 30 a णिविंदिया मनुष्यवन्दित अथवा णिविमित्यादि नृपं राजानं विप्राः द्विजाः. 32 a कुक्कम्मरं कुक्कर्मदम्; b सुयंतरं श्रुतान्तरम्. 35 b णताणमा न तेषां लक्ष्मीर्द्विजानाम्. 36 a सुसासया सुष्ठु शाश्वता मोक्षलक्ष्मीरित्यर्थः, अथवा सुसासया शोभनलक्ष्म्या आश्रयः; b णिरंसया निष्कल. 37 a सुणीरण सुष्ठु निर्मले; b तुहारण त्वदीये. 38 a अदुण्णए दुर्नयरहिते; b बुहामए मते मार्गे बुधाः. 41 b महुंणइं स्वर्गादिलक्ष्मीम्; b परंगइं मुक्ति वा. 42 b सुहंगया हे देव शुभशरीरः; b हयावया हातापदा येन. 43 a णिरामया रामारहित; b सरामया स्मरस्य कामस्यामयो रोग इति सुरासुराणां निर्गता गीः.

जहिं सुविहावलउं विलंबिकरु
जहिं णहणिवडिउं पसूयपयरुं
जहिं छत्तइं तिण्णि समुब्भियइं
जकिंखदमउंउसिहरुद्धरिउ
जहिं वंति गंति णच्चंति सुर
तहिं सणिसणु सो परममुणि
झुणि साहइ जणजम्मंतरइं
झुणि साहइ मणुयदेवसुहइं
झुणि साहइ जीवरासिकुलइं

घत्ता—झुणि सुणिवि पवुद्धहं जाइविसुद्धहं णिगंगथहं मउलियकरहं ॥

जायउ गयगामिहि संभवसामिहि पंचुत्तरु सउ गणहरहं ॥ १३ ॥

अलिचुंबियफुल्लु असोयतरु ।
आहंडलडिडिमु मुयइ सरु ।
विविहइं चिंधइं चमरइं सियइं ।
जहिं धम्मचकु आराफुरिउ । 5
विंभैयरसपरवस थक्क णरं ।
मुणिवयणविणिंगउ दिव्वझुणि ।
झुणि साहइ भूभुवणंतरइं ।
झुणि साहइ णरतिरियदुहइं ।
झुणि साहइ बंधमोक्खफलइं । 10

14

तहिं चारुसेणु पहिलउ भणिवि
दोसहसइं अवरु विवहु सउ
सयतिउ सलक्खु सिक्खुयमइहिं
परमोहिणाणधारिहिं मियइं
पण्णारहसहसइं केवलिहिं
सहसाइं रिसिंदहं वसुसयइं
सउ सहु सहासइं तवसमइं
सउ सयहं समउ सयवीसइइ
जायइं वम्मीसरदाराहं
लक्खाइं तिण्णि रइवज्जियहं
सावियहं लक्ख पंच जि भणमि

घत्ता—अहाणिसु कयसेवहं चउविहदेवहं देविहिं संख ण दीसइ ॥

संखेज्जतिरिक्खहं इच्छियसोक्खहं धम्म उधम्मं वि भासइ ॥१४॥

पुणु गणमुणि मेळ्ळिवि मुणि गणंविं ।
पुवंगधरहं थिउ जिणिवि मउ ।
पक्कणतीससहसइं जइहिं ।
छहसयइं रंधसहसंकियइं ।
पक्कणवीस पसमियकलिहिं । 5
वेउव्वणगिद्धिहिं कयवयइं ।
मणपज्जवधरिहिं धरियसमइं ।
जइवाइहिं संखं करविं मइइं ।
दुइलक्खइं एंव भडारोहं ।
दहगुणिय तिण्णि सहसज्जियहं । 10
सावयहं तिण्णि ते हउं मुणमि ।

२ AP फुल्ल. ३ A णिवडिय. ४ AP °पवरु. ५ A °मउल°. ६ AP मुरा. ७ A विंभिय. ८ AP णरा. ९ P °विणिंगय. १० P भुवणु अणंतरहं. ११ A णरयतिरिय°.

14 १ P भणमि. २ A गणिवि. २ A सिक्खुव°; P सिक्खय°. ३ AP सहु. ४ P सयवीसइहु. ५ AP करमि संख. ६ P मइहु. ७ A जाया. ८ A °दारयहं. ९ A भडारयहं. १० AP मुणमि. ११ AP भणमि. १२ AP अहम्म वि हासइ.

13 २ a सुविहावलउं शोभनं भावलयम्; विलंबिकरु प्रसूतक्रियणम्. ३ a पसूयपयरु पुष्पप्रकरः. (५) a वंति वादयन्ति.

14 4 a मियइं मितानि; b रंधसहसंकियइं नवसहसयुक्तानि. 8 a सयवीसइइ शतानां विंशत्या.

15

महि विहरिवि भवियतिमिरु लुहिवि
 तहिं दोण्णि पक्ख तणुचाउ किउ
 दिक्खहि लग्गिवि पुव्वहं तणउं
 बद्धाउहिं पुव्वहं धिंत्ताइं
 मासम्मि पहिल्लइ पक्खि सिइ
 णियजम्मरिक्खि संभाइयउ
 छेइल्लउ सुक्कज्जाणु धरिवि
 पुग्गलपरिणामहु णवणवहु
 ठिउ अट्टमपुहंइहि अट्टगुणु
 सुरमुक्ककुसुमरयमहमहिउ
 वउ वीयरायरायहु लल्लिउ
 लोणहिं पवित्त पावरहिय

संमेयहु सिंहरु समारुहिवि ।
 रिसिसहसैं सहुं पडिमाइ थिउ ।
 चोइहवरिसूणउं लक्खु गउ ।
 लक्खाइं सट्ठि अणुहुत्ताइं । 5
 अवि घाइचउक्कु वि घाइयउ ।
 किरियाविच्छित्तिं झत्ति करिवि ।
 गउ मुक्कउ संभवु संभवहु ।
 महुं पसियउ णिक्कलु णाणतणु ।
 दीवेहिं गंधधूवहिं महिउ । 10
 अग्गिंदमउडमणिसिहिजलिउ ।
 अरुहंगभूइ सीसैं गहिय ।

घत्ता—जिणणिष्वाणुच्छवि सच्छरु सविहवि सुरवइ भरहु पणाच्चिउ ॥
 गउ णियंघररंगहु सिंगारंगहु पुष्पदंतणियराच्चिउ ॥ १५ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरहय
 महाभवभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे संभवणिष्वाणगमणं णाम
 चालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४० ॥

॥ संभैवचरियं समत्तं ॥

15 १ A सिंहरि. २ P रिसिसहसैं पडिमाजोएं ठिउ. ३ A चउदहं; P बारहं. ४ AP वित्ताइं. ५ AP अणुहुंताइं. ६ P इय घाइ. ७ A परिमाणहु. ८ AP पुहिविहि. ९ P णियवरि रंगहु वज्जियभंगहु. १० AP omit संभवचरियं समत्तं.

15 1 a लुहि वि स्फेद्यित्वा विनाइय. 2 a तणुचाउ कायोत्सर्गः. 4 b अणुहुत्ता इ अनुभूतानि. 5 a मासम्मि पहिल्लइ चैत्रे. 6 a संभाइयउ संभावितः. 9 b पसियउ प्रसीदतु. 11 a वउ वपुः शरीरम्. 12 b अरुहंगभूइ अर्हतः शरीरभस्म. 13 सच्छरु साप्सराः; सविह वि स्वविभावः.

XLI

अहिणंदणु इंदाणंदयरु णिंदिदियइं णिवारउ ॥
वंदारयवंदहिं वंदियउ वंदिवि संतु भडारउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

असोक्खकंतारयं	हयभवोहकंतारयं ।	
ण जं च कंतारयं	ण्हवणयम्मि कं तारयं ।	
जणस्स सं गंगयं	कुणइ जस्स संगं गयं ।	5
विइण्णमलभंगयं	हुणइ वड्डुमाणं गयं ।	
सुवण्णरुहरंगयं	जसपउण्णभूरंगयं ।	
विहंसियणिरंगयं	जणियभावणारंगयं ।	
रयं परमघोरयं	असमसंपयावारयं ।	
सुजायमसरीरिणं	णिहणिऊणमंसरीरिणं ।	10
जमीसममरच्चियं	गुणणिसेणियाहिं चियं ।	
अहं तमहिणंदणं	पणविऊण धीणंदणं ।	

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

वरमकरोदपारतरविवरमहिकिरणेन्दुमण्डलं
यदपि च जलधिवलयमधिलंघ्य विधेस्तदनन्तरं दिशः ।
विगलितजलपयोदपटलद्युति कथमिदमन्यथा यशः
प्रसरदमादमह्लकदनाभारत भुवि भरत सांप्रतम् ॥ १ ॥

A reads °किरणदिमण्डलं in the first line; P reads विधिसूदनन्तरं दिशः. P repeats the stanza at the beginning of XLVII. A gives it only here. K does not give it here or there.

1 १ AP °विंदहिं. २ AP add जं before जणस्स. ३ AP हणइ. ४ A °मसिरीरिणं.
५ P °°°°°.

१ 1 णिं दिं दि य इं निन्द्यानि इन्द्रियाणि. 2 वं दार य वं द हिं देववृन्दैः. 3 a असोक्खकं-
तारयं असौख्यजलतारकम्; b हयभवोहकंतारयं हतजन्मौघाद्यटवीकम्. 4 a कंतारयं स्त्रीरतम्;
b कं जलम्; तारयं पाण्डुरम्. 5 a सं शम्; गंगयं गङ्गाजातं जलम्; b संगं गयं स्वाङ्गं स्वशरीरं
प्राप्तम्. 6 a विइण्णमलभंगयं वित्तीर्णो दत्तः मलानां भङ्गो येन सः तम्; b हुणइ भस्मीकरोति,
गयं रोगम्. 7 a सुवण्णरुहरंगयं सुवर्णवद्दुचिराङ्गम्; b जसपउण्णभूरंगयं यशःपूर्णभूमण्डलम्.
8 a °णिरंगयं मदनम्; b °भावणारंगयं °गोडशभावनासु रागम्. 9 a रयं आत्मरतम्; परं परमा-
त्मानम्; अघोरयं अरौद्रम्; b असमसंपयावारयं क्रोधसंपदो निवारकम्. 10 a सुजायं सुजातम्;
असरीरिणं सिद्धम्; b असरीरिणं अश्रीः दारिद्र्यं सा एव ऋणम्. 11 a जं+ईसं+अमरच्चियं अमरैः
पूजितम्; b गुणणिसेणियाहिं चियं गुणपंक्तिभिः प्रबृद्धम्. 12 b धीणंदणं बुद्धिविवर्धकम्.

भणामि तव्ववसियं	किर कहं तिणा ववसियं ।	
वणे चडुलवाणरे	सुहयमाणिणीवाणरे ।	
मुएउ मा णा सणं	सुणउ पावणिण्णासणं ।	15
इमं सुकियवासणं	लहउ सम्मईसासणं ।	
घत्ता—जिव सुयकेवालि जिव तियसवइ जिंवे पुणु थुणउ फणीसरु ॥		
हउं णरु जीहासहसेण विणु किं वण्णविं परमेसरु ॥ १ ॥		

2

सालतालतालीदुमोहए	मेरुसिहरिपुंवे विदेहए ।	
संचरंति करिमयरसंतई	वहइ गहिर सीया महाणई ।	
तीई तीरि दाहिणइ पविउले	चूयचारफलघुलियसुविउले ।	
वारिवाहधाराहि सित्तए	मुग्गमासजेववीहिछेत्तए ।	
छेत्तवालिणीसहसंगए	दिण्णकण्णसंठियकुरंगए ।	5
वेकरंतवहुदुद्धगोहणे	वच्छमहिसवसहिंदसोहणे ।	
सव्वधण्णछण्णे अणूसरे	सरतरंतकिंणरवहसरे ।	
कंजपुंजरंजंतमहुलिहे	कयलिललियलवलीलयगिहे ।	
णिसुयमहुरपियमाहवीसरे	पहियहिययगयविसमसरसरे ।	
उच्छुपीलणुल्लियरसजले	मंगलावईभूमिमंडले ।	10
कोट्टवट्टुलट्टालदुग्गमं	रुद्धकुद्धलुद्धारिसंगमं ।	
खोल्लखाइयावृढकोमलं	पंचवण्णकेलिल्लिचंचलं ।	
मणिगणंसुमालाविरोहियं	कूर्वदीहियावाविसोहियं ।	
कणयघडियघरपंतिपिंगलं	णिच्चमेव संगीयमंगलं ।	
अमियरायरिद्धीपर्वट्टणं	रयणसंचयं णाम पट्टणं ।	15

६ A चटुलवाणरे; P चवलवाणरे. ७ A जिण पुणु.

2 १ A पुव्वविदेहए. २ A संचरंत°. ३ A ताइ. ४ P पविउले. ५ A मुग्गमाह°. ६ P °छत्तए. ७ A वेकरंतवहुदुद्ध°; P बुकरंत°. ८ A °पुंजरयरत्त°. ९ P °विसमसरसरे. १० A उच्छ-पीलणु°; P उच्छुपीलणु°. ११ A कोट्टवट्टुलट्टालदुग्गमं; P कोट्टवट्टुलट्टालसंगमं. १२ P कुद्धलुद्धमुद्धारि-दुग्गमं. १३ A पंचवण्णकंकेलि°. १४ P °दीविया°. १५ A °पवट्टणं.

13 a तव्ववसियं तस्य चरितम्; b तिणा तेन. 14 b सुहयमाणिणीवाणरे सुभगमानिनीनां कामबाणे पीडाजनके. 15 a मुएउ मा णा सणं ना पुरुषः मा स्वन् शब्दं मुञ्चतु; मौनेन शृणोत्वित्दं कथान्तरमित्यर्थः. 16 a सुकियवासणं सुकृतवर्षणम्.

2 2 a °संतई संततिः. 3 b °सुविउले °पक्षिसमूहे. 4 b °छेत्तए °क्षेत्रे. 7 b अणूसरे क्षारभूमिरहिते. 9 b °विसमसरसरे °कामबाणे. 12 a °खाइया° खातिका परिखा; b °केलिळि° ध्वजाः पताकाः. 15 a अमियरायरिद्धी° प्रचुरराजलक्ष्मीः.

तत्थ वसइ राया महाबलो
जस्स लच्छिकंता उरत्थले
दीहकालमवियंलमणोरहं
किं कुंणामि णिच्चं परासुहं
माणसं दमेणं णियंतियं

भुयबलि व्व धीरो महाबलो ।
रमइ किस्तिरमणी महीयले ।
मुंजिऊण रज्जं रमासुहं ।
हो ० मुयामि इणमो परासुहं ।
एम तेण सहसा विचिंतियं । 20

घत्ता—धणवालहु वालहु णियसुयहु विरइवि पट्टणिबंधणु ॥
सो पासि विमलवाहणजिणहु जायउ राउ तवोहणु ॥ २ ॥

3

सो णिगंथु गंथु ण समीहइ
ण पसंसाइ करइ पहांसिउं मुहुं
दूसंतउ परु पिसुणु ण दूसइ
लाहालाहइ जीवियमरणइ
जिणिवि कुहेउवाय णयचंडहं
एयारह अंगइ अवगाहिवि
बंधिवि कयसोलहकारणहलु
णिहणयालि अणसणु अब्भसियउं
कामकोहधरणीरुह खंडिवि
णाणसासु वट्टारिउ चंगउं

सणियउं वियरइ पावहु बीहइ ।
णउ केण वि णिंदिउ मण्णइ दुहुं ।
हिंसंतउ मणावि णउ हिंसइ ।
समु जि समणु संठिउ समचरणइ ।
तिण्णि तित्तरसंय पासंडहं । 5
दंसणु सुद्धि बुद्धि आराहिवि ।
सिरिअरहंतणाउं गोत्तुज्जलु ।
देहखेत्तु रिसिहल्लिपं किसियउं ।
पासहिं दिहिवइ दढयर मंडिवि ।
सासु मुयंतं मुक्कु णियंगउं । 10

घत्ता—सुहझाणं मुउं सो परमरिसि णिममलु णिरुवमरूयउ ॥
अहमिंदु अणुत्तरि धवलतणु विजयविमाणइ हूयउ ॥ ३ ॥

4

जलहिसममिए
कालि णिग्गए

तीसतियहिए ।
सुरहं मग्गए ।

६ AP ०मविलयं. १७ A ०मणोहरं. १८ A ०रमाहरं. १९ P कुणोमि. २० हो ण जामि.

3 १ P ण गंथु. २ AP पहसियसुहु. ३ A परपिसुणु ण दूसइ; P परि पिसुणु ण दोसइ.
४ AP तिण्णि तिसट्टिसयहं. ५ AP दंसणु. ६ A रिसिहलि संकिसियउ. ७ A मुयउ. ८ AP
रुवउ. ९ A अणुत्तर. १० P ०विमाणं.

4 १ A समणिए; P समसिए. A २ सुरहरं गए.

8 a ०अ वियलं निर्विघ्नम्. 19 a परासुहं परप्राणघातकम्; b परासुहं अतीवाशुभम्.

3 1 b सणियउं शनैः. 3 b मणावि मनागपि. 5 a कुहेउवाय कुहेतुवादाः. 8 a
णेहणयालि मरणकाले; b ०हल्लिएं कर्षकेण. 10 a णाणसासु ज्ञानमेव धान्यम्.

4 1 b ०तियहिए त्र्यधिके. 2 b सुरहं मग्गए देवानां रीत्या.

तम्मि सुंदरे	हं पुरंदरे ।	
थिहं सुहासए	आउसेसए ।	
धरियंजीवए	पढमदीवए ।	5
वइरिखंडणा	भरहमंडणा ।	
अत्थि सुहयरी	कोसलाउरी ।	
रिसहकुलरुहो	पुण्णससिमुहो ।	
तहिं महीसरो	णाम संवरो ।	
तस्स इत्थिया	साहियत्थिया ।	10
चारुहारिया	सुइसरीरिया ।	
भवणलच्छिया	मउलियच्छिया ।	
णिसिविरामए	चरमजामए ।	
पेच्छए हियं	सिविणमालियं ।	
गलियमयजलं	अमरमयगलं ।	15
कुंदंपंडुरं	गोवइं वरं ।	
णहरदारुणं	दुरयवइरिणं ।	
बहुविलासिणी	णलिणवांसिणी ।	
भमररामयं	कुसुमदामयं ।	
णयणपरिणयं	सिसिरकिरणयं ।	20
णिहयंतिमिरयं	तरुणमिहिरयं ।	
रमणरसणयं	मीणमिहुणयं ।	
सजलकमलयं	कलसजुवलयं ।	
रमियरोयरं	पंकयायरं ।	
मयरभीयरं	खीरसायरं ।	25
लच्छिसासणं	हरिवरासणं ।	
हरिणिहेलणं	फणिणिकेयणं ।	
सुमणिसंगहं	अवि य हुयवहं ।	

घत्ता—इय दंसणणिउरुंबउ सइइ सुहसुत्ताइ णिरिक्खिउ ॥

सुविहाणइ संवरणरवइहि जं जिह तं तिह अक्खिउ ॥ ४ ॥ 30

३ A थिय. ४ P reads this line as : पढमदीवए धरियजीवए. ५ AP कोसलापुरी. ६ P सरीरया. ७ A मीलियच्छिया. ८ A चरिम°. ९ P reads this line as : गोवइं वरं कुंदंपंडुरं. १० A कमलवासिणिं. ११ A णिहिय°. १२ A तरुणि°. १३ P रमियखेयरं. १४ A णिउरंबउ. १५ AP सुहं सुत्ताइ. १६ A संवरणिवइहि.

4 a सुहासए शुभाश्रये. 17 b दुरयवइरिणं गजशत्रुं सिंहम्. 20 a °परिणयं °मनोशम्. 24 a °शेयरं °चक्रवाकम्. 29 दंसणणिउरुंबउ स्वप्नसमूहः.

5

तं णिसुणिवि जसधवलियमहियलु
जो तिहुवणमंगलु तिहुयणवैइ
सो तुह होसइ सुउ मँइ णायउं
तहिं अवसरि दिवि सक्के बुँक्किउं
सिरिअरहंतु देउ अँवलोयउ
मा होज्जउ तहु किं पि दुगुंछिउ
ता सँकेयणयरु वित्थारिउ
फुरियपसंडिपिंडुं पविरइयउ
कडयमउंडंमंडियवरगत्तउ

कहइ कंतु कंतहु सिधिणयफेलु ।
जं ज्ञायंति जोई गयमलमइ ।
णब्बहि सुंदरि चंगउं जायउं ।
संवरंमहिवइ भुंजउ सुक्किउ ।
सिद्धत्थइ सिद्धत्थु जणेव्वउ । 5
अहु णिहिणाह करहि हियइच्छिउं ।
अहिणवु धणणं सव्वु सवारिउं ।
जहिं दीसइ तहिं तहिं अइसइयउ ।
उयरसुद्धिपारंभणित्तउ ।

घत्ता—सोहम्मसुरिंदेँ पसियउ सव्वउ पुण्णपसत्थउ ॥ 10
घरु रायहु आयउ देवयउ मंगलदव्वविहत्थउ ॥ ५ ॥

6

छम्मासइ वसुहार वरिट्ठी
ता वइसाहँहु पंडुरपक्खइ
विजयणाहु तिहुयणविक्खायउ
मयणविलासविसेसुप्पत्तिहि
पुणु सो णिहिवइ णिवँहि पसाहिइ
धरणीयलर्गयणिहिआकरिसइं
जंससहरकरधवलियदिग्गइ
जइयहुं सायरसरिसहुं झीणइं
तइयहुं माहमासवारसियहि
बारँहमम्मि जोइ कामलतणु
णाणत्तयजाणियजगरूयउ

थिय जिणेजणणि जाम संतुट्ठी ।
छट्ठीवासरि सत्तमरिक्खइ ।
करिरूवँ सिविणंतरि आयउ ।
उयरि परिट्ठिउ संवरपत्तिहि ।
प्रंगेणि छडरंगावलिसोहिइ । 5
णँव वि मास माणिक्कइं वरिसइ ।
संभविं संभवपासविणिग्गइ ।
दहलक्खइं कोडिहि वोलीणइं ।
पालेयंसुकरावलिसुसियहि ।
बारहअणुवेक्खाभावियमणु । 10
देउ चउत्थउ जिणु संभूयउ ।

5 १ P °हलु. २ A तिभवणवइ. ३ A जोगि. ४ A मयणायउ. ४ AP बुज्जिउं. ५ A संवरणरवइ भुंजइ. ६ A अविलेवुउ; P अवलोइउ. ७ A सकेयणयरु. ८ AP समाउ. ९ A °पिंड. १० A °मउलमंडिय°.

6 १ A णियजणणि. २ P वयसाहहु. ३ AP पंडुर°. ४ A पवरपसाहिइ. ५ AP पंगणि. ६ P धरणीयले. ७ P णवमासइं. ८ A जं ससहरकरधवलियदिग्गइ; P °धवलिए दिग्गए. ९ A संभमि, १० AP संभवपासहु णिग्गइ. ११ Aपालेयंसकरावलि°; P पालेयंसुकलावलि°. १२ AP बारहयम्मि.

5 4 a बु क्किउं कथितम्. 6 b अहु णि हि णा ह हे कुवेर. 8 a °प सं डि° सुवर्णम्.

6 2 b सत्तमरिक्खइ पुनर्वसौ. 4 b °पत्तिहि पत्त्याः. 7 a °दिग्गइ °दिग्गजे. 9 b पालेयंसु° हिमांशुश्चन्द्रः; °सुसियहि उज्ज्वले.

घत्ता—जिणजम्मंणु आसणथरहरणि जाणिवि कुंजरु सज्जिउ ॥
महि आयउ ससुरु सुराहिवइ सुरकरचमरहिं विज्जिउ ॥ ६ ॥

7

पुंरि परियंचिवि पइसिवि णिवघरि
सयणुकिरणकविलियपविउलणहु
बहुंभवकयवयणियंमियणियमइ
कमलकुलिसकलसंकियकमजुउ
णंद वद्ध जय देव भणेपिणु
अंकि चडाविउ चंपयगोरउ
जायउ जंतहु गुरु रहसुब्भहु
पडिवाहणहयवाहणसेणिहि
वारणु चरणचारु संजोइउ
जिणदेहच्छविइ अहिहवियउ
ससिरवितारापंतिउ लंघिवि

कित्तिमु सिसु दिण्णउ जणणिहि करि ।
पोमरायपंहणिहतंबिरणहु ।
विसमविसयविसहरणहयरवइ ।
विरइयरइसंवरु संवरसुउ ।
सुरणाहं मुणिणाहु लणपिणु । 5
गोरो सो तेण जि अवियारउ ।
अमरविमाणहं घणवहि संकहु ।
इंदं कह व मंदसंदाणिहि ।
मंदरु मंदरुइल्लु पलोइउ ।
गुरुयणतेणं कवणु ण खवियउ । 10
तं तहु तणउ सिहरु आसंघिवि ।

घत्ता—तहिं पंडुसिलायलु ससिधवलु तित्थु पसणु णिहालिउ ॥
अहिमंतिवि पाणिउं सयमहिण सीहवीदु पक्खालिउ ॥ ७ ॥

8

कयविहिपरियम्मं छिण्णंदुक्कम्मजम्मं
धिवंइ दसदिसासुं सेयभिगारणीरं
बहुदसणविसाले कक्खणक्खत्तमाले
पविहरमर्मराणीसेवियं देववंदं
जलियकविलवालं भासुरालं करालं
पयपहयउरब्भं भाविणीभावियासं

संइं सिरिअरहंतं तम्मि आरोहिउं तं ।
कुणइ सुरवरिंदो सिद्धमंताहियारं ॥ १ ॥
चलियचमरलीले संठियं पीलुवाले ।
जिणहवणविसेसे वाहरामोरिंदं ॥ २ ॥
दिसि पसरियजालं धूमच्चिधेण णीलं । 5
जिणहवणविसेसे वाहरामो हुयासं ॥ ३ ॥

१३ AP °जम्मणि.

7 १ A पुरु. २ A सयणुकिरण°. ३ P °पविमल°. ४ A बहुतव°. ५ AP °णिवसियणियमइ
६ A कमलकलसकुलिसंकिय°. ७ AP गोरउ तेण जि सो अवियारउ. ८ A संजोयउ; P संचोइउ.
९ A पसत्थु. १० P सीहपीदु.

8 १ A °कुक्कम्म°. २ A सयसिरि°. ३ AP °अरिहंतं. ४ A आराहिऊणं. ५ P खिवइ. ६ A
°ममराणीसंजुयं देवदेवं; P °ममरेहिं सेवियं देवविंदं. ७ P °अग्गिवालं पहलं. ८ P °णिद्धणीलालिसेलं.

7 2 a सयणुकिरण° स्वतनुप्रभा; b °पहणिह° प्रभासदृशानि. 3 b °णहयरवइ गरुडः
6 b गोरो (गोरउ) ज्ञाननिरतः. 9 b मंदरुइल्लु मन्दकान्तिः. 13 सयमहिण इन्द्रेण.

8 3 a कक्ख° वरत्रा; b पीलुवाले पौरावते. 4 a अमराणी इन्द्राणी अप्सरसो वा; b अम-
रिंदं इन्द्रम्. 6 a °उरब्भं मेघम्; भाविणीभावियासं भामिन्या निजभार्यायाः सामान्यस्त्रीणां वा
भावितं सानुरागमवलोकितं आस्यं येन.

जलयपडलकालं णिङ्गणालं व सेलं
करवलइयदंडं छाहिसंसत्तसंतं
भसलगरलमालाकालरोमं तुरंतं
जुवइजणियकामं साहिरांमं करामो
करिमयैरणिविट्ठं हारणीहारतेयं
वरुणममरसारं माणसे संभरामो
तरुपहरणपाणिं वाइंसंदिण्णरायं
चडुलगमणसीलं लंघियायासपारं
विमलमणिवियाणं मंदरहीसमाणं
धणयमधणदुक्खातंकपकावहारं
सगणंगुणगणालं भालभीमच्छिवत्तं
फणिवलयकरंगुग्गिण्णसुलं दुरिक्खं
अमयमयसरारं कूरकंठीरवत्थं
जणणयणसुहंके संकेमुच्छिण्णसंकं
मणिफुरियफणालं दित्तदिच्चकवालं
महिविवरणिवासं रम्मपोम्मावईसं

महिसमुहसमीरुङ्गीणजीमूयमालं ।
जिण्हवणविसेसे वाहरामो कयंतं ॥ ४ ॥
अरुणणयणछोहं रिंछमावाहयंतं ।
जिण्हवणविसेसे णेरियं वाहरामो ॥५॥ 10
धुर्वधवलधओहं कामिणीप समेयं ।
जिण्हवणविसेसे सायरं वाहरामो ॥ ६ ॥
सुरहिपरिमलंगं मीणिणीजायरायं ।
जिण्हवणविसेसे वाहरामो समीरं ॥ ७ ॥
कयमयरविमाणं देहभाभासमाणं । 15
जिण्हवणविसेसे वाहरामो कुबेरं ॥ ८ ॥
वरविसयसहंदुक्खित्तपायं महंतं ।
जिण्हवणविसेसे वाहरामो तियक्खं ॥ ९ ॥
णवकुवलयमालींमालियं कौतहत्थं ।
जिण्हवणविसेसे वाहरामो ससंकं ॥१०॥20
अहिणवरविवणं कुम्मैय्ठीणिसेणं ।
जिण्हवणविसेसे वाहरामो फणीसं ॥ ११ ॥

घत्ता— णियवाहणपहरणपियरमणिच्चिधावलिहिं विराइय ॥

इंदे संहं इंदावाहणए लोयवाल संप्राइय ॥ ८ ॥

9

एवं पत्ते पंकयणेत्ते विस्से देवे णविऊणं
दुहणासणयं सुहसासणयं दग्धासणयं ठविऊणं ।

१ A °वडइयं. १० A छाहिसंसत्तगतं; P छाहिसंसत्तवत्तं. ११ P कसणभसलमालाकारं. १२ P साहिरामो. १२ A °मयरणिविट्ठं. १४ AP धुयधवलं. १५ AP वायसं. १६ P कामिणीजायं. १७ A °वितानं. १८ AP कणयमयविमाणं. १९ P °तंकसंकावहारं. २० A सगुणगुणं. २१ AP °भीमच्छिवंतं. २२ A वरविसविसहत्थं खित्तं; P वरसियवसहपुट्टे खित्तं. २३ A °करग्गुब्भिण्णं. २४ A °मालियाकुंतहत्थं. २५ A सुक्कमुच्छिण्णं; P सक्कमुच्छिण्णं. २६ AP कुम्मपिठीं. २७ A °स्वणं. २८ A फणिंदं. २९ A सहं देवाणंदएण. ३० AP संपाइय.

9 १ P दुहुणासणयं.

7 a जलयं मेघाः; b °जीमूयं मेघाः. 8 a छा हिं यमस्य भार्या तस्यां संसत्तं आसक्त संतं स्वान्तःकरणं चित्तं यस्य. 9 b °छोहं विक्षेपम्. 10 a सा हिरामं सानुरागम्. 11 a करिमयरं गजाकारशुण्डाप्रयुक्तं मकरम्. 13 a वाइसंदिण्णरायं वातप्रमी मृगी तस्यां संदत्तरागम्. 16 a धणयं धनदम्. 17 b वसहंदु स्कन्धकुटीति प्रसिद्धम्. 18 b तियक्खं त्र्यक्षं शिवम्. 20 A सुहंके अमृतजलम्; संके सचिह्नम्; b ससंकं चन्द्रम्. 24 इंदावाहणए इन्द्रस्य आह्वानेन.

9 1 विस्से सर्वान्, 2 सुहसासणयं सुखानां शासनम्.

सरगंभीरं पणवुच्चारं साहाकारं काऊणं
 अग्रं पत्तं गंधं धूवं चरुवं दीवं दाऊणं ।
 दुण्णयंतावं मिच्छागावं दुक्कियभावं मँहिऊणं 5
 पव्वयसरिसे पयणियहरिसे कंचणकलसे गहिऊणं ।
 आसासंते रवियरवंते गयणयलंते चरिऊणं
 भंगरउहे खीरसमुहे खिण्णं खीरं भरिऊणं ।
 कीलालोलं गेयरवालं सुरवरमालं रइऊणं 10
 ते जलवाहे जियजलवाहे हत्थाहत्थं लइऊणं ।
 सोहम्मेणं ईसाणेणं तियसयणेणं सण्हविओ
 दाउं वासं कुसुमं भूसं तेहिं जिणिंदो पुणु णँविओ ।
 सिंगुत्तुं वसियकुरंगं मेरुं मोत्तुं वारिदरिं
 णरंसोक्खयरिं कोसलणँथरिं आगंतूणं पुरिसहरिं ।
 णयणिरयाणं गुरुपियराणं दाउं णहयलदिण्णपया 15
 हरिसविसट्टं रइउं णट्टं देवा सग्गं झ सि गया ।
 घत्ता—सज्जणहं णेहु दिहि दुत्थियहं तरुणिहि पेम्मँपहावउ ॥
 णाहँ वड्डंतँ वड्ढियउ पिसुणहं मणि संतावउ ॥ ९ ॥

10

जोव्वणभावे देहि चडंतँ	घडियँमाणे काले जंतँ ।
देहपमाणु पत्तु रणचंडहं	सहुइं तिण्णिण सयइं धणुदंडहं ।
सिसुकीलार रमियगंधव्वहं	दोण्णिण दहद्धलक्ख गय पुव्वहं ।
फणिसुरणरमणयणाणंदणु	जणणे हँक्कारिउ अहिणंदणु ।
भणिउ देव किं देवि सकित्तणु	भुवणत्तयसामिहि सामित्तणु । 5
लइ लइ रज्जु अज्जु जापसंवि	हउं परलोयकज्जु थँहेसविं ।
तहिं अवसरि आयउ सकंदणु	पुरि घरि गयणि ण माइउ सुरयणु ।
वाँइउ सुसिरु तंति घणु पुक्खरु	गायउ किं पि गेउं महुरक्खरु ।

२ A दुण्णयभावं. ३ P गहिऊणं. ४ P हत्थाहत्थं गहिऊणं. ५ A तियसवरेणं. ६ P सण्हविउं.
 ७ P णविउं. ८ A धीरदरिं. ९ P सोक्खयरी. १० P णयरी. ११ A णरणियरारणं. १२ P रइयं
 णहं. १३ P णेहपहावउ.

10 १ A देह चडंतँ. २ AP घडियामाले. ३ A कोक्काविउ. ४ P साहेसमि. ५ A वायउ
 सुसरु. ६ A गेय.

5 म हि ऊ णं मानयित्वा. 7 आ सा संते उच्छ्वासमध्ये; र वि य र वंते सूर्यकिरणवति. 9 सुर व र मा लं
 सुरवरश्रेणिम्. 10 ज ल वा हे कलशान्; जि य ज ल वा हे जितमेघान्. 11 ति य स य णे णं त्रिदशजनेन.
 13 वा रि द रिं निवारितशत्रुं जलयुक्तगुम्फं वा. 15 ण य णि र या णं न्यायरतानाम्.

10 3 b दो णि ण द ह द्द ल क्ख सार्धद्वादशलक्षणि. 8 a पु क्ख र मृदङ्गयुखम्.

पुरउ णडंतें अमरणिहापं
सायरसरिसरजलसंधापं
हार् तार जोयणवित्थिणी

वइयालियदिण्णासीवापं ।
पुणु ण्हाणिउं कुमारु सुररापं । 10
णं णहि गंगाणइ अवइणी ।

घत्ता—जलधार पडइ सिरि दुडंरिय देउ तांइ ण वि हम्मइ ॥
भांवइ महुं णहुंतु वि घडंसैयहिं बिंदुएण णउ तिममइ ॥ १० ॥

11

मउडपट्टधरु वीर्यविणिट्टिउ
विणिहंयराउ ताउ रिसि जायउ
अच्छइ जाम सपुत्तु सपरियणु
गय छत्तीस लक्ख लक्खइं
भुयणभाणु णहि णयणइं ढोयइ
पेच्छइ सत्तभूमिघरसिहरइं
पेच्छइ धयमालउ उल्ललियउ
पेच्छइ चंदसाल मुहसालउ
पेच्छइ दाणसाल णडसालउ
पेच्छइ हट्टमग्ग चउदारइं
इय पेच्छंतहु तक्खणि णट्टउ

पिउसंताणि णिओइ अंहिट्टिउ ।
पहु वि महिं भुंजंतु सजायउ ।
रक्खइ पोसइ माभीसइ जणु ।
सहुं पुव्वहं सिरिसोक्खसमिद्धे ।
ता गंधव्वणंयरु अवलोयइ । 5
पेच्छइ जालगवक्खइं पवरइं ।
पेच्छइ पुत्तलियउ चित्तलियउ ।
पेच्छइ लेहसाल गयसालउ ।
मणुयारोगसाल असिसालउ ।
पेच्छइ पहु आरामविहारइं । 10
तहिं तं पुरु पुणु तेण ण दिट्टउ ।

घत्ता—णासंतें णयरें साहियउ णासु अत्थि नूर्वरिद्धिहि ॥
किं णरु रइपरवंसु परिभमइ उज्जमु करइ ण सिद्धिहि ॥ ११ ॥

12

ता लोयंतिएहिं संबोहिउ
उट्टिउ सयलदेवडिंडिमसरु

आएणिं दें ण्हाविउ पसाहिउ ।
चडिउ विचित्तहि सिवियहि जिणवरु ।

१ AP ण्हाविउ. ८ A हारसुतारतोयविच्छिणी; P हारसुतारजोयविच्छिणी. ९ A सिरिसिहरि; P T
द्वरिस. १० AP तहिं ण वि हम्मइ. ११ A णावइ but records a p भावइ. १२ AP
डसएण. १३ A जं बिंदुएण; P तं बिंदुएण.

11 १ A धीरविणिट्टिउ; P पीहि णिविट्टु. २ AP पहिट्टिउ. ३ P विणियराउ. ४ P
पहु वि महि भुंजंतु. ५ A णयरि. ६ A धयमालाउल्ल°. ७ P हट्टमग्गि. ८ AP णिवरिद्धिहि. ९ A
परवसु मूढमइ उज्जमु.

12 १ A आइवि इंदे; T आंधेण आगतेनेन्द्रेण.

1 a °णि हाएं सघातेन; b वइयालिय° वैतालिका वन्दिनः. 11 a हार धारा. 12 दुद्धरिय
रतिशयेन महती. 13 तिममइ आर्द्रीक्रियते.

11 1 a बी य वि णि ट्टिउ भार्यास्वीकृतः (द्वितीया=भार्या); अथवा वीता विशेषेण गता स्त्री
या अविनष्टः सहित इत्यर्थः. 2 b स जा य उ जायासहितः. 9 b मणुयारोगसाल वैद्यशाला.

12 1 b आ ए णिं दें आगतेनेन्द्रेण; पसा हि उ शृङ्गारितः.

णरखेयरसुरेहिं पणवेप्पिणु
णिहियउ पुरबाहिरि गंदणवाणि
अवरण्हइ णियसंभवरिकखइ
मण्णेप्पिणु घरु गिरिवरकंदर
भावु करेवि अहप्पयरासिहि
दावियणिट्ठं छट्टुववासं
मुक्कउ जीयधणासाकेयइ
पंथु पलोयइ जंतु ण खंडइ
लहुयउं गरुयउं गेहु ण चिंतइ

बाहुदंडखंधेहिं वहेप्पिणु ।
मग्गसिरइ सिइ बारहमइ दिणि ।
अप्पुणु अप्पउ भूसिउ दिक्खइ । 5
दढमुट्ठिहिं उप्पाडिय कंदर ।
ते सक्केण घित्त पयरासिहि ।
जइ ह्यउ सहुं णिवहं सहासं ।
वीयइ दिणि पइट्टु साकेयइ ।
भे भे भवइ व घरि घरि हिंडइ । 10
प्रंगणु प्राविवि पुणु वि णियत्तइ ।

घत्ता—जहिं रंजु कियउ तहिं तेण पुणु दरिसिउ भिक्खविहाणउं ॥
भयलज्जामाणमयवज्जियउं जिणवउं पेम्मसमाणउं ॥ १२ ॥

13

सयमहदत्तें पहु पाराविउ
पंचविहु वि जयजयपभणंतिहिं
अक्खयदाणु भणेप्पिणु णिग्गउ
जो ण समिच्छइ विप्परियावहु
जेण मूलु रइवालहु छिण्णउं
जेण सहियवउं णाणं भिण्णउं
णीसंगेण णिरुत्तु विहारिउ
पूसैहु मासहु पक्खि पहाँलइ
उहुवरि सत्तमि जेणुप्पाइउं

तहु देवहिं दाणुच्छु दाविउ ।
आयासहु कुसुमाइं धिवंतिहिं ।
गउ वणु चरणविसेसहु लगउ ।
पहि चरंतु ण करइ शरियावहु ।
दाणु जेण अभयावहु दिण्णउं । 5
अट्टारहवरिसइं तवु चिण्णउं ।
पुणुं वि जेण तं छट्टु संवारिउं ।
चउदहमइ दिणि सिणतरुमूलइ ।
केवलणाणु तिलोउ वि जोइउ ।

घत्ता—सो मोहमहामहिरुहजलणु जिणवरु जिर्यंपंचिदिउ ॥ 10
गिब्बाणहिं समउं पराइपण वाणंबलेण पवंदिउ ॥ १३ ॥

२ A मगासिरासिइ; P माहमासि सिइ. ३ A भे भे विरइ व, but records a p: भवइ इति पाठः. ४ AP पंगणु पाइवि. ५ A रजि.

13 १ P णीसंगत्तु. २ P पुणिवि. २ A संचारिउ; P समादिउ. ३ AP पउसहु. ४ AT पहिलइ. ५ AP सिणितरु. ६ A पंचेदियउ. ७ AT वालबलेण; P वणवालेण. ८ A पवंदियउ.

5 a सं भ व रि क्ख इ जन्मनक्षत्रे पुनर्वसौ. 6 b कंदर केशाः. 7 a अहप्पयरासिहि अधो मध्ये पयोराशोः समुद्रस्य; अथवा अघप्रकरं संघातं अश्राति विध्वंसयत्येवंशीलस्य भगवतः. 9 a °आसाकेयइ आशारज्ज्वा.

13 1 a सयमहदत्तें इन्द्रदत्तेन; पाराविउ पारणं कारितः. 4 a विप्परियावहु विप्र-
ऋचां वेदानां मार्गाः; b इरियावहु ईयोवधः. 5 a रइवालहु कामस्य. 6 a सहियवउं स्वहृदयं
स्वचित्तम्. 8 a पहालइ प्रमाले शुक्ले. 11 वाणबलेण वाणा गीर्वाणा बलं सैन्यं यस्य, तेन इन्द्रेण.

14

थुणइ सुरिंदु सरइ गुण समणें
 तुहुं जि अणंगु अणंगहु वंछहि
 तुहुं सरूँषु किं तुह आहरणें
 तुहुं अकामु किं तुह णारियणें
 सुद्धिवंतु तुहुं किं तुह ण्हाणें
 तुज्जु ण वइरु ण भउ णउ पहरणु
 तुहुं जि सोम्मं सोम्मं किं किज्जइ
 गुणणिहि तुहुं तुह किं किर थोत्तं
 हरिकरिगिरिजलणिहिहिं समाणउ

तुहुं जि देउ किं देवागमणें ।
 अणुदिणु णिकलगइ पर वंछहि ।
 तुहुं सुयंधु किं तुह सबलहणें ।
 तुहुं अणिदु किं तुह वरसयणें ।
 दिव्वासहु किं तुह परिहाणें । 5
 तुज्जु ण रइ णउ कीलाविहरणु ।
 तुह छविहउ रवि काइं भणिज्जइ ।
 तो वि थुणइ जणवउ सहियत्तें ।
 पइं किं भणइ वराउ अयाणउ ।

घत्ता—ससिसूरहं सरिसउ पइं परम भत्तिइ कइयणु अक्खइ ॥ 10
 गयणयलहु अवरु वि तुह गुणहं पारु को वि किं पेक्खइ ॥ १४ ॥

15

इंदणरिंदचंदसूराउलु
 बहुपालिद्धय अट्टु महाधय
 धम्मचक्कु अगइ अवइण्णउं
 पुण्णमणोरह जे ते णं रह
 जसु तवेण कंपइ भूमंडलु
 छत्तइं दुरियायवविणिवारइं
 जासु मोक्खुं सोक्खु जि जायउं फलु
 अवरु वि अरुहहु उत्तमसत्तहु
 आयासहु णिवडइ कुसुमावलि

समवसरणु जिणरायहु राउलु ।
 पसुकोट्टइ दक्खालिय हय गय ।
 प्रंगणुं सुरणैरमणिहिं छण्णउं ।
 मउलियकर थिय संमुह णव गह ।
 अवसें तासु होइ भामंडलु । 5
 चमरइं भवसीणत्तणतारइं ।
 सो असोउ किं वण्णामि चर्लदलु ।
 आसणु सासणु तिजगपहुत्तहु ।
 सरु भीयउ भासइ ण सरावलि ।

14 १ P वि. २ AP तुहुं अणंगु जो अंगु ण इच्छहि. ३ A सरूउ; P सरूउ. ४ AP अणिदु. ५ A सोमु सोमिं कि. ६ A भणमि. ७ A गुणहं सामि पारु को लक्खइ; P गुणहं सामिय पारु कु लक्खइ.

15 १ AP रावलु. २ AP पंगणु. ३ P सुरवरमणिहिं. ४ A ते णयरहं. ५ AP दुरियावय°. ६ A भवरीणत्तणु; P भवञ्जीणत्तणु. ७ AP मोक्खसोक्खु. ८ AP वरदलु. ९ A कुसुमाउलि.

14 1 a सरइ गुण समणें स्मरति गुणान् स्वमनसा. 3 b सबलहणें समालम्भनेन विलेपनेन. 4 b अणिदु अनिद्रः. 5 b दिव्वासहु दिगम्बरस्य. 7 a सोमं चन्द्रेण; b छविहउ कान्त्या हतः तिरस्कृतः

15 2 a °पालिद्धय क्षुद्रध्वजाः. 6 a दुरियायव° दुरितातपः; b °सीणत्तण° भ्रान्तत्वम्. 9 b सरु स्मरः.

रंजउं अलि तइ सिंथ ण मेरी
दुंदुहि खणु वजंति ण थक्कइ
दिव्वे घोसें भुवणु वि सुज्झइ

णिच्छउ सामिय आण तुहारी । 10
लोउ धम्मु णिसुणहुं णं कोक्कइ ।
अण्णउं परु परलोउ वि बुज्झइ ।

घत्ता—सिरिवज्जणाहु णिवु धुरि करिवि सीलविमलजलवाहहं ॥
तिहिं सहियउ सउ संतासयहं संजायउ गणणाहहं ॥ १५ ॥

16

अट्टाइज्जसहस णिरणंगहं
पण्णासइ संजुत्तहं भिक्खुहुं
अट्टाणउवि संयाइं तिणाणिहिं
एक्कुणवीससहसइं विक्किरियहं
सावयगुणठाणेहिं सहासहिं
एक्कारहसहसाइं विवाइहिं
तव्वंसंजमवयतणुरुहमाइहिं
भोयभूमिसमसहसइं चेर्यहिं
अज्जियसंख एम जाणिज्जइ
पंचलक्ख सावियहं णिरुत्तउ

रिसिसीहहं सिक्खियपुव्वंगहं ।
तीससहसदोलक्खइं सिक्खुहुं ।
सोलह सहसइं केवलणाणिहिं ।
संख भणमि मणपज्जवरिसियहं ।
उहसएहिं अण्णु वि पण्णासहिं । 5
रिसिहिं तिण्ण लक्खइं सज्जाइहिं ।
संजमधरिहिं सुद्धकुलजाइहिं ।
लक्ख तिण्ण रिदुसयइं वि वेयहि ।
लक्खत्तउ सावयहं गणिज्जइ ।
देवहिं देविहिं माणु ण उत्तउ । 10

घत्ता—विहरंतहु महि परमेसरहु धम्मु कहंतहु भव्वहं ॥
अट्टारहवरिसइं ऊणयरु एक्कु लक्खु गउ पुव्वहं ॥ १६ ॥

17

इय पुव्वहं पण्णास जि लक्खइं
गयइं ण किं पि वि धांइ णियाणइ
हरिणहअविहयकरिकुंभत्थलि
लंबियकरु सहुं मुणिसंदोहें

गणहरमुणिवरसाहियसंखइं ।
माससेसि थियउ आउपमाणइ ।
तहिं संमेयगिरिदवणत्थलि ।
दुण्णि पक्ख थियउ जोयणिरोहें ।

१० AP रंजइ. ११ A धरिवि धुरि.

16 १ A रिसिसीसहं. २ P सयइं तिणाणिहिं. ३ AP एयारह. ४ A omits this foot. ५ A omits this foot. ६ A विरयहिं. ७ P लक्खतइउ. ८ AP add after this : मिलिउ तिरिक्खविंदु संखेज्जउ, एत्तियजणहं करिवि साहिजउं. ९ AP कहंतहं. १० A वरिसहं.

17 १ AP ठाइ. २ A माससेस थिय°. ३ A हरिणहअविरुय; P हरिणहयरि हय°.

10 a सिं थ प्रत्यञ्चा. 14 सं ता स य हं उपशान्तचित्तानाम्.

16 1 a णिरणंगहं निःकामानाम्, अथवा निरणं अप्रच्छादनमङ्गे येषाम्. 8 a भो य भूमि-
वस° त्रिशत्; b रिदु° षट्; वे य हि जानीहि.

17 2 a णियाणइ अवसाने. 3 a °अविहय° °अहत°.

वइसाहहु मासहु सियछट्टिहि
 खंतिवयंसियाइ समाणिउ
 णाहु चारुचारित्तु विवज्जइ
 किरियाभट्टु उंहु संचलियउ
 जीवपक्खिखवंदिग्गहपंजरु
 अग्गिकुमारहिं अग्गि विइणणउ
 चउदहभूयगामरइ छंडिय
 गउ गउ गउ जि पडीवउं णायउ

सत्तमभवि हियचंदाइट्टिहि । 5
 एकल्लउ समाहिघरु आणिउ ।
 णगउ थिउ णिल्लंज्ज ण लज्जइ ।
 सिद्धिविलासिणीहि जिणुं मिलियउ ।
 इंदं पुज्जिउ मुक्कफलेवरु ।
 सर्वइ चवइ णहि जंतु सउण्णउ । 10
 अहिणंदणेण मोक्खपुरि मंडिय ।
 मज्झु वि होज्जउ तंहि जि णिकेयउ ।

घत्ता—जणु आवइ जाइ ण थाइ खणु अत्थवणुग्गमु दावइ ॥
 महुं हियवइ भरहाणंदर्यरपुप्फयंतसमु भावइ ॥ १७ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
 महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे अहिणंदणणिव्वाणगमणं
 णाम एकचालीसमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ४१ ॥

॥ अहिणंदणचरियं समत्तं ॥

४ A सत्तमभवियहिं चंदा°. ५ AP णिल्लु. ६ A उवसंचलियउ. ७ P जणु. ८ AP सकु; but T सबइ
 स्वर्गपतिः. ९ A तं जि णिकेवउ; P बहिं जि णिकेयउ. १० P °णंदयरु. ११ AP omit the line.

5 b सत्तम भवि हिय चंदा इ ट्टि हि सत्तमे भवे विहितायां चन्द्रेणाकृष्टी आगमने, चन्द्रयुक्ते सत्तमनक्षत्रे
 इत्यर्थः. 8 a किरिया भट्टु अपरिस्पन्दः. 10 b सब इ स्वःपतिः, इन्द्र इत्यर्थः. 12 a प डी व उं प्रतीपम्,

XLII

पञ्चमगङ्गामणु पद्म पञ्चगुरुहुं पहिलारउ ॥
पञ्चमतिथ्यरु पणविवि पञ्चेसुवियारउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

णिज्जियसैवणं	संतं सैवणं ।	
णिज्जियरूवं	णिरुवमरूवं ।	
णिज्जियगंधं	सुरहियगंधं ।	5
णिज्जियसरसं	वज्जियसरसं ।	
णिज्जियकोहं	वरवकोहं ।	
णिज्जियमाणं	सुहरिसमाणं ।	
णिज्जियमायं	चत्तपमायं ।	
णिज्जियलोहं	गयसलोहं ।	10
मुणियपयत्थं	भासातत्थं ।	
कयसुत्तत्थं	जं दिव्वत्थं ।	
पालियमहिमं	धंल्लियमहिमं ।	
महिलाकुमइं	मोत्तुं कुमइं ।	
इच्छियसुमइं	णमिउं सुमइं ।	15
तस्स पवित्तं	वोच्छं वित्तं ।	

A has, at the beginning of this Saṃdhi, the following stanza:—

सोऽयं श्रीभरतः कलङ्करहितः कान्तः सुवृत्तः शुचिः
सउज्ज्योतिर्मणिराकरो प्लुत इवानर्घ्यो गुणेर्भासते ।
वंशो येन पवित्रतामिह महामग्राहयः प्राप्तवान् (प्रापितः ?)
श्रीमद्वल्लभराज-~ कटके यश्चाभवन्नायकः ॥ १ ॥

No other known MS of the work gives it.

1 १ AP पञ्चमु तिथ्यरु. २ P °समणं. ३ P °समणं. ४ A °सुरहिसुयंधं; T सुरहिसुगंधं.
५ A °सुवतत्थं. ६ T लंघियमहिमं.

1 2 पञ्चेसु° कामः. 3 a णि ज्जिय सवणं निर्जितं श्रवणेन्द्रियं यस्य; b सवणं महामुनिम्.
4 a णि ज्जिय रूवं निर्जितं रूपप्राहीन्द्रियं चक्षुर्येन. 5 a °गंधं °प्राणेन्द्रियम्; b सुर हिय गंधं सुरभिः
शरीरगन्धो यस्य. 6 a °सरसं °कामसुखम्; b सरसं विशिष्टाहारं सरागवचनं च. 7 b वरवकोहं
उत्तमवाक्यौघम्. 8 b सु हरि स मा णं शोभनेन हरिणा इन्द्रेण समानं पूजनं यस्य. 10 b °सलोहं माया-
मिथ्यानदानशल्यसंघातम्. 11 b भा सा त त्थं निर्वाधवचनम्. 12 a कयसुत्तत्थं अनुष्ठितागमार्थम्;
b दि व्व त्थं दिग्वाससम्. 13 b घ ल्लिय म हि मं त्यक्ता मही लक्ष्मीश्च येन. 14 a म हि ला कु म इं महिला
भार्या कुः पृथ्वी ताभ्यां निवृत्ता मतिर्यस्य; b कु म इं कुबुद्धिम्. 15 a इ च्छिय सु म इं वाञ्छितसुमतिम्.
16 b वि त्तं चेष्टितं चरितम्.

घत्ता—जिह तें लईउ व्रउ जिह हुयउ अणुत्तरि सुरखरु ॥
जिह जायउ सुमइ तिह कहमि समासइ वइबरु ॥ १ ॥

2

जलवरिससीयए वीवए बीयए
भमियमत्तंडए तमपडलखंडए
तरुणणरमिहुणपरिवट्टियसणेहए
णडियवरहिणणडे सरिवरुत्तरतडे
दुक्खणिगगमणरइरमणवणसिरिसही
तम्मि गच्छंतसामंतभडसुहयरी
घुसिणरससिच्चिए हसियगयणंगणे
अमलिणा सणालिणा जत्थ जलवाविया
मंदिरे मंदिरे सईरंगइ गोमिणी
महुसमयसंगमो उववणे उववणे
वृढसिंगारए जोव्वणे णवणवे
जत्थ सब्बो जणो जित्तगिक्खाणओ
किंकरा बंधुणो दाणसंमाणिया
मंतियं चित्तियं चारु कज्जं पुणो

कुंभयण्णेहिं णिक्खित्तमाहिबीयए ।
फुल्लतरुसंडए धोवईसंडए ।
पुव्वंसुरासिहंरिणो हरिदिसिविदेहए ।
पोमरयरासिपिंजरियकुंजरघडे ।
जत्थ तत्थ त्थि पिहु पुक्खलावइ मही ।
सेयसउर्हावली पुंडरिंकिणि पुरी ।
मोत्तियकणंचिए प्रंगणे प्रंगणे ।
कुररकारंडकलहंससंसेविया ।
हम्मइ महलो णच्चए कामिणी ।
रमइ वईसवणओ आवणे आवणे । 10
वसइ वरसरसई माणवे माणवे ।
तत्थ पडु अत्थि णामेण रइसेणओ ।
रायलच्छी चिरं तेण संमाणिया ।
मोक्खसोक्खंकरो णत्थि रज्जे गुणो ।

घत्ता—उवसमवाणिपण सिंचेप्पिणु किज्जइ सीयलु ॥
भोयतण्णेण पुणु पज्जलइ भीसु कामाणलु ॥ २ ॥

3

गच्छामु इच्छामु
इय भणिवि समु चिणिवि
मोहणित्त मेलेवि

गुरुपाय पेच्छामु ।
जिणु थुणिवि मणु जिणिवि ।
अइरहहु मंहि देवि ।

७ A लयउ वउ; P लइउ वउ.

2 १ AP कुंभयण्णेहिए खित्त°. २ A धायई°. ३ AP ° णरमिहुणए वट्टिय°. ४ A हरि-
दिस°. ५ AP °सिहरिए. ६ A सउहाउत्ती. ७ AP पुंडरिंकिणि. ८ AP पंगणे पंगणे. ९ A
समलिणा. १० AP कलहंसजुयसेविया. ११ A सइं रमइ but gloss स्वेच्छाचारिणी. १२ AP
वइसवणु पुणु. १३ AP °पाणिएण. १४ AP भोयत्तणेण.

3 १ P एच्छामु. २ P मही देवि.

2 1 b कुंभयण्णे हिं घट्टैः कुम्भगणनाभिर्वा. 3 b हरिदि सि पूर्वदिशि. 4 a °वरहिणणडे
मयूरनटे. 9 a सइरगइ स्वेच्छाचारिणी. 15 उवसमवाणि एण उपशमज्जेन. 16 भोयतणेण
भोगा एव तृणं तेन.

3 3 b अइरहहु मंहि देवि अतिरथस्य भूमिं दत्त्वा.

वल्लहहृ णंदणहु	तं अरुहणंदणहुं ।	
प्रांयति वउ लइउ	हियवउ ण विमिहयउं ।	5
रामाहिरामेसु	इद्वेसु कामेसु ।	
दुव्वारवारणइं	सोलह वि कारणइं ।	
भावेण भावेवि	णीसदु ववसेवि ।	
जिणसुनु जिणविनु	जिणणाउं जिणगोसु ।	
गुरुपुण्णु अज्जेवि	मोहं विसज्जेवि ।	10
मउ करिवि संणासु	हुउ वइजयंतीसु ।	
णिवसेइ कंतम्मि	तं वइजयंतम्मि ।	
कालेण दीहरहं	तेत्तीस सायरहं ।	
सरिसाउ माणियउं	णियंबंध णीणियउं ।	
पुणु तस्स सुहभाउ	छम्माससेसाउ ।	15
सक्केण जाणियउ	संबंधु भाणियउ ।	
धणयस्स णेहेण	हरिसुद्धदेहेण ।	
इह जंबुदीवम्मि	भो भरहखेत्तम्मि ।	
चिरु वसियसयरम्मि	साकेयणयरम्मि ।	
मेहरहु पुहईसु	पिय मंगला तासु	20
हिविही सुओ ताहं	जिणु जाहिं पियराहं ।	
पुरु करहि सोवण्णु	ता झ त्ति बहुवण्णु ।	

घत्ता—घज्जहिं मरगयहिं वेरुलियहं गयणुब्भासणु ।

जक्खेणं णिम्मैवियउं कोसलपुरु पावविणासणु ॥ ३ ॥

4

एत्थंतरए जणमणरामे	वासहरे णिसि पच्छिमजामे ।	
मउपल्लंके णिहायंती	हंसी विव कमले णिवसंती ।	
पेच्छइ देवी सिविणयपंती	तुहिणतारमुत्ताहलकंती ।	
गयणाहं गोमंडलणाहं	पिंगलचलणयणं मयणाहं ।	
पोमं पीणियपुहईणाहं	दामं रंजियभसलसणाहं ।	5

३ AP जित्तारिसंदणहु. ४ AP add after this: सुणिगोत्तणामासु रविकिरणधामासु. ५ AP प्रायंति तउ. ६ AP विंभविंउ. ७ AP उवसेवि. ८ AP सुउ. ९ AP तं. १० P णियंबंधणियउ. ११ A होही. १२ A बहुपुण्णु. १३ AP णिम्मियउं.

4. १ A लच्छीवियसियकमलसणाहं; P पोमापीणियं.

5 a प्रायंति पादान्ते. 7 a दुव्वारं संसारः. 12 a कंतम्मि कमनीये. 14 b णी णियउं निर्जीणम्. 17 b हरिसुद्धदेहेण हर्षोद्घुषितशरीरेण. 23 वज्जहिं वज्जैहीरैः.

4. 5 a पोमं पद्मा लक्ष्मीः.

ताराणाहं वासरणाहं
कलसजुयं मंगलकुलणाहं
तुंगतरंगं तीरिणिणाहं
गेहं सुवसियसुरवरणाहं
रयणगणं विम्हियधणणाहं
इय दैटुं पुच्छइ णिर्यणाहं
भो सोलहपुरिल्लगयणाहो
तं णिसुणिवि पभणइ णरणाहो
संव्वण्हं सव्विदसमच्चो
हए हरिभणणे णिरवज्जे
आया देवी हिरि^१ सिरि कंती

झसजुयलं तड्डिजुयलगुणाहं ।
कमलसरं कीलियकरिणाहं ।
वइसणयं च ससावयणाहं ।
अवरं पवरं थियफणिणाहं ।
दीहसिहालं साहाणाहं । 10
जाया अज्ज दिट्ठसिविणाहं ।
ताणं कहसु फलं मह णाहो ।
होही पुत्तो तुह जगणाहो ।
देवो णं हु सो भणइ मच्चो ।
सइसरीरपक्खालणकज्जे । 15
लच्छी बुद्धी दिहि मइ किन्ती ।

घत्ता—अणवइण्णि अरुहे पहिलउ जि जाम छर्मासिउ ॥

ताम धणाहिवेण धणधारहिं नृवघरि वरिसिउं ॥ ४ ॥

5

णीलियदिसावणइ
तहिं सुद्धवीयाइ
गब्भम्मि अवयरिउ
सो वइजयंतेंदु
कयजयरवालाइ
कैरधरियवीणाइ
तं णयरु तं भवणु
अंगंतरंगत्थु

मासम्मि सावणइ ।
दूरं विणीयाइ ।
जणणीइ उरि धरिउ ।
पुण्णिमइ णं चंदु ।
आवेवि लीलाइ । 5
सहुं तियससेणाइ ।
सा जणणि सो जणणु ।
वंदेवि मुणितित्थु ।

२ A णिजियधणणाहं; P विभियधणणाहं. ३ P दिट्ठ. ४ A णिवणाहं. ५ A णिसिविणाहं. ६ A जे सोलह°. P जो सोलह°. ६ AP गयणाहं. ७ AP णाहं. ८ AP महिणाहो. ९ P जयणाहो. १० P सव्वण्हं सविद°. ११ A देवो णउ भणइ सो मच्चो; P देवो ण हि सो भणइ मच्चो. १२ AP हरिभवणे. १३ A णिरुवज्ज. १४ P सिरि हिरि. १५ P सइ. १६ P छमासिउ. १७ AP णिवघरि.

5 १ A जणणीउरे. २ P करि धरिय°. ३ AP मुणि तेत्थु.

6 b तड्डिजुयलगुणाहं विद्युद्युगलसदृशं चञ्चलमित्यर्थः. 7 a मंगलकुलणाहं मङ्गलसमूहप्रधानम्. 8 a तीरिणिणाहं समुद्रम्; b वइसणयं आसनम्; c सावयणाहं सिंहयुक्तम्. 10 b साहाणाहं स्वाहानाथम् अग्निमित्यर्थः. 11 b दिट्ठसिविणाहं दृष्टः स्वप्नो यया सा. 12 a पुरिल्लगयणाहो पुरिल्लः प्रथमो गजनाथो येषाम्. 15 b पक्खालणं शरीराभ्यन्तरशुद्धिः. 17 अणवइण्णि अनवतीर्णे सति, पूर्वमेवेत्यर्थः.

5 2 b दूरं विणीयाइ अतिविनीतया. 8 b मुणितित्थु तीर्थप्रायं मुनिम्.

गउ सयमहो तेत्थु	सविमाणु तं जेत्यु ।	
रयणप्पहाकिट्टि	पुणु विहिय वसुविट्टि ।	10
जक्खीकडक्खेण	तूसेवि जक्खेण ।	
ता जाव णवमास	संपुण्णविहलास ।	
केवलसिरीरिद्धि	अहिणंदणे सिद्धि ।	
हयदियहपांडीहिं	णवलक्खकोडीहिं ।	
जइया गया ताहं	सायरसमाणहं ।	15
तइया महंतेण	पुण्णेण होंतेण ।	
चित्ताइ पिउजोइ	पविमलदिसाटोइ ।	
तिण्णाणमयदिट्टि	पंचमउ परमेट्टि ।	
संभूउ सो जाम	संखुहिय सुर ताम ।	20

घत्ता— णाणावाहणहिं दिसि दिसि झुलंतवडायहिं ॥
आइउ अमरवइ सहुं चउंविहअमरणिकायहिं ॥ ५ ॥

6

पाविऊण पट्टणं	देवि तिप्पयाहिणं ।	
गंपि रायमंदिरं	णिम्मिऊण णिब्भरं ।	
बंधुचित्तविब्भमं	अण्णबालसंकमं ।	
वज्जपाणिणा पुणो	वंदिओ सयं जिणो ।	
अंकए णिवेसिओ	सूहवो सुहासिओ ।	5
कुंभकंठबंधुरो	चोइओ ससिंधुरो ।	
पत्तओमरायलं	पंडुरं सिलायलं ।	
तम्मि देहमाणवो	तेण दिव्वमाणवो ।	
णाहंओ णिरूविओ	भत्तएहिं भाविओ ।	
पावतावहारिणा	दुद्धरासिवारिणा ।	10
देवएहिं ण्हाणिओ	पुष्फगंधमाणिओ ।	
आलयं पुण्णाणिओ	जेहिं सो वियाणिओ ।	

४ P हयदियहणाडीहिं. ५ AP पविमलदिसाहोइ; T दिसाभोइ दशदिशाटोपे. ६ P adds after this: एयादसिए पक्खि, सिए चंदे महारिक्खि. ७ A बहुविहअमर°.

6 १ A वज्जपाणिणो. २ AP °मरालयं but A corrects it to सुरालयं; gloss in K अमराचलं. ३ P सिलालयं. ४ A माणवे. ५ A माणवे. ६ A णाहए. ७ A पुणो णिओ.

14 a हय दि य ह पा डी हिं गुणितदिवसपरिपाटीभिः. 17 b दि सा टो इ दशदिशाटोपे.

6 3 a अण्णबाल° कृत्रिमबालः. 6 a °बंधुरो मनोज्ञः. 7 a अ म रा य लं अमराचलं मेरुम्. 3 a दे ह मा ण वो शरीरश्रिया अभिनवः. 9 a णि रू वि ओ स्थापितः. 11 b °मा णि ओ पूजितः.

ते जयमि धणया	णाणिणो सउणिणया ।	
मंडणेहिं राइओ	किणरेहिं गाइओ ।	
जोइएहिं झाइओ	अत्थिणत्थिवाइओ ।	15
अण्णिओ विपंकए	माउपाणिपंकए ।	
वज्जिणा जिणेसरो	जीयलोयणेसरो ।	
संसिऊण तं णिवं	कोसिओ गओ दिवं ।	

घत्ता—सुरसीमंतिणिहिं थणथणणण वड्डारिउ ॥

सुमइसमग्घविउ पडु सुमइ भणिवि हक्कारिउ ॥ ६ ॥ 20

7

पुव्वाण गिब्वाणकीलाइ कयसोक्ख	कुमरत्तणेणेय वोलीण दहलक्ख ।
अइऊण ता णवर दणुयारिराएण	भंभंतगंभीरभेरीणिणाएण ।
सिंचेवि सुइंसलिलधाराणिवाएहिं	संमहिवि णवमालईपांरियाएहिं ।
सवलहिवि कप्पूरचंदणपयारेहिं	भूसेवि केऊरहारेहिं दोरेहिं ।
कलरवतुलाकोडिकंचीकलावेहिं	णञ्जेवि विब्भमहिं हावेहिं भावेहिं 15
बद्धो सिरे पट्टु देवाहिदेवस्स	णिब्बिंधकामावहो णिव्विलेवस्स ।
अंधाइं बहिराइं धणविहवहीणाइं	संपीणयंतस्स काणीणदीणाइं ।
महि भुंजमाणस्स दिव्वाइं सोक्खाइं	गलियाइं पुव्वाइं णवँलक्खसंखाइं ।
ता चितियं चितणिज्जं जिणिंदेण	रज्जेण मह होउ भववेल्लिकंदेण ।
तं चयमि तउ करमि संचरमि मग्गेण	विसहिंदच्चिणेण जडकसरदुग्गेण 10

घत्ता—गिरिकक्करि पडइ महुकारणि जिह हयकरहउ ॥

रज्जरसेण तिह भणु महियलि को किर ण णिहउ ॥ ७ ॥

८ A समुणया; P सउणया. ९ A विकंपए. १० समाउपाणिपंकए. ११ P'T सुमइ समणियउ and gloss in T सुमतिः समर्पिता अतिशयवती येन. १२ P सुम्मइ.

7 १ P अविऊण. २ P सिंचेवि सो सलिल°. ३ A सम्भोवणिव°. ४ P °परियाएहिं. ५ A डोरेहिं. ६ AP णिब्बंघ°; T णिब्बंघ सातत्यम्. ७ P णववीसलक्खाइं.

13 b सउ णिणया सपुण्याः. 15 b अत्थि ण स्थि वा इओ स्यादस्ति स्यान्नास्तीति वादकः प्रतिपादकः. 16 a विपंकए निष्पापे. 17 b जीयलोयणेसरो जीवलोकस्य सूर्यः. 18 b कोसिओ देवेन्द्रः.

7 2a अइऊण आगत्य. 3 b संमहिवि पूजयित्वा; b °पा रिया ए हि पारियात्रपुषैः. 4 a सवलहिवि विलेप्य. 5 a °तुलाकोडिं नूपुरम्. 6 b णिब्बिंधं सातत्यम्; कामावहो कामविध्वंसकस्य. 10 b विसहिंदच्चिणेण वृषभनाथो धुर्यो गौश्र्वतेन आचरितेन. 11 महुकारणि मधुरनिमित्तम्; °करहउ उड्डः.

8

अणुभासियं तं जि लोयन्ति^१ विबुहेहिं
तिपुरिल्लकल्लाणविहि तेहिं संविहिउ
मुक्काइं वत्थाइं भीमाइं सत्थाइं
लुंवेवि कुंतलकलावो वि कौतल्लेइ
सो देवदेवेण धित्तो समुद्धम्मि
मणपज्जउप्पणणाणेण सुवसिल्लु
णीसंकु णिकंखु णिम्मुकुदुविहासु
वइसाहसियणवमि पुव्वणह्वेलाइ

आवेवि देवेहिं पज्जणपमुहेहिं ।
सिवियाइ णेऊण णंदणवणे णिहिउ ।
गहियाइं सत्थाइं णियधम्मसत्थाइं ।
सहुं छड्ढिओ जोग्गपत्तम्मि पविमलइ ।
दुद्धुबुकल्लोलमौलारउद्धम्मि । 5
छट्टेववासत्थु णीसंगु णीसल्लु ।
सियलेसु णिहोसु णीरोसु णीहासु ।
आलिंगिओ सामिओ दिक्खवालाइ ।

घत्ता—अवरहिं दियहि पुणु संसारमहण्णवतारउ ॥

पुरवरु सउमणसु चरियाइ पइट्टु भडारउ ॥ ८ ॥

10

9

तत्थ सो पोमणामेण राएण संभाविओ
पंचओज्जाइं जायाइं दाणिस्स तस्सालए
वीसवासाइं घोरे गहीरे तवे संठिओ
तम्मि दिक्खावणे वायहल्लंततालीदले
आइमे मासए चंदजोण्हंकिए पक्खए
इच्छियं णो सइत्तम्मि रायाणसंमाणसं
मेरुधीरेण हंतूण कम्मारिकूरं बलं
आसणाणं पयपेण पायालए पणया
माणवा माणवाणं णिवासाउ संचल्लिया
आगओ वित्तसच्चू ससूरो सतारो ससी
तिण्णि वाणासणाणं सयाइं सरीरुण्णओ

भाववंतेण सत्तीइ भत्तीइ भुंजाविओ ।
लोयणाहो भंमंतो वसंतो गिरिंदालए ।
ता रओ दूसहो दुम्महो दुज्जओ णिट्ठिओ ।
णिच्चलं ज्ञायमाणेण ज्ञेयं पियंगूतले ।
बौरसीए इणे पच्छिमत्थे मघारिक्खए । 5
तेण मौत्तूण भत्तं तिरत्तं च काऊण सं ।
सव्वदव्वावलोयं समुप्पाइयं केवलं ।
कंपिया देवलोयम्मि देवा वि णिहुण्णया ।
वाहणोहेहिं खं ढंकिंयं मेइणी डोल्लियां ।
जोइओ दीहणीलालिमालाजडालो रिस्सी 10
अंगवण्णेण सोवण्णवण्णं समावण्णओ ।

घत्ता—सुरवइअहिवहिहिं महिर्वइहिं मि णियणियसत्तिइ ॥

पारद्धउ थुणहुं सुमईसरु परमइ भत्तिइ ॥ ९ ॥

8 १ P लोयंत^०. २ AP कुंतलइ. ३ P ^०कल्लोलवेलारउद्धम्मि.

9 १ A हम्मालए. २ P समंतो. ३ A जायं. ४ A बारसीए दिणे; P गारसीए इणे. ५ P सइत्तं. ६ A पकंपेण. ७ P हल्लिया. ८ AP महिर्वइहिं णविउ णियसत्तिइ.

8 1 b पज्जण^० इन्द्रः. 2 a ति पुरिल्लकल्लाणविहि तृतीयोऽप्रकल्याणविधिः. 4 a कौतल्लइ पुष्पमालया सह. 7 a णि म्मुक्कुदुविहासु निर्मुक्तदुष्टविभाषणं, द्विविधाशा इहपरलोकाशा येन; b सियलेसु शुक्लेश्यः. 8 b दिक्खवालाइ दीक्षा एव बाला तरुणी तथा.

9 2 a दाणिस्स दानवतः. 3 b रओ रजः कर्म. 5 b इणे आदित्ये; पच्छिमत्थे अस्ताचलं प्राप्ते. 6 a सइत्तम्मि स्वचित्ते; रायाणसंमाणसं राज्ञां समानमुखम्; b सं सम्यक्. 8 b णिहुण्णया दुर्नयरहिताः (निद्रोस्थिताः ?). 10 a वित्तसच्चू वृत्रशत्रुरिन्द्रः.

10

जय देव णिष्पाव	णिक्रंवे णित्ताव ।	
जय तुंग णिष्भंग	दिष्वांग णिष्वांग ।	
जय वाम णिष्वाम	णिक्राम णिष्दाम ।	
जय धीरे संसार-	कंतारणित्थार ।	
जय संत विक्रंत	परमंत अरहंत ।	5
जय कंत कुकयंत	कुणयंत भयवंत ।	
जय संथ मयमंथ	णिग्गंथ सिवपंथ ।	
जय दित्त तमंचत्त	अणिमित्तजगमित्त ।	
जय राय रिसिरौय	णीराय णिम्मौय ।	
जय णंद रुइरुंद -	मुहयंद वुहयंद ।	10
भुज्जिंद भूमिंद	खयरिंद तियसिंद ।	
णित्तंद णिहंद	मुणिवंदसयवंद ।	
जयणाह णिष्णाह	णिष्वाह दुष्वाह ।	
समयार सिंदर	मंदारकणियार- ।	
सुरधित्तसियरत्त-	सयवत्त सुविचित्त ।	15
कुसुमोहकयसोह	णिल्लोह णिम्मोह ।	
जय तिकख दुणिरिक्ख-	तवपंक्खधुवसोक्ख- ।	
फलसाहि महुं देहि	सुसमाहि लहुं बाहि ।	

घत्ता—इय वंदिउ सुमइ जीहासयहिं सहसक्खें ॥

चउदाराहिं सहिउ किउ समवसरण ता जक्खें ॥ १० ॥ 20

11

मइंदासणं लच्छित्तुंगत्तंवासं
सुरुम्मुक्खसेलिधैविट्ठी विसिद्धा

वरं आयवत्तत्तयं चंदभासं ।
पडंती सराणीसरोलि व्व दिट्ठा ।

10 १ A णित्ताव णिक्रव. २ P वीर. ३ A तवत्त. ४ A सिरिगय. ५ P णीमाय. ६ P adds after this: अणवद्. ७ A तववेक्ख.

11 १ A तुंगत्त. २ A आयवत्तं तयं. ३ A मेलधविट्ठी.

10 2 b णिष्वांग निर्दोषः. 3 a वाम मनोज्ञः; णिष्वा म स्त्रीरहितः. 5 a विक्रंत कर्मनिर्मु-
ल्लने विक्रमोपेतः; b परमंत परो मन्त्रः. 6 a कुकयंत कुत्सितः कृतान्तो यस्य. 7 a संथ स्वस्थः. 10 b
बुहयं देत्यादि बुधन्वरादिभिर्मुनिपर्यन्तैर्वन्द्यः. 13 b णिष्वा ह बाधारहितः. 14 a समयार उपशमाचारः.
15 a सियरत्त शुक्लरक्त^० 17 a-b दुणिरिक्ख दुर्धरं तपः पक्षे मते यस्य.

11 2 a 'मेलिध' शिक्लीन्ध्रपुष्पम्; b सराणीसरोलि व्व स्मरस्थं सरोलि धाणपंक्तिरिव.

ण सा तस्य काही समारं वियारं
तवेणुम्भवाप बुहाणंदिरीप
णहे सुम्मप दुंदुही गज्जमाणो
अभव्वो वि देवस्स पाप णवंतो
चला चामराली मरालीलिसेया
असोयहुमो दिव्वपक्खिखदरावो
सुणिज्जंति दव्वत्थपजायभेया
गणिज्जंति कम्माइं छज्जीवकाया

मणुम्मोहया ते हया जेण दूरं ।
विहामंडलं कुंडलं णं सिरीप । 5
भिसं दीसप साणुकंपं चवंतो ।
सुभासाविभासाहिं गिज्जंति गेया ।
जगुम्मोहणो भारहीप पहावो ।
मुणिज्जंति लोएहिं पंचत्थिकाया ।
पवहंति देहीण चित्ते विवेया । 10

घत्ता—पुच्छंतहु जणहु संदेहतिमिरु संपिणरसइ ॥

जलि थलि णहि विवरि तं णत्थि जं ण जिणु सासई ॥ ११ ॥

12

संउ सोलहउत्तरु गणहरहं
दुण्णि सहस चत्तारि सय
दोण्णि लक्ख चउपण्ण पुणु
अवरु वि पण्णासइ सहिय
पैक्कारहसहसइं परहं
देवधित्तकुसुमंजलिहिं
चउसयअट्टारहसहस
दहसहास चउरो सयइं
तेत्तिय पुणु पण्णासजुय
लक्खइं गुत्तिसमय गणामि
संरिसइं बंभीसुंदरिहिं
णिच्चमेव मउलियकरहं
पंचलक्ख घरचारिणिहिं
विहरंतहु तहु महिठाणाइं

पुव्ववियाणहं मुणिवरहं ।
णिच्चपउंजियजीवदय ।
सहस तिण्णि सय तहिं जि भणु ।
एत्तिय सिक्खुव सवरहिय । 5
अत्थि तेत्थु अवहीहरहं ।
तेरहसहसइं केवलिहिं ।
वेउव्वियहं सुज्झाणवस ।
मणपज्जवहहं हयमयइं ।
वाइ तासु णिप्पणसुय ।
सहसइं अवरु तीस भणमि । 10
तहु जायइं संजमधरिहिं ।
तिण्णि लक्ख सावयणरहं ।
णारिहिं अणुवयधारिणिहिं ।
वीसवरिसपैरिहीणाइं ।

४ P मणुम्मोहयता हया. ५ AP कुंडलं. ६ A संगंधो वि. ७ P मरालाणिसेया. ८ P सुहासाहिं
भासाहिं. ९ K दिव्वत्थं but gloss द्रव्यार्थं. १० AP भासइ.

12 १ AP सउ जि ससोलह. २ AP एयारह. ३ P चउरो य सइं. ४ A मणपज्जवयहं गय-
मयइं; P मणपज्जवहु वि हयमयइं. ५ P सरसइं. ६ A omits तहु. ७ A परहीणाइं.

3 a समारं सरप्रभवम्. 4 b विहामंडलं भामण्डलम्. 7 a मरालालिसेया हंसश्रेणिरिवोज्ज्वला.
12 सासइ शास्ति कथयति.

12 10 a गुत्तिसमय त्रीणि. 14 a ठाणाइं प्रदेशान्.

पुंभवहं घडिमालाहयइं कायविसगें थिउ वियडि मासि पहिल्लइ पक्खि सिइ मंघेणक्खत्ते णिव्वुयउ देविंदहिं जयकारियउ अट्टगुणालंकिउ सुमइ	एक्खवीसलंक्खइं गयइं । माससेसुं संभेयतडि । एयारसिदिणि दिण्णसिइ । सहुं जोइहिं णिक्कलु हुयउ । पुंज्जिवि साहुकारियउ । देउ मज्झु अवियंल सुमइ ।	15 20
---	--	--------------------------

घत्ता—भरहेण अण्णाहिं मि परमेसरु सो वण्णिज्जइ ॥
सइं अमराहिवेण गुणपुप्फयंतु जसु गिज्जइ ॥ १२ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे सुमइणिव्वाणगमणं
णाम दुचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४२ ॥

॥ सुमइचरियं समत्तं ॥

८ P पुण्णाहं. ९ P एक्कपुव्वलक्खइं. १० A मासमेत्तु. ११ A एगारसि°. १२ AP महणक्खत्ते.
१३ A अग्गिंदेहिं सक्कारियउ; P अग्गिंदेहिं संकारियउ. १४ P देउ मज्झु विमलमइ. १५ A पुप्फयंत.
१६ A किज्जइ.

16 a वियडि विस्तीर्णे. 17 b दिण्ण सि इ दत्तमोक्षलक्ष्मीके. 22 गुणपुप्फयंतु गुणपुष्पाणां सूत्रं
क्रियते यशः.

XLIII

दप्पिट्टदुट्टपाविट्टजगजणियभावु दावियपहु ॥
कम्मट्टगंठिणिट्टवणखमु पणवेप्पिणु पउमप्पहु ॥ धुवकं ॥

1

णिरंतरु जो तवलच्छिणिकेउ
परज्जिउ जेण रणे झसकेउ
णियाँयममग्गणिओइयसीसु
वियट्टुविवाइविइण्णावियारु
विवज्जिउ जेण वियालविहारु
कडीयलि मेहल पेय णिवद्ध
खमासरिसित्तसरोसहुयासु
भडारउ जोरुणपंकयभासु
पमेह्लिउ जो विहिणा विविहेणं
समिच्छियणिकख्यसोक्खपयस्स
दुगुंछियकण्हमयाइणयस्स
भविस्सजिणिंद अणिंदसमीह
जगुत्तमु गोत्तमु भासइ पंव

गइंदखगिंदविसंक्रियकेउ ।
समुग्गंउ जो कुगईखयकेउ ।
अपासु अवासु अणीसु रिसीसु । 5
रयासववारु विमुक्कवियारु ।
सयाँ गलकंदलु जस्स विहारु ।
ण कामिणि जेण सणेहणिबद्ध ।
सुझाणदवग्गिसिहोहहुयासु ।
अमिच्छअनुच्छपर्यापियभासु । 10
णमामि तमीसमहं तिविहेण ।
णइच्छियविप्पवियप्पपयँस्स ।
भणामि समायरियं इणंयस्स ।
अहो सुणि सेणियराय णिसीह ।
सुणंति महोरय दाणव देव । 15

प्रत्ता—धादइसंडइ दीवम्मि वरे जणगोहणसंकिणणइ ॥

तहिं पुव्वमेरुपुव्वइ दिसइ पुव्वविदेहि रवणणइ ॥ १ ॥

1 १ A समग्गउ. २ A णियागम°. ३ A सयामयकंदलु. ४ AP पयासियभासु. ५ A तिविहेण. ६ A ° अक्खयमोक्खपयासु. ७ A °पयासु. ८ P कण्हमयं अइणस्स. ९ P इणमस्स.

1 1 °भावु शुभपरिणामः 3 a °णि केउ निवासः; b ° केउ ध्वजः. 4 b °खयकेउ विनाशार्थमुद्यतः. 5 a °णि ओ इय° नियोजिताः; b अपासु बन्धनरहितः. 6 a वियट्टु° विदग्धाः; °विइण्णवियारु दत्तो विचारो विकारो कर्मभङ्गो येन; b रयासववारु कर्माश्रवप्रतिषेधकः. 7 a वियालविहारु अकालविहरणम्; b विहारु हाररहितः. 8 b सणेहणिबद्ध निजस्नेहे न धृता. 9 a °सरोसहुयासु स्वरोषाग्निः; b °हुयासु हुतवाञ्छः. 10 a अरुणपंकयभासु रक्तोत्पलप्रभः; b अमिच्छेत्यादि अमिथ्यानां भव्यानां अतुच्छानां प्रचुराणां प्रजानां प्रिया भाषा यस्य. 11 a विहिणा कर्मणा. 12 a णिक्खयसोक्खपयस्स शाश्वतसौख्यपदस्य; b णइच्छियेत्यादि नेष्टं ब्राह्मणकल्पितानेकपशुवधानां पदं यज्ञादिकं येन. 13 a दुगुंछियकण्हमयाइणयस्य जुगुप्सितं निन्दितं कृष्णमृगाजिनकं येन; b इणयस्स इदमस्य पद्मप्रभस्य. 14 a अणिंदसमीह उत्तमसम्बन्धेष्ट.

2

सयामयणाहिसुगंधसमीरि
सकच्छउ वच्छउ देसु विसालु
समीथसमीवपरिट्टियगामु
फलोणयच्छेत्तणियत्तणरिद्ध
तहि पुरि अत्थि पसिद्ध सुमीम
दुभूमितिभूमिसमुणयणीड
सरोरुहकेसरलगदुरेह
हरीमणिबद्धमणोहरमग्ग
तहि अपरज्जिउ णाम णरिद्ध
रईसु व भाविणिदुल्लहसंगु
खल्लुज्जिउ तेलु व णेहलभोउ
मविग्गहु सहुँ व लक्खणवंतु

सुसीयहि सीयंहि दाहिणतीरि ।
मरालुविहंगैविहिण्णमुणालु ।
परिणपंवासिपऊरियकामु ।
पिओ जहिं रोसणियत्तणणिद्ध ।
दुवारविलंवियमोत्तियदाम । 5
महंतफुरंतसुवण्णकवाड ।
जिणालयचूलियचुंवियमेह ।
णिभोयविसंसविसेसियसग्ग ।
करिद्ध व दाणि कुलंबरचंदु ।
मरासणु जेम गुणेणं वियंगु । 10
णहं व समेहु णिवेमियलोउ ।
पउंजइ संधि वियाणइ मंतु ।

घत्ता—अण्णहिं दिणि तेण णराहिवेण च्चित्तिउं हाउ पहुच्चइ ॥
जं पुरउं पमेलइ वल्लहउं अप्पणु तं लहु मुच्चइ ॥ २ ॥

3

अरे जडजीव समांसमि तुज्जु
गयालसु लालसु लोहरसेणं
जणेण जणो पणविज्जइ तैव
मयंग तुरंगम किंकर कासु
ण मित्तु कलत्तु ण पुत्तु ण वंधु
विच्चित्तिवि पंव णिरुत्तु मणेण

ण कस्स विहं जगि को वि ण मज्जु ।
णिरंतरयं णियकज्जवसेण ।
सजीउ वितासु णरक्खइ जैव ।
फलक्खइ पक्खि व जंति दिसासु ।
सरीरु वि पंउं विणासि दुगंधु । 5
पकोक्किउ पुत्तु सुमित्तु खणेण ।

2 १ A सुगंधि; P सुगंध. २ P तीरिणि. ३ A मरालमुहग्ग. ४ A पहीण. ५ A पवासियऊरिय; P पवासियपूरिय. ६ A पउंजहि. ७ P कुलंबरदंदु. ८ P भामिणिदुणयसंकु. ९ P गुणेण अवंकु. १० A खल्लुज्जियतेल्लु व णेहलभोउ; P खल्लुज्जिय तेलु व्व णेहल भाउ. ११ P सहु मलक्खणवंतु.

3 १ A पयासमि. २ P ण को वि. ३ P मोहरमेण. ४ A तामु वि. ५ A एम विणासि. ६ A मित्तु सुपुत्तु.

2 1 a मयणा हि कस्त्रिकामृगाः; b सुसीयहि सुशीतगुणयुक्तायाः सुश्रीकाया वा. 4 b णिद्ध कुशलः. 7 a दुरेह भ्रमरः. 8 b विसेसिय अतिशयितः. 9 b दाणि दानशीलः. 11 b समेहु समेघः सुबुद्धिश्च. 12 a लक्खणवंतु व्याकरणमिव. 13 पहुच्चइ पूर्णम्.

3 1 a समासमि संक्षेपेण कथयामि. 4 b फलक्खइ फलक्षये. 6 a णिरुत्तु निश्चयेन.

सवित्ति धरित्ति णिवेइय तासु
गुरुं पिहियासवयं पणवेवि
दसेक्कसुयंगवयाइं धरेवि
सुपीसुयभोयणुभक्कु गसेवि
दुहा भंय मेहुणु णिह मुएवि
सहेवि परीसह भीमुवसंग्ग
चएप्पिणु दुव्वहसीलवहाउ
तवेण करेवि कलेवर खासु
विहंडिवि छंडिवि चंडु तिदंडु

धराभरधारणु कंधरु जासु ।
थिओ जिणदिक्खवयक्खमु होवि ।
पुरायरगामसयाइं चरेवि ।
अपंडयथीपसुवासि वसेवि । 10
सणाणजलेण कलंकु धुएवि ।
मुणित्तणवित्ति च्चिणेवि समग्गं ।
णिरिक्कवह्णिवभत्तकहाउ ।
णिवंधिवि गोत्तु जिणेसरणासु ।
मंओ पमुएवि चउव्विहर्पिंडु । 15

घत्ता—अवराइउ रिसि उवरिल्लियहि णरवंदहिं णिरवज्जहिं ॥
पीइंकरणांमविमाणवरि सुरु जायउ गेवज्जहिं ॥ ३ ॥

4

गिहीगुणठाणवएहिं विमीस
संसंतहु अंतरु तेत्तिय पक्ख
ण को वि महीयलि संगिहु जासु
छमासुं परिट्टिउ आउसु जांव
पुरीकउसंविदइंसु मणीसु
सुसीम णियंबिणि वल्लह तस्सं
भिसं भरहेसरवंसरुहस्स
अहो णिहिणाह विहंसियसोउ
तओ धणिणा पुरुपेसणरम्मु

तहिं तहु आउ महोवहि वीस ।
दुहंत्यपमाणिय बोदि वलक्ख ।
दिणेहिं अहंसुरणाहहु तासु ।
इणं घणवाहि पजंपइ तांव ।
धराधरणो धरणीसु महीसु । 5
अखंडसुहारुहसोम्ममुहस्स ।
करेहि दिहिं णिलयं व णिवस्स ।
पहोसइ णंदणु णंदियलोउ ।
विणिग्गिउं भम्मविणिग्गियहम्मु ।

घत्ता—अण्णहिं वासरि रायाणियइ णिसिविरामि उवलक्खिय ॥ 10
पासायतंलिमतलसुत्तियइ सिविणयमाल णिरिक्खिय ॥ ४ ॥

६ A धराभरधारण; P धराभरु धारणु. ७ A पिहियासव णं पणवेवि. ८ A सुफासुय°. ९ A दुहामयमेहुणु.
१० A °वसग्गि. ११ A समग्गि. १२ AP मुओ. १३ A पीइंकरणांम°; P पीयंकरमाण°.

4 १ A आव. २ A सुसंतहु. ३ P दिवडुयहत्थय. ४ AP छमास. ५ A सुणीसु. ६ A धरणोद्धरणे. ७ A तासु. ८ A °सुहायरसोम्ममुहासु. ९ A °तलि सुत्तियइ; P ° तले सुत्तिइ.

8 b जिण दि क्ख व य क्ख मु जिनदीक्षाव्रतयोः क्षमः 9 a °व या इ पदानि. 10 b °पंडयंनपुंसकः.
13 a °सीलवहाउ शीलवधकारिकाः विकथाः; b णिरिक्क° चोरः; °णिवं नृपकथा; °भत्त°
भोजनकथा. 15 b °पिंडु आहारः. 16 उ व रि ल्लियहि तृतीये त्रिके.

4 1 a गि ही गु ण ठा ण व ए हिं गृहस्थगुणस्थानपदैरेकादशभिः. 2 b बो दि शरीरम्; व ल क्ख
शुक्ला. 4 b घ ण वा हि इन्द्रः. 6 b °सु हा रु ह° चन्द्रः. 9 a पुरु पे स ण र म्मु इन्द्रप्रेषणेन आदेशेन रम्यम्;
b भ म्म° सुवर्णम्.

सुहाहिमसारयणीरयवण्णु
 गलंतमओलकवोलु करिंदु
 खरोहिं खुरेहिं धरग्गु दलंतु
 विसेसविसेसु विसाण धुणंतु
 गिरिंदगुहाकुहरंतविणिचु
 लयादललोलललावियजीहु
 गिसावइसेय दिसागयकंति
 अणेषपस्यकरंबयगुंथु
 गिहित्ततमीतमु गिम्मलु चंदु
 पमत्तं रमतं द्रहंति तरंत
 महुप्पल कुंभलएसु गिसण
 अलीरंबफुल्लियपोमरयालु
 गिमज्जणकीलणलीण गइंदु
 पदंसियभीयरमीणरंडुहु
 सुहावहु सुट्टु परिट्टिउ इट्टु
 गियच्छिउ अच्छरणाहविमाणु
 गियच्छिउ वोमदिसाणणभासि
 पविचुं पलित्तु घिणण व सिचु
 गियच्छिउ चिच्चि णरच्चियदेहु

परहरपाणि झलज्जलकण्णु ।
 गियच्छिउ जंगमु णाइं धरिंदु ।
 बलाल गंविंद वलेण खलंतु ।
 गियच्छिउ संमुहु पंतु डरंतुं ।
 रुसारुणदारुणदूसहणेचु । 5
 णहालिफुरंतु गियच्छिउ सीहु ।
 गियच्छिय लच्छि सरावरि णहंति ।
 गियच्छिउ दामयजुम्मु णहत्थु ।
 गियच्छिउ तिच्चु तवंतु दिणिंदु ।
 गियच्छिय मच्छ चलंत वलंत । 10
 गियच्छिय कुंभ वरंभपउणण ।
 विहंगसिलिवयच्चक्खियणालु ।
 गियच्छिउ तामरसायरं चंदु ।
 गियच्छिउ वारिणउहु समुहु ।
 गियच्छिउ विट्ठरु सीहाणिविट्ठु । 15
 अहीसरमंदिरु मेरुसमाणु ।
 पहाइ अण्ण मणीण य रासि ।
 महंतु जलंतु णहंतिगि मिलंतु ।
 पहायइ गंपि णराहिवगंहु ।

घत्ता— गियदइयहु देविइ वज्जरिउं जं जिह दंसणु दिट्टुं ॥ 20
 तुह होसइ तणुरुहु परमजिणु तेण ताहि फलु सिट्टुं ॥ ५ ॥

5 १ A कवोलं २ P गइंद. ३ AP विसेसु विसंमु. ४ AP रइंतु. ५ AP गुंथु. ६ A reads this line after चक्खियणालु below. ७ A भमंतु. ८ AP दहंति. ९ AP अलीरउ. १० A कीलणमील. P कीलणणील. ११ P रसायरु. १२ AP खइ. १३ AP पणिट्टियदुहु. १४ AP अहीसरगेहु गिरिदसमाणु. १५ A पलित्तु पवित्तु घिणण; P पदीवि पलित्तु घिणण. १६ A णहमिलंतु.

5 1a सारयणीरयं शरन्मेघः; b परहरपाणि प्रदीर्घशुण्डः. 2 a °म ओलं मदप्रवाहः. 3 b बलाल बलवान्. 4 a विसेसविसेसु वृषभेशानां प्रधानः; विरोपोपलक्षितो वृषसो वा; b डरतु गर्जन्. 6 b णहालिं नखश्रेणी. 7 a गिसावइसंय चन्द्रवत् श्वेता उज्ज्वला. 8 a पस्यकरंबयगुत्थु पुष्पसमूहैर्गुम्फितम्; b णहत्थु नभःस्थं खलमम्. 9 a °तमीं रात्रिः. 10 a द्रहंति हृदमध्ये. 11 a कुंभलएसु कुम्भमालासु. 12 a °पोमरयालु पद्मपरागयुक्तः; b विहंगसिलिवयं हंसशिशुः. 13 b तामरसायरु कमलाकरः 16 a अच्छरणाहं देवाः. 19 a चिच्चि अग्निः.

6

पुरंदरणारि हिरी धवलच्छि
पसाहिउ सोहिउ सीमहि गब्भु
हिमागमि संगमि माहि पवण्णि
असेयहि छट्टिहि रत्तिविरामि
इहाहिवरूवधरो वल्लिरेहि
भुयंग णरामर मंदिरु आय
दहट्ट जि पक्ख सिणा दुहहार
गण सुमईसि महोद्धिसमेहिं
समायइ कत्तिइ कंदवियोइ
हुओ परमेसु सुहाइं जणंतु
पुणाइउ जीय जिणिंद भणंतु
पुरं पणवेवि णिवासि विसेवि
जिणम्महि हत्थि परो सिसु देवि
पवज्जियदक्कं कमक्कमियक्कं
गओ गहमंडलु लंघिवि तांव

सिरी दिहि कंति पराइय लच्छि ।
रिदुत्तिउ बुद्धुउ हेमवरंभु ।
णहे दहदिव्वलयम्मि पसण्णि ।
ससंकदिवायरसंगि सँकामि ।
थिओ मुणिणाहु समायरिदेहि । 5
रिहुच्छिण उच्छवि सुँक्कियमाय ।
घरंगणि पाडिय कब्बुरधार ।
असीदहकोडिसहासपमेहिं ।
अचंदिणंतरसि तट्टयजोइ ।
असंखसहाँसु महामहवंतु । 10
णहं तुरपहिं गणहिं पिहंतु ।
सुहीहिययंतरि भत्ति करेवि ।
जगत्तयणाहु णवेवि लपवि ।
णिओइउ वारणु चल्लिउ सक्कु ।
सिला इणसिंचणमेइणि जांव । 15

घत्ता—तहिं मेरुसिंगि संणिहिउ जिणु पाणिउ सुरयणु आणइ ॥

कल्हारपिहियघडसहसकरु सइं पुलोमिपिउ ण्हाणइ ॥ ६ ॥

7

वियाणिवि ण्हाणिवि ण्हाणिविहीइ
पर्णाच्चिवि अग्गइ बालुं चलेहिं

पुणा अवयारु करेवि महीइ ।
थुणेवि सुरंइ गुणालकुलेहिं ।

6 A °णारिहि धी धवलच्छि. २ A उडुत्तिउ. ३ AP °संगमिकामि. ४ A सुँक्किय. ५ A महमद्धिसमेहि. ६ A तट्टिय°. ७ AT सुहासु. ८ APT जिणंविहि. ९ A °दक्क. १० A कमक्कमियंक्कु.

7 १ AP read *a* as *b* and *b* as *a*. २ AP वाहुवल्लेहिं. ३ AP गुणाण.

6 2 *b* सी म हि मुसीमायाः; *b* रि दु त्ति उ ऋनुत्रयं पण्मासाः. 3 *b* द ह दि व्व ल य भि म दश-
दिशाचक्रे. 4 *b* स सं क चन्द्रः; दि वा य र सं गि आदित्योदये. 5 *a* इ हा हि व° गजरूपधरः; व ल्लि रे हि
वलीशोभिते. 6 *b* रि हु च्छि ण इन्द्रेण सह; *b* सु क्किय माय सुपु उत्तमा कृता माया विक्रियाविभूतिर्यै-
नरामरंः; अथवा पशु कृता ग्वण्डिता माया र्थः. 7 *a* सि णा धनदेन; *b* क व्बुर धार सुवर्णधारः. 9 *a* कंद-
वियो इ मेघापगमे; *b* त ट्ट य जो इ त्वपृथगे चित्रानक्षत्रे. 10 *b* अ सं ख स हा सु असंख्यदेवः; म हा म ह-
वं तु महामहाः पञ्चकल्याणानि विद्यन्ते कार्यत्वेन यस्य स शक्रः. 12 *b* सु ही हि य यं तरि बन्धुजनहृदयमध्ये.
13 *b* प रो सि सु मायाशिशुः. 14 *a* क म क्क मिय क्क क्रमेण चरणेन आक्रमितः अर्कः येन; *b* णि ओ इ उ
प्रेरितः. 15 *b* इ ण सिं च ण मे इ णि जिनाभिषेकभूमिः. 17 पुलो मि पि उ पौलोमी शची तस्याः पतिः इन्द्रः.

7 2 *a* च ले हि विद्युच्चपलंः.

समपिउ मायहि पंकयणेत्तु
 गयामयभोइ सवासपपसु
 ण वण्णहु सकंवि तासु कयाइं
 सरासण्याहं सरीरपमाणु
 समं णरडिंभयणेण रमेवि
 वयंकसमंकिउ सुण्णचउक्क
 तओ तहिं पत्तु सयं सयमण्णु
 दु एक्कु जि बिंदुय पंच जि देहि

सुलक्खणवेंजणरंजियगत्तु ।
 पवह्दिउ तायहरम्मि जिणेसु ।
 सयद्ध णिउत्तइं दोणिण सयाइं । 5
 रुईइ विरेहइ णं णवभाणु ।
 इसीसमपुव्वहं लक्ख गमेवि ।
 इणं पि दिणेहि पमाणु पदुक्क ।
 कुमारु णिवेसिउ रज्जि पसण्णु ।
 पुंणो वि सिमुत्तरसंख गणेहि । 10

घत्ता—इय पुव्वकालु पुहईसरहु गउ सुहुं सिरि माणंतहु ।

विण्णवियउ ता किंकरंणरिण कर मउलिवि पणावेवि तहु ॥७॥

8

णराहिव दीहरपासणिरुद्धु
 समुण्णयकुंभु णहग्गविलग्गु
 तओ परिचिंतिउं दिव्वंणिवेण
 ण विंल्लसरीजलकील मणांज्ज
 ण कंदल मिट्ठु ण कोमलवेणु
 करेणुरई करताडणु णत्थि
 दढंकुसघट्टणु फासणिरोहु
 ण एक्कु इहिंदु मए इह उत्तु
 ण णिग्गइ जग्गइ किं पि ण मूदु
 अहं पि हु मोहिउ किं परु मोक्खु
 विणासिरु जाणिवि पेच्छमि लोउ
 असासउं रज्जु असुंदरु अंति

करीसरु वारिणिबंधणि बंधुं ।
 धराहिव जाणविं तुम्हहुं जोग्गु ।
 पमग्गियकेवलणाणासिवेण ।
 ण सल्लइपल्लवभोज्ज ण सेज्ज ।
 ण मग्गविलग्गिरवालकरेणु । 5
 सफासवसेण विडंबिउ हत्थि ।
 सहेइ वराउ वियंभियमोहु ।
 अहो जणु दुक्कियदेहणि खुत्तु ।
 सिरीमयणिहपरव्वसु मूदु ।
 दुमाणुवु चम्मविणिम्मिउ रुक्खु । 10
 विरप्पमि तो वि ण भुंजमि भोउ ।
 ण इच्छमि अच्छमि गंपि वणंति ।

घत्ता—तावायहिं लहुं लोयंतियहिं णाहहु वयणु समत्थियउ ।

अंबरु धावंतहिं दणुयरिहिं चित्तचीरु णावइ थियउ ॥ ८ ॥

४ AP °विंजण°, ५ A ण वण्णहं सकमि; P ण वण्णवि सकमि. ६ AP सरारु पमाणु. ७ P पंच जि बिंदुय. ८ P चयारि. ९ A °णरिणा.

8 १ AP बद्ध. २ A दिव्वु. ३ A पासणिरोहु. ४ AP वृद्ध. ५ A विरप्पवि. ६ AP समत्थियउ.

4 a अ म य भो इ अमृताशिनो देवाः. 8 a व यं क स मं कि उ मतानि पञ्च तैश्चिह्नितम्. 9 a स य म ण्णु इन्द्रः. 10 a दु ए कु जि बिं दु य पंच एकविंशतिलक्षाः; b सि मु त्तर सं ख शिशूत्तरसंख्या राज्यकालः.

8 1 b वारि णि बंधणि गर्तानिवन्धेन. 5 b °करे णु हस्तिनी. 8 a इ हिं दु गजेन्द्रः; b °दे ह णि कर्दमे; खु तु क्षितः 14 द णु य रि हिं दानवदेवैः.

9

गिरि व्व जलागमणं जलएहिं
समच्चिउ लोयगुरु कुडएहिं
सुवण्णमयाइ णरच्छिपियाइ
वणंतरु चारु पडुल्लियचारु
खमाविउ लोउ सिरे कउ लोउ
करेप्पिणु छट्टु वि सुट्टु वरिट्टु
समट्टममासि जंगंतपयासि
दिणे असियम्मि सुतेरसियम्मि
विणिग्गउ हत्थु पडुइय चित्त
सुयाइं मुणेवि रयाइं धुणेवि
समं सकिवाहं सहासु णिवाहं

सुरेहिं पडु णहविओ कुलएहिं ।
थुओ दुवईवयणुकुडएहिं ।
महिंदणियाइ गओ सिवियाइ ।
सकंकणु हारु पमेल्लिवि दोरु ।
भवण्णवपोउ विसुद्धतिजोउ । 5
पदिट्टसइट्टु समासियणिट्टु ।
घणागमणासि हिमालपवेसि ।
दिणेशरि जाम दुयालसियम्मि ।
अलंकिय तद्दिणि संजमजैत्त ।
महव्वय लेवि थिओ रिसि होवि । 10
तवंकिउ ताहं ण मच्छरु जाहं ।

घत्ता— बारहविहतधणिव्वाहणहि धम्मजोयर्परिरक्खहि ॥

पउमप्पहु वडुमाणणयरि देउ पडुट्टउ भिक्खहि ॥ ९ ॥

10

णमोत्थु भणेवि गहीररवेण
तिणा तहु णिम्मलु भोयणु दिण्णु
णिहेलणि उग्गय अब्भुय पंच
गओ रिसि घोसिवि अक्खयदाणु
पमाय कसाय विसाय हरंतु
विह्वयतमोमयमंदकलंकि
सुचित्तहि चित्तइ चित्तविमुक्कु
परंदिसमासिइ वासरराइ

घरं णिउ सो ससियत्तणिवेण ।
मुणिंदणिहालणि संचिउ पुण्णु ।
अहासवदारइं हंभिवि पंच ।
सुंबंधु सुंवेरि सुंणिच्चसमाणु ।
छमास विहंदिउं वित्तु चरंतु । 5
चइत्तछणम्मि पउण्णससंकि ।
दढं माणि पूरिउ बीयउ सुक्कु ।
उइण्णउं केवलणाणु विराइ ।

9 १ A सुवण्णमियाइ. २ AP जगतपयासि. ३ A संजमजुत्त. ४ A णिव्वाहणउ. ५ A धम्म
६ P जोइपरिक्खहि. ७ A पयडुउ.

10 १ A ससिदत्त°. २ A भोयणु णिम्मलु. ३ A णिग्गय. ४ AP सुंबंधु. ५ A सुवेरि.
६ P सुमिच्च°. ७ A विहंदिउ. ८ P उण्णउं.

9 1 b कुलएहिं घटेः. 2 a कुडएहिं कुट्टजपुष्पैः; b दुवईवयणुकुडएहिं द्विपदी
छन्दोविशेषः तद्वचनेन उत्कटैः. ३ a सुवण्णमयाइ सुवर्णनिर्मितया. 5 a लोउ लोचः; b विसुद्धति-
जोउ विशुद्धवाञ्छनःशरीरयोगः. 6 b समासियणिट्टु समाश्रितचारित्रः. 7 b हिमाल° शीतम्. 8 b
जामदुयाल° यामद्वयम्.

10 1 b ससियत्त° सोमदत्तः. 2 b °णिहालणि आलोकने. 3 b अहासव° पापाश्रव°. 4
6 b °छणम्मि पूर्णिमायाम्. 8 a परंदिसं पश्चिमदिशा; b विराइ विरागे वीतरागे.

णियासणचालणचालियसग्गु
समागउ झंत्ति पवाहियपीलु

विमाणपऊरियवारियमग्गु ॥
बिडोउ समिच्चु सच्चिधु सलीलु । 10

घत्ता—दह भावण वेतर अट्टविह जोइस पंचविहाइय ॥

सोलहविह कप्पणिवासिसुर जिणु णवन्ति गुणराइय ॥ १० ॥

11

णमो अरिहंत णमो अरिहंत
णमो दयवंत णमो दयवंत
णमो बुहराम णमोहविराम
णमो गिरिधीर णमो गयसीर
णमो णियमाल सुपंकयमाल
फलाइं गसंतु जलाइं रसंतु
ण जे तवसीह अहो मुणिसीह
तुमं सुमरंति भवेसु मरंति
पणासियसासयसंपयमूलु
कुसंगु कुलिंगु कुसामि कुदेउ
वियंभउ णाणविलोयणसत्ति

णमो विसयंत णमो विसयंत ।
णमोत्थु अभंत भयंत भवंत ।
णमो गुणथाम णमोमियथाम ।
णमो हयमार णमो धुवमार ।
कयंघिसुसील महाकरिलील । 5
दलाइं वसंतु वणम्मि वसंतु ।
परत्तसिरीह णिरीस णिरीह ।
ण ते सुहि होंति मूंगेसु हि होंति ।
महं तुह धम्मसिरीपडिकूलु ।
कुपत्ति कुमित्तु म जम्मि विहोउ । 10
सुणिच्चल होउ तुहुप्परि भत्ति ।

घत्ता—णिव्वाणभूमिवररमणिसिरिचूडामणि पइं वण्णमि ॥

जडु कव्वपिसापं विणडियउ अप्पउ हँउं तणु मण्णमि ॥११॥

12

थुणेप्पिणु एम गुणोहु जिणेसु
चउदिसु उब्भिय सोहिय खंभ

तओ तियसेहिं कओ तहु वासु ।
चउदिसु सारसरावसरंभ ।

१ P ताव.

11 १ AP अरहंत. २ A णमोत्थु भयंत. ३ P कलंघि. ४ A मिंगेसु; P मगेसु. ५ A सिरचूलामणि. ६ A मण्णमि. ७ A तणु हउं.

9 b °वारियमग्गु मेघमार्गः. 10 a पवाहिय° प्रेरितः; b विडोउ विडौजाः इन्द्रः.

11 1 a अरिहंत अर्हन्नाथ; अरिहंत कर्मारिघातक; b विसयंत ज्ञेयवस्तुपर्यन्त; विसयंत विषयविनाशक. 2 a दयवंत दयायुक्त; अदयवंत अदया वान्ता छर्दिता येन; b अभंत अभ्रान्त; भयंत भदन्त मुने; भवंत भयविनाशक. 3 a बुहराम पण्डितमनोज्ञ; अहविराम पापान्तक; b गुणथाम गुणनिलय; अमियथाम अनन्तवीर्य. 4 a गिरिधीर गयसीर हलरहित; b हयमार निर्जितकाम; धुवमार ध्रुवलक्ष्मीदायक. 5 a णियमाल नियमसहित; सुपंकयमाल शोभनपङ्कजमालाशोभित; b कयंघिसुसील कृता अंग्रियु सुशीला यनयः प्रणता येन. 13 तणु मण्णमि तृणवन्मन्ये.

12 1 b वासु समवसरणम्. 2 b सारसरावसरंभ सारसशब्दयुक्तानि सरोगतानि अभ्भांसि जलानि.

चउहिसु दारंइं गोउरयाइं
 चउहिसु पायववेळ्ळिहरांइं
 चउहिसु दीसइ सम्मुहुं देउ
 चउहिसु भावलउब्भवु तेउ
 चउहिसु छत्तइं पंडुरयाइं
 चउहिसु अट्टमहाधयपंति
 चउहिसु दुंदुहिसइ घडंति
 असेसहं भासविसेसहं खाणि

चउहिसु चेइयमंदिरयाइं ।
 चउहिसु थूहइं दिव्वेधराइं ।
 चउहिसु आसणु सीहसमेउ । 5
 चउहिसु पल्लवरत्तु असोउ ।
 चउहिसु सुव्वेभइं चामरयाइं ।
 चउहिसु पुष्पचयाइं पडंति ।
 चउहिसु इंदत्तयाउ णडंति ।
 चउहिसु तस्स वियंभइ वाणि । 10

घत्ता—तच्चाइं सत्त दह धम्मविहि णव पयत्थ ल्हदव्वइं ॥

आहासइ परमप्पउ जणहु सव्वंइं भूयइं भव्वइं ॥ १२ ॥

13

खण्णु पुणेक्कु गणेसवराहं
 तिर्विंदुय रंध रिऊदुयजुत्त
 सहास दसेव य ओहिजुयाहं
 सहासइं सोलह अट्टसयाइं
 महामणपज्जयणाणधराहं
 सहासहं उप्परि रंधसमाहं
 सहासइं वीस पयोणिहि लक्ख
 वयत्थघरत्थहं तासु तिलक्ख
 तिरिक्ख ससंखै सुरा वि असंख
 समासिवि धम्मु पंधंसियदुक्खु

दुसुण्णइं तिणिण दु पुव्वधराहं ।
 जिणिंदहु एत्तिय सिक्खेपउत्त ।
 दुवालस ते च्चिय सव्ववियाहं ।
 विउव्वणरिद्धिरिसिंदहं ताइं ।
 धुवं तिसयंकिउ सउ जि सयाहं । 5
 खजुम्मु सडंक्कु वि वाइवराहं ।
 वियाणहि संजमधारिणिसंख ।
 अणुव्वयणारिहिं पंच जि लक्ख ।
 पणासिवि राइरईसुहकंख ।
 ल्ळमासविहीणउं पुव्वहं लक्खु । 10

घत्ता—संमेयहु सिहैरि समारुहिवि मासमेत्तु थियु जोए ॥

जिणु अंतिमु ज्ञाणु पराइयउ सहं मुणिवरसंघाए ॥ १३ ॥

12 १ P दाविय. २ A वेळ्ळिवणाइ. ३ A दिव्वयराइं. ४ P जक्खकरे. ५ AP इंदतियाउ.
 ६ A तासु. ७ A धम्मविह. ८ P ल्हदव्वइं. ९ A सव्वभूहभूयइं भवइ.

13 १ A सिक्खय उत्त. २ AP अणुव्वयधारिहिं. ३ A सुसंख. ४ A रायरईसुह^०; P णारि-
 रईसुह^०. ५ A पंधंसिय^०. ६ A सिहइ.

6 a भावलउब्भवु तेउ भामण्डलोद्धूतं तेजः. 6 b इंदत्तयाउ देवाङ्गनाः. 10 b वियंभइ
 विजृम्भते.

13 1 a ख शून्यम्. 3 b सव्ववियाहं केवलिनाम्. 9 b राइरईसुहकंख रात्रिरति-
 सुखकांक्षाम्.

14

महग्गमि फग्गुणपक्खि सुक्किण्हि
स णाणसरुवु तिदेहविमुक्कु
ण कण्हँ ण पीउ ण लोहिउ सुक्कु
ण पुंसुं ण संदु ण भण्णइ इत्थि
हुओ परमेसरु अट्टगुणहु
सिहिंदसिरोमणिमुक्कसिहीहिं
णमंसिवि सिद्धणिसीहियथत्ति
गओ पविहारि समीरवहेण

संचित्तचउत्थितिहीअवराण्हि ।
जगग्गधरित्तिं जाइवि थक्कु ।
ण लाहवु तासु ण चत्थि गुरुक्कु ।
फुरंतसकेवलवोर्हगभत्थि ।
सरीरु सलक्खणु तक्खणि दहु । 5
समच्चणवंदणहोमविहीहिं ।
पएहिं णिओइउ कुंजरु झ त्ति ।
सुरण्ण वि अण्णविभाणुमहेण ।

यत्ता—महुं तूसउ भरहभव्वणामिउ पउमप्पहुं णिहयावइ ॥

तिजगिंदहु केरउ एम जसु पुप्फयंतु को पावइ ॥ १४ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइण
महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे पउमप्पहणिध्वाणगमणं
णाम तियालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४३ ॥

॥ पउमप्पहचरियं समत्तं ॥

14 १ A महग्गमि. २ A सुचित्त. ३ AP जगग्गधरित्तिहि. ४ A क्किण्ह. ५ A ण पुंसु
संदु ण. ६ A बोधगभत्थि. ७ A समंचिवि. ८ AP भव्वभरह°. ९ A पउमप्पउ; P परमप्पहु
१० AP omit the line.

14 1 a महग्गमि माघे गते; b स चित्त° चित्रासहितायाः. 2 a ति दे ह वि मुक्कु औदारिक
तैजसकार्मणदेहत्रयविमुक्तः. 6 a सि हिं द° अमिः. 9 a प वि हा रि इन्द्रः; b सुरण्ण वि अन्येऽपि सुराः;
अ ण्ण वि भा णु म हे ण चन्द्रादित्यतेजसा, अर्णवस्यापत्यं आर्णविश्रन्द्रः. 10 पुप्फयंतु चन्द्रसूर्यादिकः.

अगहियअसिपासहु गयदप्पासहु पासाइयवम्महजयहु ॥
तोडियपसुपासहु णविवि सुपासहु पातियपासंडियणयहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

णिरायसं महाजसं
अमोसयं गिरंजणं
पुंरं गुरुं गिरासवं
असंगयं गिरंवरं
अमंदिरं णयालयं
मुणीसरं गिरामयं
अलं कुलेण उत्तमं
जिण्णाहिवेसु सत्तमं
जयाहियं जइहियं

णिरंजसं समंजसं ।
सुवच्छलं गिरंजणं ।
तैवोणिहं गिरासवं ।
मयप्पमाणियंवरं ।
वियक्खणं णयालयं ।
समोसहं गिरामयं ।
सणाणएण गित्तमं ।
णमंसिऊण सत्तमं ।
अणामि तस्स इहियं ।

5

10

घत्ता—णररयणकरंडइ धांइसंडइ पुव्वविदेहि पुव्वगिरिहि ॥
हिमजललवसीयहि उत्तरि सीयहि कच्छउ देसु महासरिहि ॥ १ ॥

2

तेत्थुं सत्तभूयलसउहयलहि
पाणियपुरियपविमलपरिहहि

चूलाकलसलिहियंवोमयलहि ।
कोट्टट्टालयणच्चियवरिहहि ।

1 १ P महायसं. २ A परं; P पुरं. ३ AP तवोणिहिं. ४ A णियालयं. ५ P reads *a* as *b* and *b* as *a*. ६ A धायइ°. A उत्तरसीयहि.

2 १ P तत्थ. २ A णिहिय°. ३ P वरिहहि.

1 1 गयदप्पासहु गते दर्पाशे यस्य; पासाइय° पाशायितो नियन्त्रितः अथवा प्रकर्षणास्वा-
दितोऽनुभूतः. 2 पासिय° प्रक्षितः. 3 गिरायसं निर्गतरागसुखम्, रागो दोषस्तस्य निष्क्रान्तं वा;
b गिरंजसं परमार्थभूतम्; समंजसं अकुटिलम्. 4 *a* अमोसयं अमृषावादिनम्; गिरंजणं अपापम्;
b पुंरं महान्तम्; गुरुं हितोपदेशदायकम्. 5 *a* गिरासवं निराशान् मुनीन्यातीति निरासयस्तम्; *b* गिरासवं
कर्माश्रवरहितम्. 6 *a* असंगयं अपरिग्रहम्; 6 *b* मयप्पमाणियंवरं मयो ज्ञानं तेन प्रमाणितं परिच्छिन्नं
अम्बरमाकाशं येन. 7 *a* णयालयं पर्वतालयम्; *b* णयालयं सप्तप्रकारैः नवप्रकारैश्च नयैर्युक्तम्. 8 *a*
गिरामयं रोगरहितम्; *b* समोसहं उपशमौषधम्; गिरामयं रामारहितम्. 9 *a* अलं अतीव;
b सणाणएण केवलज्ञानेन; गित्तमं अज्ञानतारहितम्. 10 *a* सत्तमं सर्वेभ्योऽतिशयेन प्रशस्तम्; *b* सत्तमं
सप्तमं जिनाधिपेषु सुपार्श्वम्. 11 *a* जयाहियं जगत आसमन्तादधिकं हितं वा; जइहियं यतीभिरीप्सितम्.

2 1 *a* °सउहयलहि °सौधतलायाम्; *b* °वोमयलहि °व्योमलतायाः. 2 °णच्चियवरिहहि
नर्तितमयूरावाम्.

णाणावणतरुकीलियखयरिहि
महि भुंजेवि सुइरु णिव्वेइउ
धणवइणामहु णामसमाणहु
अरहंतहु सिरिणंदणसामिहि
एयारह अंगइ अवगाहिवि
पावपडलपसरणु आउंचिवि
दीहु कालु तवु तिव्वु तवेप्पिणु
पाणिदियसंजमु अविराहिवि
चउविहु पञ्चक्खाणु लएप्पिणु

णंदिसेणु पहु खेमाणयरिहि ।
लच्छिभारु णियतणयहु ढोइउ ।
णरवम्मीसहु विक्कुसुमबाणहु । 5
पासि लइउ वउ सिवपयगामिहि ।
अप्पउं सीलगुणेहिं पसाहिवि ।
तित्थयरत्तु पुणुं संसंचिवि ।
हियवउ जिणकमकमलि थवेप्पिणु ।
आराहंणभयवइ आराहिवि । 10
णंदिसेणु मुणिणाहु मरेप्पिणु ।

घत्ता—मज्झिमगेवज्जहि संभवसेज्जहि चंदकुंदसंणिहंरुइरु ॥

भहामरमंदिरि णयणाणंदिरि संजायउ अहमिंदु सुरु ॥ २ ॥

3

दुरयणितणु लोयणइ अणिहंइ
तेत्तिणंहिं सो वरिससहासहिं
अक्खिउ भिक्खुवरेहिं जियक्खहिं
कालें तं तहु आउ विणिट्ठिउ
उहुंमासाउसु थक्कउ जइयहुं
जंबुदीवि बहुदीविणिवोसइ
सरयसलिलहरससहरसियगिहि
परमारिसरिसहणवजायउ
तासु अत्थि पृथै प्राणपियारी
ताहं विहिं मि होसइ तित्थंकरु
ताहं विहिं मि करि तुहु जं जोगगउ
ता जक्खें तं तेम समाउरिउ

आउ वि सत्तावीससमुइरं ।
भुंजइ अणु णियमणविण्णासहिं ।
णीससइ जि तेत्तियहिं जि पक्खहिं ।
कालें तिहुयणि किं पि ण संठिउ ।
अक्खइ सुरवइ धणयहु तइयहुं । 5
भारहवरिसइ कासीदेसइ ।
वाणारसिपुरि सुरंपुरसंणहि ।
सुपइट्ठउ णामे महिरायउ ।
पुहइसेण णामेण भडारी ।
देवदेउ जिणु पावखयंकरु । 10
पट्टणु भवणु भोयसुहुं चंगउं ।
रयणविच्चित्तु णयरु वित्थारिउ ।

४ P णिव्वेइयउ. ५ AP विक्कमठाणहु. ६ P अरिहंतहु. ७ A अलुंचिवि. ८ A तित्थयरत्त पुणु;
P तित्थयरत्तु गोत्तु. ९ P आराहणा. १० AP °संणिहु. ११ P अहिमिंदु.

3 AP अणिदहं. २ P तत्तीयहि जि सु. ३ A छम्मासाउसु. ४ AP °दीवणिवेसइ. ५ A
सुरपुरि°. ६ A °सुरिसहं णयजायउ. ७ AP पिय पाण°. ८ A भोयभवणु सुहुं.

5 a णा म स मा ण हु अन्वर्थनाम्नः. 8 a आ उंचि बि संकोच्य; b संसंचि वि सम्यक्प्रकरणे संचित्य.
12 सं भ व से ज हि उत्पत्तिशिलासंपुटे.

3 1 a अ णि इ हं निद्रारहितानि. 2 b अणु स्तोकम्; णिय म ण वि ण्णा स हिं संकल्पप्रवृत्ति-
विशेषैः. 3 a जियक्ख हिं जितेन्द्रियैः. 5 a उहुंमासो षण्मासाः. 8 a परमारिसरिसहणव
परमर्षिद्वेषभान्वये.

घत्ता—तुंगियहि विरामइ पच्छिमजामइ बालमराललीलगइइ ॥
मणिमंचइ सुसिइ ढंकियणेत्तइ दीसइ सिविणावलि सइइ ॥३॥

4

दीसइ पीणपाणि सुरपूणउ
दीसइ भंगुरु णहरुक्केरउ
दीसइ दिग्गयवरसिंचिय चल
दीसइ जोउसु जोण्हावासउ
दीसइ पाढीणहं मिहुणुल्लउ
दीसइ वियसिउ बंभहरायरु
दीसइ पीदु सीहरुवालउ
दीसइ गयमुहलु विसहरघरु
दीसइ जायवेउ जालाहरु

दीसइ सरुं मुयंतु उच्छाणउ ।
कंठीरैवु करिकुंभविसारउ ।
दीसइ सुसुपर्णमाल सपरिमल ।
दीसइ उग्गंमंतु णहि पूसउ ।
दीसइ ससलिलु कुडंजुयलुल्लउ । 5
दीसइ सरिवइ सरयरभीयरु ।
दीसइ घंठारवु तियसालउ ।
दीसइ रयणरासि पसरियकरु ।
इय जोइवि जाइवि रायहु घरु ।

घत्ता—जं जिह मणलालिउं णिसिहि णिहालिउं तं तिह दइयहु भांसियउं ॥ 10
तेण वि तहि तुट्टे पत्थिवजेट्टे सिविणयफलु उवपंसियउं ॥ ४ ॥

5

होही सुंदरि तुह सुउ तेहउ
जासु कित्ति लोयंतु पधावइ
बारहपक्ख जांव ससिवासहु
सोच्चठाण गहयण सुहदिट्ठिहि
वहंतेण विसाहारिक्खे
गयरुवे विग्गहावियसिट्ठिहि
घरु आवेप्पिणु खणि सुत्तामें
गउ देवाहिउ देवावासहु

को वि ण दीसइ जंगि जं जेहउ ।
णाणु अलोयंतु वि दरिसावइ ।
भूरिचंदु णिवडिउ आयासहु ।
भदवयहु मासहु सियछट्ठिहि ।
सुमुहुत्तेणुप्पाइयसोक्खे । 5
हुउ गम्भावयारु परमेट्ठिहि ।
गुरु गुरयणु अंचिउ जसरामें ।
पय वंदवि भावे देवेसहु ।

4 १ AP सुरपूणउ; K सुरपूणउ and notes a p: पूर्णो वा पाठः. २ A सर. ३ P वियडदाहु सिविणयकंठीरउ. ४ AP सुमणसमाल. ५ A उग्गवंतु. ६ A जुयलुल्लउं. ७ A कुंभमिहु-
णुल्लउं. ८ P सीहरुवालउ. ९ P मणलालउं. १० P भासिउं. ११ AP उवएसिउं.

5 १ A जं जगि जेहउ; P जगि जं जेहउ. २ AP विंभाविय°. ३ A वंदवि; P वंदिय.

13 तुंगियहि रात्र्याः.

4 1 a सुरपूणउ सुरगजः; b उच्छाणउ उक्षा बलीवर्दः. 3 a चल लक्ष्मीः. 4 a जोउसु
चन्द्रः; b पूसउ सूर्यः. 5 b कुडजुयलुल्लउं कुम्भयुगलम्. 6 a बंभहरायरु कमलसरः; b सरिवइ
समुद्रः. 9 a जायवेउ जातवेदाः अग्निः. 10 मणलालिउं परिभावितम्. 11 °जेट्टे °प्रधानेन.

5 3 a ससिवासउ चन्द्रग्रहात्, आकाशादित्यर्थः; b भूरिचंदु सुवर्णम्. 6 a °सिट्ठिहि
जगतः. 7 a सुत्तामें इन्द्रेण; b जसरामें यशसा मनोहरेण भवलेन वा.

घत्ता—णरणाहहु केरइ हरिसजणेरइ णव मासइं तूसवियजणु ॥
जंबुण्णयधारहिं दुहमलहारहिं घरि बुद्धउ वइसर्वेणु घणु ॥५॥ 10

6

नयडिंडिमि दंडेण समाहइ
सायरसमहं पमाणे लइयहं
कालपमाणे संखहि आयउ
पसवणु देवहु जाइ सुहासिइ
सामरु सच्छरु सधउ सवारणु
अम्महि अवरु डिंभु संजोइवि
सिंचिउ सुरागिरिसिरि सुररायहिं
सुहतणुपासु सुपासु पकोक्किउ
पुज्जिावि वंदिवि णिउ सणिकेर्यहु
देउ पियंगुपसवसरिसण्णहु

णिव्वुइ पउमपहि पउमाहइ ।
णवसहासकोडिहिं गय जइयहं ।
तइयहुं तहिं वइसाहहु जायउ ।
वारसिवासरि जेट्ठाभूसिइ ।
पुणु संपाइउ सो हरिवाहणु । 5
णिउ हरिणा जगगुरु उच्चाइवि ।
मुहवियलियसिवणिवसंघायहिं ।
सयमहु थोत्तु करंतउ संकिउ ।
पहु करपंकइ णिहियउ तायहु ।
दोधणुसयपमाणु माणावहु । 10

घत्ता—जे णाहतणुत्तणु गय दिव्वत्तणु ते तेत्तिय परिमाणु भणु ॥
जे तेणं समाणउं रुवपहाणउ अण्णु ण दीसइ को वि जणु ॥६॥

7

खेलंतहु दरिसियसिसुलीलहु
णाहु सुणासीरें खीरोहें
रायलच्छिदेविइ अवरंडिउ
तित्ति ण पूरइ भोयहं दिव्वहं

पंचलक्ख पुव्वहं गय बालहु ।
पुणु णहवियउ पुव्वुत्तपवाहें ।
थिउ णरवइ णर्यसत्तिइ मंडिउ ।
चउदहलक्ख जांव गय पुव्वहं ।

४ P वइसवणघणु.

6 १ P डंडेण. २ A चंदसुहासिइ. ३ A जेट्ठपभूसिइ. ४ A सवाहणु. ५ AP संपाइउ.
६ P सणिकेवहु. ७ A जो णाह. ८ A तो तेत्तिय; P तेत्तिओ जि. ९ A जेणु समाणउ; P तं
तेण समाणउं.

7 १ खेलंतहु. २ P सुणासिरेहिं. ३ A ण्हावियउ. ४ A णिवसत्तिइ.

10 जंबु ण्ण यं जाम्बूनदं सुवर्णम्; घणु मेघः.

6 1 b पउमाहइ रक्तकमलाभे. 3 b वइसाहहु विशाखानक्षत्रम्. 4 a पसवणु संभवः
उत्पत्तिः; सुहासिइ सुधाश्रिते चन्द्रे. 7 b सिवणिव जलघटाः. 8 a सुहतणुपासु शोभने उभये तनु-
पार्श्वे यस्य. 10 a पसवणु पुष्पम्; b माणावहु मानापघाति. 11 तणुत्तणु शरीरत्वम्; दिव्वतणु
दिव्यस्वरूपम्.

7 2 a सुणासीरें इन्द्रेण. 3 a अवरंडिउ आलिङ्गितः; b णयसत्तिइ नयशक्तिभ्याम्.
4 a तित्ति तृप्तिः.

तावेक्कहिं दिणि उडुपल्लइउ
 कालें कालु वि जेण गिलिज्जइ
 जांवि थांवि पावज्ज लपप्पिणु
 एमं बुहाहिव तुज्जु जि छज्जइ
 घत्ता—अणु तिइइ छित्तउ भमइ पमत्तउ पावइ जम्मि जम्मि मरणु ॥
 पइं मुइवि भडारा तिहुयणसारा एंव हणइ को जमकरणु ॥७॥ 10

8

पुणु पाईणंवरिहि संपत्तउ
 विहिउ तेणं लहुं सिवियारोहणु
 जेइहु मासहु पक्खि वलक्खइ
 खत्तियदहसएहिं संजुत्तं
 छहुववासु करिवि कयकिरियहु
 तेत्थु महिंददत्तणरराएं
 तहु घरि तिर्यसणिघोसणिणायइं
 णववरिसइं छउमंत्थु हवेप्पिणु
 पुणु सहेउवाणि मूलि सरीसहु
 णाणावाहणवलइयपायउ
 घत्ता—उट्टंतपडंतहिं पुरउ णडंतहिं णविउ णाहु पंजलियरहिं ॥
 दहविहअट्टविहहिं पुणु पंचविहहिं सोल्लहविहहिं वि सुरवरहिं ॥८॥

जिणु कल्लाणह्हाणि अहिसित्तउ ।
 दुक्खु सहेउयंकु णामें वणु ।
 बारंसिदिवसि संसंभवरिक्खइ ।
 लइय दिक्ख भुवणुत्तमसत्तें ।
 सोमखेडपुरवरु गउ चरियहु । 5
 पाराविउ णवेवि अणुराएं ।
 पंचच्छेरंयाइं संजायइं ।
 अच्छित्तउ जिणु जिणकप्पु चरेप्पिणु ।
 पंचमु हुयउ णाणु तिजगीसहु ।
 देवलोउ णीसेसु वि आयउ । 10

9

पइं थुणांति रिसि अमर सविसहर
 एक्खु जि फलु जइ भत्ति समुज्जल
 माणुस अम्हारिस वि णिरक्खर ।
 लइं पुणु हियवइ सा णउ णिम्मल ।

५ P ताम भणहि सुर. ६ A एहु. ७ A तेहउ. ८ AP जम्मजरामरणु. ९ P सुरवरसारा.

8 १ T records a *p*: दाणवरिउवइ इति पाठेऽपि इन्द्रः. १ A तेहिं. २ P बारिसिदिवसि.
 ३ A संभवरिक्खइ; P सुसंभवरिक्खइ. ४ A णिघोसणिणायं. ५ A पंचच्छेरियइं ता संजायइं. ६ AP
 छम्मत्थु. ७ A वहेप्पिणु. ८ P adds after this: फग्गुणि किण्हि पक्खि छट्ठियदिणि, भे विसाहि
 पच्छिमसमुहइ दिणि. ९ AP सिरिसहु. १० P अंजलिकरेहिं. ११ A °विहहिं सुरवरहिं; P °विहहिं
 वि सुरवरेहिं.

9 १ A संथुणंति. २ AP जइ.

5 A उडुपल्लइउ नक्षत्रपतनम्; *b* समग्नि स्वभागें रत्नत्रये. 8 *a* छजइ शोभते. 9 तिइइ तृष्ण्या.
 10 जमकरणु यमभृत्या रोगाश्च.

8 1 *a* पाईणवरिहि प्राचीनवर्हिरिन्द्रः. 3 *b* संभवरिक्खइ जन्मनक्षत्रे विशाखायाम्.

9 2 *b* सा भक्तिः.

तौ अच्छउ पदंतु थुइलक्खइं
 केहउ सक्कु फणिराउ सरासइ
 जइ तो किं वायइ वण्णइ जइ
 देव तुहारी हयदुहवेळ्हिहि
 अट्ट वि पाडिहेर थिय जांवहिं
 भासइ धम्मु भडारउ जेहउ
 पालइ को वि कहिं मि जइ सूरउ

पावउ मुहवायामे दुक्खइं ।
 तुह गुणरासिहि छेउ ण कीसइ ।
 जलहिमाणि किं आणिजइ घडु । 5
 भत्ति मूलु आसिद्धि सुहेळ्हिहि ।
 समवसरणि आसीणउ तांवहि ।
 भासहुं सक्कइ को वि ण तेहउ ।
 णासइ णिट्ठहि जणु विवरेरउ ।

घत्ता—पाणिवह पमेल्लह अलिउं म बोल्लह दव्वु परायउ मा हरह ॥ 10
 परदार म माणह धणु परिमाणह रयणिहि भोयणु परिहरह ॥१॥

10

पंव भणिवि संबोहिय मणहर
 विण्णि सहस भासिय तीसुत्तर
 विण्णि लक्ख चालीससहासइं
 अवर वि वीस जि सिक्खुय साहिय
 णव जि सहासइं ओहिविवोहं
 सयइं तिण्णि सहसइं पण्णारह
 सोत्तसर्माणसहासपमाणं
 वसुसहसइं रिदुसयइं विवाइहिं
 लक्खइं तिण्णि तीससहसालइं
 सागारहं वि लक्खु गुणगुत्तिहि

पंचणवइ संजाया गणहर ।
 अंगसपुव्वंधारि तहु मुणिवर ।
 चउसहसइं णवसयइं विमीसइं ।
 जे णीरंजणेण णिव्वाहिय ।
 सहसेयारह पंचमबोहहं । 5
 विक्किरियालहं रिसिहि सुहीरहं ।
 पण्णासुत्तरु सउ मणजाणहं ।
 सुद्धसुरूवदेसकुलजाइहिं ।
 विरयंहं णारिहिं लुंचियवालं ।
 वयंगुणियाइं ताइं तप्पत्तिहिं । 10

घत्ता—तियसेहिं असंखहिं संखतिरिक्खहिं सहं दुच्चरियइं खंडिवि ॥
 णववरिसविहीणउ जयविजयाणउ पुव्वलक्ख महि हिंडिवि ॥१०॥

३ A तो. ४ AP कहइ. ५ AP जलहिमाणु. ६ A आसुद्धि. ७ A कहिं मि को वि. ८ AP पाणिवहु. ९ P परदार. १० P परिमाणह.

10 १ A दोण्णि. २ A अंगसपुव्वंधारि; P अंगपुव्वंधारिय. ३ A ओहिविमोहहं. ४ P सयाइं. ५ P सुधीरहं. ६ P °समारण°. ७ A विरइयणारिहिं. ८ P लुंचियकुरलहिं. ९ A वयगण्णियाइं. १० P मंडिवि.

3 b मुहवायामे मुखकणेन. 6 b आसिद्धि सिद्धिपर्यन्तम्; सुहेळ्हिहि सुखपरंपरायाम्. 8 b भासहुं भाषितुम्. 9 b णिट्ठहि विवरेरउ अनुष्ठानात् विपरीतश्चारित्रशून्यः.

10 4 b णीरंजणेण भगवता तीर्थकरेण; णिव्वाहिय संसारनिस्तारिताः. 6 b सुहीरहं सुधीराणाम्. 7 a सोत्तसमाणसहस नव सहस्राणि. 8 a वसु° अष्ट°; रिदुसयइं षट्शतानि. 9 b लुंचियवालं लुञ्चितकेशानि.

11

महियमहिउ महमहियाणंगउ
संमेयहु जाइवि गिरिधीरउ
फग्गुणमासि कालंपक्खंतरि
सूरुग्गमि बुहदेवहं देवें
णिट्ठिउ अट्टमवसुह पदुक्कउ
चंदणकद्दमेण पव्वालिय
दिर्णणी मउडाणलजालोलिय
वंदिवि भर्प पावणिण्णासउ
णायारूढउ कहइ णयंगहं

यत्ता—जहिं भरहजिणेसहु णाणु सुपासहु पसरइ देवहु केवलिहि ॥ 10
तहिं वाइ ण वायउ ण तमु ण तेयउ पुष्पदंतकिरणावलिहि ॥११॥

सहुं सीसेहिं समाहिवसंगउ ।
तीस दियंह थिउ मुक्कसरीरउ ।
साणुराहि सुहसत्तमिवासरि ।
णिकिरियत्तु पत्तु विणु खेवें ।
गउ सुपासु पासेहिं विमुक्कउ । ६
पउलोमीसें मालेहिं मालिय ।
चिच्चिकुमारें तणु पज्जालिय ।
णायणाहु गउ णायावासउ ।
पवणवरुणवइसवणपयंगहं ।

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइय
महाभव्वभरहाणुमण्णिण प महाकव्वे सुपासणिव्वाणगमणं
गाम चउयालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४४ ॥

॥ सुपासचरियं समत्तं ॥

11 १ AP दिवह. २ P कालि पक्खंतरि. ३ A अट्टमिवसुह. ४ AP पोलोमीसें. ५ A मालइमालिय. ६ P मणिमउडाणलेण जालोलिय. ७ P चच्चिकुमारिहिं. ८ A भव्व. ९ AP पुष्पयंत°. १० A सुपासजिणिव्वाण°. ११ AP omit this line.

11 a महियमहिउ पूजितैः पूजितैः; महमहियाणंगउ तेजसा मथितः कामो येन. 3 a साणुराहि अनुराधानक्षत्रसहिते. 4 b णिकिरियत्तु व्युपरतक्रियानिर्वर्ति चतुर्थध्यानम्; विणु खेवें शीघ्रम्. 5 a णिट्ठिउ मुक्तः. 6 a पव्वालिय प्रलितः. 8 b णायणाहु स्वर्गपतिः. 9 a णायारूढउ गजारूढो देवेन्द्रः; णयंगहं नताङ्गानां विनीतानाम्.

णित्तेइयअरिवंदहु वयणचंदजियचंदहु ॥
पणविवि कुवलयचंदहु चंदप्पहहु जिणिंदहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

णियंगरस्सीहिं तमं विणीयं	सुयंगउत्तीहिं जयं विणीयं ।	
कयं कयत्थं किर जेण णिञ्चं	णमंति जं देववई वि णिञ्चं ।	
अतुच्छलच्छीहलकप्पभूयं	उदारचित्तं गुणपत्तभूयं ।	5
दयावरं पालियसव्वभूयं	गिराहिं संबोहियरक्खभूयं ।	
ण जं पियालीविरहे विसण्णं	मुंणि महंतं विमलं विसण्णं ।	
विमुद्धभावं विगयप्पमायं	परं परेसं परिञ्जीणमायं ।	
णिहीसरं जं महियंतरायं	पराज्जियाणंतदुरंतरायं ।	
पबुद्धदुक्कम्मविवायवीलं	विइण्णदुव्वाइविवायवीलं ।	10

A has, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

वापीकूपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं
भव्यश्रीभरतेन सुन्दरधिया जैनं सुराणां (पुराणं) महत् ।
तत्कृत्वा प्रवमुत्तमं रविकृतिः (?) संसारवार्धेः सुम्यं
कोन्यत् (?) स्वसहसो (?) स्ति कस्य हृदयं नं वन्दिनुं नेहने ॥ १ ॥

This stanza is not found in any other known MS. of the work.

1 १ A अरिविंदहु; P अरिविंदहु. २ A दयावरं. ३ A संबोहियसव्वभूयं; T records a p सव्वभूयमिति पाठे सर्वभूकं सर्वभूमिकम्. ४ P सुणीमहंतं. ५ AP परिञ्जीण°. ६ A दुव्वायविवाय°. ७

1 1 a °अरिवंदहु °शत्रुवृन्दस्य. 3 a णियंगरस्सीहिं निजशरीररश्मिभिः; विणीयं विना-
शितम्; b सुयंगउत्तीहिं शोभनद्वादशाङ्गयुक्तिभिः; c जयं विणीयं जगद्विनीतं विनयप्रधानं कृतं कृतार्थं
च कृतम्. 4 a किर निश्चयेन; b देववई देवपतयः. 5 a कप्पभूयं कल्पवृक्षं संजातम्; b गुणपत्त-
भूयं गुणानामेव पात्रं भाजनम्. 6 a पालियसव्वभूयं रक्षितसर्वजीवम्; b संबोहियरक्खभूयं संबो-
धितराक्षसभूतम्. 7 a पियालीविरहे प्रियसखीवल्लभभार्यावियोगे; ण विसण्णं न विषादः कृतः 7 b
विसण्णं विनष्टाहारमैथुनपरिग्रहसंज्ञम्. 8 a विगयप्पमायं विगतपञ्चदशप्रमादम्; b परं उक्कृष्टम्; परंसं
जगत्स्वामिनम्; परिञ्जीणमायं मायारहितम्. 9 a णिहीसरं समवसरणे ये निधयस्तेपामीश्वरम्; महियंत्त-
रायं मथितान्तरायकर्माणम्; b परजियेत्यादि दुःखे नान्तो यस्यासौ दुरन्तः पराजितोऽनन्तो दुरन्तो रागो
येन. 10 a °विवायवीलं कर्मविपाकपीडम्. b विइण्णदुव्वाइविवायवीलं विशेषेण दत्ता दुष्टवादिनां
बादे व्रीडा पीडा वा येन.

सुसञ्चतच्चंगवियारणासं
सदित्तियाभक्खरभांवहारं
पुरंदरालोयणजोगगत्तं
णिवारियप्पव्वहसेलपायं
खगिदेदिदमुण्णिदधेयं
भणामि तस्सेव पुणो पुराणं
घत्ता—अमलइ अत्थरसालइ
अट्टमु जिणवरु पुज्जमि

अणंगसिंगारवियारणासं ।
भवोहसंभूइभयावहारं ।
समुज्झियाहम्मदुपंकगत्तं ।
फण्णिदच्चूडामणिघट्टेपायं ।
णमामि चंदप्पहणामधेहं ।
गणोसगीयं पवरं पुरा णं ।

15

वयणणवुप्पलमालइ ॥
पउरु पुण्णु आवज्जमि ॥ १ ॥

2

मणुउत्तरोइह्लि
दीवे पसिद्धमि
जलभरियकंदरहु
सुरलोयसोहम्मि
धणकणसमिद्धमि
छक्खंडधरणिवइ
उद्धयरिउरेणु
सिरिकंत तहु घरिणि
सुयरहिउ णरणाहु
किं करमि कहिं चरमि
को देइ मह पुत्तु
ता भणइ सुपुरोहु
तो कुणसु सुहहेउ
घम्माणुराएण

भूभाइ सुसहिह्लि ।
पुक्खरवरद्धमि ।
पुव्विल्लमंदरहु ।
पच्छिमविदेहम्मि ।
देसे सुगंधम्मि ।
सिरिपुरवरे णिवइ ।
णामेण सिरिसेणु ।
करिवरहु णं करिणि ।
चित्तवइ थिरबाहु ।
को देउ संभरमि ।
गुणरयणसंजुत्तु ।
जइ महसि सुयलाहु ।
जिणणाहअहिसेउ ।
तं सुणिवि राएण ।

5

10

७ AT °भाविहारं ८ A °संभूइभयावहारं. ९ A पुरंदरालोयणजोगगत्तं; P पुरंदरालोयणजोयगत्तं.
१० A °पिड्डपायं. ११ AP पवरं.

२ १ AP मणसुत्तरोइह्लि.

11 a सुसञ्चतच्चंगवियारणासं सुसत्यतत्त्वस्वरूपविचारणेनोपलक्षितं आस्यं यस्य; b अणंगसिंगारवियारणासं कामशृङ्गारविनाशकम्. 12 a सदित्तियाभक्खरभावहारं स्वदीप्त्या भास्करप्रभापहारकम्; b भवोहसंभूइभयावहारं संसारौघजन्मभयविनाशकम्. 13 a गत्तं °शरीरम्; b समुज्झियाहम्मदुपंकगत्तं समुज्झिताधर्मदुःपङ्कगती येन. 14 a णिवारियप्पव्वहसेलपायं निषिद्धः आत्मवधाय °र्ष्यतात्पातो येन. 15 a °धेयं °स्मरणीयम्; b °णामधेयं °नामानम्. 16 b गणोसगीयं गणधरकथितम्; पुरा णं एतत्. 17 अत्थरसालइ अर्थवत्या रसवत्या च.

2 1 a मणुउत्तरोइह्लि मानुषोत्तरादर्वाक. 12 b महसि वाञ्छसि.

जरमरणभयहरहं	पडिमाउ जिणवरहं ।	15
रयणेहिं रइयाउ	कलहोयमइयाउ ।	
मंतेहिं थवियाउ	खीरेहिं णहवियाउ ।	
संसुहं सुयंतीइ	महिरायपत्तीइ ।	
सिविणम्मि सुहईइ	छेर्यम्मि राईइ ।	
करि सीहु सिरि चंदुं	दिट्ठो विहाँरंदु ।	20
घत्ता—वरपुत्तासइ लइयहु	अक्खिउ जाइवि दइयहु ॥	
तेण वि तहु परियाणितं	दंसणंफलु वक्खाणितं ॥ २ ॥	

3

सज्जणगणमणपयणियपणउ	तुह सुंदरि होसइ पियतणउ ।	
कइवयदियहहिं वेळ्ळि व लल्लिउ	लायणवहलजलविच्छुल्लिउ ।	
वउ देविहि गन्मालंकरितं	ओलक्खिवि देहं चिंधु तुरितं ।	
कंचुइहिं णरिंदहु वज्जरिउ	तहु हियवउं हरिसं विप्फुरितं ।	
संतोसें देविहि पांसि गउ	णं वणगणियारिहि मत्तगउ ।	5
पेच्छिवि कसणाणणु थणजुयलु	पेच्छिवि मुहमंडलु दरधवलु ।	
सालसुयंगउ गयगइपसरु	पेच्छिवि पिय संभासिवि सुसरु ।	
णरवइ णिर्यमंदिरि गंपि थिउ	णवमासहिं जणियउ प्राणप्रिउ ।	
सुंउ दुल्लहु वल्लहु सज्जणहं	कुलमंडणु खंडणु दुज्जणहं ।	
णच्चिज्जइ गिज्जइ महुरसैरु	धंडु वज्जइ दिज्जइ धणणियरु ।	10
काणीणहुं दीणहुं दुत्थियहं	णिहविणहु किविणहु पंथियहं ।	
घत्ता—तूररवें दिस हम्मइ	कण्णि वि पडिउं ण सुम्मइ ॥	
णारीणच्चणपेळ्ळिय	वसुमइ णावइ हल्लिय ॥ ३ ॥	

२ AP सुसुहं सुवंतीइ. ३ A सुसईइ. ४ P पच्छम्मि. ५ A चंडु and gloss सूर्यः. ६ A विहोरंडु and gloss चन्द्रः. ७ A सिविणयफल.

3 १ A सज्जणगणमणपयणियपणउ; P सज्जणजणमणपयणित पणउ. २ AP होसइ सुदरि. ३ A ललिय. ४ A °विच्छुल्लिय. ५ P देहि चिंधु. ६ A पासु. ७ A वरधवलु; P लुहधवलु. ८ A गइगय-पसरु; P गउ गयपसरु. ९ A ससरु. १० A मंदिरु. ११ AP पाणपिउ. १२ AP सो दुल्लहु. १३ P महुरयरु. १४ AP पडु. १५ P पत्थियहं. P adds after this: सिरिसम्मणिरुविउ णामु तसु, सुहलक्खणु जणवइ लद्धजसु. १६ A तूररवहं. १७ P वडिउ. १८ K. °णच्चणपडिपेळ्ळिय.

19 सुहईइ सुभगया. 20 b वि हा रंदु प्रभावहुलः.

3 1 a °मणपयणिय° चित्ते जनितः. 3a वउ वपुःशरीरम्. 5b वणगणियारिहि षन-कुरेण्वाः. 7a सालसुयंगउं आलस्ययुक्तं शरीरम्; b सुसरु सुस्वरम्. 10b घडु वज्जइ दानसमये निधिभृता षटाः संघट्ठात् शब्दं कुर्वन्ति; अथवा, मध्यस्थितं धनं खडखडति. 12 दिस हम्मइ दिशा तच्छब्दे.

4

विण्णाणें सण्णाणें घडियउ
ससिवयणहं सयणहं आवडिउ
जणणीजणणंइं जोयंति सुहुं
ता इद्धउं दिद्धउं णउ रहिउं
अरहंतहु संतहु आगमणु
मयभावु गाबु खणि परियलिउ
समसरणु समवसरणंतु गउ
जिणु वंदिवि णिंदिवि अप्पणउं
सिरिसेणें सेणं पमेल्लविय
महिय्यासि णिवासि सिरिप्पहहु
तवु गहियउं महियउं दुच्चरिउ
एत्तहि णंदणु णंदणु जणहु
आसादि रूढि णंदीसरइ
उववासिउ तोसिउ सुयसुइहिं

घत्ता—अट्टरउइहिं चत्तउ
थिउ अंत्याणि णराहिउ

हियजणमणि णवजोव्वाणि चाडियउ ।
सो इंदु व चंदु व णहि वडिउ ।
अच्छंति तेण सहुं जांव सुहुं ।
सुइसीलें वणवालें कहिउं ।
कयतावहु पावहु णिग्गमणु । 5
लहुं णरवइ सुरवइ जिह चलिउ ।
पहु विविहधउं जियमयरधउ ।
तें पिसुणिउं गिसुणिउं तिहुयणउं ।
सिरिसम्मइ सिरिसम्मइ थविय ।
णियरुइगइछाइयरविरहहु । 10
चेट्टिउं चिरु णिरु णिम्मच्छरउ ।
पउणंतु अंतु दुक्कियरिणहु ।
छणंससिहरि मणंहरि वासरइ ।
सहुं सदिहिहिं संसुहिहिं सुहमइहिं ।

धम्मज्ञाणसंजुत्तउ ॥ 15
णं णहयलि ताराहिउ ॥ ४ ॥

5

जांवच्छइ पेच्छइ जलियदिस
विहि विरैलिय वियलिय उक्क किह

ता कामिणिचूडामणि सरिस ।
सुहरुहसररुहमयरंदु जिह ।

4 १ P सो इंदु चंदु णं वडिउ. २ P °जणणु वि. ३ K विवहधउ. ४ A सेणय मेल्लविय.
५ A सिरिसमइ सिरिवम्मइ. ६ P reads a as b and b as a. P महिउं. ८ उव्वेदिउ चिरु
णिम्मच्छरिउ. ९ AP छणससहरि. १० A मणहरवासरइ. ११ A सुमुहि हि सुहमईहिं; P मंतिहिं
सुहमइहिं. १२ P अत्याणेण.

5 १ A जामच्छइ; P जावच्छइ. २ A जडिय. ३ P °वियलिय विरलिय.

4 1 a सण्णा णें सम्यग्ज्ञानेन. 4 b सुइसीलें सुविशीलनाम्ना. 7 a समसरणु उपशम-
स्थानम्. 9 b सिरिसम्मइ श्रीमुखे; सिरिसम्मइ थविय श्रीशर्मपुत्रस्य समर्पिता. 10 a महियासि
मथिता आशा वाञ्छा यत्र. 12 a णंदणु पुत्रः; णंदणु वृद्धिकारी; b पउणंतु प्रकुर्वाणः; 14 a सुय-
सुइहिं श्रुतस्य श्रवणेन; b सदिहिहिं सधृतिभिः; ससुहिहिं सुहृद्भिः सहितैः; सुहमइहिं शुभमतिभिः.
16 अत्याणि सभायाम्.

5 2 a विहि विरलिय विधौ आकाशे विरलिता विक्षिप्ता; वियलिय विगलिता विनष्टा;
उक्क उक्का; b सुहरुहसररुहमयरंदु सुधारुहश्चन्द्रः स एव सरोरुहं कमलं तस्य मकरन्दः.

तं पेच्छिवि परिहँच्छिवि सयलु
णियतणयहु पणयहु लच्छिसहि
पिउगुरुहि पुरँहि थिरु लइउ वरुँ
सहरिहि सिरिसिहँरिहि हरिवि रइ
सवियपि कपि सोहम्मवरि
सिरिवहि सिरिवँहि विलुलियचमरु
एसँज्जु पुज्जु तहु अट्टगुणु
विहवदहँ अदहँ सहस दुइ
णीसासु मासु पूरिवि मुयइ

घत्ता—तहु तहिं पंकेत्तहु
आउ पईहु वि पर्यलिउ

संचियमलु चंचलु भुवणयलु ।
अहिअल्लिय घल्लिय दिण्ण महि ।
सिरु मुंडिउं दंडिउं तेण वउ । 5
कयकलुसणास सणासगइ ।
एक्कोर्वहिसुहणिहिआउधरि ।
सिरिहरु मणहँरं जायउ अमरु ।
सुहवत्त सत्तकरमवियतणु ।
वट्टंति जंति जइ भुत्ति तइ । 10
भावइ सेवइ काँपं जुयइ ।

कीलंतहुँ कीलंतहु ॥
कालें को वँ ण कवलिउ ॥ ५ ॥

6

अवर वि णररविपहवत्ति जहिं
मोरयभीमोरयसंगरहु
पुव्वासइ वासइ भारहइ
णंदंतपँगांवगांवगहिरि
संपयहि पयहि णिञ्चु जि पियहि
णिव्वट्टिउ लोट्टिउ कूरमइ
तहु मंदिरि^० णंदिरि णिम्मलिणि
सुककमलकमलदलणयणजुय

बहुजीवइ वीयँइ दीवि तहिं ।
इसुकारहु सारहु गिरिवरहु ।
सियभाणुभाणुकरभारहइ ।
इलतिलइ अलयइ विसयवरि ।
णिदुंगेज्झहि उज्झहि णयरियहि । 5
अजियंजउ दुज्जउ मणुयमइ ।
सुंदरि इंदिंदिरि णं णलिणि ।
सुहँजलरहल्लि णववेल्लिभुय ।

४ P परियच्छिवि. ५ A पुरहि; P गुरुहि. ६ A वउ; P तउ. ७ AP सुरसिहरिहि. ८ A जुम्मोवहि^०. ९ A सुरगिहि. १० A सिरिहरु. ११ A एसज पुज. १२ A कायवि जुवइ. १३ P सहँ अच्छर. १४ A पयडिउ. १५ A कालें को वि ण कवलिउ; P कालें को णउ कउलिउ.

6 १ A अवर वि णर रवि पवहँति जहिं; P अमर वि णरवर विहरंति जहि. २ A दीवइ वीइ. ३ A सुइकारहु. ४ AP^०पगामगाम^०. ५ A णिरु णिज्झहि but णिदुंगेज्झहि in margin. ६ AP अजयंजउ. ७ A णंदिरि मंदिरि. ८ A सुक^०. ९ A सुयजलहरणि णिववेल्लिभुय; P सुहजलवहुल्लि.

4 b अहिअल्लिय अहिता आत्मनः इति घल्लिय त्यक्ता. 6 a सहरिहि सिंहयुक्ते; सिरिसिहरिहि श्रीशिखरे. 9 a एसज्जु ऐश्वर्यम्; b सुहवत्त सुवपात्रम्; ^०मवियं मापिता. 10 a विहवदहँ विभवैराद्राणाम्; अदहँ अन्दानाम्. 13 a पईहु प्रदीर्घम्.

6 1 a णररविपहवत्ति नरा एव सूर्याः तेषां प्रभाप्रवर्तनं यत्र; b बहुजीवइ बहुजीवयुक्ते. 2 a मोरयभीमोरयसंगरहु मयूराणां भीष्मसर्पाणां च संग्रामो यत्र. 3 a पुव्वासइ पूर्वदिशायाम्; वासइ क्षेत्रे; b सियभाणुभाणुकरभारहइ चन्द्रादित्यकिरणसमूहहते. 4 a^०पगां वं प्रकामम्, प्रचुराः; गां व ग्रामाः; b इलतिलइ भूतिलकभूते; अलयइ अलकानाम्नि. 5 b णिदुंगेज्झहि नृणां दुर्ग्राह्यायाम्. 8 b^०रहल्लि^० लहरी, कल्लोलमाला.

तृथसिरमणि गुणमणिनिवहखणि
सुपसुत्त पुत्तसंणिहियमइ

घत्ता—सीहु हत्थि ससि दिणयरु
सिरि वसहिंदु पमत्तउ

सरसेणाजियसेणा रमणि ।

सा सिविणयं सुविणिय णियइ सइ ।

पुण्णकलसु पंकयसरु ॥

संखुं दाहिणावत्तउ ॥ ६ ॥

7

दिट्टउ सिट्टउ सुहिमाणियइ
फलु विलसिउं भासिउं तेण तहि
तहि गब्भि अब्भि णं चंदमउ
उप्पण्णउ धण्णउ पुण्णणिहि
जं जाणिउं भाणिउं जेण जहिं
णयरिद्धिइ बुद्धिइ लक्खियउं
मायइ पियवायइ गुणसहिउं
सवियक्कउ थक्कउ तरुणिरंउ
ता रापं तापं तालघणु
दुहहरु सिरिहरु जिणु सेवियउ

घत्ता—चित्तइ महिपरमेसरु

कण्णहु णियडइ घुलियइं

णियकंतहु कंतहु राणियइ ।

दिसवल्लेण विमलइ थियइ णहि ।

थिउं सिरिहरु सिरिहरु सच्चमउ ।

तरु धरणिहि अरणिहि णाइं सिहि ।

वहुंतं संतं तेण तहिं । 5

णिहिलत्थु वि सत्थु वि सिक्खियउं ।

णियणामु सधामु तामु णिहिउं ।

णवजोव्वणि णं वणि महुसमउ ।

गंपिणु गयसोउ असोयवणु ।

भवंपासु सुदूरु विहावियउ । 10

एवंहिं धम्महु अवसरु ॥

मरणु कहंति व पलियइं ॥ ७ ॥

8

सो अजियसेणु वेणुं व धरहि
रिसिसिक्खहि दिक्खहि लग्गु किह

अहित्थविउ ण्हविउ ढोइयकरंहि ।

पिउ हयकलि केवलि हुयउ जिह ।

१० AP तियसिरं. ११ A सविणय सिविणय; P सुविणय सिविणय. १२ AP संखु वि दाहिणवत्तउ.

7 १ सुहमाणियइ. २ A दिसवल्लेण विमलि थियम्मि णहि; P दिसवल्लेण विमलि थियम्मि णहि. ३ AP omit थिउ. ४ A उप्पण्णउ धण्णउ सच्चणिहि; P उप्पण्णहु धण्णहु पुण्णणिहि. ५ A तरुणियउ. ६ AP वणि णं. ७ A तालहि तालघणु. ८ AP भवयारु. ९ A सदूरु.

8 १ A धेणु व धरहु. २ A ँकरहु.

9 b अजियसेणा अजितसेनानाम्नी. 10 a पुत्तसंणिहियमइ पुत्रे स्थापिता मतिर्यया; b सि विण य स्वप्नान्; सु वि ण य निद्रायुक्ता; णियइ पश्यति.

7 a चंदमउ चन्द्रमाः. 4 b अरणिहि मन्थनकाष्ठात्. 7 b णियणामु निजनाम अजितसेन इति. 8 b महुसमउ वसन्तः. 10 b विहावियउ निकटमानीतः. 12 पलियइं पलितानि.

8 1 b अहित्थविउ अभिस्थापितः.

पत्तहि जयजत्तहि जोत्तियहु
 तसियक्कु चक्कु तहु हुयउ घरि
 जणजोणिहि खोणिहि साहियइं
 णवणिहि मणदिहिउप्पायणइं
 चउदह दहंगभोएण सहुं
 कयदमु अरिदमु णामें समणु
 जो मण्णइ वण्णइ जिणचरिउं
 घरु पत्तु पत्तु तें जोइयउ
 णवपुण्णइं णवणवभावणइ
 गुणवंतहं संतहं महरिसिहिं
 महिवट्टयणिकंठयवइहि

घत्ता—चक्कवट्टिसिरिलीलइ
 दिट्टउ जिणु तरुणीलइ

णिक्खत्तियक्खत्तियसोत्तियहु ।
 रुइपुंजु कंजु ण कंजैसरि ।
 चंडइं छक्खंडइं साहियइं । 5
 रयणइं च्चेयणइं अच्चेयणइं ।
 घरु पंति देंति चिंतविउं लहु ।
 मासोववासि धर्णरासितणु ।
 जं सुत्तु सुजुंत्तु समुद्धरिउं ।
 अणवज्जु भोज्जु संप्राइयउं । 10
 तें बद्धइं णिद्धइं करुपणइ ।
 आदंसियसंसियसुहदिसिहिं ।
 पंचब्भुय तहु हुय णरंवेइहि ।

पंच तासु गयकालइ ॥
 मणहरणामवणालइ ॥ ८ ॥

9

सुहावहं
 रविप्पहं
 थिरं थियं
 णिवाइणा
 महाणिणा
 मुएवि सं
 कयं तवं
 णिरासयं
 अदोसयं

गईवहं ।
 गुणप्पहं ।
 सुयं सुयं ।
 सराइणा ।
 पुणो तिणा । 5
 रईविसं ।
 गयासवं ।
 अहिसयं ।
 अमोसयं ।

३ P रजसरि. ४ P ०भोएहि ६ A गुणरासितणु. ७ P सजुत्तु. ८ AP संपाइयउ. ९ P णवपुण्णय.
 १० P कयविणइ. ११ A महिवट्टयणिकंठयवइहोः P महिवट्टयणिकंठियमहिहि. १२ A णरवइहो.
 १३ P तरुलीलइ.

9 १ A omits अहिसयं.

3 a जयजत्तहि विजययात्रायाम्. 4 b कंजसरि कमलसरिसि. 7 a दहंगभोएण सरत्ता निषयो
 देव्यः पुरं शय्यासने चम्. 1 भोजनं भाजनं नाद्यं भोगस्तस्य दशाङ्गकः. 8 b धणरासि तणु धनराशिः
 तृणवद् यस्य. 10 a पत्तु पात्रम्. 13 a ०वट्टय भागः.

9 1 a सुहावहं सुखप्रापकम्; b गईवहं चतुर्गतिविनाशकम्. २ a रविप्पहं आदित्यतुल्य-
 तेजसम्; b गुणप्पहं गुणानां मार्गभूतम्. ३ b सुयं सुयं श्रुतं श्रुतमाकर्णितम्. 4 a णिवाइणा नृप-
 भास्करेण, निश्चितवादिना वा; b सराइणा धर्मानुरागयुक्तेन. 5 a महाणिणा चक्रवर्तिना. 6 a मुएवि
 मुक्त्वा; सं शं सुखम्; b रईविसं रतिविषम्.

अरोसयं	अतोसैयं ।	10
विहट्टियं	पलोट्टियं ।	
चैलं खलं	मणोमलं ।	
मँओ मुणी	हुँओ गुणी ।	
अणप्पए	सुकप्पए ।	
बुहत्थुए	सँ अच्चुए ।	15
विहंकरे	सुहंकरे ।	
समाणए	विमाणए ।	
घत्ता—आउमाणु हयणिहइं	तहु बावीससमुहइं ॥	
तेत्तियवाससहासहिं	भुंजइ मणविण्णासहिं ॥ ९ ॥	

10

ससेइ सो पमत्तए	दुवीसपक्खमेत्तइ ।	
सहंतकंठरेहओ	तिहत्थमेत्तदेहओ ।	
अमस्सरोमकेसओ	ससंकसुकुल्लेसओ ।	
अमोहबोहसंणिही	पँहू तमप्पभावही ।	
किरीडकोडिमंडिओ	अपाढओ वि पंडिओ ।	5
अधूविओ सुगंधओ	अण्हँयओ सिणिद्धओ ।	
सहावजायभूसणो	कणंतिक्किणीसणो ।	
विचित्तचारुवेलओ	ललंतफुल्लमालओ ।	
जहिं जहिं विजोइओ	तहिं तहिं विराइओ ।	
गुणेहिं सो अदुज्जसो	अणालसो अतामसो ।	10
मणेण चिंतियं जहिं	खणण गच्छए तहिं ।	
कवाडवेइअंतरे	असंखदीवसायरे ।	
कुलायलावलीवणे	रमेइ गंधमायणे ।	
जलंतरणपावए	दुइज्जयम्मि दीवए ।	

२ A सतोसयं. ३ A वलं. ४ A मुओ. ५ P हओ. ६ AP सुअच्चुए.

10 १ AP पमेत्तए. २ AP अमंसु°. ३ P पहुत्तमप्पहा°. ४ A किरीडिकोडि°. ५ AP अण्हाणिओ. ६ AP कणंत°.

11 a विहट्टियं अतीव घर्षितम्; b पलोट्टियं उन्मूलितम्. 14 a अणप्पए अनल्पके. 16 a विहंकरे विशिष्टप्रभाजनके. 17 a समाणए पूजासहित.

10 1 a पमत्तए प्रकृष्टमात्रासंयुक्ते काले. 2 a सहंतकंठरेहओ शोभमाना कण्ठरेखा यस्य. 3 a अमस्सरोमकेसओ इमश्रुरोमकेदारहितः. 4 b तमप्पहावही तमःप्रभापर्यन्तमवधिज्ञानं यस्य. 5 b अपाढओवि अपाठितोऽपि. 10 a अदुज्जसो दुर्गशोरहितः. 13 a कुलायलावलीवणे कुलपर्वतपंक्तिवने. 14 a °रणपावए °रत्नाम्रौ.

तहिं पि सीयतीरिणी	णिदाहडाँहहारिणी ।	15
गँइदघट्टचंदणे	तडम्मि तीइ दाहिणे ।	
विलासवाससंतई	धरित्ति मंगलावई ।	
पुरं तहिं घरुच्चयं	विहाइ वत्थुसंचयं ।	
घत्ता—सूहउ कामसमाणउ	कणयण्णहु तहिं राणउ ॥	
कणयमाल तहु गेहिणि	णं जलहिहि जलवाहिणि ॥ १० ॥	

11

तओ सो सुवत्तो	जिणिंदस्स भत्तो ।	
चुओ देवणाहो	हुओ पोमणाहो ।	
सुओ तीइ दिव्वो	अगव्वो सुभव्वो ।	
सरूवेण मारो	बलेणं समीरो ।	
पयावेण सूरु	धणेणं कुवेरो ।	5
गईण विसिंदो	जुईण णिसिंदो ।	
मईण महल्लो	गुणीणं पहिल्लो ।	
रमाण सुरिंदो	खमाण मुणिंदो ।	
पिऊ तुट्टचित्तो	स पुत्तेण जुत्तो ।	
गओ रिद्धंरुक्खं	सरुद्धंरुक्खं ।	10
णहालग्गतालं	फलालं लयालं ।	
भमंतालिसांमं	मणोहारिणामं ।	
वणं तं पइट्टो	सयासिद्धुणिट्टो ।	
तहिं तेण दिट्टो	मुणीणं वरिट्टो ।	

घत्ता—तहु धुवसिर्वंपुरगामिहि णरवइ सिरिहरसामिहि ॥ 15
जम्मंभवणसमभग्गउ दिहु कमकमल्लंहिं लग्गउ ॥ ११ ॥

७ AP °डाहधारिणी. ८ P गयंद°. ९ A जलणिहि.

11 १ P पउमणाहो. २ A तेण दिव्वो. ३ AP सरूवेण. ४ P रुईणं सुचंदो. ५ A रिद्धि-
रुक्खं. ६ A सुरो दक्खदक्खं. ७ P भमंतालिमालं; P adds after this: मराळीमरालं, सुच्छाइसामं.
८ T सिद्धणिट्टो उत्तमानुष्ठानः. ९ P °पुरिगामिहि. १० P जम्ममरणसम°. ११ A °कमल्लो लग्गउ.

11 1 a सुवत्तो शोभनवदनः. 6 a त्रि सिं दो वृषभेन्द्रः; b णि सिं दो चन्द्रः. 8 a रमा ए
ऐश्वर्येण. 9 a पिऊ पिता कनकप्रभः. 10 b सरुद्धंरुक्खं रुद्राक्षेण द्राक्षालतया च सहितम्. 11 b
लयालं लतायुक्तम्. 13 b सिद्धणिट्टो श्रेष्ठमनुष्ठानं यस्य. 15 सिरिहरसामिहि श्रीधरमुनेः. 16 जम्म-
भवणसमभग्गउ संसारभ्रमणश्रमेण भग्नः.

12

णिवर्दारणि मारणि साईणिय
 लहु ढोयवि जोयवि सुयमइउ
 पडिवणुणउं सुणुणउं तेण वणु
 सोमप्पह सुप्पह तासु पुर्ये
 णिरवणुणु सुवणुणु ताहं तणउ
 ससिअक्कचक्कचंचलपयहिं
 सइं सासणि आसणि थियउ जहिं
 विणुणविवि णंवि वि ओलग्गियउ
 णिगंथहु पंथहु खंणु ण चुउ
 घत्ता—सयलहं जीवहं मित्तउ
 णियदेहे वि णिरीहउ

णियतणयहु पणयहु मेइणिय ।
 कणयप्पहु दप्पहु पावइउ ।
 चलसंदणु णंदणु गउ भवणु ।
 किं अक्खमि पेक्खमि णाहं सूर्ये ।
 लद्धुणइ भणुणइ किं मणुंउ । 5
 दियहेहिं रहेहिं व संगयहिं ।
 पहसियमुहु तणुरुहु थंविउ तहिं ।
 वंउ सिरियरु सिरिहरु मग्गियउ ।
 सो पोमंप्पहु रिसिणाहु हुउ ।
 हेमधूलिसमचित्तउ ॥ 10
 वणि णिवसइ मुणिसीहउ ॥ १२ ॥

13

पयारह मणहरकहियाइं
 मयद्वणं तवणं तवियाइं
 उहंमकामविदावणउ
 तहु लीणउं झीणउ रयपसरु
 णामल्लउं भल्लउं जाणियउ
 आराहिवि साहिवि संतमइ
 अववग्गहु सग्गहु मज्झि जइ
 उच्छुण्णच्छिण्णमिच्छुत्तगंहि
 तिगुणियदहतिजलहिआउहरि

अविहंगइं अंगइं गहियाइं ।
 तुंगइं अटुंगइं खवियाइं ।
 सुहंसीलहं सोलहहं भावणउं ।
 लइ लद्धउं बद्धउं तित्थयरु । 5
 परिच्छेयहु छेयहु आणियउ ।
 जीविउं संप्राविउं दिव्वगइ ।
 णिव्वाणठाणसंबद्धरइ ।
 संपुण्णपुण्णफलभुत्तिवहि ।
 तइसंखपक्खणीसासयरि ।

12 १ P णिवमारणि. २ P मारणि. ३ A सइरिणिय. ४ AP पिय. ५ AP सिय. ६ A णाहतणउ. ७ P मणउ. ८ A थियउ; P णिहिउ. ९ A णविउ. १० AP वउ सिरिहरु. ११ P खणिण कउ. १२ A पोमणाहु; P पउमणाहु.

13 १ AT मणहरणहियाइं. २ P omits this foot. ३ A°सीलउ. ४ AP add after this : भावेप्पिणु सिवपहदावणउ. ५ P झीणउ लीणउ. ६ P रइपसरु. ७ AP संपाविउ. ८ AP उच्छिण्ण°. ९ A °गिहे but gloss ग्रहे.

12 1 a सा इ णिय शाकिनी; b पण यहु प्रणतस्य. 2 a सुयमइउ शुचिमतिः. b दप्पहु दर्पघातकः. 5 a णिरवणु नृणां रम्यः. 8 b सिरियरु श्रियाः कर्ता; सिरिहरु श्रीधरनामा जिनः.

13 1 a मण हरक हिया इं अमनस्कैः केवलिभिः प्रतिपादितानि. 2 a तवणं आदित्येन तपसा च. 5 b परिच्छेयहु परिच्छेदं आयुः छेदमानीतम्; छेयहु उत्तमस्य.

तेत्तीसवाससहसंतरिउ
करमेत्तु गत्तु विच्छुरियंदिस्सु

घत्ता—तहिं सियंगु सुच्छायउ
जं पेक्खवि पंहहीणी

आहारु चारु जहिं अबयरिउ । 10
जहिं णिहिलु धवल्लु जणु णं सुंजसु ।

वइजयंति सो जायउ ॥
भरह पुष्पदंताणी ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइए
महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे पउमणाहवइजयंतसंभवो
णाम पंचचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४५ ॥

१० AP वित्थरियदिस्सु. ११ A णंदजसु. १२ A पहहाणी. १३ P पंचचालीसमो.

13 पह ही णी प्रभाहीना जाता, मलिना वभूव निजभर्तृकान्तिविच्छेदात्; भरह स्मरत; पुष्पदंताणी पुष्पदन्तभार्या.

तद्दु देवद्दु तेत्तीसंबुणिहिपरिमियाउ पुणु णिट्टिउ ॥
कालें कलियैउ तं तेत्तिउ वि छम्मासंतु परिट्टिउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

तइयहुं'सहसंच्छि सहसासवाहु
भो जक्ख जक्ख सयदलदलक्ख
इह जंबुदीवि भरहंतरालि
धरसेणु महासेणक्खु णिवइ
सोहग्गे तिहुयणाहियथलीण
सियसरलतरलणयणहिं कुरंगि
तद्दु पणइणि णं ससहरहु कंति
अट्टमउ दयासरिमहिहरिंदु
सयणासणु भूसणु असणु वसणु

अक्खइ जक्खहु सोहम्मणाहु ।
परिपालियवसुहणिहाणलक्ख ।
चंदउरि पउरि धणकणजणालि । 5
जं लंघिवि उवरि ण रवि वि तवइ ।
गमणेण हंसि घोसेण वीण ।
लक्खण णामें लक्खणहरंगि ।
णं मुणिवरणाहद्दु लग्ग खंति ।
एयहु ग्रि होसइ जिणवरिंदु । 10
करि पुरवरु सुंदरें दलहि वसणु ।

घत्ता—ता भूरिचंदमउ चंदउरु चंदमुहिण तं विरइयउ ॥
धणदेवीभत्तारेण खणि मोत्तियरयणाहिं खइयउ ॥ १ ॥

2

समंविउलवाहियालीणिवेसु
वियसियवण परिमलमहमहंतु
जिणवरघरघंटाटणटणंतु
माणिककरावलिजलजलंतु
ससिमणिणज्जरजलझलझलंतु
करिचरणसंखलाखलखलंतु

अवितुद्दुहट्टिटिंटांपएसु ।
चलचंचरीयकुलगुमुगुमंतु ।
कामिणिकरकंकणखणखणंतु ।
सिहरग्गाधयावलिललललंतु ।
मग्गावलग्गहरिहिलिहिलंतु । 5
रवियंतहुयासणधगधगंतु ।

1 १ AP कवलित्. २ A सहसत्ति but gloss सहस्रपाक इन्द्रः. ३ A धणकयजणालि.
४ A वरसेणु. ५ AP सुंदरु दलियवसणु. ६ P भूरिचंदसुहचंदउ. ७ A चंदमुहेणं विरयउ.

2 १ P समु जेत्यु वाहि°. २ °टिंटापवेसु. ३ P °चरणह संखला°. ४ AP रविअंत°.

1 2 क लियउ कवलितम्. 3 a सहसच्छि सहस्राक्षः. 4 a सयदलदलक्ख कमलपत्रवनेत्रे
यस्य. 5 b पउरि प्रचुरे महति. 6 a धरसेणु धृता सेना येन. 8 b लक्खण लक्ष्मणा. 11 b दल हि
वसणु व्यसनं कष्टं नाशय. 12 भूरिचंदमउ सुवर्णमयम्. 13 धणदेवीभत्तारेण कुबेरेण.

2 1 a समविउलवाहियालीणिवेसु समविस्तीर्णवाह्यालीप्रदेशः; b °टिंटापएसु द्यूतस्था-
नम्. 5 a ससिमणि° चन्द्रकान्तमणिः; b °हरि° अश्वः. 6 b रवियंतहुयासण° सूर्यकान्तोद्भूतः अग्निः.

बहुमंदिरमंडिर्यंजिगिजिगंतु
गंभीरतूररवरसंसंतु
कालायरुधूवियणायरंगु

सहलदलतोरणचलचलंतु ।
तरुगयवसंतु णिच्चु जि वसंतु ।
णाणारंगावललिहियरंगु ।

घत्ता—सा सुंदरि पियमणहारिणिय सुंरहियगंधं मालइ ॥

10

सुहं सुत्त विरामि विहावरिहि सिविणयमाल णिहालइ ॥ २ ॥

3

गलियदाणचलजललवलोलिरभिंयं

पेच्छइ विसालच्छि पमत्तमयंगयं ।

इट्टुगिट्टितणुफंसणकंटइयंगयं

वसहममलथलकमलपसाहियसिंयं ।

तिक्खणक्खणिहारियमारियकुंजरं

रत्तलित्तमुत्ताहलमंडियकेसरं ।

सीहयं मुहावालुयणिगयदादयं

गोमिणिं च दिसकुंजरसिंचणरूढयं ।

इट्टुगंधसेलिंधकरंबयंकोसयं

दामजमलमलिमालासहपरिपोसयं ।

पुण्णयं विहुं जामिणिकामिणिदप्पणं

उग्गयं इणं पीणियपंकइणीवणं ।

मीणमिहुणमणिहणजलकीलणलंपडं

चारुहारिकल्लाणघरं घडंसंपुडं ।

हंसचंचुपुडंखुडियभिसं भिसिणीहरं

सेयसलिलवेलागहिरं रयणायरं ।

कुलिसणहरकेसरिकिसोरधरियासणं

अवि य पायसासणजसस्स णं सासणं ।

5

10

15

५ A °मंडण°. ६ A समसंतु. ७ A सुरहियंघ णं मालइ; P सुरहियंघ स मालइ. ८ A सुहसुत्ति; P सुहं सुत्त.

3 १ P °विहारिय°. २ P °मुत्ताहलमालामंडिय°. ३ AP मुहावालुय°. ४ AP °करंबिय°. ५ AT घडंसंपुडं. ६ A °कुडखुडिय°.

7 a बहुमं दिरं स्त्रीणां शयनावासः; b सहलदलं सार्द्रपत्राणि. 8 a °रसमसंतु शब्दायमानम्; b तरुगयवसंतु बहुजनाधिष्ठितम्; णिच्चु जि वसंतु नित्यमेव वृक्षस्थितो वसन्तः. 9 b °रंगु प्राङ्गणप्रदेशः.

3 1 °भिंयं भ्रमरम्. 2 °मयंगयं मतङ्गजम्. 3 इट्टुगिट्टिं वल्लभा गौः. 7 मुहावालुयं दीर्घम्. 8 गोमिणिं लक्ष्मीम्. 9 इट्टेत्यादि इष्टः उत्कटो गन्धो येषां तानि सेलिंधपुष्पाणि तेषां करंबयं संघातः तस्य कोसयं स्थानम्. 10 अलिमालासहं भ्रमरश्रेणिसभा. 12 इणं सूर्यम्. 13 °अणिहणं प्रचुरम्. 14 घडंसंपुडं घटयुगलम्.

इंदधाममहिधंदवहस्स णिहेलणं

रयणपुंजमरुणंसुसिहातमहालणं ।

20

झत्ति दित्तजांलासयच्छित्तणहंगणं

हुयवहं च संह पेच्छइ जालियकाणणं ।

घत्ता—इय पेक्खवि रायहु राणियइ संतोसें आहासिउ ॥

तेण वि तहु मंगलदंसणहु फलु पणंइणिहि पयासिउ ॥ ३ ॥

4

सुओ देवि होही तुहं तित्थणाहो
दिही आगया देवया पंकयच्छी
णिहीसेण गेहम्मि छम्मासकालं
चइत्तस्स पक्खंतरे चंदिमिल्ले^३
रिसी पोमणाहो चुओ सोहमिंदो
सुंपासाहिवे णिव्वुए संगएहिं
णहाजक्खणिक्खित्तमाणिक्कएहिं
तभो पूसमासे पडंतम्मि सीए
पहूओ पहू पुण्णपाहोहमेहो
सपायालमगं सतारंससकं

असामणसंपत्तिवित्तीसणाहो ।

हिरी कंति कित्ति सिरी बुद्धि लच्छी ।

णिहिंत्तं सुवण्णं सुवण्णं पहालं ।

सुहोहायरे वासरे पंचमिल्ले ।

थिओ गब्भवासे पुलोमोरिवंदो । 5

समुहाणहो रंधकोडीसएहिं ।

पउण्णेहिं मासेहिं रामंकएहिं ।

सुहे सक्कजोयम्मि एयारसीए ।

जगाणं गुरू लक्खणुपुत्तिगेहो ।

खणे कंपियं झत्ति तेलोक्कचक्कं । 10

घत्ता—परतेउ ण कत्थइ विप्फुरइ अंधारउ णउ रेहइ ॥

जम्मणु उगमणु वि भुवणयलि जिणदिणणाहहं सोहइ ॥ ४ ॥

5

सहसा जायउ सुरलोयंखोहु
उच्छाहें रक्खस किलिकिलंति

वीणारवु चल्लिउ किंणरोहु ।

वड्ढंतइं भूयइं णहि मिलंति ।

७ A इंदधामं वरउरवहणिहेलणं. ८ A °तमहारणं. ९ P °दित्तिजालं. १० A हुयवहस्स जं सा पेच्छइ; P हुयवहं च सा पेच्छइ. ११ पणइणिहो.

4 १ P असावण्णं. २ A णिहत्तं. ३ A चंदमिल्ले. ४ A पुणोमारिवंदो. ५ A सुपसाहिए. ६ P पुण्णयंभोहमेहो. ७ P जयाणं. ८ P सपायालसगं सतारं ससकं.

5 १ सुरलोइ खोहु. २ A वगंतइ.

19 अ हि वं द व ह स्स अहिवुन्दपतेः नागराजस्य. 20 °त म हा ल णं अन्धकारप्रक्षालनम्. 21 °छि त्तं स्युष्टम्. 22 स इ सती.

4 1 b अ साम ण संपत्ति वित्ती स णा हो अद्वितीयलक्ष्मीप्रवृत्तिसहितः. 3 a णि ही से ण कुबेरेण; b सुव ण्णं शोभनवर्णम्. 4 b सुहोहायरे हे सुभोगाकरे इति संबोधनम्. 6 a संग ए हिं सम्य- गतीतैः. 7 b रामं क ए हिं रामाङ्कितैर्नवभिर्वलभद्रैः. 8 b स क्क जो य म्मि इन्द्रयोगे ज्येष्ठायाम्. 9 a पु ण्ण पा हो हं पुण्यमेव पाथो जलं तस्य ओघः.

किंपुरिस के वि किं किं भणांति
रयवंत महोरय फुफुयंति
अणिवद्दु पिसायउ लइ चवंति
ससहरंरवितेपं महि णहवंति
दुग्गह गहचरियइं णिक्खवंति
णक्खत्तइं णवणक्खत्तमहिउ
दाविय णियपंति पइण्णएहिं
णहवडणविवरमुहणिगंमेहिं
संगलियंइं मिलियंइं सुरउलाइं

सहिट्टिदेव पुच्छिवि मुणंति ।
गंधव्व गेयसरु सइं मुयंति ।
दसदिसइं जक्ख रयणइं धिवंति । 5
तारउं तारत्तणु पक्खवंति ।
जय णंद वंडु सामिय चवंति ।
वंदहुं चलियाइं वियाररहिउ ।
सासेहि व चासपइण्णएहिं ।
दिसिविदिसामग्गसमागमेहिं । 10
भावणभाभरियइं जलथलाइं ।

घत्ता—अइरावयकुंभविइण्णकरु पत्तउ जियपरसेणहु ॥

पुरुहूयउ पुरपासहिं भमिवि घरि पइट्टु महसेणहु ॥ ५ ॥

6

तओ तेण छम्मेण णिच्छम्मयाए
तडालग्गतारावलीमेहलालं
रमंतच्छराणेउरारावरम्मं
फणिंदाणियापायरायावलित्तं
लयामंडवासीणविज्जाहरिंदं
दरीचंदणामोयलग्गाहिकण्णं
गुहाकिंणरीकिंणरालत्तगेयं
णिओ सुंदरं मंदरं देवदेवो
पविच्छिण्णकुंभेहिं कुंभीसगामी
गुणुप्पण्णणेहेहि णिण्णट्टणेहो
जिणिंदो जियारी जयंभोयमित्तो

परं डिंभयं दिण्णयं अम्मयाए ।
ससिगण्णहापिंगदिच्चक्कूलं ।
दिसादीसमाणुद्धजेणिंदहम्मं ।
अदिट्टेक्कलंबंतंकिंकिंल्लिवत्तं । 5
तुरंगासणोसत्तकीलापुल्लिंदं ।
मओमत्तमायंगदंतग्गभिण्णं ।
सपायंतणिक्खत्तचंदक्कतेयं ।
तहिं तेहिं सो णाणणिक्कंपभावो ।
तिलोयंतवासीहिं तेलोक्कसामी । 10
अक्कवारखीरेहि खीराहदेहो ।
फणिंदेहिं इंदेहिं चंदेहिं सित्तो ।

३ P पुफुयंति. ४ P सयं. ५ A °तेयं महि; P तेयइं महि. ६ P ताराउ. ७ AP वद्ध. ८ A व वास-
पइण्णएहि; P व वण्णपयण्णएहि, ९ A °णिग्गएहिं. १० A संचलियइं. ११ P °भाभारिय जल°.

6 १ P अंबयाए. २ A °मेहलीलं; P °मेहजालं. ३ AP दिच्चक्कवालं. ४ AP °कंकेल्लि°,
५ A °णासंत°. ६ A °लग्गाहिकिण्णं. ७ P मयमत्त°.

5 4 a रयवंत सवेगाः. 6 b तारत्तणु दीप्तत्वम्. 7 a दुग्गह दुष्टाभिप्राया ग्रहाः. 9 a
पइण्णएहिं प्रकीर्णकैः; b सासेहिं धान्यैः; चासपइण्णएहिं क्षेत्रहलरेखाभा श्रेणिवद्धा तद्वत्प्रकीर्णैः.
13 पुरुहूयउ इन्द्रः

6 1 a णिच्छम्मयाए निष्कपटयाः. 2 a °मेहलालं °मेखलायुत्तम्. 3 b °जेणिंदहम्मं
जिनालयम्. 4 a फणिंदाणियां पद्मावती; b °किंकिंल्लिवत्तं अशोकपत्रम्. 6 a °लग्गाहिकण्णं लग्गा
अहिकन्या नागकन्या यस्मिन्. 7 b सपायंतं स्वपादान्ते. 9 a कुंभीसं गजेन्द्रः. 10 b अक्कवारं समुद्रः.

घत्ता—तं दुद्दु पडंतउ जिणतणुहि कंतिई पयहु ण होंतउ ॥
णं अमिउं ससंकहु विर्यलियउं दिट्ठु महिहि धावंतउं ॥ ६ ॥

7

दिव्वं गंधं पुष्पं धूवं
दाउं सव्वं सव्वाणिट्ठं
णाणत्तयघणपुष्पसमुद्दं
तं पेच्छंता तं पणवंता
चंदुरं मणितोरणंदारं
उर्वंसमवेल्लीवासारत्तं
सोहम्मिसाणा देवेसा
धाणासणदिवहुसयंतुंगो
उप्पाइयखाइयसम्मत्तो
दो लक्खा पुव्वाणं छिण्णा
एस तस्स तरुणत्तणकालो
तत्थ वि जायं देवागमणं
वइसवणाणियवसुंसंदोहे
छहु लक्ख पुव्वाणं झीणा

वासं भूसं चरुयं दीवं ।
काउं पुज्जं सत्थे दिट्ठं ।
तं गहिऊणं भयवं भइं ।
तं गायंता तं णञ्चंता ।
आया देवा रायागारं ।
जणणीहत्थे दाऊणं तं ।
पत्ता सगं णाणावेसा ।
सेयंगो णं सेयपयंगो ।
इक्खाऊ कासवणिवगोत्तो ।
पण्णासंसहुसहासाउण्णा ।
पच्छा हूंओ मेइणिवालो ।
पारारवारारिघडण्हवणं ।
भोप भुजंतस्स संसोहे ।
अरिहसंखपुव्वंगविलीणा ।

5

10

घत्ता—अण्णहिं दिणि दप्पणयलि वयणु जोयंतं तं दिट्ठुं ॥
जेणेत्यं दहुसंसारसुहि हियउल्लउं उव्विट्ठुं ॥ ७ ॥

15

8

आवेप्पिणु पंजलिहत्थएहिं
पंचमगइसमुद्दं मउज्जुणीहिं

दूराउ पणांमियमत्थएहिं ।
पडिसारिउ आहंडलमुणीहिं ।

८ P कंति. ९ P विर्यलियं.

7 १ AP चरुवं. २ A इट्ठं सिट्ठं; P णिट्ठं सिट्ठं. ३ A सव्वं भइं. ३ A °तोरणवारं. ४ P तव-
सम°. ५ P सउतुंगो. ६ AP पण्णासइसहासा. ७ AP हूयउ. ८ P पारावारि वारि. ९ P °संदोहं.
१० P ससोहं. ११ A जेणित्यु दहु संसारसुहि.

8 १ A पणाविय°. २ A पडिवारिउ.

7 2 a सव्वा णिट्ठं सर्वेषामिष्टम्. 3 a णा णत्तयघणपुष्पसमुद्दं ज्ञानत्रयमेव घनपुष्पं जलं
तस्य समुद्रम्. 6 a °वा सारत्तं वर्षाऋतुः. 8 b सेयपयंगो चन्द्रः 13 b ससोहे शोभनायुक्ते. 14 b
अरिहसंख° चतुर्विंशतिः. 16 उव्विट्ठुं उद्विभं वैराग्यं प्राप्तम्.

8 2 a मउज्जुणीहिं मृदुध्वनिभिः; b पडिसारिउ प्रोत्साहितः.

मुहपयलमाणधारासिवेहिं
 कल्लाणाहरणविहसियंगु
 वरचंदु सणंदणु णिहिउ रज्जि
 सिवकंखइ पडु सिवियहि चंडिण्णु
 दयविच्छिणीगरुईणिसीहि
 अणुराहाणक्खत्तावयारि
 णिल्लूरिवि मंदिरमोहंवासु
 णिकखंतु लेवि छट्टोववासु
 तंहु को वि ण मित्तु ण को वि वेसु
 दंडग्गविलंबियचेलमयारि

घत्ता—णंउ करयलि पत्तलि पत्तु ण वि णउ पइ णेउरघोसणु ॥

णंउ भूरिभूइ भूरकुंडियउ णउ मैसिरेहाभूसणु ॥ ८ ॥

अहिसिंचिउ विहु अज्जुणणिवेहिं ।
 पैरदिण्णदाणु णं वरमयंगु ।
 तहिं कालइ सुरहयविविहवज्जि । 5
 संवत्तुवणंतरि समंवइण्णु ।
 पूसम्मि कसणपयारसीहि ।
 णिण्णेहत्तणु जुंजिउ सररि ।
 लुंचिवि घल्लिउ सिरकेसवासु ।
 सुंहुं पावइयउ रायहं सहासु । 10
 मज्झत्थु महत्थु विसुद्धलेसु ।
 अवरहि दिणि पइसइ णालिणणयारि ।

9

हुंकारु ण मुयइ ण देहि भणइ
 पैरमेसरु पंचायारसारु
 जा लुहु जि भवणप्रंगणु पइहु
 कैर मउलिवि करेवि उरुत्तरीउ
 काणं वयणं सुद्धं मणेण
 दुंदुहिसरु सुरसर पुप्फविट्ठि
 तहिं चोज्जइ पंच समुग्गयाइ
 थिउ तिण्णिण मास छम्मत्थु तांव

णउ सण्णइ णउ गंधव्वु झुणइ ।
 दक्खवइ वीर भिक्खावयारु ।
 ता सोमयत्तरापणु दिहु ।
 संचिउं पुण्णंकुरपवरवीउ ।
 आहारदाणु तहु दिण्णु तेण । 5
 घणु वरिसिउ हई रयणविट्ठि ।
 पालंतु संतु संतइ वयाइ ।
 णायावणिरुहतलु पत्तु जांव ।

३ P परिदिण्णं. ४ P चडंतु. ५ A संपत्तु. ६ P समयवंतु. ७ P मोहपासु. ८ AP सिरि केसपासु.
 ९ A सहं. १० P तहु मित्तु अमित्तु ण को वि देसु. ११ P ण वि. १२ AP णउ कुंडियउ. १३ A ससिरेहा.

9 १ A reads a as b and b as a. २ AP ° पंगणु. ३ A सोमदत्त°. ४ A करु मउलि करेविणु रंतरिउ; P कर मउलिकरेविणु उत्तरीउ. ५ A सिंचिउ. ६ AP पुण्णंकुरु. ७ AP वरिसिवि.

3 a ° धारा सि वे हिं धाराजलैः; b अज्जुण णि वे हिं शुभ्रकलशैः. 6 b संवत्तुवणंतरि सर्वर्तुकवने. 7 a दयविच्छिणीगरुईणिसीहि उदकमार्गेणानीता गुर्वी निशा यस्यामेकादश्याम्; तदा काले हि समुद्रमध्यं प्रविश्य गच्छत्यादित्यः, तेन रात्रिर्दीर्घा; अथवा दयाविस्तीर्णा गुर्वी सर्वप्राण्यभयदानदायिका दीक्षादिनत्वात्. 9 a णिल्लूरिवि विध्वंस्य. 14 भूरिभूइ प्रचुरभस्स; भूरकुंडियउ भूरकुटिला; मसिरेहा° इमश्रुजाजिः.

9 4 a ऊरुत्तरीउ गरिष्ठोत्तरीयम्. 6 a सुरसर देवसाधुकारः अहो साधुदानं इत्येवंरूपः. 8 b णायावणिरुहतलु नागकेदारवृक्षतलम्.

फग्गुणि दिणि सत्तमि किण्हवक्खि
छट्टेणुववासं केवलक्खु

अवरण्हइ तहिं णिक्खवणारिक्खि ।
उप्पाइउं णाणु विवज्जियक्खु । 10

घत्ता—कल्लाणि चउत्थइ जइवइहि सुरयणु दिसहिं ण माइउ ॥

अहिरामे अहिणवभत्तिवसु अहिहुं अहीसरु आइउ ॥ ९ ॥

10

लोयालोयविलोयणणां सिरिणाहं
ससहरकंतं पयडियदंतं कंकालं
कडिहि रवाला किंकिणिमाला झणंझणिया
मइरावाणं मिट्टं खाणं मृगंमासं
पेयावासो रक्खसभीसो णियठाणं
पसो वेसो देवे जाणं धम्माणं हाणी
जे सरगायणवायणणञ्चणलद्धरसा
कट्ठा दुट्ठां णिट्ठाणट्ठा णायचुया
संसरमाणो भवभमभग्गो भुत्तदुहो
पइं ण मुणंतो पइं ण थुणंतो कयमाओ
छिदण भिदण कप्पण पउलण घयतलणं
परघरवासं परकयगासं कंखंतो
परलच्छीओ धवलच्छीओ सलहंतो
कउलवियके जोइणिचके रइधरणी

थुणइ मियंको अक्को सक्को मुणिणाहं ।
हत्थे सूलं खंडकवालं करवालं ।
पासे रामा मुद्धा सामा घणथणिया ।
दाढाचंडं कुद्धं तोंडं जणतासं ।
चित्तविचित्तं रम्मं चम्मं परिहाणं । 5
उज्झियसुत्तो हिंसाजुत्तो रयखाणी ।
वामच्छीणं रत्ता मत्ता कामवसा ।
मइमिच्छेणं मइतुच्छेणं ते वि थुया ।
भो चंदप्पह दरिसियसुप्पह तुह विमुहो ।
आसो मेसो महिसो हंसो हं जाओ । 10
पत्तो तिरिए पुणरवि णरए णिहलणं ।
णीरसपिंडं तिलखलंखंडं भक्खंतो ।
अलहंतो णियहंतो दीणो हं होंतो ।
लोयणगामिय हा मइं रमिया परघरिणी ।

घत्ता—मइं विपेणं होइवि आसि भवि पसु मारिवि पल्लु भुत्तउं ॥ 15

गंडयहु हंडु हरिणयहु अइणु देव पवित्तु पवुत्तउं ॥ १० ॥

८ A उप्पायउं; P उप्पणउं. ९ A अहहु.

10 १ A हत्थे संडे फूलकवंडं करवालं. २ A झणिञ्जणिया. ३ A सुद्धा. ४ P मइरापाणं.
५ AP सिगमासं ६ AP omit हाणी. ७ AP रयखाणं. ८ AP सरगायणं. ९ AP तुद्धा. १० A
णिहाणट्ठा. ११ AP भवभयं. १२ A सुहपय; P सुहपह. १३ AP हंसो महिसो. १४ P कयपरगासं.
१५ A खंडखंडं. १६ A रइधरिणी. १७ A विप्पहु होइवि. १८ AP हंडु हरिणहु अयणु.

9 b णिक्खवणारिक्खि अनुराधानक्षत्रे. 10 b विवज्जियक्खु अतीन्द्रियज्ञानम्. 12 अहिहु अमिभु
भुवं लक्षीकृत्य.

10 3 a रवाला शब्दायमाना. 4 a मइरावाणं मदिरापानम्. 5 a पेयावासो श्मशानम्.
6 b रयखाणी रजसां पापानां खनिः. 8 b मइमिच्छेणं बुद्धिमिध्यात्वेन. 11 b तिरिए तिर्यग्धोनी.
13 a सलहंतो इच्छन्. 14 a कउलवियके वित्तके भेदे; रइधरणी रतीनां भूमिप्राया;
b लोयणगामिय अवलोकिता. 16 हंडु अस्थि; अइणु अजिनं मृगचर्म.

11

णिद्धम्महं मांसाहारियाहं
तुहुं देव ण होसि सुसामि जाहं
महयालइ गाइ वि जासु वज्झ
एवहि सुदर्यावर तुहुं जि सरणु
बलदेवहं अग्गइ देहि तिण्णि
जे परमविराय वसंति रण्णि
णहुं सहसइं पुणु चउरो सयाइं
अट्टसहसइं सावहिलोयणाहं
ते चोइंस विकिरियागुणीहिं
घत्ता—पिंडीदुमु चमरइं दिव्वञ्जुणि कुसुमवरिसु सियछत्तइं ॥
भामंडलु तुंदुहि सुरवरहिं जिणचिंधाइं णिउत्तइं ॥ ११ ॥

रसलोलहं णियपरवैइरियाहं ।
अजिणु वि अजिणहं चुक्कइ ण ताहं ।
हो हो किं वेणं तेण मज्झ ।
तुह पायमूलि महुं होउ मरणु ।
तहु गणहर सुंयहर सहस दोण्णि । 5
ते तहु मुणिसिक्खुव लक्ख दोण्णि ।
सिक्खंति सत्थु गुरुसम्मर्याइं ।
अट्टारहसहस णिरंजणाहं ।
वसुसहसइं मणपज्जवमुणीहिं ।

10

12

भयसहसइं छंसय विवाइयाहं
भणु अंसीयसहासइं तिण्णि लक्ख
सावयहं लक्ख गुत्तीसमाण
देवहं देविहिं ॥ णउ छेउ अत्थि
चउवीसहं पुव्वंगहं विहीणु
वसुमइ विहरिवि तेणेक्कु पुव्वु
संमयहु सिहरु समाहरुवि
णामइं गोत्तइं वेयणिययाइं
कम्मइयतेयअंउयारियाइं
घत्ता—सियपक्खहु फग्गुणसत्तमिहि परमविसुद्धिइ रिद्धउ ॥
जेट्टहि णिट्ठियंमत्तु बहुरिसिहिं सहं चंदप्पहु सिद्धउ ॥ १२ ॥

छलहेउजाइकुलघाइयाहं ।
संजमधारिणिहिं वहंति दिक्ख ।
ते अणुवयणारिहिं वयपमाण ।
तेलोक्कसूरु केवलगभत्थि ।
अणु वि मासहिं तिहिं मुणहि झीणु ।
संवोहिवि मणुयसमूहु भव्वु ।
थिउ जोउ मासु पेरंतु लेवि ।
आउट्टिदिसरिसइं लहु कयाइं ।
तिण्णि वि अंगइं ओसारियाइं ।

10

11 १ P मंसाहारि^०. २ P परवेरियाहं. ३ AP सुदयावर. ४ A omits portion from सुयधर down to मुणि in 6 b; K writes it in marg. ५ A दहसहसइं. ६ A adds after this; चउसहस ताह पुव्वंधराहं. ७ A दोसहसइं. ८ P जाणिय दहसहस. ९ P तेचउदस. १० A रिदु-सयइं सुविकिरिया^०.

12 १ A तासु; K तासु but corrects it to छंसय. २ P जाउ. ३ A चस्रासीसहसइं. ४ Pतेहिं अणुवय^०. ५ AP देविउ. ६ AP चउवीसइं पुव्वंगहं. ७ P^०अउदारियाइं. ८ A विसिद्धिइ. ९ A णिट्ठिवि.

11 2 b अजिणु वि चर्मापि; अजिणहं जिनरहितानाम्. 3 a महयालइ यज्ञकाले. 10 पिंडीदुमु अशोकवृक्षः.

12 1 b कुलघाइयाहं केवलज्ञानिनाम्. 3 b ते लक्षाः. 4 a छेउ संख्या. 6 b मुण हि जानीहि. 7 b पेरंतु पर्यन्तः 8 b आउट्टिदिसरिसइं आयुःस्थितिसदृशानि, यावदायुस्तावत्परिमाणानि. 9 a^०अउयारियाइं^० औदारिकाणि.

13

णौहस्स णिष्वाणि	पंचमइ कल्लाणि ।	
तूराइं वज्जंति	मंगलइं गिज्जंति ।	
थोत्ताइं किज्जंति	दाणाइं दिज्जंति ।	
दीणाइं सं ^३ जंति	दुरियाइं खिज्जंति ।	
चंदणइं सीर्यैलइं	सुरहियइं परिम्लइं ।	5
जिणतैणुहि विष्पंति	घुसिणेण सिष्पंति ।	
अग्गिंद पणमंति	मउंडोह दिष्पंति ।	
दीवोह दिज्जंति ।		
धूवोहधूमेण	णाणाविहोएणं ।	
महुयररविह्लाइं	पंजलिहिं फुल्लाइं ।	
घल्लंति देविंद	वण्णंति णाइंद ।	10
जीहासहासेहिं	विब्भमविलासेहिं ।	
देवीउ णच्चंति	सिद्धं समच्चंति ।	
णांविऊण तं तित्थु	सो सयल्लु सुरसत्थु ।	
जिहं गुणकहाकारि	पत्तो पुलोमारि ।	
सगं सल्लेण	करिण मयालेण ।	15
संसिकंतिदंतेण	धीरं ^{१५} रसंतेण ।	

घत्ता—इर्यं भरहखेत्तणंरयदियहु जगचंदुज्जयचंदहु ॥
किं^{१६} पुष्पवंतु हउं जडु करमि चंदप्पहहु जिणिवहु ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरहए
महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे चंदप्पहणिष्वाणगमणं
णाम छायालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४६ ॥

॥ चंदर्पहचरियं समत्तं ॥

13 १ A णाणस्स णिष्वाण. २ AP सज्जंति. ३ A चंदणइं. ४ A सुरहीअइंधणइं; P सुर-
हियइं इंधणइं. ५ A खोणियहि विष्पंति. ६ AP लिष्पंति. ७ A मुणि हुववहं देंति; P मणिहुयवहं देंति.
८ AP omit दीवोह दिज्जंति. ९ A धूमोहणीलाउ. १० AP णिग्गंति जालाउ. ११ AP add
after this: णिरसियअणंगाइं, डज्जंति अंगाइं. १२ AP णमिऊण तं तेत्थु. १३ AP जिण^०. १४ A
संसिकंतिदंतेण. १५ A वीरं. १६ A इह. १७ AP भरहखेत्ति णर^०. १८ किम. १९ AP omit
this line.

13 4 a संजंति शं सुखं यान्ति. 8 b णा णा वि हो एण नानाविशिष्टभोगेन. 9 a महुयर-
रविह्लाइं भ्रमरशब्दयुक्तानि. 16 a ससि कंति दंतेण चन्द्रकान्तिवदन्तेन. 17 जगचंदुज्जयचंदहु
जगदेव चंदुज्जयं कुमुदं तस्य चन्द्रः. 18 किं स्तोत्रम्; अथवा जडः पुष्पदन्तकविः किं करोमि.

सुविहिं सुविहिंपयासणं सयमहवंदियसासणं ॥
भुवणणल्लिणवणदिणयरं वंदे^३ णवमं जिणवरं ॥ ध्रुवकं ॥

1

णहांखित्तारं	सवण्णेण तारं ।	
सुहामोयसासं	सया जस्स सासं ।	
पदिट्ठं दिसासुं	रिसिं रक्खियासुं ।	5
अरीणं अगम्मं	पमोत्तणं गं मं ।	
हयं जेण कम्मं	जगे जस्स कम्मं ।	
गयासाविहाणं	णिहाणं विहाणं ।	
सुरिंदहिधीरो	सभत्ताण धीरो ।	
पयोहीगहीरो	अकंतंगहीरो ।	10
दिहीगाइगोवो	अमोहां विगोवो ^५ ।	
सकारुणभावो	जणुग्घुड्ढभावो ।	
कुसिद्धंतवारो	सुदिट्ठंतवारो ।	
ण जो मोहभंतो	ण जम्मोहवंतो ।	
णमामो अणंतं	रईमोयणं तं ।	15

P gives, at the beginning of this Samdhi, the stanza वरमकरोदपार^० for which see note on page 45. A and K do not give it.

1 १ PT सुविहियसासणं. २ P वंदिवि. ३ A णहुक्खित्तारं. ४ A अगोवो. ५ P सुसिद्धंतवारो.

1 1 *b* °सा स णं समवसरणादिदिव्यध्वनिः, द्वादशाङ्गश्रुतं च. 3 *a* ण हा खि त्त तारं नखैराक्षिता-स्तिरस्कृतास्तारा येन; अथवा नभसः आकाशादेः क्षितानि पादसमीपे आनीतानि तारानक्षत्राणि येन; *b* स व ण्णे ण तारं स्ववर्णेन पाण्डुरम्. 4 *a* सु हा मो य सा सं शुभामोदनिश्वासम्; *b* सा सं शोभनमास्यं मुखम्. 5 *b* रि सिं परमर्द्धिसंपन्नम्; रक्खिया सुं प्राणिनां रक्षितप्राणम्. 6 *a* अ री णं क्रोधादिशत्रूणाम्; अ ग म्मं अविषयम्; *b* प मो त्त ण गं मं त्यक्त्वा गां भूमिं मं लक्ष्मीं च. 7 *b* ज गे ज स्स क म्मं जगति यस्य धर्मोपदेशनव्यापारः. 8 *a* ग या सा वि हा णं फलेच्छारहितम्; *b* णि हा णं वि हा णं धर्मोपदेशविधानम्. 9 *b* स भ त्ता ण धी रो स्वस्य भक्तानां धीरो बुद्धिदः. 10 *b* अ कं तं ग ही रो कास्तात्यक्तशरीरो हीरो महादेवः. 11 *a* दि ही त्या दि धृतिरेव गौस्तस्या गोपो रक्षको विष्णुः; *b* वि गो वो विशिष्टा गौर्वाणी तां पातीति विगोयः, अथवा विगता पराङ्मुखा गोपा राजानो वादिनो वा यस्य. 12 *b* °ज गु ड्ढ भा वो °कथितपदार्थः. 13 *b* सु दि ट्ठं त वा रो सुट्टु दृष्टो अनन्तानां स्वरूपाणां पारो येन. 14 *a* मो ह भं तो लक्ष्मीसंघातभ्रान्तः; *b* ज म्मो ह वं तो जन्मौघवान्. 15 *a* अ णं तं अविनश्वरम्; *b* र ई मो य णं रति-मोचनम्; तं प्रसिद्धम्.

जिणं पुष्पयंतं ण हत्थेण छित्तं सया जस्स सीलं पयासेइ संतो महीदिणमारो	जिणा पुष्पयं तं । दयाधम्मछित्तं । बुहाणं सुसीलं । खणेणं इसंतो । कओ जेण मारो ।	20
घत्ता— तद्दु वरचरियविसेसयं मेल्लह मोहविडवणं	आयण्णह महिमासयं ॥ अथिरं घर घरिणी धणं ॥ १ ॥	

2

दीवि खरंसुदीवि कुसुमियतरु पुव्वविदेहि तासु मंथरगइ णवलवंगपल्लवसुरहियजल्लं खयरीसिहिणघुसिणरसपीयल तडवरविडविपंडियणाणाहल देह्णिलोलमाणसूयरउल जिणपडिमा इव सावयसंगिणि उत्तरि तीरे ^१ ताहि हयखलवइ पुरि णहसिरि व भमालाकंतिहि राउ महापउमउ पउमाणणु	पुक्खरद्धि पुव्वामरमहिहरु । णीरगहिर सीर्यं सीयाणइ । मज्जमाणगज्जिरवरमयंगल । गुरुतरंगघोलिरमहुलिहचल । कीलियमहिसैवंदहयणाहल । पक्खित्तुंडपविहंडियसयदल । किं वण्णिज्जइ दिव्वतरंगिणि । अत्थि भूमि णामे पुक्खलवइ । पंडु पुंडरिंकिणि घरपंतिहि । पउमविलोयणु पउममाणणु ।	5 10
घत्ता— करतरवारिवियारिया णिवडिय सूर वणंगया	जेण रिउ संघारिया ॥ णासिवि भीरु वणं गया ॥ २ ॥	

६ A छिणं. ७ A छिणं. ८ A घरणी.

2 १ AP सीयल. २ A °जले; P °जल. ३ P °गज्जिय°. ४ A °मयगले; P °मयगल.
५ A °पलिय°. ६ AP महिसविद°. ७ A दहिणीलोल°. ८ P °सिगिणि. ९ A उत्तरतीरे. १० A
पुंडरिगिणि.

16 b जिणा येन पुष्पयं कुसुमं पानीयं वा, तं प्रसिद्धम्. 17 a छित्तं स्पृष्टम्; b दयाधम्म छित्तं दयाधर्मकलितम्. 18 b बुहाणमित्यादि बुधानां सुशीलं शोभनं व्रतरक्षणं प्रकाशयति. 19 a संतो विद्यमानः; b इसंतो वाणविनाशकः. 20 a महीदिणमारो पृथ्वीवर्तिप्राणिदत्तमारणः; b मारो कामः. 21 b महिमासयं महिम्नां माहात्म्यानां शतानि यत्र.

2 1 a खरंसुदीवि सूर्यदीपते; b पुव्वामरमहिहरु पूर्वमेरुः. 2 a सीय शीतला. 4 a खयरीसिहिणं विद्याधरीस्तनी. 5 b णाहल भिल्लाः. 6 a देहणिं उपलेपः कर्दमः. 7 a सावयसंगिणि भावकयुक्ता श्रापदयुक्ता च. 9 a भमाला° नक्षत्रमाला°. 12 वणंगया व्रणितशरीराः.

3

परियाणिय णिव अत्थाणत्थहु
आवेप्पिणु अक्खिउ वणवालें
तं णिसुंणिवि सो रइयरहंतहु
वंदिउ वंदणिज्जु जो वंदहुं
जिह जिह तेणें देउ णिज्जाइउ
भिच्चलोउ दूसणु परलोयहु
णारि मारि भीसण तें दिट्ठी
पुत्तहु बालकमलदलणेत्तहु
मुक्कउं घरु बहुदुक्खहं भंडउं

घत्ता—सुयरंतो जिणपुंगमं
पालइ मुक्कणियंगउ

एक्कहिं दिणि तहु अत्थाणत्थहु ।
नेव वणु भूसिउं तिहुवणवालें ।
वंदणैहत्तिइ गउ अरहंतहु ।
इंदचंदणाइंदणरिंदहुं ।
तिह तिह सो णिव्वेउ पराइउ । 5
भोउ गणिउ सरिसउ फणिभोयहु ।
हियवइ विसयविरत्ति पइट्ठी ।
देवि धरत्ति झत्ति धणयत्तहु ।
लइयउं वउं संसारतरंडउं ।

इसि प्राणिदियसंजमं ॥
सुयप्यारहअंगउ ॥ ३ ॥

10

4

णारीचित्तणु णं करइ दंसणु
गंधु मल्लु सरु राउप्पायणु
तं परिहरइ वच्छुं जहिं रोसहु
भाविवि भावणाउ णयजुत्तिउ
कम्मु अहम्मु णियाणु णिसिद्धउं
मुउ संणासणेण जोईसरु
अट्ठाइज्जहत्यतणु सुंदरु
मुयइ सासु सुहणिहिं दहंमासहिं
ओहिणामणाणेण परिक्खइ
कालें कालाणणु संप्राविइ

णउ संभासणु णउ करफंसणु ।
णउ अइमत्तपाणरसभोयणु ।
होइ सूइ माणाइयदोसहु ।
दंसणसुद्धिविणयसंपत्तिउ ।
तित्थयरत्तगोत्तु तें वद्धउं । 5
जायउ प्राणयकप्पि सुरेसरु ।
वीससमुद्दमाणंजीवियधरु ।
भुंजइ वीसहिं वरिससहासहिं ।
धूमप्पह महि जांव णिरिक्खइ ।
थिइ छम्माससेसि तहु जीविइ । 10

3 १ AP णिव. २ AP तं णिसुणेवि रइय°. ३ A वंदणभत्तिइ. ४ P देउ तेण. ५ P धरत्ति उत्ति. ६ AP वउ. ७ A सुमरंतो जिणपुंगवं; P सुमरंतहो जिणपुंगमं. ८ AP प्राणिदिय°.

4 १ P करइ ण. २ A °पाणु रस°. ३ P वासु. ४ A णियाणि. ५ AP पाणयकप्पि. ६ A अद्दाहियतिहत्थ°; P आहुइ जि हत्थ°. ७ P °माणु. ८ P सुहीणिहिं. ९ A दसमासहिं. १० P ओहि-
णाणमाणेण. ११ AP संपाविइ.

3 1 a अत्थाणत्थहु अर्थानर्थयोः; b अत्थाणत्थहु आस्थानस्थितस्य. 3 a रइयरहंतहु रतिकरः कामः तस्य विनाशकस्य; अथवा, रचितो रहसः अन्तरायस्य अन्तो विनाशो येन. 4 a वंदहुं वृन्दानाम्. 6 b फणि भो यहु सर्पफणावत्. 9 b °तरंडउं °तारकम्.

4 2 a राउप्पायणु रागोत्पादकम्. 3 b सूइ प्रसूतिकृत्तः. 5 a णियाणु निदानशल्यम्. 7 a अट्ठाइज्ज° सार्धत्रय°.

व्रत्ता—दिण्णविवक्खासंकयं मुहसोहाजियपंकयं ॥
सुहलियसुहमाणियसिवं भणइ कुलिसि द्विणाहिवं ॥ ४ ॥

5

जंबुदीवि रविदीवयदरिसइ
मंडुधरियपरमहिवइवंदिहि
कासवगोत्तहु गुत्तससंकहु
मुत्ताहलमंडियसुग्गीवहु
वासवकुलिसु व मज्जे खामहि
विद्धंसियदुद्धरमणसियसरु
जाहि ताहं तुहुं दुज्जण जूरहि
करि चंगउं पुरुं घरु सुहदंसणु
णिम्मिउ णर्यरु काइं वण्णिज्जइ
भाणुविंबु तहिं परु किं सीसइ

घत्ता—पयगयरंगविहंतियं
ढंकइ जत्थ वहुल्लिया

भरहें भुत्तइ भारहवरिसइ ।
णरभरियहि णयरिहि काकंदिहि ।
वइरिरणंगणि वज्जियसंकहु ।
इक्खाउहु रायहु सुग्गीवहु ।
जसरामहि देविहं जयरामहि । 5
होसइ देउ णवमतिथंकरु ।
चित्तिर्यं सयल मणोरह पूरहि ।
ता जक्खेण दुक्खविद्धंसणु ।
जहिं माणिकिरणविरोहें भिज्जइ ।
तेणं रयणि ण वासरु दीसइ । 10

पोमरायमणिपंतियं ॥
किं सा चंदगाहिल्लिया ॥ ५ ॥

6

कज्जलु णयणि दंति हरिणीलहु
दंतपंति ससियंतकरोहें
भणइ धरिणि सहियउ सरलच्छउ
जोयवि घरि मोत्तियरंगावलि
णीलउं णेतु ण णिहिउं णियच्छइ
कक्केयणकुड्डयलइ पेच्छिवि

आरुसइ किरणावलि कालहु ।
दप्पणयलि ण णियंति समोहें ।
पंवहि दसण ण धोयवि णिच्छउ ।
अवर ण वंधंइ गालि हारावलि ।
मरगयदित्ति मयच्छि दुगुंछइ । 5
भुंज भुंज णियभासइ पुच्छिवि ।

5 १ P मंड° . २ A णवसु . ३ P दूरहि . ४ P तहु घरि घणय मणोरह . ५ A पुरवर . ६ P काइं णयरु . ७ A माणिकिरणविहि . ८ AP° विहत्तियं .

6 १ A ससिअंत° ; P ससिकंत° . २ P बद्धइ . ३ A णीलणेतु णं .

11 दि ण्ण वि वक्खा सं क यं दत्ता विवक्षाशङ्का यस्य कुबेरस्य . 12 सु ह लियं सुफलितम् . 12 कु लि सि इन्द्रः .

5 2 a मंडुधरियं बलात्कारेण हठात् धृताः . 1 a सुग्गीवहु शोभनग्रीवस्य . 5 b ज सरा म हि यशसा मनोहरायाम् , यशो वा रामं रमणीयं यस्याः . 6 a मण सिय सरु कामवाणः . 7 a जूरहि विध्वंसय . 9 b भिज्जइ तिरस्क्रियते . 11 पयगयरंगविहंतियं चरणगतरागविधातिनीम् . 12 ढंकइ आच्छादयति .

6 2 b समोहें स्वभ्रान्त्या . 6 a कक्केयणकुड्डयलइ कर्कतनं नाम नीलरत्नं तन्मय्यां भित्तौ ; b णियभासइ शिशुभाषया .

दिण्णउ मुहविंवाहरतंबइ
अण्णु वि रंगंतउ सुत्तुट्टिउ
मणिमहियलगयतणु पंडिभुल्लउ
जं घरसिहराहयणहभायउ
णिच्चु जि अमुणियसंझारायउ

घत्ता--तहिं रयणंसुकरालइ
अम्मोएवि महासइ

सिसुणा कूरकवल्लु पंडिबिबइ ।
थणइ थण्णरसगहणुक्कंठिउ ।
दोमायउं चितइ डिंभुल्लउ ।
कणयघडिउ पुरु पीयलछायउ । 10
सुरहिसुसीयलंदाहिणवायउ ।

सोवंती सयणालइ ॥
पेच्छइ सिविणयसंतइ ॥ ६ ॥

7

णायं णाईल्लं णायारिं
णाणाकुल्लं मालाजंमलं
जायैयजुम्मं सिरिणिवजुम्मं
पालंतुंगयवेलावारं
पीढं चामीयरसेहीरं
दीहमऊहं रयणसमूहं

घत्ता - इय वरसिविणयमालियं
पइणो तीए सिट्ठयं

णारायणियं णरमणहारिं ।
णिसियरयं णेसरयं विमलं ।
पोमसरं पोमासियपोमं ।
पारं पंडुरपाणियफारं ।
णोइहरं णाईदार्गारं । 5
णिद्धं णिद्धं हुयवाहं ।

जयरामाइ णिहालियं ॥
तेण वि फलमुवदिट्ठयं ॥ ७ ॥

8

दयाभावजुत्तो
हले होहि दीसो
परस्सोवयारी

तुंमं चारुपुत्तो ।
अणीसो मुणीसो ।
जिणो णिज्जियारी ।

४ P परिबिंबइ. ५ A मणिमहियगयतणु णिरु पडिभुल्लउ; P मणिमहियगयतणु परिबिंबुल्लउ. ६ AP सुसी-
यल्लु. ७ AP रम्माए वि.

7 १ P णायल्लं. २ A °जुवलं. ३ AT जलयरजुम्मं. ४ AP पालंतुंगयवेलावारं (P धारं).
५ P णायहरं. ६ A adds after this: ऊइयपंचवीयं एवहं. ७ A adds after this: जालामाल-
जडियदिसोहं. ८ A वरि. ९ A सिट्ठियं. १० A °दिट्ठियं.

8 १ AP तुहं.

7 b प डि बिंबइ प्रतिबिम्बमुत्ते. 8 a सुत्तु ट्टिउ मुत्तोत्थितः; b थ णइ शब्दं करोति रोविति. 9 b
दो मा य उं द्वैमातृकम्.

7 1 a णायं गजम्; णाइल्लं वृषभम्; णायारिं सिंहम्; b णारायणियं लक्ष्मीम्. 3 b
णे सरयं सूर्यम्. 3 a जाययजुम्मं यादो जलं तस्मिन् जातानां मत्स्यानां युग्मम्; सिरिणि वजुम्मं श्रीयुक्तं
कुम्भद्वयम्; b पो मा सियपोमं लक्ष्म्या अधिष्ठितं कमलं यत्र. 4 a पालंतुंगयवेलावारं पास्यां उहत्तो
वेलावारो वेलासमूहो यस्य समुद्रस्य; b पारं समुद्रम्. 5 b णाइहरं नाकिण्हं सुरविमानम्.

तओ तम्मि काले	महातूररोले ।	
तिलोयस्स पुज्जा	सई का वि लज्जा ।	5
मई कंति बुद्धी	सिरी संति सिद्धी ।	
ससिंगारभारा	पघोलंतहारा ।	
गुणुत्तालभावा	सकंचीकलावा ।	
तुलाकोडिपाया	विइण्णंगराया ।	
दिही दीहरच्छी	परा का वि लच्छी ।	10
पवण्णा णिवासं	जिणंबाह पासं ।	
कया गब्भसुद्धी	इमीहिं महिद्धी ।	
धणेसो पहिद्धो	हिरण्णं पवुद्धो ।	
रिऊमासमेरं	धेरुं समेरं ।	
अमंदो णिवंदो	चुओ प्राणइंदो ।	15
घत्ता—फग्गुणमासे पत्तए	पक्खे ससियरदित्तए ॥	
णवमीदियहि पवित्तए	देवं मूलणक्खत्तए ॥ ८ ॥	

9

जिणो णारिदेहे थिओ दिव्वणाणो	सुरिंदाण वंदेहिं वंदिज्जमाणो ।	
णिहीकुंभहत्था पणञ्चंति जक्खा	वरिट्ठा सुवण्णं दहट्टेव पक्खा ।	
पमोत्तूण संसारवित्थारदुग्गं	पवण्णम्मि चंदप्पहे मोक्खमग्गं ।	
समुद्दाण कोडीण सीरीसमाणं	सुसुण्णं गयं पत्तियं कालमाणं ।	
तओ मग्गसीसे णिसीसंसुसेए	पहिल्ले दिणे जायओ जायसेए ।	5
जिणिंदस्स जम्मे जियाराइवग्गो	ससक्को असेसो वि सोहम्मसग्गो ।	
ण सामांइ खे खीणपावो महप्पो	विमाणेहिं जाणेहिं ईसाणकप्पो ।	
सणांइकुमारो स माहिंदणामो	विलंबंतसोहंतमंदारदामो ।	
समं बंभणाहेण बंभुत्तरेसो	णहुड्डीणगिष्वाणसोहाविसेसो ।	
चलो चल्लिओ लंतवो लच्छिधामो	असट्टेण काविट्टवो तुट्टिकामो ।	10

२ A तूराले. ३ A सुई कावि; P सयं कावि. ४ P जिणंबाय. ५ P सुवण्णेण बुद्धो. ६ A रमंतो समेरं. ७ P णिमंदो. ८ AP पाणइंदो. ९ A देउ.

9 १ AP ससुण्णं. २ A सुसेओ. ३ A जायसेओ. ४ AP संमाइ. ५ P सणांइकुमारो. ६ AP विलोलंतसोहंत°.

8 4 b महातूररोले महानूर्यस्वने. 5 b लज्जा हिरी. 9 a तुलाकोडि° पादाङ्गुदम्. 14 a रिऊमासमेरं षण्मासावधि; षण्मासपर्यन्तमित्यर्थः; b समेरं उपशमभावम्.

9 2 b वरिट्ठा वृष्टा; दहट्टेव पक्खा अष्टादशपक्षान् नव मासान्. 4 a सीरीसमाणं बल-भद्रतुल्यानां नवानाम्. 5 a णिसीसंसुसेए चन्द्रकिरणश्रेते; b जायसेए जातश्रेयसि. 7 a सामांइ अवकाशं प्राप्नोति. 10 b असट्टेण अकपटेन.

ससुक्रो महासुकुदेवगंगामी
समुद्राद्भो आणधो प्राणहंदो
ससी वासरीसो रहुव्वज्जेऊ
दियंतं गयाणंदभेरीणिणया
णिवो वंदिओ तेहिं काकंदिवालो
असामण्णलायणभारम्मयाए
तिणाणी तिसुद्धो सुलेसासहावो

घत्ता—पंडुसिलोवरि ण्हाणियं
णविऊणं अरहंतयं

सयारो सहारो सहस्सारसामी ।
जगुद्धारणो आरणो अच्चुइंदो ।
बुहो अंगिरारो सणी राहु केऊ ।
पुरिं प्राईया सामराणं णिहाया ।
करे ढोइओ कित्तिमो को वि बालो । 15
जणेऊण भंति³ मणे अम्मयाए ।
णिओ मंदरं देवदेवेहिं दवो ।

पूयाविहिसंमाणियं ॥
पुण्णदंतभयवंतयं ॥ ९ ॥

10

ते सुरवर लंघिवि गयणंतरु
जणणिहि करयलि णिहियउ जइवइ
काले जंतं वड्डिउ सायरु
वड्डिउ सुकइहि कव्वालाउ व
वड्डिउ उवसमवेह्लिहि कंदु व
वड्डिउ धम्मदिवाडु तेउ व
कुंदुज्जलतणु अईसयभूयउ
सिसुलीलाइ पओसियदिव्वहं
पच्छइ पत्तु पायसासणु सइं
जं चिंतंतउ सुरगुरु गुप्पइ
लक्खणलक्खियंवरतणुलट्ठिहि

घत्ता—माणंतहु सिरियंगंइ
पुव्वहुं पुगु सविलासइं

ते लेप्पिणु पडिआया तं पुरु ।
गउ आणंदु पणच्चिवि सुरवइ ।
वड्डिउ णं सियंपक्खइ सायरु ।
वड्डिउ सुमुणिहिं णाणसहाउ व ।
वड्डिउ अमयकलिहिं णव्वयंदु व । 5
वड्डिउ भवमयरहरहु सेउ व ।
वाणासणसउ तुंगु पहूयउ ।
गय पण्णाससहस तहु पुव्वहं ।
उच्छउ किं सीसइ मणुपं मइं ।
तहिं महुं मइ णउ किं पि विसप्पइ । 10
पट्टवंधु जाइउ परमेट्ठिहि ।
अट्टवीसपुव्वंगइं ॥

पण्णासेव सहीसइं ॥ १० ॥

७ AP °देवक्र°. ८ AP प्राणहंदो. ९ P वासरीसो. १० AP पाइया. ११ AP काकंदिवालो. १२ P असावाण°. १३ A भंती. १४ A तिणाणी तिलेसो तिसुद्धो सुहावो. १५ AP णमिऊणं. १६ AP पुप्फयंत°.

10 १ P जयवइ. २ AP सियवक्खइ. ३ A अमयकलिहि. ४ P णवचंदु व. ५ A धम्म दयादहभेउ व; P धम्मदिवायरतेउ व. ६ P अइसंभूयउ. ७ P °परतणु°. ८ AP जायउ. ९ A सिरि- अंगयं. १० A °पुव्वंगयं. ११ A सहस्सइ.

11 b सयारो शतारेन्द्रः. 13 b अंगिरा बृहस्पतिः; अरो मङ्गलः. 14 b सामराणं णिहाया दिक्पालानां समूहाः.

10 3 a सायरु लक्ष्म्याः कारकः आकरो वा. 6 a °दिवाडुहु दिवा अटतीति दिवाटः सयः तस्य. 8 a पओसियदिव्वहं प्रतोपितदेवानाम्. 10 b विसप्पइ प्रवर्तते.

11

तेत्थु तासु बोलीणइं जइयहुं
 तं जोइवि जिणणाहु वियक्कइ
 जणणमरणंपरिवट्टणलक्खणु
 जं जं काइं वि णयणाहिं दीसइ
 अथिरु सव्वु भणु कहिं रइ कीरइ
 वइसाणरु इंधणतणपवणें
 भोणं इंदियतित्ति ण पूरइ
 इय चिंतंतु णाहु संभाविउ
 चारु चारु पइं जिणवर जाणिउं
 घत्ता—ता धयवीईराइयं
 पुंडरीयमालाधरं

उक्क पडंती दिट्ठी तइयहुं ।
 कालहु कलिहि ण कोइ वि चुक्कइ ।
 एउ तिजगु परिणवइ पंडिक्खणु ।
 उक्का इव तं तं खणि णासइ ।
 तो वि चित्तु विसयासइ हीरइ । 5
 ण समइ कहु णक्खकहुयणें ।
 वड्डइ दुट्टु तिट्टु मइ जूरइ ।
 अमरमुणीसरंहिं बोलाईविउ ।
 सासयचित्तिहिं हियवउ आणिउं ।
 विउलपत्तपच्छाइयं ॥
 सोहइ गयणंगणसरं ॥ ११ ॥

12

सुरवरकरयलपहयइं तूरइं
 णविउ णहविउ भावें तित्थंकरु
 दिव्वदुगुलयाइं परिहेप्पिणु
 सुमइहि रज्जु समप्पिवि राणउ
 गउ णडंतणाणाखयरामर
 तहिं मायसिरि मासि सिसिरहु भरि
 कुडिलकेस । णक्कुडिलें लुंचिवि
 जाइवि अमर पवरमयरालइ
 छट्टुववासु पयासु करेप्पिणु
 घत्ता—वित्थारियतवसिहिसिहं
 उज्झियरइसंकप्पयं

खीरमहण्णावि भरियइं खीरइं ।
 घणवाहें घणेण णं महिहरु ।
 परमसिद्धसंतइहि णवेप्पिणु ।
 सूरप्पहसिवियहि आसीणउ ।
 वियसियपुष्पइ पुष्पवणंतरि । 5
 सियेपाडिवइ वरुणदिसि दिणयरि ।
 घाल्लिय ते तियसिंदें अचिवि ।
 जयकारिउ विज्जाहरमालइ ।
 थिउ नृवसंहसं सहं तउ लेप्पिणु ।
 ससरीरे वि हु णिप्पिहं ॥ 10
 पडिवणं जिणकप्पयं ॥ १२ ॥

11 १ A कालहु कलि ण वि को चुक्कइ. २ A °मरणु परि°. ३ A परिक्खणु. ४ A कायमि णयणहं. ५ A °कंडमणें. ६ A बोलाविउ.

12 १ A महण्व°. २ APT °दुगुलयाइं. ३ A मायसिरिमासि; P मागसिरि मासि. ४ A पडिवाए; P पडिवाए. ५ P णिकुडिलें. ६ AP णिवसहंमं.

11 2 b कालहु कलि हि यमेन सह युद्धात्. ३ b पडिक्खणु प्रतिक्षणम्. 7 तिट्टु तृष्णा; जूरइ जीर्यते हीयते. 10 धयवीईराइयं ध्वजवीचीराजितम्; °पत्त वाहनानि. 11 पुंडरीयं छत्रम्.

12 2 b घणवाहें इन्द्रेण. 3 a °दुगुलयाइं वस्त्राणि; b °संतइहि श्रेण्याः. 4 a सुमइहि शुभतिनाम्नः पुत्रस्य. 6 b वरुणदिसि पश्चिमदिशायाम्. 7 a णिकुडिलें निष्कपटेन. 10 णिप्पिहं निस्तुइम्. 11 जिणकप्पयं जिनाचरणम्.

13

अवरहिं वासरि संतकसायउ
सइल्लेणयरु मुणिभक्खहि दुक्कउ
तहु तहिं उप्पणउं अच्चेरउ
चउवरिसइं गालियइं छम्मत्थहु
कत्तियमासि विसुद्धहि वीयहि
लोयालोयपलोयणदीवउ
केवलणाणु सो ज्जि लइ भण्णइ
जं बुद्धं सुण्णउं जि पयासिउं
जं कउल्ले अंबरु आहासिउं
जं कंवल्ले णिक्किरिउं णिउत्तउ
जं सुरगुरुणा णत्थि पउत्तउं
तं खं देवे सुसिरु विसिद्धउ

घत्ता—एयाणेयविवाइणा
जउं कुसुमपिसक्कयं

हासकासजंसससिसुच्छायउ ।
पुप्फमित्तरायहु घरि थक्कउ ।
पंचपयारु मणोरहगारउ ।
णायरुक्खतलि मुणियपयत्थहु ।
दिवसक्खइ गिक्वाणपगीयहि । 5
जायउ देवहु अप्पसहावउ ।
अण्णे जीवहु कहिं परमुण्णइ ।
जं विप्पेण वंभु णिहेसिउं ।
जं सइवण सिवत्तु समासिउं ।
णिग्गुणु णिच्चविसुद्ध अक्कत्तउं । 10
जं अणंतु अच्छइ अविहत्तउं ।
अप्पाणाउ विहिण्णउं दिट्ठउ ।

पुप्फदंतजिणजोइणा ॥
पहि णिहियं तेलोक्कयं ॥ १३ ॥

14

इंदेण जलणेण
फणिणा कुबेरेण
दसदिसिहि आएण
थोत्तं पदंतेण
तुहुं धोयरइरेणु
तुहुं बंधु हयदप्पु
जे दुट्ठु पाविट्ठु
उम्मग्गि वट्ठंति
अलियं पयंपंति
परवहु णिहालंति

बरुणेण पवणेण ।
चंदेण सूरेण ।
सुरवरणिहाएण ।
थुउ जिणवरो तेण ।
तुहुं कामदुहधेणु । 5
तुहुं माय तुहुं बप्पु ।
णिक्किट्ठु जेउ धिट्ठु ।
महु मज्जु घोट्ठंति ।
कामेण कंपंति ।
पारड्ढि खेळंति । 10

13 १ P °ससिजस°. २ AP सयलणयरु. ३ P मणोरह°. ४ AP कवल्ले. ५ A संखे.
६ P अक्कत्तउं. ७ A अप्पाणाउ विभिण्णउं; P अप्पसहावे जाणं. ८ AP पुप्फयंत°. ९ P पहि णीयं.

14 P adds after this: जमदिसिक्कुमारणेण, णेरइयभावेण. २ P जण घेट्ठु. ३ P खेळंति.

13 1 a सं त क सा य उ उपशान्तकपायः. 2 a स इ ल ण य र शैलपुरम्. 4 b मु णि य प य त्थ हु
शातपदार्थस्य. 9 a क उ ल्ले मीमांसकेन; अंबरु स्वर्गः. 11 a सुरगुरुणा चार्वाकेण. 12 सु सिरु
अन्तःशुषिरम्.

लोहेणं भज्जंति
रोसेण वड्ढंति
जे मासु भक्खंति
मूढा ण वंदंति
संचरइ जणुं छम्मु
बहुजणणजलसेउ

घत्ता—मिच्छापरिणामगगहे
णिवडंतं ण उवेक्खियं

परहणु ण वज्जंति ।
खग्गाइं कड्ढंति ।
ते पइं ण पेक्खंति ।
णिच्चं पि णिंदंति ।
पइं मुइवि कहिं धम्मु ।
पइं मुइवि को देउ ।

15

लग्गं घणतमदुव्वहे ॥
जगडिंभं पइं राक्खियं ॥ १४ ॥

15

समवसरणि जिणु संठिउ जावंहिं
पण्णारहसय वज्जियसंगहं
एक्कलक्खु सहं पंचावण्णहिं
सिक्खुवाहिं णिम्महियरईसहं
सत्तसहस केवलणाणालहं
भयसहास वयसय मणपज्जय
वईतंडियपच्चुत्तरदाइहिं
सहुं असीइसहसइं गिरवज्जहं
दोणिण लक्ख पात्तियघरधम्महं
अमरच्छरउलाइं गयसंखइं
इय एत्तियलोए संजुत्तहु
महि विहरंतहु धम्मु केहंतहु
अट्टवीसपुव्वंगविहीणउ

घत्ता—मासमेत्तु मुणिगणजुओ
लंबियपाणि मणोहरे

अट्टुंसी हुय गणहर तांवाहिं ।
परमरिसिहिं जाणियपुव्वंगहं ।
सहसहिं पंचसईसंपण्णहिं ।
अट्टसहस चउसय ओहीसहं ।
तेरहसहसइं विक्किरियालहं ।
णाणधारि दोसासय दुज्जय ।
रिदुसहसइं रिदुसयइं विवाइहिं ।
लक्खइं तिण्णिण पउत्तइं अज्जहं ।
मणुयहं मणुइहिं पंच सुसोम्महं ।
तिरियइं पुणु कहियाइं ससंखइं ।
भुवणत्तयराईवयमित्तहु ।
पुष्पयंतदेवहु अरहंतहु ।
पुव्वहं एक्कु लक्खु तैहिं झीणउं ।

5

फणिदेवासुरणरथुओ ॥
थिउ संमेयमहीहरे ॥ १५ ॥ 15

४ P reads a as b and b as a. ५ A जणलम्मु; P जहि छम्मु. ६ P °दुप्पहे. ७ A णिवडंतउ.

15 १ P adds after this: एए मुणि संजाया तावाहिं, इंदचंदविसहरमणहर. २ P अट्टा-
सीस जाया गणधर. ३ AP सिक्खुवाहं. ४ AP वयतंडिय. ५ A करंतहु. ६ AP पुष्पयंत°. ७ A
तहो झीणउं; P परिखीणउं. ८ A मासमेत्त°.

14 16 a बहु जण ण° संसारः.

15 4 a णि म्म हि य र ई स हं मथितकंदर्पाणाम्. 11 b °रा ई व य मि त्त हु राजीवं कमलं तस्य
मिश्रस्य सूर्यस्य.

16

आउसमाणइं णामइं गोत्तइं	करिवि वेयणीयाइं णिहित्तइं ।
दंडकवाडरुजगजगपूरइं	विरइवि मुक्कइं तिण्णि सरीरइं ।
तेजइओरालियकम्मइयइं	जाइं विमुक्कइं पुणु वि ण लइयइं ।
उव्वेल्लिवि कट्टिवि आउंचिवि	जीवपपस सयलघण संचिवि ।
चउसमयंतयालु थिउ देहइ	भद्वण सुक्कट्टुमिदियहइ ।
अवरण्हइ सहं मुणिहिं सहासं	सिद्धउ जिणु जणजयजयघोमं ।
पुज्जिय तणु चउविहहिं सुग्दिहिं	वंदिउ इंदपडिंदणरिंदहिं ।
गइ देवाहिदेवि अववग्गहु	गउ सुरयणु णीसेसु वि सग्गहु ।
घत्ता— जिह भरहस्स समीरिओ	रिसहेणंगयवयरिओ ॥
तिह मइं तुह कहिओ इमो	पुप्फदंतजिणपुंगमो ॥ १६ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइण
महाभव्वभरहाणुमण्णिण प महाकव्वे पुप्फदंतणिव्वाणगमणो
णाम सत्तचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४७ ॥

॥ जिणंपुप्फयंतचरियं समत्तं ॥

16 १ P णामयं. २ A दंडकवालरुजगजग°; P दंडकवाडपयरजग°. ३ P तेजोरालियअरु-
कम्म°. ४ A जोयविमुक्कइं; P जाएवि मुक्कइं. ५ AP सिहि दिण्ण सिहिदहिं. ६ P भरहहो. ७ A
पुप्फयंत°. ८ P सत्तचालीसमो. ९ AP omit the line.

16 2 a °रुजग° °प्रतर°. 3 a ते जे त्या दि तेजसौदारिककार्मणशरीराणि. 4 a उ व्वे ल्लि वि
एकत्रीकृत्य; कट्टिवि कर्मभ्यः शरीराच्च निष्कास्य. 5 a चउसमयंतयालु चतुःसमयैः दण्डकपाटप्रतर-
लोकपूरणाः कृताः; पश्चाच्चतुर्भिः संकोचिताः; एवमष्टौ समयाः. 9 अंगयवयरिओ अङ्गजः काम-
न्तस्य शत्रुः.

XLVIII

आउच्छणदच्छ संच्छिणियच्छियधम्मपह ॥
सुणि सेणियराय सीयलणाहहु तणिय कह ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो परिपालियतिरयणो	पयजुयपाडियसुरयणो ।	
तिक्खं वारियदुव्वहं	जस्स वय परदुव्वहं ।	
बुहतोसो परमागमो	जेण कओ परमागमो ।	5
कणयकमलकोसाहओ	अविणस्सरसिरिसाहओ ।	
जो पिहियासवदारओ	णग्गो णिग्घरदारओ ।	
णासियणिच्चायारओ	पोसियपंचायारओ ।	
अमुणियवणियायल्लओ	जो दयाइ अल्लओ ।	
जस्स पहाँसइ जइयणो	वसहएहि णिज्जइ यणो ।	10
जेव तेव उग्गयगयं	धरियं जीवेणगयं ।	
तं वीहच्छं पूइयं	गंधमल्लविहिपूइयं ।	
तइ वि खलं खइ तावयं	होइ ण हो चत्तावयं ।	
एत्थ सणेहं सीसया	जस्स कुणांति ण सीसया ।	
जं दट्टं सक्काणणं	महुसमयम्मि व काणणं ।	15
वियँसइ ससहरराहयं	कमलं पिव रविभाहयं ।	
जो वणवासि वसी यलं	वयणं चंदणसीयलं ।	
जस्स पसाया सीयलं	हवइ णविवि तं सीयलं ।	

घत्ता—गुणभद्दगुणीहिं जो संथुउ गुणगरुयगइ ॥

दहमउ जिणणाहु हँउं वि थुणविं सो दिव्वजइ ॥ १ ॥

20

1 १ AP सच्छिणियच्छिय^०, A ^०पालिय^०, २ A कणयकलस^०, ३ P वणियापल्लओ, ४ A पयासइ; P य भासइ, ५ A णिज्जिययणो; P णिज्जइअणो, ६ A जत्थ, ७ A विहसइ, ८ AP गुणगरुवमइ, ९ P हउं थुणामि सो.

1 1 आउच्छणदच्छ आप्रच्छनदक्ष; सच्छिणियच्छिय^० स्वनेत्रेण अवलोकितः, 3 a ^०तिरयणो ज्ञानदर्शनचरित्रलक्षणानि त्रीणि रत्नानि, 4 a तिक्खं अतीव तीव्रम्; वारियदुव्वहं निषिद्धदुष्पथम्; b वयं व्रतम्, 5 a परमागमो उत्कृष्टलक्ष्म्याः आगमनहेतुः, 6 a ^०कोसाहओ ^०कर्णिकासदृशशरीरः; अविणस्सरसिरिसाहओ मोक्षलक्ष्मीसाधकः 8 a ^०णिच्चायारओ ^०नीचाचारः, 9 a ^०वणियायल्लओ स्त्रीकटाक्षः; b अल्लओ आद्रोद्रेः, 10 b वसहेहि णिज्जइयणो वृषभैर्यथा अनः शकटं नीयते तथा जीवेन शरीरं नीयते इति प्रभाषते, 11 a उग्गयगयं उद्गतरोगमङ्गम्, 12 a वीहच्छं वीभत्सम्, 13 a खइ क्षयि विनश्वरम्, 14 b सीसया लक्ष्म्याः स्वामिनः; अथवा श्रियं सीदन्ति गच्छन्ति प्राप्नुवन्तीति श्रीसदाः, 16 a ससहरराहयं शशधरस्य राहा शोभा यस्मिंस्तादृशम्, 17 a वसी यलं वशी जितेन्द्रियः, अलं अतिशयेन,

उत्तुंगकोलखांडियकसेरु
 तद्दु पुव्वविदेहइ वहइ विमल
 खरदंडसंडदलछइयणीर
 दरिसियपयंडसौंडाललील
 जुज्झंतचहुलकरिमयरणिलय
 जलपक्खालियतंडसाहिसाह
 दाहिणइ धण्णसंछण्णसीम
 जसससिधवलियदिच्चक्रवालु
 परिहातियतिवलिइ जणियसोह
 घणथणहल कौंतलभसलसाम
 पियविडविदेहणुब्भासकाम
 णं पवरअणंगहु तणिय वेह्लि
 सहव सारंगसिलिवयच्छि
 सा सुललियंगि पंचत्तु पत्त
 अवलोयवि चिंतइ सामिसालु
 मुय मेरी पिय पयडीकएहिं
 तोडेप्पिणु णिब्भरु णेहवासु
 अप्पणिय एह मइ भणिय काइं
 संचियणियंयकम्मवसंगयाइं
 एक्के मइं जाएवउं णियाणि
 जं अच्छिवि पुणु वि विर्णासभाउ

पुक्खरवरदीवइ पुव्वमेरु ।
 णइ कीलमाणकारंडजुयल ।
 डिंडीरपिंडपंडुरियतीर ।
 लोलंतधूलकल्लोलमाल ।
 परिभमियगहीरावत्तवल्य । 5
 णामेण सीय सीयल सगाह ।
 उवयंठि ताहि संठिय सुसीम ।
 तहि णयरिहि णरवइ पुहइपालु ।
 दावियरोमावलिअंकुरोहं ।
 कयपत्तावलि अहिजणियराम । 10
 कोमलिय सरस संदिण्णकाम ।
 णं तासु जि केरी हत्थभल्लिं ।
 तद्दु वल्लह देवि वसंतलच्छि ।
 णीसासविवाज्जिय पिहियणेत्त ।
 णिप्फलु मोहंधहुं मोहजालु । 15
 हसइ व दसणेहि णिसिक्रिएहिं ।
 अकहंति दुक्क परजम्मवासु ।
 इह परियणसयणइं जाइं जाइं ।
 जाहिंति एव सव्वाइं ताइं ।
 तो वरमइ जुंजमि अरुहणाणि । 20
 तं मुच्चइ एव भणेवि राउ ।

यत्ता—करु देंति विहेय कुंभिणि व्व तोसियजणहु ॥

कुंभिणि ढोपवि चंदणणीमहु णंदणहु ॥ २ ॥

2 १ A उत्तंग°; P उत्तुंगु. २ P °तडि साहिसाह. ३ A °सच्छण्ण°. ४ A विरइयणायर-
 णरमणणिरुहु. ५ A °अंकुरोहु. ६ P °कुंतल°. ७ P कयवत्तावलि. ८ A वेढणब्भास°; P °वेड्डुणु°. ९ A पयडीकिएहि. १० A °णिवकम्म°. ११ A विणासु भाउ; P विणासिभाउ. १२ A चंदणणामे.

2 1 a °को ल° सूकरः; °क सेरु °कन्दः. 2 b °कारं ड जु य ल °हंमयुगुला. 3 a खरदं ड सं ड°
 कमलवनम्. 4 a °सौं डाल° हस्ती. 6 a °त ड सा हि सा ह °तीरस्थितवृक्षशाखा. 7 b उ व यं ठि उपकण्ठे
 समीपे. 9 a परि हा ति य ति व लि इ परिखात्रयवत् वल्लिरेखात्रयेण. 10 a °भ स ल सा म भ्रमरमनोहरा.
 11 a पि ये त्या दि प्रियविटवेष्टनस्य उद्भास उक्कृष्टशोभा तस्यां कामः इच्छा यस्याः. 13 a सा रं ग सि लि-
 व य च्छि शिशुहरिणाक्षी. 16 a प य डी क ए हिं प्रकटीकृतैर्दन्तैः; b णि सि क्रि ए हिं निःक्रीडितैः क्रीडा-
 रहितैर्दन्तैः. 22 वि हे य वशवर्तिनी; कुंभिणि हस्तिनी. 23 कुं भि णि पृथ्वी.

3

मुणिवरु जायउ संसारकूलि
सीउंद्धरोमु गयसीहरोलि
गुलुं सण्णि दुहु तेरंगु तेल्लु
पाल्लइ पारत्तिउ मेरुधीरु
उवयरणर्गहणि णिकखेवणेसु
जोयइ तसथावर मग्गचरणि
तं जंपइ जेण ण पावबंधु
तत्रु करिवि तिर्वु णिम्मुककामु
आराहण भयवइ संभरेवि
माणिककडयचेंचइयवाहु
वावीससमुद्धर्पमाणियाउ

आणंदमहामुणिपायमूलि ।
णिवसइ गिरिवरकुहरंतरालि ।
वियडीउ ण भुंजइ जइ वसिल्लु ।
णवकोडिविसुद्धउ बंधचेरु ।
परिहरइ दोसु रिसि भोयणेसु । 5
उच्चारखेलपस्सावकरणि ।
संजमभारालंकरियखंधु ।
बंधेप्पिणु तं तित्थयरणांमु ।
सो अवसणु कयणिरसणु मरेवि ।
संजायउ आरणि अमरणाहु । 10
तिरयणिंसरीरु वणणेण सेउ ।

ग्रन्ता — तहु पक्ख दुवीस अवहियं सासहु परिगणिय ॥
तइवरिससहास आहारंतरु मुणिभणिय ॥ ३ ॥

4

णिरुवमसुहसंपावणखणेण
सो कहिं वि ण मेल्लइ सुकलेस
परियाणइ पेच्छइ तमपहंतु
उदुमांससेसि जीवियपमाणि
भो गुज्झय वुज्झहि भमियसरहि
मलययदुमसुरहिउ मलयदेसु

रमणीरमणु वि सारइ मणेण ।
जिगु पणवइ गेण्हइ चरणसेस ।
अट्टगुणसारु महिमा महंतु ।
आघोसइ सयमहु उदुविमाणि ।
किं बहुपं जंबूदीवभरहि । 5
जहिं णरहिं परिट्टिउ अमरवेसु ।

3 १ A मीहु व्व रोमगयं. २ P गुहु. ३ A नेरंगु and gloss दधि; T णेरंगु दधि. ४ A रसल्ल. ५ A पारइ पारत्तउ. ६ A गहणं. ७ P पस्सवणकरणि. ८ A तित्थु णिम्मुककं. ९ AP काउं. १० AP णाउं. ११ P पमाणुआउ. १२ A सरोर. १३ AP अविहिय.

4 १ A रमण. २ AP उदुमासं. ३ AP उदुविमाणि. ४ P जंबूदीवि भरहि. ५ AP मलयहुमं.

3 1 a संसारकूलि संसारप्रतिकूलि. 2 a सीउंद्धरोमु शीतनोर्ध्वरोमा. 3 a नेरंगु दधि; b विय डीउ विकृतयः मधुमांसमद्यनवतीतानि. 4 a पारत्तिउ पत्र प्रयोजनं यस्येति पारत्रिको मोक्षार्थी; b णवकोडिविसुद्धउ नवभेदम्. 10 a चेंचइयवाहु अलंकृतवाहुः. 11 b तिरयणिंसरीरु त्रिहस्तशरीरं. 12 अवहिय मर्यादा श्वासस्य.

4 1 a संपावणखणेण संपादनावसरे; b सारइ करोति. 3 a तमपहंतु पञ्चनरकपर्यन्तम्. 4 b उदुविमाणि ऋतुविमाने. 5 गुज्झय गुह्यकः कुवेरः; भमियसरहि भ्रान्ताः शरभाः अष्टापदाः सरथा वा यत्र.

रइकइयवकीलाकोच्छराउ
जहिं कामधेणुणिह गोहणाइं
जहिं णिच्चमेव मंगलणिणहु
रणरंगतुंगमायंगसीहु
मुहँयंदोहामियरुंदचंद
विसहरवंदारयवंदवंदु
जज्जाहि तांर्य तुहं करहि तेंव

जहिं कामिणीउ णं अच्छराउ ।
जहिं कप्परुक्खरिद्धइं वणाइं ।
तहिं पुरवरु णामें रायभहु ।
दढरहु णरिंदु जयजयसिरीहु । 10
महपवि तासु णामें सुणंद ।
एयहं णंदणु होसइ जिणिंदु ।
संभवइ णयंरु घर दिव्वु जेंव ।

घत्ता—ता वइसवणेण तं पट्टणु कंचणु घडिउं ॥

मणिकिरणकरालु सग्गखंडु णावइ पडिउं ॥ ४ ॥

15

5

जहिं दीसइ तहिं सोवण्णभवणु
जहिं दीसइ तहिं हरिणीलणीलु
जहिं दीसइ तहिं मंडवुं विचित्तु
जहिं दीसइ तहिं मुत्तावलिल्लु
जहिं दीसइ तहिं कप्पररेणु
जहिं दीसइ तहिं थियकामधेणु
जहिं दीसइ तहिं वीणारवालु
जहिं दीसइ तहिं चलचिंधचवलु
जहिं दीसइ तहिं विविहुच्छवोहु
जहिं दीसइ तहिं णच्चियमऊरु

जहिं दीसइ तहिं वणंसुरहिपवणु ।
जहिं दीसइ तहिं वररमणिलीलुं ।
जहिं दीसइ तहिं घुसिणावलित्तु ।
जहिं दीसइ तहिं णवतोरणिल्लु ।
जहिं दीसइ तहिं गज्जियकरेणु । 5
जहिं दीसइ तहिं वज्जंतवणु ।
जहिं दीसइ तहिं अलिउलवमालु ।
जहिं दीसइ तहिं ससियंतधवलु ।
जहिं दीसइ तहिं कयरच्छसोहु ।
जहिं दीसइ तहिं सिरिविहंवफारु । 10

घत्ता—जहिं दीसइ तेत्थु पुरवरु जणमणु रावइ ॥

पिययमहि सरीरु जिह तिह चंगउं भावइ ॥ ५ ॥

६ A कप्परुक्खणिद्धइं. ७ A मुहँदो°. ८ P ताहं. ९ A णवरु. १० AP कंचणघडिउं.

5 १ AP णव. २ P adds after this.: जहिं दीसइ तहिं खेयरह कीलु, जहिं दीसइ तहिं सुरवरहिं मेळ. ३ A मंडव. ४ P चलचिंधु चघळ. ५ AP सिरिविहवफारु.

7 a °की च्छ राउ दक्षाः. 10 b जय जय सिरीहु जगजयश्रीवाञ्छकः. 11 a °ओ हा मि य° तिरस्कृतः. 14 कंचणु काञ्चनमयम्.

5 7 a °व मालु °कोलाहलः. 8 b ससियंतधवलु चन्द्रकान्तैः धवलम्. 9 a विविहुच्छ-
वो हु विविधोत्सवसमूहः. 10 a सिरिविहवफारु श्रीविभवविस्तारः. 11 रावइ रज्जयति.

6

तहिं विजयणंदिरे	णिवणिहेलणे सुंदरे ।	
णयंगि सियणेत्तिया	रयणमंचए सुत्तिया ।	
णिणइ छउओएरी	सिविणए इमे सुंदरी ।	
गयं गलियमयजलं	भमियभिगकोलाहलं ।	
विसं रसियपेसलं	खरखुरग्गखयभूयलं ।	5
करालणहभइरवं	कयरवं च कंठीरवं ।	
कुसेसयणिव्वासिणिं	सिरिमुविंदसीमंतिणिं ।	
पसूयसयमालियं	भमरंपंतियाकालियं ।	
विहुं विहियजामिणिं	खरयरं खचूडामणिं ।	
झसाण जुयलं चलं	कुडजुयं ससंकामलं ।	10
सरोरुहसरोवरं	मयरमंदिरं गज्जिरं ।	
मइंदपवूरुढयं	रयणचित्तियं पीढयं ।	
पुरंदरणिहेलणं	भवणमुज्जलं भावणं ।	
महारयणरासियं	सिहिणमुरुसिहुब्भासियं ।	

घत्ता—इय पेच्छिवि ताए रायहु गंपि समांसियउं ॥ 15
सिविणियंफलु तेण कंतहि कंतं भासियउं ॥ ६ ॥

7

जस्स छत्तत्तयं	जस्स लोयत्तयं ।	
वहइ दासित्तणं	कुणइ गुणकित्तणं ।	
मणिमयरकुंडलो	जस्स आहंडलो ।	
घिविवि णवकुवलयं	णवइ कमकमलयं ।	
सो तुहं तणुरुहो	चंडि होही सुहो ।	5

6 १ AP विजयमंदिरे. २ A छउओएरी; P तुच्छओयरी. ३ AP इमं. ४ P °णिव्वासिणी. ५ A सिरि उविद°. ६ P °सीमंतिणी. ६ AP भवर°. ७ A मयंदसुर°; P मइंदसिर°. ८ AP रयणणिम्मियं. ९ P समासिउं. १० AP सिविणियं°.

6 2 a णयंगि नताङ्गी. 3 a णिणइ पश्यति; छउओयरी श्रामोदरी. 5 a रसियपेसलं शब्देन मनोहरम्. 6 b कंठीरवं सिंहम्. 7 a कुसेसय° कमलम्; b उविंदसीमंतिणि उपेन्द्रो विष्णुस्तस्य भार्या. 9 a विहियजामिणि कृतरात्रिं निशाकरमित्यर्थः. 10 b कुडजुयं कुम्भयुगुलम्. 11 b मयरमंदिरं समुद्रम्. 12 a मइंदपवर° मृगेन्द्रप्रधानः सिंहः. 14 b उरुसिहुब्भासियं प्रचुर-स्वालोद्भसितम्.

देवदेवो जिणो	खंतिपोमिणिइणो ।	
बुद्धिं कंती सिरी	लच्छि किंती ह्रीरी ।	
गम्भसुद्धीयरी	अमरवरसुंदरी ।	
मत्तगयगामिणी	राइणो सौमिणी ।	
ताहिं संसेविया	तित्थणाहंबिया ।	10
दुक्खपक्खक्खया	हेमवुट्ठी कया ।	
वित्तएणं संयं	जाव छम्मासयं ।	
आइमासंतरे	किण्हंपक्खंतरे ।	
अट्टमीवासरे	रविकिरणभासुरे ।	
रिक्खए रूढए	उत्तरासाढए ।	15
माउयासंगओ	गम्भवासं गओ ।	
तत्थ जंभारिणा	वेरिसंघारिणा ।	
मणिणऊणं पईं	पुंजियं दंपईं ।	
सोत्तकोडीसमे	वारिहीणं गमे ।	
णाणविद्धंसंयं	पल्लचोत्थंसयं ।	20
संजंमे संमए	णट्टए धम्मए ।	
पुप्फदंतंतरे	माहमासे वरे ।	
छीणंमालंछणे	वारसिल्ले दिणे ।	
णंदेवीसुओ	विस्सजोए हुआओ ।	
तांव संतोसिओ	आगओ कोसिओ ।	25
अग्गि वाऊ सही	दंडधारोवईही ।	
रिंछवाहो परो	वारुणासामरो ।	
पोमसंखाहिवो	सूलपाणी भवो ।	
चमर वइरोयणो	भाणु मयलंछणो ।	
सयल देवा खणे	तूसमाणा मणे ।	30
आगंया तं पुरं	राइणो मंदिरं ।	

घत्ता—उत्तुंगु सुवंसु कणयच्छवि गहमालियउ ॥

जिणमेरु सुरेहिं मेरुगिरिहि संचालियउ ॥ ७ ॥

7 १ A किति. २ A कंति. ३ AP हिरी. ४ P भामिणी. ५ A कण्हंपक्खंतरे. ६ AP पई. ७ AP पुजिओ दंपई. ८ A विद्धंसियं. ९ A संयमे. १० A छीलमालंछणे but records a *p* in second hand : झीणमयलंछणं इति वा पाठः. ११ सिही. १२ A विही. १३ A वारुणो सामरो. १४ A आगयं तं पुरं.

7 6 *a* °इणो सूर्यः. 12 *a* वित्तएणं धनदेन. 13 *a* आइमासंतरे चैत्रमासे. 19 *b* वारिहीणं गमे वारिधीनां सागरोपमाणां गमने. 20 *b* पल्लचोत्थंसयं पत्यचतुर्थीरो सर्वथा धर्मच्छेदे सति. 23 *a* छीणमालंछणे चन्द्रे क्षीणे सति, कृष्णपक्षे इत्यर्थः. 24 *b* विस्सजोए उत्तराषाढनक्षत्रे. 25 *b* कोसिओ इन्द्रः. 26 *a* सही सभोः इन्द्रात् भीतः. 26 *b* अवही सावधानबुद्धिः.

8

तम्मि सेलसिंगए	पंडुपत्थरंगए ।	
वंदिओ जसंसिओ	वज्जिणा णिवेसिओ ।	
धम्मतित्थरायओ	दुक्खतोयपोयओ ।	
सीयलेण सीयलो	वारिणा गुणामलो ।	
सिचिओ महुच्छवे	देवदुंदुहीरवे ।	5
देहदित्तिपिंगलं	सव्वल्लोयमंगलं ।	
णीयवालकंदलं	चारु सच्छविच्छुलं ।	
रायहंसमाणियं	जाइ ण्हाणवाणियं ।	
दिव्ववाससुंदरे	मंदरस्स कंदरे ।	
कक्करे विलंबियं	चंचरीयचुंबियं ।	10
किणरेहिं वंदियं	दाणवाहिणंदियं ।	
संचुंयं लयाहरे	णायसुंदरीसिरे ।	
भग्गतोडमंडणं	पावपंकखंडणं ।	
झ त्ति धावमाणयं	धोयंदतिदाणयं ।	
सित्तखेयरीवरं	अक्खवीकिलियाहरं ।	15

घत्ता—जं एंव वहुंतु भरइ सिहरिविवरंतरइं ॥

तं जिणंण्हाणंबु हणउ भवियजम्मंतरइं ॥ ८ ॥

9

तं सइ हेट्टामुहुं जइ वि जाइ	उद्धुदु तो वि भव्वाइं णेइ ।	
सक्केण करिवि अहिसेयभहु	आणिउ जिणपुंगमुं रायभहु ।	
णिहियउ महएविहि पाणिपोमि	णं इंदिंदिरु पप्फुल्लपोमि ।	
वंदिवि कुमारु भावें तिणाणि	गउ सग्गावासहु कुलिसपाणि ।	
जायउ जुवाणु देवाहिदेउ	किं वण्णमि रूवें मयरकेउ ।	5
जसु एक्कु वि देहावयउ णत्थि	मेसहु उवमिज्जइ केंव हत्थि ।	
किं जिणहु अण्णु उवमाणु को वि	कइयणु जंपइ धिट्ठिमइ तो वि ।	

8 १ A पत्थरंगए. २ P वंदिउं. ३ A भ^०विच्छलं. ४ A ण्हाणवाणियं; P ण्हाणवाणियं. ५ A संचुयं. ६ A जक्ख^०; P जक्ख^०; T अक्ख^०. ७ A जिणवरण्हाणंबु.

9 १ AP भवियाइं. २ P पुंगुवु. ३ A मसयहु.

8 1 b पंडुपत्थरंगए पाण्डुरशिलाम्ने. 2 a जसंसिओ यशसा सितः. 3 b पोयओ प्रव-
हणः नोः. 7 a बालकंदलं अभिनवाङ्कुरम्. 8 b ण्हाणवाणियं स्नानोदकम्. 10 a कक्करे गिरिदन्ते,
गुहायाम्. 12 a संचुयं सुतम्. 13 b अक्खकीलियाहरं इन्द्रियक्रीडाग्रहम्.

9 2 b रायभहु राजभद्रनगरम्. 3 b इंदिंदिरु भ्रमरः 7 b धिट्ठिमइ धृष्टता.

हेमच्छवि संगरभीसणाहं
पुव्वहं तरुणत्तं परिवडंति
करिवसहविमौणावाहणेण
अहिंसिचिवि देवहु पट्टु बद्धु
महि र्माणंतहु पुव्वहं गयाहं
तेणेक्कहिं दिणि कीलावणांति

तणुमाणे णवइ सरासणाहं ।
जा पंचवीससंहसाहं जंति ।
तांवावेप्पिणु हरिवाहणेण । 10
णारीयणणेहं सो वि बद्धु ।
पण्णाससहासइ णिग्गयाहं ।
कीलंते णवकमलोयरंति ।

घत्ता—खरदंडकरंडि पिंडियतणु करलालियउ ।

णं सिरिताविच्छु मुउ छच्चरणु णिहालियउ ॥ ९ ॥ 15

10

जं दिट्ठं मओ महुरुरु सणालि
ता च्चितइ जिणु सिरिसवसाहं
हो धिगिधिगत्यु धणु घरु कलत्तु
खणि णच्चइ खणि गायइ सरंहिं
खणि णिद्धणु खणि विहवत्ति थाइ
हउ सुकइ सुहडु हउं चाइ भोइ
हउं चंगउ एंव भणंतु मरइ
जहिं जहिं उप्पज्जइ तहिं जि वंधु
सहुं जाइ ण परियणसयणसत्थु
भासंतइ संजयसम्मयाइ
अणुकूलिउ तेहिं तिलोयणाहु
तें णवणु करिवि पहु महिउ जंव

मयरंदालुद्धउ आरणालि ।
अलिविहि होसइ अम्हारिसाहं ।
जणु सयल मोहमइराइ मत्तु ।
खणि रोवइ उरु ताडइ करेहिं ।
उत्ताणाणणु गव्वेण जाइ । 5
हउं सूहउ हउं णिप्फणंजोइ ।
जोणीमुहेसु संसरइ सरइ ।
अण्णाणल्लणु णउ णियइ अंधु ।
संसारि णं कासु वि को वि पत्थु । 10
ता पत्तइ सुरवरगुरुसयाइ ।
तांवाइउ सामरु अमरणाहु ।
हउं जहु कइ किं किर कहमि तेंव ।

घत्ता—णियगोत्तहियत्तु पुणु पुणु हियवइ भावियउ ॥

संताणि सडिंभु णरणाहणेण णिरुवियउ ॥ १० ॥

४ A °सहसाहं होंति. ५ A °विवाणावाहणेण. ६ A माणेतहु. ७ A हयाइ. ८ P ताणेक्कहिं.
९ A तं सिरिं°.

10 १ A दिट्ठउ महुरुरु मउ सणालि; P मुउ सुणालि. २ A उत्ताणणु जणु गव्वेण जाइ; P
खणि उत्ताणाणणु गव्वेण. ३ AP णिप्फणु. ४ A भणंति. ५ AP ण कोइ वि कासु एत्थु. ६ A
संजयसंयमाइ; P संजयसंगमाइ. ७ A किर कइ कहमि.

10 a करिवसह° गजश्रेष्ठः; b आवेप्पिणु आगत्य; हरिवाहणेण इन्द्रेण. 12 a माणंतहु
मुज्जानस्य. 14 खरदंडकरंडि पद्मकोशे. 15 °ता विच्छु पुष्पविशेषः.

10 1 b आरणा लि कमले. 2 b अलि वि हि भ्रमरसदृशं विधानं मरणमित्यर्थः. 7 b सरइ
रतियुक्तः. 10 b सुरवरगुरु° लौकान्तिका देवाः.

11

सुकंकहि सिवियहि चडिवि चलिउ
ओइण्णु सहेउयवणि महंतु
माहम्मि मासि तिमिरेण कालि
छट्टेववासु संहइ करेवि
अवरहि दिणि णहयललग्गसिहर
णउ एयहु हियवउ सुण्णघडिउ
णउ परिहइ चीवरु रंगरिद्धे
णउ सूलवालु कंकालधारि

घत्ता—णउ धरइ पिणाउ णउ फणिकंकणु फुरियकरु ॥

हुंकारु ण देइ णउ उच्चारइ गेयसरु ॥ ११ ॥

सुरयणु जयजय पभणंतु मिलिउ ।
चरियावरणइं कम्मइं खवंतु ।
वारहमइ दिणि जायइ वियालि ।
सहुं रायसदासं दिक्ख लेवि ।
भिक्ष्वाइ पइट्टु अरिट्टणयरु । 5
णउ भक्खइ पल्लु णियपत्तपडिउ ।
वहु का वि भणइ णउ एहु बुद्धु ।
णउ करि कवालु णउ देहि णारि ।

10

12

णउ णउइ ण दावइ ढक्कसहु
सुरवहुरएण रइयाइं जाइं
णउ कहइ वेउ पसुहणणडंभु
वहु का वि भणइ णउ चक्कपाणि
णारायणु एहु ण होइ माइ
अरहंतु भडारउ दोसमुक्कु
अब्भागयवित्तिवियाणएण
तहु किउ भोयणु पांसुयविहीइ
नूवसिरि कुसुमाइं णिवाइयाइं

घत्ता—संवच्छर तिणिण छम्मत्थु जें महि हिंडियउ ॥

विल्लहु तलि देउ घाइचउक्कं छडियउ ॥ १२ ॥

वहु का वि भणइ णउ एहु रुद्धु ।
वयणाइं णत्थि चत्तारि ताइं ।
वहु का वि भणइ णउ एहु बंभु ।
ण पउंजइ दाणवप्राणहाणि ।
जाणंमि विक्खायउ भुवणभाइ । 5
घरंपंगणि प्रंगणि जाव दुक्कु ।
ता णविवि पुणव्वसुराणएण ।
नूव संपीणिउ अक्खयणिहीइ ।
सुरणियरंहिं तूरइं वाइयाइं ।

10

11 १ AP सुकंकह. २ A ओयण्णु; P अवइण्णु. ३ P वारहवइ. ४ A जायउ. ५ P सद्धइ. ६ P फल. ७ A णियपत्ति पडिउ. ८ A °रिद्धे.

12 १ P णहु. २ AP पाणहाणि. ३ AP जाणिवि. ४ AP रायहु घरपंगणि जाव दुक्कु. ५ AP पांसुयप. ६ AP णिव. ७ AP णिव. ८ A °णियरं. ९ A वेळ्ळिहि तलि.

11 1 a सुकंकहि शुक्काङ्कनाम्भ्यां शुक्कप्रभायां वा. 3 a तिमिरेण कालि अन्धकारेण कृष्णे, कृष्णपक्षे इत्यर्थः. 4 a सद्धइ श्रद्धया. 6 b णियपत्तपडिउ निजपात्रे पतितम्. 8 a सूलवालु खङ्गः. 9 पिणाउ सिक्कं शिवधनुः.

12 2 a सुरवहुरएण तिलोत्तमासत्केन. 7 a अब्भागयवित्तिवियाणएण अभ्यागते वृत्ति जानातीति तादृशेन राज्ञा; b पुणव्वसुराणएण पुनर्वसुराज्ञा. 11 विल्लहु तलि विव्वृक्षय तले.

13

तांवायउ सुरयणु करइ थोत्तु
जइ तुहुं गोवांलु णियारिचंड
जइ पइं कुडिलत्तणु मुक्कु ईस
जइ तुहुं संसारहु णिरु विरत्तु
जइ तुहुं मुक्कउ संगग्गहेण
जइ तैइं विद्धंसिउ सयल्लु कामु
जइ तुहुं सामिय संजमपयासि
तुह णाहासियइं ण जइ पडंति
जे पइं जि रउद्दं दूसियाइं
जइ रयणइं तुह तिण्णि वि पियाइं

संभरइ विरुद्धउ जिणचरित्तु ।
तो काइं णत्थि करि तुज्झ दंडु ।
तो काइं तुहारा कुडिल केस ।
तो किं तेरैउ इहु अहरु रत्तु । 5
तो किं तुह तिजगपरिग्गहेण ।
तो किं तुहुं पुणु संपण्णकामु ।
तो किं कमुं कमलहु उवरि देसि ।
तो किं एयइं चमरइं पडंति ।
तो आसणि किं सीहइं थियाइं । 10
तो तुहुं किर णिरलंकारु काइं ।

घत्ता—थेणत्तु णिसिद्धु जइ तुहुं तो कंकेलितरु ॥

अरुद्धरकरसोह हरइ काइं कयदलपसरु ॥ १३ ॥

14

तुहुं माणुसु भुवणि पसिद्धु जइ वि
जइ कासु वि पइं णउ दंडु कहिउ
जइ रूसहि तुहुं सरमग्गणाहं
जइ वारिउ पइं परि घाउ एंतुं
जइ पइं छड्ढिय मंडलहु तत्ति
कहिं ऐक्कदेसरुहु तुह महेस
ण वियाणविं तेरउ दिव्वचारु
इय वंदिवि वेण्णि वि संणिविद्ध

माणवियपयइ तुह णत्थि तइ वि ।
तो किं छत्तत्तइ फुरइ अहिउ ।
तो किं ण देव कुसुमच्चणाहं ।
तो किं हम्मइ दुंदुहि रसंतु । 5
तो किं पुणु भामंडलपवित्ति ।
कहिं बहुजणभासइ मिलिय भास ।
सोहम्माहिवइ सण्णकुमारु ।
देवेण सिद्धि णीसेस दिद्ध ।

घत्ता—एयासी तासु जाया जाणियधम्मविहि ॥

गणहर गणणाह गुरुयण गुरुमाणिक्कणिहि ॥ १४ ॥

10

13 १ P has before it: उप्पायउ केवलु जयपयक्खि, पूसहु चउदसि पढमिल्लपक्खि. २ A गोवाल. ३ AP तेरउ अहरग्गु रत्तु. ४ AP पइं. ५ A तो पुणु किं तुह. ६ AP संपुण्णकामु. ७ A कम. ८ A जइ; P जं. ९ AP तो तुह.

14 १ A माणसु. २ AP दंतु. ३ A हम्मइ किं. ४ A ऐक्कदेस तुहु तुहु महेस; P ऐक्कदेस सुहुं तुहुं महेस. ५ A किं बहुजणभासइ; P किं बहुजणभासहि. ६ AP सण्णकुमारु.

13 6 a संग ग्गहेण परिग्रहस्वीकारेण. 7 b संपण्ण कामु वाञ्छितदातृत्वम्. 8 b कसु पदम्. 9 a णा हा सि य इं हे नाथ, आश्रितानि. 13 कयदलपसरु कृतपत्रप्रसरः, पक्षे, चौरा अपि दलं संग्रामं कुर्वन्ति.

14 1 b माणवियपयइ नरप्रकृतिः अन्नपानास्वादनदिका. 2 b अहिउ अधिकम्. 3 a सरमग्गणाहं स्मरवाणानाम्. 5 a मंडलहु देशस्य. 7 a दिव्वचारु दिव्यस्वरूपम्. 8 b सिद्धि जगत्स्थितिः.

15

महरिसिहिं महाचरणायराहं
 एकूणसद्विसहसइं सयाइं
 भयसहसइं दोसय सावहीहिं
 बारहसहसइं वेउव्वियाहं
 पंचेव ताइं णयसयजुयाइं
 सयसत्तपमाणुज्जोइयाहं
 इय एकु लक्खु जायउ जईहिं
 सावयहं लक्ख दो सुहमईहिं
 तंहिं देवहं बुज्झिय केण संख
 भाभासुरु भव्वंभोयभाणु
 सो पुव्वसहासइं पंचवीस
 संमेयसेलि हल्लंततालि
 सतवण्णहावपरिवियलियासु

चउदहसय पुव्वंगोहराहं ।
 दुइ सिक्खहुं सिक्खावहि रयाइं ।
 पुणु सत्तसहासइं केवलीहिं ।
 इच्छियइं सरूवइं होति जाहं ।
 मणपज्ज षवंतं संथुयाइं । 5
 तहु पंचसहासइं वाइयाहं ।
 लक्खाइं तिण्णि वरसंजईहिं ।
 चत्तारि लक्ख जहिं सावईहिं ।
 संखेज्ज तिरिय हयसंककंख ।
 सहं एत्तिण्हिं महि विहरमाणु । 10
 अतिवरिसइं उम्मोहेवि सीस ।
 सहं भिक्खुसहासें हरिणवालि ।
 थिउ देहविसग्गे एकु मासु ।

घत्ता—आसोइ पवण्णि पुव्वासाहसियट्टमिहि ॥

अवरणहइ सिद्धु थिउ मेइणियहि अट्टमिहि ॥ १५ ॥

15

16

वज्जट्टितुलाघणघडियगेहु
 अवरेक्कहिं फुल्लइं घल्लियाइं
 अवरेक्कहिं किउ जयणंदोसु
 अवरेक्कहिं थुउ संसारहारि
 अवरेक्कहिं पणमिउ मोक्खगामि
 अण्णहिं अण्णण्णइं साहियाइं

सिहिदेवहिं दड्डुउ देवदेहु ।
 अण्णहिं कव्वइ उव्वेल्लियाइं ।
 अण्णहिं णच्चिउं मणणयणतोसु ।
 अण्णहिं हयं झल्लरि पडह भेरि ।
 अण्णहिं वंदिय जिणसिद्धभूमि । 5
 वाहणइं मेहवहि वाहियाइं ।

15 १ AP पुव्वंगायराहं. २ A सिक्खावह थियाइं; P सिक्खावहि रियाइं. ३ A बारहसयाइं.
 ४ A पंचेव ताइं णवसंजुयाइं; P सत्तेव ताइं वयसंजुयाइं. ५ A read- a as b and b as a.
 ६ A उम्मोहिय वि सीस. ७ A भिक्खसहासें. ८ A सियछट्टिमिहि. ९ A मेइणियह.

16 १ AP जयणंदिघोसु. २ A झल्लरि हय पडह. ३ AP कय बहुविहविहूइ. ४ AP जिणदेहभूइ.

15 2 b सिक्खा व हि र या इं शिक्षापथे रतानि. 11 b अति व रि स इं त्रिवर्षहीनानि; उ म्मो-
 हे वि सी स शिष्यानसंज्ञान् कृत्वा. 12 b हरि ण वा लि मृगपालके. 13 a °परि वि य लि या सु नष्टाशः.
 14 आ सो इ आश्विनमासे.

16 1 b सि हि दे व हि अग्निदेवैः. 2 b उ व्वे ल्लि या इं उच्चरितानि. 6 b मे ह व हि गगने.

गय णियणिलयहु सुर विहवफार जिणगुणकहरंजियहिययसार ।
 गयणयलि चरंति चवंति एंव जगि कम्मबंधु को महरई एंव ।
 घत्ता — णिकिरिउ करिवि मणवयणंगइं परिहरिवि ॥
 थिउ सीयलसामि मोक्खमहापुरि पइसरिवि ॥ १६ ॥ 10

17

पसियउ परमेसरु परमंसमणु अम्हंहं वि तहिं जि संभवउ गमणु ।
 पुणु अक्खइ गणहरु सेणियासु सम्मत्तरयणरुइसेणियासु ।
 गयलेसि परिट्ठिइ णाणसेसि णिव्वाणु पराइउ सीयलेसि ।
 तित्थंति तासु विच्छिण्णधम्मु पसरिउ जणवइ रयमइलु कम्मु ।
 विणु वत्तारयसोयार एहिं भव्वेहिं भवणंवतारएहिं । 5
 पुरगामणयरसोहाणिवेसि मलययसुरहिइ तहिं मलयदेसि ।
 पडिवक्खलक्खसंजणियतासु भइलपुरि सिरिभदावयासु ।
 काले जंते कुलगयणचंदु यणरहु णामे जायउ णरिहु ।
 णिहारसरिसजसविमलकंति तहु सच्चकित्ति णामेण मंति ।
 अत्थाणमज्झि उवविट्ठ राय एक्कहिं दिणि दाणालाव जाय । 10
 घत्ता — आहासइ रुहु भूरिसम्मु जिणधम्मचुउ ॥
 सालायणमुंडु णामे अण्णु वि जांसु सुउ ॥ १७ ॥

18

गोदाणभूमिदानंतराहं कच्चोलइं थालइं मणहराइं ।
 सोवण्णइं रयणइं अंवराइं फल्लेत्तइं धवलहरइं पुराइं ।
 हयं गय रहवर पीणन्थणीउ कण्णा कलवीणालांविणीउ ।
 वरदब्भपवित्तंक्रियकराहं जो देइ णरेसुं दिएसराहं । 5
 सो कणयविमाणहिं विण्हुलोउ संप्रावइ माणइ दिव्वु भोउ ।
 तं णिसुणवि पभणइ सच्चकित्ति कहिं कामुउ कहिं परलोयवित्ति ।

५ AP चडंति. ६ A सुयइ.

17 १ A परमसरणु. २ A अम्हंहं. ३ AP भवंतर°. ४ AP तासु.

18 १ P गय हय. २ A °लावगीउ. ३ AP णरेसु. ४ AP संपावइ.

7 b °रंजिय हिय य सार रञ्जितं हृदयसारं मनो येषां ते. 8 b महइ मझाति.

17 1 a पसियउ प्रदीदतु. 2 b °रुइसेणियासु °दीसिपंकेः. 5 a वत्तारयसोयारएहिं षकृश्रोतुभ्याम्. 6 b मलययसुरहिइ मलयजं चन्दनं तेन सुरभिते. 7 a °संजणियतासु संजनितत्रासः. 10 b दाणालाव दानालापः, दानकथा. 11 रुहु रौद्रध्यानी.

18 1 b कच्चोलइं पानपात्राणि. 1 a °दब्भपवित्तं दर्भमुद्रिका. 5 a विण्हुलोउ विण्णुलोकम्.

कहिं णिबहु कहिं अंबयफलाइं
कहिं खीरु महुरु कहिं राइयाउ
मग्गाइं मंचउ वरभूमि हेमु
मुइ डिंभइ उयरु हणंतु रडइ

कहिं खरयरसिल कहिं सयदलाइं ।
बंभणमईउ कुविवेइयाउ ।
मग्गाइ कुमारि भुंजइ सकामु ।
अण्णाणिउ भवसंसारि पडइ । 10

घत्ता—भक्खइ मृगमासु सुज्झइ पिंपलफंसणिण ॥

णिउ णरयहु लोउ णिग्घणबंभणसासणिण ॥ १८ ॥

19

अण्णाणिणि पसु पुण्णेण रहिय
जा गाइ चरंति अमेज्जु खाइ
पाणिउ तणुसंगं होइ मुत्तु
कयप्राणिवग्गणिप्राणियाइ
जइ देइ देउ नो होउ चाइ
दिज्जइ सुपत्तु जाणिवि सणाणु
भाविज्जइ जीवदयालु भाउ
णियमिज्जइ कुवहि चरंतु चित्तु

बंधनताडणदुक्खेण गहिय ।
सा किं संफाले सुद्धि देइ ।
सोत्तिय तं बुद्धइ किह पवित्तु ।
किं एयंइ धुत्तकहाणियाए ।
कुच्छियदाणे सग्गहु ण जाइ । 5
सुय भेसहु अभयाहारदाणु ।
पुज्जिज्जइ सामिउ वीयराउ ।
वाज्जज्जइ परंघणु परकलत्तु ।

घत्ता—जसु दिण्णइ दाणि होइ महंतु अणंतु फलु ॥

तं उत्तमु पत्तु पणवंतहं परियलइ मलु ॥ १९ ॥

10

20

जे वज्जियपुत्तकलत्तणेह
अपरिग्गह जे गिरिगहणणिलय
जे णिवडिय भव्वुद्धरणलील
जे अरिबंधवहुं मि समसहाव
दिज्जइ जोग्गउ आहारु ताहं
सत्थेण णाणु अण्णेण भोउं

दुद्धरमलपडलविलित्तदेह ।
भयलोहमोहमयमाणविलय ।
उवसग्गपरीसहसहणसील ।
णिग्गंथ णिरंजण मुक्कगांव ।
मज्जणिण पइट्टहं मुणिवराहं । 5
फलु दाणसूरु नृव लहइ लोउ ।

५ AP मग्गाइ घर मंचउ भूमि हेमु. ६ AP सिगमासु. ७ AP पिप्पल°.

19 १ A अण्णाणि. २ A होइ. ३ AP कयपाणिवग्गणिप्राणियाइ. ४ A एणइ. ५ A सणाणु. ६ A परहणु. ७ A पणवंतहु.

20 १ AP गलियगाव. २ P पवणु; P adds after this: बलतुलिउं णाहं तेलोक्कभवणु.
३ AP णिव.

7 b खरयरसिल कठिनशिला. 8 a राइया राजिका आसुरी (मोहरी).

19 1 a अण्णाणिणि अज्ञा गौः. 2 a अमेज्जु विष्ठा. 3 a मुत्तु मूत्रम्. 6 a सणाणु सज्ञानि, पात्रं ज्ञात्वा; b सुय श्रुतं शास्त्रदानम्. 8 a कुवहि कुमारेणं.

20 2 a गिरिगहणणिलय गिरिगहनवासिनः 3 a णिवडिय° संसारे पतिताः.

अभयोसहेहिं परियलइ रोउ
ता सालायणमुंडेण उचु
विणु आगमेण किं तुहुं पमाणु
पडिउत्तरु दिण्णउं सावणण
अम्हारउं सासणु णत्थि वण्ण
णरणाहु पयंपइ तुह सुईउ

घत्ता—ता कुणयरणण विपे जिनमउ गिरसियउं ॥

सई विरइवि कवु आणिवि रायहु दरिसियउं ॥ २० ॥

ण कया वि णिहालइ दुक्खजोउं ।
दावहि तेरउं सिद्धंतसुत्तु ।
माणवु पायडमाणवसमाणु ।
इह सीयलपरमेसें गणण । 10
जं रुच्चइ तं तुहुं चवहि विण्ण ।
दावहि दियवग्दावियगईउ ।

21

रइयाइं ललियाइं कव्वाइं भणिऊण
तव्वासगाओ तहिं दुट्टहिययाइं
गुरुंदेवपडिकूलणुप्पणगावाइं
कयपियरमिसगसियपैसुपेसिगासाइं
गोदाणभूदाणदढवद्धतिट्टां
गुणवंतणिंदिरइं णियकुलमयंधां
मयहडुचंडिरइं पाणियसउच्चां
धरियक्खसुत्ताइं मृगंचम्मभूसाइं
धणधरणिघरपणइणीमोहमूढां
दुग्धोदुदुप्पोसपोसणपयट्टां
आसवमयावेसपसरियविडवां

घत्ता—गयसीयलदेवि भरहि जाय परपत्तविहि ॥

संपीणइ विणु पुप्फदंत पणवंत सिहि ॥ २१ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए

महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे सीयलणाहणिव्वाणगमणं

णाम अट्टयालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४८ ॥

॥ सीयलणाहचरियं समत्तं ॥

देहीणं संदेहवुद्धीउ जणिऊण ।
णिद्धम्ममग्गम्मि कम्मण णिहियाइं ।
वद्धंतसुविचित्तमिच्छत्तभावाइं ।
पयलंतमहुसोमवाणाहिलासाइं ।
उड्डियंकरग्गाइं किविणाइं दिट्ठां । 5
दुग्गंधरसभरियणवदेहरंधां ।
हिंसाइ घडियाइं पव्वट्टसच्चाइं ।
पालासदंडां कासायवासाइं ।
छक्कम्मगंभीरजरकूवळुढां ।
सुयसत्थविन्थारविलसियमरट्टां । 10
जीवंति दीणाइं बंभणकुटुंवाइं ।

४ P adds: पचेळिउ पावइ सरसु भोउ. ५ AP पजंपइ.

21 १ A देहेण. २ A देः -----; P देवगुरुपडिकूलणुप्पणगावाइं. ३ A अयमासगासाइं. ४ A पयडंत. ५ P सोमपाणा. ६ A उड्डियं. ७ AP विट्ठां. ८ A मयहुंड-चंडिरइं; P मयहडुचंडिरइं. ९ A मयचम्म; P मिगचम्म. १० A दुग्धोदुदुप्पोस. ११ AP आसव-मयावेस. १२ A अट्टयालीसमो. १३ AP omit the line.

21 4 a °पे सि° मांसवल्हरिका. 9 b छक्कम्म° पठनपाठनयजनयाजनदानप्रतिग्रहरूपाणि पट्ट-कर्मणि; °जरकूव° पुराणकृतः. 10 a दुग्धोदु° मधु; दुग्धोस° मांसम्. 11 a आसवेत्यादि ब्रह्मचारी एहस्थो वानप्रस्थो यतिश्रेत्येवंरूप आवेशो ब्राह्मण इत्येवंरूपो मदोपेतो वर्णानां गुरुरित्यभिनिवेशात्तेन प्रसृतो विडम्बो लोकावञ्चकत्वं येषाम्. 12 परपत्त° अन्यस्य पात्रम्.

दहमउ गुरु मईं तुह कहिउ देउ मोक्खमाणससरहंसु ॥
अचरु वि सुणि सेणिय भणमि पयारहमउ जिणु सेयंसु ॥ ध्रुवकं ॥

1

जासु ण मुक्का मारें मग्गण	जो जाणइ जीवहं गुण मग्गण ।
जेण ण खंडणु किउ चारित्तहु	तवपभारें णिच्चारित्तहु ।
जो ण वड्डिउ संसारसमुद्दइ	मुद्दिउ जेण तिलोउ समुद्दइ । 5
अकयइ णिच्च्इ पडिमारूवइ	जासु ण रमइ दिट्ठि त्रयंरूवइ ।
जो णाणें पेक्खइ णीसेसु वि	पयजुयलइ णिवडइ जसु सेसुं वि ।
जो सुक्कियमहियम्महु विसहरु	जो पंचिंदियविसहरविसहरु ।
जेण राउ मेल्लविय भुयंगय	जासु ण पत्तावलि वि भुयंगय ।
भालि ण दिज्जइ जसु तिलउल्लउ	जो अप्पणु तिहुयणि तिलउल्लउ । 10
जो परिहइ ण कयाइ वि कंकणु	णउ फंसइ सच्चित्तउं कं कणु ।
णिच्च्लक्कु जेण पडिवण्णउं	जइ वि चीरु चंगउं पडिवण्णउं ।
तो वि ण परिहइ जो णिण्णेहलु	जो ढोयइ णरि णिरु णिण्णे हलु ।
तहु देवहु संचियसेयंसहु	पयजुयलउ वंदिवि सेयंसहु ।

घत्ता—पुणु अक्खमि तहु तणिय कह किच्चि वियंभउ महुं जगगेहि ॥ 15
पुक्खरवरदीवंतरइ सुरदिसि मेरुहि पुव्वविदेहि ॥ १ ॥

A has, at the beginning of this Samdhi, the following stanza:—

सया सन्तो वेसो भूषणं मुद्धसीलं
सुसंतुट्ठं चित्तं सव्वजीवेषु मेत्ती ।
मुद्दे दिव्वा वाणी चारुचारित्तभारो
अहो खण्डस्सेसो केण पुण्णेण जाओ ॥ १ ॥

This stanza is found in P at the beginning of Samdhi L. K does not give it anywhere.

1 १ AP सुणु. २ APT तियरूवइ. ३ P adds after this: दूरविमुक्कउ वंधविसेसु वि, सममणु बहुधणेषु णीसेसु वि. ४ A महिजम्महु. ५ AP सचित्तउं. ६ AP तो णवि. ७ A जइ णिण्णेहलु.

1 3 a मग्गण बाणाः; b गुण गुणस्थानानि; मग्गण चतुर्दश मार्गणाः. 4 a णिच्चारित्तहु नित्यमरिक्तस्य, अथवा अरीणां भावो अरिस्वम्, न्यग्भूतं नीचभूतमरिक्त्वं यस्य. 5 b समुद्दइ स्वमुद्रया. 6 a तियरूवइ चेतनाचेतनस्वरूपे स्त्रीरूपे. 8 a सुक्कियमहियम्महु विसहरु सुकृतमेव महिजन्मा वृक्षस्तस्य विसहरु मेषः; b पंचिंदियविसहरविसहरु पञ्चेन्द्रियाण्येव विषधराः सर्पास्तेषां विषहरो विषहारकः. 9 a भुयंगय विटः. 10 b अप्पणु स्वयमेव. 11 b कं कणु कं पानीयम्; कणु बीजम्. 12 b पडिवण्णउं पटीसमानवर्णम्. 13 a णिण्णेहलु स्नेहरहितः; b णिण्णं निम्नोन्नते; हलु स्वर्गादि-फलम्. 14 a संचियसेयंसहु उपाजित्तपुण्यविशेषस्य.

2

सालतमालतालतरुसंकडि
कच्छउ देसु देसंसिरिसंकुलु
कलववडियकल्लेविं कयकलयलु
तहिं खेमउरु काइं वण्णिज्जइ
सरु वायरणि णैवर संधिज्जइ
णहवणु ण वणु जेत्यु भडभंडणि
अत्थसमण्णणि जहिं पयविग्गहु
जहिं णिण्णांसिय परमंडलवइ
जहिं चोरारिमारिदालिइइं
तहिं राणउ णलिणालयमाणु

सीयतरंगिणिपवरुत्तरताडि ।
वियसियकमलकोसरयपरिमलु ।
दुमफुल्लासियफुल्लंधुयचलु ।
जहिं पिययमु पणपं कलहिज्जइ ।
तणु विरहेण ण वाहिइ झिज्जइ । 5
केसगहणु विंवाहरचुंबणि ।
जइयणि णउ सावज्जपरिग्गहु ।
पासबद्ध णं घरमंडलवइ ।
पासंडाइं वि णत्थि रउइइं ।
णलिणण्णहु णामे णलिणाणणु । 10

घत्ता—भयभीयइं महिणिवडियइं जीर्यं देव सविणउ जंपंति ॥
जासु पयावं तावियइं परणरणाहसयइं कंपंति ॥ २ ॥

3

कलयलंतचलकलकोइलगणि
पेच्छवि जिणु अणंतु वणवालें
तहु तहिं तवसिहिहुयवम्मीसरु
परमण्णउ पसण्णं परमेसरु
तं णिसुणेवि तेण तित्थंकरु
बुज्झिवि धम्म अहिंसालकवणु

तावण्णाहिं दिणि सहसंबयवणि ।
विण्णत्तउ सिरंगयभुयडालें ।
गुणदेवहं भवदेवहं ईसरु ।
आयउ देउं धम्मचक्केसरु ।
जाइवि वंदिउ दुरियखयंकरु । 5
चिंतिवि वंधमोक्खविहिलक्खणु ।

2 १ A देससरिसंकुलु. २ A °कलेवि°; P °कल्लेवि° . ३ P ण पर. ४ A जइयणि तउ सावज्जपरिग्गहु; P णउ परअत्थहरणि कयविग्गहु. ५ P णित्तासिय. ६ A जीव.

3 १ A तावण्णयदिणि. २ A सिरि गय°. ३ AP पसण्णु. ४ AP देव.

2 3 a कलववडियकल्लेविं कलमः शालिविशेषः तत्र पतितेन कल्लेविं ग्रामचटकेन; b °फुल्लंधुय° भ्रमरः 5 a सरु स्वरः बाणश्च; वायरणि व्याकरणे वाग्गणे वाक्कलहे च. 6 a णहवणु नखत्रणः; भडभंडणि संग्रामे. 7 a अत्थेत्यादि अर्थानां पदवाक्यानां समर्पणे प्रतिपादने पदानां विग्रहः समामो भवति न पुनः प्रजानामर्थसमर्पणे द्रव्यदाने विग्रहः झकटको भवति. 8 b घरमंडलवइ गृहबद्धा महाश्वानः. 10 a णलिणालयमाणु नलिनालया लक्ष्मीस्तस्या भोक्ता. 12 परणरणाहसयइं शत्रु-राजानां शतानि.

3 2 a अणंतु अनन्तनामा; b सिरगयभुयडालें मस्तके कृतवाहुना. 3 b गुणदेवहं गणधरदेवानाम्; भवदेवहं भवेन जन्मना देवानामिन्द्रादीनाम्.

देवि सुपुत्तु महिदिं परिक्खणु
चरणमूलि जइवरहु अणंतहु

घत्ता—णीलक्किणहलेसउ मुंयइ काउलेस दूरें वज्जंतु ॥

सुकलेस मुणिवरु धरइ भीमें तवत(वें खिज्जंतु ॥ ३ ॥

10

4

मंदरधीरु वीरु दिहिपरियरु
ण भणइ ण सुणइ णिप्रिहं णीरउ
कोहु लोहु माणुं वि मुसुमूरइ
चक्खुसोत्तरसफासणघाणइं
विहुणिवि धिवइ णिहं सहं पणपं
ण सरइ पुंश्चकालरइकीलणु
णहखंडणु सरूवपरिपुंछणु
हसणु भसणु भूभंगु ससंसणु
साहिलासु सवियारउ दंसणु
णक्खळोडि तणुमोडि ण इच्छइ

घत्ता—बंधिवि तित्थयरत्तु तहिं दंसणमुज्झिइ तोडिवि भंति ॥

अच्चइ पुष्पुत्तरणिलइ जायउ सुरवरु ससहरकंति ॥ ४ ॥

इत्थिअत्थनुंवथेणकहंतरु ।
पयारहवरंगसिरिधारउ ।
मायाभावु हांतु संचूरइ ।
जिणइ हणइ दुक्कियसंताणइं ।
अप्पउं भूसइ गिसि रिसिविणपं । 5
ण करइ दंतपंतिपक्खालणु ।
करयलवट्टि सररीणियच्छणु ।
पाणिणंदु परगुणविद्धंसणु ।
णियडणिसर्णहरिणसंफंसणु ।
परमसाहु लिहियंउ इव अच्छइ । 10

5

आउ दुवीसममुहपमाणइं
तहु छम्मासु परिट्टिउ जइयहुं
जंबुदीवि भरहि सीहउरइ
आइदेवकुलसंतइजायउ
णंददेवि तासु घरसामिणि

कालें गिलियइं दुक्कपमाणइं ।
अक्खइ जक्खहु सुरवइ तइयहुं ।
धणकणजणगोहणगुणपउरइ ।
विट्ठु णाम राणउ विक्खायउ ।
कामसुंहकरि णं सुरकामिणि । 5

५ AP मुयउ.

4 १ A इत्थिअत्तिणिव^१ and gloss अत्ति भोज्यं; P इत्थिअत्थिणिव. २ AP णिप्पिहु.
३ AP मोहु. ४ P णिहे. ५ A पुंश्चकालि. ६ P परिपेच्छणु. A पाणिणिह. ८ A °णिसण्णहं हरि-
णहं फंसणु; P °णिसण्णहं णवि संफंसणु. ९ P लिहिउ इव.

5 १ AP °समाणइं. २ A कालिं. ३ AP °संतए जायउ.

7 a दे वि दत्वा. 9 का उ ले स कापोती लेइया.

4 1 b इत्थि स्त्रीकथा; अत्थ^० जिह्नेन्द्रियविषयोऽर्थः, भोजनकथेत्यर्थः. 2 a णि प्रि ह निःस्पृहः.
7 a ण ह खं ड णु करपादनखानां खण्डनम्; सरूवपरिपुंछणु शरीरमार्जनम्; b करयलवट्टि बाहु-
च्छोटिका. 10 a ण क्व खो डि नक्खच्छोटिका अङ्गुलिविकारः.

तणुरुद्दु तेओहामियदिणयरु
ताहं तुरिउं तुहुं करि भल्लारउं
धणणं पुरुं पविणिम्मिउं तेहउं

एयहं दोहं वि होसइ जिणवरु ।
रयणफुरंतु गयरु चउदारउं ।
मणुयहिं वण्णहुं जाइ ण जेहउं ।

घत्ता—ता णज्जइ दिणु णिच्च जहिं जा सरंवरि कमलइं वियसंति ॥

वरमणिकिरणहिं तौतडिय उग्गय रवियर णउ दीसंति ॥ ५ ॥ 10

6

तहिं सयणालइ सिरिअइसइयइ
पुण्णचंदसोहियमुहयंदइ
अविरयगलियदाणधारालउ
वालहिंसण्हाककुखुरमणहरु
कुडिलणहरु भइरवभंजणरवु
कण्णतालहयमहुलिहविंदहिं
मालाजुयलु भिंगंपियकेसरु
कलसजुंयलु णवकमलु सकोमलु
सरु सररासि चारुसीहीसणु
माणिकोहु मोहंमालालउ

पच्छिमरयणिहि णिहंधइयइ ।
सिविणंपंति अवलोइय णंदइ ।
भमियसिलिभ्मुहोलिसोंडालउ ।
सउरहेउ रुइरंजियससहरु ।

गिरिगुहणीहरंतु कंठीरवु । 5
गिरि सरि सिंचिजंति करिंदहिं ।
मा णिसिमंडणु भासुरु णेसरु ।
मीणमिहुंणु जलकीलाचंचलु ।
देवालउ फणिभवणु फणीमणु ।
सिहि णहयलि जलंतु चलजालउ । 10

घत्ता—पंव णिहालिवि चंदमुहि चंदकंति सुहदंसणपंति ॥

जाइवि भासइ भूवइहि सुंदरि सुविहाणइ विहसंति ॥ ६ ॥

7

महिवइ मेहघोसु णिच्चप्फलु
जसु आणइ हरि अच्छइ गच्छइ

कहइ महासइहि सिविणयफन्तु ।
जो सयरायरु लोउ णियच्छइ ।

४ A पुरु विणिम्मिउ. ५ A सरवरकमलइ.

6 १ A णिरु अइसइयइ. २ AP णिहंधइ. ३ A सिविणयतइ; T तइ पंक्तिः. ४ AP अविरल°. ५ A भइरवभंजणरउ. ६ A 'वंदहि. ७ A भिंगु पिय°. ८ A 'मंडलु. ९ AP कलस-जमलु. १० A मीणजुयलु. ११ A सिंहासणु. १२ A मोहु मालालउ.

5 6 a तेओहामियदिणयरु तेजसा तिरस्कृतमूर्त्यः. Sa पविणिम्मिउं प्रविनिर्मितम्. 9 णजइ ज्ञायते. 10 तौतडिय मिश्राः.

6 1 a सिरिअइसइयइ शोभातिशययुक्ते; b णिहंधइयइ निद्रान्धया. 3 a अविरय° निरन्तरम्; b °सिलिभ्मुहोलि° भ्रमरपंक्तिः. 4 a वालहि पुच्छम्; सण्हा सात्त्वा गलकम्बलः; ककु ककु-दम्. b सउरहेउ मौरभेयो वृषभः. 7 मालमीः; णिसिमंडणु चन्द्रः. 9 a सररासि समुद्रः. 10 a मोहमालालउ मयूखमालायुक्तः.

7 1 a णिच्चप्फलु निश्रपलः. 2 b सयरायरु सचराचरम्.

जो पर अप्पउं परहु पयासइ
सासयसोक्खसरोरुहछप्पउ
तेरइ गम्भइ अब्भउ होसइ
बुट्टु कुवेरुं देधु णवणिहिहरु
कंतिकित्तिसिरिहिरिदिहिवुद्धिउ
आयउ जायउ जर्णउच्छाहउ
घित्तसुरासुरपंकयविट्ठिहि
सवणि सुरिक्खइ पच्छिमरत्तिहि
जक्खणिहित्तइ दुक्खणिवारइ

जासु दोसु तिलमेत्तु ण दीसइ ।
सो अरहंतु संतु परमप्पउ ।
ता रोमंचिय णच्चिय सा सइ । 5
जा छम्मास तावं चामीयरु ।
देविउ देविहि कियंतणुसुद्धिउ ।
सग्गउ संचुउ अच्चुयणाहउ ।
जेट्टहु मासहु किण्हंहि छट्ठिहि ।
थिउ उयरंतरि पत्थिवपत्तिहि । 10
पुणु णवमांस सित्तु वसुह्वारइ ।

घत्ता—छावट्टिलक्सल्लव्वीसहिं वि वरिससहासहिं रिद्धउ ॥
सायरसउ छट्ठिवि कोट्ठि गय थक्कउ पुणु पल्लंइउ ॥ ७ ॥

8

जइयहुं वट्टइ णिव्वुइ सीयालि
तइयहुं तिहिं णाणहिं संजुत्तउ
फंगुणि पयारहमे वासारि
विण्हजोइ उप्पणणउ जोइउ
आवेप्पिणु भत्तिइ तरुणीलहु
सिहरकुहरथियखगरामालहु
णिहियउ पावपडलणिणासणि
उत्त मंत विहि सयल करेप्पिणु

णट्टउ अरुहधम्मु धरणीयालि ।
पुव्वजम्मि भावियरयणत्तउ ।
णिच्चमेव खिजंतइ ससहरि ।
मायइ तारहिं णयणहिं जोइउ । 5
मेहलविरइयतारामालहु ।
अमरवरेसें णिउ सुरसेलहु ।
पंडंसिलायालि पंचासासणि ।
खीरंभोणिहिखीरु लप्पिणु ।

घत्ता—सायकुंभमणकुंभकर पंति गयणि णच्चंति णवंति ॥
खीरवारिधारासयहिं देवदेउ भावेण ण्हवंति ॥ ८ ॥ 10

7 १ A कुवेरदेउ. २ A जाम. ३ AP कय°. ४ AP जणि उच्छाहउ. ५ A कण्हयछट्ठिहि.
६ A सवणसुरिक्खइ. ७ AP णवमासु. ८ A सिद्धउ; P सिद्धउ. ९ A पुण्णइउ.

8 १ A फंगुणएयारहमइ. २ AP विण्हजोइ; T विण्हजोए ज्येष्ठानक्षत्रे. ३ AP 'वलइय°. ४ A पावपडल. ५ A पंडंसिलायालि. ६ A मंगलु सासणि.

4 a °छप्पउ भ्रमरः. 5 a अब्भउ अभेकः. 11 b सित्तु सिक्तं वर्षणं कृतम्. 12 छावट्ठि° पट्टपट्टिः.
13 पल्लंइउ पल्यार्थम्.

8 3 b खिजंत इ स स हरि कृष्णपक्षे इत्यर्थः. 4 a विण्ह जो इ श्रवणनक्षत्रे; b तार हि उज्ज्वलैः.
5 a तरुणी लहु वृक्षैः नीलस्य. 6 a खगरामालहु विद्याभरीयुक्तस्य. 7 पंचासासणि सिंहासने. 8 a
उत्त मंत मन्त्राः उक्ताः. 9 सायकुंभ सुवर्णम्.

9

सुरपेल्लिउ णं डोल्लइ मंदरु
अलिङ्गंकारइं सरलइं सदलइं
कमलि कमलि आसीणइं हंसइं
जे कलसर ते किरं वम्महसर
वम्महसरवरेहिं जणु दारिउ
जिणु सिंसु मयणहु अज्जु वि संकइ
करइ कामु घणुगुणटंकारउ
बहुएं सेयंसेण णिउत्तउ
आणिवि णयरु समप्पिउ मायहि
पणवेप्पिणु दुक्कियघणपवणहु
कालें जंतें वत्थुपमाणउ

कलसहं सहसइं लेइ पुरंदरु ।
कलमि कलसि संणिहियइं कमलइं ।
हंसइं कयकलसराणिगघोसइं ।
वम्महारि विद्दवियणरामर ।
जणवपण हियवइ जिणु धारिउ । 5
तेण जि रइ थणजुयलु ण ढंकइ ।
पसरइ अच्छरउलहं वियारउ ।
सयमहेण सेयंसु पउत्तउ ।
तणयालोयणवियसियञ्जायहि ।
गयउ पुलोमपिसुणु णियभवणहु । 10
वड्डिउ पुरि तइलोक्कहु राणउ ।

घत्ता—हेमच्छविहि भडारहु जं दिट्टउ तं णेय रहंति ॥

तासु असीइसरासणइं गणहर तणुपरिमाणु कहंति ॥ ९ ॥

10

एकवीसलक्खइं वालत्तें
पुणु पुज्जिउ पोलोमीकंतें
रज्जु करंतहु कामरसइहं
एहउ अवसरु जायउ जइयहुं
दिट्टउ तंबिरपल्लवु चूयउ
सो णं जालहिं जलइ णिरारिउ
पुणु कोइलु कलसइं गज्जइ
रुणुरुणंतु अण्णणु ण चयइ
ता परमेसरु मणि मीमंसइ
कालें कंठइयउं अंकुरियउं

घल्लियाइं वरिसहं खेलंतें ।
किउ रज्जाहिसेउ गुणवंतें ।
दोचालीसलक्ख गलियइहं ।
णाहें कीलावणि तहिं तइयहुं । 5
मयणहुयासहु वीयउ ह्ययउ ।
विरहीयणु तें ताविउ मारिउ ।
णं वसंतपहु पडहउ वज्जइ ।
महुयरु महु पिपैवि णं गायइ ।
अम्हारउं वणु अण्णु जि दीसइ ।
पल्लवियउं कुसुमोलिहिं भरियउं । 10

9 १ P डोलइ. २ A किल ते; P तं किल. ३ A 'णिहविय'. ४ P पुलोमपिसुणु. ५ AP वत्थुवमाणउ; T वत्थुअम्मोणउ. ६ P तं तें अरहंतें ७ P असीसरासणइं. ८ P कहंतें.

10 १ AP पणवंतें. २ AP णाहें कीलंतें वणि तइयहु. ३ AP पिपैइ. ४ P कंठइयउं कुरियउं.

9 4 a कलसर मथुरस्वनाः; b वम्महारि मर्मवेधकाः. 6 a सिंसु वालः, वालत्वादित्यर्थः; b ढंकइ आच्छादयति. 8 a बहुएंसेयंसेण णिउत्तउ बहुभिः श्रेयोभिर्नियुक्तः. 10 पुलोमपिसुणु पुलोमशत्रुः इन्द्रः. 11 वत्थुपमाणउ उपमानरहितः (व्यस्तोपमानः).

10 3 a कामरसइहं कामरसार्द्राणाम्; b गलियइहं गलितानि अब्दानाम्. 5 चूयउ आभ्रवृक्षः. 8 b महु मकरन्दो मयं च. 9 a मीमंसइ मीमांसते परिभावयति.

फलितं फलावलीहिं णं पणवइ एही सयलहु लोयहु परिणइ ।
 परिणंमंतु जगु णिविसु ण थक्कइ परिणामहु जहु जीउ ण चुक्कइ ।
 घत्ता—जगु परिणामें दृसियउ णिःपरिणाम सिद्ध परमेद्वी ॥
 हो ॥ हो अथिरेणण महं णिच्चल तेत्थु णिरंभिवि दिद्वी ॥ १० ॥

11

ता संपत्त तेत्थु सुरवरगुरु तेहिं तुरिउ पडिबोहिउ जगगुरु ।
 सो आहंडलु तं सुरमंडलु तं अच्छरउल्लु मणिमयकुंडलु ।
 आयउं पुणु वि ण्हवणु किउं देवहु णिट्ठियचरियावरणविलेवहु ।
 विमलें सिवियाजाणें णिग्गउ णाहु मणोहरु णंदणवणु गउ ।
 फग्गुणि कसणि पयारसिदियहइ दियहाहिवि अवरासासंगइ । 5
 स्वणरिक्खि उवसमियकसायउ भूवइ मुक्कभूइभूभायउ ।
 उववासद्वेण रिसि जायउ सिद्धत्थउ पुरु भिक्खहि आयउ ।
 णंदणरिदें एंतु पडिच्छिउ सुद्धपिंडु तहु तेण पयच्छिउ ।
 दुइ वरिसइं विहरेण्णिणु महियलि पुव्विल्लइ वणि तुंबुरुतरुतलि ।
 माहहु मासहु णिच्चंदइ दिणि छेइल्लइ स्वणइ मयलंछणि । 10
 अवरणहइ तिरत्तसंजुत्तहु अचलियपत्तलपविउलणेत्तहु ।
 घत्ता—संभूयउं केवलु तहु विमलु णाणु तेणें तेलोक्कु वि दिदु ॥
 पत्तउ सामरु अमरवइ जिणु थुणंतु महु भावइ धिदुं ॥ ११ ॥

12

तुहुं जि देउ तुह णवइ पुरंदरु तुहुं धिरु तुह पीदुल्लउ मंदरु ।
 तुहुं तवंगु तुह वीहइ दिणयरु कतिवंतु तुहुं तुह ससि किंकरु ।

५ A परिणवंतु. ६ AP परमेद्विहि. ७ A होही. ८ A णिच्चल तेसु णिरंभिवि दिद्विहि; P णिच्चलत्तेसु णिरंभिवि दिद्विहि.

11 १ A ०वरणु. २ AP विमलिं. ३ A भूयइं. ४ A omits तेण. ५ A यिदु.

12 १ P मंदिरु. २ A तवंगु; P तवंगु.

12 णि विसु निमेषमपि. 13 णिःपरिणाम सांसारिकपरिणामरहिताः.

11 3 b णिट्ठियचरियावरणविलेवहु क्षिप्तचारित्रावरणावलेपस्य. 4 a विमलें विमल-
 प्रभया. 6 b मुक्कभूइ भूभायउ त्यक्तविभूतिः त्यक्तभूभागश्च. 7 a ०दुवेण द्वयेन. 9 b तुंबुरुतरुतलि
 तिन्दुकीवृक्षतले. 10 a णिच्चंदइ कृष्णे; b छेइल्लइ अमावास्यायाम्. 11 a तिरत्तसंजुत्तहु त्रिरात्र-
 मुपवासयुक्तस्य. 13 धिदु धृष्टः.

तुहुं गहीरु वरुणेणापांदिउ
तुहुं रयतरुसिहि सिहिणा सेविउ
तुह पायग्गहिं वाउ विलग्गउ
तुहुं जमपासवसेण ण बद्धउ
तुहुं जि कालु कालुहु कालुत्तरु
सव्वु वि जाणसि पेच्छसि जेण जि

तुहुं अणिहणाणिहि धणपं वंदिउ ।
तुहुं जि मंति^३ मंतीसहिं भाविउ ।
तो वि ण तुहुं पहु वाएं भग्गउ । 5
जमु तुह सेवाविहिपडिबद्धउ ।
तुहुं विवाइ वाइहिं दिण्णुत्तरु ।
तुहुं जि सव्वु सव्वाहिउ तेण जि ।

घत्ता—अट्टपाडिहेरयसहिउ अट्टमहाधयपांतिसमेउ ॥

समवसरणि थिउ परमजिणु कहइ समत्थंपयत्थहं भेउ ॥ १२ ॥ 10

13

कुंथुपमुह पयणावियसुरवर
रिसिहि विणासियघोराणंगहं
अडदालइं जि सहासइं भिक्खुहुं
छहसहास अवहीपरियाणहं
ते च्चिय पंचसयाहिय संतहं
एयारहसहास वेइकिरियहं
पयाडियदुर्म्महवम्महमारिहिं
एक्कु लक्खु वीसेव सहासइं
चउलक्खइं देसव्वयधारिहिं
अमर असंख तिरिक्ख णिरिक्खिय
एक्कवीस तहिं वरिसहुं लक्खइं
सुरवइरइयइ जणसुहसुइइ

तासु सट्टिसत्तारह गणहर ।
तेरहसयइं धरियपुव्वंगहं ।
दुसईण संजुत्तइं सिक्खुहुं ।
तेत्तिय भणु मणपज्जवणाणहं ।
केवल्लक्खुणिहालणवंतहं । 5
पंच वि वाइहिं बहुणयभरियहं ।
संजमच्चारिणीहिं वरणारिहिं ।
दो लक्खइं सावयहं पयासइ ।
माणवमाणिणीहिं मणहारिहिं ।
सहुं संखाइ जिणिं अक्खिय । 10
विहिं वरिसहिं विरहियइं ससोक्खइं ।
महिं विहरिवि अरहंतविइइइ ।

घत्ता—गिरिसंमेयहु मेहलहि लंबियकरयलु एक्कु जि मासु ।

जिह सो तिह तणु परिहरिवि अवरु वि संठिउ मुणिहिं सहासु ॥१३॥

14

जीवेप्पिणु कयतिहुयणहरिसहं
पहु सावणपुण्णिवहि जणिट्टहि

जिणु चउरासीलक्खइं वरिसहं ।
चंदि परिट्टिइ गंपि धणिट्टहि ।

३ AP मंतु. ४ AP पहु तुहुं. ५ A समत्थु.

13 १ AP अडदालसहासइं भिक्खुयाहं. २ A दुइसइसंजुत्तइं. ३ AP^०परमाणहं. ४ A केवल्लक्खु^०. ५ A वेकिरियहं; P विकिरियहं. ६ A^०धम्महं वम्महं. ७ AP संजमधारिणीहिं. ८ A समक्खइं.

12 3 b अणि ह ण णि हि अविनश्वरानन्तज्ञानाद्याश्रयः. 4 a रय तरु सि हि पापवृक्षेभ्यः अग्निः; b मं ति बृहस्पतिः. 5 b स व्वा हि उ सर्वाधिकः.

13 6 a ब इ कि रिय हं विक्रियद्धीनाम्. 7 a^०दुम्महं^० दुर्मथः.

14 2 a^०पु णि व हि पूर्णिमायाम्.

णिव्वुउ कम्मपडलपरिमुक्कउ
 देहपुज्ज कियं दससयणेत्तं
 कल्लु विरसंतिहिं भंभाभेरिहिं
 उव्वंसिरंभतिलोत्तिमणारिहिं
 तुंघुरुणारयञ्चुणिझंकारहिं
 णाणाविहपुप्फाइं व धित्तइं
 दिण्णइं दीवधूव अपमाणइं
 दीवुं धूमु जो गयणि व लग्गउ
 जिणतणुसेवइ पंकु पणासइ
 णविवि णांसिद्धि भत्तिअणुराणं

अट्टमु धराणिवीदु खाणि दुक्कउ ।
 करपंजलिघल्लियसयवत्तं ।
 णञ्चंतिहिं गोरिहि गंधारिहि । 5
 सुरकामिणिहिं विइण्णवियारहिं ।
 तैहिं पणवंतहिं जलणकुमारहिं ।
 सीयलचंदणजलेण व सित्तइं ।
 णीलीकयअमरंगणजार्णहिं ।
 णाई हुयासकलंकु विणिग्गउ । 10
 सञ्चउं भासइ माय सरासइ ।
 जंतं अणपिउ सुरसंघाणं ।

घत्ता—भरहि पणट्टउ उद्धरिउ विणिवारेप्पिणु कुसमयकम्मु ।
 सेयंसं बहुसेययर कुंदपुप्फदंतं जिणधम्मु ॥ १४ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइए
 महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे सेयंसणिव्वाणगमणं
 णाम एक्कणपण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४९ ॥

॥ सेयंसंजिणचरियं समत्तं ॥

14 १ A णिव्वुइ°. २ P किय. ३ A उव्वसरंभ°. ४ AP सिहि संघुक्किय. ५ AP omit this line and the following. ६ AP add after this: धित्तइं चंदणवंदणकइइं, जलियइं णाहहु अंगइं दिइइं. ७ AP णीलु धूमु गयणंगणि लग्गउ. ८ AP जिणु तणु°. ९ A णिसिहि. १० AP omit this line.

4 b °घल्लियसयवत्तं °क्षित्तकमलेन. 5 b गोरिहि शासनदेव्या. 6 b विइण्णवियारहिं दत्तविकारैः. 13 कुसमयकम्मु कुमतानुकम्मम्. 14 बहुसेययर बहुश्रेयस्करः.

तहिं सेयंसहु तित्थि देहभुयबलदण्णिट्ठहं ॥
णिसुणहि सेणियराय रणु हयकंठतिथिट्ठहं ॥ धुवकं ॥

1

इह जंबूदीवि वरभरहखेत्ति
मयमत्तमहिसजुञ्झवियमहि
गोउलपयधाराधायपहिइ
पिच्चंतधण्णसंछण्णसीमि
जववालिणिरवमोहियकुरंगि
सरिसरवरजलकल्लोलमालि
वसुमइमहिलासोहाणिवेसि
रायगिहणयरि पहु विस्सभूइ

चवलालिचंदणामोयवंति ।
गज्जंतगामगोवालसहि ।
मंथोणयमंथियथद्धहिइ । 5
णिरु णियंडणियडसंकिण्णगामि ।
णवगंधसालिणिवडियविहंगि ।
सयदलणिणीणभर्सलउलणीलि ।
कयुदुग्गहणिग्गहि मगहदेसि ।
तहु लहुयउ भाइ विसाहभूइ । 10

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

भास्वानेककलावनोऽस्य च भवेद्यत्नाम तन्मङ्गलं
सर्वस्यापि गुरुर्बुधः कविरयं चक्रे अयं च क्रमः ।
राहुः केतुरयं द्विप्रामिति दधत्साम्यं ग्रहाणां प्रभुः
संप्रत्योदयमातनोति भरतः सर्वस्य तेजोधिकः ॥ १ ॥

K does not give it anywhere. In addition, P has also सया मन्तो वेसो भूसणं सुद्धसीलं etc, which in A is found at the beginning of IL for which see page 130. In addition, P has जगं रम्मं हम्मं दीवओ चन्दविम्भं for which see page 165 of Vol. I. In addition, P has the following stanza:—

दीनानाथधनं सदाबहुजनं प्रोत्फुल्लवल्लीवनं
मान्याखेटपुरं पुरंदरपुरीलीलाहरं सुन्दरम् ।
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्धं विदग्धप्रियं
केदानीं वसतिं करिष्यति पुनः श्रीपुण्ड्रन्तः कविः ॥ १ ॥

A gives this stanza at the beginning of LII. K does not give it anywhere.

1 १ AP दिढभुय^०. २ AP चललवलि^०. ३ AP ^०जुञ्झणविमहि. ४ AP मंथाणामंथिइ थद्धहिइ. ५ A णियलणियल^०. ६ A भमलोलिणीलि.

1 2 हयकंठ^० अश्वग्रीवः. 3 b चवला लि^० चपला अलयो येषु तादृशाश्चन्दनवृक्षाः. 4 a जुञ्झ वियम हि युद्धं कारितो महो समूहो यस्मिन्. 7 a जववालिणि^० हालिनी.

पढमहु जइणी मृगणैयण भज्जं
पइरमियइ जइणिइ विस्सणंदि
सुय जाया बेणिण वि णवजुवाण
ता राणं ससियरधवलदेहु

वीयहु लक्खण णामे मणोज्जं ।
जणियउ लक्खणइ विसाहणंदि ।
अच्छंति जाम सुहुं भुंजमाण ।
गयणयलि पलोइउ सरयमेहु ।

घत्ता—णं खलमित्तसणेहुं सो सहसत्ति विलीणउ ॥

15

उहु संसारु भणंतु चित्तिं चवक्किउ राणउ ॥ १ ॥

2

जंपइ पहु जिणगुण संभरंतु
जिहं णट्टउ पवणं एहु मेहु
होसंति सिट्ठिले संधिप्पएस
होसंति णयण सुहिरूवभंत
होसंति सुणिव्वसाय पाय
तुहुं कराहि रज्जु मइं दिण्णु भाय
ता थिउ संताणि विसाहभूइ
महि विहवसारु जरतणु गणेवि
सहुं भव्वणरिंदं तिहिं सएहिं
एत्तहि विसाहभूइ सुराउ

सत्तंगरज्जासिरि परिहरंतु ।
णासेसइ तिह कालेण देहु ।
होसंति हंसहिमवण्ण केस ।
होसंति हत्थ णित्थामवंत ।
मुहकुहरहु णिग्गेसइ ण वाय । 5
रक्खेज्जसु णियकुलकित्तिञ्जाय ।
णिग्गिंवि गउ काणणु विस्सभूइ ।
जोईसरु सिरिहरु गुरु थुणेवि ।
थिउ अप्पउ महिवि महव्वएहिं ।
सो विस्सणंदि जुवराउ जाउ । 10

घत्ता—णंदणवणि कीलंतु हणइ मुणालें घरिणिउ ॥

पसरियदीहकरगु मत्तउ णं करि करिणिउ ॥ २ ॥

3

काहिं वि मयरंदे करइ तिलउ
क वि सिचियं जलगंडूसएण

काहिं वि वेल्लीहरि देइ णिलउ ।
क वि जोइइ णवजोव्वणमएण ।

७ AP सिगणयण. ८ P भजा. ९ P मणोज्जा. १० A संचियधवलदेहु. ११ A पलीयउ. १२ P
सिणेहु. १३ A चित्त चमक्किउ.

2 १ AP जिम. २ P पमणें. ३ A सिधिलि. ४ A णिगेसइ. ५ A णिग्गवि. ६ A ठिउ.

७ A रजेहि विसाहभूई सुराउ; P एत्तहि विसाहभूई सुराउ. ८ P हण्णइ. ९ AP करि णं.

3 १ A काहि मि. २ AP सिचइ. ३ AP जोइय.

11 a पढमहु जइणी प्रथमस्य विश्वभूतेर्भार्या जैनी. 16 च वक्किउ संसाराद्धीतः.

2 3 a संधिप्पएस संधिप्रदेशाः; b हंसहिमवण्ण श्वेताः. 4 a सुहिरूवभंत सुहृदां स्वरू-
पावलोकने भ्रान्त्युत्पादकानि; b णित्थामवंत निर्बलाः. 5 a सुणिव्वसाय निरुद्यमौ; b वाय बाणी.
8 a जरतणु जीर्णतृणम्. 9 b अप्पउ महिवि महव्वएहिं महाव्रतैरात्मानं मानयित्वा.

3 1 a मयरंदे मकरन्देन; b वेल्लीहरि लताग्रहे.

काहि वि कामु व कुसुमोद्दु घिवइ
काहि वि करंलीलाकमलु हरइ
छाइयससिसूरमऊहमालि
दीसइ काइ वि कररुह फुरंतु
पारोहइ क वि दोलायमाण
क वि बंधिवि मोत्तियदामण
साहाररसिल्लउं कणयवचु

क वि पणयकुविय अणुणंतु णवइ ।
क वि लेविं सरोवरणीरि तरइ ।
काहि वि ल्हिक्कइ णीलइ तमालि । 5
काइ वि करि धरियउ दर हसंतु ।
अवल्लोइय वडजक्खणिसमाण ।
हय कुवलण कयकामण ।
काहि वि तरुपल्लवु दिण्णु रत्तु ।

घत्ता — णं वणि णैल्लिणि दुरेहु अच्छइ णिच्चं पइइउ ॥

10

इय सो तेत्थु रवंतु लक्खणजाएं दिइउ ॥ ३ ॥

4

तओ तं णियच्छेवि रायंगएणं
घरं गंपि सो गोमिणीमाणणेणं
सया चायसंतोसियाणयवंदी
वैणं देहि तं मज्झ रायाहिराया
ण देमि त्ति मा जंप णिब्भिण्णकणं
णरिंदेण उत्तं वैणं देमि णूणं
दुमंते रमंतो मयच्छीण मारो
खणेणय पत्तो समित्तो णवंतो
महं भाउणा णेहवासेण दिण्णं
कुलीणा तुमं चय मण्णाति सामिं
अहं जामि पच्चंतवासाइं घेत्तुं
तओ जंपियं तेण तं मज्झ पुज्जो
थिराणं करणं पयासेमि सत्तिं

वणुस्साहिल्लासं गहीरं गएणं ।
पिऊ पत्थिओ पुण्णचंदाणणेणं ।
जहिं कीलए णिच्चसां विस्सणंदी ।
महामंतिसेणावईवंदपाया ।
अहं देव गच्छामि देसंतमण्णं । 5
तुमं जाहि मा पुत्त उव्विग्गठाणं ।
पुणो तेण कोक्काविओ सो कुमारो ।
पिउव्वेण संबोहिओ णायवंतो ।
तुमं पत्थिवो तुज्झ रज्जं रवण्णं ।
तुमं थाहि सीहासणे भुंज भूमिं । 10
वल्लुद्दामथामं रिऊं पुत्त हंतुं ।
तुमं देव तायाउ आराहणिज्जो ।
अहं जामि गेण्हामि कूरारिवित्तिं ।

घत्ता—पंव भणेवि कुमारु अप्पउं विणएं भूसिवि ॥

गउ पच्चंतनृवाहं उवरि जांव आरूसिवि ॥ ४ ॥

15

४ A करि लीला°, ५ AP लेइ. ६ A णल्लिणदुरेहु. ७ P णिच्च.

4 १ A माणिणीमाणणेणं. २ A वणे देहि. ३ A वरं देवि णूणं. ४ AP सिहासणे. ५ A रिउं पुत्त. ६ AP °णिवाहं.

3 a का मुव मदन इव. 5 a छा इय° आच्छादितः. 7 a पारो हइ वटवृक्षादौ. 8 b कयकामएण कृतस्नेहेन. 9 a सा हाररसिल्लउं कणयवचु आम्रमञ्जरीयुक्तं कर्णाभरणम्. 11 लक्खणजाएं लक्ष्मणा-पुत्रेण विशाखनन्दिना.

4 1 a रायंगएणं राजपुत्रेण; b वणुस्साहिल्लासं वनाभिलाषम्. 2 b पिऊ पिता. 3 a चाय° त्यागः. 5 a णिब्भिण्णकणं कर्णस्फोटनम्. 8 b पिउव्वेण पितृव्येन. 9 a णेहवासेण स्नेहवशेन.

5

ता पहुणा पणयविमद्दणासु
 पइसरहुं ण देंतुं कयंतलीलु
 संगाममहोवहिभीममयरु
 दद्दाहरदु रत्तंतणेत्तु
 अईसंधिवि महुं वणु लइउं जेंव
 वीसासिवि किं हम्मइ पसुत्तु
 लक्खणहि सूणु भयभावणाडिउ
 महिवलयविसट्टणतडयंडंतु
 विवरंतसप्पचोभलललंतु
 उत्तुंगु अहंगु सुदुण्णिणिकखु
 अच्छोडइ किर महिवीढि जांव
 भइ पवणगमणु मग्गाणुलग्गु

दिण्णउं गंदणवणु गंदणासु ।
 तेंमारिउ सुहिउज्जाणवालु ।
 आयणिवि पडियाइयउ इयरु ।
 भासइ आरुसिवि जइणिपुत्तु ।
 थिरु एंवहिं भायर थाहि तेंव । 5
 किं पित्तिणण ववसिउं अजुत्तु ।
 तं पेच्छिवि दुट्टु कविट्ठि चडिउ ।
 भजंतहिं मूलहिं कडयडंतु ।
 उडंतहिं पक्खिंहिं चलवलंतु ।
 उम्मूलिउ रिउणा समउं रुक्खु । 10
 णासंतु दिट्टु पडिवक्खु तांव ।
 धरणासइ चलपसरियकरग्गु ।

घत्ता—पुणरवि दुग्गु भणेवि आसंधिवि थिउ वइरिउ ॥
 तेण मुट्ठिघाएण खंभु सिलामउ चूरिउ ॥ ५ ॥

6

पुणु दलिइ खंभि परिगलियमाणु
 णीसासंवेयवट्ठियकिलेसु
 अवलोइवि भाइ पलायमाणु
 पभणइ मा णासहि आउ आउ
 जुवरायहु कहइ विसाहभूइ
 इहु जाउ जाउ किं आयपण
 सिलफोडणभुयमाहप्पदप्प
 जइणिददिकख महुं सरणु अज्जु

वेंणु मेल्लिवि हरिणु व धावमाणु ।
 णीसत्थहत्थ णिम्मुककेसु ।
 करुणारसि थक्कउ सुहडमाणु ।
 तहिं अवसरि पत्तउ तहिं जि राउ ।
 लइ लइ सुंदर तेरी विहइ । 5
 किं कुच्छियपुत्तं जायपण ।
 अइसंधिओ सि महुं खमहि बप्प ।
 परिपालहि तुहुं अप्पणउ रज्जु ।

5 १ AP देंति. २ A ता मारिउ. ३ AP दद्दाहरोदु. ४ A अहिसंधिवि. ५ A तडयलंतु.
 ६ A °चोभल°. ७ A उत्तंग.

6 १ A धणु. २ AP णीसासु. ३ AP °हत्थ. ४ A रसथक्कउ.

5 1 a पण य वि म द्द णा सु स्नेहभञ्जकस्य. 2 a प इ सरहुं प्रवेशं कर्तम्; क यं त ली लु कृतान्त-
 सदृशः. 3 b प डिया इ य उ प्रत्यागतः. 4 a द द्दा हरदु दद्योष्ठार्धः; b ज इ णि पु त्तु जैनीपुत्रो विश्वनन्दी.
 7 क वि ट्ठि कपित्थवृक्षे. 9 a °चोभल° वस्त्रगुण्डिका. 12 धरणासइ धारणाशया.

6 1 a परि ग लिय मा णु नष्टगर्वः. 2 a णी सा स वे य° निःश्वासवेगः; b णी स त्थ ह त्थ
 निःशस्त्रहस्तः. 8 a ज इ णि द दि क्ख जैनदीक्षा.

घत्ता—बंधववैरकरीहि णिविण्णउ नृवरिद्धिहि ॥

पुत्त पडिच्छहि पट्टु हैंउं लग्गमि तवसिद्धिहि ॥ ६ ॥ 10

7

खग्गे मेहें किं णिज्जलेण
मेहें कामे किं णिद्वेण
कव्वेण णडेण किं णीरसेण
दव्वे भव्वे किं णिद्वएण
तोणे कणिसे किं णिक्कणेण
हउं णिग्गुणु अवरु वि मज्झु तणउ
वियसियपंकयसंणिहमुहेण
हो जोव्वणेण हो उव्वणेण
हो पट्टणेण सुहवट्टणेण
संहुं सयणहिं जहिं संभवइ वइरु
महु जणणे दिण्णी तुज्झु पुहइ
मइं पुणु जाएवउं कहिं वि तेत्थु

तरुणा सरेण किं णिप्फलेण ।
मुणिणा कुलेण किं णित्तवेण ।
रज्जे भोज्जे किं परवसेण ।
धम्मं राएं किं णिद्वएण ।
चावें पुरिसें किं णिग्गुणेण । 5
कवडेण जेहिं तुह भग्गु पणउ ।
पडिजंपिउं जइणीतणुरुहेण ।
हो परियणेण हो हो धणेण ।
हो सीमंतिणिथणघट्टणेण ।
पित्तिय तहिं ण वसमि हउं वि सुइरु 10
जो रुच्चइ सो तुहुं करहि नृवैइ ।
णिवसंति दियंवर विद्धि जत्थु ।

घत्ता—तं णिसुणिवि राएण जइ वि चित्ति अवहेरिउ ॥

तो वि परायइ कज्जि पुत्तु रज्जि वइसारिउ ॥ ७ ॥

8

वइसणइ वइट्टु विसाहणंदि
संभूइ सूरि पणंवि वि पवित्तु
चिरु कालु चरोपिणु चारु चरणु

सविसाहभूइ गउ विस्सणंदि ।
दोहिं वि पडिविण्णउं रिसिचरित्तु ।
किउ पित्तिएण संणासमरणु ।

५ P °वइरकरीहे णिविण्णउ. ६ AP णिवरिद्धिहि. ७ K हहउं.

7 १ A पेम्मे; P पेमे. २ P omits किं. ३ A कवडेण जेण. ४ A °संमुहमुहेण. ५ P धण-
धट्टणेण. ६ A महु सयणहिं जं संभवइ वइरु. ७ AP णिवइ.

8 १ A वइसणं; P वइसेणइ. २ A पणवेवि चित्तु.

9 बंधव व इ र क री हि बान्धववैरजनिकया.

7 2 a मेहें मेघेन; णि द्वेण जलशुक्रयोः क्षरणरहितेन; b णि त्तवेण तपोरहितेन. 4 a णि व्व-
एण व्ययरहितेन व्रतरहितेन च. 5 a णि क्कणेण बाणरहितेन धान्यरहितेन च. 9 a सुहवट्टणेण सुरमि-
चूर्णेन. 10 b पित्तिय हे पितृव्य. 12 b वि द्धि विन्ध्यवने. 13 अवहेरिउ अनादतः.

8 1 a वइसणइ राज्ये.

उपपणु महासुक्काहिहाणि
सहभूयभूरिभूसाविहाणि
परमंडलवइवाहिणिहि छइउ
लक्खणणंदेणु हयसिरिविलासु
अणवरयवुद्धिसंधियमणेण

मणिमयविमाणि धयधुव्वमाणि ।
सोलहसमुइजीवियपमाणि । 5
एत्तहि वि रायगिहणयरु लइउ ।
थिउ महुरहि जाइवि कयणिवासु ।
जीवइ कासु वि मंतित्तणेण ।

घत्ता—एत्थु ण किज्जइ दणु लच्छि ण कासु वि सास्य ॥

जे गय गयखंधेहिं ते पुणुं पायहिं गर्यं ॥ ८ ॥

10

9

मुणि विस्सणंदि ता तहिं जि कालि
कयपक्खमासदीहोववासु
तं पुरवरु सो चरियहि पइट्टु
णिट्ठाणिट्ठिउ जइवरवरिट्टु
वेसासउहयलि परिट्टिण
उवहसिउ साहु पत्थिवचरेण
चिरु पंवंहिं गाइविहाट्टियंगु
णिग्गुण णिग्घिण दुज्जण सगाव

मज्झणहवेलि खरकिरणजालि ।
कंकालसेसु गयरुहिरमासु ।
अहिणवपस्यगिट्ठिइ णिहट्टु ।
णिवडंतु तेण पिसुणेण दिट्टु ।
वहुजम्मणमरणुकंठिण । 5
पइं रुक्खं खंभ भग्गा करेण ।
पडिओ सि विहंडियमाणसिगु ।
खद्धो सि मज्झ पावेण पाव ।

घत्ता—तं णिसुणिवि सवणेणं वद्धउं रोसणियाणउं ॥

आगामिणि भवि तुज्जु हसियहु करमि समाणउं ॥ ९ ॥

10

10

कयपच्चक्खाणपयासणेण
जहिं तायभाउ जायउ अदीणु

तांवहिं वि मरिवि संणासणेण ।
पहु वि दूसहतवचरणखीणु ।

३ A °णंदण. ४ P सासया. ५ AP ते पुणुरवि. ६ P गया.

9 १ AP णिहिट्टु. २ रंक खंभ. ३ AP समणेण.

4 b धयधुव्व माणि ध्वजैः कम्पमाने. 5 a सहभूय^२ सहोत्पन्नानि. 6 a परमंडलवइवाहिणिहि शत्रुसेनया. 8 मंतित्तणेण मन्त्रित्वेन.

9 3 b °णिट्ठिइ धेन्वा; णिहट्टु निधृष्टः पातितः. 4 a णिंट्ठाणिट्ठिउ तपश्चरणेन क्षीणः; b पिसुणेण दुष्टेन विशाखनन्दिना. 5 a वेसासउहयलि वेश्यासौधतले. 6 a पत्थिवचरेण पार्थिवचरेण भूतकाले राज्ञा इदानीं तु मन्त्रिणा. 7 b विहंडियमाणसिगु विखण्डितगर्वशिस्वरः. 9 सवणेण मुनिना. 10 समाणउं सदृशं फलम्.

10 2 a तायभाउ तातभ्राता पितृभ्यः; अदीणु उदारः.

तहिं देहमइ कप्पि मणोहिरामि	दहछहजलणिहिषद्दाउधामि ।
उप्पण्णउ सल्लहियंतरंगु	कम्मेण ण किज्जइ कासु भंगु ।
ते बिण्णि वि सुरवर बद्धणेह	ते बिण्णि वि लायण्णवुमेह ।
ते बिण्णि वि णिच्चु जि सह वसंति	ते बिण्णि वि तारतुसारकंति ।
ते बिण्णि वि णं तिव्वंसुजोय	ते बिण्णि वि कयकीलाविणोय ।
ते बिण्णि वि दिवि अच्छंति जांव	एत्तहि वि अवरु संभवइ तांव ।
णिव्वेएं लइउ विसाहणंदि	जिणतवतावं तावेवि वोंदि ।
माणिकमऊहोहामियकि	संभूयउ सो वि महंतसुक्कि ।
घत्ता—एयहं दोहं वि ताहं देवहं वियलियहरिसइं ॥	
थक्कउ आउपमाणु जइयहुं कइवयवरिसइं ॥ १० ॥	

11

तइयहुं वेयद्धारूढियाहि	विज्जाहरउत्तरसेढियाहि ।
अलयाणयरिहि पडु मोरगीउ	थिरथोरबाहु सद्दलगीउ ।
देव वि रणरंगि तसंति जासु	णीलंजणपह महएवि तासु ।
जो चिरु विसाहणंदि त्ति भणिउ	सो ताइ पुत्तु हरिगीउ जणिउ ।
जाएण तेण णवजोव्वणेण	करलालियसिरिरामाश्रणेण ।
पडिवक्खलक्खवलदुम्महंण ।	
अहिवलयणिलयकंपावणेण	चंदक्कविंवभीसावणेण ।
खयरिंदविंदकंदावणेण	भूगोयरपुरसंतावणेण ।
सरणागयजणपविपंजरेण	करिणा इव दाणोल्लियकरेण ।
काणीणदीणकुलदिहिकरेण	सुहवत्तणजियमणसियसरेण ।
घत्ता—आसग्गीवें तेण रिउ हय हरिणा इव करि ॥	
असिधारइ तासिवि गहिय तिखंड वसुंधरि ॥ ११ ॥	

12

उग्गयपयावरवियरकरालु	वसुमइ भुंजंतु पईहु कालु ।
विद्धंसियवरसुहडावलेवु	परिवद्धिउ सो पडिवासुएवु ।

- 10 १ AP दहमि कप्पि सुमणो°. २ A सल्लहियंतरंगु. ३ AP एत्तह वि.
 11 १ P वेज्जाहर°. २ AP add after this: पलयाणलजालादुस्सहेण. ३ A करिणा विय.
 12 १ AP जा वड्डिउ.

3 b दहछहजलणिहिं षोडशसागरोपमाणि. 4 a सल्लहियंतरंगु सशल्यहृदयः; b कम्मेण कर्मो-
 दयेण. 7 a तिव्वंसुजोय सूर्योचन्द्रमसाविव. 10 b महंतसुक्कि महाशुक्ले.

11 2 a मोरगीउ मथूरश्रीवनामा. 4 b हरिगीउ अश्वश्रीवः. 8 a °कंदावणेण °क्रन्दन-
 कारिणा. 9 b दाणो ल्लियकरेण मदार्द्रशुण्डादण्डेन, दानार्द्रकरेण च. 11 हरिणा सिंहेन.

12 1 b पईहु कालु दीर्घ कालम्. 2 a सुहडावलेवु सुभयानां गर्वः; b पडिवासुएवु
 प्रतिवासुदेवः.

तित्थयरपवित्थियतित्थणिरहि
 बहुरमणिरमणसंपणणविसइ
 पोयणपुरु सुरपुरसोहहारि
 भुवणेक्कसीहु सव्वोवयारि
 तहु पढमदेवि जयवइ पसणण
 अण्णेक्क चारु वित्थिण्णरमण
 दोहिं वि दीविय महि तिमिरजूर
 णिवडवि अणुहुंजियसुहसयाउ
 पित्थियभत्तिज्जय बद्धपणय
 जइवइहि जाउ हिमंसियसरीरु
 णारित्तणगुणघडियहि सईहि
 जयवंतु एक्क तहिं विजउ गणउं

ता पविउलजंबूदीवभरहि ।
 परिपालियधम्मि सुरम्मि विसइ ।
 तहिं वसइ णराहिउ दंडधारि । 5
 णामेण पयावइ णिज्जियारि ।
 णं विवरविणिग्गय णायकण्ण ।
 मृगणयण मृगावइ मंदगमण ।
 णिसि सिविणइ दिट्ठा चंदसूर ।
 ते दो वि देव देवासयाउ । 10
 संजाया सुंदर ताहं तणय ।
 बलंहहु बालु णं छुद्धहीरु ।
 हुउ कणहु जि कणहु मृगावईहि ।
 बीयउ पुणु विट्ठु तिविट्ठु भंणिउ ।

घत्ता—बेणिण वि सह खेलंति भुयबलदूसिर्यदिग्गय ॥
 भरहदियंतपयासि पुष्पदंत णं उग्गय ॥ १२ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरहए
 महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे बलएववासुदेवउपपत्ती
 णाम पण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५० ॥

३ AP मिगणयण मिगा^०. ४ A हिमसय^०. ५ AP बलएउ. ६ A छुद्धहीरु; P छुडु हीरु. ७ AP
 मिगावईहि. ८ P विजउ. ९ A भणिउ. १० A गणिउ. ११ P^०भूसिय^०. १२ AP पुष्पयंत.

३ a^०णिरहि निष्पापे. ७ b णायकण्ण नागकन्या. ९ a तिमिरजूर तिमिरनाशकौ. १० b देवा-
 याउ देवविमानात्. ११ a पित्थियभत्तिज्जय पितृव्यभ्रातृव्यौ. १२ a जइवइहि जयावत्याम; b छुद्ध-
 हीरु बालचन्द्रः. १३ b कणहु कृष्णवर्णः; कणहु वासुदेवः. १४ a विजउ विजयनामा बलभद्रः; b विट्ठु
 ति विट्ठु विष्णुः त्रिपृष्ठवासुदेवः.

माणुसइं गिलंतु भुयबलविक्कमसारें ॥
पंचाणणु भीमु मारिउ रायकुमारें ॥ ध्रुवकं ॥

1

पायणिवायपणावियमहियल	पविमलकमलालंकियउरयल ।
पंकयकुलिसकलसलक्खणधर	रायहंससेवियं णं सुरसर ।
पोरिसपवररयणरयणायर	सम वड्डिय ते विणिण वि भायर । 5
जायासीधणुतणु गुणमणिणिहि	असिजालीकरालखलकुलसिहि ।
धवल कसण सविणयपीणियजण	णावइ सरयसमय सावणघण ।
कायकंतिधवलियकालियणह	णं गंगाणइ जउणा जलवह ।
तेहिं विहिहिं सो सहइ महीसरु	विहिं पक्खहिं णं पुणिमवासरु ।
जांवच्छइ हरिवीहिं णिसणणउ	देसमहंतउ ता अवइणणउ । 10
सो पभणइ चंगउ पालियपय	भो णिवमउडकोडिलालियपय ।
सेहीरउ रंजंतुं पडुक्कइ	माणुसु चित्तालिहिउ ण चुक्कइ ।
कंदमाणु खयभयवेविरमणु	देवदेव खद्धउ सयलु वि जणु ।
तं णिसुणिवि पडिलवइ पयावइ	भो भो मंति चारु तेरी मइ ।
घत्ता—जो ण करइ राउ पयहि रक्ख सो केहउ ॥	15
खणि णासिवि जाण संझाराणं जेहउ ॥ १ ॥	

2

जो गोवालु गाई णउ पालइ	सो जीवंतु दुद्धु ण णिहालइ ।
इट्टु महेली जो णउ रक्खइ	सुरयसोक्खु सो केहिं किर चक्खइ ।
जो मालारु वेह्ति णउ पोसइ	सो सुक्कुलु फलु केव लहेसइ ।

A has, at the beginning of this Samdhi the stanza जगं रम्मं हम्मं etc. for which see foot-note on page 139. P and K do not give this stanza here.

1 १ AP °पणामिय°. २ AP णं सेविय सरवर. ३ A असिधाराकराल°. ४ A जवणा. ५ AP विहिं मि. ६ A महीहरु. ७ मुंजंतु. ८ P पडुक्कउ. ९ P चुक्कउ.

2 १ P गोवि. २ AP किर कहिं. ३ P मालायारु. ४ P सुक्कुलु.

1 2 रायकुमारें राजकुमारेण लघुना. 3 a पायणिवाय° पादाघातः; b °कमलालंकिय° लक्ष्म्या अलंकृतम्. 4 a °कुलिसं वज्रम्; b सुरसर मानससरोवरम्. 5 a पोरिसपवररयण° पौरुषमेव प्रधानरत्नम्. 8 a °धवलिय° धवलितं बलदेवेण; °कालिय° कालितं वासुदेवेन. 10 b देसमहंतउ मन्त्री. 12 a सेहीरउ सिंहः. 13 a °वेविरमणु कम्पमानचित्तः. 14 a पयावइ प्रजापतिः राजा.

2 2 a महेली स्त्री; b सुरयसोक्खु सुरतसुखम्. 3 a मालारु मालाकारः.

जो कइ ण करइ मणहारिणि कह
जो जइ संजर्मजत्त ण याणइ
जो पहु पयहि पीड णउ फेडइ
जांवि रसंतु सीहु सइं मारवि
एवं भणेवि लेवि असि दारुणु
ता पंजलियरु विजउ पजंपइ
दे आपसु देव हउं गच्छमि
पेसिउ जणणं चलिउ हलहरु
णरकवालकंकालणिरंतरु

सो चिंतंतु करइ अप्पह वह ।
सो णग्गउ णग्गत्तणु माणइ । 5
सो अप्पणु अप्पाणउं पांडइ ।
देसहु पडिय मारि णीसारवि ।
जावुट्टिउ णरिंदु कोवारुणु ।
पइं कुट्टेण ताय जउं कंपइ ।
अञ्जु मइंदहु पलउ णियच्छमि । 10
तें सहं चलिउ भाइ दामोयरु ।
पत्ता केसरिगिरिकुहरंतरु ।

यत्ता—भडरोलहु सीहु कुंदच्छवि उद्दाइउ ॥

भाइहि आवंतु ण कयंतजसु जोइउ ॥ २ ॥

3

तिक्खणक्खणिक्खवियमयगलो
रत्तसित्तकेसरसडालओ
महिसमणुयपलकवलभोयणो
कुडिललुलियलंगुलच्चिधओ
कंठरावणिहलियंदिक्करी
वहुबलक्खामियवीरिक्कमं
तांवे तेण लहुएण भाइणा
विसतमालकालिदिक्कतिणां
मयवइस्स धरियं बला बलं
उच्छलंतदंतावलीसियं

पयविलग्गमुत्ताहलुज्जलो ।
सिसुमियंकदाढाकरालओ ।
सिहिफुलिंगपिगलविलोयणो ।
णासगाहियपडिसुहडगंधओ ।
परिसो सरोसेण केसरी । 5
जांव देइ किर सीरिणो कमं ।
लोयजीवदानेक्कदाइणा ।
करंजुवं पि वामेण पाणिणा ।
बलिविरोहिणो कस्स मंगलं ।
दाहिणेण हत्थेण णिहयं । 10

५ A अप्पव्वह; P अप्पावह. ६ A संजमु जुत्ति; P संजमजत्ति. ७ A फेडइ. ८ A सो वि रसंतु.
९ A पयंपइ. १० AP जसु. ११ A कयंतजसु; P कयंतु जसु. १२ P जोविउ.

3 १ AP बहुबलक्कमियं. २ AP add after this: बाहुदंडवलतुलिय (A तुडिय) दंतिणा,
कररुहंसुपविरइयसुवलयं, वामएण चल (A वल) चरणजुयलयं, सुहडसंगरुवूढमाणिणा. ३ AP कर-
जुयं. ४ A मइवइस्स. ५ AP बलविरोहिणो.

4 a कइ कविः. 5 a संजमजत्त संयमयात्रा. 6 a पयहि प्रजायाः. 7 a जांवि यामि गच्छामि.
8 b कोवारुणु कोपारुणः. 9 b जउं यमः. 10 b पलउ प्रलयम्. 13 भडरोलहु योधानां कोलाहलेन.
14 कयंतजसु कृतान्तस्य यमस्य यशः.

3 1 a णिक्खवियमयगलो °क्षपितगजः; b पयविलग्गं पादलमानि. 2 a °सडालओ
सटायुक्तः; b सिसुमियंकं बालचन्द्रः. 5 a °दिक्करी °दिशागजः. 6 b सीरिणो कमं बलभद्रस्य उपरि
पदम्. 7 a लहुएण भाइणा त्रिपुष्टेन. 8 a °कालिदि° यमुना. 9 a मयवइस्स मृगपतेः सिंहस्य;
बला बलात्.

ताडिओ मुहे पाडिओ हरी
माहवेण कयणिवविदोहँओ

संसिओ महीसेहिं सो हरी ।
दडुदेहिदेहंधिवो हँओ ।

घत्ता — जो पयसंताउ पलयसिहिं व्व पलित्तउ ॥

सो णिहँउ मयारि लोहियसलिलें सित्तउ ॥ ३ ॥

4

करतलपचूरियदुग्घोट्टइ
सुरसीमंतिणिकामुक्कोयणु
आया ते तं पुणरवि पोयणु
पयहिं पडंतैवऊहिय ताए
पुणु आउच्छिउ दाणववइरिउ
तं णिसुणेवि तेण अवगण्णिउं
गरुयउ सगुणपसंसंइ लज्जइ
एवं ताहं बहुसंपयसारा
तावेक्कहिं दिणि परमणहारउ
कहइ णरिंदहु विणु आयासें
कंठयकडयमउडकुंडलघरु
वारवार महुं वयणु णिरिक्खइ

णियबलु कसिवि सीहकसवट्टइ ।
लहिवि विजंयलच्छिहि अवलोयणु ।
णं ससहर त्रिणयर गयणंगणु ।
दोण्णि मेह णं संझाराए ।
किह केसरिकिसोरु पइं मारिउ । 5
णाविउं सीसु ण अप्पउ वण्णिउ ।
ऊणउ गुणथुइमइरइ मज्जइ ।
जंति दियह सुमणोरहगारा ।
कंचणवेत्तपाणि पडिहारउ ।
आयउ एक्कु पुरिसु आयासें । 10
ण वियाणमि किं सुरु किं णहयरु ।
तुह कर्मकमलातोयणु कंखइ ।

घत्ता—जइ अवसरु अत्थि ताँ सो पइसारिज्जइ ॥

जं भासइ किं पि तं णरेस णिसुणिज्जइ ॥ ४ ॥

5

महिणाहेण उच्चु पइसारहि
ता कणइल्लें आणिवि दाविउ
तहु पणवंतहु णियडउ आसणु

पुरिसु संसामिकजरहसारहि ।
खयरु णवंतु अउव्वु विहाविउ ।
दरिसिउं मणिगणकिरणुब्भासणु ।

६ AP विदोहओ. ७ A हुओ. ८ AP णिहय.

4 १ A °दुग्घोट्टइ. २ A सजयलच्छिहि. ३ A पडंत विजोहिय; P पडंत विगूहिय; T अव-
गूहिय आलिङ्गितौ. ४ AP °वेरिउ. ५ A °पसंसण लज्जइ. ६ A करकमला°. ७ P नो.

5 १ AP सुसामि°.

11 b हरी त्रिपृष्ठो वासुदेवः. 12 a मा हवेण त्रिपृष्ठेन; b दडुदेहिदेहंधिवो दग्धदेहिनां देह एव
वृक्षः. 13 पयसंताउ प्रजानां संतापः; पलित्तउ प्रदीप्तः.

4 1 a °तलपं प्रहारः; °दुग्घोट्टइ °चूर्णितदुष्टगजे; b सीहकसवट्टइ सिंह एव कपपट-
स्तस्मिन्. 4 a अवऊहिय अवगूढौ आलिङ्गितौ. 5 a आउच्छिउ पृष्ठः. 10 a विणु आयासें खेदेन
विना; b आयासें आकाशेन.

5 1 b °कजरहसारहि °कार्यरथनिर्वाहकः. 2 a कणइल्लें प्रतीहारेण; b अउव्वु अपूर्वः.

इट्टु भणिवि जाणिउं मुहराणं
 कहिं होंतउ सुंदरणिक्केयउ
 अक्खइ विर्ययरु पालियखोणिहि
 णमिकुलणहयलवलयहु णेसरु
 रहणेउरपुरवरपरमेसरु
 वाउवेय पिययम लीलागइ
 धूय सयंपह किं वणिणजइ

पृयवयणहिं संभासिउ राणं ।
 को तुहुं कहंसु कासु किं आयउ । 5
 रुप्पयगिरिवरदाहिणसेणिहि ।
 रिद्धिइ णं सयमेव सुरेसरु ।
 देव जल्लेणजडि णाम खगेसरु ।
 अक्ककित्ति तणुरुहु णं रइवइ ।
 मुहससिजोणइ चंदु वि खिजइ । 10

घत्ता—थर्णहारें भग्गु जाहि मज्झु किसु सोहइ ॥

णहपंतिपहाइ तारापंति ण रेहइ ॥ ५ ॥

6

करकमयलइं कुमारिहि रत्तइं
 णाहिहि जइ गंभीरिम दीसइ
 भालवट्टु पट्टु व रइरायहु
 सुरणरविसहरहिययवियारा
 जाहि रूवसिरि णं पर पराइय
 ताणं धीय बीय णं चंदें
 दुम्मयमलकलंकपक्खालाणि
 भो संभिण्ण णिसुयजोइससुय
 भणु भणु भव्व मज्झु भवियव्वइं
 देहदित्तिणिच्चेइयव्वंदइं
 ता संभिण्णे भणिउं णिसामहि
 दाहिणभरहि सुरम्मइ मंडलि

ताहं कुमारसहासइं रत्तइं ।
 तें सुणिहिं वि गंभीरिम्भ्वं णासइ ।
 चिहुरकुडिलकोडिल्लु व आयहु ।
 णयण विसिह णं तासु जि केरा ।
 सा फुल्लंति वेल्लि जिह जोइय । 5
 वोल्लिउं सज्जणणयणाणंदें ।
 मंतिहिं अग्गइ मंतिणिहेल्लणि ।
 भणु भणु कासु धरिणि होसइ सुय ।
 पदं दिट्ठाइं अणेयइं दिव्वइं ।
 केवलणाणधरइं रिसिवंदइं । 10
 मइं चिरु पुच्छियं संजय सावहि ।
 धरसिहरालिगियरविमंडलि ।

घत्ता—पोयणपुरि राउ जसु जसु देवहिं गिजइ ॥

पालियसम्मत्तु जो जिणणय पडिवजइ ॥ ६ ॥

२ AP पियवयणहिं. ३ P कासु कहसु कहिं. ४ A वइयरु. ५ A जडणजडि. ६ AP थणभारें.

6 १ AP °कमलयइं. २ AP तहि. ३ AP गंभीरिम. ४ A भालवट्टु पट्टु व; P भालवट्टु वट्टु व. ५ A णवर पराइय. ६ A णिसुणि जोइससुय; P णिसुणि जोइयसुय. ७ A णित्तेयइं. ८ A °धरियरिसि°. ९ AP पुच्छिउ.

5 सुंदरणिक्केयउ सौन्दर्यस्थानम्. 6 विर्ययरु खचरः. 7 a णेसरु सूर्यः. 9 a वाउवेय वायुवेगा. 12 णहपंतिपहाइ नखपंक्तिप्रभया.

6 2 b गंभीरिम्भ्व गम्भीरत्वं धीरत्वम्. 3 a भालवट्टु ललाटपट्टु; b आयहु एतस्य कामस्य. 4 b विसिह बाणाः. 5 a णपरपराइय परैर्न पराजिता. 8 a णिसुयजोइससुय हे अधीतज्योतिः-शास्त्र. 11 b सावहि अवधिशानवन्तः. 14 जिणणय स्याद्वादः.

7

चिरु पुरएवहु दिग्गयगामिहि
 भरहु जेण भुयदंडहिं भामिउ
 पुरिसपरंपराहि तहु जायउ
 जयवइ तासु देवि गरुयारी
 अचल पवलभुयतोलियगुरुगिरि
 विजय तिचिद्ध णाम णिद्धुरकर
 एहु तुरंगगलु रिउं तहु केरउ
 एत्थुप्पणउ पुण्णविवाएं
 भुयहिं कोडिसिल संचालेवी
 परियणसयणहं तुट्ठि जणेवी
 उंहयसेढिविज्जाहरराएं
 एंव देव हियवइ संचारिउ

जो बाहुबलि पुत्तु जगसामिहि ।
 जो जायउ पंचमगइगामिउ ।
 णाम पयावइ जो विक्खायउ ।
 अवर मृगावइ प्राणापियारी ।
 ताहं षिहिं वि जाया हलहर हरि । 5
 समरभारंकिणकसणियकंधर ।
 आसि विसाहणंहि विवरेरउ ।
 मारेवउ मृगवइइयहि जाएं ।
 वसुह तिखंड तेण पालेवी ।
 अण्णु तुहारी सुय परिणेवी । 10
 पइं होएव्वउं तासु पस(एं) ।
 संभिण्णं संबंधु वियारिउ ।

घत्ता—ता महुं णाहेण बंधुसिणेहुं गवेसिउ ॥

हउं णामें इंदु तुम्हहं दूयउ पसिउ ॥ ७ ॥

8

अवरु वि पहु तेरउं पहुठाणउं
 रिसहहु कच्छमहाकच्छाहिव
 तिह सिहिज्जडि रविकित्ति तुहारा
 तं णिसुणिवि णरवइ रोमंचिउ
 सीरिं पुण्णं सब्व पोमाइय
 पुणु सो दूयउ पहुणा पुज्जिउ

अम्हारउं पाइक्कणिवाणउं ।
 जिह भरहहु णविविणमि खगाहिव ।
 जिंव सुहि जिंव पुणु पेसणगारा ।
 आणंदें परिवारु णाञ्चिउ ।
 हरिणा णियभुयदंड पलोइय । 5
 तेण वि तक्खणेण गउं सज्जिउ ।

7 १ AP °सामिउ. २ A जइवय. ३ AP मिगावइ पाण°. ४ A णिद्धुर°. ५ A °भार-
 कसणंक्रियकंधर. ६ A तुरंगकंदु. ७ A omits रिउ. ८ AP मिगबइयहि. ९ AP उभय°. १० AP
 'सणेहु.

8 १ AP णमि°. २ A पुण्णसत्ति; P पुण्ण सत्त. ३ A गउ; P गमु.

7 1 a पुरुएवहु श्रीकृष्णभस्य. 2 a भा मिउ भ्रामितः. 7 a तुरंगगलु अश्वघ्रीवः; b वि-
 वरेरउ प्रतिकूलः. 13 ग वे सि उ अवलोकितः.

8 1 a पहुठा ण उं प्रभुस्थानम्; b °णि वा ण उं निर्माणम्. 3 b सु हि सुहृदः; प्रणयप्रसाधकाः
 नेहकरा इत्यर्थः. 5 सी रिं ब्रलभद्रेण; पो मा इ य प्रशंसितानि. 6 b ग उं गमं गमनम्.

भूगोयरहुं गयणु कहिं गोयरु
संताणागयपणयपथासउ

इय चिंतिवि णरणाहिं सायरु ।
तासु जि हत्थि दिण्णु संदेसउ ।

घत्ता—खग सुर सिज्झंति कामधेणु घरि दुब्भइ ॥
जं दूरु दुसज्जु तं जगि पुण्णे लब्भइ ॥ ८ ॥

10

9

इंदूयवयणइं आयणिवि
सहुं तणणं तणयाइ पसण्णइ
उद्धचलंतचमरवित्थारं
ओसारियरवियरसंताणहिं
महुरसवसरुंणुंरुंटियमहुयरि
मंदमंदमायंदावलिघणि
जायवेयजडि एकहिं वासरि
जिणपयपंकयपणवियसीसहु
आयउ इट्टु सुट्टु उकंठिउ
पहु मंडलियणिसेविउ चल्लिउ
अवरोप्परहुं वे वि गय संमुह
मिलिय वे वि दीहरपसरियकर

बंधुसणेहु सहियवइ मणिवि ।
अहिणवमुग्गमणोहरवण्णइ ।
विहवगहीरं सहुं परिवारं ।
आवेप्पिणु विमाणजंपाणहिं ।
कीरकुररसिहिपियमाहविसरि । 5
पोयणपुरवाहिरणंदणवणि ।
थिउ विज्जापहावविरइयघरि ।
इंदं जाइवि कहिउं महीसहु ।
तं णिसुंणिवि सहुं सुयहिं ण संठिउ ।
इयरेण वि खगदप्पु पंमल्लिउ । 10
णाइ तरंगिणिणाह सुहारुह ।
बेणिवि सज्जण णं दिसकुंजर ।

घत्ता—णियजणणविइण्णु परियाणिवि भूभंगउं ॥
रायहु रविकित्ति णविउ पणाविवि अंगउं ॥ ९ ॥

10

हरिबलेहिं ससुरउ जयकारिउ
भुयभूसणकरमंजरिपिंगिउं
हरिसंसुयजलेहिं संसित्तउ

तेण सिणेहसाहि वट्टारिउ ।
सालउ गाढंगाहु आलिंगिउ ।
सयल णिसण्ण सुमंतु पउत्तउ ।

४ P खग सुर.

9 १ A °मगमणोहर°. २ A °संताणागयपणयपथासउ; P रणुंरुंटिय°. ३ A णिसुणि सहुं.

10 १ AP सणेह°. २ A °पिंगिउ. ३ AP गाहु गाहु.

7 b सायरु सादरम्. 10 दुसज्जु दुःसाध्यम्.

9 1 a इंदूय इन्द्रनाम्नो दूतस्य; b सहियवइ स्वचित्ते. 4 a °रवियरसंताणहिं सूर्य-
किरणसमूहैः. 5 a महुरसवसं मकरन्दास्वादनवरीन; b °पियमाहवि° कोकिला. 7 a जायवेय-
जडि ज्वलनजटी. 8 b इंदं इन्द्रनाम्ना दूतेन. 10 b इयरेण ज्वलनजटिना. 11 b सुहारुह चन्द्रः.
13 णियजणणविइण्णु पितृकृतम्; भूभंगउं भ्रमङ्गः.

10 1 b सिणेहसाहि स्नेहवृक्षः. 2 b सालउ श्यालः अर्ककीर्तिः. 3 a हरिसंसुय° हर्षा-
श्रुजलैः.

दिणयरु तवइ खवइ जिणु कम्मइं
सायरु गिलइ सयलसरिसोत्तइं
भंजणसत्ति महंत समीरहु
एत्थु ण किं पि वण्ण कोऊहलु
एवं सीहु को करहिं णिपीलइ
तां जाणहुं होसइ पुण्णाहिउ
आसग्गीवजीवउड्ढावणु

वम्महु सलइ बाणहिं वम्मइं ।
ससहरु पीणइ जणवयणेत्तइं । 5
बलु अइअतुलु तिविड्डकुमारहु ।
णहं चवेडचण्णियकुंजरकुलु ।
कोडिसिलायलु जइ संचालइ ।
हरि हरिवंदियर्णाणिहिं साहिउ ।
धुवुं माणेसइ तरुणिहिं जोव्वणु । 10

घत्ता—महियर खयरिंद एहु मंतु विरएप्पिणु ॥

जहिं तं सिलरण्णु तहिं गय कणहु लएप्पिणु ॥ १० ॥

11

णिद्ध अद्धजोयणविन्धिण्णी
जिणपयसेवा इव फलंभाइणि
पुण्ण पवित्त पावखयगारी
कहिं वि दंतिदंतग्गहिं खंडिय
कहिं वि पलिप्पइ जालावलणं
कहिं वि जक्खिपयघुसिणं लिप्पइ
कहिं वि णीलगंलणियरहिं णीलिय
कहिं वि फुरइ घणतिमिरविमुक्कहिं
कहिं वि भमियमृगंणाहिमओहं
कहिं वि वियंभिय सुइसुहगारव
सा परियंवेप्पिणु अंचेप्पिणु

णाणावणतरुवरसंलुण्णी ।
वहुमुणिलक्खमोक्खसुहदाइणि ।
दीसइ सिल णं सिद्धिभडारी ।
सीहणहरचुयमोत्तियमंडिय ।
किडिदाढाणिहसणरुहजलणं । 5
चंदकंतजलधारइ धुप्पइ ।
वणयवधूमंधारं मइलिय ।
सप्पफडाकडप्पमाणिक्कहिं ।
सुरहिय सेविय भमरसमूहं ।
किंणरगेयवणुवीर्णारव । 10
सिद्धसेस राएहिं लएप्पिणु ।

घत्ता—पुणु भणिउ अणंतु पेक्खहुं सिल उण्णांवाहि ॥

हयकंठकयंतु होसि ण होसि व दावहि ॥ ११ ॥

४ A तहो चवेड°. ५ AP तो. ६ AP °णाणहिं. ७ AP धुवु. ८ P सिलरम्म.

11 १ AP अद्धजोयण° २ A फलभाविणि; P फलभाविणि. ३ AP °जलणं. ४ A लिप्पइ.
५ A णीलमणिणियरहिं. ६ P वणदव°. ७ AP मृगणाहिं°. ८ AP सुरहियसेविय. ९ A °गारउ.
१० A °वीणारउ. ११ A उच्चावहि; P ओच्चावहि. १२ A दावइ.

5 a °सरि सोत्तइं नदीप्रवाहाः. 7 b णहचवेड° नखचपेटाप्रहारः. 9 b हरि वं दिय णा णि हिं इन्द्र-
वन्दितज्ञानिभिः; सा हि उ साधिकः लोकोत्तरः. 10 a आसग्गीवजीवउड्ढावणु अश्वग्रीवजीवविध्वंसकः.
12 सिलरण्णु शिलावनम्.

11 1 a णिद्ध कान्तिमती. 2 a फलभाइणि फलभागिनी. 3 a पलिप्पइ ज्वलति;
जालावलणं ज्वालाज्वलनेन. 6 a °पयघुसिणं पादकुक्कुमेन; b धुप्पइ धाव्यते. 7 a °णांलगल°
मयूरः. 12 अणंतु त्रिपृष्ठः; उण्णावहि उच्चालय.

12

ता सिल उच्चायंतहु कण्णहु
पवरकरिकरायारहिं बाहहिं
उरयलि णिवाडियाइं सारंगइं
पंतिणिबद्धइं कैसिणइं अरुणइं
दिट्टइं णायउलाइं चलंतइं
गेरुयवाणिउं वियलिउं रत्तउं
हंसपंति णहमंडलि धावइ
भमरामेलउ णीलउ लोलइ
दलियइं मलियइं वेल्लीभवणइं
णट्टइं कीलासुरणिउरंबइं

दुज्जणदेहवियारणतण्हहु ।
पाहाणुट्टियभूसणरेहहिं ।
दसदिसि वहिवि गयाइं विहंगइं ।
णं रिउकामिणिकंठाहरणइं ।
णं अरिअंतइं लंबललंतइं । 5
रुंहरि णाइ वइरिहि णिगंतउं ।
पडिभडट्टिमाला इव भौवइ ।
रोसहुयासधूमु णं घोलइ ।
णावइ खलयणपट्टणभवणइं ।
णिग्गयाइं णं सत्तुकुडुंबइं । 10

घत्ता—उंहुंडकरेहिं सिल कण्णं उच्चाइय ॥

पडिसत्तुधरिस्ति हरिवि णाइं दक्खालिय ॥ १२ ॥

13

उच्चाइय सिल सांहइ तहु करि
जं चालिय सिल सिरिरमणीसं
संथुउ अवरु पयावइ राएं
संथुउ लंगलहररविकित्तिहिं
एंवहिं तुहुं जि देव महिराणउ
तुहुं पुरुसोत्तमु तुहुं धरणीहरु
तुहुं इक्खाउवंसवरधयवड
साहु साहु तुह सोहइ विक्रमु
एम भणंतहं घोसगहीरइं
परिमलबहलइं वण्णविचित्तइं

अट्टमभूमि व भुवणत्तयसिरि ।
तं सो संथुउ जलणजडीसं ।
संथुउ बहुमहिवइसंघ्राएं ।
संथुउ सुरणरविसहंरपत्तिहिं ।
तुज्जु पुरिसु जगि णत्थि समाणउ । 5
णिवडंतहं बंधुहुं लग्गणतरु ।
तुह पडिमल्लु णत्थि तिहुवणि भडु ।
अण्णहु एहउ कासु परक्कमु ।
कउ कलयलु दिण्णइं जयतूरइं ।
अमरहिं पंजलिकुसुमइं धित्तइं । 10

12 १ AP किसिणइं. २ AP °वाणिरु. ३ AP रुहिरु. ४ णावइ. ५ AP उहुंड? ६ AP कण्हेणुच्चालिय.

13 १ AP °विसहरपंतिहि. २ A इक्खाकवंस?; P इक्खाववंस. ३ A परिक्रमु.

12 2 b पा हा णु ट्टिय° पाषाणे लिखिताः. 5 b अरि अंतइं शत्रूणामन्त्राणि. 6 a गेरुय-
वा णिउं गैरिकमिश्रं जलम्. 7 b पडि भ ड ट्टि मा ला प्रतिभटानामस्त्रां माला. 10 a की ला सुर णि उ रं ब इं
क्रीडारतानां देवानां समूहाः.

13 4 a लंगलहर° बलभद्रः; b °वि सहरपत्ति हिं नागपत्नीभिः. 6 a धरणीहरु धरणी-
धरो राजा. 7 a °ध य व डु °ध्वजपटः.

चंडहिं भुयदंडहिं पडिपेल्लिय
मालालंकिइ मउडि पसत्थइ

पुणु सिलं माहवेण तहिं घल्लिय ।
कालभविस्ति णाइ रिउमत्थइ ।

घत्ता— खगमाहिवइणाह वणु मेल्लिवि पडिआइय ॥
हरिबलसंजुत्त पोयणणयरु पराइय ॥ १३ ॥

14

अहिवांदिय दहिअक्खयसेसहं
मंदिरि मंदिरि मंगलकलयलु
मंदिरि मंदिरि छडरंगावलि
मंदिरि मंदिरि कलस सउप्पल
ता तहिं जंपइ पुरणारीयणु
का वि भणइ इहु राउ पयावइ
का वि भणइ इहु सो संकरिसणु
का वि भणइ इहु सो णारायणु
जेण सिलायलु णहि संचालिउ
दीसइ रूवें वम्महु जेहउ.

पुरि पैइसंतहं ताहं णरेसहं ।
णच्चइ कामिणि घुम्मइ मईलु ।
बज्झइ तोरणु चित्तधयावलि ।
णिहिय वयणविलुलियपल्लवदल । 5
सुहयालोयणपयडियघणथणु ।
पहु खगाहिउ रहणेउरवइ ।
हलहरु हलि अकरंतु वि करिसणु ।
जेण संयंपहाहि हित्तउं मणु ।
जेण जसेण गोत्तु उज्जालिउ ।
पइ पुण्णहिं जइ लब्भइ पइउ । 10

घत्ता—तं पुरु पइसिवि विरइयपणयपसायहिं ॥
वहुारिउ णहु खगवइमहिवइरायहिं ॥ १४ ॥

15

विहिं वि विवाहु तेहिं पारइउ
खंभि खंभि पज्जालियपईवहिं
पवणुद्वयचिंधपब्भारहिं

कउ मंडउ रयणंसुसिणिद्धउ ।
लंबियमोत्तियदामकलावहिं ।
मरगयमालातोरणदारहिं ।

४ A °कियमउडपसत्थइ.

14 १ A पुरपयसंतहं; P पुरि पयमंतहं. २ A मंदल. ३ AP पहु. ४ AP अकरंतउ करि-
सणु. ५ P संयंपयाहि.

15 १ A रयणंसुसमिद्धउ; P रयणसुसमिद्धउ.

11 b माहवेण त्रिपुष्टेन. 12 भविस्ति भवितव्यम्.

14 1 a अहिवांदिय अभिवन्दिताः. 4 a सउप्पल कमलयुक्ताः. 5 b °पयडिय° प्रकटितौ.
7 a संकरिसणु सीरपाणिः बलभद्रः; b हलि हे सखि; अकरंतुविकरिसणु क्षेत्रकर्षणमकुर्वाणो-
ऽपि. 8 b हित्तउं हतम्. 10 b पइ पतिर्भर्ता. 11 पणयपसायहि प्रणयप्रसादैर्दानमानादिभिः.

15 1 a रयणंसुसिणिद्धउ रत्नकिरणैः स्निग्धः. 2 b °कलावहिं कलापैः समूहैः.

यज्जंतहिं पडुपडहहिं संखहिं
 कामिणिकरयलघल्लियसेसहिं
 वियसियंसयंदलसरलदलच्छे
 पैरिणिय सुंदरेण सा सुंदरि
 राउ मऊरगीवणिवतणुरुहु
 अद्धचक्कि चक्कंकियकरयलु
 भणित तेण महिकामिणिमाणेणु
 देव तुरंगगीव बुहणिरंसिउं
 पइं णहयरणरणाहु पमाइवि
 सामणणहु वियलियगुणणियरहु

णाणावाइत्तेहिं असंखहिं ।
 दियवरदेवदिण्णआसीसहिं । 5
 णियसुहिंवच्छलेण सिरिवच्छे ।
 गउ चरु जहिं णिवसइ जगकेसरि ।
 खयरमउडुं वियपयसररुहु ।
 दढभुयजुयअंदोलियपरबलु ।
 भुयणवणंतवासिपंचाणु । 10
 णिसुणि णिसुणि सिहिजडिणा विलसिउं ।
 पोयणंपुरवइपुत्तहु जाइवि ।
 कण्णारयणु दिण्णु भूमियरहु ।

घन्ना—अह सो सामण्णु भणहुं णं जाइ खगाहिव ॥

जं मारिउ स्सीहु चालिय सिल वसिकय णिव ॥ १५ ॥

16

तं णिसुणिवि णरणाहु विरुद्धउ
 धगधगधगधगंतु चंचलसिहु
 रत्तणेत्तरुइरावियदसदिसु
 णं जउं तिहुयणगिलणकयायरु
 चवइ सरोसु भिउडिभंडभीसणु
 अज्जु जलणजडि मारिवि संगरि
 सहुं जांवाएं देंवि दिसायलि
 तहिं अवसरि पालियनंवसामणु

णं केसरि गयगंधविलुद्धउ ।
 घयधाराहिं सित्तु णं हुयवहु ।
 पुष्पयंतु णं फणि आसीविसु ।
 परसिरिहर असिवरपसरियकरु ।
 करतलप्पताडियरयणासणु । 5
 धिवमि कयंतवैयणविवरंतरि ।
 भुक्खइ भग्गउ धवुं पावउ कलि ।
 गयसहासहिं मग्गिउ पेसणु ।

२ AP परणिय. ३ A °माणण. ४ A °पंचाणण. ५ P तुहुं णिरसिउ. ६ AP पोयणपुरिवइ. ७ P omits ण.

16 १ AP रत्तणेत्त. २ AP जम. ३ A °सिरिहर°. ४ AP भिउडिभय°. ५ P मयणासणु. ६ AP कयंतदंतविवरंतरि. ७ AP जामाएं. ८ A धव; P धउ. ९ AP णिवसासणु.

5 b दियवरदेव जैनब्राह्मणाः. 6 b °सुहिंवच्छलेण सुहृद्रत्सलेन; सिरिवच्छे श्रीविष्णुना त्रिष्टेन. 7 b चरु दूतः; जगकेसरि अश्वघ्रीवः. 10 a °माणणु भोक्ता; b भुवणवणंतवासिपंचाणणु भुवनमेव वनं तन्मध्ये सिंहः. 11 a बुहणिरसिउं बुधैर्निन्दितम्. 13 b भूमियरहु भूमिचरस्य मनुष्यस्य. 14 भणहुं ण जाइ कथितुं न शक्यते; खगाहिव हे अश्वघ्रीव.

16 1 a विरुद्धउ कुपितः. 2 a °चंचलसिहु चपलशिखः. 4 a जउं यमः. 5 b °रयणासणु सिंहासनम्. 7 जांवाएं जामात्रा; b धवु तृप्तिम्; कलि यमः.

ने णउ पेसई सहं संचल्लिउ
जो मयवइजीविउं उहालइ
सो सामणु ण होइ निरुत्तउं

पहु हरिमस्समंतिं बोल्लिउ ।
कोडिसिलायलु जो संचालइ । 10
तुमहहुं अप्पणु जाहुं ण जुत्तउं ।

घत्ता—हयकंठे उच्चु विउस ण किं पि विवाणं ॥
किं सूरहु को वि वड्ढिमु दीसइ तेणं ॥ १६ ॥

17

मज्झु वि पांसिउं को जगि सूरउ
रयणमाल वड्ढी मंडलगलि
जेण कण्ण दिण्णी भूगमणहं
सो पइसरउ सरणु देविंदहु
सो हउं कड्ढिविं अज्जु जि फाडमि
सवणायणियपावरसहं
सीहु सीहु सोडं सोसिज्जइ
तरुणीमग्गणचाडुयवंते
मणिकुंडलमंडियगंडयलइं
एवं चवेवि धीरु हुंकारिवि
संदाणियविमार्णपरिवाडिहिं
ओरुंजंतिहिं आहवभेरिहिं
णं सायरु मज्जायविमुक्कउ

को महिवइ वरवीरवियारउ ।
हउं अवगण्णुउ जाइवि महियलि ।
सो पइसरउ सरणु सिहिपवणहं ।
सो पइसरउ सरणु धरणिंदहु । 5
वइवसपुरवरपंथं धाडमि ।
सिल च्चालेज्जइ किं ण बलहं ।
एयहिं साहसेहिं लज्जिज्जइ ।
किं वेहाविउ सो वरइत्तं ।
दाहं वि तोडमि रणि सिग्गकमलइं ।
णिग्गउ मंतिमंतु अवहेरिवि । 10
परिवारिउ विज्जाहरकोडिहिं ।
जुयखंइ णाइ रसंतिहिं मारिहिं ।
महिहरमेहल मंभिवि थक्कउ ।

घत्ता—इह दाहिणभरहि वणि जलंततणुमारइ ॥

आवासिउं सेणु पुप्फदंतकरवारइ ॥ १७ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुप्फयंतविरइण महाकव्वे तिविड्ढुंसिंघमारणकोडिसिलुच्चायणं
णाम एकवणासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५१ ॥

१० AP पेसिय. ११ P हरिमंमुमंतिहि बोलिउ; P हरिमस्समंतिहिं बोलिउ.

17 १ AP पासि. २ P को वि जगि. ३ A कड्ढमि. ४ AP 'विवाण'. ५ A जुगवइ.
६ A जलतणकणसारइ; P जलवणकणसारइ. ७ AP कोडिसिलासंचालणं तिविड्ढुविवाहकल्लाणं णाम.

9 b हरि मस्स मं ति हरिइमश्रुमन्त्रिणा. 10 a मयवइ जी वि उं मिहस्य जीवितम्. 11 b अप्पणु स्वय-
मेव. 12 वि उ स हे विद्वन्.

17 2 a मंडलगलि शुनः कण्ठे. 5 b वइवसपुरवरपंथं यमपुरमार्गेण. 6 a सवणा य-
णियपावरसहं कर्णयोरार्कणितपावरशब्देन (वलीवर्देन). 7 a सी हु सी हु सो डं सो सि ज्ज इ सिहो मयं
च अष्टापदेन मद्यपेन च शोष्यते. 8 a 'मग्गणचाडुयवंते' याच्नाच्चाडुकारेण; b वेहा वि उ गर्जितः;
वरइत्तं वरेण. 12 a ओरुंजंति हि अवरुज्जिद्विः समन्ताच्छब्दं कुर्वद्भिः. 14 'तणुमारइ तृणसमूहे.
15 पुप्फदंतकरवारइ सूर्यचन्द्रकिरणरोधके, वने इत्यर्थः.

दलियारिंदकरि रूसिवि हरि खगकुलभवणपईवहु ॥
चिरभववइरवसु आलद्धमिसु भिडिउ गंपि ह्यगीवहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—खुहियखगिंदविंदकिंकररवगज्जियगंधसिंधुरो ॥
जाव तिखंडखोणिपरमेसरु चलिउ तुरयकंधरो ॥ छ ॥

तावेत्तहि पोयणणामणयरि	भूगोयरवइघरैवसियखयरि ।	5
पणवियसिरेण मउलियकरेण	सिहिजडिहि सिद्धु जाइवि चरेण ।	
भो ^१ खगवइ गिरु अण्णायवट्टि	तुज्जुप्परि आर्यउ चक्कवट्टि ।	
आरुट्टउ कण्णकारणेण	जं एव समासिउ चारणेण ।	
तं ^२ सुणिवि पयावइ तेण भणिउ	अम्हहिं सुहुं सुत्तउ सीहु वणिउ ।	
सो उट्टिउ एवहिं बलमहंतु	धणु लंगूलउ सरणहरवंतु ।	10
असिजीहापल्लवलललंतु	मंतिजइ एवहिं सो जि मंतु ।	
उवसमइ जेण सो कूरचित्तु	ता सस्सुएण सहसत्ति उत्तु ।	
तइ जलइ जलणु जइ णत्थि वारि	जइ णत्थि संति तो पइइ मारि ।	
भो आणइ मरणु पहाणवइरु	भो ^३ एत्थु ण णिजइ कालु सुइरु ।	
पहु लहु दीसइ जुंजेवि सामु	ता विहसिवि भासइ पढमंरामु ।	15

घत्ता—सज्जणु उवसमइ खलु किं खमइ वोळंतहुं सुइमित्तुं ॥

घिउ हुंयवहमिलिउं जललवजलिउं वप्प किं ण पइं दिट्ठुं ॥ १ ॥

A gives, at the beginning of this Samdhi, the stanza दीनानाथधनं etc. for which see page 139. P gives it at L. K does not give it anywhere.

1 १ AP^० वंद^०. २ AP^०संधुरो. ३ AP^०घरि वसिय^०. ४ A सो खगवइ. ५ A अण्णाय-वत्ति. ६ A आवइ. ७ A तं णिसुणि. ८ A सुहि. ९ A धुणित्तु; P वणित्तु. १० A सुम्मएण. ११ AP धुत्तु. १२ A पढमु रामु. १३ A वोळंतहो. १४ A हुववहमिलित्तु; P हुयवहि मिलित्तु.

1 1 अरिंदकरि अरीन्द्रा एव करिणः; ^०पईवहु ^०प्रदीपस्य अश्वघ्रीवस्य. 4 तुरयकंधरो अश्वघ्रीवः. 6 b सिद्धु कथितम्. 8 b चारणेण दूतेन. 9 a तेण ज्वलनजटिना. 10 b सरणहरवंतु शरा एव नखाः तैः गर्जन. 12 b सस्सुएण सुश्रुतमन्त्रिणा. 13 a तइ तदा. 14 a आणइ ददाति; पहाणवइरु प्रधानैः सह वैरम्. 17 जललवजलिउं घृतमग्निना उत्कालितं पश्चात्तन्मध्ये शीतलजललवा अपि प्रज्वलन्ति.

2

दुवई—मित्त तिविट्ठि रुट्ठि गिरिधीर वि एंति ण वइरिणो रणं ॥

किं विसहंति दंति हरिणाहिवखरकररुहवियारणं ॥ छु ॥

जइयहुं अहिवलयविलंबमाण	वणि उच्चाइय सिल इलसमाण ।
मइं जाणिउं तइयहुं कैहिं वि कालि	देवहुं पेक्खंतहं भडवमालि ।
तोडेसइ हयकंधरहु सीसु	रत्तच्छिवत्तुं भूभंगभीसु । 5
को हालाहल्लु जीहाइ कलइ	को करयलेण हरिकुलिसु दलइ ।
को गयणि जंतु अहिमयरु खलइ	को णियवलेण धरणियत्तु तुलइ ।
को कालु कयंतहु माणु मलइ	को जलणि णिहित्तु वि णाहिं जलइ ।
को फणिवइर्फणमणिणियरु हरइ	को पडिय विज्जु सीसेण धरइ ।
को भंडइ सहं महुं भायरेण	तां जंपिउ मंति सायरेण । 10
भो सीराउह तुहिणयरकंति	जं पइं जाणिउं तिह तं ण भंति ।
लइ तो वि देव किज्जइ परिकख	उवइसहु कुमारहु मंतसिक्ख ।
वीयक्खराइं मणि संभरंतु	आसीणु सत्तरत्ते तुरंतु ।
जइ साहइ विज्जादेवयाउ	तो करइ परहं मरणावयाउ ।
विज्जासाहणविहिभेयभिण्णु	ता ससुरएण उवएसु दिण्णु । 15
थिउ ज्ञाणारूढउ हलि उधिंदु	सत्तमदिणि कंपाविउ फणिदु ।

घत्ता—विज्जाजोइणिउ वरदाइणिउ हरिरांमहु पणवांतिउ ॥

रिउजमदूइयउ खणि आइयउ देहु णियमु पभणंतिउ ॥ २ ॥

3

दुवई—गारुडविज्ज पुज्जं संसाहिय हरिणा भुवणखोहिणी ॥

अवरं महंतसत्तुसंचूरणि पवर वि णाम रोहिणी ॥ छु ॥

2 १ A °विलंबमाणे. २ A °समाणे. ३ AP तहि. ४ AP रत्तच्छिवंतु. ५ A °कुडिसु. ६ A °फणिवइफणिमणु. ७ AP तो. ८ A मंतं सायरेण. ९ AP सत्तरत्तिउ. १० A हरिरायहो. ११ P दूइओ.

3 १ A पुज्ज. २ A सयल महंत सत्त°; P सयलमहंतु सत्त°. ३ AP अवर वि.

2 1 एंति ण नामच्छन्ति. 2 °कररुह° नखाः. 3 b इलसमाण पृथ्वीमहिता. 4 b °व मालि कोलाहले. 5 b रत्तच्छिवत्तु रत्ताक्षवक्त्रम्, शत्रुमस्तकम्. 6 a कलइ स्पृशति; b हरिकुलिसु इन्द्रवज्रम्. 7 a अहिमयरु सूर्यः. 9 b विज्जु वियुत्तु. 11 a सीराउह हल्लयुध बलभद्र. 12 b उवइसहु उपदिशत. 13 a वीयक्खराइं मन्त्राराधना; b सत्तरत्ते सप्त दिनानि. 14 b मरणावयाउ मरणरूपा आपदः. 16 a हलि उ विदु बलभद्रनारायणौ. 18 णियमु आदेशम्.

3 2 अवर अपराः; पवर प्रवरा.

खर्गथंभिणी	बलणिसुंभिणी	
गयणचारिणी	तिमिरकारिणी ।	
सीहवाहिणी	वइरिमोहणी ।	5
वेयगामिणी	दिव्वकामिणी ।	
विवरवासिणी	णायवासिणी ।	
जलणवरिसिणि	सलिलसोर्सणी ।	
धरणिदारणी	कुडिलमारणी ।	
बंधमोयणी	विविहरूविणी ।	10
मुक्ककॉंतला	लोहसंखला ।	
छइयदसदिसी	कालरक्खसी ।	
वयणपेसला	विजयमंगला ।	
रिक्खमालिणी	तिक्खसूलिणी ।	
चंदमउलिणी	सिद्धवालिणी ।	15
पिंगलोयणा	धुणियफणिफणा ।	
थेरि थुरुहुरी	घोरंघोसिरी ।	
भीरुभेसिरी	पलयदंसिरी ।	
इय सणामहं	दिण्णकामहं ।	
घत्ता—पंच समागयइं विज्जहं सयइं दक्खवंति सवसित्तणु ॥		20
तोसियवासवहं बलकेसवहं घरि करंति दासित्तणु ॥ ३ ॥		

4

दुवई—विज्जागमणमुणिइ हरिपोरिसि पसरियसिरिविलासए ॥
णिहय पयाणभेरि जगभइरव वियलिइ सयणसंसए ॥ छ ॥

विज्जाहरमहिहरणाह बे वि	जलैणजडि पयावइ धुरि करेवि ।	
चलियइं सेण्णइं रिउरणमणाइं	बलएववासुएवहं तणाइं ।	
णहु कंपइ कंपंतहिं धएहिं	महि हल्लइ गच्छंतहिं गएहिं ।	5

४ AP °थंभिणी. ५ AP °णिसुंभिणी. ६ AP °सोर्सिणी. ७ P °दारिणी. ८ AP विविहकुंतला.
९ AP °घोसिणी. १० A विज्जहं सयइं.

4 १ P °गमणु मुणिइ. २ A सइणसंसए. ३ A जडणजडि.

6 a वेयगामिणी वेगगामिनी. 7 b णायवासिणी नागपाशिनी. 13 a °पेसला मनोहरा. 14 a रिक्खमालिणी नक्षत्रमाला. 15 a चंदमउलिणी चन्द्राच्छादिनी. 19 b दिण्णकामहं वाञ्छित प्रदानाम्. 20 सवसित्तणु स्ववशित्वम्.

4 1 °मुणिइ ज्ञाते; हरिपोरिसि हरिपौरुषे. 2 वियलिइ विगलिते स्फोटितं.

रह चिक्कवंत चल चिक्करंति
जापं हरिखुरधूलीरपण
भडरोलें सुत्तुट्टिउ कयंतु
जोइय जणेण परवीरजूर
णं अट्टहास बहलंधयार
गच्छंतवारणारूढदेह
झल्लरिमुइंगकाहलरवेण
कुसुमियपियालककूलएलि

पडिवक्खमरणु णं वज्जरंति ।
धूसरिउ सूरु दूरंगपण ।
छत्तहिं संछण्णउं दहदियंतु ।
सोमुग्गदेह णं चंद सूर ।
णं उवसमरस सिंगारंभार । 10
हलहर हरि णं सियअसियमेह ।
दियहेहिं गंपि सर्वरुच्छवेण ।
तहिं थक्क संदणावत्तसेलि ।

घत्ता—पवणचलंतियहिं धयपंतियहिं णहु णं उपपरि घुलियउं ॥

णच्चियनृवणडिहिं पिहुपडकुडिहिं खोणीयल्लु चित्तलियउं ॥ ४ ॥ 15

5

दुवई—विचिणिचारचूर्यचवचंपयचंदणवद्धकुंजरे ॥

थिइ पंडिबलि तुरंगहिलिहिलिरवे सयडावत्तगिरिवरे ॥ छ ॥

जांपवि सिविरु णवघणसरंहिं
अरिपुरवरघरसंदिण्णडाहु
आढत्तउ जिणु वम्महसरेहिं
आढत्तउ खज्जोएहिं भाणु
आढत्तउ केसरि जंबुएहिं
आढत्तउ गयवरु गइहेहिं
आढत्तउ रइवइ कइयवेहिं
भो देवदेव संधियसरेहिं

विण्णविउ णवंपिणु चरणेरहिं ॥
विज्जाहरभूयरभूमिणाहु ।
आढत्तउ आहंडलु णरेहिं । 5
आढत्तउ तरुणियरं किसानु ।
आढत्तउ जेउं जीवियचुएहिं ।
आढत्तउ मंतुग्गमु गहेहिं ।
आढत्तउ मोक्खु वि जडतवेहिं ।
आढत्तउ तुहुं णियक्किरेहिं । 10

४ P धर. ५ A सिंगारहार. ६ P समरु°. ७ AP णिवणडि°.

5 १ A °चारचूर्यधव°; P °चारचूर्यधय. २ A पडिवल्लतुरंग°. ३ AP जमु. 4 A पत्तंगमु.
५ AP कइवएहि. ६ P जडभवेहि.

6 a चिक्कवंत चीत्कारं कुर्वाणाः. 7 a हरिखुर° अश्वखुराः. 9 b सोमुग्गदेह सौम्यदेहः उग्रदेहश्च.
11 b सिय असियमेह शुक्लशरन्मेषः कृष्णमेषश्च. 12 b सवरुच्छवेण संप्राप्तोत्साहेन. 13 b संदणा-
वत्तसेलि स्यन्दनावर्तपर्वते. 15 नृवणडिहिं नृपनटीभिः; पिहुपडकुडिहिं विस्तृतपटकुटीभिः.

5 २ थिइ पडिबलि स्थिते शत्रुसैन्ये; सयडावत्त° शकटावर्ते पर्वते. 3 a णवघणसरेहिं
नवमेषगभीरश्वनिभिः. 4 a °डाहु अग्निः. 6 b किसानु अग्निः. 7 b जीवियचुएहिं मृतकैः.
8 b मंतुग्गमु मन्त्रोच्चारः. 9 a कइयवेहिं कपटैः.

रहणेउरवइ णरवइ सबंधु
अण्णेक्कु पयावइ पोयणेसु
अण्णेक्कु मुसलि तहिं कसणवासु
किं अक्खमि पडुसामत्थु तासु

सहुं णंदणेण चंदाँहिचिंधु ।
आरुद्धु सुद्धु खयकालवेसु ।
अण्णु वि जो दिट्ठुउ पीयवासु ।
देव वि संकाइ णवंति जासु ।

घत्ता — णिसुणिवि तुह चलणु खलयणमलणु देवयाउ साहेप्पिणु ॥ 15
वलइयधणुवलय णं खयजलय थिय महिहरि आवेप्पिणु ॥ ५ ॥

6

दुवई — चवइ खगिंदचंदु करवालविहंडियतुरयकरिसिरे ॥

रत्ततरंतमत्तरयणीयरि णिहणवि रिउं रणाइरे ॥ छ ॥

ता कहइ मंति णामं विहाउ
जइ आणालघणु कयउ तेहिं
एहउ आयारु णराहिवाहं
सो दूयउ जो भासापवीणु
सो दूयउ जो अँहिमाणि दाणि
सो दूयउ जो गंभीरु धीरु
सो दूयउ जो परच्चित्तलक्खु
सो दूयउ जो बुद्धियविसंसु
सो दूयउ जो कयसंधिणामु
सो दूयउ जो णिदिट्ठमंतु
सो दूयउ जो उवईट्ठदंडु
सो दूयउ जो रिउहिययसूलु
णिवसंतगरुयखंधारोलु
पणवेवि तेणं पालियविसिद्धु

जगडिंभहु एवहिं तुहुं जि ताउ ।
सुय दिण्ण पंडिच्छिय पत्थिवेहिं ।
पेसिज्जउ दूयउ को वि ताहं । 5
सो दूयउ जो पंडिउ अदीणु ।
सो दूयउ जो मियमहुरवाणि ।
सो दूयउ जो णयवंतु सूरं ।
सो दूयउ जो पोसियसपक्खु ।
सो दूयउ जो सुविसिद्धवेसु । 10
सो दूयउ जो वज्जरियसामु ।
सो दूयउ जो कुलजाइवंतु ।
सो दूयउ जो संगामचंडु ।
सो दूयउ पेसिउ रयणचूलु ।
तं गच्छिउ वि गिरिगहणंतरालु । 15
अथाणि णिविद्धु तिविद्धु दिद्धु ।

घत्ता — दूएं वज्जरिउं पडु विष्फुरिउ दिव्वपुरिसंगुणजाणउ ॥

गुणिगहणुज्जि तुहुं अणुहुंजि सुहुं पेक्खु णवंपिणु राणउ ॥ ६ ॥

७ A चंदाहचिंधु; T चंदाहविंधु चन्द्रनागविंधाः. ८ A आरुद्धु.

6 १ A खगिंदचंदु. २ A णिहणिवि. ३ A मियमहुरवाणि. ४ A अभिमाणि दाणि. ५ A सारु. ६ A सुविसुद्धवेसु. ७ P उवईट्ठदंडु. ८ P संगामि चंडु. ९ A ते वि. १० A ०पुरिसु. ११ AP गुणिगहणुज्जि.

11 b णंदणेण अर्कक्रीतिना; चंदाहिचिंधु चन्द्रवदुज्ज्वलसर्पध्वजः. 12 a आरुद्धु रुधः; सुद्धु अतिशयेन. 14 a मुसलि विजयो बलभद्रः; कसणवासु नीलाम्बरः. 15 चलणु गमनम्.

6 1 खगिंदचंदु खगेन्द्राणां मध्ये चन्द्रः. 2 ०रयणीयरि राक्षसे; रणाइरे रणाजिरे रणरङ्गे. 3 a विहाउ विधाता; b ताउ पिता. 5 b पेसिज्जइ प्रेष्यताम्. 9 a परच्चित्तलक्खु परमनोज्ञायकः. 10 b सुविसिद्धवेसु समीचीनवेष्टः. 11 a कयसंधिणामु कृतसंधानः. 14 b रयणचूलु रत्नचूडनामा. 17 दिव्वपुरिसगुणं दैवपौरुषबलबलम्. 18 गुणिगहणुज्जि गुणिग्रहणे ऊर्जस्वी.

7

दुवई—जा मग्गिय णिवेण खगसुंदरि सा तुह होइ सामिणी ॥

देवि णमंसणिज्ज सा कामहि किं कामंध कामिणी ॥ छ ॥

मा रसउ काउ चप्पिवि कवालु
मा सरसयणीयलि सुयउ ताउ
मा उट्टउ रहचूरणणिहाउ
दीसउ मा सयणहं मरणहेउ
मा रुहिरु कालवेयालु पियउ
मा करउ मृगावइ पुत्तदुक्खु
पहुदोहवहलधूमोहमलिणिं
रायहु ढोयहि सां तुहुं कुमारि

भक्खंतु म गिद्ध भडंतजालु ।

मा पोयणपुरवरु खयहु जाउ ।

भजंतु म चामरलत्तकेउ ।

रसवंससमुहकंकालसेउ ।

मा सूरकित्ति जमकरण णियउ ।

मा छिज्जउ हलहरकप्परुक्खु ।

जलणजडि पडउ मा पलयजलणि ।

मा हक्कारहि णियगोत्तमारि । 10

घत्ता—जाणियणयणिवहु कयवइरिवहु मंतबलु वि जो वुज्झइ ॥

जेण तिखंडधर जिय ससुरणर तेण समउं को जुज्झइ ॥ ७ ॥

8

दुवई—म करि कुमार किं पि रोसुंभडवयणे बलिसमपणं ॥

करगयकणयवलयपविलोयणि हो किं णियहि दप्पणं ॥ छ ॥

तं सुणिवि भणिउं विट्ठरसवेण
अण्णाणु हीणु मज्जायचत्तु
भरहहु लग्गिवि रिद्धीसमिद्धु
सो घइं पुणुं जायउ विहिवसेण
संताणागय महं तणिय धरणि
दप्पिडु दुट्टु नृवणायभट्टु

भो चारु चारु भासिउं णिवेण ।

मग्गंतु ण लज्जइ परकलत्तु ।

रायत्तणु कुलि अम्हहं पसिद्धु । 5

विणडिउ परणारीरइरसेण ।

किं णक्खत्तं जइ तवइ तरणि ।

मरु मारिवि धिवमि तुरंगकंडु ।

7 १ A मग्गिय खगेण णिवसुंदरि. २ AP मरणभेउ. ३ A संगरसमुह. ४ AP मिगावइ. ५ A छिज्जइ. ६ AP हलहर. ७ AP तुहुं सा. ८ A धरा.

8 १ A रोसुंभडवयणावलिसमपणं; P रोसु भडवयणि. २ P कणगवलय^०. ३ A विट्ठरसवेण. ४ A रयणत्तयकुलि. ५ AP पइं, but K घइं and gloss पादपूरणार्थे. ६ AP जायउ पुणु. ७ AP णिवणाय^०.

7 1 म गि य याचिता; णिवेण अश्वघ्रीवेण. 2 काम हि वाञ्छसि. 3 a रसउ काउ काकः शब्दं करोतु; b भडंत जालु योधानामन्त्रजालानि. 5 a ^०णि हाउ शब्दः. 6 b कंकालसेउ अस्त्रां सेतुः 7 b जमकरण यमकिकराः; णयउ नयन्तु. 9 a पहुदोह^० राजद्रोहः.

8 2 णिय हि पश्यसि. 3 a विट्ठरसवेण विष्टरश्रवसा विष्णुना. 4 a मजायचत्तु त्यक्त-मर्यादः. 5 a भरहहुलग्गिवि चक्रिणं भरतमारभ्य. 6 a घइं पादपूरणे.

तं णिसुणिवि दूषं वुत्तु पंवं पाउसि कालंबिणि रसइ जैव ।
 किं वरिसइ भुवणु भरति तेंव वोळंतु ण संकहि बप्प कैव । 10
 घत्ता—अग्गइ घणर्थणिहिं सीमंतिणिहिं रणु वोळंतहुं चंगउं ॥
 अच्छउ असि अवरु पहरुपरहरु तुह ण सहइ ललियंगउं ॥ ८ ॥

9

दुवई—भासइ विस्सेणु भो जाहि म जंपहि चप्फलं जणे ॥
 तुह पइणो महं पि दीसेसइ बाहुवलं रणंगणे ॥ छु ॥

तं णिसुणिवि दूथउ गउ तुरंतु कोवग्गिजालमालाफुरंतु ।
 हयगीवहु कहइ अहीणमाणु परमेसर रिउ पोरिसणिहाणु ।
 अहिणवविसट्टकंदोदृणेत्तु ण समप्पइ तं परिणुं कलत्तु । 5
 संधाणु ण इच्छइ गरुडकेउ दीसइ भीसणु णं धूमकेउ ।
 जिह सक्कइ तिह विज्जायलेहिं भिडु मुसलहिं सूलहिं सव्वलेहिं ।
 ता पभणइ पहु पीडियकिवाणु एवहिं हउं सोहमि जुज्झमाणु ।
 किंकर णिहणंतहं णत्थि छा य मा को वि भणेसइ हय वराय ।
 अविहेयविहंडणि कवणु दोसु उग्घोसहु लहुं रणरहसघोसु । 10
 दुहमदणुं दप्पविमहणेण एत्तहि वि मृगावइणंदणेण ।
 अवलोयहुं अवलोयणिय विज्ज पेसिय खंगपुंगव वंदणिज्ज ।
 भडथडगयघडरं हंसंपउणु आइय जोइवि पडिवक्खसेणु ।

घत्ता—कण्हहु देवयहिं पुण्णागयहिं गुणपणामसंपणुंउं ॥
 सँत्ति अमोहमुहि त्सवियसुहि धणु सारंगु विइणुणउं ॥ ९ ॥ 15

८ A °थणिहे. ९ A सीमंतिणिहे. १० AP सहेइ.

9 १ AP वीससेणु हो. २ P °दणुदप्प°. ३ AP मिगावइ°. ४ P खगपुंगम. ५ AP °रह-
 हयपउणु. ६ AP °संपुणुउ. ७ AP सत्तियमोहमुहि.

9 b पाउसि वर्षाकाले; कालंबिणि मेघमाला. 11 अग्गइ घणथणिहिं स्त्रीणामधे.

9 1 विस्सेणु विध्वक्सेनो विणुः; चप्फलं चापल्यम्. 2 पइणो स्वामिनः. 4 a अहीण-
 माणु मानाधिकः. 5 a अहिणवविसट्टकंदोदृणेत्तु अभिनवविकसितपद्मनेत्रः. 7 b सव्वलेहिं लोह-
 मयी घाणी. 9 a छा य शोभा. 10 a अविहेयविहंडणि अविनीतानां हनने. 11 a °दणुं दानवः.
 12 a अवलोयहुं विलोकितुम्. 14 देवयहिं देवीभिः; गुणपणामसंपणुंउं प्रत्यञ्चानमनयुक्तं धनुः.
 15 सारंगु बलवत्.

10

दुवई—आणिवि सुरवरेहिं चिरु रक्खिउ मंगलझुणिणिणाइओ ॥

जलयरु पंचयणु कोत्थुहमणि असि हरिणो णिवेइओ ॥ छ ॥

अणु वि गय हय गय दिण्ण तासु	कोमुइ णामें दामोयरासु ।
बलपवहु लंगलु मुसलु चारु	गय चंदिमं णामें हत्थियारु ।
दसैदिसवहधाइयकिरणजाल	दिण्णी उरि घोळइ रयणमाल ।
कंचणकवयंकिउ धवलदेहु	णं संझाराणं सरयमेहु ।
गुर्णणविउ सरासणु धरिउ केंव	मुट्ठिहि माइउं सुकलत्तु जेंव ।
सेयइं चिंधइं उण्णरि चलंति	णं कित्तिवेल्लिपल्लव ललंति ।
छत्तइं णं जयजसससिपयाइं	णं गोमिणिपोमिणिपंकयाइं ।
धरियइं पाइक्कहिं पंडुराइं	विणिवारियदिवसाहिवकराइं ।
दीहरदाढावियडाणणेहिं	रहवरु कट्ठिउ पंचाणणेहिं ।
पक्खरिय सत्ति हिलिहिलिहिलंत	केंयसारिसेज्ज गय गुलुगुलंत ।
हणु हणु भणंत मच्छरविमीस	संणद्ध सुहड पणवियहलीस ।
रणतूरसहासइं तांडियाइं	कुलगिरिवरसिहरइं पांडियाइं ।

घत्ता—गेज्जावलिमुहलि रंजियंभसलि अरिक्किंदपसरियकरि ॥ 15

अविरंयगलियमइ हरि मत्तगइ चडिउ सीहु णं महिहरि ॥ १० ॥

11

दुवई—थक्को धयवडम्मि पक्खुग्गयपवणुइवियपडिणिवो ॥

चलचंचेलेचुंचुंबियचंदक्कधरो खगाहिवो ॥ छ ॥

संणद्धु पयावइ दीहयाहु	असितडिहरु णं खयसलिलवाहु ।
उच्चारिवि जिणवरणाममंतु	संणाहु लइउ मणि जिगिजिगंतु ।
हुयवहजडि हुयवहफुरणतिव्वु	तहु तणुरुहु भुयवलगाहियगव्वु ।

10 १ A हयरह दिण्ण. २ AP चंदियणामें. ३ A दहदिहहवधाहियं; P दहदिसिवहधाइय. ४ P गुणणमिउ. ५ AP कय सज्ज सारि. ६ P वाडियाइं. ७ A रंजियभसलि. ८ AP अविरलं.

11 १ AP °चंचेलचंचुंचुंबियं. २ A °चंदक्कधरो. ३ A उच्चाइवि.

10 २ जलयरुपंचयणु शंभ्यः पाञ्चजन्यः; णिवेइउ दत्तः. 3 a गय गदा. 4 b हत्थियारु आयुधानि. 5 a °वहं मार्गः. 9 a जयजमससिपयाइं जय एव यशः तदेव दशरी तस्य स्थानानि. 11 b पंचाणणेहिं मिहैः. 12 a मत्ति मत्तयोऽश्वाः. 15 a गंजावलिमुहलि श्रेयैयकावलीभिः मुखरे. 16 हरि कृष्णः.

11 २ °चंचेलं षक्त्रम्; चुंचुंबियचंदक्कधरो° स्पृष्टचन्द्रसूर्यविमानः; खगाहिवो गरुडः. 5 b तहु तणुरुहु अर्ककीर्तिः.

पहरणइं लेंतु रणदारुणाइं दिव्वइं वीयव्वं वारुणाइं ।
 संचोइउ कुंजरु गज्जमाणु णउ गेण्हइ दिण्णउं देहताणु ।
 णिच्चिच्चुं चें रोमं चणण कं पाविय रिउ कंपियधणण ।
 भडु को वि ण खग्गहु देइ हत्थु परपहरणहरंणि सया समत्थु ।
 भडु को वि ण लावइ घुसिणु अंगि रावेसइ तणु रिउरुहिरु अंगि । 10
 घत्ता—हरिसं को वि णरु थिरथोरकरु धणुंहरु जं जं णावइ ॥
 पीडिउं कडयडंइ मोडिवि पडइ तं तं थावहु णावइ ॥ ११ ॥

12

दुवइं—विहसिवि सुहडु भणइ लइ गच्छमि दारियकरिवरिंदहो ॥
 काइं सरासणेण किं खग्गें महुं रणवणि मइंदहो ॥ छ ॥

भडु को वि भणइ जइ जाइ जीउ तो जाउ थाउ लुडु पडुपयाउ ।
 भडु को वि भणइ रिउं पंतु चंडु मइं अल्लु करेवउ खंडखंडु ।
 भडु को वि भणइ पविलं वियंति मइं हिंदोलेवउं दंतिदंति । 5
 भडु को वि भणइ हलि देइ णहाणु सुइदेहें दिजइ प्राणदाणु ।
 भडु को वि भणइ किं करहि हासु णिग्गविं सिरेण रिणु पत्थिवासु ।
 भडु को वि भणइ जइ मुंडु पडइ तो महुं रुंहुं जि रिउं हणवि णडइ ।
 भडु पियहि सरंसु वज्जरइ कामि हउं रणादिक्खिउ सरु मोक्खगामि ।
 भडु को वि भणइ असिधेणुयाहिं जसदुद्धु लेमि णरसंथुयाहिं । 10
 भडु को वि भणइ हलि छिण्णु जइ वि महुं पाउ पडइ रिउंसउंहुं तइ वि ।
 भडु को वि सगसणदोसु हरइ सरपत्तइ उज्जुय करिवि धरइ ।
 भडु को वि वद्धतोणीरजुयलु णं गरुडसमुद्धुयपक्खपडलु ।
 भडु को वि भणइ कलहंसवाणि महुं तुहुं जि सक्खि सौहग्गखाणि ।
 घत्ता—परवल अभिडिवि रिउसिरु खुडिवि जइ ण देमि रायहु सिरि ॥ 15
 तो दुक्कियहरणु जिणतवचरणु चरविं घोरु पइसिवि गिरि ॥ १२ ॥

४ AP वायव्वइं. ५ A णिच्चिच्चुं चें रोमं^०; P णिच्चिच्चें सररोमं^०; T णिच्चिच्च निरन्तरम्. ६ AP ^०हरणु सया. ७ AP लावेसइ. ८ P धणहरु. ९ A कडयलइ. १० P थामहु.

12 १ A करेवउ. २ P हिंदोलिव्वउ. ३ AP सुइदेहेइं. ४ AP पाणदाणु. ५ AP तुंडु. ६ A सरिसु. ७ AP रिउसमुहुं. ८ AP गरुडु.

8 a णिच्चिच्चुं चें निरन्तरेण उच्चेन च. 10 b रावेसइ रञ्जियति. 11 णावइ नामयति. 12 थावहु णावइ बलं न धरति.

12 2 मइंदहो सिंहस्य. 3 b पडुपयाउ प्रभुप्रतापः. 5 a पविलं वियंति प्रविलम्बितानि अन्त्राणि यस्य तस्मिन्; b दंतिदंति गजदन्तं. 6 सुइदेहेइं शुविदेहेन. 7 b णिग्गविं स्फेटयामि; रिणु ऋणम्. 8 b रुंडु कबन्वः; णडइ नृत्यति. 11 b रिउसउंहुं रिपुसंमुखम्. 13 b ^०समुद्धुयं कम्पितम्. 14 b सक्खि साक्षिणी.

13

दुवई—लुहि लोयणाइं मुद्धि मा रोवहि हलि भत्तारवच्छले ॥
बंधविं तुह हयारिकरिमोत्तियकंठिय कंठकंदले ॥ छ ॥

पंडिविद्वुविद्वुणिच्चाहणाहं	संणज्झंतहं विहिं साहणाहं ।
वहु कासु वि देइ ण दहियतिलउ	अहिलसइ वहरिरुहिरेण तिलउ ।
वहु कासु वि धिवइ ण अक्खयाउ	खलवइ करिमोत्तियअक्खयाउ । 5
वहु कासु वि करइ ण धूवधुमु	मग्गइ पडिसुहडमसाणधुमु ।
वहु कासु वि णप्पइ कुसुममाल	इच्छइ लैलंति पिसुणंतमाल ।
वहु कासु वि ण थवइ हत्थि हत्थु	तुह लग्गउ गर्येघडणारिहत्थु ।
वहु कां वि ण झुणइ सुमंगलाइं	आवेक्खइ अरिसिरमंगलाइं ।
वहु कासु वि णउ दावइ पईवु	भो कंत तुहुं जि कुलहरपईवु । 10
वहु कासु वि पारंभइ ण णट्टु	संचितइ सत्तुक्बंधणट्टु ।
वहु का वि ण जोयइ किं सिरीइ	पिययमु जोएवउ जयसिरीइ ।

घत्ता—वहु पभणइ भणमि हउं पईं गणमि तो तुहुं महुं थण पेल्हहि ॥
भग्गइ णिययवलि जइ भडतुमुलि खग्गु लेवि रिउ पेल्हहि ॥ १३ ॥

14

दुवई—वालालुंवि करिवि जुज्जेज्जसु विसरिसवीरगोंदले ॥
अरि करिदंतमुसलि पउ देप्पिणु देज्जसु कुंभमंडले ॥ छ ॥

कुंजरघडधल्लियमुहवडाइं	वंसग्गविलंविधयधयवडाइं ।
कुंकुमबंधणच्चच्चियभुयाइं	परिहियमणिंकंचणकंचुयाइं ॥
करल्लुहियगाहियवहुपहरणाइं	णियसामिकंज्जि णिच्छयमणाइं । 5
काणीणदीणढोइयधणाइं	भडकलयलवहिरियतिहुवणाइं ।
वित्तुलंतचित्तणेत्तंचलाइं	अहिणांदियकलसजत्तुप्पलाइं ।
चलचरणचारचालियधराइं	डोह्वावियगिरिविवरंतराइं ।

13 १ P पडिविद्वु. २ AP कखइ but K खलवइ and gloss अभिलपति. ३ A लल्लंत.
४ A गयघडि. ५ AP कासु वि ण कुणइ मंगलाइं.

14 १ A ०कज्जणिच्छय०.

13 1 लुहि लोयणा इं प्रमार्जय लोचने; मा रोवहि रोदनं मा कुरु. 5 b खलवइ अभिलपति.
7 a णप्पइ न अर्पयति. 9 a झुणइ गानं करोति; b अरिसिरमंगलाइं अरिशिरःकपालानि.
13 पेल्हहि पीडय. 14 पेल्हहि पीडयमि.

14 1 वालालुंवि केशाकेशियुद्धम्; विसरिसं असदृशाः; गोंदले संग्रामं.

दलहँलियघुलियवरविसहराईं भयैतसिररसियघणवणयराईं ।
 झलझलियर्वलियसायरजलाईं जलजलियकालकोवाणलाईं । 10
 पयहयरयल्लइयणहंतराईं अणलाक्खियहिमयरदिणयराईं ।
 करिवाहणाईं सपँसाहणाईं हरिहरिगीवाहिवसाहणाईं ।
 आँयइं अणणणहु संमुहाईं असिदाढालाईं णं जँवमुहाईं ।

घत्ता—संचोइयगयइं वाहियहयइं रणरसहरिसविसट्टइं ॥
 दूरुज्झियभयइं उब्भियधयइं वे वि बलइं अब्भिट्टइं ॥ १४ ॥ 15

15

दुवईं—वेणिण वि दुद्धराईं दुणिरिक्खइं कयणियपहुपणामइं ॥

कण्णाहरणकरणरणलंग्गइं जयसिरिगहणकामइं ॥ छ ॥

णरचरणचारचारियगयाईं हरिखरखुरवडणुगयरायाईं ।
 अब्भिय सुहड गय कायराईं रवपूरियदिसगयणंतराईं ।
 वावल्लभल्लससल्लियाईं सोणियजलधारारेल्लियाईं । 5
 लुलियंतकोतँभिण्णोयराईं करवालखलणखणखणसर्राईं ।
 चल्लमुक्कचक्कदारियउराईं लउँडीहयचूरियरहधुराईं ।
 णिवडंतल्लतधयचामराईं नृवकँडयमउडमाणिपिजराईं ।
 कयखगविमाणसंघट्टणाईं किंकिणिमालादलवट्टणाईं ।
 विज्जाहरविज्जावाराणाईं सरपूरियमारियवारणाईं । 10
 जंपाणकवाडविहट्टणाईं मंडलियमाणिल्लोट्टणाईं ।

घत्ता—दिण्णालिंगणइं कयतणुवणइं दंतपंतिदट्टोदुइं ॥

लुंचियकोतँलंइं बिणिण वि बलइं जिह मिहणइं तिह दिट्टइं ॥ १५ ॥

२ AP हलहलिय° . ३ AP भयरसियतसिय° . ४ AP °चलिय° . ५ P सुपसाहणाईं . ६ P आयहिं .
 ७ AP °दाढा इव . ८ AP जममुहाईं .

15 AP °रणि लयाईं . २ P °खुरखणणु° . ३ A °भल्लसरसल्लियाईं ; P °भल्लसरसल्लियाईं .
 ४ A °कंतभिण्णो° . ५ A वरमुक्क° . ६ P लउडियहयचूरिरह° . ७ AP णिव° . ८ A विज्जाकारणइं .
 ९ AP °कुंत° .

9 a °विसहराईं °सर्पाणि . 11 a °लइय° आच्छादितम् . 12 b हरि° कृष्णः ; हरिगीव° अश्वप्रीवः .
 13 b जँवमुहाईं यममुखानि . 14 अब्भिट्टइं विकसितानि . 15 उब्भियधयइं ऊर्ध्वीकृतध्वजानि ;
 अब्भिट्टइं संघट्टं प्राप्तानि .

15 3 b °खुरवडणु° खुराघातः . 4 a गयकायराईं गताः कातरा भीरवः . 6 a लुलियंत°
 भिन्नानि अन्त्राणि . 7 b लउडीहय यष्टिहताः . 8 b नृवकँडय नृपकटकं . 9 b °दलवट्ट-
 णाईं चूर्णकरणानि .

16

दुवई — तां हरिगीवरायसेणावद् धूमसिंहो पधाइओ ॥

सिरिहरिमस्सुवीरसहिउ हरिसेण जगे ण माइओ ॥ छ ॥

तेण घाइयं महिणिवाइयं ।

विल्दुलियंतयं पडियदंतयं ।

पहरजजरं लग्गभयजरं ।

दारिभोयं छिण्णगलछिरं ।

रत्तंघिरं चम्मलंघिरं ।

विहिविणिंदिरं कल्लुणकंदिरं ।

घित्तचामरं तुट्टपक्खरं ।

फुट्टमहलं मुक्ककोतलं ।

विहुरवेंभलं णिग्गयं बलं ।

वद्धमच्छरं तोसियच्छरं ।

कडुयजंपिरं धीरंकेपिरं ।

रंडणच्चिरं कुंतंखंचिरं ।

भडवियारणं कुंभिदारणं ।

भिडियवारणं सिरणिल्लरणं ।

सुहडकलयलं गहियहुलहुलं ।

चम्मभिंदिरं गत्तंछिंदिरं ।

कवयसंजुयं णियवि संजुयं ।

सुरपसंसिरं धुणियं गयसिरं ।

भग्गरहंवरं पडियहयवरं ।

खग्गखणखणं दारुणं रणं ।

पक्खिसंकुलं रक्खसाउलं ।

दंतिदंतयं छिण्णच्छंतयं ।

घत्ता — माहवबलवइणा कयरणरइणा णिययसेण्णु साहारिउं । 25

कुल्लु विहिविण्डियउं दिसिविहडियउं पुत्तेण व उच्चारिउं ॥ १६ ॥

16 १ A ता हयगीब^०; P तो हयगीब^०. २ A धूमसिंहोपधाइओ. ३ AP^०मस्सुवीरस-सहिउ. ४ A हरिसं जगे ण माइओ. ५ P वम्मलंघिरं. ६ P भिग्गयं. AK write in margin in the portion beginning with घद्धमच्छरं down to छिण्णच्छंतयं. ७ P धीरं केपिरं. ८ P कुंतंघिरं. ९ A धुणिवि गयसिरं. १० AP^०रहभरं. ११ A भग्गखणखणं; P खग्गखणखणं. १२ P घणं. १३ P दंतिदंतयं. १४ A छिण्णच्छिण्णयं; P adds विहुरविंभलं, भग्गयं च (ब ?)लं.

16 2 सिरि हरि मस्सु^० श्रीहरिमश्रुनामा वीरः. 3 a तेण धूमशिखसेनापतिना. 8 a विहिविणिंदिरं विधेर्निन्दाकरणशीलम्. 11 a विहुरवेंभलं दुःखविह्वलम्; b णिग्गयं आसितम्. 17 b गहियहुलहुलं गृहीतहस्तशूलम्. 19 b णियवि दृष्ट्वा. 26 सा हरिउं धीरितम्. 27 दिसिविहडियउं दिशामु विघटितम्.

17

दुवई—भीमपरक्रमेण भीमेण वि णासियभीमवईरिणा ॥

पञ्चारिय भिडंत भड बेणिण वि सुरवहुहिययहारिणां ॥ छ ॥

हरिमस्सं काइं पइं मंतु दिट्ठु
हक्कारिउ किं णियप्राणणासु
कुद्धइ तिविट्ठि भुवणेक्कसीहि
ता धूमसिहें भासिउ सरोसु
पंहिलउं पहुणा भुत्ती मणेण
सिहिजडिणा सामिविरोहणेण
दरिसावमि तुह जमरायथात्ति
ता बे वि लग्ग ते सेणणाह
बेणिण वि चालियदिञ्चक्कवाल
बेणिण वि उग्गामियचावदंड
बाणेहिं बाण णहयलि खलंति
पुणु भीमें मुक्कउ अद्धयंदु
रिउदेहमेहि सो पइसरंतु

किं मगिउ परत्तूर्यरणु इट्ठु ।
एवहि पइसेसहु सरणु कासु ।
तडितरलदीहकरवालजीहि । 5
घरदासि हँरंतहुं कवणु दोसु ।
पच्छइ तुम्हहुं दिण्णी अणेण ।
किं एएं जडसंबोहणेण ।
लइ पहरु पहरु जइ अत्थि सत्ति ।
बेणिण वि सुरकारिकरसरिसवाह । 10
बेणिण वि जयकारियसामिसाल ।
बेणिण वि आमंल्लियकुलिसकंड ।
तंणिणहसणरुह हुयवह जलंति ।
धूमसिहहु णं अट्टमउ चंदु ।
दिट्ठुउ सुहिणयणहु तमु करंतु । 15

घत्ता—मारिवि धूमसिहु खयकालणिहु खाणि हरिमस्सु णिहत्तंउ ॥

णवर करंतु कलि भड देंतु बलि असणिघोसु संपत्तउ ॥ १७ ॥

18

दुवई—सो जियसत्तु णाम धरणीसं जममुहकुहरि ढोइओ ॥

सरविसहरणिरुद्ध वरपरिमल्लु चंदणतरु व जोइओ ॥ छ ॥

तओ कंपणेसो	समुपण्णरोसो ।
महेणं महंतो	णहंतं पिहंतो ।

17 १ A °वहरिणो. २ A °हारिणो. ३ AP हरिमस्सु. ४ AP परतिय°. ५ AP पाण-
णासु. ६ A °तरड°. ७ A हणंतहं. ८ AP पहिली पहुणा. ९ A तं णिहसिवि णर हुववह. १० AP
णिहत्तउ.

18 १ AP °णिरुद्ध. २ A °परिमल.

17 4 a हक्कारिउ आकारितः. 8 b जडसंबो हणेण जडविवादेन. 9 a जमरायथात्ति
यमगृहम्. 13 b तणिणहसणरुह तेषां बाणानां परस्परघर्षणेनोत्पन्नाः. 14 a अद्धयंदु अर्धचन्द्राकारो
बाणः. 16 णिहत्तउ मारितः. 17 भड देंतु बलि भट्टान् बलि ददत्.

18 1 सो अज्ञानिघोषः. 2 सरविसहरणिरुद्ध शरा बाणा एव विपधरास्तैर्विद्धितः. 3 a कंपणेसो
कम्पनो राजा. 4 b पिहंतो आच्छादयन्.

कराह्दवावो	महाभीमभावो ।	5
सदप्पं चवंतो	सरोहं सवंतो ।	
धण णिल्लुणंतो	गह्दे हणंतो ।	
हण कप्परंतो	णरे चप्परंतो ।	
जवेणं चरंतो	रणे वावरंतो ।	
परं णिक्खिवेणं	जणं णिवेणं ।	10
ग्वुरुप्पेण भिण्णो	कयंतस्स दिण्णो ।	
जयस्सावलुद्धो	जमो णं विरुद्धो ।	
रउहारिमहो	पह खेरिंदो ।	
पियारत्तच्चित्तो	सयं झत्ति पत्तो ।	
मरुद्धयच्चिंधो	सतोणीरखंधो ।	15
दिसालग्गकित्ती	तहिं अक्ककित्ती ।	
थिओ अंतराले	भडाणं वमाले ।	

घत्ता—तेण सस्सामियहु गयगामियहु रूसिवि दिण्णउ उत्तरु ॥

देव पराइयहि कारणि त्थहि किं आढत्तउ संगरु ॥ १८ ॥

19

दुवई—लज्जिज्जइ रणेण णित्तेणं दुज्जसमल्लिणकारिणा ॥

ओसरु जाहि राय किं एणं पुरिसगुणोहहारिणा ॥ छ ॥

ता भणिउ समरभरधुरभुएण	णीलंजणपहदेवीसुएण ।	
रे अक्ककित्ति गुरुसिक्खवंतु	लज्जहि ण कं व विप्पिउ चवंतु ।	
तुह ताए अवरु वि पइं सदप्प	जं आणालंघणु कयउं वप्प ।	5
तहु लग्गउ हउं णियपरिहवासु	सस तेरी पुणु मणु हरइ कासु ।	
ता रविकित्ति दीवियदियंतं	सुपिसक्क मुक्क धगधगधं गंत ।	
खगणाहहु खंडिउ चावदंडु	गुणवंतु तो वि किउ खंडंखंडु ।	

३ AP कराह्द^२. ४ AP सरोसं वंहंतो. ५ A omits this foot. ६ P जमो णाविरुद्धो.
७ P सतोणीरकंधो. ८ AP तियहे.

19. १ AP ^०धुरभुएण. २ A ^०दियंति. ३ A ^०धं गंति. ४ AP खंडु खंडु.

6 b सरोहं सवंतो बाणसमूहं वर्पन्. 8 b चप्परंतो अभिभवन्. 12 a जयस्सावलुद्धो जयस्य लोभिष्ठः 17 b वमाले कोलाहले.

19. 1 णित्तेणं निस्तेजसा अन्यायेन. 5 a सदप्प हे सगर्व. 6 a णियपरिहवासु निज-पराभवस्य; b सस स्वसा. 7 a रविकीत्ति अर्ककीर्तिना.

अण्णेक्कु सरासणु क्ष सि लेवि	राएण तासु वाँणं हणेवि ।
चूडामणि पाड्डिउ विप्पुरंतु	णं णहँयलि णिवड्डिउ रवि तवंतु । 10
माँरुयचलंतचलमयरकेउ	तावंतरि थक्कउ कार्मदेउ ।
बंधंतु ठाँण संधंतु बाणु	तेणक्ककित्ति माँरिज्जमाणु ।
रक्खियउ पयावइराणएण	धणुवेयविवेयवियाणएण ।
केसरिणा णं तीसिउ कुरंगु	किँउँ पाराउट्टउ तँ अणंगु ।
ससिसेहरेण पहु पोयणेसु	मेहँ पच्छाइउ णं दिणेषु । 15
अंतरि पइसिवि तिणयणु तिसूलि	सिहिजडिणा णिज्जिउ चंदमउलि ।

ग्रन्था—किँकँ हयगलहु पालियल्लहु कोवँ कहिँ वि ण माइउ ॥
 णामँ णीलरहु णं कूरगहु अवरु खयरु उट्टाइउ ॥ १९ ॥

20

दुवई—पभणइ चावपाणि रे सिहिजडि जं पइँ दुक्कयं कयं ॥
 तं हयगीवदेवपयपंकयदोहफलं समागयं ॥ छ ॥

हो किं बोल्लमि	माँरमि घल्लमि ।	
एँव चवेप्पिणु	भुय विहुणेप्पिणु ।	
आउहु दावइ	धावइ पावइ ।	5
किँकरि किँकरि	कुँजरि कुँजरि ।	
खरखुरखयधरि	हरिवरि हरिवरि ।	
णयणाणंदणि	संदणि संदणि ।	
चप्पिवि लग्गइ	रंगइ णिग्गइ ।	
थामँ वग्गइ	भंडणु मग्गइ ।	10
पइसइ दूसइ	रुँजइ रूसइ ।	
हिंसइ तासइ	दीसइ णासइ ।	
दुक्कइ हक्कइ	कोक्कइ थक्कइ ।	
रिउँ पच्चारइ	चूरइ जूरइ ।	
खलइ णिवारइ	दारइ मारइ ।	15

५ AP बाणेहिँ हणेवि. ६ A णहयलणिवड्डिउ. ७ A reads *a* as *b* and *b* as *a*. ८ AP कामएउ. ९ A वंधंतु तोणु. १० P पारिज्जमाणु. ११ AP णासिउ. १२ A थिउ पारड्डिउ गरुउ अणंगु. १३ A किँकर.

20. १ AP दुक्कियं. २ AP मारिवि. ३ A भंजइ.

11 *b* का म देउ प्रजापतिमहाराजः. 14 *b* पा रा उ ट्ट उ पराङ्मुखः. 15 *a* स सि से हरेण चन्द्रशेखरेण. 16 *a* तिणयणु चन्द्रशेखरः. 17 किं करु भृत्यो नीलरथः; हयगलहु अश्वघ्रीवस्य.

20. 2 °दो ह फ लं द्रोहफलम्. 10 *a* थामँ बलेण.

करिकरचंडिहि	लालोपिंडिहि ।	
दंतादंतिहि	कोंताकोंतिहि ।	
णारकिलिविंडिहि ^६ ।		
केसाकेसिहि	पासापासिहि ।	
उवलाउवलिहि	मुसलामुसलिहि ।	20
इय सो जुञ्जिउ	भीमुहउज्जिउ ।	
दुंदुहिसदें	ता बलहदें ।	
अरि हकारिउ	दइवें पेरिउ ।	
सो वि पराइउ	चावविराइउ ।	
णं णवजलहर	विद्धउ हलहर ।	25
तेण उरत्थलि	उट्टियकलयलि ।	
कंपियणियबलि	हरिसियपरबलि ।	
वाहुसहाणं	जयवइजाणं ।	
सीरं ताडिउ	उद्धु जि फाडिउ ।	
णीलरहाहिवि	हइ कइ जयरवि ।	30

घत्ता — णाणाणहयरहिं संधियसरहिं सहय्यहिं सगयहिं सरहहिं ॥
वेडिउ जिब्बहर दूसहपसर बल्लु चित्तंगयपमुहहिं ॥ २० ॥

21

दुवई — मायासाहणाहं मयवंतहं माणियपहुपसायहं ॥
पक्कें हलहरेण राणि जित्तइं सत्तसयाइं रायहं ॥ छु ॥

सुयरिवि पहुदिण्णी तुप्पधार	केण वि विसद्विय रिउखग्गधार ।
सिरु छिण्णउं णिग्गय रत्तधार	गय पंवं वप्प धाराइ धार ।
केण वि सुयरिवि पहुअग्गोविंडु	इच्छिउ पडंतु णियमासपिंडु ।
केण वि सुयरिवि पहुचीरु रम्म	मण्णिउ लंवंतु सदेहचम्म ।

४ A णायभुवदंडहिं. ५ A किलिवंदिहि. ६ AP add after this: दंडादंडिहि. ७ A भीउहउ-
ज्जिउ. ८ A सयलहिं. ९ A चलचित्तंगय.

21 १ P °साहणेहि. २ A सुमरिवि; P सुअरिवि. ३ A रुप्पधार. ४ A सुअरिउ; P सुअ-
रिवि. ५ AP °अग्गपिंडु. ६ A सुमरिवि; P सुअरिवि.

16 b लालापिंडिहिं गजमुखाप्रकाष्ठैः. 18 a °किलिविंडिहिं बाहुञ्जोटिकाभिः. 19 b पासापासिहिं
नागपाशादिभिः. 21 b भीमुहउज्जिउ भयमुखरहितो नीलरथः. 23 a अरि नीलरथः. 29 a सीरं
हलेन. 30 b हइ हते सति. 32 जिब्बहर बलभद्रः.

21 1 °साहणाहं सैन्यानाम्. 3 a पहुदिण्णी प्रभुणा भोजनवेलायां दत्ता. 5 a पहुअग्ग-
विंडु प्रभुणा दत्तः प्रथमाहारपिण्डः.

केण वि सुयरिवि पहुदिणु गौउं	छड्डिउं णियजीवियभूयगांउं ।
केण वि सुयरिवि पहुचामराइं	सलहियइं पक्खिपक्खंतराइं ।
पहुसुकियभरहु वंकेवि वयणु	केण वि पडिवणउं वाणसयणु ।
केण वि सुयरिवि पहुछत्तछाहि	आसंधिय घणसरपुंखछाहि । 10
केण वि सुंमरिवि पत्थिवपसाउ	चक्खिउ अरिवीरपहारसाउ ।
केण वि सुयरिवि पहुपालियाइं	मयगलकुंभयलइं फौलियाइं ।
दुव्वारवइरिमग्गणविहत्तु	भल्लारउं धीरउं रायरत्तु ।
कासु वि रणमंदिरसांमिणीइ	हियवउं लइयउं सिंवंकामिणीइ ।
घत्ता—कासु वि सिरकमलु ओट्टउंउदलु गिद्धु सचंचुइ चालइ ॥ 15	
परितोसियजणहु महिवइरिणहु णं मोल्लवणु णिहालइ ॥ २१ ॥	

22

दुवंइ—ता सहस त्ति पत्तु हरिकंधरु पभणइ तसियवासवो ॥
भो भो कहसु कहसु कहिं अच्छइ सो महु वइरि केसवो ॥ छ ॥

ता उत्तु कण्हेण भो मेइणीराय	सोहं रिऊ केसवो णहि णिण्णाय ।
जाणिज्जप अज्ज दोण्हं पि रूसेवि	को हणइ सिरु लुणइ रणरांणि पइसेवि ।
कुड्ढेण सिरिकुमुइणीपुण्णयंदेण	अलयाउरीसेण खेयरणरिंदेण । 5
संगामरामारइच्छाणित्तत्तेण	तं सुणिवि पडिलिविउं सिहिगीवपुत्तेण।
कण्णामुहालोयसुहादिणराएण	भग्गो सि किं मित्त वरइत्तवाएण ।
रत्तो सि किं मूढ गयणयरबालाहि	ओसरसु मा पडसु खग्गग्गिजालाहि ।
णवकंदकालिंदिमसलउलकालेण	कोवारुणच्छेण भंगुरियभालेण ।
जम्मंतरावद्धवइराणुयंधेण	पडिउत्तु पडिकणहु चलगरुलविंधेण ।
परदविणपरधरणपरधरिणिकंखाइ	णडिओ सि पाविट्ट किं चोरसिक्खाइ ।

७ A गाउ; P गामु. ८ A उड्डिउ. ९ A °गाउ; P °गामु. १० A सुअरिउ; P सुअरिवि. ११ A पालियाइं. १२ A °सामिणीहि. १३ A कामिणीहि. १४ A उट्टउलदल.

22. १ AP पुण्णइंदेण. २ A कण्ठो महा. ३ P गयणयरबालाहि. ४ AP °णुयंधेण. ५ A पडिलिविउ.

7 a °गाउं ग्रामः; b °गाउं ग्रामः समूहः. 8 b सल हियइं श्लाघितानि. 11 b °पहारसाउ प्रहार-स्वादः. 13 a °विहत्तु विभक्तः खण्डितः; b रायरत्तु रात्रि रक्तमनुरक्तम्. 15 ओट्टउडदल ओष्ठ-पुट्टदलम्.

22. 1 हरिकंधरु अश्वघ्रीवः. 3 b णिण्णाय परस्त्रीवाञ्छया अन्यायकारकः. 4 a रूसेवि रोषं कृत्वा. 5 a °पुण्णयंदेण पूर्णचन्द्रेण. 6 a °णित्तत्तेण °नियुक्तेन. 8 a गयणयरबालाइ खेचर-कन्यायाम्. 9 a णवकंद° श्रावणमेघः. 10 b पडिकणहु अश्वघ्रीवः.

एवं पजंपंत कंपविर्यमहिवट्ट करिदंत परिहट्टभुयदंडसुपवट्ट ।
 दाप्पिट्ट णिरु रुट्ट दट्टोड्ड भडजेड्ड ते बे वि अम्भिड्ड वईकुंठहयकंठ ।
 ते बे वि मणिमउडकुंडलसुसोहिल्ल ते बे वि कोदंडमंडलविलासिल्ल ।
 ते बे वि णं सीह लंबवियलंगूल ते बे वि णं लग्ग हंजंतं सहूल । 15
 ते बे वि विसविसम ते बे वि तडितरल ते बे वि मरुचवल ते बे वि कुलधवल ।
 घत्ता—वेण्णि वि दाणणिहि सिरितोसविहि मयपरवस उज्झियभय ॥
 वेण्णि वि दीहंकर गंभीरसर राणि लग्गं णं दिग्गय ॥ २२ ॥

23

दुवई—वेण्णि वि अचछरच्छिविच्छोहणियच्छियवद्धमच्छरा ॥
 वेण्णि वि णं जलंतपलयाणल वेण्णि वि णं सणिच्छरा ॥ छु ॥

रिउणा ण णिट्टविउ	कण्हेण पट्टविउ ।	
जहिं सण्णु तहिं गरुलु	जहिं अग्गि तहिं सल्लिल्लु ।	
जहिं सिहरि तहिं कुल्लिसु	जहिं तुरउ तहिं महिसु ।	5
जहिं विडवि तहिं जलणु	जहिं मेहु तहिं पवणु ।	
जहिं रत्ति तहिं दियहु	जहिं सीहु तहिं सरहु ।	
जहिं कालु सोंडालु	तहिं कुडिल्लु दाढालु ।	
केसरि पवित्थरइ	णहरेहिं उत्थरइ ।	
जहिं भीमु वेयालु	तहिं मंतु असरालु ।	10
जुंजेवि कोवेण	गोविंददेवेण ।	
रिउणो णिहित्ताउ	विज्जाउ जित्ताउ ।	
जुज्जेवि भूवेहिं	पडिवक्खरूवेहिं ।	

घत्ता—वहुँरुविणिण सुरकामिणिण खगवइ भणिउ ण सकमि ॥
 हलहरसिरिहरहं पहरणकरहं माणु मलंतु चवकमि ॥ २३ ॥ 15

६ A कंपइय महिपट्ट. ७ A 'पविहट्ट'. ८ P वइकुंत°. ९ A रूजंतसहूल. १० A दीहरकर.
 ११ A लग्ग णं.

23 १ P °विच्छोहा णियच्छिय. २ A कुडिसु. ३ A कोलु. ४ AP कुडिल. ५ A मंति.
 ६ A जुंजेवि; P जं जं वि. ७ P has पुणु before बहु°. ८ AP मलंति चम°.

12 b °परिहट्ट° परिवृष्टौ. 13 b वइकुंठहयकंठ कृष्णाश्वग्रीवौ. 16 a विसविसम विषवद्विपमौ.

23 1 अ च्छर च्छि वि च्छो ह णि य च्छि य° देवाङ्गनालोचनचापत्यविलोकननिमित्तम्. 2 स णि-
 च्छरा शनैश्वराः. 7 b सरहु अष्टपदः. 8 a कालुसोंडालु कृष्णगजः. 13 b पडिवक्खरूवेहिं
 अश्वग्रीवरूपैः. 15 चवकमि बिभेमि.

24

दुवई—जंपिउं ह्यगलेण किं केण वि तिहुयणि धीरु हीरण ॥
महुं णियबाहुदंडथिरसहयैर पइं किर काइं कीरण ॥ छ ॥

तेणेव भणेप्पिणु मुक्क सत्ति
गयणयलि पंति उरयलि धुलंति
विप्फुरिय धरिय दामोयरेण
चंदणचच्चियकुसुमंचियंगु
उग्गामिउ णाई जगखइ खयक्कु
बोल्लियउ पयावइपुत्तु एम्ब
गोवालवाल अविवेयभाव
इय भणिवि तेण घल्लिउ रहंगु
तं देवि पयाहिण पइयतासु
गहगहियदिवायरलील वइइ
आयासहु णिवडिउ पुष्फवासु
संभरु तुहुं जिणवरणाहचरणु
ता भणइ सुहइ रणरंगदुक्कु

मेहें चलविज्जु व धगधगंति ।
चल पलयकालजाँल व जलंति ।
संकेयागय णारि व णरेण । 5
परिमलमिलंतगुमुगुमियभिंणु ।
पुणु पडिवक्खें करि लेवि चक्कु ।
एवहिं पइं णउ रक्खंति देव ।
दे देहि कण्ण मा मरहि पाँव ।
तं पेक्खिवि केण ण दिण्णु भंगु । 10
चडियउ दाहिणकरि केसवासु ।
णं हरिसुहमहिरुहकुसुमु सहइ ।
रिउ कण्हि पबोल्लिउ सो सहासु ।
अहवा लैइ महुं पइसरहि सरणु ।
हउं मण्णमि एउं कुलालचक्कु । 15

घत्ता—पइं पुणु मणि गणिउं चंगउ भणिउं भिक्खागयहु ससंकहु ॥
तिव्वल्लुहामहणु गरुयउं गहणु तिलखलखंडु वि रंकहु ॥ २४ ॥

25

दुवई—अज्ज वि सिंसुमयच्छि महु अण्णिवि करि वणपणइसंधणं ॥
मा पावहि कुमार तरुणत्तणि ताडणमरणबंधणं ॥ छ ॥
असहंतेणं रिउणा दिण्णं ससवणसूलं दुव्वयणं ।
काउं वयणं डसियाहरयं भूभंगुरतंविरणयणं ।

24 १ P °सहयरए अवरिं काइं. २ AP पडंति. ३ AP °जालेव पडंति. ४ A जुगखय-
खयंक्कु; P जुगखइ खयक्कु. ५ A जाव. ३ A पइयरासु; P पइययासु. ७ A लहु.

25 १ AP °पणयसंधणं.

24 1 हीरण हार्यते. 4 b जालव ज्वालेव. 7 a खयक्कु प्रलयसूर्यः. 8 a पयावइपुत्तु
त्रिपृष्ठः. 10 a रहंगु चक्रम्. 11 a पइयतासु प्रहतत्रासम्. 12 b °सुहमहिरुह° शुभवृक्षः. 13 b
सहासु सहास्यम्. 17 गहणुं दुर्लभम्.

25 1 सिंसुमयच्छि बालमृगाक्षी स्वयंप्रभा; वणपणइसंधणं निविडस्नेहसंधिम्. 3 ससवण-
सूलं स्वकर्णशूलम्. 4 भूभंगुरतंविरणयणं भ्रूभङ्गयुक्तमाताम्रं नयनं यस्मिन् वदने.

द्ररिणा दित्तं घित्तं चक्रं सहसाराधाराजलियं 5
 ह्यगलगलकंदलयं दलियं बहलं कीलालं गलियं ।
 कुंडलकिरणं फुरियकवोलं कं कुंभिणिवलयइ पडियं
 णं सरसं तामरसं सदलं कालमरालाहिवखुडियं ।
 कामिणिकारणि कलहंसमत्तो परणरकरसरहयगतो
 आसग्गीवो वियलियजीवो सत्तमर्णरयं तं पत्तो ।
 णहयरविसहरमहिमणुएहिं सामि भणेण्णिणु संगहिओ
 जयजयरवपूरिउ भुवणेहिं हरि हलहरसहिओ महिओ ।
 हिंडिवि दाहिणभरहतिखंडे णरवइ सवसं को ण णिओ
 मागहदेवो वरतणुणामो अवि य पहासो तेण जिओ ।
 दिणयरकित्ति हुयवहजडिणा हलिणा तस्स पयावइणा 15
 बद्धो पट्टो विउले भाले मंगलविलसियजणरइणा ।
 पउरपयावाकंपियभुवणो असिवरदूसियकूरमई
 णियकुलकुवलयकुवलयबंधू जाओ कण्हो चक्कवई ।
 उहसेदीणं रायं काउं जलणजडिं ससुरं खयरं
 आओ गुरुयणपर्णवियसीसो पुणरवि तं पोयणणयरं । 20
 घत्ता—लइ दीसइ पवर एउ वि अवरु णिच्छयणियमणिउत्तं ॥
 इह सुपुरिसचरिउं बहुगुणभरिउं जगि आदनु समत्तं ॥ २५ ॥

26

दुवई—मणहरभहलकखणायारहं णहयललगकुंभहं ॥
 दोचालीसलकख मायंगहं अरिक्खिरवणिसुंभहं ॥ छ ॥

तेत्तिय रह रणभरजोत्तियाउ	पायालहु कोडिउ तेत्तियाउ ।
जलथलगयणंतरजंगमाहं	णवकोडिउ जाइतुरंगमाहं ।
जंभारिपीलुलीलागईउ	महएविउ अट्ट महासईउ । 5

२ A घित्तं दित्तं चित्तं. ३ P कलहु. ४ A णरए तं पत्तो. ५ AP पूरिय. ६ A पवर°. ७ A कूरगई; P कूरमई. ८ AP णियकुलणहयल°. ९ A राउं काउं. १० A °णमिय°.

26 १ A णहयरलगा. २ A णव भणियउ जाइ°.

6 ह्यगल° अश्वग्रीवः; कीलालं रुधिरम्. 7 कं मस्तकम्; कुंभिणिवलए भूमण्डलं. 8 कालमराला-
 हिव° यम एव हंसाधिपः. 9 °सरहयगतो सह अरैर्वर्तते इति सरं चक्रं तेन हतगात्रः. 15 दिणयर-
 कित्ति अर्ककीर्तिना. 16 मंगलविलसियजणरइणा मङ्गले विलसिता जनानां रतिर्यत्र तेनार्ककीर्तिना.
 18 °कुवलयबंधू चन्द्रः. 19 उहसेदीणं उभयश्रेण्योः.

26 3 b पायालहु पदान्तः. 4 b जाइतुरंगमाहं जात्याश्रानाम्. 5 a जंभारिपीलु° ऐरावणः.

गिरु पीणपीवरुणयथणीहिं
 सोलह सहास देसंतराहं
 सोलह सहास धरि पत्थिवाहं
 तह णव सहास मेच्छाहिवाहं
 चउवीस सहस वरपट्टणाहं
 छत्तीस सहस साहिय पुराहं
 पञ्चतणियासहं णिवइ णयइं
 गिरितरुजलवाहिणिसंगमाइं
 गामहं कोडिउ अडदाल जासु
 जा णाम सयंपह इट्टणारि

सोलह सहास सीमंतिणीहिं ।
 सोलह सहास णांडयवराहं ।
 सोलह सहास खेडाहिवाहं ।
 पण्णास सहस दोणामुहाहं ।
 सत्तेव सहस संवाहणाहं । 10
 वसुसमसहास जक्खामराहं ।
 पण्णास णिउत्तइं तिण्णि सयइं ।
 चउइह वणदुग्गइं दुग्गमाइं ।
 किं अक्खमि संपय वप्प तासु ।
 जा णहयरणाहहु हुइय मारि । 15

घत्ता--तहि परमेसरिहि रहरससरिहि हरिणा हरिसरवण्णा ॥
 पहिलउ सिगिजउ वीयउ विजउ तणय दोणिण उप्पण्णा ॥ २६ ॥

27

दुवई—ता सिहिजडि सधुत्तु परिपुच्छिवि हरि हलहर पयावई ॥
 गउ रहणेउरम्मि दहं जिणगुणसुमरणसमियदुम्मई ॥ छ ॥

सो तहिं ए पत्थु वसंति जांव
 सो पुच्छिउ हरिताएण कुसलु
 असहायसहेजउ सच्चसंधु
 तं सुणिवि तेण खयरेण उत्तु
 थिरु धरिवि पंचपरमेट्टिसेव
 पयइं वयणइं आयणियाइं
 ता एण सहहि संसं णियाइं
 सणएण पयावइपत्थिवेण
 अणुहुत्तउं इच्छिउं पुत्तसोक्खु
 लइं जामि रण्णुं पावज्ज लेमि
 हरिहलहरमउडणिरुद्धपाउ

बहुकालहिं णहणरु दुक्कु तांव ।
 सुंहुं अच्छइ जिणपयपोमभसलु ।
 खयराहिउ गुणि महु परमबंधु । 5
 मेल्लिवि खगणिवचक्केसरत्तु ।
 महिवइ ससुरउ पावइउ देव ।
 सज्जणचरियइं मणि मणियाइं ।
 इंदियसुहाइं अवगणियाइं ।
 आउच्छिय तणुरुह वे वि तेण । 10
 एंवहिं संसाहमि परममोक्खु ।
 वयसंजर्मभारहु खंधु देमि ।
 पत्थिउ थिउ केव वि णाहिं ताउ ।

३ P णडणयवराहं. ४ AP' तहो. ५ A णिवइ णियइं. ६ A °संगमाहं. ७ A °दुग्गमाहं.

27 १ AP णहयरु. २ A सुह अरुछइ. ३ A रण्णि. ४ AP संजमु.

12 a णयइं नतानि. 16 तहि तस्यां स्वयंप्रभायाम्; हरिसरवण्णा हर्षमनोहरौ.

27 2 रहणेउरम्मि रथनूपुरचक्रवालम्. 3 a ए कृष्णहलिप्रजापतयः; b णहणरु खेचरः.
 4 a हरिताएण प्रजापतिना. 5 a °सहेजउ °सहायः. 7 b पावइउ प्रव्रजितः. 9 a संसं णियाइं
 शंसां प्रशंसां नीतानि. 10 a सणएण सन्यायेन.

णिम्मुक्कमाणमायामएहिं
परिसेसिवि मंदिरमोहवासु

गरणाहहं सहं सत्तहिं सपहिं ।
वउ लइउं पासि पिहियासवासु । 15

ग्रत्ता—थिउ परिहरिवि जणु पंयसेवि वणु णिच्चमेव णिच्चलमइ ॥
अट्ट वि णिद्धुणिवि कम्मइं जिणिवि गउ सिवपयहु पयावइ ॥२७॥

28

दुवई—एत्तहि णिसियविसमअसिधारातासियणरवरिंदहां ॥
चउरासीदि लक्ख गय वरिसहं ताहिं पुरवरि उविंदहो ॥ ७ ॥

दीहासीचावपमाणगत्तु
णिद्धम्माच्चित्तु णिल्लुत्तणाणु
जिह सुत्तउ तं व जि कण्हलेसु
उप्पणउ तमतमपहि तमोहि
तेत्तीससमुद्दपमाणु आउ
जायउ णारउ णारयहं गम्मु
संइं रुयइ सयंपह कंत कंत
उट्टुट्टि णिहालहि सुहिमुहाइं
बलएवहु धाहारुणएण
णिसुणेवि साहुवयणामयाइं
पियंविहहं हुयवह पइसरंति

अण्णहिं दिणि भोयसुहें अत्तित्तु ।
वहुंतमहंतैरउद्दञ्जाणु ।
मुउ कण्हु जमहु किर को ण वेसु । 5
पंचविहदीहदूसहदुहोहि ।
पंचसयसरासणतुंगकाउ ।
भणु कंवणु ण मारइ भीमकम्मु ।
अतुलबल देव हयगलकयंत ।
दीहइ णिइइ सुत्तो सि काइं । 10
लोय वि रुयंति कारुणएण ।
णिज्झाइवि जिणपयंपकयाइं ।
वारेवि सयंपह अणुमरंति ।

५ AP पइसरिवि वणु. ६ A णिद्धविवि.

28 १ AP चउरासी वि. २ AP वहुंतरउद्दमहंतञ्जाणि. ३ P कोण दोसु. ४ A विहपंच-
दीह°. ५ AP केम ण मारइ. ६ A संरुयइ. ७ P पियविरहएं.

15 a परिसेसिवि त्यक्त्वा. 16 पयसेवि प्रविश्य.

28 1 णि सिय° तीक्ष्णा. 2 उ विं द हो कृष्णस्य. 3 b अत्तित्तु न तृप्तः. 4 b वेसु द्वेष्यः.
6 b पंचविहदुहोहें परिणामदेहवेदनाविक्रियाः परस्परोदीरितदुःखाः. 9 b हयगलकयंत अश्वग्रीवस्य
कृतान्त. 11 a धाहारुणएण धाहारुदितेन.

स्त्रिविजयहु वंधिवि रायपट्टु वणु रायसहासहिं सहुं पयट्टु ।
गुरु करिवि महारिसि कणयकुंभु तउ चिण्णउ सीरिं रइणिसुंभु । 15

घत्ता—गउ मोक्खहु विजउ जिणधंमधउ तेएं भरहु भडारउ ॥
सोसियमोहरसु भुवणंतजसु पुष्पयंतसरवारउ ॥ २८ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे विजयतिविट्टहयगीवकहंतरं
णाम दुवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५२ ॥

८ A सीरिं. ९ AP रयणिसुंभु. १० A जिणधंमरओ.

15 b रइ णि सुंभु रतिविनाशकं रागरहितमित्यर्थः. 16 तेएं भरहु तेजसा नक्षत्राच्छादकः. 17 पुष्प-
यंत सरवारउ पुष्पाण्येव कान्ताः शरा यस्य तस्य कामस्य वारको निषेधकः.

पणविवि देवहु णेयंतणिउंजियदिट्ठिहि ॥
वासवपुज्जहु सिरिवासुपुज्जपरमेट्ठिहि ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो कल्लाणसयालओ	मायाभावसयालओ ।	
हरिणवंदपहुआमणो	कुणयकुडंगहुयासणो ।	
कणयरकविलणिवारणो	अज्जणवारिणिवारणो ।	5
दुविहकम्मकयणिज्जरो	सुहयावयवो णिज्जरो ।	
जो णिण्णासियभंयजरो	दाणालो जिणकुंजरो ।	
जस्स अणंतं वीरियं	अवि णे हणइ णियवइरियं ।	
जो ण महइ दियवइरियं	मज्जे जेण ण ईरियं ।	
सुत्तं जस्स ण मंसए	पाए जस्स णमंसए ।	10
अरइयरइणिव्वाणओ	इंसकेऊ णिव्वाणओ ।	
वारहमो तित्थंकारो	पणयाणं तित्थंकारो ।	
जो जम्मंवुहिपोयओ	वसिकयहरिकरिपोयओ ।	
बुज्झियवत्थुवियप्पयं	तं णमिउं परमप्पयं ।	
भणिमो तस्स महाकहं	च्चिण्णं तेण तवं कहं ।	15
कुलबलजाईसामयं	मोत्तुं जम्मं सामयं ।	
काउं देहं खामयं	जिह लज्जं मोक्खामयं ।	

यत्ता—तिह हउं भासमि सुणि सेणिय किं सिरिगावें ॥
जिणगुणचित्तइ चंडालु वि मुच्चइ पावें ॥ १ ॥

1 १ भवजरो, २ AP जस्साणंतं, ३ A णिहणइ, ४ AP इंसकेओ.

1 1 णेयंतणिउंजियदिट्ठिहि ज्ञेयान्ते प्रमेयपर्यन्ते नैकान्ते वा नियुक्ता दृष्टियेन तस्य, 3 a कल्लाणसयालओ पञ्चमहाकल्याणानामभ्युदयपरंपराणां च सन् शोभन आलय आश्रयः, कल्याणशतानां वा आलयः; b मायाभावसयालओ मायापरिणामानां सदा लयो विनाशो यत्र, 4 a हरिणवंदपहुआसणो हरिणवृन्दानां प्रभवः सिंहाः आसने यस्य; b कुणयकुडंगहुयासणो कुनया एव कुडंगं लघु-शाटक (वृक्ष) समूहस्य हुताशनोऽग्निः, 5 b अज्जणवारिणिवारणो अर्जुने श्रंतं वारिनिवारणं ऋत्रं यस्य, 6 a दुविहकम्मं द्रव्यभावरूपं शुभाशुभरूपं वा द्विविधं कर्म; b सुहयावयवो सुभगशरीरावयवः; णिज्जरो जरारहितः, 7 b कुंजरो प्रधानः, 9 a दियवइरियं द्विजपतिब्रह्मणस्तस्य ऋचं वेदम्; b मज्जे मज्जे येन न ईरितं सूत्रम्, 10 a णमंसए मांसेऽपि यस्य न सूत्रम्, 11 a अरइयरइणिव्वाणओ अर-चित्तरतिसुखः; b णिव्वाणओ बाणरहितः, 13 a पोयओ पोतः प्रवहणः, तारक इत्यर्थः, 14 a बुज्झियवत्थुवियप्पयं शातपदार्थभेदम्, 16 a कुलबलजाईसामयं कुलबलजातिलक्ष्मीणां मदम्; b सामयं व्याधिसहितम्, 17 b मोक्खामयं मोक्षामृतम्, 18 सिरिगावें लक्ष्मीमदेन.

2

पुष्कखरवरदीवद्धए	मणुउत्तरगिरिरुद्धए ।	
तडउग्गयसुरदारुणो	इंददिसासियमेरुणो ।	
पुव्वविदेहे जणरुई	पीणियखगउंलसंतई ।	
तत्थं वारिमंथरगई	सीया णाम महाणई ।	
पायवसुरहिसमीरण	तीए दाह्णिणतीरण ।	5
संतोसियणरवरमई	वरदेसो वच्छावई ।	
घरसिरकयणहसाइयं	उच्छवपडहणिणाइयं ।	
धुयधयमालाराइयं	रयणउरं रयणाइयं ।	
तेहिं राओ पउमुत्तरो	जो सीलेण जगुत्तरो ।	
देवी तस्स मयच्छिया	णामेणं धणलच्छिया ।	10
दोण्हं जणियाणंगओ	दीहां कालो णिग्गओ ।	
तलतमालतालीघणे	आसीणो पुरउववणे ।	
सत्तुमित्तसमच्चित्तओ	अरुहो तित्थपवत्तओ ।	
धम्मसलिलसिंचियधरो	महिओ तेण जुयंधरो ।	
मुणिओ वत्थुविभेयओ	उप्पणउ णिव्वयओ ।	15
दाउं परिपालियखमं	धणमित्तस्स कुलक्कमं ।	
सह णिवेहिं साहियमणो	सममणियतणकंचणो ।	
जाओ राओ मुणिवरो	गिरिगहणे लंबियकरो ।	
चरइ तवं सो जेरिसं	को किर वण्णइ तेरिसं ।	
घत्ता—णिरु णिप्पिहमइ परमेसरु पंधहु लग्गउ ॥		20
जिह देहें" रिसि चित्तेण वि तिह सो णग्गउ ॥ २ ॥		

3

माणसे असक्कयाइं	पंच पंच एक्कयाइं ।
वुज्झिउं सुयंगयाइं	ताविउं णियंगयाइं ।
इंदियाइं पीडिउण	दुक्कियाइं साडिऊण ।

2 १ A जणरई. २ A . ३ AP तत्थु. ४ P तहिं मि राउ पउमुत्तरो.
५ A देहेण.

3 १ A ताविओ.

2 2 a तडउग्गयसुरदारुणो तटोत्पन्नदेवदारुवृक्षस्य; b इंददिसासियमेरुणो पूर्वदिगा-
श्रितमेरोः. 3 a जणरुई लोकानां रुचिकारिका सीता नाम नदी. 7 a घरसिरकयणहसाइयं गृह-
शिरोभिः कृतं नभसः आस्वादनं यत्र. 8 b रयणाइयं रत्नैः आचितं जटितम्. 15 a वत्थुविभेयओ
पदार्थभेदः. 16 a ०खमं क्षमां पृथ्वीम्. 20 णिप्पिहमइ निःस्पृहमतिः.

3 1 a असक्कयाइं अचिन्तितानि.

अज्जिऊण चारु चित्तु	तित्थणाहणासु गोत्तु ।	
भाविऊण संतणाणु	झाइऊण धम्मज्ञाणु ।	5
उज्झिऊण खाणु पाणु	तेण मुक्कु झ त्ति पाणु ।	
णिग्गओ सररीरयाउ	णं रईसररीरयाउ ।	
जम्मसाथरे पडंतु	दुक्खविब्भमे घडंतु ।	
चंदकंतकंतिसुक्कि	जायओ महंतसुक्कि ।	
सोलसणवणवणमाउ	पोमलेसु सुव्वभतेउ ।	10
हारदेरसोहमाणु	अट्टअट्टहत्थमाणु ।	
अट्टअट्टपक्खंसासु	पुण्णचंदसंणिहासु ।	
चोत्थभूयलंतलक्खु	सहजायकामसोक्खु ।	
घत्ता—सोलहसहसहं गय वरिसहं एकसु भुंजइ ॥		
जो सो भुरवरु बुहहियवउं किं णउ रंजइ ॥ ३ ॥		15

4

लेसमासजीवियम्मि	दिव्वपुंगंम थियम्मि ।	
जक्खणाहु भासुरेण	बोह्मिओ सुरेसरेण ।	
जंबुदीवि भाणुभासि	भारहम्मि अंगदेसि ।	
दोक्खलक्खलोट्टणम्मि	चंपणामपट्टणम्मि ।	
अत्थि दव्वपुज्जराउ	सत्तुसीसदिण्णपाउ ।	5
तस्स पत्ति कामवित्ति	वल्लहा जयावइ त्ति ।	
ताहं होइदिदियारि	अंगओ अहम्महारि ।	
जाहि देवै सोक्खजुत्ति	ता धणाहिवेण झ त्ति ।	
णिम्मियं पुरं वरेहिं	मोत्तिपहिं कच्चुरेहिं ।	
कंजछणवावियाहिं	दीहियाहिं खाइयाहिं ।	10
फुल्लगुंछवच्छएहिं	कृवएहिं कच्छएहिं ।	
तीरिणीतलायएहिं	चित्तदारभायएहिं ।	

२ P °पक्खमासु.

4 १ जंबुदीवभाणुभासि. २ A होहि इंदियारि; P होहिदिदियारि. ३ A देहि सोक्ख°. ४ AP फुल्लगोच्छ°.

4 a चित्तु आश्चर्यभूतम्. 5 a संतणाणु स्वान्ते ज्ञानम्. 7 b रईसररीरयाउ रतिनदीवेगात्. 11 b अट्टअट्ट° चत्वारः. 12 a अट्टअट्ट पोडश. 13 a चोत्थ भूयलंतलक्खु पङ्कप्रभापर्यन्तावधिज्ञानः; b सहजाय° शब्दोत्पन्नम्. 14 एकसु एकवारम्.

4 1 a लेसमास° पण्मासाः. 4 a दोक्ख° दुःखम्. 5 a दव्वपुज्जराउ वसुपूज्यो राजा. 7 a होइदिदियारि होइदि भविष्यति इंदियारि इन्द्रियाणां जेता; b अंगओ अङ्गजः पुत्रः. 9 b कच्चुरेहिं सुवर्णैः. 11 a °वच्छएहिं °वृक्षैः.

हृट्टिट्टच्चरेहिं
दीहरत्थमग्गएहिं
धूवगंधसुंदरेहिं

गामगोहदुच्चरेहिं ।
वोममग्गलग्गएहिं ।
सत्तभूमिमिदरेहिं ।

17

यत्ता—एहउ सोहइ जं पुरु तहिं घरि सुहुं सुत्तइ ॥
सिविणयसंतइ पविलोइय पंकयणेत्तइ ॥ ४ ॥

5

हत्थि दाणवारिवाहरत्तमत्तल्लपओ
केसरी मयंधगंधकुंभिकुंभदारणो
हंसकामिणीहिं सेवियारविंदवासिरी
पारियायपोमपोंभलं परायसंभुयं
णासियंधयारओ वरो विहावरीवई
पेमंभेभला चला णिरंतरं वियारिणो
वारिचारपूरियं सरोरुहेहिं अंचियं
पंकयायरो चलंतलच्छिणेउरारवो
सीहमंडियासणं रणंतकिंकिणीसरं
पुंजओ मणीण दित्तिरंजियावणीयलो

गोवई विसाणघायभग्गसालिवप्पओ ।
णक्खजोण्हियामिलंतमोत्तियंसुवारणो ।
पुंडरीयवामणेहिं सिंचिया महासिरी ।
मत्तभिगसंगयं ललंतमालियाजुयं ।
कंजबंधवो सरम्मि दिण्णपोमिणीरई ।
कीलमाणया महासरंतरे विसारिणो ।
कुंभजुम्मयं पवित्तचंदणेण चच्चियं ।
णीरघुम्मिरो तरंगभंगुरो महण्णवो ।
इंदमंदिंरं वरं महाफणीसिणो घरं ।
धूमचत्तओ पलित्तओ सिहाचलोणलो । 10

यत्ता—सिविणय जोइवि देविइ णियणाहहु भासिउं ॥
तेण वि तप्फलु णिच्चप्फलु तहि उवएसिउं ॥ ५ ॥

6

णाणक्खणुणा जो णिरिक्खए
पोसए पिए दुव्वसामिण

जो जयं असेसं पि रक्खए ।
सुंदरी हले मज्झखामिण ।

५ AP वोमधामलग्गएहि. ६ A सुहि सुत्तइ.

5 १ A रंतमत्त°. २ A हिमाहिवो णिसावई. ३ A पिमविभला. ४ AP तारवारिपूरियं.
५ A सीहवीडियं रणंत°. ६ A तं फलु णिच्चफलु.

12 b °दारभायए हि °द्वारभागैः. 13 b गा म गो ह दु च्च रे हि ग्राम्यपुरुपदुश्चरैः.

5 1 a °रत्तमत्तल्लपओ रक्ता मत्ताश्च षट्पदा भ्रमरा यस्मिन्; b °सालिवप्पओ °केदारखण्डः.
2 b णक्खेति नखकान्तिस्तया सह मिलतां मौक्तिककिरणानां निवारकः. 3 b पुंडरीयवामणे हिं पञ्चो-
पलक्षितकलशैः, पुण्डरीकवामनदिग्गजाभ्यां वा. 4 a °पोंभलं मिश्रम्; परायसंभुयं परागस्य सम्यग्भू-
मिम्. 6 a पेमंभेभला प्रेमविह्वलैः; b विसारिणो मत्स्याः. 7 a वारि वार° जलसमूहः. 10 b सिहा-
चलोणलो शिखाभिश्चञ्चलोऽभिः.

6 1 b जयं जगत्. 2 a पि ए हे प्रियं; दुव्वसामि ए दूर्वावत् श्यामाङ्गः.

सो तुमम्मि होही जिणेसरो	भव्वजीवराईवणेसरो ।	
सक्केपेसिया देविया सिरि	कंति कित्ति बुद्धी सर्ई हिरी ।	
आगया घरं देहसोहणं	ताहिं तम्मि तिस्सा कयं घणं ।	5
तिण्णि तिण्णि मासे धणी वसो	बुट्ठो सुवण्णंभपाउसो ।	
मेहजाललीलापयासए	पावणम्मि आसाढमासए ।	
छट्ठए दिणे किण्हपक्खए	तित्थणाहसंखम्मि रिक्खए ।	
चरणकमलजुयणवियपण्णओ	गम्भकंजकोसे णिसण्णओ ।	
पुणु पयत्थसममासमेरओ	णिच्च सवइ कणयं कुबेरओ ।	10

घत्ता—चउसंखाहिइ जलणिहिपण्णासइ ढलियइ ॥

पलहु तिज्जइ भायम्मि धम्मि परिगलियइ ॥ ६ ॥

7

गइ सेयंसइ	सिवसरहंसइ ।	
मासइ फग्गुणि	पक्खइ तमघणि ।	
कंपियतिहुवाणि	चउदहमि दिणि ।	
दुरियविओयइ	वारुणजोयइ ।	
उप्पणो इणु	वारहमो जिणु ।	5
हरिसोल्लियमणु	पत्तो सुरयणु ।	
चंपापुरवरं	णविऊणं धेरं ।	
णिज्जियसयदलि	जणणीकरयलि ।	
बुद्धिणिसुंभयं	मायाडिंभयं ।	
गह्किऊणं पहुं	रइभिसिणीविहुं ।	10
सक्केणं तउ	कुं भंणिउं गउ ।	
लग्गणमेरुणो	सिहरं मेरुणो ।	
गंतुं गयंमलि	पंडुसिलायलि ।	

घत्ता -- णाहु थवेप्पिणु जियतारहारणीहारहिं ॥

णह्विउ सुरिंदहिं घडवियलियचंदिरधारहिं ॥ ७ ॥ 15

6 १ A सुवण्णंभपाउसो. २ A कण्हपक्खए.

7 १ P सिवभर°. २ A पुरवरे. ३ A घरे. ४ A तं भणिओ; P कुं भणिओ. ५ A गय-गले. ६ A has ता before णाहु.

3 b °रा ई वणे सरो °कमलानां सूर्यः. 5 b घणं निबिडम्. 6 a वंसो भक्तिवशः इन्द्राधीनो वा; b सुवण्णंभपाउसो सुवर्णजलप्रावृट्कालः. 8 b तित्थणाहसंखम्मिरिक्खए चतुर्विंशतितमे शतभिषानक्षत्रे. 10 a पयत्थसममासं नव मासान.

7 4 b वारुणजोयइ शतभिषानक्षत्रे. 9 a बुद्धिणिसुंभयं मतिव्यभिचारकम्. 11 b कुं भणिउं कुं इति गजप्रेरणसंज्ञा, तथा संज्ञया भणितो गजः; प्रेरित इत्यर्थः.

8

पुज्जिवि वंदिवि तिजगगुरुणिवरणियहि
तणयालयणतुट्टियहि तुच्छोयरिहि
इंइं रुंदाणंदवसु तिह णञ्चियउं
पणविवि परमं परमपरं णहि चलयिधओ
अणणहु पासि ण सत्थविही कत्थइ सुणइ
वरिसि विसुद्धबुद्धिसहिइ हयदुट्टमइ
कालें वंहुंतहु गुणेहिं जाणियमणुहि
कुंअरत्तें परमेसरहो कीलाणिरंय

खेयर विसहर सुरंरमणिसंमाणियहि ।
आणिवि देउ समप्पियउ करि मायरिहि ।
जिह महिचलणं फणितलु विभियकुंचियउं ।
सहुं परिवारें सग्गवई सुरलोउ गओ ।
सव्वउ कलउ सलक्खणउ अप्पणु मुणइ । 5
सावयसीलि परिट्टियउ गम्भट्टमइ ।
जायइ माणु सरासणइं सत्तरि तणुहि ।
अट्टारह संवच्छरहं तहु लक्ख गर्यं ।

घत्ता—णवघुसिणञ्चवि करणुज्झियणाणपहायरु ॥

णिव कुलमहिहरे उग्गउ णं वालदिवायरु ॥ ८ ॥

10

9

एक्कहिं दिणि णिव्वेयउ भासइ तउ करमि
लोयंतियसुरवंदंहिं लहु संबोहियउ
फुल्लियफलियमहीरुहरंजियसडयणहु
कयचउत्थु मज्झत्थु महत्थु महंतमइ
फग्गुणि कसणि चउद्दसिदिणि विरएं लइउ
तेण समउं संसारहु णिव्विण्णइं वरंइं
तिक्खु चारेत्तु चरंतें पाउ गलत्थियउं
कामहु पंच वि चंडइं कंडइं खंडियइं

जेण पुणु वि संसारि असारि णं संसरमि ।
माणवदाणवदेवहिं ण्हविवि पसाहियउ ।
सिवियाजांणारूढउ गउ मणहरवणहु ।
मणपज्जवपरियाणियमाणुंसमणविगइ ।
सयभिसहइ सायण्हइ सो सइं पावइउ । 5
सयइं णिवहं पावइयइं छहछाहत्तरइं ।
मोहसमुद्दु रउहु सुट्टुम्महु मंथियउ ।
इंदियदुट्टुकुहुवई मुणिणा दंडियइं ।

8 १ A सुरमणी°; °सुरवरमणी°. २ A छउओयरिहि; P तुच्छओयरिहि. ३ AP विभय°. ४ A णहचलयि. ५ A वहुंतं. ६ A कुमरत्तें; P कुवरत्तें. ७ AP °णिरया. ८ AP गया. ९ A णं उग्गउ.

9 १ A ण पइसरमि. २ A सिवियाजाणइ रूढउ. ३ P माणविगइ. ४ A फग्गुणकसणचउ-
द्दसिदिण° ४ AP सविसाहइ. ५ A चरइं. ६ A °छाहंत°. ७ A सुसंमुहु. ८ P °कुटुंबइं.

8 3 b वि भि य कुं चि य उं भयेन (विस्मयेन ?) संकुचितम्. 5 b अप्पणुमुणइ स्वयमेव जानाति. 6 a वरि सि गर्भोष्टमे वपे. 8 a कुं अरत्तें कुमारत्वेन; की ला णि र य क्रीडानिरताः. 9 करणु-
ज्झियणाणपहायरु इन्द्रियरहितावधिज्ञानप्रभावान्. 10 णिव हे श्रेणिक.

9 2 b पसाहियउ प्रसाधितः पूजितः. 4 a °चउत्थ° एकोपवासः; b °माणुसमणविगइ नरमनसो विविधाश्रेष्ठाः. 5 a विरएं चिरत्या चारित्रेण गृहीतः; b सयभिसहइ शतभिषानक्षत्रे. 8 a कंडइं वाणाः.

चंगुं सुत्तु धरेप्पिणु मणपुरवरु थविउं दिहिपायांरु रप्पिणु रिउंबल्लु विह्विउं ।
विसयकसायहं चोरहं कुहिणिउ दूसियउ रयणत्तयभाभारं लोउ पयासियउ । 10

घत्ता—बीयइ वासरि पइसरिवि महाणयरंतरि ॥

भिकखहि कारणि परिभमइ जइसरु घरि घरि ॥ ९ ॥

10

आवंतु भडारउ भावियउ	सुंदरराणं पीरावियउ ।
तट्टु मंदिरि सहसा वित्थरिउं	पंचविहु वियंभिउं अच्छरिउं ।
थिउ एक्कु वरिसु रिसि तिच्चतवि	णिहूरियभवसंभवविभवि ।
णिद्धाडियसाडियमोहरइ	ससहरि विसाहणक्खत्तगइ ।
माहम्मि सुद्धवीयहि बलिउ	घणघाइचउक्कु विणिहूलिउ । 5
उववासिण्ण वासरि गमिइ	दिणयरि वारुणदिसि संकमिइ ।
पुव्विल्लइ वणि चवच्चूयचलि	उप्पायउ णाणु कयंबतलि ।
णियगोमिणिगारव संखरव	घंटारव हरिख पडहरव ।
महिविवर गयण वण सग्ग घर	णहि धाइय आइय वहु अमर ।
विज्जाहर आइय कुसुमकर	भूगोयर कंपाविय सधर । 10

घत्ता—तं परमण्णउं ललियक्खरलद्धविससहिं ॥

वंदइ सुरवइ णाणाविहथोत्तसहासहिं ॥ १० ॥

11

जीह समीहइ भोयणउं	दिट्ठि वि महिलालयणउं ।
कण्णहिं इच्छिउ गेयरसु	णासु गुणाहियगंधवसु ।
फासु वि मउसयणइं महइ	करणइं पंच जीउ वइइ ।
ताइं मणेण जि पट्टवइ	विसयहं उवरि परिट्टवइ ।
पसरियविविहसुहालसउ	मोहमइरमयपरवसउ । 5

९ P °पावारु. १० रिउदल्लु.

10 १ A परावियउ. २ P °विडवि. ३ A वासवदिसि. ४ P चवभूयचलि. ५ P कलंबयलि.
६ AP आइय धाइय. ७ AP विज्जाहर वियसियकुसुमकर. ८ A लद्धहिं समहि.

11 १ A अट्टवइ. २ A मेहमयरमय°; P मोहमइरामय°.

10 a कु हि णि उ मार्गाः.

10 2 b वियंभिउं विजुम्भितम्. 3 b णि हूरि ये त्या दि निर्द्धरितः स्फेटिनः भवसंभवविभवः
संसारजन्मसंपत्तिर्येन. 4 a °मो हर इ° मोहरजसि. 8 a णि य गो मि णि गार व निजलक्ष्मीगुरुत्वम्.

11 5 a सुहालसउ सुखासक्तः; b मो हे त्या दि मोहमदिरामदाभ्यां परवशः.

कुप्पइ तप्पइ णीससइ
णाणाजम्महिं आइयउ
कुलबलविहवगव्वगहिउ
उम्मग्गेण जि संचरइ
तुहुं तिहुयणअब्भुद्धरणु
तुहुं जिण गुणमाणिक्कणिहि
तुहुं जणमणवेर्यालहरु
जो पइं पणवइ सुद्धमई

णडइ रडइ गायइ हसइ ।
पेम्मपिसाएं छाइयउ ।
गुरुयणकहियसीलरहिउ ।
पइं ण भडारा संभरइ ।
तुहुं जि देव विउसहं सरणु । 10
तुहुं घोरपावकंतारसिहि ।
अञ्चुयसुहहलतियसतरु ।
सो पावइं णिष्वाणगई ।

घन्ता—वाईसरिवइ रिदुसट्टिसमं जसु गणहर ॥

बारहसयमिय पुव्वंगधारि तहु मुणिवर ॥ ११ ॥

15

12

पंचतीस चउसहसइं दुइसय सिक्खुयहं
छहसहास सव्वण्हुहुं दह वेउव्वियहं
सायरसहसइं दोसय वाइहिं णयधरहं
एक्कु लक्खु छहसहसइं संजमधारिणिहिं
दोणिण लक्ख गुणवंतहं संतहं सावयहं
जिणवरवयणणिहालणणिहयभवावयहं
चउपण्णास जि लक्खइं वरिसविहीणाइं
हरिकयकणयकुसेसयउयरिविइणपउ

पंचसहस जलणिहिसय सावहिभिक्खुयहं ।
लेसासमइं सहासइं मणपज्जयवियहं ।
एव होंति बाहत्तरिसहसइं जइवरहं ।
लक्ख चयारि समासिय घरवयचारिणिहिं ।
संखेज्जउ गणुं घोसिउ काणणसावयहं । 5
संख णत्थि तहिं आयहं देवहं देवियेहं ।
वरिसहं विहरिवि महियलि भवसमरीणाइं ।
संबोहेप्पिणु भव्वइं चंपाणयरु गउ ।

घन्ता—णिज्जियणियरिउ वरधम्मचक्कि मुणिराणउ ॥

पलियंकासणु अंतिमंझाणम्मि णिलीणउ ॥ १२ ॥

10

13

भइवयहु ससंयभिसहहि सेयचउइसिहि
अवरण्हइ चउणवइहिं रिसिहिं समेउ जिणु

तिणिण वि अंगइं गलियइं तासु महारिसिहि ।
जायउ सिद्धु भडारउ ववगयजम्मरिणु ।

३ A पेमविसाएं. ४ A °वेयणहरु. ५ P adds लहु after पावइ.

12 १ A गुण. २ A भवावहहं. ३ P देवयहं. ४ AP °ज्ञाणे.

13 १ A सविसाहहे कसण°; P सुविसाहहे कसण°; K records a *p* as in AP.

7 *b* छाइयउ आविष्टो व्याप्तः. 10 *b* विउसहं विदुषाम्. 12 *a* °वेयाल° विकालः तमः. 14 रिदु-
सट्टि षट्षष्टिः.

12 1 *a* पंचतीसचउसहसइं एकोनचत्वारिंशत्सहस्राणि; *b* सावहि° अवधिज्ञानवताम्.
3 *a* णयधरहं नयधारकाणां वादिनाम्. 5 *b* काणणसावयहं तिरश्चां व्रतसहितानाम्. 6 *a* °णिइय-
भवावयहं °हतसंसारपदाम्. 7 *b* भवसमरीणाइं संसारश्रमरहितानि.

13 2 *b* ववगयजम्मरिणु व्यपगतसंसारऋणः.

साकिं अग्निकुमारहिं जयजयकारियउं
 आहंङलधणुमंडलमंडियघणघणइ
 पहु बाहत्तरि वच्छरलक्खइं अच्छियउ
 एम मरइ को पंडियपंडियवरमैरणु
 हउं वि एउं संचितमि जइ णरभवु लहमि
 अप्पउ णामे चोप्पहु तं छिणणउं करमि

अंगु अणंगीह्यहु तहु सकारियउ ।
 कहइ पुरंदरु देवहं जंतु णहंगणइ ।
 एवहिं ह्यउ णिकलु इह ण णियच्छियउ ५
 जेण ण पुणु वि पयइइ बहुभवसंभरणु ।
 तो खरतवमंथाणे कम्मदहिउं महमि ।
 वासुपुज्जपरमेट्टिहि मग्गे संचरमि ।

घत्ता—भरहहु होंतउ जिणचरियइं तियसहं संघिवि ॥

गउ हरि सग्गहु णहि पुप्फदंत उल्लंघिवि ॥ १३ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे वासुपुज्जणिव्वाणगमणं
 णाम तिवणासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५३ ॥

२ P महासिहि. ३ P ०भरणे. ४ P ०संसरणे. ५ A णाणं. ६ A omit णहि.

3 b सकारियउं भस्मीकृतम्. 4 a ०घणघणइ ०प्रचुरमेघे. 7 b महमि मश्रामि. 9 भरहहु होंतउ भरतक्षेत्रात्; संघिवि कथयित्वा. 10 हरि इन्द्रः; पुप्फदंत सूर्याचन्द्रमौ.

सिरिवासुपुञ्जजिणतिथि तहिं चिरपरिहवआरुड्डु ॥
करि लुद्धउ णं हरि हरिवरहु तारउ भिडिउ दुविद्धु ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—इह दीवग्मि भरहि वरविंझपुरग्मि महारिमारणो ॥

णरवइ विंझसात्ति विंझो इव पालियमत्तवारणो ॥ छ ॥

मयणाहीमंडणु तणु मयलइ	जहिं कप्पूररेणु णहु धवलइ ।	5
जहिं कामिणि चामरु संचालइ	जहिं देवंगु वत्थु परिचोलइ ।	
जहिं भूसणमणिकिरणावलियउं	दसदिसासु बहुवण्णउ घुलियउं ।	
तहिं अत्थाणि णिसण्णउ राणउ	इंदफणिंदखगिंदसमाणउ ।	
ता संपत्तउ चरु सुमहुरगिरु	सो पभणइ पयजुयपणामियसिरु ।	
भत्तचित्तगोमहिसीपउरइ	पत्थु जि भग्गखेत्ति कणयउरइ ।	10
तुहं सुहि गुणविसेसतोसियमइ	जाणहिं किं ण सुसेणु महीवइ ।	
तासु वेस णामं गुणमंजरि	णं सरचूयकुसुममयमंजरि ।	
रुवु ताहि मइं दिट्ठउं जेहउं	उव्वसिग्गभहं दुक्करु तेहउं ।	

घत्ता—णउ मयकलंकपडलें मलिणु ण धरइ खयवंकत्तणु ॥

मुहुं मुद्धहि चंदं समु भणमि जइ तो कवणु कइत्तणु ॥ १ ॥ 15

2

दुवई—मत्तकरिंदमंदलीलागइ णरमणणलिणगोमिणी ॥

किं वण्णमि णरिंद सा कामिणि कामिणियंणासिरोमणी ॥ छ ॥

दिस विंवाहररंगे रावइ	कररुहंपंति पईवहिं दीवइ ।	
कुंचियकेसहं कंतिइ कालइ	माणिणि माणवमहुयरमालइ ।	
सुललियवाणि व सुकइहि केरी	जहिं दीसइ तहिं सा भल्लारी ।	5
पढइ चारु पोसियपत्थावउ	गायइ सुंदरि कण्णसुहावउ ।	

1 १ AP मइलइ. AP १ खगिंदफणिंद°. ३ P तुहं. ४ AP महुं. ५ AP कमणु.

2 १ AP कामिणिजण°.

1 2 दुविद्धु द्विपृष्ठस्य. 5 a मयणाहीमंडणु कस्तूरिका; मयलइ मलिनयति. 10 a पउरइ प्रचुरे. 12 a वेस वेदया; b सरचूय° स्मरः काम एव आम्रवृक्षः. 14 खयवंकत्तणु क्षयं वक्रत्वं च.

2 3 a रावइ रञ्जयति. 4 a कालइ कृष्णीकरोति. 5 b भल्लारी उत्तमा. 6 a पोसिय-पत्थावउ पोषितप्रस्तावः सुभाषितयुक्तिः.

णञ्चइ बहुरसभावणित्तउं
तो संसारहु पैइं फलु लद्धउं
ससिजोण्हाहीणं किं गयणं
लवणजुत्तिययलेण व भोज्जे

सा जइ लहहि कह व मइं वुत्तउं ।
सयलु वि तिहुवणु तुज्जु जि सिद्धउं ।
णासाविरहिएण किं वयणं ।
ताइ विवज्जिएण किं रज्जे । 10

घत्ता—तं गिसुणिवि राणं मंतिवरु देवि उवायणु पेसियउ ॥
घरु जाइवि तेण सुस्मेणपहु पियवायइ सर्भासियउ ॥ २ ॥

3

दुवई—जां तुहुं विंझसत्ति सो दोहं मि भेउ ण लक्खिओ मण ॥
इहु कल्लोलणिवहु इहु जलणिहि केण विहत्तओ जण ॥ छ ॥

एक्कु जीउ विहिणा गंभीरइं
जं तहु केरउ तं तुम्हारउं
एत्थु ण किज्जइ चित्तु अधीरउं
णिरुवयारु तं णासइ सुंदरि
ता पहुणा दूयउ णिब्भच्छिउ
धरि सीमंतिणीउ जो मग्गइ
दरिसियरइरसकरणाणिगण
तं वयणं पुरु गंपि तुरंतउ
हंसवंसवीणारवभासिणि

पर रईयइं भिण्णाइं सरीरइं ।
जं तेरउ तं तासु जि केरउं ।
णेहणिवंधणु वंधुहि सारउं । 5
देहि समित्तहु तुहुं गुणमंजरि ।
एहउ वंधु वप्प कहिं अच्छिउ ।
अवसें सो धणपाणाहु लग्गइ ।
जाहि ण दूयं देमि पणयंगण ।
णियकुलसामिहि कहइ महंतउ । 10
देव ण देइ सुसेणु विलासिणि ।

घत्ता—आयण्णवि दूयहं जंपियइं णेहु चिराणउ भंजिवि ॥
अभिद्दु सुसेणहु विंझपुरणरवइ सीहु व रंजिवि ॥ ३ ॥

4

दुवई—वेण्णि वि चरणरेहिं संचालिय वेण्णि वि ते महाबला ॥
वरणारीकएण गणियारिरया इव भिडिय मयगला ॥ छ ॥

दोहुं वि साहणाइं आलग्गइं
खलियरहंगइं मलियतुरंगइं

चालियचक्रइं तोलियखग्गइं ।
दलियधुरग्गइं दूसियमग्गइं ।

२ AP फलु पइं. ३ AP पेसिउ. ४ AP संभासिउ.

3 १ A पररइयं. २ AP कीरइ. ३ P वंधहे. ४ A घरमीमंतिणि. ५ AP देमि वूय.

4 १ A संचारिया.

11 दे वि उ वा यणु प्राभृतं दस्वा.

3 2 कल्लोलणिवहु तरङ्गसमूहः. 3 b पर केवलम्. 6 a णिरुवयारु तं णासइ निरुव-
कारस्तं स्नेहं नाशयति; b समित्तहु स्वमित्तस्य. 9 b पणयंगण पण्याङ्गना वेद्या. 13 विज्ञपुरणरवइ
विन्ध्यशक्तिः.

4 2 गणियारिरया हस्तिनीरतौ. 4 a खलियरहंगइं खलीकृतचक्राणि.

मोडियदंडइं लुयधयसंडइं	खंडियमुंडइं णाच्चियरुंडइं ।	5
जूरियपत्तइं चूरियछत्तइं	दारियगत्तइं णिग्गयत्तइं ।	
लूरियताणइं हयजंपाणइं	उद्धियप्राणइं कयसिरदाणइं ।	
हुंकारंतइं हक्कारंतइं	उरगयकोंतइं चललुलियंतइं ।	
मग्गणभिण्णइं तिलु तिलु छिण्णइं	सेयवसिण्णइं रत्तकिलिण्णइं ।	
विरसु चवंतइं वम्मु छिवंतइं	संक मुयंतइं संकु घिवंतइं ।	10
हत्थिणिसुंभइं फाडियकुंभइं	जोहणिसुंभइं जयजसुलंभइं ।	

घत्ता—ता सरिवि सुसेणे सरिउवल सरहिं णिरंतरु भिण्णउं ॥
जमदूयहं भूयहं भुक्खियहं णाइ दिसावलि दिण्णउं ॥ ४ ॥

5

उवई—ताव सुसेणमुक्कवाणावलिचिहडियणिविडगयघडं ॥
हरिसंचलणदलणणिदुरखुरफाडियधवलधयवडं ॥ छ ॥

छंडियकिवाणु	गलियाहिमाणु ।	
लंबंतकेसु	जणजणियहासु ।	
पत्तावमाणु	दिसि धावमाणु ।	5
धयछत्तछण्णु	पेच्छवि ससेण्णु ।	
पडिभडकयंतु	धाइउ तुरंतु ।	
बलपबलसत्ति	भडु विंझसत्ति ।	
रिउ भणिउ तेण	रेरे णिहीण ।	
दे देहि णारि	मा गिलउ मारि ।	10
सहुं परियणेण	पइं रणि खणेण ।	
तं सुणवि सत्तु	इयरेण वुत्तु ।	
गुणणिहियबाणि	मइं जीवमाणि ।	
को रमइ तरुणि	कमि पडिय हरंणि ।	
जो हरिहि हरइ	सो झ त्ति मरइ ।	15
इय जंपमाण	वेणिण वि समाण ।	
विंधंति वीर	पुलइयसरीर ।	

२ AP जोहणिसुंभइं. ३ AP जयजसलंभइं; P adds attr this: कित्तिवियंभइं. ४ AP °बडु.

5 १ AP °वलण° २ AP °फालिय°. ३ A ससेणु. ४ AP वडिय. ५ P हरिणि.

6 a जूरियपत्तइं खेदितवाहनानि. 7 a लूरिय ताणइं लूनगात्राणानि. 9 b सेयवसिण्णइं स्वेदेन प्रस्विन्नानि; °किलिण्णइं लिप्तानि. 11 a हत्थिणिसुंभइं हस्तिविदारणानि. 12 सरिउवल स्वरिपु-सैन्यानि.

5 1 °णि विड° संकीर्णम्. 3 a छंडियकिवाणु त्यक्तखड्डः. 6 b ससेणु स्वसैन्यम्. 7 a पडिभडकयंतु प्रतिभटानां कृतान्तो यमः विन्ध्यशक्तिः. 12 b इयरेण इतरेण सुपेणेन. 14 b कमि पडिय सिंहस्य क्रमे पादे पतितं मृगीं को हरति.

फणिवइपरमाण	वाणेहिं षाण ।	
णहि पडिखलंति	उत्तहिं पंडंति ।	
धय णिल्लुणंति ।	सारहि हणंति ।	20
हय कप्परंति	पुणु चप्परंति ।	
हणु हणु भणंति	अंगइं वणंति ।	
सहसा मिलंति	विहडेवि जंति ।	
पडिवलिवि एंति	थिर गिरि व थंति ।	
ता गयविलासु	विंझाहिवासु ।	25

घत्ता—संधाणु ण लक्खहुं सक्कियउं चवलसरावलि देंतहु ॥
गउ णासवि तासु सुसेणु रणि णं वम्महु अरहंतहु ॥ ५ ॥

6

दुवई—बंधुविआयसोयमलिणाणण पइपरिहवविवेइया ॥
तेण णिवेण धरिय गुणमंजरि गुणमहुरगणिसेविया ॥ ७ ॥

इहं वरभरहखेत्ति विक्खायउ	खत्तियधम्मधुरंधरु जायउ ।	
मित्तु सुसेणहु संतोसियमणु	राउ महापुरि मारुयसंदणु ।	
णिसुणेप्पिणु णियइड्डु पलाणउ	हिमहयकमलसरु व विद्दाणउ ।	5
घणरहणामहु वसुमइ देप्पिणु	कोहु लोहु मउ मांडु मुप्पिणु ।	
सुव्वयजिणहं पासि वउ लेप्पिणु	मुउ काले संणासु करेप्पिणु ।	
प्राणयकप्पि सक्कुं सो हूयउ	वीससमुहजीवि वररूवउ ।	
तासु जि गुरुहि पासि उवसंतं	दुद्धर संजमभारु वहतं ।	
वारहविहतवतावणझीणें	बद्धु णियाणु अणेण सुसेणें ।	10
मेरुतुंगमाणुण्णइ ढालिय	जेण मज्झु माणिणि उद्दालिय ।	
जइ तवतरुवरहलु पाएंसमि	तो तं पुरिमंजम्मि मारेसमि ।	
एवं सरंतु सरंतु जि णिड्डिउ	सकलुसमइ संलेहणि संठिउ ।	
वरवंशरयवंदविणूयउ	तेत्थुं जि सग्गि सो वि संभूयउ ।	

घत्ता—रमणीयहि मंदरमेहलहि णीलिरुम्मिगिरिकंदरि ॥
गयणयलि सयंभूरमणजलि ते रमंति सरिसरवरि ॥ ६ ॥

६ AP °पमाणु, ७ AP बाणु, ८ P adds after this: रोसें जलंति, ९ A छंति.

6 १ AP इय, २ AP पाणय°, ३ AP सग्गि, ४ AP पावेसमि, ५ A पुरिसु, ६ AP तेत्थु वि सो वि सग्गि संभूयउ.

21 b चप्परंति अभिभवन्ति, 2 c वणंति षणयन्ति.

6 1 °परिहवविवेइया °पराभवेन कम्पिता वेश्या, 4 b मारुयसंदणु वायुरथः, 11 a °माणुण्णइ मानोन्नतिः; ढालिय पातिता, 12 b पुरिमजम्मि आगामिनि जन्मनि, 13 a सरंतु सरन; णिड्डिउ मृतः, 14 a °विणूयउ स्तुतः, 15 °रुम्मि° रुक्मि°.

7

दुवई—विणिण वि सह वसंति विहरंति वि विलुलियकुसुमसेहरा ॥
विणिण वि परममिच्च ते सुरवर सुररमणीमणोहरा ॥ छ ॥

एत्तहि विरु संसारु भमेप्पिणु	विंझसत्ति जिणलिंगु लएप्पिणु ।	
तेरहविहु चारित्तु चरेप्पिणु	णिरसणविहिमग्गेण मरेप्पिणु ।	
अच्छरकरयललालियचामरु	जायउ दिव्वदेहु कप्पामरु ।	5
देवहं ताहं विहिं मि दिवि जइयहुं	संखसमाउसु संठिउ तइयहुं ।	
जंबुदीवि लुहंपंकियगोउरु	भरहि भोयवड्डणु णामें पुरु ।	
तहिं सिरिमाणउ राणउ सिरिहरु	सिरिमइदेविसिहिणसंगयकरु ।	
विंझपुराहिउ सग्गहु आयउ	एयहं विहिं मि पुत्तु संजायउ ।	
जयसिरिसीमंतिणिभत्तारउ	जसससंककिरणवलितारउ ।	10
कोक्किउ सो णियताएं तारउ	वसिकयसव्वदेसकंतारउ ।	
तारयताराणाहें घित्तइं	असिकरेण रिउतिमिरइं जित्तइं ।	

घत्ता — मंडलियहं मयमाहप्पियहं सिरि पाडिवि समसुत्ती ॥
तिहिं खंडहिं मंडिय मेइणिय चप्पिवि दासि व भुत्ती ॥ ७ ॥

8

दुवई—अप्पडिहयपयावकंपावियसयलदिसाविहायए ॥
सपवणतराणिवरुणवइसवणभयंकरि तम्मि जायए ॥ छ ॥

तावेत्तहि बहुसोक्खपवट्टणि	इह भारहि दारावइपट्टणि ।	
पढमजिणेसरवंसविह्वसणु	खलखत्तियवलदप्पविणासणु ।	
रिउछवग्गसिप्पीरहुयासणु	वंभणराहिउ वंभपयासणु ।	5
मंदगमण वीणारववाणी	तासु सुहइ सुहइणिसेणी ।	
सिविणइ तांइ दिट्ठु संपययरु	दससययरु अवरु त्रि सियदिणयरु ।	
आसि वाउरहु जो सो आयइ	पाणइंदुसुउ जणियउ मायइ ।	

7 १ AP संसारे. २ AP लुहंपंकय. ३ AP विहं मि. ४ A सवसुत्ती.

8 १ P वंभु. २ AP दिट्ठु ताइ. ३ AP संपययरु.

7 4 b णिरसण वि हि मग्गेण संन्यासमार्गेण. 7 a लुहंपंकियं सुधाधवलितम्. 8 b °सि हि णं स्तनी. 10 b °तारउ निर्मलः. 12 a तारयताराणाहें तारक एव तारानाथश्चन्द्रः तेन; b अ सि करेण खङ्गकिरणेन. 14 च प्पि वि बलाद्वशीकृत्य.

8 1 a अप्प डि हयपयाव° अप्रतिहतप्रतापेन; °विहायए °विभागे. 6 b सुहइ सुभद्रा; सुहइ णिसेणी सुभद्राणां मङ्गलानां निःश्रेणी. 7 b दससययरु सहस्रकरः सूर्यः; सियदिणयरु चन्द्रः 8 a आयइ अनया.

अण्णु सुँसेणु सूणु सग्गचुउ
 अचल दुविट्ट णाम ते सुंदर
 धवलउ एक्कु एक्कु अलिकालउ
 गरुउ एक्कु एक्कु सिरिमाणु
 एक्कु चंदु णं एक्कु दिवायरु
 वीर्यउ उववादेविइ दढभुउ ।
 णं केलास णीलमणिमहिहर । 10
 एक्कु सुसीलु एक्कु दुँलीलउ ।
 एक्कु सुभीमु एक्कु सोमाणु ।
 हलहरु एक्कु एक्कु दाभोयरु ।
 घत्ता - ते वेण्णिण वि भायर भुवणरवि जोइवि रोसविमीसिउ ॥
 महिणाहहु जाइवि तारयहु तहु चरेहिं आहामिउं ॥ ८ ॥ 15

9

दुवई- णं सियकसणपक्ख हलिसिरिधव वेण्णिण वि धवलसामला ॥
 दारावइणरिंदवरतणुरुह गिरिवरंधरणभुयवला ॥ छ ॥

वइवसभउंहाभंगुरभावइं
 दोहिं मि गयउ रयणविण्णुगियउ
 लंगलमुसलसंखकर दुद्धर
 तहिं थरहरइ मरइ णिउ ण सरइ
 अण्णु वि अन्थि वइरिजुरावणु
 ताहं लील दीसइ विवरेरी
 भग्गा सइं सुहडत्तणवाएं
 संगरु करिवि हेरमि करिरयणइं
 लुहउ वंभु हयपुत्तविओणं
 मइं विरुद्धि जग्गि को वि ण जीवइ
 दोहिं मि सिद्धइं दिव्वइं चावइं ।
 विज्जादेविउ पेसणयरियउ ।
 ते भिडंति जहिं केसरिकंधर । 5
 करु असिवरहु कया वि ण पसरइ ।
 गंधहन्थि णाचइ अइरावणु ।
 णउ गणांति ते आण तुहारी ।
 तं आयण्णिणवि जंपिउ राणं ।
 गलियंसुयइं सुहहहि णयणइं । 10
 डज्जउ सोसिउ दूसहसोणं ।
 जउं वि मरणु समरंगणि पावइ ।

घत्ता- महुं कमकमलाइं ण संभरइ जा रायत्तणु मग्गइ ॥
 सो समयेण परियणपरियण्णिउ जमपुरणंथे लग्गइ ॥ ९ ॥

10

दुवई- इय गज्जंतु राउ णिजंमंतिहिं बोह्णुउ हो ण जुज्जए ॥
 किं कलहेण तांव पडिवक्खहं माहिवइ दूउ दिज्जए ॥ छ ॥

४ A सुमेणसूणु. ५ AP वीयउ वायादेविइ. ६ K दुस्सीलउ but corrects it to दुल्लीलउ.

9 १ P सिरिहर. २ P 'वरधण'. ३ A हेरेवि; P हेरमि. ४ P जमु. ५ A सो सयणसपरि-
 यण^०; P सो सयणपरियण^०.

10 १ AP णियमंतिहि.

9 1 'सिरिधव विण्णुः. 3 a वइवसभउंहा^० यमभूः. 4 a गयउ गदाः; b पेसणयरि-
 यउ आज्ञाकराः. 6 a ण मरइ न पूरयति. 9 a सुहडत्तणवाएं सुभटत्ववातेन. 11 a लुहउ अश्रुणि
 मार्जयतु.

सो गंधपीलुं	सुरदंतिसीलुं ।	
सिद्धाईं जाईं	रयणाईं ताईं ।	
सो दिव्वु संखु	तं धणु असंखु ।	5
जइ तुज्जु दैति	पेसणु करंति ।	
तो ते जियंति	णं तो मरंति ।	
ती दिण्णु दूउ	कल्लाणभूउ ।	
दागावईंसु	भीमारिभीसु ।	
जापवि तेण	मउलियकरेण ।	10
कुलकुमुयचंदु	दिट्ठउ उविंदु ।	
दूएण उत्तु	सुणुं मंतसुत्तु ।	
भुयबलविसालु	कुलसामिसालु ।	
संभरहि देउ	रायाहिराउ ।	
गिरितुंगमाणु	ताराहिहाणु ।	15
भडवरवरिद्ध	तुहुं भो दुविट्ठ ।	
मेल्लिर्वि दुआलि	मा करहि रालि ।	
पुहईपिण	सह सामिण ।	
खयरिंद जासु	वच्चंति पासु ।	
इच्छंति सेव	असितसिय देव ।	20
तहु कवणु मल्लु	मुइ रोससल्लु ।	
ढोइवि करिंदु	पवणाहि णरिंदु ।	

घत्ता — ता भणिउं दुविट्ठं रुट्ठण सामि महारउ हलहर ॥

अण्णहु सामण्णहु माणुसहु हउं होसमि किं किंकरु ॥ १० ॥

11

दुवई — जो मइं भणइ भिच्चं परु दुम्मइ दूथय तालु सीसयं ॥

तोडमि रणि तड त्ति मणिकुंडलमंडियगंडणसयं ॥ ७ ॥

कायकंतिओहामियससहरु
पहरणरुक्खराइसंछण्णउं
लंबललंतविंधकोमलद्लु

तहिं अवसरि भासइ जिच्चाहरु ।
णिवकामिणिवडज्जिक्खरवण्णउं ।
चलवामरहंसावलिअविरलु ।

5

२ AP गंधपीलु. ३ AP °लीलु. ४ A ता. ५ A मुणि. ६ AP मेल्लिहि. ७ P राडि.

11 १ AP भिच्चु.

10 5 b असखु बहुलम्. 15 b ताराहि हाणु तारकाख्यः. 17 a दुआलि दुराग्रहमपन्याय-
मन्यायं वा; b रालि कलहः. 20 b असितसिय खङ्गत्रस्ताः. 21 b मुइ मुच्च.

11 2 °गंडणसयं °गण्डदेशम्. 3 b जिच्चाहरु बलभद्रः. 4 a °रुक्खराइ° वृक्षश्रेणी.

करिगिरिवरु लोहियजलाणज्झरु
सुहडंतावलिविसहरचुंभलु
दूय राउ जइ मग्गइ कुंजरु
रुद्धुदुविट्टुसीहसरणक्खहं
इहु वारणु तहु जीवियवारणु

उग्गयचित्तछंत्तइदीवरु ।
गयणविलग्गकोत्तवंसत्थलु ।
तो पइसउ सो समरवणंतरु ।
तहिं णउ चुक्कइ लुक्कविवक्खहं ।
भयगारउ वच्छयलवियारणु । 10

घत्ता—तं णिसुणिवि दूयं जंपिथंउं महं एहउ मणि भावइ ॥

हरि तारयसरहहु कमि पडिउ अचल चलंतु ण जीवइ ॥ ११ ॥

12

दुवई—जासु तसंति एंति पणवंति थुणंति वि देवदाणवा ॥

तासु ण गहणु किं पि तुम्हारिस विबल वरायमाणवा ॥ छ ॥

तां कण्हं जंपिउं पेसुण्णउं
तं णिसुणिवि दूयउ णिग्गंउ गउ
दुद्धु दुविट्टु धिट्टु रणु कंखइ
सेव ण करइ ण सो पइं मण्णइ
भणइ ण भयवसेण वसि होम्ममि
दंतमुसलजुयलें पेलावमि
रायत्तणु महं पुणु संकरिसणु
अण्णु राउ जइ होइ कुसुंभइ
अण्णु राउ अहरहु तंबोलें
हउं किं घेप्पमि अण्णे राणं

जाहि दूय मा जंपहि सुण्णउं ।
कहइ ससामिहिं णउ अप्पइ गउ ।
तंवच्छिहिं करवालु णिरिक्खइ । 5
णियसंमुहं सिरिच्छिंइ सण्णइ ।
चाउ दंति करि वरु होप्पसमि ।
एम हत्थि हउं तहु राणि दावमि ।
अह व करइ पियवंभुं सुदरिसणु ।
अण्णु राउ संज्ञापारंभइ । 10
अण्णु राउ छिंदमि करवालें ।
ता पडिजंपिउं तारयराणं ।

घत्ता—हरिकरिभडलोहियकयलउइ दूय ण वडिंमं बोलुमि ॥

रणरंगि दुविट्टुहु अट्टियइं पिट्टु करेप्पिणु बल्लमि ॥ १२ ॥

13

दुवई—एम भणंतु चलिउ ह्यगयरहणरभरणमियधरयलो ॥

हयसंगामतूरवहिरियदिसवहलुच्छलियकलयलो ॥ छ ॥

२ A चित्तछत्तु. ३ AP लुक्क. ४ P जंपिउं.

12 १ A नो. २ AP दूउ गउ णिग्गउ. ३ A लेंलह. ४ AP पिउवंभु. ५ AP छिण्णमि.
६ A तारायराणं. ७ AP वडिमु.

13 १ AP ०णवियं.

6 b ०इ दी वरु नीलोत्पलम्. 7 a ०चुंभलु वीभत्तम्. 9 a ०सरणक्खहं वाणा एव नखास्तेपाम्;
b लुक्क वि वक्खहं लुप्तविपश्चाणां वाणानाम्. 12 तारयसरह उ कमि तारक एव अष्टापदस्तस्य चरणे;
अचल हे अचल.

12 3 a पेसुण्णउं पंशुन्यम्. 5 b तं वच्छिहिं ताम्रनेत्रैः. 6 b छिंछइ पुंश्वली. 7 b चाउ
दंति करि वरु होप्पसमि हस्ते गृहीत्वा वरं चापं गजे दौकयिष्यामि. 9 a संकरिसणु बलभद्र एव.

हरिखुरखयधूलीरयछाइउ
थिउ दारावइणियडउ जावहिं
सकरि सगरुडचिंध रहसुञ्चड
गयमलधवलकमलकज्जलणिह
खयरणरामरसेवियपयजुय
रणमालकोत्थुहजलयरधर
भहसुभंइउवायाणंदण
जिह जिह तारणण अवलोइय
वलपञ्चारे मेइणि हलइ

दसदिसु खंधावारु ण माइउ ।
णिग्गय सज्जणहरिवल तावहिं ।
सहरि गिरिंदधीर सुमहाभड । 5
कायतेयणिज्जियखयसिहिसिह ।
दंतिदंतणिम्मूलणखमभुय ।
सीरसरासणसुरपहरणकर ।
दुइमदाणववंदैविमइण ।
तिह तिह मइ विंभयवहि द्वोइय । 10
विसहरु तसंइ रसइ विसु मेलइ ।

घत्ता—करिकारणि तारयमाहवहं सेण्णइं संमुहुं दुक्कइं ॥
लग्गइं पक्कलपाइक्कमुहमुक्कहकललक्कइं ॥ १३ ॥

14

दुवई—दसदिसिवहपयामिजसलुद्धइं मुहमरुभमियभंमरयं ॥
धणुणुणमुक्कमंदसरजालइं कयसुरणियरडंमरयं ॥ छ ॥

जायघायलोहियभरियंगइं
भडताडियपाडियमायंगइं
वज्जमुट्टिफोडियसीसक्कइं
दंडदलियवियलियपासुलियइं
पित्तसंभसोणियजलण्हायइं
मोडियकडियैलकोप्परठाणइं
संघारियसामंतसहासइं
परिपोसियसिववायसणिद्धइं

आइरंगरंगंतुरंगइं ।
इसतिसूलंकरवालपसंगइं ।
णीसारियमन्थयमत्थिक्कइं । 5
चलियइं उल्लियइं पडिवलियइं ।
असिणिहसणसिहिसिहवसु आयइं ।
विहडियदेहसंधिसंठाणइं ।
मयमंडलियमउडभाभासइं ।
सिरिमहिरामारमणपलुद्धइं । 10

घत्ता—अरिरुहिरतोयतण्हायतणु पक्खिखहिं पक्खन्नडप्पियउं ॥
उम्मुच्छिउ को वि महासुहइु लग्गउ वइरिहिं विप्पियउं ॥ १४ ॥

२ A समहाभड. ३ AP °सुमहावाया°. ४ AP °विद°. ५ AP रसइ तसइ.

14 १ AP °भमरइं. २ AP °डमरइं. ३ A °कडयल°. ४ A मुय°.

13 6 a गयमलधवलकमलं निर्मलश्वेतकमलसदृशः; b 'खयसिहिंसिहणिह' प्रलयाग्नि-
ज्वालासदृशः. 8 a °जलयर° शंखः; b सीर° हलः. 10 b विंभयवहि आश्रयभार्यो. 11 a बल-
पञ्चारे सैन्यसमूहेन. 13 पक्कलपाइक्कमुहमुक्क° प्रगल्भभृत्यमुखमुक्तेः.

14 1 मुहमरुभमियभमरयं मुखवातेन भ्रमिताः भ्रमरा यस्मिन् कर्मणि यथा भवति तथा.
3 आइरंग° संग्रामरङ्गः. 6 a °पासुलियइं °पार्श्वीस्थिकानि. 7 b असिणहसणिहिं खज्जानां
घर्षणेन जनितोऽग्निः. 9 b मय° मृताः. 10 a °सिव शृगालाः.

15

दुवई—परिफुडकरडगलियमयधारालालसभसलसद्वए ॥

को वि करिददंतजुयसयणइ सुत्तउ मरणणिहए ॥ छ ॥

लद्धवीरभंडणमहामिसे	घारचंचुभक्खियणरामिसे ।	
उच्छलंतवीसदवसौरसे	कालदूयरक्खसमहाणसे ।	
पहरभग्गयभीरुमाणुसे	हम्ममाणभडभमियतामसे ।	5
पुव्ववरइरसंबंधदारुणे	वणगलंतवणरुहवणारुणे ।	
खयररायसंघायमारणे	तारएण हरि कोक्किओ रणे ।	
कंतदंतगिरिमित्तिदारुणे	जेम वप्प दिण्णो ण वारणो ।	
बंधुकणकडुयं सुविप्पियं	जेम दूयपुरओ पयंपियं ।	
अज्ज बाल किं णेवं जुज्झसे	संतमंतिमंतं ण बुज्झसे ।	10
धरणिणाहजयलच्छिधारिणा	भणित महिवई दाणवारिणा ।	
दीण पंचभूयहं ण लज्जसे	मम पुरो तुमं काइं गज्जसे ।	
रायवायगव्वेण वग्गसे	परहणाइं किं मुक्ख मग्गसे ।	
इय भणेवि मुक्का तिणा सगा	पुंखलग्गहुंकारवरसरा ।	
एतं तारएणं वियारिया	वइरिवाण वाणेहिं वारिया ।	15
णाइं णाय णाएहिं कयफणा	लोहवंतं पिसुण व्व णिग्गुणा ।	

घत्ता—पडिकण्हें कण्हहु पट्टुविउ अलयइउ उद्दामउ ॥

अइदीहर कालउ पंचफडु भीयर मारणकामउ ॥ १५ ॥

16

दुवई—सां गरुडेण हणंवि खणि वल्लिउ पडिवलजलणवारिणा ॥

मायातिमिरपडल्लु तां पेसिउ तहु हुंकरिवि वइरिणा ॥ छ ॥

तं पि विवक्खलक्खखयकालं	हारिणा णासिउं रवियरजालं ।	
इय दिव्वाउहपंतिउ छिण्णउ	वहुयउ लक्खकोडिसयगण्णउ ।	
पुणु बहुरुविणिविज्जपहावें	जुज्झिउ पडिहरि कुडिलसहावें ।	5

15 १ AP पडिकरि^०; K पडिकरि but corrects it to परिफुड^० २ AP महारसे. ३ AP ^०सावसे. ४ AP ^०माणसे. ५ A ^०दारणो. ६ A जेण. ७ AP तेम. ८ AP पहरणाइं; K पहरणाइं but corrects it to परहणाइं. ९ A एंति. १० P लोहवंता.

16 १ A सो वल्लिउ. २ A तहि पेसिउ.

15 1 ^०परिफुडकरड^० व्यक्तं गण्डस्थलम्. 3 ^०भंडणमहामिसे भण्डणनिमित्ते. 5 b ^०तामसे रौद्रपरिणामे. 6 b वणगलंतवणरुहवणारुणे वणगलद्वधिरजलरुके. 15 a एत आगच्छन्तः. 16 a णाएहिं सपैः. 17 अलयइउ जलसर्पः.

सा वि पणहृ जणहणपुण्णे
लेवि चक्कु करि भामिवि वुत्तउं
ता पडिलविय उवायापुत्ते
जइ ण धरमि रहंगु सइं हत्थे
मरु को मरइ संढ तुह घाएं

सिरिमइतणएं अंजणवण्णे ।
देहि हत्थि मा मरहि णिरुत्तउं ।
किं ससहरु जिप्पइ णक्खत्ते ।
तो पइसमि हुयवैहु परमत्थे ।
मुक्कु चक्कु तो तारयराएं ।

10

घत्ता—रक्खंतहं णियवइणिब्भयहं पहरणेहिं पहरंतहं ॥

तं आयउ सयलहं पत्थिवहं झ त्ति धरंत धरंतहं ॥ १६ ॥

17

दुवई—देवासुरणरिंदफणिखेयरकिंणरदप्पहारयं ॥

भुयणुज्जोयकारि माणिक्कमऊहविराइयारयं ॥ छ ॥

भाणुविंबु णं किरणाहिं जडियउं
धरिवि तेण करि जंपिउं प्हउं
करहि केर बलएवहु केरी
ता पडिसत्तु चवइ विहसेप्पिणु
जिह णच्चइ संतोसें देसिउ
रासहु होइवि हत्थिहि लग्गइ
पत्थरु होइवि मेरु व मण्णहि
रे गोवालवाल णउ लज्जहि

वासुएवकरणियडइ पडियउं ।
एवहिं तुज्जु सरणु कहिं केहउं ।
अणुहुंजहि संपय गरुयारी । 5
मंडाखंडु भिक्खं पावेप्पिणु ।
तिह तुहुं एण रहंगे हूरिसिउ ।
वायसु होइवि गरुडहु विग्गहि ।
अप्पउ वारु वारु किं वण्णहि ।
महुं अग्गइ भडवाएं भज्जहि । 10

घत्ता—लइ रक्खउ तेरउ सीरहरु एवहिं मारमि लग्गउ ॥

किं चुक्कइ काणणि केसरिहि दिट्ठिपांथि णिव्वंडिउ मउं ॥ १७ ॥

18

दुवई—एव भणेवि धीरु विसविसमविसण्णवणिसियअसिवरं ॥

अरि करिकुंभकलियधवलुज्जलमोत्तियपांतिदंतुरं ॥ छ ॥

३ A हुववहि.

17 १ A जलियउ. २ A भिक्खु. ३ P रहसिउ. ४ AP वग्गहि. ५ AP णिवडिउ.
६ AP गउ.

18 १ AP °गलिय°.

16 6 b सिरिमइतणएं तारकेण. 8 a उवायापुत्ते द्विपृष्ठेन. 11 णियवइणिब्भयहं
निजस्वामिनिर्भयकारकाणां

17 2 °विरइयारयं विराजिताः अरा यस्य तादृशे चक्रम्. 5 a केर आज्ञा. 6 b मंडाखंडु
अपूपखण्डः. 7 a देसिउ कार्पाटिकः परदेशिकः. 8 b विग्गहि विग्रहं करोषि. 9 b वारुवारु वारंवारम्.
10 b भडवाएं सुभटवातेन. 12 मउ मृगः.

18 1 विसविसमविसण्णव° विषवद्विप्रमं विप्रं पानीयं यत्र तस्मिन्नर्णवे समुद्रे.

थक्कउ करयलेण उग्गामिवि
 मुक्कु चक्कु दुक्कउ रिउकंठहु
 जाइवि दिणयरबिंबु णिमैण्णउं
 ससयणसडयणदिण्णसुहेल्लिहि
 हसियेपुसियेपरणरवइरायहु
 खग्गे वसिकिउ लोउ असेसु वि
 जिह महि सिद्धी अद्ध तिविट्टहु
 उंत्तंगत्ते धणु सो सत्तरि
 पावे पाविउ सत्तमु महियलु
 जहिं पडिकेसउ तहिं गउ केसवु
 एम भणेप्पिणु पासि तिगुत्तहु
 बहुरिसिवेदे^१ समउ समाहिउ

ता सिरिरमणे णहयलि भामिवि ।
 णावेइ अत्थसिहरिउवकंठहु ।
 लोहियलित्तउं लोहियवण्णउं । 5
 फुल्लु णांइ हरिसाहसवेल्लिहि ।
 पडिउ सीसु तारयणरणाहहु ।
 मागहु वरतणु जिनु पहासु वि ।
 तिह हूई णिवेरिद्धि दुविट्टहु ।
 जीविउं वरिसलक्ख वाहत्तरि । 10
 तहिं अवसरि णियमाणि चित्तइ वल्लु ।
 काले णडियउ णिवडइ वासवु ।
 वउ लइयउं समत्थुं समचित्तहु ।
 केवलणाणसिरीइ पसाहिउ ।

घत्ता—गउ मोक्खहु अचलु अकंपमइ भरहणरेसरवंदिउ ॥

15

जोइसविमाणवासियपवर पुर्णकंदंतसयवंदिउ ॥ १८ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाफइपुप्फयंतविरइए महाफव्वे अचलदुविट्टतारयकहंतरं
 णाम चउवणासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५४ ॥

२ A णं रवि अत्थ°. ३ A णिवण्णउ. ४ P हसिउ पुसिय°. ५ A पुसिउ. ६ A णिव झत्ति दुविट्टहु.
 ७ AP उंत्तंगत्ते. ८ AP चित्तइ णियमाणि बल्ल. ९ AP वउ. १० A समत्तु णियचित्तहु. ११ AP
 ०रिसिविदहिं. १२ P पहासिउ. १३ A अकंपमणु. १४ A पुप्फयंत°.

4 b अत्थ सि हरि उव कंठहु अस्तगिरिसमीपम्. 5 a णि मण्ण उं निमग्गमिव. 6 a ससयणसडयण-
 दिण्णसुहेल्लिहि स्वकीयस्वजना एव भ्रमरास्तेभ्यो दत्तं सुखं यया. 8 पहासुवि प्रभासक्षेत्रमपि. 10 b
 जीविउं आयुः. 12 b णडियउ प्रेरितः. 14 a समाहिउ सावधानः.

तवासिरिराइयहु मुणिज्ञाइयहु सयमहमहियपैयावहु ॥
वंदिवि कमजमलु णिज्जियकमलु विमलहु विमलसहावहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

णरउलमहिलं	वज्जियमहिलं ।	
जेण विरइयं	भोयविरइयं ।	
सत्थं सारं	वयणंसारं ।	5
जस्स गहेउं	हिंसाहेउं ।	
णट्टसमोहं	वड्ढियमोहं ।	
काउं समयं	मयमाणमयं ।	
पत्ता णरयं	जेत्ताणरयं ।	
भुवणमहीसं	कह लहिही सं ।	10
पइं परिहीणं	जिण पडिही णं ।	
णारयविवरं	णविण विवरं ।	
णासइ गरयं	जाणियंगरयं ।	
ण हु उलुहंते	सरणमहं ते ।	
देव पइट्ठो	तं महं इट्ठो ।	15
इय थुइवायं	करइ सुवायं ।	
तसियगहिंदो	जस्स महिंदो ।	
तं गुणविमलं	णविउं विमलं ।	
हयमोहंगं	तस्स कहंगं ।	
भणिमो सरसं	वारियसरसं ।	20

घत्ता—तेरहमउ अवरु जणसंतियरु सुत्तंगोफसोमालइ ॥

अंचमि णरहियइ खयविरहियइ जिणु कब्बुप्पलमालइ ॥ १ ॥

1 १ A सिरिरायहु. २ AP पहावहु; K पहावहु but corrects it to पयावहु. ३ AP ०जुवल. ४ A जे ताणरयं; P जेत्ताणरयं. ५ A महु. ६ AP ०गुंफसोमालइ; T गोफं.

1 1 ०रा इयहु राजितस्य. 2 कमजमलु पादयुग्मम्. 3 a णरउलमहिलं नरकुलानां पृथ्वी-
दायकम्. 4 a भोयविरइयं भोगविरक्तिदायकम्. 5 a सत्थं सारं शास्त्रं परमार्थभूतम्; b वयणंसारं
यस्य शास्त्रस्य वचनांशान् अरं अत्यर्थं. 6 a गहेउं गृहीत्वा पश्चान्निश्चयाशास्त्रं कृत्वा. 7 a पत्ता णरयं
नरकं प्राप्ताः; b ताणरयं तेषां पुरुषाणामनुरक्तम्. 8 a भुवणं भुवनम्; अहीसं बुद्धिरहितम्; b लहि-
ही लप्स्ये; सं शं सुखम्. 9 a विवरं पश्चिर्वरेण गरुडेन. 10 a उलुहंते उलूकहाः काकास्तेषामन्ते
समीपे. 11 b सुवायं शोभनवाचम्. 12 a हयमोहंगं हतं मोहस्याङ्गं कारणं स्वरूपं वा येन; b कहंगं
कथास्वरूपम्. 13 b वारियसरसं निप्रिद्धस्मरसुखम्. 14 सुत्तंगोफं सूक्तग्रथनम्. 15 णरहियइ
प्राणिनां हितकारिण्या; कब्बुप्पलमालइ काव्यमेवोत्पलानि तेषां मालया.

2

धादइसंडइ परिभमियहरि
तहिं पुर्व्विविदेहि तरंतकरि
तहि दाहिणकूलि कलेवहरि
फलरंसवहुरुक्खसोक्खसयरि
पहु पउमसेणु पउमारमणु
कयलीदलवीयणसीयरइ
मंदाणिलवालियकुसुमरइ
वयणुग्गयधीरधम्मज्जुणिहि
संपयपइ पउमणाहु करिवि
थक्कउ रिसिदिक्खइ दिक्खियउ

पुञ्चामरगिरिगंभीरदरि ।
सीयां णामे अत्थि सरि ।
णवसत्तच्छयछाइयमिहिरि ।
रम्मयवइदेसि महाणयरि ।
णवजोच्चणु रमणीमणदमणु । 5
दिसिउग्गयसरसरसीयरइ ।
अण्णहिं दिणि वणि पीइंकरइ ।
पायंति य सव्वगुत्तमुणिहि ।
आरंभडंभविहि परिहरिवि ।
एयारह अंगइं सिक्खियउ । 10

घत्ता—मलु उट्टुवियउ समु भावियउ पंकयसेणे घणघणु ॥
पाक्खि व पंजरइ दुक्कियविरइ धम्मज्जाणि धरिउं मणु ॥ २ ॥

3

सुक्किउ भववासकिलेसहर
मुउ मुक्काहारु विसुद्धमइ
अट्टारहजलहिपमाउधरु
णवमासहिं पक्कसु सो ससइ
णवणवसहंसहिं संवच्छरहं
जावंजणमहि ता णाणगइ
तें दीहु कालु दिवि संचरिउं
तइयहुं पढमिदे लक्खियउं

आवज्जिवि तित्थयरत्तयर ।
हुउ सहसारइ सहसारवइ ।
चउरयंणिसरीरु अरोयजरु ।
परमाणुय वर मणेण गसइ ।
सुहुं जणइ णिएवि मुहुं अच्छरहं । 5
तहु गुण किं वण्णइ खंडकइ ।
जइयहुं अयणंतरु उव्वरिउं ।
सहस त्ति कुबेरहु अक्खियउं ।

2 १ AP अवरविदेहि. २ AP सीओया. ३ P^०मिहिरि. ४ A^०रसवहुभक्खसोक्खसयरि;
P^०रसवहुक्खसोक्खसयरि. ५ P^०धम्म ज्जुणिसि. ६ A सव्वगुत्ति. ७ AP धरियउ.

3 १ P^०जलहिपरमाउ^०. २ A चउरयण^०. ३ A परमाणुवरमुमणेण. ४ A सहसइ. ५ A तं.

2 1 a परि भ मिय हरि भ्रान्तसूर्ये. 3 b^०सत्तच्छयछाइयमिहिरि समच्छदवृक्षाच्छादितसूर्ये.
4 a फलरसवह^० फलरसमार्गः फलरसप्रवाहो वा; ^०सोक्खसयरि सौख्यशतदायके. 6 b^०सरसरसीयरइ तडागजलशीकरे. 8 b पायंति पादान्ते; य च. 9 a संपयपइ संपत्स्थाने. 11 पंकयसेणे पद्मसेनेन.

3 1 a सुक्किउ सुकृतम्. 3 a^०जलहिपमाउधरु^०सागरोपमायुर्धरुः; b चउरयणि^०चतु-
हस्तप्रमाणम्. 4 a एक्कसु एकदा; b परमाणुयवर परमाणुकान् वरान्. 5 b णिएवि दृष्ट्वा. 6 a जावं-
जणमहि पक्कप्रभां यावत्; b खंडकइ पुष्पदन्तकविः. 7 b अयणंतरु षण्मासाः.

इह भरहखेत्ति कंपिलपुरि
कयवम्मु राउ तहु घरणि जय

पुरुदेववांसि विम्हविर्यसुरि ।
णं विहिणा वम्महविस्ति कय । 10

घत्ता—ताहं महागुणहं वेणिं वि जणहं होसइ भवणि भडारउ ॥
कम्ममणोरहहं अट्टारहहं णियदोसहं खयगारउ ॥ ३ ॥

4

जक्खाहिव तुरियउं जाहि तुहुं
ता पुरवरु णिहिणाहं विहिउं
दहिकुट्टिमयलजियसरयघणु
वणरुक्खराइसुरहियपवणु
सयणागमहरिसियपउरयणु
धणु दिज्जइ जेहिं बहुदेसियहं
सियसिहरवद्धधयपाडलिउं
ललियंगपसाहियकामियणु

करि पुरु घरि च्चित्तिउं भोयसुहुं ।
णं समगखंडु धराणिहि णिहिउं ।
गयणग्गलगमणिमयभवणु ।
वणरुहसररयकलहंसयणु ।
रयणंसुजालजियतियसधणु । 5
सियरहियहं णिच्चपवासियहं ।
पाडलपूयंफलदुमललिउं ।
कामियणपरोप्परदिणमणु ।

घत्ता—णरणियराउलइ तहिं राउलइ जयदेविइ सुहसुत्तइ ॥

सिधियावलि णिसिहिं उग्गयदिग्गिहिं दीसइ कामलगत्तइ ॥ ४ ॥ 10

5

करि दाणजलोल्लकवोलयलु
पंचाणणु रुइहयहारमणि
दुइ सुमणालउ मालउ खयलि
तिमि दोण्णिं रमंतं तरंत जलि
दो कलस ससलिल्ल सकमल सदल

ढेकंतु वसहु जियवसहबलु ।
अरधिंदणिलय माहवरमणि ।
हिमयर अहिमयरुग्गय विउलि ।
संणिहिय मणोरम धराणियलि ।
णलिणालय मयरालय विमल । 5

६ AP विभइयसुरि. ७ AP दोहं मि.

4 १ AP घरु. २ A च्चित्तियभोयसुहुं. ३ A ^०सिरिरयकलहंसगणु. ४ AP तहिं. ५ A पाडल-
पूर्इफल^०. ६ AP सुहं सुत्तए.

5 १ A ढिकंतु. २ A दोण्ण. ३ AP तरंत रमंत. ४ P कलस सलिल.

4 1 b वणरुहसररय^० पञ्जरसि रतः. 5 b ^०तियसधणु इन्द्रधनुः. 6 b सियरहियहं
श्रीरहितानाम्. 7 a ^०पाडलिउं ^०कर्त्तुरम्; b पूयफल^० पूगफलम्. 10 उग्गयदिसिहिं उद्भासित-
दिशायां, प्रभाते इत्यर्थः.

5 1 a दाणजलोल्लकवोलयलु मदजलार्द्रकपोलः; b ढेकंतु गर्जेन्; जियवसहबलु जिता-
न्यवृषभवलः. 2 a रुइहयहारमणि स्वरुच्या तिरस्कृतहारमणिः सिंहः; b माहवरमणि लक्ष्मीः.
3 b विउलि विपुले आकाशे. 4 a तिमि मत्स्यौ.

आसंदी हरिणरायधरिय

णाइणिगिज्जंतगेयमुहलु

मणिरासि सिहाहिं फुरंतु सिहि

घत्ता—सा सीमंतिणिय पीणत्थणिय दंसणु दइयहु भासइ ॥

देउं णराहिवइ पडिबुद्धमइ तं फलु ताहि समासइ ॥ ५ ॥

10

6

पयपुंडरीयजुयणंविद्यसुरु

मयरद्धयधयणिल्लूरणउ

इंदाएसं णिम्मच्छरउ

जयदेविहि देहु पसंसियउ

छम्मासु हेमधाराधरहिं

जेट्टहु मासहु तमदसमिदिणि

रयणेहिं सुरेहिं संथुयचरिउ

णिहिकलससविक्रउं पयडियउं

जइयहुं सायरसम तीस गय

पल्लंतपणट्टइ धम्मि वरि

कंचणचूलालिहियंबुहारि

घत्ता—माहचउत्थिहि वंढ्हियससिहि सिवजोयइ जिणु जायउ ॥

संदणहयगयहिं लंबियधयहिं चउदिसु सुरयणु आइउ ॥ ६ ॥

अरहंतु अणंतु तिलोयगुरु ।

परमेसरि होसइ तुह तणउ ।

एत्थंतरि आयउ अच्छरउ ।

गच्चासयदोसु विहंसियउ ।

वरिसिउ जक्खहिं णं जलहरहिं । 5

उत्तरभद्वयइ हिमकिरणि ।

करिरुवें गच्चि समोयरिउ ।

णवमास पुणु वि वसु णिवडियउं ।

मिच्छत्ते दूसिय सयल पय ।

णिव्वुइ वारहमइ तित्थयरि । 10

तइयहुं कयवम्महु तणइ घरि ।

7

मायासिसु मायहि ढोइयउ

कर मउलिवि पणविवि परमपरु

करि पेह्लिउ चह्लिउ गयणयलि

लंघेविणु रविससिमंडलइं

सक्के जिणवयणु पलोइयउ ।

पुणु भत्तिइ लेविणु तित्थयरु ।

पडुपडहभेरिदक्कामुहलि ।

णं णहयललच्छिहि कुंडलइं ।

५ P ताउ.

6 १ AP °णमियि. २ A °कलसविमुक्कउ. ३ A धम्मवरि. ४ A °चउदिसिहि; P चउत्थि-सिह. ५ AP वडियि°.

7 १ P भत्ति.

6 a आसंदी आसनम्; b अमरिदवसहि देवविमानम्.

6 1 a पयपुंडरीय° पादकमलम्. 2 a °णिल्लूरणउ स्फेटकः. 6 a तमदसमि° कृष्ण-दशमी. 7 a रयणे हिं रत्नैः. 8 a णिहिकलससविक्रउं निधिकलरोपु स्वविक्रमः प्रकटीकृतः. 11 a कंचणचूला° सौवर्णशिखरम्. 12 सिवजोयइ अहिर्युध्नयोरो उत्तरामाद्रपदानश्वे.

गउ तेत्तहिं जेत्तहिं पंडुसिल
मंदरगिरिसिरि विरइउं ण्हवणु
पंडुरि ससहरकररासिहरि
सिसु संसिवि जय चिरु सुकयतव
कालेण पवड्डिउ जिणु तरुणु
सहंसहुत्तरमियलक्खणइं
वण्णेण वि सहइ सुवण्णणिहु
परमेसहु माणियवालवय
पुणु सयमहेण पणवि वि ण्हविउ
वरिसहं वसिहई दिण्णकरा

णिरु णिम्मल णावइ सिद्धइल । 5
तहु देवंहिं पुज्जिय दिव्वतणु ।
आणेप्पिणु णिहियउ जण्णघरि ।
गय णञ्चिवि णायहु णायभव ।
गरुयारउ ह्ययउ सट्ठिधणु ।
तहु दिईइं बहुयइं वेंजणइं । 10
हो किं मइं वण्णिज्जइ अरिहु ।
वरिसहं पण्णारह लक्ख गय ।
रायत्तणि तिजगराउ थविउ ।
तिउणियदहलक्खइं भुत्त धरा ।

घत्ता—तुहिणविणिग्गमणि महुआगमणि तीरोसरियजलालउ । 15
रधिकिरणहिं हणिवि हिमकण धुणिवि णिंभे जिनु सियालउ ॥ ७ ॥

8

अवलोइवि सो दलवट्टियउ
पहु चितइ अणुदिणु परिणवइ
चिरु चित्तु दुच्चित्तहु णीणियउं
पुणु जीविउ जम्मणु आणियउं
इंदियवसेण ण विवेइयउं
धणंपुत्तकलत्तहिं मोहियउ
अच्छइ ण णियच्छमि किं पि किहं
ता संबोहिउ लोयंतियहिं
किउ देवयत्तसिवियारुहणु

कालेण कालु पल्लट्टियउ ।
जणु तो वि ण जुंजइ धम्ममइं ।
दिवि दिव्वभोयसुहुं माणियउं ।
तिहिं णाणहिं तिहुवणु जाणियउं ।
हा मइं वि ण अप्पउं चेइयउं । 5
मयरइयवाणहिं जोहियउ ।
अण्णमणु अण्णु अण्णाणु जिहं ।
अहिसित्तउ सुरवरपंतियहिं ।
गउ झ त्ति सहेउयणाम वणु ।

घत्ता—माहचउत्थियहि ससहरसियहि छावीसमि णक्खत्तइ ॥ 10
सहुं सहसें णिवहं इच्छियसिवहं थिउ जिणु जइणचरित्तइ ॥ ८ ॥

२ देवहुं, ३ AP जणणिहरि; K जणणिकरे but corrects it to जणणिघरि. ४ A जिण तरुणु.
५ A अट्टोत्तरसयमियं; P सट्टुत्तरसयमियं. ६ A तहु णवसयसंखइं; P तहु तवसयसंखइं. ७ A
नीरोसरिउ.

8 १ AP परिणमइ. २ AP धम्मे मइ. ३ AP धणमित्तं. ४ A किहा. ५ A जिहा.
६ A बावीसमि and gloss श्रवणनक्षत्रे. ७ A जइचारित्तइ.

7 5 b सिद्धइल सिद्धभूमिः. 8 b णायहु स्वर्गम्; णायभव देवाः. 13 b तिजगराउ
त्रिभुवनराजः. 14 a दिण्णकरा दत्तदाना; b तिउणियं त्रिगुणितानि. 15 तुहिणविणिग्गमणि
शीतकाले विगते; महुं वमन्तः. 16 सियालउ शीतकालः.

8 1 a दलवट्टियउ चूर्णितः. 3 दुच्चित्तहु दुराचारात् दुष्परिणामात्; णीणियउं निष्का-
शेतम्. 5 इंदियवसेण इन्द्रियपरवशेन. 6 b जोहियउ विद्धः. 7 b अण्णमणु उद्भ्रान्तचित्तः. 9 a
देवयत्तं देवदत्ता. 10 छावीसमि उत्तराभद्रपदे. 11 जइणचरित्तइ जिनचारित्रे जिनदीक्षायाम्.

9

तर्हि दिणि जयवइ उववासियउ
बीयइ दिणि आयउ णंदउरु
झाणाणलहुयवम्मासरहु
माणिपुंजें ढंकिउ तासु गिहु
छउंमत्थें मेइणियलु भमिवि
दिक्खावणि जंबुरुक्खयलि
छट्टइ दिणि दिवसभाइ अवरि
देवें केवलु उप्पाइयउं
गयणग्गलग्गमाणिकसिहु
छाईर्यणहमंडलु पंचविहु

मणपज्जवणाणें भूसियउ ।
णंदेण णमंसिउ पुरिसंपुरु ।
आहारु दिण्णु परमेसरहु ।
तर्हि चोसु वियंभिउं पंचविहु ।
संवच्छर तेण तिण्णिण गमिवि । 5
माहम्मि मासि ससियरधवलि ।
छंवीसमि जायइ उडुपवरि ।
तियसउल्लु ण कत्थइ माइयउं ।
संपत्तउ दहविहु अट्टुविहु ।
सोलहविहु तेत्थु वि तं तिविहु । 10

घत्ता—थुणइ सुराहिवइ कुसुमइं धिवइ अरुहहु उप्परि पायहं ॥

जिण तुहुं गयमालिणि हियवयणलिणि वसहि रिसिहिं हयरायहं ॥९॥

10

वत्तीसहं इंदहं तुहुं हियइ
तुहुं चंदु ण चंदु विमलवहणु
तुहुं सरहि ण सरहि वि खारजहु
पइं एहउ तेहउ जं कहमि
जर्हि अछइ तिजगु परिट्टियउं
संचलइ जेण जें परिणवइ
जं वण्णगंधरसफासधरु
पइं दिट्टइ दीसइ तं सयलु
पइं दिट्टें मुच्चइ चउगइहि
तुह सुहि संपावइ परमु सुहुं

तुहुं संसेविउ सासयसियइ ।
तुहुं सूरु ण सूरु वि णिड्डहणु ।
तुहुं हरु णउ हरु वि पमंतु णहु ।
तं हउं वुहलोइ हासु लहमि ।
जें रुद्धउं णिच्चलु संठियउं । 5
जें णिच्चंमेव चेयण वहइ ।
जं अवरु वि काइं वि चरु अचरु ।
तुट्टइ वढमोहलोहणियलु ।
पहु होइ जीउ पंचमगइहि ।
वइरियेउ णिरंतरु तिव्वु दुहुं । 10

9 AP जहवइ. २ AP णंदिउरु. ३ AP पुरिसवरु. ४ A छम्मत्थें. ५ A वावीसमि; P छावीसमि. ६ AP छाइउ णहमंडल. ७ A गयरायहं.

10 १ A पमत्तणहु. २ A जेण जें परि. ३ A वहरिउ ण णिर.

9 1 a जयवइ जगत्पतिः. 2 b पुरिसपुरु पुरुषप्रधानः. 7 a अवरि पश्चिमे; b छंवीसमि उत्तराभद्रपदे. 10 a पंचविहु उद्योतिष्का देवाः. 12 हियवयणलिणि चित्तकमत्ते; हयरायहं हतरागाणां मुनीनाम्.

10 1 b सासयसियइ शाश्वतलक्ष्म्या मोक्षलक्ष्म्या. 2 विमलवहणु विरूपकलाञ्छनधारकः. 3 a सरहि जलधिः; b हरु शिवः. 4 b वुहलोइ पण्डितजने. 8 b णियलु शृंगला. 10 a सुहि उह्व.

तुहुं पुणु दोहं मि मज्झत्थमणु इयं चोञ्जु सहियवइ धरइ जणु ।
 घत्ता—वेइहरवणहिं बहुतोरणहिं धयपंतिहिं पिहियंकें ॥
 परिहागोउरहिं सालहिं सरहिं समवसरणु किउ सैकें ॥ १० ॥

11

तहिं जाया णीसरंतञ्जुणिहिं	पण्णास पंच गणहरमुणिहिं ।	
गज्जंतमेहगंभीरसर	एयारहसयमिय पुव्वधर ।	
छत्तीससहस पुणु पंचसय	तीसुत्तर सिक्खुय मुणियणय ।	
चत्तारि सहस अउसयवरहं	अणगारहं सव्वावहिहरहं ।	
पणसहसइं अवरु वि पंचसय	घोसंति साहु संजय विमय ।	5
केवलिहिं रिसिहिं मणपज्जयहं	णवसहसइं वेउव्वणवयहं ।	
सहसाइं तिण्णि लेसासयइं	वाइहिं विद्धंसियपरममइं ।	
संजइयहुं लक्खु तिसहससहिउं	सावयहं लक्खजुयलउं कहिउं ।	
परियाणियजिणगुणपरिणइहिं	चत्तारि लक्ख तहु सावयहिं ।	
तियसंहिं असंखहिं वंदियउ	संखेज्जतिरियअहिणांदियउ ।	10
तिवरिसरहियइं णडियच्छरहं	पण्णारह लक्खइं संवच्छरहं ।	
महि हिंडिवि लोयतिमिरु लुहिवि	संभेयहु सिहरु समारुहिवि ।	

घत्ता—आसाढट्टमिहि कसणहि तमिहि परमण्णउ णिक्कलु हुउं ॥
 भरहमहीवइहिं फणिसुरवइहिं विमैलु पुष्पदंतहिं थुउं ॥ ११ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
 महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे विमलणाहणिव्वाणगमणं
 णाम पंचवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५५ ॥

४ P इह. ५ A पिहियक्कहिं. ६ A सक्किहिं.

11 १ A सिक्खिय. २ AP हुवउ. ३ विमल. ४ AP थुयउ. ५ A पंचा^०.

12 पि हिय कें आच्छादितसूर्येण.

11 7 a ले सा स य इं पट्टशतानि. 12 लु हि वि स्फेटयित्वा. 13 त मि हि रात्रौ.

सुरवंदहु विमलजिणिंदहु तित्थि भीमु पालियछलु ॥
रणि अब्भिडियउ अमरिसि चडिउ महुहि सयंभु महाबलु ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—अवरविदेहि जंबुदीवासिइ सिरिउरि पिसुणदूसणो ॥
महिवइ णांदिमित्तु मित्तो इव णियकुलकमलभूसणो ॥ छ ॥

सो चित्तइ णियमणि णरवरिंदु	खइ सब्बु लोउ णं पुंणिमिंदु ।	5
धणु सुरधणु जिह तिह थिरु ण टाइ	पणइणि पुणु अणणहु पासि जाइ ।	
भायर णियभायहु अवयरंति	कुलंभवणि कुलहु कलयलु करंति ।	
किंकर चडुयम्मु रयंति तेव	सव्वस्सु पयच्छइ पुरिसु जेव ।	
पोसंति णियंति सिंसुं ण्हवंति	मायाउ थणु आसाइ देंति ।	
भइणिउ बंधव बंधव भणांति	ता जाम उयरपूरणु लहंति ।	10
सिरिलंपहु घरदवावहरणु	तणुरुहु वि पडिच्छइ तायमरणु ।	
जगि कासु वि को वि ण एत्थु अत्थि	मयगंधवसि भमरेण हत्थि ।	
गाइ वि सेविज्जइ वच्छण	रंभासइँ दुद्धहु कएण ।	
जणु इच्छइ सयलु सकज्जकरणु	जीवहु पुणु जिणवरधम्मु सरणु ।	

घत्ता—ईय बोल्लिवि रज्जु पमेल्लिवि सोसियंभीमभवणउ ॥ 15
जियकामहु सुव्वयणामहु पासि तेण लइयउं वउ ॥ १ ॥

2

दुवई—जायउ सो मरेवि संणासं वम्महजलणपावसो ॥
पंचाणुत्तरम्मि तेत्तीसमहोवहिदीहराउसो ॥ छ ॥

भासइ गोत्तमु णियगोत्तसूरु	पंचिदियेरिउसंगामसूरु ।
सुणि सेणियै कहमि मणोहिरामु	पइ पइ वसंति पुरणंगरगामु ।

1 १ A omits रणि. २ A पुण्णमिंदु. ३ A कुल भवणु कलहकलयलु; P कुलभवणि कुलह-
कलयलु. ४ A सुसंण्हवंति. ५ P आसाउ. ६ P इउ. ७ AP मेइणि मेल्लिवि. ८ A सोसीयं.

2 १ AP °पाउसो. २ AP जो इंदियं. ३ A सेणि कहमि. ४ A णयरं.

1 1 पालियछलु पालितसंग्रामः. 2 महुहि मधुना सह. 3 जंबुदीवासिइ जम्बूद्वीपाश्रिते;
सिरिउरि श्रीपुरे. 5 b खइ क्षये विनाशकाले. 8 a चडुयम्मु चाटुकरवचनम्; b सव्वस्सु सर्वस्वम्.
9 b आसाइ वाच्छया. 12 b मयगंधवसि मद्गन्धवशेन. 13 b रंभासइँ गोशब्देन.

2 1 °पावसो मैत्रः.

गोजूहचिण्णसुहंरियतणालु	इह भरंहि देसु णामे कुणालु ।	5
तहिं सावत्थी पुरि वसणहेउ	णिवसइ णरिंदु णामे सुकेउ ।	
अवरु वि वलि तेत्थु जि अक्खकील	पारडु बिहिं मि जूयारलील ।	
चरंगमणछेज्जकड्डणपवंचु	वरघायदायघरहरणसंचु ।	
जाणिवि रवंति किर वे वि जाम	एक्के उड्डिउं णियरज्जु ताम ।	
हारंतउ सपुरु सकोसु देसु	थिउ एक्कलउ काणीणवेसु ।	10

घत्ता—णउ ह्य गय णउ संदण धय एक्कु जि वसणे णडियउ ॥

वारंतहं गुरुहुं महंतहं रायविलासहु पडियउ ॥ २ ॥

3

दुघई—जे ण करंति देवगुरुभांसिउं दुहमगव्वपरवसा ॥

ते णिवडंति एंव णिवरा भुवि दुज्जसमसिमलीमसा ॥ छ ॥

मायाविणीइ विम्भमहरीइ	सेज्जातंवलसुहंकरीइ ।	
आजाणुविलंबियंसाडियाइ	वर खज्जउ माणउ चेडियाइ ।	
णीसेससोक्खणिद्धाडियाइ	खणि खणि आयइ ण वराडियाइ ।	5
जूएण ण कासु वि कुसलु एत्थु	गउ सो सुकेउ होइवि अवत्थु ।	
वंदेवि सुदंसणु मुक्खंत्थु	णाणेणालोइयसयलवत्थु ।	
तउ लेप्पिणु थिउ लंबंतहत्थु	चित्तवइ अट्टज्ञाणेण गत्थु ।	
जइ अत्थि फलु वि तवतिव्वकम्मि	तो मारेसमि आगमियजम्मि ।	
पाडेसमि मत्थइ तासु वज्जु	बलि जेण महारउ जित्तु रज्जु ।	10
इय संभरंतु संणासणेण	मुउ जायउ भूसिउ भूसणेण ।	
लंतवि सुरु सुक्खियसोहमाणु	चउंदहसमुहजीवियपमाणु ।	

घत्ता—णीसंगे ञिणवरलिंगे बलि देवत्तु लहेप्पिणु ॥

असराले जंते काले सुरणिलयाउ चवेप्पिणु ॥ ३ ॥

५ A 'सुरहियं. ६ A भरहदेसि. ७ P वरगमणं. ८ A वरदायघायं; P परदायघायं. ९ P रमंति. १० A कउ उड्डिउं.

3 १ AP 'गुरुजंपिउं. २ P 'विडंबियं. ३ P वरि. ४ AP मुक्कु वत्थु. ५ AP चोइसं. ६ AP 'पवाणु. ७ P णीसगं.

5 a गो जूह चिण्णं गोयूथेनास्वादितम्. 6 a व स ण हेउ द्यूताधिकारी. 7 अक्ख कील पाशकक्रीडा. 8 a चरं बुद्धिकौशल्येन क्रोष्टकान्तधोनैः परसारिघातेन द्यूतरमणम्; ग म णं आत्मीयशारिरक्षणं कुर्वन्निः स्वशारीणां परपक्षास्वपक्षानयनम्; छेज्जं शारिघातः; कड्डुणं आत्मीयशारीणां परघातरक्षणेन स्वपक्षानयनम्; b घरहरणं व्यादिसारिभिः परगृहस्वीकारः; संचु परशारिप्रविशानप्रतिषेधेन स्वगृहावर्तनम् (?). 9 b उड्डिउं हारितम्. 12 राय विलासहु पडियउ राजभोगात्प्रतितः.

3 २ णिवरा नृवराः. 5 b वराडियाइ कपर्दिकया. 8 b गत्थु ग्रस्तः. 12 a सुक्खियसोहमाणु सुक्खेन शोभमानः. 14 असराले बहुलेन.

4

दुवई—इह भरहम्मि रयणपुरि णरवइ णामें समरकेसरी ॥

वीणाकलपलावसंणिहड्डुणि घरिणी तस्स सुंदरी ॥ छ ॥

सो ताहं विहिं मि दिग्गयणिणाउ	लक्खणलक्खंकिर्यंदिक्काउ ।
सुउ जायउ मयरद्धयसमाणु	महु णामें णं उग्गमिउ भाणु ।
तिसयल महि णिज्जिय तेण केंव	णिहिघडधारिणि घरदासि जेंव । 5
तहिं कालि गहीरत्तें समुहु	दारावइपुरवरि राउ रुहु ।
महएवि तासु णामें सुहंइ	अणोक्क पुहइ पुहइ व्व भइ ।
तहिं पढमइ जणियउ पढमपुत्तु	अहमिंदु देउ सो णंदिमित्तु ।
वीयइ लंतंवचुउ रिद्धिहेउ	संजणियउ णंदणु सो सुक्केउ ।
ते बेण्णि वि धम्मसयंभुणाम	ते बेण्णि वि ससिरविसरिसधाम ॥10
ते बेण्णि वि रामसुसामदेह	ते बेण्णि वि गरुयणिबद्धणेह ।
ते बे वि सिद्धविज्जासमत्थ	ते बे वि दिव्वपहरणविहत्थ ।
ते बे वि विणिग्गयमलविलेव	ते बे वि सीरहर वासुएव ।

घत्ता—गुणवंतहिं तेहिं सुपुत्तहिं दोहिं मि उज्जालियउ कुलु ॥

पहवंतहिं गयणि वहंतहिं णं ससिसूरहिं महियलु ॥ ४ ॥ 15

5

दुवई—बेण्णि वि ते महंत वलवंत महाजस धोयदसदिसा ॥

बे वि मइंदगरुडवाहिणिवइ बे वि अचितसाहसा ॥ छ ॥

जयसिरिरामाउकंठिएण	घरसत्तमभूमिपरिट्टिएण ।
जणविंभयभावुप्पायणेण	एक्कहिं वासरि णारायणेण ।
अवलोइउ चिंधचलंतमयरु	पुरवाहिरि दूसावासणियरु । 5
पुच्छिउ सैंमंति भणु कासु सिमिरु	दीसइ भूसणरुइरहियतिमिरु ।
दुव्वसणविसेसकयंतएण	तं णिसुणिवि वुत्तु महंतएण ।
रमणीयपैएसपुराहिवेण	मंडलियणं ससिसोमं णिवेण ।

4 १ AP ०लक्खंकिउ. २ AP सुभइ. ३ P लंतवि चुउ. ४ AP पवहंतहि.

5 १ AP एकम्मि दियहि. २ A सुमंति. ३ AP रमणीयवेस^०.

4 2 वीणे त्या दि वीणायाः कलमनोहरप्रलापसदृशाश्वनिः. 5 a तिमयल त्रिशकला त्रिखण्डा. 11 a रामसुसामदेह शुक्रदेहः कृष्णदेहश्च. 15 पहवंतहिं प्रभावद्भयाम्.

5 2 मइंदगरुडवाहिणिवइ मृगेन्द्रवाहिनीपतिर्बलभद्रः, गरुडवाहिनीपतिः कृष्णः. 5 b दूसावासणियरु पटकुटीसमूहः. 6 a सैंमंति आत्मनो मन्त्री; सिमिरु शिविरम्; b ०रहियं आच्छादितम्. 8 b ससिसोमं चन्द्रमौम्यनाम्ना.

भीएण देव परिहरिवि दप्पु महुणरणाहहु पेसियउ कप्पु ।
 मायंग तुरय मणि दिव्व चीरुं कंकणकडिसुत्तयहारिहारु । 10
 असिकरकिंकररक्खिज्जमाणु ओहच्छइ पत्थु णिवद्धठाणु ।
 घत्ता—विहसंतं भणित्तं अणत्तं पालियं चाउव्वण्णहु ॥
 जीवंतहु महु पेक्खंतहु जाइ कप्पु किं अण्णहु ॥ ५ ॥

6

दुवई—जिम लंगलि णरिंदु जिम पुणु हउं पुहविहि अवरु को पहु ॥
 णिच्छउ धिवमि कुद्धकालाणणि पिक्कउ महु व सो महु ॥ छ ॥
 ता मंतं वुत्तउ भो कुमार किं गज्जसि किर परतत्तियार ।
 महुराउ भणहि महुघोट्ट काइं हा ण वियाणहि तुहुं तहु कयाइं ।
 मयवंत णरेसर णिहिल वहिय महि जेण तिखंड बलेण गहिय । 5
 णिज्जिय विज्जाहर जक्ख जेण आहवि को जुज्झइ समउं तेण ।
 तं णिसुणिवि णीलणियासणेण पडिवयणु दिण्णु संकरिसणेण ।
 महु भाइहि रणि देव वि अदेव तुहुं वण्णहि अरिवरु वप्प कैव ।
 पुरिसंतरु ण मुणहि णिव्विवेय ता पेसिय किंकर उग्गतेय ।
 रणि हणिवि जिणिवि ससिसोममंति रुंधिवि बंधिवि णं विंझदंति । 10
 आणिय मायंग तुरंग करह सोवण्णंहार वरवसह सरह ।
 घत्ता—आहरणइं पसरियकिरणइं कण्हहु अग्गइ घित्तइं ॥
 पडिणेत्तइं वण्णविच्चित्तइं णं रिउअंतइं पित्तइं ॥ ६ ॥

7

दुवई—ससिसोमेण देव जं पेसिउ तं खलदुक्खदाइणा ॥
 हित्तउं तुज्झ दव्वु आवेंतउ रुहसुएण राइणा ॥ छ ॥
 इय णिसुणवि चरवयणाउ वयणु किउ रापं मुहुं रत्तंणयणु ।
 पट्टुविउ वओहरु गउ तुरंतु धरणीतणयहु वज्जरइ मंतु ।
 किं भग्गउ वसुमइणाहमाणु किं हित्तु हेमु आगच्छमाणु । 5

४ A चारु. ५ A परिपालिय^० with परि in the margin.

6 १ A णीलणियासणेण; P णीलणियंसणेण, २ A सोवण्णभार.

7 १ AP खलु दुक्ख^०. २ AP आपंतउ. ३ P रत्तंणयणु.

9 b कप्पु करभारः. 10 b ^०हारिहारु मनोज्ञहारः. 12 पालियचाउव्वण्णहु पालितचातुर्वर्ण्यस्य मम पश्यतः.

6 2 पिक्कउ महुव पक्कमधुवत्. 4 a महुघोट्ट मधुगण्णः. 7 a णीलणियासणेण नीलवस्त्रेण. 13 पडिणेत्तइं पित्तइं पित्तानि.

7 2 आवेंतउ आगच्छत्. 4 a वओहरु वचोहरो दूतः.

किं खलिउ गयणि दिणयरु भमंतु	आमंतितु किं भुक्खित्तु कयंतु ।
हा हे विबुद्धि धगधगधगंतु	उच्चोल्लिहि अंगालउ णिहित्तु ।
किं तोडिउ केसरिकेसरग्गु	किं महिवइआणापसरु भग्गु ।
आहव्वभावु परिहरहि दोसु	पट्टवहि ससामिहि सव्वु कोसु ।
ता चवइ उविंदुप्पणरोसु	दक्खालमि तहु असिवरु विकोसु । 10
जइ लोहिउ णउ पायमि पिसाय	तो छित्ता लइ मइ धम्मपाय ।
ता दूयहु मुहि णीसरिय वाय	जिह जंपइ तिह को धिवइ घाय ।

घत्ता—कहजोग्गइ महिलहुं अग्गइ सयलु वि गज्जइ णिययघरि ॥
जससंगहि जीवियणिग्गहि विरलउ पहरइ संगरि ॥ ७ ॥

8

दुवई—एवं चवंतु दूउ गउ रायहु कहियउ तेण वइयरो ॥
देव ण देइ कप्पु वसुहासुउ गलगज्जइ भयंकरो ॥ छ ॥

ता वासुएवस्स	पडिवासुएवस्स ।	
तुंदुहिणिणायाइं	रणभूमिआयाइं ।	
संगाहवद्धाइं	णिहयइं कुद्धाइं ।	5
सेण्णाइं जुज्झंति	वीरेहिं रुज्झंति ।	
खग्गेहिं छिज्जंति	कौंतेहिं भिज्जंति ।	
वम्माइं लुम्मंति	रत्तेण तिम्मंति ।	
चम्माइं फुट्ठंति	अट्टियइं तुट्ठंति ।	
वृहाइं विहडंति	मंडलिय णिवडंति ।	10
अंतेहिं गुप्पंति	खेयर समप्पंति ।	
वड्ढंतसमरट्ठि	गयदंतसंगट्ठि ।	
गरुलेस महुराय	उक्खित्त णाराय ।	
चिरवइरियालग्ग	धणुवेयकयमग्ग ।	
पंचाससरहेहिं	मायंगसीहेहिं ।	15
फणिपक्खिराएहिं	मेहेहिं वाएहिं ।	

४ A इंगालउ.

8 १ AP तुट्ठंति. २ AP फुट्ठंति.

8 b उच्चोल्लिहि कटीवस्त्रे. 9 a आहव्वभावु प्रसृताभिलापः. 11 a पिसाय पिशाचान्.

8 1 वइयरो व्यतिकरः. 8 a वम्माइं मर्माणि. 10 a वृहाइं व्यूहाः. 11 अंतेहिं अन्त्रैः.
12 a वड्ढंतसमरट्ठि वर्षमानाहंकारे. 14 b धणुवेयकयमग्ग धनुर्वेदे कृतो मार्गः प्रवृत्तिर्याभ्याम्.
15 a पंचासं सिंहः.

पहरन्ति ते बे वि
महुणा पजंपियउं

ता चक्कु करि लेवि ।
किं दविणु महुं हियउं ।

घत्ता—किं धम्मं गयभडकम्मं जो पहरणु णावेक्खइ ॥

मइं कुद्धइ जयसिरिलुद्धइ एमहिं को पइं रक्खइ ॥ ८ ॥

20

9

दुषइ—ता दामोदरेण रिउ दुंछिउ धम्मपहाणुआरिणा ॥

एण रहंगएण दारेव्वउं तुहुं मइं कित्तिकारिणा ॥ छु ॥

तं सुणिवि

भुय धुणिवि ।

मणहरिहि

सुंदरिहि ।

विउसयण-

कयवयण-

5

विणुएण

तणुएण ।

खयकरणु

रहचरणु ।

रणि मुक्कु

खणि दुक्कु ।

णहि चलिउं

जलजलिउं ।

समियक्कु

करि थक्कु ।

10

अहिणवहु

केसवहु ।

तं धरिवि

छलु भरिवि ।

दीहरेण

मच्छरेण ।

विप्फुरिवि

हुंकरिवि ।

माहवेण

घणरवेण ।

15

तणु गणिउं

अरिभणिउं ।

रे पाव

करि सेव ।

दुहहरहु

हलहरहु ।

पइं कालु

दाढालु ।

सेवंतु

घोरंतु ।

20

रूसविउ

उट्टविउ ।

कंडुइवि

छलु मुइवि ।

ओसरहि

मा मरहि ।

घणघणइ

काणणइ ।

पइसरिवि

जिणु सरिवि ।

25

9 १ AP दामोदरेण. २ P^oपहाणुरायणा. ३ A जले जलिउ. ४ AP त्सविउ. ५ A कंडुएवि.

9 1 दुं छिउ निर्भस्मितः; धम्मपहाणुआरिणा धर्ममार्गानुच्चारिणा. 6 a विणुएण स्तुतेन;
b तणुएण सुन्दर्याः पुत्रेण. 7 b रहचरणु चक्रम्. 10 समियक्कु शमितार्कम्. 12 b छलु भरिवि
पौरुषमवलम्ब्य.

व्रुं उ धरहि	तउ करहि ।	
ता चवइ	चक्कवइ ।	
सुरउइ	दालिइ ।	
डिंभस्स	लुहियस्स ।	
को कंढुं	आणंदु ।	30
मणि जणइ	दिहि कुणइ ।	
सयडंगु	तुहुं तुंगु ।	
महुं चंइ	भुयदंइ ।	
सकयत्थ	दिव्वत्थ ।	
मरु हणमि	सिरु लुणमि ।	35

घत्ता— ता चकें महुमहमुकें महुवच्छत्थलु छिण्णउं ॥
करतंवे णं रविविंवे कालउ अच्चु विहिण्णउं ॥ ९ ॥

10

दुवई—पत्तउ महु मरिवि समरंगणि तमतमर्णामवसुमई ॥
जायउ अद्धचक्कि लच्छीहरुं भुवणि सयंभु महिवई ॥ छ ॥

जलकीलइ वणकीलइ रमंतु	अंगाइं कुसुमसयणइ घिवंतु ।	
भंडारवत्थुसारइं णियंतु	मायंगतुरंगसमारुहंतु ।	
घवघवघवंतुं चलणवेराइं	माणंतु चारुंअंतेउराइं ।	5
आसत्तु कामि णं भमरु गंधि	मुउ हुउ अंतिमणरयंतरंधि ।	
णिवसेप्पिणु पुहईजणणिगग्भि	हा हा सइंभु पडिओ सि सुब्भि ।	
सम्मत्तवंति मिच्छत्तविरइ	मइं भायरम्मि जिणधम्मणिरइ ।	
बुद्धो सि ण कम्महु अत्थि मल्लु	किं बद्धउ आसि णियाणसल्लु ।	
इय एव धम्मु विरएवि सोउ	णंदणहु समप्पिवि सिरिविहोउ ।	10
आउच्छिवि परियणु सर्यणु लोउ	दुज्जोउ व मेल्लिवि दिव्वभोउ ।	

६ AP वउ. ७ P कुंदु. ८ A चंड. ९ A दंड.

10 १ P णामि. २ P लच्छीहउ. ३ A 'घवंतचल'. ४ AP 'णउराइं. ५ AP माणंतु सुहयअंते'. ६ AP सयलु.

30 a कंदु इन्दुः. 32 a सय डंगु शकटाङ्गं चक्रम्. 37 करतंवे किरणताम्रेण; वि हि ण्ण उ विदारितम्.

10 1 तमतमणा मधसुमई सप्तमनरकभूमिः. 5 a चलणं वराइं चलनूपुराणि. 6 अंतिमणरयंरंधि सप्तमनरकच्छिद्रे. 7 b सुब्भि श्वभ्रे नरके. 10 a विरएवि सोउ शोकं कृत्वा; b सिरिविहोउ श्रीविभोगः. 11 b दुज्जोउ दुष्टप्रहादीनां योग इव.

पणवेवि विमलवाहणु जिणिंदु
पावेप्पिणु करणविहीणणाणु

वहुरायहिं सहं ह्यउ मुणिंदु ।
भव्वयणि णिउंजिवि धम्मदाणु ।

घत्ता—भरहेसरु पढमणरेसरु जिह तिह धम्मु वि दढभुउ ॥

गउ मोक्खहु सासयसोक्खहु पुष्पदंतगणसंथुउ ॥ १० ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे धम्मसयंभुमहुकहंतरं
णाम छप्पणासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५६ ॥

७ A भव्वयण. ८ AP णिजुंजिवि. ९ A पुष्पयंत°. १० A महुमहकहंतरं.

13 a करण वि ही ण णा णु इन्द्रियरहितं केवलज्ञानम्.

पुणु भासइ गोत्तमु सेणियहु दुद्धरदुक्खकिलेसमह ॥
सिरिविमलणाहजिणगणहरहं मंदरमेरुहं तणिय कह ॥ ध्रुवकं ॥

1

जंवूदीवइ अवरविदेहइ
मंदचूयचवचिचिणिचारइ
देसु गंधेमालिणि जाणिज्जइ
भमरहिं वियलंतउं महु पिज्जइ
जहिं माहिसु सरसलिलभंतरि
अहिणवपल्लववेल्लीभवणइ
गंधसालिपरिमलु दिस वासइ
णिइवि छत्तवाल्लिणिइ मुहुल्लउं
दहिउल्लउं जहिं कूरकरंबउ

माणवमिहुणयवहियणेहइ ।
सीओयाणइउत्तरतीरइ ।
गाइहिं कंगुकाणिसु जहिं चिज्जइ । 5
पक्खिहिं कलरवु जहिं विरइज्जइ ।
णहाइ पउरपंकयरयपिंजरि ।
गोव सुवंति पुप्फपत्थरणइ ।
पूसउं कं धुणंतु जहिं वासइ ।
जहिं पंथिय चवंति सरसुल्लउं । 10
पवहि पवहि जिम्मइ अंबंवउ ।

घत्ता—तहिं देसि रवणु सुवण्णमउ णहविलग्गमंदिरसिहरु ॥
परिहापायारहिं परियरिउ वीयसोउ णामे णयरु ॥ १ ॥

2

रायमहारिसि मुक्कवियारउ
जाइ जणिउ सा धण्णी णिव सइ
गेहिणि भव्व सब्वासिरि णामे
संजयंतु अण्णेक्कु जयंतउ
सारसमिहुणसरालवणंतरि
पक्कहिं दिणि दक्खवियरहंतहु
धम्मु अहिसावंतु सुणेप्पिणु

सो सुयणायाणायवियारउ ।
णरवइ वइजयंतु तहिं णिवसइ ।
सुय उप्पण्णा सुहपरिणामे ।
अणिहणजसधवलियतिजयत्तउ ।
णासियसोय असोयवणंतरि । 5
पयजुयलउं वंदिवि अरहंतहु ।
हियउल्लउं मुणिमग्गि थवेप्पिणु ।

1 १ AP चूयचवि^०. २ A गंधुमालिणि. ३ A पूसउ कण चुणंतु; P पूसउ कणु चुणंतु.

2 १ AP ^०तिजयंतहु. २ A जिणमग्गि. ३ T सुणेप्पिणु सुट्टु नीत्वा.

1 1 ^०किलेसमह ^०— 5 b चिज्जइ भक्ष्यते. 7 b पउरपंकयरयपिंजरि प्रचुरपद्म-
रजःपीते. 8 b पुप्फपत्थरणइ पुष्पास्तरणके. 9 b पूसउकंधुणंतुजहिंवासइ यत्र शुकः मस्तकं
कम्पयन् शब्दं करोति. 11 a दहिउल्लउं दधियुक्तम्; b पवहि मार्गैः; पवहि प्रपायाम्; अंबंवउ अति-
शयेन अम्लः.

2 1 a रायमहारिसि राज्ञां प्रधानः, राजपूज्यः; b सुय श्रुतम्. 2 a सइ सती पतिव्रता.
3 b सुय सुतौ. 5 a ^०सरालवणंतरि शब्दयुक्तजलविशेषे. 6 a दक्खवियरहंतहु दर्शितान्तरायान्तस्य.

वहजयंतणामहु सदेष्णिणु संजयंततणयहु महि देष्णिणु ।
 ते तिविहें णिव्वेणं लइय छिंदिवि मोहलोहदुल्लइय ।
 आमेल्लियणियसुल्लियजाया पिउ पुत्तय तिण्णि मि रिसि जाया । 10
 इय तवविहिहि णिति किर के बलु बप्पहु उप्पणउ जहिं केवलु ।

घत्ता—तहिं आयहु देवहु फणिवइहि रूवु णिहालिवि हिययहरु ॥
 णिज्जायइ लुद्धु जयंतु मुणि जइ फलु देसइ सुतवतरु ॥ २ ॥

3

तो मज्झु वि एहउं लायणणउं होजउ भवि सोहग्गाइणणउं ।
 एव णियाणणिवंधणबंधउ जणु तिहिं सल्लहिं सयलु वि खद्धउ ।
 मुउ जयंतु संपत्तइ कालइ जायउ विसहरिंदु पायालइ ।
 जेण वएण मोक्खु पाविज्जइ तें संसारु केंव मग्गिज्जइ ।
 मोहें मोहिउ लोउ ण याणइ काणणि कार्याणंतिय वीणइ । 5
 सवरुल्लउ किं मोत्तिउं वुज्झइ मिच्छाईइदिहि दिट्ठि ण सुज्झइ ।
 आहिंइंतसरहपंचाणणि तावेक्कहिं दिणि भीसणकाणणि ।
 णिज्जियराएं वज्जियकाएं संजयंतु धिउ पडिमाजोएं ।

घत्ता—मुणिमारउ धीरउ दुइरिसु दूसहु गुणसांणहियसरु ॥
 णियभामइ सामइ रामियउ णं रइरामइ कुसुमसरु ॥ ३ ॥ 10

4

णहयलि विज्जुंदादु विज्जाहरु विहरइ असिवरु वसुणंदयकरु ।
 सुरहरु रिसिहि उवरि ण पयट्टइ दुज्जणमणु व णं जाव विसट्टइ ।
 ताव तेण अवलोइउं महियलु दिट्टउ मुणिवरु मेरु व णिच्चलु ।
 सुमरिवि पुव्ववइरु भुइ ढोइउ विज्जासामत्थेणुच्चाइउ ।

४ AP दुल्ललिय. ५ A बप्पहं.

3 १ AP °बद्धउ. २ A कार्याणणिय. ३ A मिच्छाहिदिहि. ४ P आहिंइंति सरह°.

4 १ A विज्जदादु. २ AP जाव ण.

9 b °दुल्लइय दुर्लतिकाम्. 10 a °जा या भार्या. 11 a णि ति किर के बलु नयन्ति के नरा बलं शक्तिम्, के पुरुषाः प्राप्नुवन्ति यथा पितुः केवलमुत्पन्नम्.

3 1 b सोहग्गाइणणउं सौभाग्याकीर्णं व्याप्तम्. 5 b कार्याणंतिय काकणी सुक्खा; वीणइ प्रार्थयति. 6 a सवरुल्लय भिच्छः. 8 a णि ज्जियराएं निर्जितरारोण. 10 णियभामइ सामइ इयामा-नाभ्यां निजभार्यया; रामियउ अनुरजितः.

4 2 a सुरहरु विमानम्. 4 a भुइ ढोइउ बाहुभ्यां विषये धृतः.

आणित तुंगसाहिसंघायइ
हरिवइ करिवइ चामीयरवइ
एयंउ मिलियउ जहिं तहिं पेल्लिउ
देसु असेसु तेण संचालिउ
णगउ णिग्घिणु वसणोवायउ
दुम्मुहु दुडुबुद्धि विवरेरउ
ता मणुयहिं मुणिंदु कयरोसहिं

भारहवरिसंपुब्बदिसिभायइ । 5
कुसुमवइ वि चंडवेर्योणइ ।
पंचमहासरिसंगमि घल्लिउ ।
अच्छइ एत्थुं एक्कु मलमइल्लिउ ।
तुम्हइं रक्खसु भक्खहुं आयउ ।
हणह कुण्ह जइ मंतु महारउ । 10
ताडिउ उवलहिं दंडसहासहिं ।

घत्ता—थिंरु सत्तु मित्तु समभावि थियु सुक्कण्णसंरुद्धमणु ॥

सो खवउ खवयसेदिहि चडिउ तिणु वि ण मण्णइ णिययतणु ॥४

5

साहु भीमु उवसग्गु सहेप्पिणु
गउ तहिं जहिं गउ पुणरवि णावइ
मारिजंतु वि वइरिसमूहें
ताहं मि जणु पहरणु किं धारइ
सहुं देवहिं भवभावणिसुंभइ
आयउ सो जयंतु उरंजंगउ
फुक्कारुड्ढावियणहयंदें
माणवणिवहु णिबद्धउ णायहिं
अवरहिं वुत्तु फणिंद वियारहि
उक्खयखग्गे मच्छरगाढें
परियणसयणहिं सहुं थरहरियउ

तिकलेवरणिबंधु मेल्लेप्पिणु ।
मुणिवरलील तिजगि को पावइ ।
जे कया वि घिंपंति ण कोहें ।
जहु अप्पणु अप्पाणउं मारइ ।
तहिं णिव्वाणपुज्ज पारंभइ । 5
पेच्छिवि चिरबंधुहि पडियंगउ ।
आरूसेप्पिणु खणि धरणिंदें ।
विणिहंउ णीससंतु कसघायहिं ।
अम्हइं काइं भडारा मारहि ।
एउं सव्वु विलसिउं तडिदाढें । 10
ता णासंतु सत्तु सो धरियउ ।

घत्ता—किर बंधिवि घिवइ समुद्दजलि ता फणिवइ दुम्मियहियउ ॥

आइच्चपहावें सुरवरिण करुण करेप्पिणु पत्थियउ ॥ ५ ॥

३ A °वरिसि पुव्व. ४ A कुसुमचंडई व पाणइ; P कुसुमवइ वि चंडवियाणइ. ५ A जहिं एयउ मिलि-
यउ तहिं पेल्लिउ. ६ AP एक्कु एत्थु. ७ P कुणाह. ८ A दुडुसहासहिं. ९ AP थियु. १० AP
खवगसेदिहि.

5 १ A मलेप्पिणु. २ AP जहिं सो गउ पुणु णावइ. ३ A मोहें. ४ AP अप्पाणउं अप्पणु.
५ AP उरजंगमु. ६ A वणि हउ. ७ AP °आइच्चपहाहे. ८ A करणु; P करणु.

5 a °सा हि संघा यइ वृक्षसंघाने. 6 a हरिवइ हरिमत्यादिपञ्च सरितः; b चंडवेया चंडवेगा. 9 a
वसणोवायउ दुःखोत्पादकः. 13 खवउ क्षपकः.

5 5 a भवभावणिसुंभइ संसारस्फेदके. 6 a उरजंगउ सर्पः धरणेन्द्रः. 8 a णायहिं
नागपाशेन; b कसघायहिं कशाघातैः. 9 a वियारहि विचारय. 10 b विलसिउं चेष्टितम्.
13 करुण करेप्पिणु करुणां कृत्वा.

6

गायराय पहएं किं आएं
मुइ मुइ किं किर कलुससहावें
एत्थु ण को वि बंधु णउ वइरिउ
जेण सुसीलवंतु संताविउ
किर मुणि तवदुक्खि तणु तावइ
इहु हिंसइ इहु धम्मि पयट्टइ
तं णिसुणेवि रोसु मेलेप्पिणु
दारणमारणविहिविच्छिणणउं

लज्जिज्जइ णिहएण वराएं ।
पावयम्मु सइं खज्जउ पावें ।
पिसुणु ण होइ एहु उवयारिउ ।
मोक्खु तुहारउ भायरु पाविउ ।
अण्णे किउ तं तहु णिरु भावइ । 5
चउंजम्मंतरु दोहं वि वट्टइ ।
चवइ अहीसरु सिरु विहुणेप्पिणु ।
भणु किह विहिं मि वइरु संपैणणउं ।

घत्ता—तं णिसुणिवि दरंदरिसियदसणदित्तिइ जगु धवलउं करइ ॥
कह देवदिवायराहु फणिहि बहुरसभावहिं वज्जरइ ॥ ६ ॥ 10

7

भारहगोत्तखेत्तरक्खणवइ
सयलकलाविण्णाणवियक्खण
पढमु मंति सिरिभूइ विणीयउ
विहसियंसरलसरोरुहणेत्तउ
तहु गेहिणिहि सुमित्तिहि हूयउ
हिंडंतें जाएण जुवाणें
तेण किरणसंताणसिणिद्धं
देसिएण सीहउरि वसंतें
तक्करभीएं रुइविच्छिणणइं

सीहसेणु सीहउरि महीवइ ।
रामयत्त तहु देवि सलक्खण ।
सच्चघोसु अवरु वि तहिं वीयउ ।
पउमसंडपुरि सेट्ठि सुदत्तउ ।
भद्दमित्तु सिसु णिरुवमरूवउ । 5
देसंतरु लंघिवि पहरिणें ।
रयणदीवि वररयणइं लद्धइं ।
सुद्धसहावें बहुगुणवंतें ।
सच्चघोसमंतिहि करि दिण्णइं ।

घत्ता—गउ अप्पणु पुणरवि णियघरहु लेवि सहायसमागयउ ॥ 10
जा मगइ रयणइं णिहियाइं ताव लुद्धु लोहें हयउ ॥ ७ ॥

6 १ P चउजम्मं तरु देहविषट्टइ. २ A उपण्णउं. ३ AP दरंदरिसिय°. ४ A देवदिवा-
यरु तहो; P देउ दिवायराहु.

7 १ AP भारहखेत्ति येत्त°. २ A रामदत्त. ३ A सो च्चिय सच्चघोस पुणु भणियउ;
P सोत्तिय सच्चघोसु तहिं भणियउ. ४ AP वियसिय°: K वियसिय° but corrects it to विहसिय.
५ AP सणिद्धइं.

6 1 a पहएं किं आएं एतेन प्रहतेन किम्. 3 b उवयारिउ उपकारकर्ता. 7 b विहुणे-
प्पिणु कम्पयित्वा. 9 दरंदरिसियदसणदित्तिइ ईषद्दर्शितदन्तकान्त्या. 10 कह कथा.

7 6 b पहरिणें अध्वक्लान्तेन. 8 a देसिएण परदेशप्राप्तेन.

8

देह ण मंति तासु पियरयणइं
वणिवरु घरि घरि फुडु पुक्कारइ
पुच्छिउ रापं कालउ तंबउ
दीणु रयंतउ णिच्चु जि दीसइ
घोसाहि सच्चघोस किं जुत्तउं
हउं वि तुहुं वि जइ चोरु णिरुत्तउ
तो किं जियइ को विं भुवणंतरि
हिंडइ द्द्वपिसापं भुत्तउ
एउ चोरु चित्तं^१ गहियउं

णाइं विरत्तउ विडयणु णयणइं ।
खलु लच्छीमपण अवहेरइ ।
हित्तउ काइं वत्थुणिउरंबउ ।
पइं दूसइ अण्णाउ पघोसइ ।
तो विहसेप्पिणु विप्पं वुत्तउं । 5
जणणि गिलइ जइ डिंभउ सुत्तउ ।
एहु लयउ चोरेहिं वणंतरि ।
जंपइ जं जि तं जि अवचित्तउ ।
ता रापण वि तं सहहियउं ।

घत्ता—वणि डिंभसहाँसहिं परियरिउ भमइ णयरि परिमुक्कसरु ॥ 10
आरडइ करुणु सुरुग्गमणि णिवधरणिउडइ चडिवि तरु ॥ ८ ॥

9

मइं दिहिवंतइ सीलविसुद्धइ
परवंचणगुणतग्गयचित्तहिं
णिरणुद्दाणु दीणु दालिह्दिउ
तंहु जंपिउ ण को वि आयण्णइ
णिवं तुह मंदिरि चोरहं उण्णइ ।
एम चवेप्पिणु सुंदरु विहियउं
पयहिं पडंतु संतु हक्कारिउ
दोहिं मि अक्खजूउ पारद्धउं
मज्झु जाइ णीसेसहु देसहु
चामीयरसोहासोहिल्लहि

ता महपविइ वुत्तु विरुद्धइ ।
महिवइमइ भामिजइ धुत्तहिं ।
अप्पणु जइ वि होइ सोहदिउ ।
राउ वि णिद्धणवयणु ण मण्णइ । 5
पासाहलउ पासि संणिहियउ ।
आउ महंतु तहिं जि वइसारिउ ।
देविइ भल्लउं उत्तरु लद्धउं ।
तुज्झु वि^३ सुत्तहु दियवरवेसहु ।
अवरु वि मुद्दइ मणितेइल्लहि । 10

8 १ A वणि वरु पुंडरीउ पुक्कारइ. २ AP रापं वणिउ चवंतउ. ३ P तो. ४ A omits वि.
५ A चोरु. ६ AP चित्तं. ७ A °सहासि. ८ AP णिवधरि णियडउं.

9 १ P तहिं. २ A adds this line in second hand; P omits it. ३ AP जि.
४ AP मुद्दहि.

8 1 b वि डयणु विटजनः. 2 b अवहेरइ भर्त्सयति. 3 b वत्थुणि उरंबउ वस्तु रत्नम्;
णि उरंबउ समूहः, रत्नसमूह इति यावत्. 8 b अवचित्तउ उद्धान्तचित्तः. 9 a चित्तं चिन्तनं
कुर्वता. 11 णिवधरणिउडइ राजशहसमीपे.

9 1 b विरुद्धइ विरुद्धया कुपितया. 2 b महिवइमइ राज्ञां मतिः. 3 a णिरणुद्दाणु निरु-
द्यमः; b सोहदिउ मौहार्दयुक्तः. स्नेहयुक्तः. 6 b पासाहलउ पाशफलकः. 8 a अक्खजूउ सारिद्युतम्.

विणिण वि एयइं भूसियगत्तइं
महियंगुलियइ वञ्जुलियइ

रायाणियइ छइल्लइ जित्तइं ।
उववीयउ सहुं अंगुत्थलियइ ।

घत्ता—तं णिउणमईहिं समप्पियउं धाँइहि हियवउं हरिसियउं ॥
अहिणाणु महामंतिहिं तणउ भंडाँयारिहि दरिसियउं ॥ ९ ॥

10

पप्फुल्लियसुवत्तसयवत्तइ
अच्छइ गुरु राउलि अवलोयहि
तां कोसाहिवेण सामुंगउ
गय सा तं लेप्पिणुं खणि तेत्तहि
जूयपवंचु पहुहि वज्जरियउ
ता रापं पायावलिजडियइं
पडिहारिं आहूयउ वणिवरु
भणिउं णरिंदं वणिउ णिरिक्खइ
लइयउ तेत्थु तेणं णियमणिगणु
दिण्णउं पुरमहल्लसेट्टित्तणु
मंतिणिरिक्कु दुक्कु अवमाणहु
सीसि तीस खरंठक्करघायहिं

चिंधु पदंसिवि वुत्तउं धुत्तइ ।
भद्मिन्तमाणिकइं देयाँहि ।
अप्पिउ धाइहि वत्थुसमुगउ ।
अच्छइ सणिवणिवाणी जेत्तहि ।
वसुविसेसु कुडिलें अवहरियउ । 5
अण्णइं रयणइं तहिं तोंतडियइं ।
लइ णियमाणिकइं पसरहि करु ।
णियधणु कि ण को वि ओलक्खइ ।
जिह मणिगणु तिह णरणाहहु मणु ।
पावइ को ण सुइत्तें कित्तणु । 10
कंसथालि खावाविउ छाणहु ।
ताडिउ मल्लहिं कुंचियकायहिं ।

घत्ता—कसपहरपरंपरसुद्धियतणु वरवेयणवद्धियजरउ ॥

मुउ रायहु उप्परि कुचियमणु हुउ वसुवासइ विसंहरउ ॥ १० ॥

५ AT विञ्जुलियइ; but gloss in T हीरदीप्या. ६ A महिवइहियउं. ७ P भडायारिहे.

10 १ P तो. २ A साचमगउ; P मामगउ. ३ P लेप्पिणु तंखणि. ४ P सणिवइराणी.

५ P adds वि after तेण. ६ A पावइ को ण सुइत्तें; P पावइ किं ण सुइत्तें. ७ A सीस तीस खर-
टक्कर^०; P सीसि तीस खरठक्कर^०. ८ A धणवेयण^०; P वणवेयण^०. ९ A विसहर.

11 b छइल्लइ चतुरया. 12 a महियंगुलियइ पूजिताङ्गलिकया; वञ्जुलियइ हीरकैदीप्रया;
b उववीयउ यज्ञोपवीतम्. 14 भं डायारिहिं भाण्डागारिकस्य.

10 1 a पप्फुल्लियसुवत्तसयवत्तइ प्रोत्फुल्लितसुवक्त्रकमलया. 3 a सामुगउ समुद्रकः
करण्डकः; b वत्थुसमगउ वस्तुपूर्णः रत्नपरिपूर्णः. 4 b सणिवणिवाणी स्वप्नभार्या. 5 b वसुविसेसु
द्रव्यविशेषः. 6 a पायावलि^० किरणपंक्तिः; b तोंतडियइं मिश्रितानि. 10 b सुइत्तें शुचित्वेन. 11 a
मंतिणिरिक्कु मन्त्रिचोरः; b छाणहु गोमयस्य. 13 ^०सुद्धियं शूना; वरवेयण^० तीववेदनाः. 14 वसु-
वासइ भाण्डागारे.

11

भीमु अगंधणकुलि संभूयउ
सिसुससिसरिसंविसमदाढाणु
कज्जलंकणहलतंबिरलोयणु
फुक्करंतु दुम्मुहु अहि अच्छइ
ता राएण रिद्धिपरिउण्णउं
असणवणंतरि कंतारायलि
सुणिवि धम्मु संसारहु संकिउ
णियजणणिइ लुहियइ उवलद्धउ
मरिवि महाबलु पडिवलमहणु
सीहंचंदु पहिलारउ भासिउ
रामयत्त विहिं पुत्तहिं राहिय
अण्णहिं दिणि कुलकमलदिणेसर

णं जमपासउ णं जमदूयउ ।
धणणिहिकलसयवलइयणियतणु ।
कोइलभसलकसणु मरुभोयणु ।
दीहरु कालु जाव तहिं गच्छइ ।
मंतित्तणु धम्मिल्लहु दिण्णउं । 5
धम्मणाममुणिवरपयजुयतलि ।
भहमित्तु जिणवरदिकखंकिउ ।
गहणि सुमित्तौवग्धिइ खद्धउ ।
मयवइसेणहु जायउ णंदणु ।
पुण्णयंदु तहु अणुउ पयासिउ । 10
णं पुण्णिम रविससिहिं पसाहिय ।
दविणागारु णियंतुं णरेसर ।

घत्ता—जो सञ्चघोसु चिरु मंतिवरु बद्धवइरु हुउ सप्पु घरि ॥
तें रूसिवि डक्किउं भीसणिण णउलीयरणु करेवि करि ॥ ११ ॥

12

मुउ सल्लइवणि जायउ करिवरु
णवर ससामिमराणि कुज्झंतें
गारुडदंडएण गारुडिं
भणिउ काइं महुं वयणु णियच्छहु
ता पइसरिवि जलणि अहि णिग्गय
पञ्चारियउ इयरु मंतीसैं
एवहिं एम काइं अच्छिज्जइ

असणिघोसु णामें दीहरकरु ।
मंतसारु सयलु वि बुज्झंतें ।
फणि आवाहिय मच्छरचंडिं ।
दीवुं धरेप्पिणु णिलयहु गच्छहु ।
अकयदोस जे ते सयल वि गय । 5
राउ महारउ भक्खिवि रोसैं ।
जिम सिहि खज्जइ जिम विसु छिज्जइ ।

11 १ P °सरिससविसदाढा°. २ A कज्जलकणिहरतंबिर°; P कज्जलकज्जलतंबिर°. ३ A °वग्धिणि-
खद्धउ. ४ P सीहचंदु. ५ AP पुण्णचंदु. ६ AP ससिरविहिं. ७ AP णियत्तु. ८ P तं रूसिवि.
९ AP डंकिउ.

12 १ A गारुडियइ. २ १ चडियइ. ३ A दिवु धरेप्पिणु; P दीउ धरेप्पिणु. ४ P जलणि.
५ A चिजइ.

11 2 b °कलसयवलइय° कलशकवेष्टिता. 3 b मरुभोयणु वातभोजनः सर्पः. 6 a
कं ता रायलि कान्ताराचले. 8 a लुहियइ बुभुक्षितया. 9 b मयवइसेणहु सिंहमेनस्य. 10 b अणुउ
अनुजः. 14 डक्किउ दष्टः.

12 2 a कुज्झंतें कुध्यतः. 6 a इयरु इतरो दोषवान्.

ता चितइ कुंभीणसु णियमणि
उंगिल्लिउ विसु केम गिलिज्जइ

अम्हइं जाया गोत्ति अगंधणि ।
कुलसामत्थु केम मइल्लिज्जइ ।

घत्ता—मैरणि वि संपण्णइ गरुयगरु कुलछल्लु माणु ण मेल्लियउ ॥ 10
जालावलिजलियइ विसहरिण अप्पउं हुयवहि घल्लियउ ॥ १२॥

13

अट्टज्झाणमरट्टे सो मुउ
खंति हिरण्णवई वणि वंदिवि
रामयत्त पियदुक्खे भग्गी
सिहँचंदु चिरु रज्जु करेप्पिणु
पुण्णचंदु भयवंतु णवेप्पिणु
जायउ इंदियदप्पवियारणु
रामयत्तदेवीइ मणोहरि
वंदिउ वंदणिज्जु णियमायइ
कुच्छि सलक्खण एक्क महारी
अज्ज वि अच्छइ काइं रमारउ
तं णिसुणेप्पिणु भणइ भडारउ

कालवणंतरि हुयउ चमरीमउ ।
दुक्किउ पुणु पुणु णिंदिविं गरहिवि ।
पंचमहव्वयचरियहि लग्गी ।
पुरु धरित्ति णियभायहु देप्पिणु ।
पवरदियंवरवित्ति लपप्पिणु । 5
मणपज्जयणाणिउ णहचारणु ।
दिट्ठउ काणणि ललियलयाहरि ।
पुणु आउच्छिउ सुंमहुरवायइ ।
तुहुं जणिओ सि जाइ भववइरी ।
धम्मु ण गेणहइ भाइ तुहारउ । 10
णिसुणहि ससयणभववित्थारउ ।

घत्ता—कोसलविसयंतरि धणभरिउ बुट्टगाउं वइपरियरिउ ॥

तहिं आसि मृर्गायणु विप्पवरु महुरइ बंभणीइ धँरिउ ॥ १३ ॥

14

सज्जणमोहणि णावइ वारुणि
मरिवि मयायणु पुरि साकेयइ

धीय विहिं मि उप्पण्णी वारुणि ।
अइवल्लणामणरिंदणिकेयइ ।

६ AP उगिल्लियउ. ७ AP ते मरणे वि होतए गरुयगरु कुलछल्लु.

13 १ A °ज्झाणमरणेण य सो मुउ. २ AP गरहिविं णिंदिवि. ३ AP सीहचंदु. ४ A णएप्पिणु. ५ A समहुर° ६ AP मिगायणु. ७ AP वरिउ.

14 १ P मियाणणु.

8 a कुंभीणसु सर्पः. 10 कुलछल्लु कुलवल्लम्.

13 1 a मरट्टे दर्पेण; b चमरीमउ चमरीमृगो गवयः. 2 a हिरण्णवई मृगायणविप्रचरा सा; अस्मिन्भवे माता पूर्वजन्मनि भर्ताभूत्. 3 a पियदुक्खे भर्तृदुःखेन. 7 b °लया हरि लतागृहे. 11 b ससयण भववित्थारउ निजस्वजनभवविस्तारः 12 वइ° वृत्तिः.

14 1 a वारुणि मयम्; b वारुणि वारुणीनाम्नी.

सुमंईदेविहि गग्भि समायउ
धीय हिरणवइ त्ति य जायउ
पोयणपुरवरि ख्वरवण्णी
जा चिरु महुर सा जि तुहं हई
भइमित्तु सुउ तुह उप्पणउ
वारुणि पुण्णयंदु जाणिज्जसु
पुण्णचंदु जो पोयणसामिउ
जो तुह जणणु तुज्जु गुरु जायउ
ताउ महारउ कंतु तुहारउ
कूरतिरियजम्मं संमोहिउ

पुरिसु वि थीलिंगंतु आयउ ।
भुवणि वियंभइ कम्मविवायउ ।
पुण्णयंदणरणाहहु दिण्णी । 5
रामयत्त दोहं मि सिरिदुई ।
सीहंइंदु हउं णेहिं भिण्णउ ।
अम्मिइ मोहु हवंतु खमिज्जसु ।
भइवाहुगुरुणा उवसामिउ ।
महु वि सो जि सुरंपुज्जियपायउ ।
जायउ वणि वारणु दुव्वारउ ।
हणणकामु सो मइ संबोहिउ ।

घत्ता—ओसरु गयवर मयरयभमर मा दूसहु दुक्किउ करहि ॥

किं णिहणहि णंदणु अप्पणउं सीहयंदु णउ संभरहि ॥ १४ ॥

15

ता जाइंभरु जायउ कुंजरु
झायइ इहु रिसि तणुरुहु मेरउ
जो चिरु भुंजंतउ रस णव णव
जो चिरु सेवंतउ वरणारिउ
जो चिरु चंदणकुंकुमलित्तउ
जो चिरु सुहुं सोवंतउ तूलिहि
जो चिरु देंतउ दाणु सुदीणहं
जो चिरु जाणंतउ छग्गुण्णउं
डज्जउ देव एय तिरियत्तणु

दुद्धरु गिरिवरगेरुयपिंजरु ।
हउं जायउ वणि करि विवंरउ ।
सो एवहिं भक्खमि तरुपह्व ।
तहु एवहिं दुक्कउं गणियारउ ।
सो एवहिं कइंमि पंगुत्तउ । 5
सो एवहिं हउं लोलमि धूलिहि ।
सो एवहिं महुयरसंताणहं ।
तें किह पुत्तं णिहणु पडिवण्णउं ।
ता मइ भणिउं मुणेप्पिणु तहु मणु ।

घत्ता—मा णिहणहि पडिकरि गिरितरु वि जीव णिहालिवि पउ घिवहि । 10
गय भक्खहि णिवडियदुमदलइं परकलुसिउ पाणिउ पियहि ॥ १५ ॥

२ AP सुम्मइदेविहि. ३ A थीलिंगिं तहु. ४ P पुण्णइंद°. ५ AP सीहचंदु. ६ AP खवेज्जसु.
७ AP पुज्जियसुरपायउ. ८ A मयरसभमर.

15 १ A जाइंभरु; P जाएभरु; K जाइंभरु but corrects it to जाइंभरु. २P omits this line. ३ AP भुंजंतउ. ४ A दुक्कहि. ५ A कइंमि. ६ A सो एमहि लोलमि तणु; P सो एमहि लोलमि तणु. ७ A तं किह णिहणु पुत्त पडि°; P तें किह णिहण पुत्तु पडि°. ८ A डज्जउ देव एहु; P डज्जउ एउ देव.

13 मयरय भमर मदे रता: भ्रमरा यस्य.

15 1 a जाइंभरु जातिस्मरः. 2 b विवरेरउ विपरीतः. 4 b गणियारिउ करेणुकाः.
5 b पंगुत्तउ पङ्कणवलित्तः. 8 a छग्गुण्णउं -----

16

मारंतउ वि अण्णु मा मारहि
तां कुंभत्थलणवियमुणिंदे
वंभचेरु दिहुं णिच्चलु धरियउं
खविउ कलेवरु कायकिलेसें
केसरितीरिणितडंगउ जइयहुं
णवैरि चमरिजम्मंतरमुक्के
कुंभारोहणु करिवि सदर्पे
मुउ हुउ उर्वसमेण सोक्खावहि
सिरिहरु देउ काइं वण्णिजइ
हुउ धम्मिलु वाणरु रोसुकुडु
णियपावे पंकप्पहि पत्तउ

अप्पउ संसारहु उत्तारहि ।
थिरु व्रउं पालिउं तेण गइंदे ।
जिणपायारविंदु संभरियउं ।
परियट्टंते कालविससें ।
खुत्तउ दुइमि कइमि तइयहुं । 5
पिसुणे अवरभवंतरदुक्के ।
भक्खिउ गयवइ कुक्कुडसपे ।
सहसारइ सुरभवणि रविप्पहि ।
पहउं जाणिवि धम्मु जिं किजइ ।
मारिउं तेण रणे सो कुक्कुडु । 10
अण्णु वि एव जि जाइ पमत्तउ ।

घत्ता—जणु जिणवरवयणु ण पत्तियइ खाइ मासु मारिवि पसु ॥
संतावइ साहु समंजस वि णिवडइ णरइ सकम्मवसु ॥ १६ ॥

17

गयमोत्तियइं दंतजुयसहियइं
वणिय सत्थवाहहु हिमवण्णइं
सीइसेणतणयहु जसधामहु
कारिय तेण तमीयरकंतिहिं
णियसीमंतिणियेहिं रुइरिइइं
हो केत्तिउ संसारु कहिजइ
मोहमहंतइ णिइइ भुत्तउ
जाहि अम्मि तुह वयणे जग्गइ
णियणंदणमुणिवरवयणुल्लउ
गय मायरि तहिं जहिं तं पट्टणु

वणि सिगालभिल्ले संगहियइं ।
पुरसेट्टिहि धणमित्तहु दिण्णइं ।
धणमित्तेण वि छणससिणामहु ।
णियमंचयहु पाय गयदंतहिं ।
मोत्तियाइं कोडंगि णिवइइं । 5
जं चितंतहं मइ दुम्मिजइ ।
अच्छइ सुहि णं मुच्छिउ सुत्तउ ।
पुण्णयंदु जिणधम्महु लग्गइ ।
तं आयणिवि सवणसुहिल्लउ ।
जहिं सो राणउ वइरिविहट्टणु । 10

घत्ता—पणवंतहु पुत्तहु परियणहु अज्जइ सुमहरु साहियउं ॥
जिह राएं जाएं मयगलिण णिज्जेणु गहणु पसाहियउं ॥ १७ ॥

16 १ AP तो. २ AP वउ. ३ AP चिरु. ४ P^०तहु गउ. ५ AP णवर. ६ A दम-
समेण. ७ A वि. ८ मारिउ रण्णि तेण सो; P^०मारिउ तण रण्णि सो.

17 १ AP सिगालभिल्ले गहियइं. २ A^०सीमंतिणिपहइरिइइं. ३ AP कंठंगि. ४ A
मुच्छियसुत्तउ. ५ A पुण्णइंदु. ६ A अज्जिए. ७ A णिज्जणगहणु.

16 6 a च म रि ज म्मं त र दु क्के सत्यघोषचरः चमरीमृगः अन्यभवं प्राप्तः सर्वो जातः. 10 a
रो सुक्कुडु रोपोत्कटः.

17 1 b सि गाल भिल्ले शृगालनाम्ना भिल्लेन. 3 b छणससिणामहु पूर्णचन्द्रस्य. 4 a
तमीयर^० चन्द्रः. 5 b कोडंगि श्रीवाग्ने.

18

जं धणमित्तं आणित्त आयउ
तं दियमुसलजुवल्लु तहु केरउ
पणइणिकंठइ णिह्णित्त णिहालहि
पुत्तय णिरु विच्चित्तु संसारउ
ता हियवउ पिउणेहं भिण्णउं
पुत्तं परिवारेण वि सोइउ
उवसमेण हई पविमलमइ
रामयत्त सणियाण मरेप्पिणु

पल्लं कंठं पयजोग्गउ जायउ ।
मुत्ताहलणित्तं बउ सारउ ।
पुत्तय सावयवय परिपालहि ।
पुत्तय पहु वि होइ कम्मरउ ।
दंतिदंतु अवरुंडिवि रुण्णउं । 5
कुसुमहिं अंचिवि हुयवहि दोइउ ।
थिउ धरि धम्मणिरउ सो णरवइ ।
कप्पु महंतु सुक्कु पावेप्पिणु ।

घत्ता—मंदारदामसोहियमउहु रयणाहरणवियारधरुं ॥

सा हई रविसंणिहणिलइ रविभांभासुरु सुरपवरु ॥ १८ ॥ 10

19

पुणु फणिरायहु गुज्जु ण रक्खइ
कालं जंतं सुक्कियलीलइ
पुण्णयंदु पुण्णं उप्पण्णउ
विसमविसमसरवाण णिवारिवि
संभूयउ संतहि णिरवज्जहि
इह रययायलि दाहिणसेदिहि
पइ अइवेउ पुरंधि सुलक्खण
सा सग्गाउ ढलिय पंकयकर
दिण्णी पिउणा दरिसियणामहु

आइच्चाहु कंठंरु अक्खइ ।
वरवेरुलियविमाणि विसालइ ।
वेरुलियप्पहु तंहि संपण्णउ ।
दंसणणाणचरित्तं धारिवि ।
सीहचंदु उवरिमगेवज्जहि । 5
धरणित्तिलयपुरु रुढउ रुढिहि ।
रामयत्त जां चिरु सेवियवण ।
सुय उप्पण्णी णामं सिरिहर ।
अलयाणाहहु वड्डियकामहु ।

घत्ता—सो पुण्णयंदु दिवि देवसुहुं माणिवि हर्यविहलत्तणउं ॥ 10

णियकम्मविवापं णिवडियउ पुणु पत्तउ महिलत्तणउं ॥ १९ ॥

18 १ A °कंठहो. २ A पियणंहे. ३ A धरधम्मि णिरउ. ४ AP °वियारहरु. ५ A रवि-
भाभासुर; P रविभासासुर.

19 १ A °विमाणविमालइ. २ A पुण्णइंदु. ३ P तहि जि संपण्णउ. ४ AP °तिलयपुरि.
५ A जा सेविय चिरु वण. ६ A विहवविहत्तणउं.

18 1 a आ यउ आयपदवस्तु. 2 a दियमुसलजुवल्लु दन्तमुसल्लयुगलम्. 5 a पिउणेहं
पितृस्नेहेन; अ व रुं डिवि आलिङ्गय. 10 र विसं णि ह णि ल इ सूर्याभविमाने.

19 4 a विसमविसमसरवाण विपमाश्च ते विपमशरस्य कामस्य वाणाः. 5 a संतहि
प्रेवेयके शान्तस्थाने. 6 a इह भरतवर्षे; रययायलि रजताचले. 7 a अइवेउ अतिवेगः. 10 हय-
विहलत्तणउं हतदरिद्रत्वम्. 11 महिलत्तणउं स्त्रीत्वम्.

20

दरिसियरापं हई दुहहर
दिण्णी तापं कामासत्तहु
सीहसेणु करि सिरिहंरु भणियउ
रस्सिवेउ णंदणु संमाणिवि
आंदरिसेण पासि हैयदंदहु
तइयहुं सिरिजसहरउ विण्णियउ
मुणिवरणारविंदरइमइयहि
पवणुद्धयधवलधयमालउं
थावरजंगमविरइयमेत्तिइ
तहिं हरिचंहु भडारउ पेक्खिवि

सिरिहराहि सुय णामे जसहर ।
दिणयराहपुरि सूरावत्तहु ।
जो सो एयहिं दोहिं मि जणियउ ।
सिरि दोइवि सिरिकलसहिं ण्हाणिवि ।
लइयउ वउ जइयहु मुणियंदहु । 5
पावइयउ तहिं मायाधीयउ ।
पासु वसंतियाहिं गुणमइयहि ।
सिद्धसिहरु णामेण जिणालउं ।
किरणवेउ गउ वंदणहत्तिइ ।
थिउ अप्पउ रिसिदिक्खइ दिक्खिवि ।

ग्रत्ता—सो आयहिं सिरिहरजसहरहिं दोहिं वि गिरिगरुयंगु गुणि ॥

गुहकुंहरि णिसण्णु णिरिक्खियउ पलियंकेण णिसण्णु मुणि ॥ २० ॥

21

वंदिवि खरतवतावें खीणउ
लुहु कम्मक्खयवयणु पयच्छिउ
ता सो तंवचूलफणि णारउ
दीहु कालु संसारु सरोप्पिणु
जायउ अजयरु विसमखयालइ
मुहविससिहिंसिकयसारंगउ
फलताडणफोडियधरणीयलु
वइवसदंडु चंडु अवलोइवि
मराणि वि धीरत्तेण ण मुक्कइं
अहिणा दढदाढहिं णिहलियइं

ताउ तासु णियडइ आसीणउ ।
रयणत्तयहु कुसलु फुहु पुच्छिउ ।
णरयहु णीसरेवि हिसारउ ।
अणणणइ अंगाइं धरेप्पिणु ।
फुल्लियवउलकलंबतमालइ । 5
मोडियविडुवुडुवियविहंगउ ।
वयणरंधग्रल्लियवणमयगलु ।
खणि आहारु सररु पमाइवि ।
तिण्णि वि पावइयइं थिरु थक्कइं ।
कसमसंति चावतं गिलियइं । 10

20 १ P सिरहरु. २ A आदरसेण. ३ P हयदंदहु. ४ AP मुणिचंदहु. ५ A °कुहरणिसण्णु.

21 १ AP तंवचूल. २ P संसारि. ३ AP °सिहिसिहहयसारंगउ. ४ A फलताडण°. ५ P °वणयरपल. ६ A मुक्कउ. ७ P पव्वइयइं थक्कइं. ८ A थक्कउ.

20 2 b दिणयराहपुरि सूर्याभपुरे. 4 a रस्सिवेउ रश्मिवेगः. 6 a सिरिजसहरउ श्रीधरायशोधरे. 9 b किरणवेउ रश्मिवेगः. 11 आ य हि आगताभ्याम्; गिरिगरुयंगु गिरिवद्रुक्षारीः.

21 1 b ताउ ते द्वे श्रीधरायशोधरे. 3 a तंवचूलफणि कुक्कुटसर्पः. 6 a मुहविससिहि-
मसिकयसारंगउ मुखविपाग्निना अङ्गारीकृतहरिणः. 8 a वइवसदंडु यमदण्ड इव.

हेमणिवासविसेसवरिट्टइ

उपपण्णइं मरेवि काविट्टइ ।

घत्ता—तहिं रययविमाणि मणोरमाणि जायउ अमरु वरंक्कपहु ॥

सो अजयरु चोत्थइ णरयविलि णिवडिउ मुणिवररइयवहु ॥ २१ ॥

22

चक्रउरइ जयलच्छिसहायहु
 आयउ जिणगुणगणु सुयरंतउ
 सीहचंदु णं हुउ कुसुमाउहु
 चित्तमाल तहु पियरायाणी
 ताहं विहिं मि णं पुण्णविहायउ
 जो चिरु रस्सिवेउ अजयरहउ
 णामे वज्जाउहु जयलंपहु
 पुहईतिलइ णयरि रवितेयहु
 सिरिहर काविट्टहु पच्चमट्टी
 दिण्णी कुलिसाउहहु सण्णेहं

णयवंतहु अवराइयरायहु ।
 पवरवरिमगेवज्जहि हांतउ ।
 सुंदरिदेविहि सुउ चक्काउहु ।
 णं मयरद्धयवाणणिसेणी ।
 अक्कपहु सुरु तणुरुहु जायउ । 5
 एहुं जि सो णरंजम्मसमागउ ।
 समरंगाणि पल्लत्थियगयघहु ।
 पियकारिणिदइयहु मइवेयहु ।
 रयणमाल सुय हई दिट्टी ।
 पुणु पवहंतं कालपवाहं । 10

घत्ता—कीलंतहं पेम्मपरव्वसहं ताहं तेत्थु पर्यडियपणउ ॥

सा जसहर सग्गहु ओयरिवि रयणाउहु हई तणउ ॥ २२ ॥

23

पिहियासउ णवेवि अवराइउ
 रज्जु करेवि सुइरु चक्काउहु
 तेण कयउं भीसणु वम्महरणु
 दूरुज्झियपरमहिलापरधणु
 दंसणणाणचंरिक्खि अभंतउ

तउ चरंतु संतनु पराइउ ।
 गउ तायहु जि सरणु वियसियमुहु ।
 चरमदेहु जाणइ विहिविहरणु ।
 सिरि भुंजिवि तेत्तिउं पविपहरणु ।
 वण्णहु पासि पुत्तु णिक्खंतउ । 5

१ A उपपण्णाइं. १० अमरवरंक्कपहु.

22 १ A गुणगुण. २ A पुण्णणिहायउ. ३ A एहु जो सो. ४ AP णरजम्मि समागउ.
 ५ AP पियकारणे. ६ P सणाहं. ७ A पयलियपणउ.

23 १ A तित्तिउ; P तित्तउ. २ P चरित्तहं भत्तउ.

12 वरक्कपहु श्रेष्ठः सूर्यप्रभः 13 रइयवहु कृतवधः.

22 4 b वाणणिसेणी वाणपंक्तिः. 5 पुण्णविहायउ पुण्यविभागः. 7 b पल्लत्थियग^०
 पातिताः. 8 a रवितेयहु सूर्यवत्तेजसः. 10 a कुलिसाउहहु वज्रायुधस्य.

23 1 b संतनु शान्तत्वम्. 3 b विहिविहरणु चारित्रम्. 4 b तेत्तिउ तृप्तः; पविपहरणु
 वज्रायुधः. 5 a अभंतउ भ्रान्तिरहितः.

खवइ पुराइउ कम्मु गयालसु
माणइ सोक्खु ण तिप्पइ भोणं
जायवेउ णं तरुपव्भारें

तहु सुउ रयणाउहु रइलालसु ।
णं मय्यरहरु तरंगिणितोणं ।
अइरारिउ वित्थरइ वियारें ।

घत्ता—अण्णाहि दिणि पवरुज्जाणहरि गिरिसरिखेत्तविहूसियउ ॥

सिरिवज्जदंतमुणिणा जणहु तिहुयणमाणु पयासियउ ॥ २३ ॥ 10

24

विजयमेहु णामें कुंभीसरु
तं णिसुणिवि मुणिभासिउ कंखइ
मंतिविज्ज आउच्छइ राणउ
ताव तेहिं अवलोइउ जाइवि
जंगलकवत्तु णिवद्दु ण ढोइउ
सो कवल्लिउ करिणा करु देंतें
मत्थण्ण थंदिवि मुणिपुंगमु
कहइ महारिसि जियवम्मीसरु
पीयंभहु णामें णं वम्महुं

णिवंकल्लाणकारि जलहरसरु ।
दिण्णु वि मासगासु ण वि भक्खइ ।
महु तंवेरमु किं विद्वाणउ ।
लक्खिउ तणु गुणदोस पल्लोइवि ।
पयथियकूरपिहु संजोइउ । 5
वज्जदंतु पुच्छिउ महिवंतें ।
मासु ण खाइ काइं तंवेरमु ।
एत्थु भरहि छत्तउरि णरेसरु ।
सइदेवीवइ णावइ सयमुहु ।

घत्ता—पीइंकरु पुत्तु पसिद्धु जइ मंतिवि जाणिउं चित्तमइ ॥

10

कमला इव कमला तासु पिय तणुरुहु ताहं विचित्तमइ ॥ २४ ॥

25

धीरु धम्मरुइ सिरिगुरु मण्णिवि
मणि पडिवज्जिवि गुत्तिउ तिण्णि वि
गयं रिमिवउ लेप्पिणु साकेयहु

धम्मु अहिंसिल्लउ आयणिवि ।
पीइंकरु विचित्तमइ विण्णि वि ।
सत्तभूमिसउहावल्लिसेयहु ।

३ A मयहरु. ४ AP अवरहि दिणि.

24 १ A णवकल्लाण^१. २ A पलोयवि: P पलाइवि. ३ A पीइंभहु; P पाइंभहु.

25 १ AP समिदिउ पंच थंगेणिणु विण्णि वि; A adds a new line after this: पीइं-
करु विचित्तमइ वेण्णि वि in second hand. २ A रिसि गयवउ.

7 b मयरहरु समुद्रः. 8 a तरुपव्भारें वृक्षसमूहेन; b अइरारिउ अतीव लालितः.

24 1 a कुंभीसरु गजेश्वरः. 3 a मंतिविज्ज मन्त्रिणः वैद्यांश्च; b तंवेरमु हस्तीः. विद्वा-
णउ दुर्वलो जातः. 4 b तणु तृणम्. 6 a करु देंतें गुण्डां ददता. 9 b ^०देवीवइ ^१देवीपतिः. 10 जइ
जगति; चित्तमइ चित्रमतिर्नाम मन्त्री.

25 3 b ^०सउहावल्लिसेयहु ^१सौधावलीभिः श्वेतस्य.

खीरैरिद्धि उप्पणी जेदुहु
चंद्रसूर णाचइ गयणंगणि
बहुउववासरीणमुणिपंथिय
थाहु भणंतियाइ पणवेप्पिणु
कामिणीइ अप्पाणउ गरहिउं
पुच्छइ लहुयउ साहु ससंसउ

णिज्जियणियजीहिंदियचेदुहु ।
वेण्णि वि चडिय लुहु जि घरप्रंगणि । 5
ते धीसेणइ वेसइ पत्थिय ।
ण थिय भडारा विगय वलेप्पिणु ।
किं जीविउ मुणिदाणं विरहिउं ।
किं आर्या से ण गहियउ गासउ ।

घत्ता—गुरु अक्खइ महुमासासियहं णिप्पिह कयपरलोयकिसि ॥ 10
अविणीयहं रायहं कामिणिहिं दिण्णु वि पिंडु ण लेति रिसि ॥२५॥

26

तहि विचित्तमइ सुमरइ रामहि
मयणसरोहें हियवउं भिण्णंउं
गउ सहाउ तैहु मेळ्ळिवि मंदिरु
सिसुमृगणयणइ पीवरथंणियइ
दिण्णउ तासुं भोज्जु जं चंगउं
सरसवयणु तहिं तेण णिउंजिउं
रत्तु मुणेवि ताइ अवहेरिउ
तो गुणवंतु ताम गस्यत्तणु
णिग्गउ गउ परिहेप्पिणु राउलु

गीओलेवियमोत्तियदामहि ।
जंपंतहं हुंकारइ सुणणउं ।
णं इंदीवरासु इंदीवरासु इंदिंदिरु ।
वंदिउ सो पडिगाहिउ गणियइ ।
विडसाहुहि संपीणिउ अंगउं । 5
दडुउं चरियधण्णु जं पुंजिउं ।
णारिहिं भुवणि को ण किर मारिउ ।
जाम ण लग्गइ मणसियमग्गणु ।
विसयालुद्धउ जायउ आउलु ।

घत्ता—पलपापं जापं मिट्ठणं सूयारउ णिवमणि चडिउ ॥ 10
कय कामिणि दविणें तेण वस रिसि चारित्तहु परिवडिउ ॥ २६॥

३ A खीणरिद्धि. ४ AP ^०पंगणि. ५ A ते विमणीयइ; P ते धेमिणीयइ. ६ A कि आयदो धरे गहिउ
ण गासउ; P कि आयदे धरे गहिउ ण गासउ. T supports the reading of K.

26 १ सुउरइ. २ AP छिण्णउं. ३ AP मेळ्ळिवि तहि. ४ AP ^०मिगणयणइ. ५ AP
^०थणिइ. ६ A ताइ. ७ AP गुरुयत्तणु. ८ A सिट्ठण.

6 b धीसेणइ बुद्धिपेणानाम्भ्या. 9 a ससंसउ स्वसंशयम्; b कि आया किमर्थमागतौ; मे अस्याः
(गृहम्); ण गहियउ गासउ ग्रासस्तु न गृहीतः. 10 कयपरलोयकिमि कृतपरलोककूपयो ऋषयः.

26 1 b गीओलेवियं ग्रीवावलम्बिता. 2 a ^०सरोहें शरमभूदेन. 3 a सहाउ सखा. 4 b
पडिगाहिउ प्रतिग्राहितः; गणियइ वेदयया. 6 b चरियधण्णु चारित्रवान्यम्. 7 a अवहेरिउ निरा-
हतः तिरस्कृतः. 8 b मणसियमग्गणु कामवाणः. 9 a परिहेप्पिणु वस्त्रं गृहीत्वा. 10 पलपापं
मांसपाकेन; सूयारउ सूषकारः. 11 बस वशीकृता.

27

मरिवि तुहारउ जायउ कुंजरु
 एहु एवहि जाँउ जाइंभरु
 ता रयणाँउहेण णियतणयहु
 तासु जि गुरुहि पाँसि तउ चिण्णउं
 बिण्णि वि संतइं मायापुत्तइं
 अजरुं पंकप्पहरणयंतहु
 दारुणभिल्लहु सुउ अइदारुणु
 तेण पियंगुदुग्गि अवलोइउ
 मुउ सव्वत्थिसिद्धि संपत्तउ
 सत्तमि तमतमपहि भीसावणि

महु भासंतहु तिहुवणपंजरु ।
 तुहुं वि वप्प अप्पाणउ संभरु ।
 रज्जु समप्पिउ पयडियपणयहु ।
 तहु मायाइ तं जि पडिवण्णउं ।
 अञ्चुइ अणिमिसत्तु संपत्तइं । 5
 णीसरियउ कह कह व कयंतहु ।
 मंगिहि सवरिहि हुउ करिमारणु ।
 तउ तवंतु वज्जाउहु घाइउ ।
 सवरु वि पावें णरइ णिहित्तउ ।
 पंचपयारदुक्खदरिसावणि । 10

घत्ता—धादइसंडइ सुरवरदिसहि मेरुहि परविदेहि सरइ ॥

गंधिल्लदेसि उज्झाउरिहि णरवइ अरुहदासु वसइ ॥ २७ ॥

28

कामहुयासहु णं कालंबिणि
 अवैर वि तहु जिणयत्त घरेसरि
 अञ्चुयचुय तेपं णं दिणयरु
 विहिं वि बेण्णि संजणिय तणूरुह
 ते बेण्णि मि णं छणससिसायर
 बीयहु णरयहु गयउ विहीसणु
 लंतवि जायउ देउ महामहु
 सम्मइंसणसासणि लग्गउ
 जंबुदीवपरावयउज्झहि
 सो केसवु दुहुं भुंजिवि आयउ

सुव्वय णामें तासु णियंबिणि ।
 अमरमहामयरहरहु णं सरि ।
 रयणमाल रयणाउह सुरवरु ।
 विजय विहीसण णवपंकयमुह । 5
 ते बेण्णि वि बलकेसव भायर ।
 दुद्धरु तउ करेवि संकरिसणु ।
 आइञ्चाहु हुउं जि सो सुहवहु ।
 मइं संवोहिउ णरयहु णिग्गउ ।
 सिरिवम्महु सीमहि तणुमज्झहि ।
 लच्छिधामु णामें सुउ जायउ । 10

27 १ APT जाईसरु. २ A रयणाहिवेण. ३ AP पासु. ४ AP अजगरु.

28 १ AP सुव्वहय. २ AP अवरु वि. ३ A णंदण ससिसायर.

27 2 a जाइंभरु जातिस्मरः. 4 b मायाइ रत्नमालया. 5 b अणिमिसत्तु देवत्वम्.
 6 b कयंतहु कृतनरकभवपर्यन्तात्. 10 b पंचपयारदुक्खं परिणामदेहवेदनाविक्रियापरस्पोदीरित-
 दुःखाः. 11 सरइ सरतिः भोगयुक्तः.

28 1 a कालंबिणि मेघमाला. 2 b अमरमहामयरहरहु क्षीरसमुद्रस्य. 7 a महामहु
 महातेजाः; b सुहवहु सुखावहः. 9 b सीमहि श्रीमत्याः.

रिसिहि विणासियवम्महलीलहु
पत्तउ बंभकप्पि मेह्लिवि तणु

चिरु पावइयउ पासि सुसीलहु ।
अट्टगुणट्टिवंतु देवत्तणु ।

घत्ता — वज्जाउहु सव्वत्थहु चविवि संजयंतु जिणतवि गिरउ ॥
तुहुं हुउ जयंतु बंभाउ चुउ रिसि णियाणसह्णेण मुउ ॥ २८ ॥

29

णायराउ जाओ सि भयंकरु
अहंमणिबद्धाउसु अहगारउ
पुणु वालुंयपहि वालु णिमण्णउ
तसथावरतिरिक्खभवंजालइ
पविउलअइरावइ णइतीरइ
गोसिंमं घरिणिहि संखिणियहि
तावसेण संजणियउ तावसु
दिब्बतिल्लयपुरि खेयरराणउ
णाम सुमालि णिवंध णिवद्धउ
खगधरणीहरि उत्तरसेणिहि
विज्जदादु खगु पिय विज्जुप्पह
ताहं विहिं मि हियइच्छियरूवउ
विज्जदादु णामं ददयरभुउ

इयरु वि पाउ मुणिंदखयंकरु ।
अहि हूयउ अंतिममहिणारउ ।
दुक्खपरंपराइ अहण्णउ ।
णिवडिउ हिंडमाणु गयकालइ ।
भूयरमणि काणणि गंभीरइ । 5
संखुब्भंउ समुद्दसंखिणियहि ।
पंचहुयासणु सहइ सतामसु ।
जोइवि जंतउ सक्कसमाणउ ।
अण्णाणं णियतवहल्लु लद्धउ ।
णहयलवल्लहपुरि सुहजोणिहि । 10
मुहसासियरधवलियदसादिसिवह ।
हरिणसिंगु मुउ सुउ संभूयउ ।
जमदूयाणुरूउ भइसंथुउ ।

घत्ता — इहु भाइ तुहारउ गरुययरु मेरुधीरु परिचत्तभउ ॥

एणं जम्मंतरवइरिण्ण हउ परमेसरु मोक्खगउ ॥ २९ ॥ 15

30

एहउ भवसंबंधु वियारिउ
म करहि तुहुं जिणधम्मविरुद्धं
तं णिसुणिवि पडिजंपइ उरयरु
पइं जिणमग्गु मज्झु वज्जरियउ
तइ वि साहु उवसंग्गणिरंभणु

एस्थु केण किर को णउ मारिउ ।
णियमहि हियवउं रोसाइद्धं ।
तुह वयणेण ण मारामि खेयरु ।
भवकहमि पडंतु उद्धरियउ ।
लइ कीरइ खलदप्पणिसुंभणु । 5

29 १ A अहमु. २ P वालुयं. ३ A भयजालइ. ४ A हरिणसिंगु हूयउ तवसिणियहि;
P संखु व भवसमुद्दसंखिणियहि. ५ A ०पुरखेयर. ६ A वज्जदादु. ७ A विज्जुप्पह. ८ P विज्जुदादु.

30 १ AP उवसग्गु. २ AP ०दप्पणणिसुंभणि.

29 2 a अहमं जघ्न्यसप्तमनरके; अहगारउ पापकारी. 3 b अहण्णउ विदारितः. 6 b संखुब्भउ हरिणशृङ्गापरनामा; समुद्दसंखिणियहि स्वमुद्रया निजाकारेण शंक्वित्यां निर्भाग्यायाम्. 9 a णिवंधणिबद्धउ निदानं बद्धम्.

30 2 b णियमहि नियमय. 3 a उरयरु उरगः सर्पः.

एयहु कुलि सिज्झंतु म विज्जउ
 णारिहिं सिज्झिहिंति णियमालइ
 मागहमंडलकुवल्लयचंदहु
 हिरिबद्धणि पयणियखयरिंदहु
 मुइवि णिबद्धवइरवंदिग्गहु
 गउ फणि संजयंतु मुणि वंदिवि
 सुरु जाइवि सुहि संठिउ लंतवि

पुरिसहं दुद्धरविहुरसहेज्जउ ।
 संजयंतपडिमापयमूलइ ।
 इंदभूइ पुणु कहइ णरिंदहु ।
 णामु करिवि हिरिमंतु गिरिंदहु ।
 लहु णीसल्लु चविवि सपरिग्गहु । 10
 रविआहउ सुरवरु अहिणंदिवि ।
 आउमाणि वोलीणि सउच्छवि ।

घत्ता—इह भरहखेत्ति उत्तरमहुरि पुरि अणंतवीरिउ णिवइ ॥
 लायण्णरूवसोहग्गणिहि णारि मेरुमालिणिय सइ ॥ ३० ॥

31

आइच्चाहु मोहमयमइणु
 णियकुलसंतइवेल्लिवराहें
 हुउ सपुण्णविहवेणुइमं
 आयण्णह विरएप्पिणु अंजलि
 सीहसेणु करि सिरिहरु सुरवरु
 वज्जाउहु अहमिंदु पियारउ
 महुर रामदत्त वि जाणिज्जइ
 सिरिहर पुणु वसुसमदिवि अंणिमिसु
 पुणु विज्जयंकु वि आइच्चाहउ
 वारुणि छणविहु वेरुलियप्पहु
 रयणाउहु अञ्जुयउ विहीसणु
 सिरिधामउ सुंउ बंभणिवासउ
 पुणु मंदरगुणिगणसंजुत्तउ

ह्यउ मेरुणामु तहु णंदणु ।
 अमयवईहि तेण णरणाहें ।
 धरणु चविवि सुउ मंदरु णामें ।
 एयहं सयलहं भणमि भवावलि ।
 रस्सिवेउ रवितेउ वरामरु । 5
 संजयंतु दय करउ भडारउ ।
 भक्खराहु पुणु देउ भणिज्जइ ।
 रयणमाल अञ्जुयसुरु सहरिसु ।
 जाउ मेरु पुणु मुणिगणणाहउ ।
 जसहर काविट्टइ रूयप्पहु । 10
 सक्करवसुमइणारउ भीसणु ।
 णिउ जयंतु फणिवइविवरासउ ।
 सिरिभूइ वि फणि चमरि पवुत्तउ ।

घत्ता—कुक्कुडफणि चौत्थयणरयरुहु अजयरु पंकप्पहदुहिउ ॥
 समरुल्लउ सत्तमपुहविभउ अहि पुणु सयलदुक्खगहिउ ॥ ३१ ॥ 15

३ A सिज्जंतु. ४ A दुद्धरु विहुर°; P दुद्धरि विहुरि. ५ A हरिबद्धणि पयलिय°; P हिरिबद्धणि पयलिय°.

31 AP अणमिसु. २ A विजयंतु वि. ३ A वेरुडिय°. ४ A भूयप्पहु. ५ AP सुरु. ६ A मंदरमुणिगण°; P मंदरि मुणिगण°. ७ १ चउत्थइ णरइ तुहु. ८ A सव्वदुक्ख°.

9 a हि रीत्या वि ह्रीलेजा बन्धने सति प्रजनिता खचरेन्द्रस्य विद्युदंष्ट्रस्य यतः कारणात्ततः कारणात् ह्रीमानिति नाम गिरीन्द्रस्य विजयार्थस्य कृत्वा धरणेन्द्रो गतः. 12 b स उ च्छ वि उत्सवसहिते.

31 10 a छ ण वि हु पूर्णचन्द्रः.

32

हिंडिवि भवंसंसारि परव्वसु
 विज्जंदादु मुणिमारणदुज्जणु
 भहमित्तु पुणु केसरिससहरु
 चक्काउहु सासयगईगामिउ
 णविवि विमलवाहणु तित्थंकरु
 गणहर गँणु परिपालिवि पीरय
 महु पसियंतु वेतु गुणदित्तइं
 णिञ्चल होउ फुरियणहविमलइ

पच्छइ हरिणसिंणुं हुउ तावसु ।
 हो डज्जउ दुक्कम्मवियंभणु ।
 पुणरवि उवरिमगेवज्जामरु ।
 देउ समाहि मज्जु रिसिसांमिउ ।
 तेरहमउ परमेट्टि सुहंकरु । 5
 मोक्खहु बे वि मेरु मंदर गय
 सुद्धइं दंसणणाणवरित्तइं ।
 भत्ति भवंतयारिकमकमलइ ।

घत्ता—कह णिसुणिवि मेरुहि मंदरहु विंभियं भरहणराहिवइ ॥

थिय जिणवरपयसंणिहियमइ पुप्फयंतकरसरिसरुइ ॥ ३२ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुप्फयंतविरइण महाकव्वे संजयंतमेरुमंदरकंहंतरं
 णाम सत्तवर्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५७ ॥

32 १ A °संसार°. २ A °सिंसुउ. ३ AP विज्जंदादु मुणिमारणु. ४ A सासयगय°. ५ P °सासिउ. ६ A गुण. ७ A विंभिउ. ८ AP पुप्फदंत°. ९ A °कंहंतरवणणं. १० AP सत्तावण्णा°.

32 ३ a केसरिससहरु सिंहचन्द्रः. ४ a फुरियणहविमलइ स्फुरितनग्वविमले जिन-
 चरणकमले.

जेणेकें कर्मावेमुकें जगु तं तेहउं लांकेखउं ॥
कयडंभहिं हरिहरबंभहिं जं जम्मि वि णं सिक्खिखंउं ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो ण महइ जीवहं सासणासु	जं होंतें मेहइ सासणासु ।	
सुज्झइ सम्मत्तं खाइएण	थुव्वइ देवोहें ^१ खाइएण ।	
णांयंदणमंसियसासणासु	तहु णित्तदिव्वभासासणासु ।	5
जम्मंतरि भावियभावणासु	संखोहियविंतरभावणासु ।	
समदिट्ठिदिट्ठकंचणतणासु	तवजलणइहुदुक्कियतणासु ।	
णाणंतणिवेसियतिहुवणासु	दिहिवइपरिरक्खियवयवणासु ।	
उब्भियसियायवत्तत्तयासु	एक्काहियवरवत्तत्तयासु ।	
पवयणवारिथपेसियसुरासु	कमकमलणवियदेवासुरासु ।	10

घत्ता—हयंधंतहु गुणवंतहु अणिसकेउकयंतहु ॥
भयवंतहु अरहंतहु पणविवि पयइ अणंतहु ॥ १ ॥

A has, at the beginning of this samḍhi, the following stanza:—

संजुडियजाणुकोप्परगीवाकडिबन्धणावययो ।
अणुहवइ वेरियं तुज्झ जं पावइ लेहओ दुक्खं ॥ १ ॥

P and K do not give it anywhere.

1 १ P लक्खियउं. २ AP ण वि सिक्खि^०. ३ P सिक्खियउं. ४ A देवेहि. P देवोहिं.
५ AP णाइंद^०. ६ A जम्मंतरमसिय^०. ७ PT णाणंति णिवे^०. ८ PT ^०पेसीसुरासु. ९ AP ^०णमिय^०.
१० A भयवंतहु गुण^०. ११ A हयवंतहु अर^०.

1 1 जेणेकें येन एकेन अद्वितीयेन. 2 जम्मि वि जन्मन्यपि. ३ a ण महइ नेच्छति; सासणासु प्राणनाशाः; b सासणासु सा लक्ष्मीः स्वनाशं चपलत्वं मुञ्चति; अथवा, सास लक्ष्म्याः आशा तां णा पुरुषः आसु आशु त्वरितं मुञ्चति. 4 a खाइएण क्षायिकेन; b देवोहें देवसमूहेन; खाइएण आकाशादागतेन. 5 a णित्तदिव्वभासासणासु निर्गतः दिव्यभाषया सर्वभाषात्मिकया स्वनः शब्दो यस्य. 7 b ^०दुक्कियतणासु दुष्कृतमेव तृणं तस्य. 8 a णाणंतं ज्ञानमध्ये; b दिहिवइपरिरक्खियवयवणासु धृतिरेव वृत्तिः तथा परिरक्षितं व्रतान्येव वनं येन. 10 a ^०पेसियसुरासु पेशी मांसं सुरामद्यम्. 11 हयंधंतहु हतं विनाशितं स्वस्य परेषां च ध्वान्तभजानं येन तस्य; अणिसकेउ^० क्षापकेतुः कामः.

2

पुणु कहमि कहाणउं कामेहारि
धादइसंडहुपच्छिमदिसाइ
परिहापौणियपरिभेमियमयरि
पउमावल्लहु पउमरहु राउ
आणियसंमाणियदुज्जाणइ
अविणीयइ धणमयवेभलाइ
बहुकवडडविडणिवरंजियाइ
महिवइलच्छिइ एयइ खलाइ
बद्धउ हउं णिवसमि पत्थु काइं
सिरि दोयमि तणयहु घणरहासु
इय चिंतिवि पासि सयंपहासु

तहु केरउं सासयसोक्खकारि ।
वित्थिण्णिं मेरुपुव्विल्लभाइ ।
मणितोरणवन्ति अरिट्टणयरि ।
तहु पक्कु दिवंसु जायउ विराउ ।
णीणियअवमाणियसज्जणाइ । 5
पवणाहयतणजललवचलाइ ।
भंगुरभावे णं लंजियाइ ।
मणवारणवंधणसंखलाइ ।
अणुसरमि सत्ततच्चाइं ताइं ।
संसारइ सरणु ण को वि कासु । 10
वउ लइयउ छिंदिवि मोहपासु ।

घत्ता—अविहंगइं धरिवि सुयंगइं एयारह जिणदिट्टइं ॥

कयवसणइं इंदियपिसुणइं जिणिवि पंच दप्पिट्टइं ॥ २ ॥

3

बंधिवि तित्थंकरणांमगोत्तु
सो पंकयसंदणु णरवरिंदु
वावीसमहोवहिपरिमियाउ
पुंफंतरपवरविमाणवासि
वावीसहिं पक्खहिं कहिं वि ससइ
जाणवि तेत्तिथहिं जि वच्छरेहिं
अवहीइ रूविवित्थारु ताम

संणासें मुउं जइवइ पवित्तु ।
सोलहमइ दिवि ह्यय सुरिंदु ।
तिकरद्धपाणिपरिमाणु काउ ।
तणुतेओहामियदुद्धरासि ।
हियएण देउ आहारु गसइ । 5
सेविज्जइ अमरहिं अच्छरेहिं ।
पेच्छइ छट्टउं णरयंतु जाम ।

2 १ AP पावहारि. १ A वित्थिण्णमेरु. २ A भावि. ३ A वाणिय. ४ P परिसमिय. ५ AP दिवसि. ६ A कवडणिविडमइरंजियाइ; P कवडणिविडंजियाइ. ७ P दोइवि.

3 १ A णासु; P णाउं. २ AP सुवउ. ३ A तिकरद्धपाणिपरिमाणकाउ; P तिकरुइयणिय. ४ AP पुष्कत्तर. ५ AP विवाण. ६ A रूउ वियारु. ७ A जाम. ८ ताम.

2 2 a अपच्छिमदिसाइ पूर्वभागे. 5 b णीणियं निष्काशिताः. 7 डविडं ददविटाः; b लंजियाइ दास्या. 10 a घणरहासु घनरथस्य. 12 अविहंगइं अग्निद्वानि; सुयंगइं श्रुतस्य अज्ञानि.

3 2 a पंकयसंदणु पद्मरथः 3 b तिकरद्धपाणिं त्रयः कराः अर्थपाणिश्च. 5 b हियएण मनसा. 6 a जाणवि जानामि. 7 a रूविवित्थारु रूपिपदार्थविस्तारः.

किं वण्णमि सुरवइ सुक्कलेसु तहुं जीविउ थिउ छम्माससेसु ।
 जइयहुं तइयहुं धम्मोवयारि वज्जरइ कुबेरहु कुलिसधारि ।
 इह भरहखेत्ति साकेयणाहु पहु सीहसेणु थिरथोरबाहु । 10
 इक्खाउवंसुं कूरारिकालु जयसामासुंदरिसामिसालु ।

घत्ता—लहु एयहुं दिणयरतेयहुं करहि घणय पुरवरु घरु ॥

तं इच्छिवि सिरिण पडिच्छिवि चलिउ जक्खु पंजलियरु ॥ ३ ॥

4

उज्जाउरि कणपं कहिं वि पीय कत्थइ ससियंतजलेहिं सीय ।
 कत्थइ हरिणीलमणीहिं काल णं महियलि णिवाडिय मेहमाल ।
 कत्थइ थिय मरगय पोमराय णं ओहंडलधणुदंडछाय ।
 कत्थइ हल्लइ चिंधंहिं चलेहिं णं णच्चइ कामिणि करयलेहिं । 5
 णं गायइ भमरहिं रुणुरुणति पारावयसइं णं कणंति ।
 पुरि अक्खइ खुत्तउ कामवाणु दरिसइ व कुसुमधूलीवियाणु ।
 जा णिम्मिय पालियणिहिघडेण सा मइं वणिणज्जइ किं जडेण ।
 तण्णयरीसहु पियगेहिणीइ सोहभगमहाजलवाहिणीइ ।
 हिमहासकाससंकासवासि णिहायंतिइ तलिमप्पएसि ।

घत्ता—सुहुं सुत्तइ पुण्णपवित्तइ रयणिहि पच्छिमजामइ ॥ 10

अवलोइय मणि पोमाइय सिविणावलि जयसामइ ॥ ४ ॥

5

करडगलियमयधारओ करि गिरिभित्तिवियारओ ।
 वसहो सण्हासोहिओ खुरलंगूलपसाहिओ ।
 पविणिहणहरुक्केरओ विसंमो सीहकिसोरओ ।
 णवपंकयसरसामिणी गयवरण्हविया गोमिणी ।
 गुमुगुमंतमहुयरचलं दामजुयं सुहपरिमलं । 5

९ A जीविउ तहु. १० A °वंसकूरारि°.

4 १ AP कणयं. २ A चंघं. ३ P कुणंति. ४ P णउ. ५ A सुहसुत्तइ.

5 १ AP विसमउ.

4 1 a कण एं कनकेन; b स सियंतजलेहि चन्द्रकान्तजलैः. 2 a काल कृष्णवर्णा. 6 a अक्खइ कथयतीव; b °वि या णु °विज्ञानम्. 7 a पालियणि हि घडेण कुबेरेण. 9 b तलि मप्प एसि पल्लङ्गप्रदेशे. 11 पो मा इय प्रशंसिता.

5 2 a सण्हा° सास्त्रा. 3 a पविणिहणहरुक्केरओ वज्रसदृशनखराङ्कुरः.

पुण्णो लच्छिसहोयरो
कीलाए उड्डीणया
वयणसमपियसयदला
वियसियतामरसायरो
गरुयं गयरिउआसणं
णिद्धं^२ णायणिहेलणं
दिसिवहपत्तमऊहओ
पसरियजालाणियकरो

गयणे उइउ दिवायरो ।
सरभमिरा पाढीणया ।
कलसा दोणिण समंगला ।
मयरकरिल्लो सायरो ।
सुरसउहं तमणासणं ।
काओयरकयकीलणं ।
चंचिररयणसमूहओ ।
विमलो मारुयसहयरो ।

10

घत्ता—फलु वालहि सिविणयमालहि पुच्छंतिहि धवलच्छिहि ॥

पइ भासइ तणुरुहु होसइ तिजगणाहु तुह कुच्छिहि ॥ ५ ॥ 15

6

रायहु घरु सयमहंपेसणेण
आगय सिरि हिरि दिहि कंति बुद्धि
माणिकककिरणपसरियवियार
कत्तियपडिवयदिणि चंदंसुक्कि
गयरुवे गंगापंडुरेण
अवइण्णु सुराहिउ गब्भवासि
अहिसित्तइं मायापियरयाइं
तिहुवणवइगुरुहि गुरुत्तणेण

कंचीणिवद्धकिंकिणिसणेण ।
विरइय जयसामहि गब्भसुद्धि ।
लुम्मास पडिय ग्रि कणयधार ।
रेवइणक्खत्ति मलोहमुक्कि ।
कयसुकयमहीरुहफलभरेण ।
चउभेयदेवपुंजाणिवासि ।
मंगलकलसहिं जिणगुणरयाइं ।
समलंकियाइं सुपहुत्तणेण ।

5

घत्ता—णच्चंतहिं मउ गायंतहिं करहयतूरणिणायहिं ॥

घरपंगणु दिसि गयणंगणु छायाउ अमरणिकायहिं ॥ ६ ॥ 10

7

पुणु वसुवरिसणविहवे गयाइं
गइ विमलरिसीसरि दीहराइं

सत्तरइं दोणिण वासरसयाइं ।
जइयहुं गयाइं णवसायराइं ।

२ P दिहं णाय^०. ३ P सहोयरो.

6 १ A जयसामहो. २ A चंदमुक्कि. ३ AP^० पुजापवंसे.

7 १ P विमलि रिसी^०.

6 a लच्छिसहोयरो चन्द्रः. 7 b पाढीणया मत्स्यौ. 10 a गयरिउआसणं सिंहासनम्. 11 b काओयर^० सर्पाः. 12 b चंचिर^० कर्बुरः. 13 b मारुयसहयरो अग्निः.

6 4 a चंदमुक्कि चन्द्रेण अशुक्ले, कृष्णपक्षे इत्यर्थः; b मलोहमुक्कि निर्मले. 8 a तिहुवणवइगुरुहि जिनगुरोः.

7 1 b सत्तरइं दोणिण वासरसयाइं नव मासा इत्यर्थः.

जइयहुं अंतिमपल्लहु तिपाय
तइयहुं भवभूरुहसत्तहेइ
जेट्टहु मासहु तमकसंणपक्खि
उप्पणउ तिहुवणसामिसालु
दावियसुरकामिणिणट्टलीलु
परियंचिवि तं पुरवरु विसालु

घत्ता—उत्तुंगहु रुम्ममयंगहु सूयरखद्धकसेरुहि ।

गउ सुंदरु देउ पुरंदरु णाहु लण्णिणु मेरुहि ॥ ७ ॥

10

8

भावालउ णच्चंतहिं णडेहिं
अहिसिन्नु भडारउ भावणहिं
वइमाणिएहिं वीणाहरेहिं
भूसिउ परिहाविउ अरुहु संतु
आणेप्पिणु पुणु पुरवरु पसण्णु
पणविवि सुरवइ गउ णियविमाणु
जाण्हालउ णिहिलकलाउ लेंतु
कामग्गितावविन्थरु हरंतु

घत्ता—जिणु वरिसहं कयजणहरिसहं माणियइच्छियसोकखइं ॥

जेहिं कुर्वरत्तणि थिउ सिसुकीलणि तहिं सत्तद्ध जि लक्खइं ॥८॥ 10

खीरोयखीरधाराघडेहिं ।
वणंसुरवरेहिं जोइसगणेहिं ।
गायउ वंदिउ मउलियकरेहिं ।
णाणं अणंतु कोक्किउ अणंतु ।
देविंदे देविहि देउ दिण्णु ।
वइइ सिसु णं सिसुसेयमाणु ।
सुहदंसणु कुवल्लयदिहिं करंतु ।
अकलंकु अखंडु पसण्णकंतु ।

5

9

पुणु तहु कइ पत्ती मयणताउ
सिंचिय अहिसेयघंडुवुएहिं

सिरि मुच्छिय चमरहिं दिण्णु वाउ ।
सच्चेयण कय मइवरणंएहिं ।

२ A °भूरुहत्तेउ. ३ A °कसिण°. ४ AP अवयारिउ. ५ A कवडवाडु. ६ A भम्ममयंगहु.

8 १ P omits वण°. २ P पसण्णु कंतु. ३ A omits जहिं. ४ AP कुमरत्तणि.

9 १ AP °घडंभएहि. २ AP °वरणरेहि.

4 a °सत्तहेइ सत्तहेत्तिरग्गिः. 5 b णासियविवक्खि विघ्नरहिते. 9 रुम्ममयंगहु रुक्कमयं सुवर्णमयं अङ्गं यस्य तस्य मेरोः.

8 1 b खीरोय° श्रीरसमुद्रः. 4 a परिहाविउ वल्लः परिघापितः. 5 b देविहि मातुः
6 b सिसुसेयमाणु बालचन्द्रः.

9 1 a तहुकइ इत्यादि अनन्तनाथेन सह भोगार्थे भोगनिमित्तं मदनतापं प्राप्ता का राज्य लक्ष्मीः. 2 a अहिसेयघंडुवुएहिं अभिषेकघटजलैः; b मइवरणएहिं मतिवराणां मन्त्रिणां नयैः.

उट्टिय लहु सत्तंगइ धुणांति
णियपरियणणिवसणु संवरंति
अवल्लोइय गाहहु खेउं देंति
पुज्जिउ सुहउ इदाइपहिं
भुंजंतहु संपयसुहसयाइं
पण्णाससरार्सेण देह तुंगु
णाणामहिवाल्लयकुलसमग्गि

अरि सुहि मज्झंत्यु वि मणि मुणांति ।
मिलियहं मंडलियहं मणु हरंति ।
वच्छयलि विउलि लीलइ वसंति । 5
सीसेण णमंसिउ दाइपहिं ।
पणदहसमाहं लक्खइं गयाइं ।
तवणीयवण्णु णं णवपयंगु ।
सो रयणिहि थिय अत्थाणमग्गि ।

घत्ता—तहिं राणं भवियसहाणं उक्क पडंति णिरिक्खिय ॥ 10
गय चंचल जिह सा सयदल तिह णररिद्धि वि लक्खिय ॥ ९ ॥

10

ता तणुरुइरंजियल्लणससीहिं
ण्हवणाइउं पोमासंगमेहिं
अण्णिवि अणंतविजयहु सधामु
महुरज्जुणिकिंकिणिलंबमाणु
ल्लट्टेण जेट्टमासंतरालि
वरुणासारुंलिइ खरंसुजालि
पहु पंचमुट्टि सिरि लोउ देवि
बीयइ दिणि दिणयरकरपुरंति
राणं विसाहंभूणं अणंतु
दिण्णउं तें^६ तहु आहारदानु

संबोहिउ दिव्वमहारिसीहिं ।
कल्लाणु कयउं सुरपुंगमेहिं ।
णीसेसु रंजु धणुं साहिरामु ।
आरूढउ सायरदत्तजाणु ।
बारसिवासरि णित्तरवालि । 5
उज्जाणि सहेउइ घणतमालि ।
सहसेण णिवहं सहं दिक्ख लेवि ।
हिंडंतु देउ उज्जाउरंति ।
जयकारिवि धरिउ महीमहंतु ।
पंचविहु वियंभिउ चोज्जटाणु । 10

घत्ता—णियमत्थहु दसदिसिचत्थहु खरतवचरणसमत्थहु ॥
दुइ अहइं दुरियविमहइं गयइं तासु ल्ळम्मत्थहु ॥ १० ॥

11

मासम्मि पहिल्लइ महुपमत्ति
पुव्विल्लइ वणि आसत्थमूलि

णिच्चंदइ दिणि मासंतपत्ति ।
पंचमउ णाणु हयघाइमूलि ।

३ A मज्झत्थइं. ४ P °सरासणु.

10 १ AP देसु. २ A धणसाहिरामु. ३ AP सायरदत्तु. ४ AP °फुसिइ. ५ A विसाहंभूइं; P वसाहमुइ. ६ A तं तहु. ७ AP चोजु.

3 a सत्तंगइं स्वाम्यमात्यादि. 4 a °परियणणिवसणु परिजन एव निवसने वल्लम्. 7 b °समाहं वर्षाणाम्. 8 b णवपयंगु बालसूर्यः. 11 सयदल शतखण्डम्.

10 1 a °रंजियं द्योतितः. 3 a सधामु स्वग्रहम्. 4 b सायरदत्तजाणु सागरदत्तशिबिकाम्. 5 b णित्तरवालि तारापत्रिहिते. 6 a °युलिइ पतिते; खरंसुजालि सूर्ये.

11 1 a महुपमत्ति भ्रमरैर्मत्ते; b मासंतपत्ति अमावास्यायाम्.

संभूयउं लोयालयगामि
आइय बत्तीस वि सुरवरिंद
तडि मेह सुवण्ण दिसग्गिणाय
किंणर किंपुरिस महोरगाय
संपत्त भूय भत्तिल्लभाव
जय जय सामासुय जय अणंत
जय जणणणिहणमयरहरसेउ

थिउ अरुहावत्थहि भुवणसामि ।
गह तारा रिक्ख खरंसु चंद ।
मरु जलणिहि थणियासुरणिहाय । 5
गंधव्व जक्ख रक्खस पिसाय ।
सयल वि थुणंति जय देव देव ।
जय मिहिरमहाहिय गुणमहंत ।
जय सिव सासयसिवलच्छेउ ।

घत्ता—जिणणामें भत्तिपणामें पावमहाँतरु भज्जइ ॥

10

गयगव्वहं सव्वहं भव्वहं भावसुद्धि संपज्जइ ॥ ११ ॥

12

अंतरियउं जं महिसुरहरेहिं
जं केण वि णउ दिट्ठउं सुदूरु
धणपुत्तकलत्तइं अहिलसंति
तुहुं पुणु संसारु जि संपुसंतु
दिणि अच्छइ घरि वावारलीणु
तुहुं पुणु रिसि अहंणिसु जग्गमाणु
वाहिरतवेण पइं अंतरंगु
तवतावें पइं ताविउं णियंगु

जं सुहुमु ण याणिउं जगि परेहिं ।
तं पइं पयडिउं तुहुं भावसूरु ।
भोयासइ तावस तउ करंति ।
संचरहि महामुंणि चरिउं संतु ।
णिसि सोवइ जणु समदुक्खरीणु । 5
दीसहि परिमुक्कपमायठाणु ।
रक्खिउं णीसेसु वि मुइवि संगु ।
विहवियउ पइं दुइसु अणंगु ।

घत्ता—अणुसंकुलु हत्थयलामलु जिह तिह णिहिल्लुं णिरिक्खिउं ॥

मयमत्तउं मयणासत्तउं तिहुवणु पइं पइं रक्खिउं ॥ १२ ॥

13

णिम्मुककसाय जिणेसरासु
पुव्वंगधराहं सहासु बुत्तु

जाया गणहर पण्णास तासु ।
तं तिउणउं वाइहिं दुसयजुत्तु ।

11 १ A °भत्तिल्लभाय. २ P °णिहल°. ३ AP °जयलच्छि. 4 P महाभरु. ५ A भज्जइ.
६ AP भव्वहं सव्वहं.

12 १ P सुहुसु. २ A सदूरु. ३ A संपुसंतु. ४ AP महामुणि संचरित्तु. ५ A अहणिसि.
६ A हत्थतला°. ७ AP सयल. ८ AP पइं पइं.

8 a सा मा सुय जयक्षामापुत्र. 9 a °मयरहर° समुद्रः.

12 1 a अंतरियउं अन्तरितमन्तर्हितम्; b परेहिं रुद्रादिभिः. 2 b भावसूरु परमार्थेना-
दित्यः. 4 a संपुसंतु संमार्जयन्. 5 b सम° श्रमः. 6 a अहणिसु अहर्निशम्. 8 a णियंगु स्व-
शरीरम्. 9 अणुसंकुलु परमाणुसंकुलम्; हत्थयलामलु हस्ततले अमलः स्फटिक इव.

चालीससहस्र एक्कूण भणमि
 चत्तारि सहस्र तिण्णि जि सयाइं
 वयसहसइं केवलदंसणाहं
 तेत्तियइं जि मयविदावणाहं
 अट्टेव सहासइं एक्कु लक्खु
 सावयहं लक्ख दो चउ भणंति
 गयसंख तिर्यसगण वंदणिज्ज
 संमेयहु सिहरु समासहेवि
 विच्छिण्णउं किरियाजालु सयलु
 गउ मोक्खहु अमवासौणिसियहि
 रिदुसमसहसाइं सउत्तराइं

घत्ता—तमहारहिं जलणकुमारहिं जिणसरीरु संकारिउं ॥

णीसल्लहिं घल्लियफुल्लहिं अमरिंदहिं जयकारिउ ॥ १३ ॥ 15

14

संपण्णदुवालसतवविहइ
 अवरु वि समदमसंजमपसत्थि
 सुप्पहपुरिसुत्तमगुणणिहाणु
 पंचसयधणुणयमणुयदेहि
 उत्तंगुं काउ दिण्णायणाउ
 पयपालहु अरिहहु पय णवेवि
 मई णउ रुद्धी सल्ले अणेण
 उप्पणउ कयदहंविहवियप्पि
 अट्टारहसायरपरिमियाउ

घत्ता—इह भारहि पयडियसुहवहि पोयणपुरि चिरु होंतउ ॥ 10

वसुसेणउ त्थमणथेणउ णरवइ वहरिकयंतउ ॥ १४ ॥

13 १ A °सहासैक्कूण. २ AP सिकवुयहं. ३ A वसुसहस्र सिद्ध°; P वसुसहसइं सिद्ध°. ४ AP °वेउव्वणाहं. ५ A सणाणचक्खु. ६ P omits गण. ७ A अमवासहो णिसाहे; P अमवासा-
 णिसीहि. ८ A सदुत्तराइं. ९ A सकारिउ.

14 १ P has before this: जिणतणु पणवेप्पिणु गउ सुरिंदु, धरणेदु णरिंदु खगिदु चंदु; K gives it in margin in second hand. २ A संपुण्णु. ३ AP उत्तंग काउ. ४ AT मह
 णावरुद्ध. ५ AP दहवियवियप्पि. ६ AP तियमण.

13 10 b छे इ ल्लु ज्ञा णु अन्तिमध्यानम्. 11 b ति दे ह णि य लु औदारिकतैजसकर्मणदेहत्रय-
 निगडम्.

14 2 a संपण्ण° उत्पन्ना. 5 b सुरदि सि वि दे हि पूर्वविदेहे. 6 a दिण्णायणाउ दिग्गज-
 नादः. 7 a पयपालहु प्रजापालतीर्थकरस्य. 11 °सुहवहि° शुभपथे. 12 त्थमणथेणउ स्त्रीमनसः स्तेनः;

15

मुहंद्दोहामियसरयचंद
रहरहसपसाहियजोव्वणाइं
तामायउ जियपडिवक्खंदु
अहरावयकरथिरथोरबाहु
वसुसेणं मण्णउ परममिनु
अवलोइवि णंदहि चारु वयणु
अवलोइवि णंदहि खीणु मज्झु
विडु सहंहुं ण सक्किउ मयणवाणु
वसुसेणं दइयविओइएण
वउं लइउ पासि णासियसरासु
अप्पउं दंडिउ छंडिउ ण माणु

घत्ता—तवचरणहु खंचियकरणहु हउं फलु पत्तिउं मग्गामि ॥

परयारिउ सो खलु वइरिउ मारिवि परभवि वग्गामि ॥ १५ ॥

महपवि तासु णामेण णंद ।
अच्छंति जाम बिण्णि वि जणाइं ।
णामेण चंडसासणुं पयंहु ।
राणउ सुहडगंणि मलयणाहु ।
तहु कंतहि लगउ तासु चित्तु । 5
विडु जूरंइ ओहुंलंतवयणु ।
विडु कुप्पइ तप्पइ हिययमज्झु ।
अवहरिवि णंद गउ णिययठाणु ।
असमत्थं विहिणित्तेइएण ।
सेयंसणामजोईसरासु । 10
संमोहजणणु बद्धउं णियाणु ।

16

तहु रुहिरवारिधाराइ जेव
इय बंधिवि दुहु णियाणसल्लु
संभूयउ तहिं सहसारसग्गि
तहिं दिट्टउ तेण महाबलेण
बद्धउ सणेहु कीलाविसालु
तहिं कालि सहिवि णाणाकिलेसु
इह भारहि कासीणामदेसिं
पुहईसरु तहिं णामं विलासु
पयहं दोहं मि लक्खणणित्तु

घत्ता—राणि मिलियहं परमंडलियहं भुयबलु पबलु विजित्तउं ॥ 10

तें सुहयरु रूपयगिरिवरु धरिवि महीयलु भुत्तउं ॥ १६ ॥

15 १ AP सुहयंदो. २ A °पडिवक्खंदु; P °पडिवक्खंदु. ३ A चंडसासणपयंहु. ४ A सुहडगमि. ५ AP झरइ. ६ A ओहुंलंतवयणु; P उहुंलंतवयणु. ७ A सहिवि. ८ AP वउ.

16 १ A मोहंधगिह्लु but T मोहजलार्द्रः. २ AP °देसु. ३ A °पुरघरवरविसेसु; P °पुरि घरवरविसेसु. ४ AP महसूयणु. ५ A तं सुहयरु.

15 4 b सुहडगणि सुभटाग्रणीः; मलयणाहु मलयदेशस्वामी. 6 b ओहुंलंतवयणु शुष्यद्वदनः. 9 b विहिणिसेइएण विधिना कृत्वा निस्तेजस्केन, पुण्यहीनत्वान्निर्वलेन. 13 परयारिउ पारदारिकः; वग्गामि नृत्यं करोमि.

16 1 b परिहवपडु परिभव एव पटो वस्त्रम्. 2 b मोहंभुगिह्लु मोहजलार्द्रः. 9 a लक्खणणित्तु लक्षणयुक्तः. 11 ते तेन मधुसूदनेन.

17

जहिं वरिसहं लक्खइं णिट्ठियाइं
तंहु भुंजंतहु लच्छीविलासु
दारावइपुरि णं दससयक्खु
तहु जयवइ अवर वि अत्थि बीय
कालेण भुवणि किर को ण गसिउ
पढमाइ महाबलु पुत्तु जणिउ
सुप्पहु पुरिसुत्तमु णामधारि
ते बेण्णि वि पंडुरकसणवण्ण
ते बेण्णि वि साहियसिद्धविज्ज

जहिं वरिससयाइं जि संठियाइं ।
तहिं अवसरि सुणि अवरं वि पयासु ।
सोमप्पहु पहु णवपउमचक्खु ।
लहुईं पणइणि णामेण सीय ।
सुरवरु सहसारविर्माणल्लहसिउ । 5
बीयंइ जो चिरु वसुसेणु भणिउ ।
ते बेण्णि वि हलहरदाणवारि ।
ते बेण्णि वि उण्णयपुण्णधण्ण ।
ते बेण्णि वि खयरामरहं पुज्ज ।

घत्ता—हरिकंधर धवलधुरंधर जोइवि कलहपियारउ ॥

10

महिरायहु दावियघायहु जाइवि अक्खइ णारउ ॥ १७ ॥

18

भो भो महसूयण सुहडसीह
सुंदर सोमप्पहदेहजाय
दारावइपुरवरि दोण्णि भाय
णं तुहिणंजणमहिहर महंत
पण्णाससरासणदेहमाण
तहिं कालैसलोणउ भणइ एम्भ
को अण्णु राउ मइं जीवमाणि
आरुसेप्पिणु दुम्मियमणेण
पडिवक्खपसंसियविक्रमासु
पभणिउं भो भो लहु देहि कप्पु

समरंगणि को तुह लुहइ लीह ।
मइं दिट्ठा सुणि रायाहिराय ।
सक्कु वि णउ पावइ ताहं छाय ।
थिर तीसंवरिसलक्खाउवंत ।
संगामरंगणिव्वृढमाण । 5
भो सुप्पह महिवइ तुहुं जि देव ।
को जीवइ गुणसंणिहियबाणि ।
ता दूउ दिण्णु महसूयणेण ।
गउ तासु पासि पुरिसुत्तमासु ।
अवियक्खणु किं किर करहि दप्पु । 10

घत्ता—पहु मण्णाहि कलि अवगण्णाहि करि उत्तउं महु केरउं ॥

महसूयणि भिडिय महारणि ण रंमइ खग्गु तुहारउं ॥ १८ ॥

17 १ AP तहि. २ AP अवर. ३ P णउ पउम°. ४ AP °विवाण°. ५ P बीयउ.
६ AP पुण्णवण्ण.

18 १ A लहइ. २ AP तीसलक्खवरिसाउअंत. ३ AP काले. ४ AP दूमिय°. ५ A
धरइ; K धरइ but corrects it to रमइ.

17 1 a णि ट्ठि याइं गतानि. 2 b पयासु प्रकाशः महिमा. 3 a दससयक्खु इन्द्र इव
सहस्राक्षः. 5 b °ल्लहसिउ च्युतः. 6 a पढमाइ प्रथमया जयावत्या. 7 b °दाणवारि विण्णुः. 9 a
साहियसिद्धविज्ज सर्वेभ्यः साधिकसिद्धविद्यौ. 11 णारउ नारदः.

18 1 b लुहइ स्फेटयति; लीह रेखा. 6 a कालसलोणउ वासुदेवः. 8 a दुम्मिय-
मणेण सखेदचित्तेन. 11 अवगण्णाहि सुञ्च.

19

तं णिसुणिवि भासइ सीरधारि
 अम्हारउ करु मग्गइ अयाणु
 अम्हारउ करु सहं धणुंहरेण
 अम्हारउ करु चक्केण फुरइ
 अम्हारउ करु तहु कालवासु
 तं सुणिवि महंतउ गउ तुरंतु
 ण समिच्छइ संधि ण देइ दव्वु
 तं णिसुणिवि मणि उप्पण्ण खेरि
 संगणइ सुहड हणु हणु भणंति
 आरोहचरणचोइयमयंग
 धाइय रहवर धयधुव्वमाण
 णिग्गउ आरुसिवि राउ जाम
 आयउ रिउ हय तुंदुहिणिणाउ

भो दूय म कोक्कउ गोत्तमारि ।
 किं ण मरइ रंणि सो हम्ममाणु ।
 अम्हारउ करु सहं असिवरेण ।
 अम्हारउ करु तहु जीउ हरइ ।
 जिणु मेल्लिवि अम्हइं भिच्च कासु । 5
 विण्णवइ ससामिहि पय णमंतु ।
 पर चवइ रामु केसउ सगव्वु ।
 हय रसमसंति संणाहभेरि ।
 दट्ठोइ रुट्ट दढंभुय धुणंति ।
 धारासवारवाहियतुरंग । 10
 गयणयलि ण माइय खगविमाण ।
 चरपुरिसहिं कंहियउं हरिहि ताम ।
 थिउ रणभूमिहि वड्हियकसाउ ।

घत्ता—तं णिसुणिवि णियभुय धुंणिवि केसउ जंपइ कुड्डउ ।

मरु मारामि पलउ समारामि रिउ बहुकालहुं लड्डउ ॥ १९ ॥ 15

20

हरिवाहिणिखगवाहिणिसमेय
 रह तुरय दुरय णरंवरउद्द
 चलचमरल्लत्तधयल्लण्णसेणु
 दसदिसिर्वहभरिय ण कहिं मि माइ
 फणि तेण भरेण ण केमं मरइ
 णरभोयणकइ रोमंचियाइं

णिग्गय बेणिण वि हिमगरलतेय ।
 मज्जायविवज्जिय णं समुद्द ।
 उग्गयधूलीरंयकविलवणुं ।
 माहि वज्जघडिय विहडिवि ण जाइ ।
 धुयफडकडप्पु थरहरइ सरइ । 5
 सुपहयइं भूयइं णच्चियाइं ।

19 १ AP सो रणि. २ AP धणहरेण. ३ AP भुयवलि. ४ P धारासवार. ५ A रह रणि
 धय°. ६ AP साहिउं. ७ AP विहुणिवि.

20 १ AP णरवरउद्द. २ AP मज्जायमुक्क णं चल समुद्द. ३ A °सेण. ४ A धूलीरव°. ५ A °वण. ६ A °दिसवह°. ७ AP कह व. ८ A वण° but corrects it to णर in second hand.

19 2 a करु राजदेयम्. 8 a खेरि वैरम्. 15 पलउ समारामि प्रलयकालमानयामि.

20 1 b हिमगरलतेय धवलवर्णः कृष्णवर्णश्च. 2 a दुरय गजाः. 4 b वज्जघडिय वज्र-
 षटितेव. 5 b °फडकडप्पु °फणासमूहः. 6 a णरभोयणकइ नरा एव भोजनं तस्य कृते; b सुपहू-
 यइं सुप्रभूतानि प्रसुराणि.

बिण्णि मि सेण्णइं समुंहागयाइं
जयगोमिणिमेइणिलंपडाइं

आलग्गइं तासियदिग्गयाइं ।
मुसुमूरियचूरियभडथडाइं ।

घत्ता—दप्पिट्टुइं वेण्णि मि दिट्टुइं सेण्णइं समरि भिडंतइं ॥
हलसूलैइं झसैकरवालहिं पहरंताइं पडंतइं ॥ २० ॥

10

21

पवरासवारवेदियरहोहि
जोहंघिंदलियमंडलियमउडि
वियडियकवाडसंदोहणीडि
मीडामहग्घजुज्झंतवीरि
णीरेरुहसममुहपंकएण
कयहलणित्तेइयकयखलेण
बलएवहु पइसरु सरणु अज्जु
कज्जु वि मइं अक्खिउ तुज्जु सारु
आरुहसु म जमसासणु अजाण
माणहि मा महुं रणि बाणविट्ठि

रहसंकडि णिवडियविविहजोहि ।
मउडुच्छलंतमणिकिरणविउडि ।
णीडाहिरूढसुरवरसमीडि ।
वीरंगगलियकीलालणीरि ।
पंकयणाहें दप्पंकएण ।
खलु दुच्छिउं दुहमभुयबलेण ।
अज्ज वि णउ णासइ मिक्कज्जु ।
सारुइ मुइ अवरु वि हत्थियारु ।
जाणेण जाहि मुक्काहिमाण ।
विट्ठि वै भीसण तुह हणइ तुट्ठि ।

5

10

घत्ता—पडिकणहें भणिउं सैतणहें फलवज्जिउ किं गज्जहि ॥
धणुदंडें डिंभय कंडें रे कुमार मइं तज्जहि ॥ २१ ॥

22

दे देहि कप्पु किं जंपिएण
तुहुं किंकरु हउं तुहुं परमणाहु
इय भणिवि विसमभडघाइणीइ
सीयासुएण भग्गइ अणीइ
ता रिउणा घल्लिउ फुरियधारु

दुण्णयवंतें सुइविप्पिएण ।
किं वद्धउ विहलु पहुत्तगाहु ।
जुज्झिउ विज्जइ बहुरुविणीइ ।
बहुंरुविणि जिय पडिरुविणीइ ।
रहचरणु चवेलु सहसारुफारु ।

5

९ P समुहं गयाइं. १० A हलसूलिहिं. ११ AP वरकरवालहिं.

21 १ A जोहोहदलिय^०. २ AP दोच्छिउ. ३ A वि. ४ AP सयणहें. ५ AP डिंभियकंडें.

22 १ A बहुरुपिणि. २ A तरणु. ३ AP सहसारु फारु.

8 b °भ ड थ डा इं °भटसमूहानि.

21 1 a °वे डि य र हो हि °वेष्टितरथौघे. 2 a जो हं घिं °योधपादैः. 3 a वि य डि यं विस्कु-
टितम्. 4 a मी डा म ह ग्घं मा च ईडा च ताभ्यां महार्घः. 5 णी रे रु हं पङ्कजम्. 8 b सारुइ लक्ष्मी-
रुचिम्. 12 डिंभय हे शिशो.

22 2 b विहलु विफलम्. 4 a अणीइ सैन्ये.

गिरिधरणिवलयचालणबलेण
सो रेहइ तेण सुणिम्मलेण
णिर्यरूवपरज्जियणित्तणेण
पुणु भणित्ठ वइरि रे सुप्पहासु
पालियतिखंडमंडियधरेण
तुहुं सुप्पहु विणिण वि मज्झु दास
सरसलिलि रहंगसयाइं अत्थि
मरु मरु मारंतहु णत्थि खेउ

तं हरिणा धरियउ करयलेण ।
णवमेहु व रविणा णित्तलेण ।
अलियंजणसामे पत्तलेण ।
करि केर म जाहि कयंतवासु ।
पंडिजंपिउं पडिदामोयरेण । 10
को गवु रहंगे रे हयास ।
किं तेहि धरिज्जइ मत्तहत्थि ।
संभरहि को वि णियइट्टवेउ ।

घत्ता—असमिच्छवि पुणु णिंभच्छवि चक्के रिउसिरु तोडिउ ॥
हरिहंसं लद्धपससे णं रणंतरुहलु साडिउ ॥ २२ ॥ 15

23

मंहिरक्खसि खद्धणिमासखंड
पत्थिव पसु गिलइ ण कहिं मि धाइ
कालेण कण्हु गउ अवहिटाणु
णिळुं चियकुंतलु करिवि सीसु
परिसेसिवि भवसंसरणवित्ति
जहिं भुक्खु णत्थि आहारवग्गु
जहिं कामिणि कामु ण रोसु तोसु
जहिं वाहि ण विज्जु ण मलु ण ण्हाणु
इच्छइ पेच्छइ णीसेसु ताम
संतेण समियफुल्लाउहेण

पुरिसुत्तमेण भुत्ती तिखंड ।
ओहच्छइ केण वि सहं ण जाइ ।
हलिणा चित्तिउ रिसिणाहणाणु ।
जायउ सोमप्पहगुरुहि सीसु ।
थिउ भूसिवि मोक्खमहाधरित्ति । 5
जहिं णिइ ण मंदिरु सयणवग्गु ।
जहिं दीसइ एक्कु वि णाहिं दोसु ।
जहिं अप्पे अप्पउं जाणमाणु ।
तिहुयणु अणंतु आयासु जाम ।
चउथेण तेण सीराउहेण । 10

घत्ता—ववगयरइ भरहेरावइ जं णरेहिं आराहिउं ॥
तं सिद्धउं सिवसुहुं लद्धउं पुष्पदंतजिणसाहिउं ॥ २३ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभवभरहाणुमण्णिण महा-
कइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे अणंतणाहसुष्पहपुरिसुत्तममहसूयणकहंतरं

णाम अट्टवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५८ ॥

३ AP णित्तवेण. ४ A omits 8a. ५ AP °मंडलवरेण. ६ A तो जंपिउं पडि°; P ता जंपिउं पडि°. ७ A महु मारंतहु. ८ AP णिंभच्छवि. ९ P णं णवसररुह पाडिउ.

23 १ AP have before this: बहुपाउ करिवि बहुभोयसत्तु, तमतमि पत्तउ पडिलिच्छि-
कंतु. २ AP सयणमग्गु. ३ AP अप्पइ अप्पउं जायमाणु. ४ AP अच्छइ. ५ A पुल्लाउहेण. ६ AP
चोत्थेण. ७ AP तं लद्धउं सिवसुहुं सिद्धउं. ८ AP °पुरिसोत्तम°. ९ AP अट्टवण्णा°.

7 b णित्तलेण निर्दोषेण, भासुरेणेत्यर्थः. 9 b केर आशा. 13 a खेउ कालक्षेपः.

23 1 a °णि मास नृमांसम्. 4 a अव हि टा णु सप्तमनरके अवधिष्ठानं नरकविलम्. 6 a
परिसेसिवि परित्यज्य. 7 a भुक्खु मोदकादिकं भक्ष्यम्. 9 a विज्जु वैद्यः. 11 °फुल्लाउहेण °कामेन.

जिणुं धम्मु भडारउ तिहुवणसारउ मइं जडेण किं गिज्जइ ॥
चवलुकुलियायरु भरियउ सायरु किं कुहुवेण मविज्जइ ॥ ध्रुवकं ॥

1

लच्छीरामालिगियवच्छं	उण्णयसिरिवच्छं ।	
दिव्वद्युणि छत्तत्तयवंतं	कंतं भयवंतं ।	
भामंडलरुइणिज्जियचंदं	भव्वकुमुयचंदं ।	5
अमरमुक्ककुसुमंजलिवासं	देयं दिव्वासं ।	
बुद्धं बहुसंवोहियसुरवं	जयदुंदुहिसुरवं ।	
वरकंठीरवपीढारूढं	मीमंसारूढं ।	
पंचिदियभडसंगरसूरं	भुवणणलिणसूरं ।	
मंदराद्दिधीरं सवरहियं	रायरोसरहियं ।	10
दूरुज्झियमायाविरहंसं	मुणिमणसरहंसं ।	
एयाणेयवियप्पविवायं	मोहमेहवायं ।	
पायपोमपाडियगिब्बाणं	उग्गयगिब्बाणं ।	
दिसिणासियदुण्णयसारंगं	हयवसुसारंगं ।	

All mss., A, K and P, have, at the beginning of this saṃdhi, the following stanza:—

अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिश्छन्दसा-
मर्थालंकृतयो रसाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः ।
किं चान्यद्यदिहास्ति जैनचरितं नान्यत्र तद्विद्यते
द्वावेतौ भरतेशपुष्पदशनौ सिद्धं यथोरीदृशम् ॥ १ ॥

K reads ते चार्थनिर्णीतयः for तत्त्वार्थं^०; देवेतौ for द्वावेतौ, and भरतार्थ्य for भरतेश^०;
P reads देवेतौ भरतं तु पुष्पं^०. K has a gloss on देवेतौ as देवत्वं इतौ प्राप्तौ देवेतौ.

1 १ A जिणधम्म. २ P कि तं.

1 2 °उ क ल्दि या य रु उत्कलिकाकारः कल्लोलसमूहयुक्तः; कुहुवेण मानप्रमाणविशेषेण. 3 b °सि रि व च्छं श्रीवृक्षमशोकवृक्षम्. 4 b भयवंतं ज्ञानिनम्. 6 b दिव्वासं दिग्गसनम्. 7 a °सुरवं °सुरपतिम्; b °सुरवं शोभनशब्दम्. 8 b मी मं सा रूढं मीमांसाविचाररूढं परीक्षाप्रसिद्धमित्यर्थः. 10 a स व र हियं स्वपरहितं भिद्यहितं वा. 11 a °मा या वि र हं सं मायाविरहयोरंशं भागम्. 13 b उ ग्ग य- गि ब्बा णं उद्गता निष्पन्ना गीर्वाणाः पण्डितगणधरदेवादयो यस्मात्; अथवा उन्नतग्रीवाणां मिथ्यादृष्टीनां ध्वस्तसंबन्धिनम्. 14 a दु ण्ण य सा रं गं °दुर्मतहरिणम्; b ह य व सु सा रं गं हतद्रव्यलक्ष्यनुरागम्.

तवहुयवहहुयवम्महधम्मं
भणिमो तस्स चरित्तं चित्तं

णमिऊणं धम्मं ।
रंजियपरचित्तं ।

15

घत्ता—जिह अक्खइ गोत्तमु उत्तमु णित्तमु सत्तमु सेणियरायहु ॥
तिह हउं दुक्कियहरु कहंमि कहंतरु भरहहु भव्वसर्हायहु ॥ १ ॥

2

धादइसंडइ पुव्वदिसायलि पुव्वविदेहइ अंकुरपल्लवसोहियपायवि माहवगेहइ ।
सीयातीरिणिदाहिणतीरइ वच्छयदेसइ पुरिहि सुसीमहि दसरहु राणउ जयसिरिसेसइ ।
सुपसाहियसिरु बुहयणवच्छलु णिवसंड केहउ चापं भोपं विहवें रूयें वम्महु जेहउ ।
रयणिसमागमि गिलियउ छणससि अब्भपिसापं खीरामेलउ णावइ णापं दिट्टउ रापं ।
चित्तिउ णियमणि सच्छसहावें वियलियदपें अमयकलायर जेम णिसायरु गसिउ विडपें १५
तेम गसेव्वउ जीउ पुसेव्वउ कूरकयंतं णिव्वयवंतं कारिमजंतं काइं जियंतं ।
एव चवेप्पिणु रज्जि थवेप्पिणु अइरहु णंदणु संगु मुएप्पिणु गउ तउ लेप्पिणु णिम्माणुसु वणु ।
पढिउ सुयंगइ सो एयारह णिट्टइ झिज्जिवि तिहुवणखोहणु तित्थयरत्तणु पुणुणु समज्जिवि ।
पावविगासं मुउ संणासं गउ सव्वत्थहु जणि णउ काइं मि दीसइ दुग्गमु धम्मसमत्थहु ।
जं तसणाडिहि लहुयउ गरुयउ काइं वि अच्छइ तं णियणाणं एक्कु करंगउ जाणइ पेच्छइ । 10
सो तिहिं तीसहिं पक्खहिं गलियहिं सासु पउंजइ तेत्तियवरिससहासहिं संखइ झीणइ भुंजइ ।
सुकलेसु ससिसुक्कवणु सुइ णिण्डियारउ किं वण्णिज्जइ इंदु चंदु अहमिदु भडारउ ।
तेणं तितोसिसमुद्दमाणु परमाउसु भुत्तउं परियाणिवि उव्वरिउं सेसु छम्मासु णिरुत्तउं ।
पेसणु पढमें सयमहिण जक्खिदहु सिट्टउं कुरु कुरु जिणपुज्जाविहाणु परमागमि दिट्टउं ।
घत्ता—सुणि जंबूदीवइ ससिरविदीवइ भरहखेत्ति जणपउंरइ ॥ 15
महराउ णरेसरु सुरकरिकरकरु अत्थि जक्ख रयणउरइ ॥ २ ॥

३ AP णविऊणं. ४ P omits चित्तं. ५ A कहवि. ६ P सयायहु.

2 १ A सिरि. २ P णिवइ म. ३ A गमेवउ. ४ A पुमेवउ. ५ AP read this line as पढिउ सुयंगइ सो अविहगइ एयारह पुणु; P adds after this: सरिवि सुहंगइ दहधम्मंगइ सोसिवि णियतणु; AP add after this: छत्तीस वि गुणसहिए तवणिट्टइ (A तवणिट्टविएं झिज्जिवि. ६ P एक. ७ A सो ततीसहि. ८ A सुइ. ९ A तिणि तत्तीस. १० A पुण जंबू; P सुणि जंबू. ११ P जणे पउरइ; K जणपवरइ but corrects it to जणपउरइ. १२ A मेहराउ; P महाराउ.

15 a वम्महधम्मं कामदेवधनुः. 17 सत्तमु अतिशयेन प्रशस्तः.

2 1 a पुव्वदि सायलि पूर्वमेरौ; b माहवगेहइ माधवा लक्ष्मीपतयः तेषां गृहके. 2 b-3 a जयसिरिसेसइ सुपसाहियसिरु जयलक्ष्मीशेषया पुष्पमालया प्रसाधितं शृङ्गारितं शिरो यस्य स राजा. 4 a अब्भपिसापं राहुणा. 5 b विडपें राहुणा. 6 a पुसेव्वउ कूरकयंतं स्फेडयितव्यः क्रूरकृतान्तेन यमेन; b णिव्वयवंतं व्रतरहितेन; कारिमजंतं शरीरेण; जियंतं जीवता. 9 a सव्वत्थहु सर्वार्थसिद्धिविमानं गतः. 10 b एक्कु करंगउ एकहस्तकायः, अथवा एकाङ्गुलिवत्. 11 a तिहिं तीसहिं त्रिभिस्त्रिंशत्ता च. 12 a सुइ शुचिः; णिण्डियारउ प्रवीचाररहितः. 15 a पढमें सयमहिण प्रथमेन देवेन्द्रेण, सौधमेंद्रेण. 17 महाराउ महसा तेजसा राजितः भानुराजा.

3

पुरंधि तस्स सुप्पहा	सई अणंगमापहा ।	
जणेदिही जिणेसरं	रईणिसादिणेसरं ।	
पुरं णिवद्धतोरणं	घरं समत्तवारणं ।	
करेहि तं तथा तुमं	कुलक्कमागयं इमं ।	
णमंसिउं सुराहिवं	तओ गओ धणी भुवं ।	5
णवप्पसंडिपीयलं	अणेयखाइयाजलं ।	
अणेयवण्णसालयं	अणेयणट्टसालयं ।	
अणेयकेउल्लाइयं	अणेयतूरणाइयं ।	
अणेयदारदावणं	अणेयवल्लरीवणं ।	
अणेयसुंदरावणं	अणेयतिथ्यपावणं ।	10
कयं पुरं महासरं	तैहिं चि रायमंदिरं ।	

घत्ता—तहि पच्छिमरयणिहि सुत्तइ सयणिहि दीसइ देविइ कुंजरु ॥
पसुवइ पंचाणणु विष्फुरियाणणु मयमारणणहपंजरु ॥ ३ ॥

4

अवरं वि सिरिदामं दिट्ठिहि सोम्मं ढोइयइं	
णहि पंडुरतंवइं ससिरविंविंइं जोइयइं ।	
दुइ मीण रईणड दुइ मंगलघड सरयसरु	
जलणिहि जलभीसणु सेहीरासणु सक्कघरु ।	
उरगिंदिणिहेलणु णाणामणिगणु सत्तसिहु	5
मुद्धइ अवलोइउ मणि संमाइउ भणिउ पहु ।	
मइं दिट्ठा सिविणयं सोलह सिविणयं देतु सुहुं	
फलु ताहं भडारा णरवरसारा कहहि तुहुं ।	
पइ कंतहि अक्खइ गुज्जु ण रक्खइ भुयणगुरु	
तुह होसइ तणुरुहु णवसररुहमुहु गुणपउरु ।	10

3 १ AP जणेइही. २ P सम्मत्त°. ३ A तहि च राय°.

4 १ AP अवरु. २ AP सुविणय. ३ A णवससरुहमुहु.

3 1 b अणंगमापहा कामश्रीसदृशी. 2 a जणेदिही जनिष्यति; b रईणि सादिणे सरं रतिरेव निशा तस्या विनाशमूर्यः. 5 b धणी धनदः. 6 a णवप्पसंडिपीयलं नवमुवर्णपीतम्. 10 a °सुंदरावणं शोभनहट्टं आपणम्. 11 a महासरं सरोयुक्तम्; b तहिं चि तत्रैव नगरं.

4 3 सरयसरु पञ्जरुः. 5 सत्तसिहु सत्तार्चिरग्निः. 7 सिविणयं देतु मुहुं श्रीविनतानां राज्ञां सुखं ददत् त्वम्. 10 णवसररुहमुहु नवपङ्कजमुग्धः.

तं णिसुणिवि राणी णं सहसाणी घणरविण णच्चइ सिगारं रसविथारं णवणविण । हेमुज्जलभित्तिहिं उग्गयदित्तिहिं जियतवणि वोलावियं अयणइं पडियइं रयणइं णिवभवणि । वइसाहइ मासइ तेरंसिदिवसइ ससिधवलि	15
थिउ गब्भि जिणेसरु अहममेरेसरु गलियमलि । रेवइणक्खत्तइ णविउ पवित्तइ सुरवरहिं आयहिं दिहिकन्तिहिं सिरिहिरिकित्तिहिं अचलरहिं । चउसायरमेत्तइ सिद्धि अणंतइ मयमहणु अंतिमपल्लइइ धम्मविसुद्धइ गइ णिहणु ।	20
माहम्मि रवणइ धण्णपउण्णइ जणियसुहि ओसाकणसंकुलि णवतणकोमलि तुहिणवहि । मियपक्खहु अवसरि तेरसिवासरि दिण्णदिहि उप्पण्णउ जगगुरु सिरिसेवियउरु णाणणिहि ! गुरुजोइ सुरिंदहिं णहविउ फणिदहिं सुरगिरिहि	25
आणिवि पियवाइहि अण्णिउ मायहि सुंदरिहि । गउ सक्कु सुहम्महु पणविवि धम्महु पणइसिरु वइइ परमेसरु रूवे जियसरु महुरगिरु । घत्ता—पणयालसुच्चावइं उज्जुयभावइं गरुपं तणु तुंगत्तें ॥ तेलोक्कहु सारं अरुहकुमारं जणु रंजिउ धणु देत्तें ॥ ४ ॥	30

5

ताव कुंअरत्तणे	देवकयकित्तणे ।	
लक्खजुयसंजुयं	अद्धलक्खं गयं ।	
वचलरविसेमंहं	अचलरसुरेसंहं ।	
विरइय अण्णिदओ	जसविडविकंदओ ।	
इंदकयणहाणओ	जायओ राणओ ।	5

४ A सहसाणी; P सहसाणी. ५ P वोलाविय. ६ A अट्टसिदिवसइ. ७ AP णववि. ८ A धम्मपउ-
णइ. ९ P उसा^० १० A गुरुजोय. १३ AP पणयसिरु. १२ A सच्चावइं.

5 १ AP कुमरत्तणे. २ P^० विसेमंहि. ३ P^० सुरेसंहि. ४ AP विरइयाणंदओ.

11 सहसाणी मयूरी. 12 णवणविण नवनवेन. 11 वोलाविय यापितानि; अयणइं पण्मासपर्यन्तम्.
15 अससिधवलि कृष्णे. 17 णविउ नमस्कृतः. 22 ओसाकणं अवश्यायकणाः. 25 गुरुजोइ
पुत्रनक्षत्रे. 27 पणइसिरु प्रणतशिराः.

वयसमौलकखहं	गयहं कयसोक्खहं ।	
चंदिमाकंतिया	उक्क णिवडंतिया ।	
तेण अवलोइया	विहियणिव्वेइया ।	
सइं जि उम्मोहिओ	पुणु वि संबोहिओ ।	
वरकुसुमहत्थहिं	दिव्वरिसिसन्थहिं ।	10
हरिहिं अहिसिन्चिओ	वंदिओ अंचिओ ।	
सिहरलिहियंवरं	णाययत्तं वरं ।	
सिवियमारोहिउं	वम्महं जोहिउं ।	
मंदिरा णिग्गओ	सालवणमुवगओ ।	
माहि तेरहमण	दियहि सैमियंकरण ।	15
पूसि सायण्हण	रहिउ रइतण्हण ।	
छट्टुववासओ	करिवि णिहिंथासओ ।	
णिवसहससंजुओ	मुणिवरिंदो हुओ ।	
खंतिकंतापिओ	तुरियणाणंकिओ ।	
पुरिं घरविचित्तण	पांडलीउत्तण ।	20
भमिउ पिंडन्थिओ	विणयणविओ थिओ ।	
धण्णसेणालण	ढोइयं कालण ।	
भोयणं फासुयं	सव्वदोसच्चयं ।	
जायपंचब्भुयं	दाणममरन्थुयं ।	
सहइ तवतावणं	करइ गुणभावणं ।	25

घत्ता—उवसंतइ मच्छरि गइ संवच्छरि खाइयभावहु आइउ ॥
फुल्लंतपियालउं तुंगतमालउं तं सालवणु पराइउ ॥ ५ ॥

6

तहिं सत्तच्छयतरुहि तलि	खगउलमहुलि ।
छट्टुववासालंकियहु	अविसंकियहु ।
पूसरिक्खि छणससिदिवसि	हइ कम्मरसि ।

५ A वयसमलकखहं; P वयसममुलकखहं. ६ A णवकुसुम^२. ७ A समयंकरण. ८ A पिहियासवो. ९ A पुरघर^०. १० AP पांडलीपुत्तण. ११ AP पासुयं.

6 १ AP ^०मुहलि.

5 6 a वयसमालकखहं पञ्चसंवत्सरलक्षणाम्. 7 a चंदिमाकंतिया दीप्त्याक्रान्ता. 12 b णायदत्तं नागदत्ताम्; वरं वरामुत्कृष्टाम्. 13 b जोहिउं जित्वा. 15 b ससियंकरणं चन्द्रसहितं. 19 b तुरियणाणंकिओ मनःपर्यायज्ञानयुक्तः. 26 खाइयभावहु आइउ घातिचतुष्टयं विनाशमागतम्.

6 1 b खगउलमहुलि पश्चिममूहमुखे. 3 b कम्मरसि कर्मरसे कर्ममाम्थे हते सति.

अवरणहइ हूयउ सयलु	केवलु विमलुं ।	
आयउ तुरियेउं सतियसयणु	दससयणयणु ।	5
थुणइ थुणंतु गहीरञ्जुणि	जय परममुणि ।	
धम्मु ण णहयलि गिरिगुहिलि	णउ धरणियलि ।	
धम्मु ण णहाणि ण पसुगंसणि	ण सुरावसणि ।	
तुहुं जि धम्मु जिणधम्ममउ	कयजीवदउ ।	
णरयपडंतहं दिण्णु करु	तुहुं दुरियहरु ।	10
हंरु तुहुं संकरु परमपरु	तुहुं तित्थयरु ।	
बुद्धु सिद्धु तुहुं महु सरणु	हयजरमरणु ।	
जिहं मणु धावइ णारियणि	उत्तुंगथणि ।	
जिह मणु धावइ भवणि धणि	णियबंभुयणि ।	
तिह जइ धावइ तुह पयहं	गयभवभयहं ।	15
तो संसारि ण संसरइ	ण हवइ मरइ ।	
जाइ जीउ तिहुवणसिरहु	तहु सिवपुरहु ।	
एवं थुणेवि पुरंदरिण	वीणासरिण ।	
समवसरणु णिमिउ विउलु	तहिं जीवउलु ।	
धम्मचक्रपहुणा जिणिण	संबोहियउं ।	20
इंदियविसयकसायवसु	सुणिरोहियउं ।	

घत्ता—तहु वज्जियल्लम्महु देवहु धम्महु तवभरधरदढयरभुय ॥
चालीस मणोहर जाया गणहर बिहिं गणणाहहिं संजुय ॥ ६ ॥

7

णवसयइं पुव्वपारयरिसिहिं	संदरिसियमोक्खमग्गादिसिहिं ।
चालीससहास सत्तसयइं	सिक्खुयहं णमंसियगुरुपयइं ।
रिदुसयइं तिणिण सहसइं परहं	अवहिल्लहं संजमभरधरहं ।

२ AP add after this: देवं सयरायरु मुणिउं, जगु जाणियउं (A omits जगु जाणियउं); खणि जाइय (A जाइयउ) देवागमणु, लण्णइ (A सुण्णय^०) गयणु; णाणाविहहिं पडाइयहिं, अवराइयहिं; संथुउ देउ सुरासरहिं, मउलियकरहि; K gives these lines but scores them off.
३ A तुरिउ. ४ A पसुवहणे. ५ P has तुहुं before हरु. ६ A मह सुयणु. ७ P omits this line. ८ A धावइ भवणि वणि; P धावइ णियभवणि धणि. ९ P तिहिं.

7 १ P भिक्खुयहं.

5 b दससयणयणु इन्द्रः. 7 a गिरिगुहिलि गिरिगहरे. 8 b सुरावसणि मय्यव्यसने.

7 1 a पुव्वपारयं पूर्वपारगणां ऋयोगाम्. 3 b अवहिल्लहं अवधिज्ञानयुक्तानाम्.

चउसहस पंचसय केवलिहिं
भयसहसइं विक्रियाइयहं
सहसाइं सट्टि चउसयजुयइं
दोलक्खइं भणियइं सावयाहं
गिब्वाण मिलिय संखारहिय
पणवंति जासुं को तेण सहं
गिंभागमि अट्टणवुत्तरहिं
चोत्थिइ पच्छिमपहरइ णिसिहि
संपण्णी धम्महु परमगइ

मणपज्जयाहं तइं मणबलिहिं ।
दोसहसइं वसुसयवाइयहं । 5
अज्जियहं मोहवासहु चुयइं ।
दुगुणाइं तृयहं पालियवयाहं ।
संखेज्ज तिरिक्ख दिक्खसहिय ।
उवमिज्जइ हूई चित महुं ।
सह जइसपहिं कयसंवरहिं । 10
संमेयसिहरि अरिहहु रिसिहि ।
महुं देउ भडारउ सुद्धमइ ।

घत्ता—वंदारयवंदहु देहुं जिणिंदहु पुज्जिवि हयभवपासहु ॥

पहंजियरविमंडलु गउ आहंडलु गय अवर वि णियवासहु ॥ ७ ॥

8

धम्मवारिविहरणबोहित्थे
सेणिय हलहरचक्रहराणं
णवसासंचियवसुमइदेहे
णिवसइ णरवइ परदुव्विसहो
सो संसारजायणिव्वेयउ
काउं तवचरणं जिणदिट्ठं
पत्तो णिरसणविहिणा सग्गं
अट्टारहजलणिहिपरिमाणं
जइया तइया इह रायगिहे
णाम सुमित्तो अप्पडिमल्लो
जुज्जे सो भुयवलमयमत्तो
ताम तेण परिमउलियणेत्तं

अस्सि परमधम्मजिणतित्थे ।
णिसुणहि चरियं णरपवराणं ।
जंवूदीवे अवरविंदेहं ।
वीयसोयणयरे णरवंसहो । 5
दमवरपासे सुद्धिसंमेयउ ।
विसहियकेसालुंचणणिट्ठं ।
तं सहसारं भोयसमग्गं ।
तस्सेयारहमे बोलीणे ।
णयरे घरसिरणच्चियवरिहे ।
दुज्जणहियउप्पाइयसल्लो । 10
रायसीहराएण णिहित्तो ।
परिभवदुक्खपरंपरच्छित्तं ।

घत्ता—णियरज्जु मुएप्पिणु तणयहु देप्पिणु जुण्णउं तणु व गणेप्पिणु ॥

चिण्णउं त्रउं दूसहु कयवम्महवहु कण्हसूरि पणवेप्पिणु ॥ ८ ॥

२ A जिह केवलहिं. ३ AP तियहं. ४ AP जासु सो केण सहं. ५ A अट्टणववुत्तरहि. ६ A देवजिणिंदहु.

8 १ A अस्स. २ P णरवासहो. ३ P संसारहु जाय°. ४ °संमेयउ. ५ A रायहरे. ६ A वउ; P तउ.

4 b तइ तावन्तः केवलप्रमाणाः; मणबलिहिं मनःपर्यायज्ञानसहितानाम्. 10 a गि भागमि आपाढे शुक्ले.

8 1 a ° बो हि त्यं प्रवहणे नौकायाम्; b अस्सि अस्मिन्. 4 b णरवसहो नरवृषभनामा. 9 b °वरिहे °मयूरे. 11 b णि हि त्तो निराकृतो मानभङ्गं प्रापितः. 12 a परि म उ लिय णे त्तं परिमुकुलितनेत्रेण; b °छित्तं °सृष्टेन.

9

णवर पमाएं	माणकसाएं ।	
भीमें रुद्धउ	हियवइ कुद्धउ ।	
खरतवझीणउ	साहु अयाणउ ।	
पत्थइ तवहलु	होज्जउ भुयबलु ।	
आगामिणि भवि	भडेरवि रउरवि ।	६
जेण वियारमि	सो रउ मारमि ।	
इय णिज्झाइवि	देहु पमाइवि ।	
सल्लुकिलेसैं	मुउ संणासैं ।	
थियुँ सुरविदइ	हुउ माहिंदइ ।	
जाउ मणोरमि	अणुवमतणुरमि ।	10
आउअणिंदइ	सत्तसमुदइ ।	
जहिं जिणगीयइं	अच्छरगीयइं ।	
जहिं सवणिज्जइं	सुइरमणिज्जइं ।	
जें चिरु जित्तउ	राउ सुमित्तउ ।	
सो पत्थिवहरि	णं मत्तउ करि ।	15
हिंडिवि भववाणि	विहुरावल्लिघणि ।	
फलियधरायलि	इह कुरुजंगलि ।	
पंडुरगोउरि	ह्यउ गयउरि ।	
राउ कुसीलउ	सो महुकीलउ ।	

घत्ता—करयलकरवालें भिउडिकरालें पुहइ तिखंडं पसाहिय ॥ 20
मंडलिय मउँद्धर जेम धुरंधर तेम तेण घरि वाहिय ॥ ९ ॥

10

रज्जु कसिणसुहसारउं अणहुत्तिहिं णियउं
कइवइ वरिसइं जइयहुं तहु जीविउं थियउं ।

9 १ AP अजाणउ. २ AP भडयणि. ३ A थिय. ४ P जिणगेहइं. ५ A अच्छरिगीयइं.
६ A तिखंडइं साहिय. ८ AP मउडधर.

10 १ A कसण^०. २ AP

9 1 a पमाएं प्रमादेन. 2 a भीमें सौद्रेण. 3 b भडरवि रउरवि भटकोलाहले सौद्रे. 10 b
अणुवमतणुरमि अनुपमा शरीरस्य रमा शोभा यत्र. 11 a आउअणिंदइ आयुषा अनिन्द्रे. 12 a
जिणगीयइं जिनसंबन्धीनि गीतानि. 16 b विहुरावल्लिघणि दुःखपरंपराप्रचुरे. 19 b महुकीलउ
मधुकीडः. 21 मउद्धर मदोद्धराः; धुरंधर वृषभाः.

10 1 कसिण^० क्लृप्तं संपूर्णम्; अणहुत्तिहिं णियउं अनुमुक्ति नीतम्.

तइयहुं खगउरणाहहु सीहसेणणिवहु
 इक्खाउहि सुपासिद्धहु इह भरहुम्भवहु ।
 विजयादेविहि गम्भइ उप्पणउ धवलु 5
 सो णरवसहवरामरु भुयजुयबलपवलु ।
 सुहिहिं सुदंसणु कोक्किउ कुलसरहंसवरु
 तहिं अवसरि माहिंदहु णिवडिउ सइं इयरु ।
 अहरबिबरुइणिज्जियणवरविधिबियहि 10
 सो सुमित्तु सुउ जायउ उयँइ अबियहि ।
 पुरिससीहु हक्कारिउ लहुयउ बंधवहिं
 पहु पमाणु संपत्तउ थणयथण्णधुयहिं ।
 ते^४ बेण्णि वि ससियरहिमकज्जलगरलणिह
 बेण्णि वि ते सुरगिरिवरसंणिहमाणसिह ।
 बेण्णि वि ते बल केसव वासवविहियभय 15
 ते बिण्णि वि नृवंसिरमणिकिरणारुणियपय ।
 ते बिण्णि मि संसेविय विज्जाजोइणिहि
 समलंकिय हरिवाहिणिगारुलवाहिणिहिं ।
 ते तेहीं आयण्णिवि परसिरिअसहणउ
 महुकीलउ आरुद्धउ राणि जुज्झणमणउ । 20
 पेसियदूपं जाइवि बोळिय रायसुय
 किं तुम्हइं ण कयाइ वि एही वत्त सुय ।
 घत्ता—खोणीयलपालहु जो महुकीलहु कप्पु देइ सो जीवइ ॥
 हलहर सुहभायण सुंणि णारायण अवरु जमाणु पावइ ॥ १० ॥

11

भग्गणरिंदो ती गोविंदो ।
 माणमहंतो भणइ हसंतो ।

३ A गोउरणाहहु; K गोउर^० but corrects it to खगउर^०. ४ A णरवसहु. ५ A ^०पवलवलु.
 ६ A णिवडिउ सो इयरु. ७ P अवरइ. ८ A थणयथण्णधुयहिं; P थणयथण्णधुवहि. ९ AP बेण्णि
 मि ते. १० AP णिव^०. ११ AP तहा. १२ AP बोळिय जाइवि. १३ AP णिसुणि णारायण.

11 १ A तो.

4 इक्खा उ हि इक्खाकुवंरो. 7 सु हि हिं सुहद्धिः. 8 स इं स्वयम्; इ य रु ममित्रचरः. 9 अ ह रे त्या दि अधर-
 बिम्बकान्त्या निर्जिते तिरस्कृते रविबिम्बे द्वे यया. 12 पमाणु संपत्तउ प्रामाण्यं प्राप्तः, सर्वोत्कृष्टो बभूवे-
 त्यर्थः; थणयथण्णधुयहिं स्तनपेषु बालेषु स्तन्यधुतेषु स्पर्शकेषु तरुणेषु च प्रामाण्यं प्राप्तः. 16 ^०किरणारु-
 णियपय ^०किरणैः अरुणितौ पादौ ययोः. 17 विज्जा जो इणि हिं विद्यादेवताभिः. 19 ते हा तादृशौ.
 22 ए ही वत्त एषा वार्ता.

भुवि जो मंदो	मंइ सच्छंदो ।	
मंगइ कप्पं	तमहं भप्पं ।	
करमि अदप्पं	किं माहप्पं ।	5
अत्थि पराणं	खग्गकराणं ।	
दोण्णयमुक्कं	मोत्तूणेक्कं ।	
लंगलपाणिं	को पहु दाणिं ।	
मंइ जीवतें	वइरिक्कयंतें ।	
वयणं चंडं	सुइवहकंडं ।	10
तं सोऊणं	चारु अदीणं ।	
विगओ दूओ	हरिसियभूओ ।	
कुंजरगइणो	तेण सवइणो ।	
कहिया वत्ता	कुरु रणजत्ता ।	
ण करइ संधी	लच्छिपुरंधी-	15
लोलो रामो	कण्हो भीमो ।	

यत्ता—तक्खणि संणद्धउ उब्भियधुयधउ रोसें कहिं वि ण माइउ ॥
हयतूरगाहीरें सहुं परिवारें महुंकीडउ उद्धाइउ ॥ ११ ॥

12

रमणीदमणइं	रिउआगमणइं ।	
जूरियसयणइं	णिसुणिवि वयणइं ।	
जोइयभुयवल	णिग्गय हरि बल ।	
झल्लरि वज्जइ	उंदुहि गज्जइ ।	
संचल्लिय चमु	हुउ महिविब्भमु ।	5
उक्खयखग्गइं	सेण्णइं लग्गइं ।	
भडकडव्हणि	मोडियसंदणि ।	
फाडियधयवडि	तोडियगयगुडि ।	

२ A भमइ सच्छंदो. ३ A मंगइ. ४ A करुणाजुत्ता. ५ AP महुकीलउ.

12 १ A जोइवि. २ AP^०मइणि. ३ P पाडिय^०. ४ P^०हयगुडि.

11 3 a मंदो जडः. 4 b भप्पं भस्म. 7 a दोण्णयमुक्कं दुर्णयसुक्कं बलभद्रम्. 8 b दाणिं इदानीम्. 10 b सुइवहकंडं कर्णपथाकृष्टवाणम्. 12 b हरिसियभूओ हर्षसंपन्नः, अथवा हर्षितानि भूतानि येन संप्रामजनकत्वात्. 14 b कुरु रणजत्ता रणयात्रां संग्रामप्रयाणं कुरु. 15 b — 16 a लच्छिपुरंधी लोलो लक्ष्मीलम्पटः. 17^०धुयधउ^०आन्दोलितध्वजः.

12 7 a भडकडव्हणि भटानां प्रकटचूर्णीकरणे. 8 b^०गयगुडि गुडा गजपाखरः (पृष्ठा-स्तरणम्).

पहरणसंकडि	विहडावियघडि ।	
सुरवरदारुणि	णवकोवारुणि ।	10
देहवियारणि	खेयरमारणि ।	
चुयजंपाणइ	खलियविवाणइ ।	
कुरयंधारइ	धणुंटेकारइ ।	
धाइयवाणइ	लुयतणुताणइ ।	
रुहिरज्जलझलि	णरवरगोंदलि ।	15
मारियवारणि	तहि पइसिवि रणि ।	

घत्ता—पडिसंतुं वुत्तउं एउं अजुत्तउं जं मइं सहुं रणि जुज्झहि ॥

तुहुं भिञ्च कुलीणउ हउं तुह राणउ एत्तिउं कञ्च ण वुज्झहि ॥ १२ ॥

13

दे देहि कप्पु	मा कालसप्पु ।	
पइं गिल्लउ अज्जु	अणुहुंजि रज्जु ।	
ता भणिउं तेण	दामोयरेण ।	
को एत्थु सामि	कहु तणिय भूमि ।	
कुलभूसणम्मि	सिरिसासणम्मि ।	5
भणु लिहिय कासु	बल्लु जासु तासु ।	
इय वज्जरंत	अमरिसैफुरंत ।	
आउहइं लेवि	अब्भिट्ट वे वि ।	
ते वरणरिंद	पडिहरिउविंद ।	
कयरोलियाउ	दाढालियाउ ।	10
पिंगाच्छियाउ	वीहच्छियाउ ।	
फणिकंकणाउ	लंबियथणाउ ।	
उक्केसियाउ	रिउपेसियाउ ।	
बहुरूविणीउ	सुरकामिणीउ ।	
कण्हें हयाउ	णासिवि गयाउ ।	15

५ AP अलिङ्गंकारइ. ६ A °तणताणइ. ७ A पडिसत्तं.

13 १ P गिल्लइ. २ A अमरिसु. ३ AP वीहच्छियाउ. ४ A उक्कोसियाउ.

13 a कुरयंधारइ भूरजसा अन्धकारिते. 14 b तणुताणइ °तनुत्राणे कवचे. 15 b °गोंद लि युद्धे. 17 पडि सत्तुं प्रतिशत्रुणा.

13 6 a लि हि य लिखिता कस्य वर्तते भूः; यः सुभटस्तस्य भूर्भवतीति प्रसिद्धमेतत्. 10 a क य रो लि या उ कृतकोलाहलाः. 13 a उक्के सि या उ ऊर्ध्वकेशिकाः.

परणिक्रिवेण	करिउरणिवेण ।
चालिवि गुरुक्कु	उम्मुक्कुं चक्कु ।
आरालिफुरिउं	कण्हेण धरिउं ।
दाहिणकरेण	णं गहवरेण ।
कसणेण तंबु	णवभाणुबिंबु ।
पुणु भणिउ पिसुणु	महुक्कील णिसुणु ।

20

घत्ता—रेरे रिउकुंजर दददीहरकर सीरिहि सरणु पदुक्कहि ॥

एवहिं असिजीहहु महुं णरसीहहु कमि पडियउ कहिं चुक्कहि ॥१३॥

14

इय भणिवि सयडंगु अणेण पमेळियउं
दो वि पंचचालीसधणुणयदेहधरं
ते हलहरहैरिराणा मंगलभासिणिइ
खयकाले मुसुमूरिउ पुरिससीहु गहिरि
भाइपेउं सक्कारिवि सीहसेणतणउ
छट्टुमउववासहिं दसमदुवालसहिं
रुक्खमूलवहि सयणहिं रवियरतावणहिं
भुवणत्तयसिहरग्गहु मोक्खहु णिक्कलहु
मुणिगणिंदु आहासइ गोत्तमु विप्पसुउ

उरयलु वइरिहि विउल्लु वियरिवि घल्लियउं ।
सुहुं दहलक्खइं वरिसहं थिय भुंजंत घर ।
वीर वे वि आलिंगिय विजयविलासिणिइ ।
रउरवि रंणरवि णिवडिउ सत्तममहिविवरि ।
धम्महु सरणु पइट्टुउ रामु सुदंसणउ । 5
परवसलद्धाहारहिं विलवणणीरसहिं ।
कम्मकंदु णिल्लूरिवि मुणिगुणभावणहिं ।
णिक्कसायणीरायहु गउ सो णिक्कलहु ।
फणिकिंणरविज्जाहरगणगंधवंधुउ ।

घत्ता— मागहणिव मण्णहि पुणु आयण्णहि चरिउं चक्कणेयारहं ॥ 10

संगामसमत्थहं तइयचउत्थहं मयवसणाइकुमारहं ॥ १४ ॥

15

पडिवइरिइ हइ णिवडिइ तमतमधरणियलि

गिद्धखद्धमणुअंतइ वित्तइ भडतुमुलि ।

५ AP परिमुक्कु. ६ P वरसीहहु. ७ A कमपडियउ.

14 १ A °देहवर. २ A सुहदह°. ३ A °हरिणामिं. ४ A रणयविणिवडिउ. ५ A भाइ-
देहु. ६ A णिक्कसाउ णीराउ सुदंसणु णिच्चलहु. ७ A गणिमुणिंदु. ८ AP °विजाहरवर°. ९ P °गंधयुउ.
१० P मघवासणईकुमारहं.

16 b करिउरणि वेण हास्तिननृपेण. 19 b गहवरेण राहुणा. 23 कमि पडियउ आक्रान्तः.

14 5 a भाइपेउ भ्रातृमृतकशरीरम्; सीहसेणतणउ सिंहसेनपुत्रो बलभद्रः. 6 b °विल-
वण° निर्लवणैः लवणरहितैः. 7 b कम्मकंदु कर्मसमूहः; णिल्लूरिवि छेदयित्वा. 8 a णिक्कलहु कला-
रहितं शरीररहितं मोक्षम्; b णिक्कलहु कलहरहितः. 10 चक्कणेयारहं चक्रस्वामिनोः.

15 1 पडिवइरिइ प्रतिक्कणे.

दामोयरि गइ णरयहु भीमरहंगकरि
 मारवियारणिवारइ णिवुइ सीरंधरि ।
 दीहकाल बोलीणइ णरणियैराउहरि 5
 धम्मणाहतित्थंतरि बुहयणसंतियरि ।
 सुणि जे जाया भारहि भासुरचक्रवइ
 बेणिण सयलइलपौलय जिणकमणिहियमइ ।
 पत्थु खेत्ति महिमंडलि णयरि विचित्तघरि
 मोरकीरकुरराउलि सीमारामसरि । 10
 तित्थि वासुपुज्जेसहु दुद्धर वय धरिवि
 णरवइ णामे राणउ दुक्करु तउ करिवि ।
 हुउ मज्झिमगेवज्जहि अहममराहिवइ
 जिणधम्मं पाविज्जइ सासयसोक्खगइ ।
 कवणु गहणु देवत्तणु परियत्तणसहिउं 15
 पउं वप्प मइं जाणिउं लोपहिं वि कहिउं ।
 सत्तवीससायरखइ जायउं मरणु सुरि
 सउहावलिसिहरुम्भडि सिरिसाकेयपुरि ।
 इइ सुमित्तणरणाहहु सुहिसंमाणियहि
 हंसवंसकलसइहि भद्दाराणियहि । 20
 मघउ णाम हूयउ सुउ सुयणाणंदयरु
 असियरपसमियरिउतमु भमिउ णिवदिवसयरु ।
 घत्ता—जिउ मागहुं वरतणु सुरखेयरगणु णट्टंमालितुहिणामरु ॥
 वंसिकिय मंदाइणि साहिवि मेइणि पुणरवि आयउ णिययघरु ॥१५॥

16

दोचालीससद्धधणुतुंगं
 अंगं तस्स सुलक्खणवतं
 पंचलक्खवरिसह बद्धाउ
 दिव्वकामभोपं भोत्तूणं

कणयच्छवि णं मंदिरसिंगं ।
 कामिणिमणसंखोहणवतं ।
 णिच्चं सिद्धसमीहियधाउ ।
 चक्रवट्टिरिद्धिं मोत्तूणं ।

15 १ AP सीरहरि. २ A दीहकालु; P दीहकालि. ३ P °णियराउ°. ४ A धम्मदेवतित्थ-
 करि; P धम्मदेवतित्थंतरि. ५ AP °इलवाल्य°. ६ A विचित्तयरि. ७ P णामे. ८ P भमिउ जि
 दिवसयरु. ९ A मागहवर°. १० P °मालिरु तुहिणामरु. ११ AP वसिकय.

16 १ A मंदरसिंगं; P मंदरे सिंगं. २ A रिद्धी मोत्तूणं.

३ °रहंग करि °चक्रकरे. ५ णरणियराउहरि नरनिकरस्यायुःक्षयकरे. ८ °इलपालय भूपालकौ.
 २० °वंस° वेणुः. २२ असियर° खड्गकिरणैः. २३ तुहिणामरु हिमवंतकुमारः.

16 ३ b °समीहियधाउ नवनिधानरूप्यसुवर्णादिधातुः.

प्रियमित्तहु पुत्तहु दाऊणं
मणहरउज्जाणं गंतूणं
गहिउं दिक्खं सहिउं दुक्खं
मघवंतो पयणयमघवंतो

सध्वं जिणतच्चं णाऊणं ।
अभयघोसदेवं थोत्तूणं ।
जिणिउं तण्हं णिइं भुक्खं ।
रयपरिचत्तो मोक्खं पत्तो ।

5

घत्ता—जहिं कामु ण कामिणि दिणु णउ जामिणि ताराणाहु ण णेसरु ॥
जहिं वसइ ण सज्जणु भसइ ण दुज्जणु तहिं थियउ मघवमहेसरु ॥१६॥

17

कालें जंतें अवरु जिह
चिंधचीरच्चुंबियखयलि
सूरवंसणहदिणयरउ
पहु अणंतवीरिउ वसइ
हरि करि विसवइ कुमुयपिउ
अञ्चयकप्पहु ओर्यरिउ
किंणरवीणारवञ्जुणिउ
विरइयणामकरणविहिहिं
तेण समुहणियंसणिय
घणणंदणवणकौतलियं
बहुणरिंदकोडुवाणिय
छक्खंड वि महि जित्त किह
पुव्वभणियधणुतुंगयरु

नेवु उप्पणउ कहमि तिह ।
इह विणीयपुरि छहधवलि ।
धीरउ पयपालणणिरउ ।
तहु महएवी घरिणि सइ ।
जोइवि सिविणय णलिणहिउ ।
सुरंसिसु उयरि ताइ धरिउ ।
पुणु णवमासहिं संजणिउ ।
सणकुमारु कोक्किउ सुहिहिं ।
चउदहरयणविहूसणिय ।
गंगाजलवेलंचलियं ।
गरुयगिरिंदसिहरथणियं ।
णिहिघडधारिणि दासि जिह ।
तिण्णि लक्ख वरिसाउधरु ।

5

10

घत्ता—बत्तीससहासहिं मउडविहूसहिं णरणाहहिं पणविज्जइ ॥

जो सयलमहीसरु णरपरमेसरु तासु काइं वणिणज्जइ ॥ १७ ॥ 15

18

रंभापारंभियतंडवइ
अत्थाणि परिट्टिउ सक्कु जहिं

तावेक्कहिं दिणि मणिमंडवइ ।
आलाव जाय सुरवरहिं तहिं ।

३ AP पियमित्तहु.

17 १ A णिव; P णिउ. २ A महदेवी. ३ P णलिणहिउ. ४ A अवयरिउ. ५ P सुरु
सिसु. ६ AP ०कौतलिया. ७ AP ०चलिया. ८ A ०कोडावणिया; P कोडुवाणिया. ९ AP ०थणिया.

8 a पयणयमघवंतो पादयोर्नतः इन्द्रो यस्य; b रयपरिचत्तो कर्मरजोविमुक्तः.

17 2 a चिंधचीरं ध्वजः. 9 a ०णियंसणियं वसना. 13 a पुव्वभणियधणुं सार्ध-
द्विचत्वारिंशद्दन्तं.

18 1 a रंभापारंभियतंडवइ स्वर्गवेश्यया प्रारब्धे नृत्ये.

भो अत्थि णत्थि किं सुहयरहु
तं णिसुणिवि भणइ सुराहिवइ
सुरणरकामिणियणणालिणरवि
माणुसु णवत्थि रूउज्जलउं
ता झ त्ति समागय तियस तहिं
अवलोइवि णरवइ सुरवरहिं
रूवें तेल्लोक्कूरुवविजइ
जिणणाहु वि जिहिं संसइ चडइ

णरलोइ रूउ कासु वि णरहु ।
जो संपइ वट्टइ चक्कवइ ।
सो सणकुमारु किं विट्ठु णवि । 5
जेणेहउं भासिउं मोक्कलउं ।
अच्छइ वसुहेसरु भवणि जिहिं ।
अहिणांदिउ विट्ठुणियसिरकरहिं ।
एहउ सुरिंदु दुक्करु हवइ ।
तहिं अवरु रूउ किर कहिं घडइ । 10

घत्ता—पयडेवि सरूवइं सोम्मसहावइं विहसिवि देवहिं भासिउं ॥
जइ मरणु णं होंतउ तो पज्जत्तउ एउ जि रूउ सुहासिउं ॥ १८ ॥

19

ता जरमरणसइ आयणिवि मणिवि तणु व महियलं ।
देवकुमारणामे सुइ अप्पिवि सतुरंगं समयगलं ॥ १ ॥
णिच्चतिगुत्तिगुत्तसिवगुत्तमहामुणिपायपंकयं ।
तेणासांधिऊण पक्खालिय बहुभवपावपंकयं ॥ २ ॥
गहियं वीरपुरिसचरियं चित्तं तडिदंडचंचलं । 5
रुद्धं चंडकुसुमसरकंडांडंवरडमरविंभलं ॥ ३ ॥
ससिडिंडीरपिंडपंडुरयरहिमपडच्छइयदेहयं ।
वासियं बाहिरम्मि परिसैसियघरपंगुरणणेहयं ॥ ४ ॥
चलतडयडियपडियसोयामणिताडंणविहडियायलं ।
सहियं पावसम्मि वणतरुतलि विसरिसजलझलज्जलं ॥ ५ ॥ 10
महिहरविंयडकडयविउलविउलयलसिलायलणिहियकाइणं ।
सूरस्सहिम्मूहेण सुरेण वरेण विमुक्कराइणं ॥ ६ ॥

18 १ P णेवि. २ A णयत्थि. ३ A वडइ. ४ AP सोम°. ५ A ण हुंतउ ता; P ण हु तउ तो.

19 १ AP °मरणघोसु. २ AP अप्पिवि. ३ A °कंडंडंवर°. ४ A °पंडुरपरहिम°. ५ P °ताडण-विणणविहडिया°. ६ AP °वियल°. ७ A सूरशिहिमुहेण; P सूरसाहिमुहेण.

3 a सुहयरहु शुभकरस्य. 6 a णवत्थि अस्ति न वा; b मोक्कलउ यदच्छया. 10 जिणेत्था दि जिमनाथोऽपि रूपेण ईदृशो भवति न वेति संशये पतति. 12 मरणु ण होंतउ मरणं चेन्नाभविष्यत्; सुहासिउ सुखाश्रितं श्लाघितम्.

19 2 सुइ सुते पुत्रे. 1 °पावपंकयं पापकर्दमः. 6 °कंडांडंवरडमरविंभलं °काण्डानां समूहानामाडम्बरमाटोपस्तेन डमरं भयं तेन विह्वलं चपलम्. 7 ससिडिंडीर° चन्द्रवत् फेनः; °पंडुरयर° अतिश्वेतवर्णम्. 10 पावसम्मि प्रावृट्काले. 11 °काइणं °देहेन.

सोद्धुं गिंभयालरविकिरणकलावखरवियंभियं ।
 दुइमकोहमोहदढलोहमयं णियलं णिसुंभियं ॥ ७ ॥
 सहसा दिट्ठसयलसयरायरकेवलविमललोयणो ।
 देउ सणक्कुमारु जइ सुहमइ जायउ सो णिरंजणो ॥ ८ ॥

15

घत्ता—मइलिउ मोक्खत्ते कइधिट्ठत्ते काइं कइत्तणु पोसइ ॥
 भरहाइणरिंदहं चरिउं अणिंदहं पुष्पयंतु जइ घोसइ ॥ १९ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे धम्मपरमेट्ठिसुदंसणपुरिससीह-
 महुक्कीलयमघवसणक्कुमारकहंतरं णाम एक्कुणसाट्ठिमो
 परिच्छेओ समत्तो ॥ ५९ ॥

८ A °खरं वियंभियं. ९ AP जाओ. १० AP मुक्खत्ते.

17 मोक्खत्ते मूर्खत्वेन; कइत्तणु कवित्वम्. 18 पुष्पयंतु जइ पुष्पसमानदन्तो यतिः सर्वशः.

दुक्रियपसरणिवारओ
मोहमहारिउमारओ

जो दीणेसु किवारओ ॥
जो सासयासिवमारओ ॥ ध्रुवकं ॥

1

पंचमचक्रहरो णरईसो
सोलहमो परमेष्टि पसण्णो
तत्तसमुज्जलकंचणवण्णो
केवलणाणमहामयमेहो
भूसणभारविवज्जियकण्णो
जो छणयंदकरावलिकंतो
भत्तजणात्तिहरो भयवंतो
फुल्लियकोमलपंकयवत्तो
संतियरो भुवणुत्तमसत्तो

घत्ता—सो भवसायरतारओ
णियसुकइत्तु पयासमि

जेण णिओ समणं ण रईसो ।
सुत्तणिसेहियपेसिपसण्णो ।
णायणिउत्तचउव्विहवण्णो । 5
भव्वसमूहणिरूवियमेहो ।
पंगणणच्चियखेयरकण्णो ।
संतसहावो उज्झियकंतो ।
जो गिरिधीरो णो भयवंतो ।
धत्थकुत्तिथ सुत्तिथपवत्तो । 10
धुद्धदयो परिरक्खियसत्तो ।
पणविवि संतिभडारओ ॥
तासु जि चरिउं समासमि ॥ १ ॥

2

जंबूदीवि भरहि विजयाचलु
जहि सुरणारिहिं गेयपवीणहिं
जहि रिसिवसइ अछित्तु अहंसै
जहि जं भूसिजइ सरकंकै

अहिणवचंदणचंपयपरिमलु ।
सरुं सुम्मइ वज्जंतहि वीणहि ।
जसु मेहल सेविजइ हंसै ।
णिम्मलु तं वण्णिजइ कं कै ।

1 १ A छणइंद°

2 १ A सरु. २ A सरु कंकै.

1 1 *b* किवारओ कृपारतः. 2 *a* °मारओ °हिसकः; *b* मारओ °लक्ष्मीरतः. 3 *a* णरईसो राजा, न तु कुम्भकारः चक्रपाणित्वात्; *b* समणं स्वचित्तं प्रति; रईसो कामः. 4 *b* सुत्तणिसेहियपेसिपसण्णो सूत्रे निषिद्धा पेशी मांसं प्रसन्ना मद्यं च येन. 5 *b* णायणिउत्तचउव्विहवण्णो न्याये स्थापिताश्चत्वारो वर्णा येन. 6 *a* महामयमेहो महाजलमेघः; *b* °णिरूवियमेहो निरूपिता मेधा बुद्धियेन. 7 *b* °खेयरकण्णो °खेचरकन्यः. 9 *b* णो भयवंतो न भययुक्तः. 10 *b* धत्थकुत्तिथ ध्वस्तानि कुतीर्थानि यस्य.

2 *a* गेयपवीणहिं गीतचतुराभिः; *b* सरु शब्दः. 3 *a* रिसिवसइ चैत्यालयः; अथवा ऋषिरिवाखण्डितव्रता सती; अछित्तु अस्पृष्टः पापांशेन. 4 *a* सरकंकै जलबकेन; *b* कं जलम्; कै केन.

जहिं केवलि णिव्वाणपयं गउ
फलिहसिलायलि जहिं मायंगहिं
दाहिणसेढिहि तहि रहणेउरु
तेत्थु जलणजडि णिवसइ खगवइ
णियजसेण कंतहु चंदाहहु
तासु सुहइदेवि पियराणी

घत्ता — ताहं विहिं मि सुय द्दई
वाउवेय सा पयहु

जहिं मणियैरहिं ण दिट्ठु पयंगउ । 5
मुंहुं दिज्जइ जोइयणिययंगहिं ।
पुरु णारियणराणियपयणेउरु ।
विण्णभोणयसिरु णारइ खगवइ ।
तिलयणयरणाहहु चंदाहहु ।
णं आसीस पुव्वपियराणी । 10

णं रइणाहहु द्दई ॥
दिण्णी दिणयरतेयहु ॥ २ ॥

3

सिहिजडिणामहु जयसिरिधामहु
अक्कफिस्सि सुउ जायउ केहउ
अवर वि चंदसरीरइ णं पह
देसि^३ सुरम्मइ पंकयणेत्तहु
विजयाणुयहु महाहवपबलहु
मुसुमूरियकंडीरवकंडहु
जणिउ ताइ सिस्सु सिरिविजयंकउ
उत्तरसेढिहि वसियंतेउरि

घत्ता—परिहावल्यसुदुग्गमि
पंचवण्णधयसोहणि

रूउंढामहु णिज्जियकामहु ।
खत्तधम्मु णरवेसें जेहउ ।
उप्पणी सुय णाम सयंपह ।
पोयणणयरि पयावइपुत्तहु ।
कोडिसिलासंचालणधवलहु । 5
दिण्णी पढमहु हरिहि तिविट्ठु ।
विजयभहु कंतीइ ससंकउ ।
पुरि सुरिंदकंतारि सुगोउरि ।

रयणदीवणासियतमि ॥
देवदेविमणमोहणि ॥ ३ ॥ 10

4

स्वरु मेहवाहणु पीणत्थणि
जुइमाला णामे सुय वल्लह

णाम मेहमालिणि तहु पणइणि ।
ढोइय राविकिस्सिहि परदुल्लह ।

३ A मणिणियरहिं. ४ AP महं. ५ A णारियण°. ६ A विणउण्णय°.

3 १ A सिहजडि°. २ A रूवोदामहु. ३ A देससुरम्मइ.

5 a णिव्वाणपयं गउ निर्वाणपदं प्राप्तः; b पयंगउ सूर्यः. 6 b °णि ययंग हिं °निजाङ्कप्रतिबिम्बैः, प्रतिगजशङ्कया इत्यर्थः. 9 a चं दा ह हु चन्द्राभनाम्नः. 10 b आ सी स पुव्व पिय रा णी पूर्वपितृणामाशी-रिव. 12 ए य हु ज्वलनजटिनः.

3 3 a पह प्रभा. 5 a विजयाणुयहु विजयबलभद्रानुजस्य त्रिप्रष्ठस्य; b °धवलहु वृषभस्य धुरंधरस्य. 6 b हरिहि कृष्णस्य. 7 a सिरिविजयंकउ श्रीविजयनामा. 8 a वसियंतेउरि वसितान्तः-पुरे; b सुरिंदकंतारि सुरेन्द्रकान्तारनगरे.

4 2 a जुइमाला ज्योतिर्माला.

परिणिय पुंतु तेण तहि जायउ
धीय सुतार तारवरलोयण
ताएं पोढत्तणि कयपणयहु
अमियतेउ भल्लारउ भाविउ
भुत्तउं तेण णिबद्धं णियाणउं
सिरि सिरिविजयहु देवि हियत्तें
विजपं तउं लइयउं आयणिवि
अमियतेउ णियरज्जि थवेप्पिणु
अक्ककिस्सि जइवइ गउ मोक्खहु
विजयभहु सिरिविजयहु वच्छलु
पाहुडगमणागमणपवाहें

घत्ता—जा तावेक्कु सुसोत्तिउ
सत्तमि दिणि जं होसइ

अमियतेउ णामें विक्खायउ ।
सुंदरि मुणिहिं वि कामुक्कोयण ।
दिण्णी सिरिविजयहु ससतणयहु । 5
जुइवह सुय कण्हें परिणाविउ ।
पत्तउ कालें अवहियठाणउ ।
कामभोयपरिभारविरत्तें ।
वित्तु कलत्तु वि तिणंसमु मण्णिवि ।
भत्तिइ तउ तिक्कवरु तवेप्पिणु । 10
मुक्कउ भवसंसरणहु दुक्खहु ।
जिह तिह अमियतेउ णिरु णेहलु ।
जाइ कालु बंधुहु उच्छाहें ।

तहिं आयउ णिमित्तिउं ॥
तं सिरिविजयहु घोसइ ॥ ४ ॥ 15

5

अरिपुरवरणिवसावयवाहहु
तडयडति सिरि^१ दत्ति भयंकरि
विजयभहु पभणइ रे बंभण
जइ रायहु सिरि विज्जु पडेसइ
तं आयणिवि तणुविच्छायहु
पत्थिव महु मत्थइ मलमुक्कइं
मरणवयणवापें विहाणउ
को तुहुं कासु पासि केहिं सिक्खिउ
अक्खइ सुत्तकंतु पुहईसहु

तडि णिवडेसइ पोयणणाहहु ।
सहसा दहविहप्राणखयंकरि ।
णिदय सज्जणहिययणिसुंभण ।
तो तुहुं सिरि भणु किं णिवडेसइ ।
दियवरु आहासइ जुवरायहु । 5
णिवडिहिंति णाणामाणिकइं ।
तहिं अवसरि सइं पुच्छइ राणउ ।
केमं भविस्सु बप्प पइं लक्खिउ ।
हउं पव्वइयउ समउं हलीसहु ।

4 १ AP तेण पुंतु. २ AP णिवद्ध. ३ A अवहियठाणउ; P अवहिटाणउ. ४ P वउ.
५ AP तिणसउं. ६ AP णेमित्तिउ.

5 १ A सिरि दुत्ति; P सिरि दत्ति. २ AP °पाण°. ३ AP °वायइ. ४ AP किर. ५ P
केम इहु भविस्सु.

4 b कामुक्कोयण कामोत्पादिका. 5 a ताएं पित्रा; b सिरिविजयहु त्रिप्रष्टपुत्रस्य; ससतणयहु भगिनी-
स्वर्यप्रभापुत्रस्य. 6 b जुइवह ज्योतिःप्रभा. 7 b अवहियठाणउं सप्तमनरकः.

5 1 a अरीत्यादि शत्रुनगरनृपश्चापदव्याधस्य; b णिवडेसइ पतिष्यति. 2 a दत्ति शीघ्रम्.
6 a मलमुक्कइं निर्मलानि. 7 a °वाएं विहाणउं वातेन शुष्कः. 9 a सुत्तकंतु ब्राह्मणः; b पव्वइ-
यउ पूर्वं दीक्षितः पश्चाद्भग्नः.

गउ विहरंतु देसि पुरु कुंडलु
दूसहविसयपरीसहभग्गउ

घत्ता—अंतरिक्खसुणिमित्तइं
भउमु वि खेत्तपमाणउं

णं महिणारिहि परिहिउ कुंडलु । 10
काइं मि जीवियवित्तिहि लग्गउ ।

सिक्खिउ गहणक्खत्तइं ॥
अंगउं अंगणिवाणउं ॥ ५ ॥

6

सरु गंभीरु इयरु उवलक्खिउ उ
लक्खणाइं कमलाइं पसत्थइं
वक्खाणमि जं जिह सिविणंतरु
तं हउं सिक्खिवि अट्टपयारउं
केसरिरहहु पुरोहिउ सुरगुरु
वंदिवि आयउ पोमिणिखेडहु
सोमसम्मु णियजणणीभायरु
मेलाविउ हउं तेण सँदुहियहि
ससुरयदिण्णु दच्चु भुंजंतइं
हउं पर केवलु पढमि णिमित्तइं
मामसमप्पिउ कंचणु णिट्ठिउ
महुं कडियलि लग्गउं कोवीणउं

घत्ता—घरिणिइ पसरियदुक्खइ
भुंजहि भणिवि विसालइ

विंजणु पुणु तिलयाइउं सिक्खिउ ।
जाणमि मूसयच्छिण्णइं वत्थइं ।
पावइ जेण सुहासुहु णरवरु ।
इय एहउ णिमिउ सवियारउं ।
तासु वि सीसु विसारउ महुं गुरु । 5
फलिहालंकियकुलिसकवाडहु ।
मइं दिट्ठु तहिं कयपरमायरु ।
लोमंजणियहि सँसहरमुहियहि ।
दोहं मि गलिउ कालु कीलंतहं ।
किं पि वि णिव ण समज्जमि वित्तइं । 10
घरि दालिहु रउहु परिट्ठिउ ।
तो वि ण भासमि कासु वि दीणउं ।
महुं डज्जंतहु भुक्खइ ॥
घित्त वराडय थालइ ॥ ६ ॥

7

तुहुं महुं दइवें दिण्णउं बंभणु
उज्जउं करहि ण भरहि कुडुंबउं

एत्तिउं तेरउं अच्छइ कुलहणु ।
लोयणजुयलु करिवि आयंबउं ।

६ AP °विसहपरीसह°.

6 १ A छिन्नइं; P छित्तइं. २ P सुदुहियहि. ३ A लोमंजणियहि. ४ AP ससयर° ५ A सुसुरय°.

7 १ AP उज्जमु.

13 a भउमु भूमौ भवम्; b अंगउं अङ्गलक्षणं सामुद्रिकम्; अंगणिवाणउं अङ्गे शरीरे निर्माण-
मुत्पत्तिर्यस्य.

6 1 a इयरु तुच्छः २ b मूसयच्छिण्णइं मूषकच्छिन्नानि. 4 a अट्टपयारउं अष्टाङ्गम्;
b सवियारउं विचारयुक्तम्. 5 a केसरिरहहु सिंहरथस्य; b विसारउं विशारदः. 9 a ससुरय-
दिण्णउं श्वशुरेण दत्तम्. 12 a कोवीणउं कौपीनं कटिवस्त्रम्. 14 वराडय कपर्दिका.

7 1 b एत्तिउं कपर्दिकामात्रम्. 2 a उज्जउ उद्यमम्; b आयंबउं आताम्रम्.

एष जाम घरणीह पवोल्लिउ
अहणियडउं जि जलणु पज्जालिउ
तक्खणि सिहिफुलिणु उच्छलियउ
हउं थिउ तं जोयंतु सइत्तउ
उत्तरु महुं ण देसि जंपंतिहि
जं इंगालउ पडिउ वराँलइ
जं पइं पाणिपण अहिंसिचिउ
सँ जंपइ पइ बुद्धिहि भुलउ

घत्ता—डङ्गउ णिद्धणजंपिउं
परु जणवउ किं बुच्चइ

ता महुं हियवउ णं झसँसल्लिउ ।
इंधइ इंधणु केण वि चालिउ ।
आविवि जलयरि गरुयइ धिवियउं । 5
ता कंतइ सिरि सलिलिं सित्तउ ।
मइं दर विहासिवि भासिउं पत्तिहि ।
तं तडि पडिही पोयणपालइ ।
तं जाणंहि हउं रयणहि अंचिउ ।
चप्फेलु झंखइ चंदगहिल्लउ । 10

महरु वि कण्हं विप्पिउं ॥
कुलघरणिहि वि ण रुच्चइ ॥ ७ ॥

8

इय चिंतंतु घरहु णीसरियउ
णाम अमोहजीहु ओहँच्छमि
जइ चुक्कइ नुँव केवलिदिट्टुं
सउणु भडारा सच्चउं सुच्चइ
तं तहु भणिउ चित्ति संमाइउ
भणइ सुबुद्धि कुलिसमंजूसहि
वसहि णराहिव मज्झि समुदहु
चवइ सुमइ पइसहि परदुच्चरि
मइसायरु भासइ ण तसिजइ
जं लिहियउं तं अग्गइ थक्कइ

घत्ता—सुरमहिहरथिरचित्तं
धरियणराहिवमुदें

हउं तुम्हारइ पुरि अवयरियउ ।
पट्टणणाहहु पलउ णियच्छमि ।
तो जाणहि चुक्कइ मइं सिट्टुं ।
केरु पडियारु जेम तुहुं रुच्चइ । 5
रापं मंतिहि वयणु पलोइउ ।
आयससंखलवलयविट्ठसहि ।
जेणुंवरसि सदेहधिमहहु ।
रुप्पयगिरिवरगुहविवरंतरि ।
णरवइ जिणवरिदु सुमरिजइ ।
जमकरणहु मरणहु को चुक्कइ । 10

कयपहुरक्खपयत्तं ॥
भासिउं बुद्धिसमुदें ॥ ८ ॥

२ P झससिल्लिउ. २ AP पज्जालिउ. ४ AP गरुयइ जलयरि. ५ AP जं जोयंतु ६ A omits this foot. ७ P वराडइ. ८ P तडि पडिहीसी. ९ AP जाणमि. १० A सइ जंपइ; P स वि जंपइ. ११ P चप्फेलु. १२ AP रुच्चइ.

8 १ AP जा अच्छमि. २ AP णिव. ३ AP करि. ४ AP जेणुवरहि.

4 b इंधइ चुल्लके. 5 b जलयरि कपर्देके वराटके. 6 a सइत्तउ सावधानः. 8 a वरालइ कपर्देके. 10 पइ पतिः.

8 2 a अमोहजीहु अमोघजिह्वः; ओहँच्छमि एष तिष्ठामि; b पलउ प्रलयं क्षयम्. 4 a सउणु निमित्तम्. 7 b सदेहविमहहु स्वदेहनाशात्. 9 a तसिजइ त्रस्यते. 11 a सुरमहि वरथिरचित्तं मेरुवत् स्थिरचित्तेन मन्त्रिणा; b कयपहुरक्खपयत्तं कृतप्रभुरक्षाप्रयत्नेन. 12 a बुद्धिसमुदें मत्तिसागरेण.

9

विचरि णिहिंसुउ विचु पहाणउ
गेहि जयंतीपंतिहिं वेविइ
अच्छइ तीहिं वि संझहिं णहायउ
समयंतरपवियाराणि जाए
दुप्परिणामे मुउ कयमायउ
णासावंसउ विधिर्वि साहिउ
काले जंते जायउ दुब्बलु
गलियसत्ति सो णिवडि वि थक्कउ
को वि ण तिणु णउ पाणिउं दावइ
जइयहुं हउं बलवंतउ हंतउ
तइयहुं सयल देति महुं भोयणु
कसंमसत्ति दंतेहिं दलेवउं

घत्ता—इय भरंतु माहिंदउ
मरिवि भरेण सतामसु

सुणि महिवइ दिहुंतकहाणउ ।
सीहउरइ सिरिरामासेविइ ।
खलु दप्पिट्टु सोमुं परिवाइउ ।
सो जिणदासें जिचु विवाए ।
तहिं जि माहेसु सविसाणउ जायउ । 5
लोपं लोणु भरोप्पिणु वाहिउ ।
एम जीउ भुंजइ दुक्कियफलु ।
णायरणरणिउरंवे मुक्कउ ।
रूसिवि सेरिहु णियमणि भावइ ।
जइयहुं बलइउ भारु वहंतउ । 10
अज्ज ण केण वि किउ अवलोयणु ।
पुरयणु मइं कइयहुं वि गिलिब्बउं ।

दुग्गइवेल्लीकंदउ ॥
हुउ तहिं पिउवणि रक्खसु ॥ ९ ॥

10

तेत्थु जि पुरि अण्णायविहसिउ
तेण सयलु काणणमृगुं खद्धउ
ध्रितइ सूयारउ णिरु णिक्किउ
वणयरु णत्थि केत्थु पावमि पलु
आणिउं घल्लियडिंभयजंगलु
पइवि महाणससत्थणिओए

कुंभु णाम राणउ मंसासिउ ।
हरिणु ससउ सारंगु ण लद्धउ ।
विणु मासेण ण भुंजइ धुवुं नुवु ।
आहिंडवि मसाणधरणीयलु । 5
जीहालोलहं पेउ जि मंगलु ।
ढोइउ पहुहि रसायणपाए ।

9 १ A णिहित्तु, २ AP सोमु परिवायउ. ३ A हयमाणउ; K also records: हय-
माणउ इति पाठान्तरे. ४ AP जायउ सुविसाणउ. ५ AP णासावंसें. ६ P विधिवि. ७ A तणु. ८ P
रुसइ. ९ A कसमसंतदंतेहिं.

10 १ P म्मिगु. २ P धुउ णिउ.

9 2 a जयंतीपंतिहिं वेविइ ध्वजापंक्तिभिः कल्पिते. 3 b सोमु परिवाइउ सोमनामा परि-
ब्राजकः. 5 a कयमायउ कृतमायः. 6 a साहिउ वशीकृतः. 9 b सेरिहु महिपः. 10 b बलइउ
गोण्या वेष्टितः, उभयपार्श्वलम्बितगोणिः. 13 a भरंतु स्मरन्; माहिंदउ महिपः. 14 b पिउवणि
श्मशाने.

10 1 a अण्णायविहसिउ अन्यायविभूषितः, b मंसासिउ मांसभक्षकः. 3 a सूयारउ
सूपकारः. 5 a घल्लियडिंभयजंगलु निक्षिप्तपतितडिग्भमांसम्. 6 a पइवि पक्त्वा; महाणससत्थं
महानसशास्त्रम्; b रसायणपाए रसायनपाचकेन, सूदेन.

तूसिवि तहु मुहकमलु गिरिक्खिउ
माणुसमासहु राउ पइद्धउ
साहियरक्खसविज्जाणियरउ
तहिं अवसरि पुव्विल्लउ णिसियरु
कुलिसकढिणणक्खेहिं वियारइ
वाहिवि वाहिवि पुणु अवहेरिउ
अप्पसयत्थियाइं तमवंतइं

घत्ता—पंडुरमंदिरपयडइ
सयलु लोउ थिउ पइसिवि

चारु चारु पभणंतं भक्खिउ ।
अवरहिं दिणि सूर्यारु जि खद्धउ ।
णरवरिंदु ह्यउ रयणियरउ ।
तहु सरीरि संठिउ भीसणयरु । 10
णासंतइं जंतइं पञ्चारइ ।
चंगउं हउं चिरु भुक्खइ मारिउ ।
एमहिं कहिं महुं जाहु जियंतइं ।

ता पट्टणि कारयडइ ॥
तहु रयणियरहु णासिवि ॥ १० ॥ 15

11

ता सीहउरु पमेह्लिवि णिग्गउ
घडहड त्ति णरलोहिउ घोट्टइ
चरयरंतं तणुचम्मइं फाडइ
रायणिसाडचरणजुयलग्गइ
चरुयसयडु मणुणं संजुत्तउ
जइयहुं तं आयंउ ण गिरिक्खहि
कुंभकारकडु पुरवरु घुट्टउं
तहिं जि चंडकोसिउ दियसारउ
पउरणिवद्धउ णिरु दुव्वारउ
विप्पेण वि अणउवरि णिवेसिउ
भूयहिं चालिउ पासि णिसीहहु

घत्ता—दंडपाणि अवराइउ
ढंढरेहिं माहिरंधइ

णिवरक्खसु जणपच्छइ लग्गउ ।
कडंयउ त्ति हहुइं दलवट्टइ ।
णाइं णिवर्द्धणाइं अच्छोडइ ।
ता दुत्तउ पयाइ भयभग्गइ ।
दियहि दियहि लइ तुज्जु णिउत्तउ । 5
तइयहुं तुहुं पुणु सव्वइं भक्खहि ।
णिच्चमेव दिज्जइ उवइट्टउं ।
सोमसिरीमणयणपियारउ ।
अण्णाहिं दिणि तहु आयहु वारउ ।
पुत्तु मंडकोसिउ लहु पेसिउ । 10
ललललंतमुहणिग्गयजीहहु ।

रक्खसु संमुहुं धाइउ ॥
बडुवउ धिन्नु तमंधइ ॥ ११ ॥

३ AP रुसिवि. ४ AP सूर्यारु वि.

11 इ AP घडयडत्ति. २ AP कडयडत्ति. ३ AP चरयरत्ति. ४ AP णिवंधणाइं. ५ AP आयउ तं. ६ P चंडकासिउ. ७ AT अणु उवरि. ८ P ढंढरेहिं. ९ AP बडुयउ.

9 b रय णि यरउ रजनीचरो राक्षसः. 13 a अप्पसयत्थियाइं स्वार्थिनः. 14 b कारयडइ कारकटे नगरे.

11 2 b हहुइं अस्थीनि. 3 b णिवद्धणाइं शिराबन्धनानि; अच्छोडइ त्रोटयत्ति. 4 a रायणिसाड राजा चासौ निशाटो राक्षसश्च. 5 a चरुयसयडु नैवेद्यशकटम्; मणुणं संजुत्तउं मनुष्येण युक्तम्. 7 a कुंभकारकडु नामेदम्. 8 a दियसारउ द्विजप्रधानः. 10 a अणउवरि अनः शकटः; तस्योपरि. 12 a अवराइउ अपराजितनामा. 13 a ढंढरेहिं अन्यराक्षसैः.

12

तहिं अच्छिउ अजयरु तें गिलियउ
तेण देव तुहुं विवरि ण धिंप्पहि
पभणइ महसायरु मंहि दिज्जइ
ता अहिसिंचिवि मेइणिसासणि
सो किंकरजणेण पणविज्जइ
जीय देव आएसु भणिज्जइ
गयणविलंबमाणधयमालउ
झायइ अंधुवु असरणु तिहुवणु
ता सत्तमउ दियहु संपत्तउ
असणि पडिय तहु जक्खहु उप्परि
पउमिणिखेडु गामसयसहियउं

घत्ता—अणु वि रयणिहि संचिउ
किउ बंभणु परिपुणउ

पुणु सो वलिवि ण जणणिहि मिलियउ ।
एत्थु जि जीवोवाउ वियप्पहि ।
पोयणणाहु अवरु इह किज्जइ ।
कंचणजक्खु णिहिउ सिंहांसणि ।
सो चलचामरेहिं विज्जिज्जइ । 5
तासु पुरउ णञ्चिज्जइ गिज्जइ ।
णरवइ गंपि पइडु जिणालउ ।
जिणपडिंबिबणिहियणिच्चलमणु ।
जो जणेण पोयणवइ उत्तउ ।
णेमित्तियहु दिण्ण रहुं हरि करि । 10
णंदणवणमारुयमहिमंहियउं ।
मोत्तियदामहिं अंचिउ ॥
पुणु पहु रज्जि णिसण्णउ ॥ १२ ॥

13

चंदकुंदणिहइहियहिं खीरहिं
अट्टावयकलसहिं जिणुं प्हाणइ
अप्पाणहु कुलकुवलयचंदं
काले जंतें तहिं णिवसंतें
जणणिपसापं मंतु लहेप्पिणु
सुज्जतेय विज्जाहरसामिणि
जोव्वणभावजणियसिगारइ
गउ णहेण वणि दुमदलणीलइ
तावेत्तहि विहरणअणुराइउ

घत्ता—हित्तमहारिउछापं
आसुरियहि उप्पणउ

गंगासिंधुमहासरिणीरहिं ।
करिवि विइण्णइं दीणहं दाणइं ।
विहिय संति सिरिविजयणरिंदें ।
पोयणपुरवरु परिपालंतें ।
पंचपरमपरमेट्टि णवेप्पिणु । 5
साहिय विज्ज णहंगणगामिणि ।
एक्कहिं वासारि समउं सुतारइ ।
थिउ कामिणिकिलिंकिचियकीलइ ।
भांमरिविज्ज लहेवि पराइउ ।

इंदासणि खगरापं ॥ 10
लच्छिहि गुणसंपुणउ ॥ १३ ॥

12 १ घेप्पहि; P घेप्पिहि. २ AP अवर वर. ३ AP सीहासणि. ४ P वज्जिज्जइ. ५ AP अडुउ. ६ AP रह करि हरि. ७ AP महमहियउं. ८ AP रयणहिं.

13 १ AP °महाणइणीरहिं. २ A जिणण्हवणइं. ३ AP भावरि°.

12 1 a अच्छिउ स्थितः; b वलिवि पश्चाद्गत्वा. 2 b जीवोवाउ जीवितव्योपायः 11 a पउमिणिखेडु पद्मिनिखेटकं नाम. 12 a रयणिहिं रत्नैः. 13 a परिपुणउ परिपूर्णमनोरथः.

13 6 b णहंगणगामिणि आकाशगामिनी. 8 b °किलिकिचियकीलइ हास्यरुदनयुक्त-क्रीडया. 9 b भांमरिविज्ज भ्रमररूपा विद्या. 10 a हित्तमहारिउछापं क्षिपरिपुमाहात्म्येन. 11 a आसुरियहि असुरलक्ष्या.

14

चमरचंचपुरवइ रइराइउ
 तेणासुररिउसुयसीमंतिणि
 मोहिउ णावइ मोहणवेल्लिइ
 मायाहरिणु तेण दक्खालिउ
 रूवु धरिवि वरइत्तहु केरउ
 अप्पणु झ त्ति जारु तहिं पत्तउ
 देव म्मुगाइं धरंतु ण लज्जहि
 कीलणु तुज्जु तासु भयभंगउं
 तं णिसुणिवि पररमणे भासिउं
 हउं परियत्तउ एण जि करुणे
 एम भणेवि चडाविय सुरहरि
 णहि जंतं दाविउं ससररिउं
 मुक्क धाह हा णाह भणंतिइ

असणिघोसु णामेण पराइउ ।
 दिट्ठ सुतार हारभूसियथणि ।
 उरि विद्धउ मयरद्धयभल्लिइ ।
 पइ सइसामीवहु संचालिउ । 5
 अज्झाहिय आणंदजणेरउ ।
 अमुणंतिइ धरिणीइ पवुत्तउ ।
 अज्ज वि बालत्तणु पडिवज्जहि ।
 कंपइ मरणविसंठुल्लु अंगउं ।
 सुंदरि चारु चारु उवएसिउं । 10
 आउ जाहुं पुरवरु किं हरिणे ।
 रेहइ चंदरेहं णं जलहरि ।
 मुद्धइ तं जोइवि विवरेरउ ।
 करजुयलेण सीसु पहणंतिइ ।

घत्ता—पुणु परंपुरिसु ण जोइउ एण णाहु विच्छोइउ ॥
 सुयडिउं विहि विहडावइ एवहिं को मेलावइ ॥ १४ ॥ 15

15

एम रुयंति तेण सा णिज्जइ
 एत्तहि पवणु व वेयपयट्टउ
 मत्तमयूरवंदकयतंडवु
 पररमणीहरणेण णिवेसिय
 लोलइ विज्ज सुतारारूवें
 उत्तउं भत्तारें किं जायउं
 अक्खइ मायाविणि हउं णट्ठी

पिययमविरहें तिलु तिलु शिज्जइ ।
 गउ मृगुं पुहइणाहु पल्लट्टउ ।
 पडिआयउ सुंदरिलयमंडउ ।
 रयणसिलायलि तेत्थु जि दरिसिय । 5
 जाणिवि गहिय कंत जमदूएं ।
 दीसइ वयणं कमलु विच्छायउं ।
 कुक्कुडफणिणा करयलि दट्ठी ।

14 १ A दिक्खालिउ. ३ AP धरिणीइ पइ वुत्तउ. ३ AP मिगाइं. ४ AP चंदलेह.
 ५ AP^० पुरसु.

15 १ AP मिगु. २ A कमलवयणु; P वयणु कमलु.

14 1 a रइराइउ सुरतराजितः. 4 b पइ श्रीविजयः; सइसामीवहु सतीसामीप्यात्. 5 a
 वरइत्तहु श्रीविजयस्य; b अज्झाहियं सुताराहृदयम्; अज्झा इति सुताराया द्वितीयं नाम. 9 a पर-
 रमणे जारेण. 10 a करुणे करुणया. 15 a विहडावइ विघट्टयति.

15 2 a वेयपयट्टउ वेगेन प्रवृत्तः. 5 a विज्ज विद्या; b कंत कान्ता; जमदूएं मृत्युना.

विसरिसविसरसवियणगुरुक्की
चंदणचंदणइंधणु पुंजिवि
घत्ता—पियविओयआंयंपिउ
संकप्पहु जि वसंगउ

इय भणंति पाणेहिं विमुक्की ।
सूरकंतमणिजलणु पउंजिवि ।
परिसेसियइहपरहिउ ॥ 10
णरवइ सलहि वलग्गउ ॥ १५ ॥

16

ता संपत्त बिण्णि विज्जाहर
तेहिं तिविट्टुपुत्त ओलक्खिउ
एक्के बुद्धियमायामग्गे
पायड करिवि नुवंहु दक्खालिय
महिचइ विंभइवसु अवलोइवि
जंबुद्दीवि भरहखेत्तंतरि
दाहिणसेदिहि जोइप्पहपुरि
हउं तहिं पहु णामे संभिण्णउ
संजय पणइणि सुउ दीवयसिहु
जणण तणयं ए अमहइं सुंदर
चिरु परिभमिवि रमिवि पिउ बोळ्ळिवि
पइवय परमेसरि अहिमाणिणि
घत्ता—णिरु उक्कंठिय अच्छमि
हा सिरिविजय पधावहि

सयणविहुरहर असिवरफरकर ।
णिज्जाणि वणि मरंतु णोवेक्खिउ ।
ताडिय झ त्ति वामपायग्गे ।
विज्ज पणट्टु भीयवेयालिय ।
खयरं भणिउ णिसुणि मणु ढोइवि । 5
चारुधोयकलहोयमहीहरि ।
उज्जाणंतथंतकीलासुरि ।
अमियतेयंकिंकरु माणुण्णउ ।
महुं ओहच्छइ णं कंतिइ विहु ।
अवलोयंति सिहरिदरिक्कंदर । 10
गयणुल्ललिय जाम वणु मेळ्ळिवि ।
ता हयंति णहि णिसुणिय माणिणि ।
वल्लह पइं कहिं पेच्छमि ॥
कुडि लग्गहि म चिरावहि ॥ १६ ॥

17

हा हा अमियतेय दुंदुहिरव
हा हा माम तिविट्टु महाबल

इहु अवसरु तुहु वट्टइ बंधव ।
पइं जीवंति णंति मइं किं खल ।

: A °इंधण. ४ A °आयामिउ.

16 १ AP ण उवेक्खिउ. २ P णिवहु. ३ AP विंभयवसु. ४ P °तेउ. ५ A तणय बे
महइं. ६ AP कह पइं.

17 १ AP किं मइं.

३ a °वियण? वेदना. 9 °वंदण° रक्तचन्दनम्; सूरकंतमणिजलणु सूर्यकान्तमणेरमिः. 10 a °वि-
मोयआंयंपिउ वियोगेन आकम्पितः; b परिसेसिय° त्यक्तम्. 11 b सलहि काष्ठभक्षणार्थं चितायाम्;
लग्गउ आरूढः.

16 1 b सयणविहुरहर स्वजनकष्टहरौ. 2 b णोवेक्खिउ न निरादृतः. 4 a पायड
हरिवि विद्यां प्रकटीकृत्य. 5 a विंभइवसु विस्मयवशाः; b मणु ढोइवि चित्तं सावधानं कृत्वा. 6 b
कलहोय° कलत्रौतं रूप्यम्. 10 ए तौ आवाम्. 14 b कुडि पृष्ठे.

हा सासुह देवर साहारहि
 हा हलहर पइं अप्पउं तारिउ
 हा हे घोर जार जैगि सारहु
 जइ वि मइणु तुहुं तो वि ण इच्छमि
 णिसुणिवि णियसांमिहि णामक्खरु
 भणिउ वइरि भडवापं भज्जहि
 अप्पहि तरुणि घुलियहारावलि

घत्ता—ता देवीइ पवुत्तउं
 काणणि कामसमाणउ

मइं रोवंति काइं ण णिवारहि ।
 महुं लग्गंतु कुपुरिसु णं णिवारिउ ।
 मइं लहु णेहि पासि भत्तारहु । 5
 पइं हउं जणणसारिच्छु णियच्छमि ।
 अम्हइं धाइय गुणि संधिवि सरु ।
 अवरकलत्तु हरंतु ण लज्जहि ।
 दूसह सिरिविजयहु बाणावलि ।

एव्वहिं भिडहुं ण जुत्तउं ॥ 10
 जाइवि जोइवि राणउ ॥ १७ ॥

18

लहु महुं तणिय वत्त तहु अक्खहु
 तं परिहच्छियं पणवियमत्था
 ए अम्हइं आइय बेण्णि वि जण
 एम भणिवि दीवयसिहु पेसिउ
 जिह हरिसुउ गउ मयणिहेसैं
 जिह वेयालियविज्जइ विलसिउ
 जइ ण वि सिट्ठउं अण्णं केण वि
 तो वि सव्वु सग्भावहु आणिउं
 अम्हहं घरि जायइं दुणिमित्तइं
 पणइणिहरणु जाउं पियणीसहु
 परं किं कुसलु पडीवउं दीसइ

घत्ता—इय जिह विप्पहिं सिट्ठउं
 सुयरिवि सुयहु सय्यणउं

जीउ जंतु णरणाहहु रक्खहु ।
 चंडकंडकोदंडविहत्था ।
 तुहुं मा मरु रामारंजियमण ।
 तें पोयणपुरि वइयरु भासिउ ।
 जिह णिय घरिणि चमरचंचेसैं । 5
 ता पहुजणणिहि वयणु विणीसिउ ।
 जयगुत्तं अमोहजीहेण वि ।
 सपरोक्खु वि पच्चक्खु वि जाणिउं ।
 पडियइं णहयलाउ णक्खत्तइं ।
 जायउं विग्घु किं पि धरणीसहु । 10
 को वि कुसलवत्तिउ आवेसइ ।

तिह तुहुं आर्येउ दिट्ठउं ॥
 देविइ दिण्णु पयाणउं ॥ १८ ॥

19

छत्तछण्णरविकिरणविलासैं
 दिट्ठु पुत्तु आलिंगिउ मायइ

गय तं वणु ससेण्ण आयासैं ।
 भूमिभाउ णं पाउसच्छायइ ।

२ A ण वारिउ. ३ AP जगसारहु. ४ AP मयणु. ५ AP णियसामियणामक्खरु.

18 १ AP परिहच्छिवि. २ A जाम. ३ AP आइउ. ४ A कहाणउं.

17 3 a सा हारहि आश्वासनं देहि. 6 a मइणु मदनः. 10 b मिडहुं युद्धं कर्तुम्.

18 2 a तं परिहच्छिय तां परिपृच्छथ. 4 b तं दीपशिखेन. 5 a मयणि देसैं मृगपृष्ठेन;
 णिय नीता; च मरचंचेसैं चमरचंचापुत्राधीशेन. 10 a पियणीसहु प्रियाः त्रीशा राजानो यस्य. 13 a
 सुयरिवि स्मृत्वा; सयाणउं यानवाहनयुक्तम्; देविइ स्वयंप्रभया.

19 1 b ससेण्ण सैन्येन सह गय गता.

पयहिं णवंतु विवाणि चडाविउ
 पडु रहणेउरु णियउ सहरिसहिं
 कहिउ सो वि सवडंमुहुं णिग्गउ
 पायवडणु घरपाहुणयत्तणु
 मंतिउ मंतु कहिउ मंतीसहिं
 णाम मरीइ वइरिजलसोसहु
 तेण वि णारीरयणु ण दिण्णउं
 घत्ता—आइय दूय सुहिंत्तै
 हरिकुलहरपायारहु

बीयउ सिसु पोयणु पट्टाविउ ।
 अमियतेयरायहु चरपुरिसहिं ।
 मिलियउ णं दिसदंतिहि दिग्गउ । 5
 किउ महल्लपरिवाडिपवत्तणु ।
 अमियतेयसिरिविजयमहीसहिं ।
 पेसिउ दूयउ असणिणिघोसहु ।
 भंडणु भंडखंडणु पडिवण्णउं ।
 जलणजडीसुयपुत्तै ॥ 10
 तहु सिरिविजयकुमारहु ॥ १९ ॥

20

दिण्ण विज्ज वीरियपोरिसखणि
 ओसारियखलखेयरसत्थहं
 भीममहाहवभरधुरजुत्तहं
 बहिणीवइदिण्णाइं लपप्पिणु
 चमरचंचपुरवइहि ससंदणु
 णियसोहाणिज्जियहिमवंतहु
 सहसरस्सिपुत्तेण समेयउ
 तहिं आराहियमृगंसवग्गइ
 णं णिवइहि महिमंडलरिद्धी
 एत्तहिं असाणिघोससिरिविजयहं
 णियसुय असणिमुघोसें पेसिय
 सहसघोस सयघोस सुघोस वि
 जं गय ते पविहंडियमाणा
 घत्ता—णिर्यवि सुताराहारउ
 छाइउ सरवरपंतिहिं

पहरणवारणि बंधविमोयणि ।
 रस्सिसुवेयाइयहं समत्थहं ।
 पंचसयाइं सहायइं पुत्तहं ।
 विज्जादेवयाउ सुमरेप्पिणु ।
 उक्खंधे गउ केसवणंदणु । 5
 अमियतेउ सिंहिरिहि हिरिवंतहु ।
 गउ मरुवेएं मारुयवेयउ ।
 संजयंतपडिमापायग्गइ ।
 विज्ज महाजालिणि तहु सिद्धी ।
 जायउ संगरु सधयहं सगयहं । 10
 जे ते जुज्झिचि दिसिहिं पणासिय ।
 मेहघोस अरिघोस असेस वि ।
 तं मेह्लंतु बाण फणिमाणा ।
 सिरिविजयं दुव्वारउ ॥
 णाइ उवहउ संतिहिं ॥ २० ॥ 15

19 १ P पट्टविउ. २ AP आइए दूए.

20 १ AP परहणं २ A रस्सिसुवेवाइयहं. ३ A ओक्खंधि; P उद्धइं. ४ AP हिरिमंतहु.
 ५ A मरुमग्गे; T मरुवेगे आकाशेन. ६ P °मिग°. ७ A मेह्लंति. ८ AP णिएवि.

३ a विवाणि विमाने; b बीयउ सिसु विजयभद्रः. 5 a सो वि अमिततेजाः अपि. 6 a महल्लपरि-
 वाडिपवत्तणु महत्तराणां वृद्धानां परिपाटिकाप्रवर्तनम् . 8 a मरीइ मरीचिर्नाम. 10 सुहिंत्तै सुहृदत्वेन;
 b जलणजडी सुयपुत्तै अकेर्कतिपुत्रेण. 11 a °कुलहरपायारहु °कुल्लग्रहप्राकारस्य.

20 5 a उक्खंधे अश्वमारुह्य. 7 b मरुवेएं आकाशमार्गेण. 13 a जं यावत्; b तं तावत्.
 14 a णियवि दृष्ट्वा; सुताराहारउ अशनिघोषः.

21

आसुरियहि लच्छिहि सुउ धायउ
 धाराजियखयहुयवहजालें
 रिउ भामरिविज्जामाहण्ये
 ह्य बेण्णि वि चत्तारि समुग्गय
 अट्ट णिहय सोलह संजाया
 बत्तीस वि दोखंडिय जामहिं
 चउसट्टि वि विहलिय सरूवउ
 एम दुवड्डिइ वड्डिउ दुद्धरु
 जलि थलि दसदिसिवहि णहपंगणि
 वेड्डिउ पोयणणाहु खर्गिदहिं

घत्ता— जरफेरवरवभीमइ
 पत्तउ सेण्णसणाहउ

णाइ कयंतें दंडु णिवेइउ ।
 हउ विजपं पइसिवि करवालें ।
 विहिं रूवहिं उत्थरइ सद्धण्ये ।
 ते वि दुहाइय अट्ट समुग्गयें ।
 सोलह तयं बत्तीस समाया । 5
 रिउ चउसट्टि पराइय तामहिं ।
 अट्टावीसउ सउ संभूयउ ।
 हणु भणंतु असिवसुणंदयकरु ।
 दीसइ असणिघोसु समरंगणि ।
 णं विंझइरि महाघणविदहिं । 10

तहिं तेहइ संगामइ ॥
 रहणेउरपुरणाहउ ॥ २१ ॥

22

राउ सयंपहपुत्तु खलत्तें
 तांव अमियतेएण पवुत्तउं
 परकलत्तु किं आणितु गेहहु
 एम भणेवि तेण लहु मुक्की
 पवणुद्धयत्तिंधु सविमाणउ
 जहिं णाहेयहु सीमागिरिवरु
 परणारीहरु भयवसु तट्टउ
 सिरिविजयाइय चोइयगयघड
 माणखंभअवल्लोयणभावे
 केवलणाणसमुज्जलदिट्टिहि

घत्ता— जसधवलियछणयंदहु
 विद्धंसियवम्मीसरु

जाम ण हम्मइ तेहिं अखत्तें ।
 असणिघोस किं कियउं अजुत्तउं ।
 हकारिय भवित्ति णियदेहहु ।
 विज्ज महाजालणि रणि दुक्की ।
 तं पेक्खिवि सहस त्ति पलाणउ । 5
 विजउ णामु जहिं अच्छइ जिणवरु ।
 समवसरणि तहिं सरणु पइट्टउ ।
 अणुमग्गे तहु लग्ग महाभड ।
 मुक्का पत्थिव मच्छरभावे ।
 मउलियकर णवंति परमेट्टिहि । 10

पुच्छंतहु खयरिंदहु ॥
 अक्खइ धम्मु रिसीसरु ॥ २२ ॥

21 १ A समागयं. २ AP ह्य. ३ A जरफेकारवभीमइ. ४ P णाहहु.

22 AP महाजालिणि णहि दुक्की. २ AP सरणि. ३ AP लोयणगावे.

21 2 b धाराजिय धारया जितः; b वि ज एं श्रीविजयं; पइसिवि संग्राममध्ये प्रविश्य.
 8 a दुवड्डिइ द्विवृद्ध्या. 11 जरफेरव वृद्धशृगालः.

22 1 b अखत्तें अन्यायेन. 3 b भवित्ति मरणम्. 5 b पलाणउ नष्टः. 6 a णाहेयहु
 श्रीवृषभनाथस्य. 7 a तट्टउ वस्तः.

23

भणइ भडारउ रोसु ण किज्जइ
 रोसवंतु णरु कह व ण रुच्चइ
 रोसु करइ बहुआवइसंकहु
 रोसु कयंतु व कं णउ तासइ
 जो रोसेण परव्वसु अच्छइ
 माणपमत्तु ण काइं वि मण्णइ
 माणथेद्धु बंधुहिं वि ण भावइ
 मायाभावे जो चिम्मकइ
 णउ वीससइ को वि णिधम्महु
 मायारउ तिरिक्खु उप्पज्जइ
 लोहे जणु चामीयरु संचइ
 खाइ ण देइ धिवइ धणु खोणिहि
 घत्ता—एयहं चउहुं कसायहं
 जो अप्पाणउं रक्खइ

रोसें णरयविवरि णिवडिज्जइ ।
 जइ वि सुवल्लहु तो वि पमुच्चइ ।
 रोसें पुरिसु थाइ णं मक्कहु ।
 अत्थु धम्मु कामु वि णिण्णासइ ।
 तहु मुहकमलु ण लच्छि णियच्छइ । 5
 माणे गुरु देव वि अवगण्णइ ।
 णिरे दुणिरिक्खइं दुक्खइं पावइ ।
 तहु संमुहउ ण सज्जणु दुक्कइ ।
 णिच्चपउंजियमायाकम्महु ।
 लोहे णियज्जणणी वि विरज्जइ । 10
 लोहे अप्पणु अप्पउं वंचइ ।
 लुद्धउ णिवइइ दुग्गयजोणिहि ।
 दावियणरयणिवायहं ॥
 मोक्खसोक्खु सो चक्खइ ॥ २३ ॥

24

मिच्छत्ते जणवउ छाइज्जइ
 मिच्छत्ते विडगुरुपय पुज्जइ
 मयणमत्तमहिलामहुसेवहं
 मिच्छत्तेण जीउ मोहिज्जइ
 मिच्छत्तेण असंजमु वडइ
 पोसइ पंचिंदियइं दुरासइं
 परहणपरकलत्तअणुबंधे
 तहिं अवसरि आसुरियइ लच्छिइ
 अमियतेयसिरिविजयहं ढोइय
 किउ खंतव्वचित्तु णीसल्लउं

हिंसइ सग्गगमंणु पडिवज्जइ ।
 मिच्छत्ते जिणणाहु विवज्जइ ।
 पायहिं पडइ रउइहं देवहं ।
 भवविब्भामि भामिज्जइ छिज्जइ । 5
 जीवहं जीविउ मंडेइ कहुइ ।
 पावइ माणउ विहुरसहासइं ।
 बज्झइ एम जीउ रयबंधे ।
 आणिवि सा सुतार धवलच्छिइ ।
 भायरपइहिं सणेहे जोइय ।
 भव्वेहं खम मंडणउ पहिल्लउं । 10

23 १ AP कह वि. २ A मंकहु. ३ A माणवंतु. ४ AP णरु. ५ AP णिद्धम्महु. ६ P विरइज्जइ.

24 १ AP गवणु. २ A मडुइ; P मंडुइ. ३ P खंतल्लु चित्तु. ४ A सव्वहं. ,

23 5 b ण णियच्छइ नेक्षते. 7 a माणथ डु मानेन स्तब्धः. 12 a खो णि हि भूमौ. 13 b णि वा यहं णिपातानाम्. 14 b चक्खइ आस्वादयति.

24 5 b मंडइ बलात्कारेण. 6 a दुरासइं दुष्टाश्वान्.

तं रिउजणणिहि वयणु समिच्छिउ
घत्ता—दुइमपावखयंकरु
उग्गयसंसयसंकहु

पुणु रहणेउरवइणा पुच्छिउ ।
कहइ णरोहंसुहंकरु ॥
विजय अमियतेयंकहु ॥ २४ ॥

25

जंबूदीवि भरहवरिसंतरि
अचलगामि धरणीजहु बंभणु
तहु इंदग्गिभूइसुय सुहयर
कविलु णामु दासेरु अलक्खिउ
कुलविद्धंसणु जाणित्ति विप्पे
गउ रयणउरहु भल्लउं भाविउं
जंबूघरिणिहि हूई सुंदरि
कुलणिदिउं करंतु गुणवंतइ
घत्ता—णवर धणोहे चत्तउ
दालिहे संतत्तउ

मागहविसइ सुसासणिरंतरि ।
अग्गिलबंभणिउररुहसुंभणु ।
सुयसत्थत्थमहत्थ मणोहर ।
वेयचउक्कु सडंगइं सिक्खिउ ।
दुज्जसभीपं धाडित्ति विप्पे ।
सच्चयदियवरेण परिणाविउ ।
सच्चभौम णामेण कित्तोयरि ।
वरु कुलहीणु वियाणित्ति कंतइ ।

आर्येणिवि सुयवत्तउ ॥
तहिं जि ताउ संपत्तउ ॥ २५ ॥ 10

26

सपराहवभीपण णमंसिउ
तहु पयजुवलु तेण ओलग्गिउं
कुलदूसणरुहणीसासुण्हइ
कहइ जणणु पियवयणाहिं तुट्टउ
कंतु तुहारउ होइ ण दियवरु
तहिं सिरिसेणु राउ णरसिरमणि
बीय अण्णिदियं काइं भणिज्जइ

कविले पुरयणमज्झि पसंसिउ ।
दिण्णउं कंचणु जेत्तिउं मग्गिउं ।
धणु दोइवि आउच्छिउ सुण्हइ ।
महुं घरि दासीसुउ णिक्खिउ ।
एउं भणेपिणु गउ सो णियघरु ।
पढम सीहणादिय तहु पणइणि ।
जाहि रइ वि दासि व्व गणिज्जइ ।

५ A णराह सुहंकरु.

25 १ A दण्णे. २ AP सच्चइ°. ३ P सच्चसामि. ३ AP आयणिय.

26 १ AP एम. २ P अण्णदिय.

11 a वयणु वचनम्. 13 a उग्गयसंसयसंकहु उद्गतसंदेहकीलकस्य; b विजय विजयो जिनः.

25 1 b सुसासं सुधान्यम्. 2 b उररुहसुंभणु स्तनमर्दकः. 4 a दासेरु दासीपुत्रः; अलक्खिउ प्रच्छन्नतया, न ज्ञातः कदा शिक्षितः. 6 b सच्चयं सात्यकनाम्ना. 8 a कुलणिदिउं कुलनिन्दितं विकर्म रजस्वलागमनम्. 9 b सुयवत्तउ पुत्रस्य वार्ताम्. 10 b ताउ तातः.

26 1 a सपराहवभीपण स्वमानभङ्गभीतेन. 3 a कुलेत्यादि विट्कर्मप्रभवो निश्वासः उष्णो यस्य; b सुण्हइ पुत्रभार्यया.

ताहं बिहिं मि कंतिइ सुच्छाया
कुललंछणं धरियमज्जायहु

घत्ता—तेणं कविलु अवगणितु
कक्कसदंडं ताडितु

इंदउविंदसेण सुय जाया ।
जंबूधूयइ साँहिउं रायहु ।

जाणि चंडालु व मणितु ॥
पुरवराउ णिद्धाडितु ॥ २६ ॥

10

27

सच्चंभाम सह सुद्ध हवेण्णु
सदंम अमियगइ णामारिंजय
सिरिसेणं आहारु पयच्छित्तु
चउदहमलपरिमुक्कु अकुच्छित्तु
भायणधरणाइयउ सुधम्मउ
चउहुं वि सुकयवीउ लइ लद्धउं
संमरंगदलवट्टियपरबलु
सिरिमइदेविहि उयरुप्पणी
दुज्जणमणपइसारियसल्लहु
समउं वहुल्लियाइ गयगामिणि
साणंतमइ उविंदहु रत्ती

घत्ता—णंदणवणि णिवसंतहिं
कारणि ताहि अजुत्तउं

थियं उवसमु हियउल्लइ लेप्पिणु ।
आइय भिक्खहि चारण संजय ।
दिज्जंतउ धरिणीहिं समिच्छित्तु ।
रिसिहिं पाणिवत्तेण पडिच्छित्तु ।
सच्चयतणयइ किउ सुहकम्मउ ।
भोयभूमिपरमाउ णिबद्धउं ।
कोसंबीणयरीसु महाबलु ।
तें सिरिकंत णाम सुय दिण्णी ।
सिरिसेणंगरुहहु पुंरिमिल्लहु ।
अवर पवर संपेसिय कामिणि ।
मोहें मयरोहेण व मत्ती ।

दोसु रोसु चिंतंतहिं ॥
बिहिं मि जुज्जु आढत्तउं ॥ २७ ॥

10

28

धाइय पहरणपाणि ससंदण
कह व णिवारहुं बे वि ण सक्किउ
रज्जु सणेहु सदेहु पमाइवि
रायाणीयउ तेण जि मग्गें

सिरिसेणं अवलोइय णंदण ।
णरवइ दूमिउ चित्ति चमक्किउ ।
विसंसेल्लिधगंधु अग्घाइवि ।
दियधीय वि तं तिह णासग्गें ।

३ P साहियउं. ४ A तेण वि खलु.

27 १ AP सच्चभाव. २ AP लएण्णु. ३ A सदणे but records a *p*: सवणि वा.
४ AP अमियगय. ५ AP समरंगण°. ६ AP पुव्विल्लहु.

28 १ १ P °सेल्लेध°. २ A रायाणियउ जि तेण जि.

9 a धरियमज्जायहु पालितमर्यादस्य.

27 1 a सह सती. 5 b सच्चयतणयइ सत्यभामया. 8 a उयरुप्पणी उदरेउत्सन्ना. 9 a
पुरिमिल्लहु ज्येष्ठस्य. 10 a वहुल्लियाइ वध्वा; गयगामिणि गजगामिनी अनन्तमतिः. 11 a मोहें
स्नेहेन प्रेम्णा; मयरोहेण व मदिरासमूहेनेव. 13 कारणि ताहि तस्या अनन्तमत्याः कारणे.

28 2 b दूमिउ दुःखितः. 3 b विसंसेल्लिधगंधु विषकमलगन्धम्. 4 b दियधीय द्विज
दुहिता सत्यभामा; णासग्गें नासाप्रेण.

गरयवेइं महियलि णिवडेप्पिणु
धादइसंडि पुव्वभायंतरि
चत्तारि वि अज्जइं संजायइं
जायउं णिव्भरु पेमरसिल्लउं
हईं मुणिवरदाणेणं णंदिय

घत्ता—जुज्जेवउं दुव्वारहं
अंतरि थिय विज्जाहरु

मउलियणयणइं तेत्थु मरेप्पिणु । 5
उत्तरकुरुहि सुभोयणिरंतरि ।
छहधणुसहसपमाणियकायइं ।
राउ सीहणंदिय मिहुणुल्लउं ।
वंभणि भाँमिणि पुरिसं अणंदिय ।

दोहं मि रायकुमारहं ॥ 10
णाइ गिरिदहं जलहरु ॥ २८ ॥

29

पभणइ जिणकमकमलेंदिंदिरु
किं पुणु पहरणेहिं पिहियक्कहिं
तं णिसुणिवि भणंति ते भायर
अक्खइ खेयैरु दिव्वइ वायइ
मंदरपुव्वासइ सुहवासइ
तहिं रययायलि दाहिणसेढिहि
खयर सुकुंडलि रंभसमणी
मणिकुंडलि हउं तहिं संभूयउ
प्रवरि पुंडरिक्किणि गउ तेत्तहि
पुच्छिउ सो मइं णिययभवावलि
पुक्खरदीवि वरुणसुरसिहरिहि

घत्ता—रूवें णं मयरद्धउ
कणयमाल पीवरथणि

जुज्जेवउं फुल्लहिं वि असुंदरु ।
सत्तिसेल्ललंगलचलचक्कहिं ।
के तुमहइं पडिसेहकयायर ।
धादइसंडु सुरदिसिभायइ ।
खलविरहियपुक्खलवइदेसइ । 5
आइच्चाहणयरि गउ रूढिहि ।
अमियसेण णामें तहु राणी ।
अत्थु व सुकइकंहहि जणणूयउ ।
अमियप्पहु जिणपुंगमु जेत्तहि ।
कहइ भडारउ समयसमियकलि । 10
पुव्वदिसहि हयसोयहि णयरिहि ।

महिवइ तहिं चक्कद्धउ ॥
तहु वल्लह सीमंतिणि ॥ २९ ॥

30

कणयलया सररुहलय णामें
धीयउ वेण्णि ताहि मृगणेत्तउ

णियंकरभल्लि घित्त णं कामें ।
कयलीकंदलकोमलगत्तउ ।

३ A गरडवेय; P गरवेणं. ४ A सुललियणिरंतरि. ५ A जोयउ णिव्भरपेभ्म°. ६ AP राय. ७ A भाविणि. ८ AP पुरिसु.

29 १ A जुज्जेवउ. २ P °सल°. ३ P वेयरु. ४ A °संडइ. ५ A सुकइकहाहे जणियउ.
६ A पवरपुंडरिणिणि; P पवरपुंडरिक्किणि. ७ A समपसमिय°. ८ P कणयद्धउ.

30 १ A णिवकर°. २ A तहो मिग°; P ताहि मिग°.

5 a गरयवेइं विषवेगेण. 0 a पुरिस अ णि दि य अनिन्दिता पुरयो जातः सत्यभामा स्त्री जाता.

29 1 b जुज्जेवउं फुल्लहिं वि असुंदरु पुष्पैरपि युद्धमसुन्दरम्. 2 a पिहियक्कहिं छादित-
सूर्यैः. 3 b पडिसेहकयायर निषेधकृतादराः. 6 b रूढिहि प्रसिध्या. 8 b जणणूयउ जनस्तुतः.
10 b समय° समीचीनो बोधः आगमो वा. 12 b चक्कद्धउ चक्रध्वजः.

30 1 a सररुहलय कमललता.

विज्जुमईदेविहि हयदुम्मइ
अमियसेण कंतियहि णवेप्पिणु
सा गय सग्गहु आराईयहु
सुर जोएवि सुरूवें रंजिय
कालें जंतें सुरलोयहु चुउ
कणयलया जलरुहलय धीयउ
इंदउविंदसेण पंकयमुह
सोक्खु असंखु सुइरु भुंजेप्पिणु
हई कहि मि महाबलकामिणि
घत्ता—जं जिणणाहें सिट्ठुं
हउं आयउ ओसारहुं

तासु जि रायहु सुय पोमावइ ।
कणयमाल सावयवउ लेप्पिणु ।
भोयभारसंपीणिंयजीवहु । 5
पोमावइ हई सुरलंजिय ।
कणयमालकुंडलि हउं हुउ ।
वेणि वि मरिवि सुकम्मविणीयउ ।
जाया रयणउराहिवतणुरुह ।
सुरलंजिय सग्गाउ चर्पेप्पिणु । 10
दिण्ण विवाहि तुज्जु गयगामिणि ।
तं पच्चक्खु वि दिट्ठुं ॥
दोहिं मि जुज्जु णिवारहुं ॥ ३० ॥

31

कासु वि को वि ण किं किर जुज्जुहु
हउं मायरि चिरु तुम्हइं तणयउ
देवत्तणु माणिवि णरजाया
तं णिसुणिवि कुमौर हयछम्महु
गय मोक्खहु णिक्खवियरओहहु
जो सिरिसेणु पुणु वि जो कुरुणरु
सिरिपहु सुरहरि णं ससहरपह
कुरुमणुयत्तणु माणिवि बहुंमहु
सुरु हई पुणुं वंभणि वयसह
घत्ता—जो सिरिसेणु महाइउ
सो एवहिं तुहुं जायउ

भवसंसरणु ण किं पि वि बुज्जुहु ।
होंतियाउ परिपालियपणयउ ।
किं पहरह उग्गामियघाया ।
तउ चरेवि पयमूलि सुधम्महु । 5
अट्टमहागुणविरइयसोहहु ।
पढमकप्पि सो जाउ वरामरु ।
हुय हरिणंदियज्ज विज्जुपह ।
देवि अणिंदिय दिवि विमलप्पहु ।
सच्चमांम तहु कंत सासिप्पह ।
कुरुणरु सुरु सग्गाइउ ॥ 10
अमियतेउ खगरायउ ॥ ३१ ॥

३ AP विज्जुमई. ४ AP ०जीयहु. ५ AP सरूवें. ६ A चुएप्पिणु.

31 १ A ०पालियविणयउ. २ AP माणवि. ३ A कुमारयछम्महु. ४ P विजापह.
५ A बहुसुहु. ६ AP वंभणि पुणु. ७ सच्चभाव.

5 a आ राईयहु सौधर्मस्वर्गम्. 8 a जलरुहलय कमललता. 11 a महाबलकामिणि वेश्या
अनन्तमतिः. 13 a ओ सारहुं निषेद्धम्.

31 3 a माणि वि भुक्त्वा. 4 a हयछम्महु हतकपटस्य. 6 a कुरुणरु आर्यः. 8 a बहु-
सुहु बहुतेजः मान्यता वा 9 a वयसह व्रतं सहमाना; b तहु विमलप्रभवस्य. 10 a महाइउ महर्दिकः.

32

जा सा सइ पंचाणणणंदिय
 पुणु ह्रई सिरिविजउ वियाणहि
 जा सा धुवु सुतार सस तेरी
 कविलु सुइरु हिंडिवि संसारइ
 पविउलअइरावयणइतीरइ
 चवलवेयतवसिणियइ जणियउ
 तेण तवंतें कामविलुद्धउं
 जायउ सुउ आसुरियहि तरुणिहि
 पिउं णियविज्जाविहवें मोहिदि
 पभणइ तिजगणाहु ण रुसिज्जइ
 णिसुणि णिसुणि किं बहुयइ वत्तइ
 यत्ता—धुव पंचमु चक्केसरु
 भरहि राय तुहुं होसहि

सा जोइप्पह घरिणि अण्णंदिय ।
 सोत्तिणि सच्चंभाम अहिणाणहि ।
 सुरणरविसहरहिययवियारी ।
 भूर्ये रमणकाणणि भयगारइ ।
 कोसियतावसभुत्तसरीरइ । 5
 सो मयसिं गु णाम सुउ भणियउ ।
 खयरु णिणवि णियाणु णिवद्धउं ।
 असणिघोसु रत्तउ चिरघरणिहि ।
 णिय कंचणविमाणि आरोहिदि ।
 अमियतेय जीवहं खम किज्जइ । 10
 णवमइ जम्मंतरि संपत्तइ ।
 इह सोलहमु जिणेसरु ॥
 पुप्फदंतसिरि लेसहि ॥ ३२ ॥

इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाभद्वभरहाणुमणिय
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे संतिणाहभवावलिवणण
 णाम सद्धिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६० ॥

32 १ AP सच्चभाव. २ P ०रमणि काणणि. ३ P आसुरिहि.. ४ AP चिरु घरिणिहि.
 ५ A थिउ णिय०; P पिउ मय०. ६ P वुत्तइ. ७ A धुव. ८ A राउ.

32 1 a पंचाणणणंदिय सिंहनन्दिता; a जो इप्पह विद्युत्प्रभा. 2 a सोत्तिणि ब्राह्मणी;
 अहिणाणहि अभिजानीहि. 3 a सस तेरी तव अमिततेजसः स्वसा. 8 a चिरघरिणिहि सत्यभामा-
 चरी तस्याम्. 9 a पिउ श्रीविजयः. 13 b पुप्फदंतसिरि पुष्पवत्कान्ता श्रीः मोक्षलक्ष्मीः; लेसहि
 त्वं गृह्णासि ग्रहीष्यसि.

सो असणिघोसु आसुरियसिरि देवि सुतार सयंपह वि ॥
पंव्वइयइं णिसुंणिवि जिणवयणु जिणु पणवेण्णिणु तिजगरवि ॥ ध्रुवकं ॥

1

सिरिविजयकं	णिग्गयसकं ।	
मारुयवेपं	अपमियतेपं ।	
वउ उज्जालिउ	पोसहु पालिउ ।	5
घरु वेण्णि वि जण	गय ते सज्जण ।	
सुरकरिकरभुउ	रविकितीसुउ ।	
णिरु णिरवज्जउ	साहइ विज्जउ ।	
उत्तमसत्ती	चलपण्णत्ती ।	
णहयलगामिणि	इच्छियरुविणि ।	10
जलसिहिथंभंणि	बंधंणि रंभणि ।	
अंधीकरणी	पहरावरणी ।	
विस्सपवेसिणि	अवि आवेसिणि ।	
अप्पडिगामिणि	विविहपलाविणि ।	
पासविमोयणि	गहणीरोयणि ।	15
बल्लंणिक्खेवणि	चंडपहावणि ।	
पहराणि मोहाणि	जंभणि पाडणि ।	
अवर पहावइ	सइ पविरलगइ ।	
भीमावत्तणि	पवरपवत्तणि ।	
पुणु लहुकारिणि	भूमिवियारणि ।	20
रोहिणि मणजव	देवि महाजव ।	
चंडाणिंलजव	णिरु चंचलजव ।	
बहुत्तुप्पायणि	सत्तुणिवारिणि ।	

1 १ AP पावइयइं. २ P णिसुणवि. ३ AP °धंभिणि. ४ AP °णिरंभणि. ५ A पहरा-
धरणी. ६ K records a p: चल इति पाठे चपला. ७ AP °पहाविणि. ८ A भंडणि पाडणि; P बंधणि
पाडणि. ९ AP °वियारिणि. १० A चंडालिनिजव.

1 4 b अपमियतेपं अप्रमिततेजसा. 9 b चलपण्णत्ती चलाचपला प्रज्ञप्तिः. 11 a °सि हि°
अग्निः. 12 b पहरावरणी प्रहारनिषेधिका. 13 a विस्सपवेसिणि त्रैलोक्यप्रवेशिका. 14 a अप्पडि-
गामिणि जेतुमशक्या. 15 b गहणीरोयणि भूतादिग्रहनिषेधिका. 16 b चंडपहावणि प्रचण्डप्रभा.
18 b पविरलगइ प्रगतविरलगतः शीघ्रगामिनी. 22 a चंडाणिलजव वायुवेगा. 23 a बहुत्तुप्पा-
यणि अन्धकारोत्पादिका.

अक्षरसंकुल	खलगलसंखल ।	
मायाबहुई	पणलहुई ।	25
हिमवेयाली	सिहिवेयाली ।	
मोक्कलवाली	चलचंडाली ।	
अलिसामंगी	सिरिमायंगी ।	
इय वरविज्जहिं	णहयरपुज्जहिं ।	
उहसेदीसरु	हुउ परमेसरु ।	30
अण्णहि वासरि	तेणं सणेसरि ।	
दमवरणामहु	णिज्जियकामहु ।	
पुण्णप्पायणु	दिण्णउ भोयणु ।	

घत्ता—ते चारणादिणं भोयणेण इहं रत्ति जि संभविउ फलु ॥
सुरवु दुंदुहिसरु वसुवरिसु मेहहिं बुट्टउ सुरहिजलु ॥ १ ॥ 35

2

अमरगुरुदेवगुरु-	णामाण सावसरु ।	
हयमोहवासम्मि	साहण पासम्मि ।	
तहिं अभियतेण	सिरिविजयराएण ।	
णियतायजम्माइं	वणहरणकम्माइं ।	5
सिलखंभदलणाइं	दाइज्जमलणाइं ।	
तवचरणकरणाइं	सणियाणमरणाइं ।	
सुरलोयवासाइं	णरभवविलासाइं ।	
पडिवक्खमहणाइं	हरिगीवणिहणाइं ।	
सिरिरमणिरमणाइं	कयणरयगमणाइं ।	
जसकंतिफुरणाइं	असुरारिचरियाइं ।	10
रिसिणाहकहियाइं	सोऊण गहियाइं ।	

११ A मायापहुई; K मायवहुई but corrects it to माया°. १२ P पणलहुई. १३ A तेण परेसरि. १४ A इह रत्ति जि. १५ A सुहु जलु.

2 १ A दिव्वगुरु. २ A णामेण. ३ P adds after this: जसकत्तिपुरियाइ, असुरारिचरियाइ, which in our text is line 10 below. ४ A जसकत्तिफुरियाइं.

25 a मायावहुई मायावह्नी; b पणलहुई पणलह्वी. 30 a उहसेदीसरु उभयश्रेणिराजा. 31 b सणेसरि आदित्यसहिते. 34 इह रत्ति जि इहेव जन्मनि.

2 1 b सावसरु स्वावसरं यथा भवति तथा. 4 b वणहरणकम्माइं विशाखनन्दिभवे वनहरणादिकथानकानि. 5 b दाइज्जमलणाइं पितृव्यपुत्रमानभङ्गादिकम्. 8 b हरिगीव° अश्वप्रीवः. 11 b सोऊण श्रुत्वा.

दोहिं पि सुवयाइं	अमयाइं सुदंयाइं ।	
सिरिविजउ तण्हंतु	मणि महइ कण्हंतु ।	
पुणु कालमाणेण	परिवट्टमाणेण ।	
विउलमइ विमलमइ	णंमिऊण परमजइ ।	15
णाऊण मासाउ	मोत्तुण मासाउ ।	
रचितेय सिरियत्त	राईवदलेत्त ।	
णियणियतणुब्भूय	कंदप्पसमरूय ।	
दोण्हं पि ण्हविऊण	कुलमग्गि थविऊण ।	
चंदणवणंतम्मि	णंदणमुणी जम्मि ।	20
णिम्मुक्कम्मम्मि	पईसरिवि लहु तम्मि ।	

घत्ता—अहिसिंचिवि पुज्जिवि परमजिणु वंदिवि भत्तिसमग्घविउं ॥
आहारु सरीरु वि परिहरिवि विहिं मि परत्तु जि चिंतविउं ॥ २ ॥

3

जं णियपरपेसणसुणिरवेक्खु	जं णिण्णासियभवबंधुक्खु ।	
जं घोरसरायकसायसमणु	तं कयउं तेहिं पाओवमरणु ।	
तेरहमइ कप्पि मणोहिरामि	सुरणंदिय णंदावत्तधामि ।	
हुउ अमियतेउ रविचूलु देउ	सत्थिउ णामे अवरु वि णिकेउ ।	
मणिचूलु णामु सिरिविजउ तेत्थु	सुरवरु जायउ लक्खणपसत्थु ।	5
को वण्णइ ताहं महापहाउ	ते बे वि वीससायरसमाउ ।	
कालेण जंवुदीवंतरालि	इह पुव्वविदेहि रमाविसालि ।	
वच्छावइदेसि पहायरीहि	णयरिहि वणकीलियकिणरीहि ।	
णीसेसकलालउ मणुययंदु	णामेण थिमियसायरु णरिंदु ।	

५ A सदयाइं: A adds after this: भवभावखमियाइं; K also writes it but scores it off. ६ A परिवट्टमाणेण; P परिवट्टमाणेण. ७ AP णविऊण. ८ AP दोहि पि. ९ A णविऊण. १० पइसरवि. ११ P समुग्घविउ.

3 १ A पावोगमरणु; P पाओवगमरणु. २ A पहावरीहि. ३ A अमियसायरु; P तिमियसायरु.

13 a तण्हंतु आकांक्षार्तः; b कण्हंतु कृष्णत्वम्; 16 a मा सा उ मासमात्रजीवितम्; b मा सा उ लक्ष्म्या आस्वादम्. 17 a रचितेय सिरिदत्त अमिततेजसः पुत्रो रचितेजाः, श्रीविजयस्य पुत्रः श्रीदत्तः. 22 भत्तिसमग्घविउं भक्त्या समर्पितं सुप्रापम्.

3 1 a सुणिरवेक्खु सुनिरपेक्षम् (पादपोषणमनम्). 3 b णंदावत्तधामि नन्द्यावर्तविमाने. 4 b सत्थिउ स्वस्तिकं नाम विमानम्. 6 a महापहाउ महाप्रभावः. 8 a पहायरीहि प्रभाकरीनगर्याम्.

तद्दु देविहि देउ वसुंधरीहि
आवेप्पिणु णंदावत्तणाहु

घत्ता—मणिचूलु वि सत्थियसुरंहरहु णिवडिवि हुउ अणुमइतणउ ।
सो सूहुउ सोम्मु सुल्लक्खणउ वण्णे जियणीलंजणउ ॥ ३ ॥

4

परदुज्जउ केसउ मणि गणेवि
पढमहु विरएप्पिणु पट्टबंधु
सिंहांसणु लत्तइं परिहरेवि
अरहंतहु अविचिंतियपहासु
अवलोइवि कत्थइ णायराउ
पुरि सुहुं वसंति ते वे वि भाइ
णच्चंति ताउ ते तहिं णियंति
आयउ णारउ दिग्गयजसेहिं

घत्ता—मणि रोसु हुयासणु पज्जलिउ सहहुं ण सक्किउ च्चलियगहि ॥
सो जंतु ण केण वि दिट्ठु तहिं पवणु चडुलु उल्ललिउ णहि ॥ ४ ॥ 10

5

गउ रूसिवि सिवमंदिरपुरासु
वज्जरिउ तेण रयणाइं कासु
वव्वरिच्चिलाइणामालियाउ
पहयरिपुरि अघराइयहु गोहि
बेणिण वि थणभारं भग्गियाउ
पट्टवहि मंति आणवहि तुरिउं
अवलोइय मंतिमहंत संत

दामियारिहि विज्जाहराणेवासु ।
पइं मेल्लिवि को महियलि महीसु ।
णच्चणिउ दाणिण वरवालियाउ ।
णं विज्जुलियउ अच्छंति मेहि ।
लइ णरवइ तुज्जु जि जोग्गियाउ । 5
राएण वि तं णियचित्ति धरिउं ।
सहसा संपेसिय बुद्धिवंत ।

४ A मणिचूलि. ५ A °सुरवरहु णिवडिवि ताहि जि हुउ तणउ. ६ A सलक्खणउ.

4 १ AP सीहासणु. २ A चलियगहि.

5 १ AP जोगियाउ. २ AP आलोइय. ३ A संतमहत.

12 अणुमइतणउ अनुमतीराज्ञीपुत्रः 13 जियणीलंजणउ जितकज्जलकृष्णवर्णः.

4 2 a पढमहु अपराजितस्य. 1 a अविचिंतियपहासु अत्यद्भुतमाहात्म्यस्य. 5 b सिरित
तण्हइ श्रीतृष्णया. 6 b णडि नर्तकी. 9 सहहुं सोढुम्; चलियगहि गच्छद्ग्रहे नभसि. 10 चडुल
चपलः.

5 1 b °णिवासु नृपस्य. 3 b °वालियाउ बालिके नवयौवनवयौ. 6 a आणवहि आनय.
7 a संत भिद्रांसः.

गय ते वि पुरिहि पहायरीहि जे^१ वल्लह तणय वसुंधरीहि ।
 लइ तेहि ताहं उवइट्टु कञ्जु जइ इच्छह संपयविउल्लु रञ्जु ।
 तो णियणडिजुयलउं देहु ताम दमियारिदेउ रूसइ ण जाम । 10.
 ता पोसहणियमालंकिएण जिणपायपोमसेवापिएण ।

घत्ता — जिणभेवणथिएण णराहिविण अवराइण समंतियणु ॥
 आउच्छिउ दिज्जउ तियजुयलु किं किज्जउ सह तेण रणु ॥ ५ ॥

6

तं णिसुणिवि मंति भणंति एम्ब खयराहिउ दुज्जउ समरि देव ।
 णारीदाणेण वे होइ मलिणु तं णिसुणिवि मउंलियणयणवयणु ।
 थिउ चिंताउरु णरणाहु जाम चिरंभवविज्जउ पत्ताउ ताम ।
 सव्वउ पण्णत्तिपहइयाउ रिउवहु चवंति वसिहइयाँउ ।
 वयणेण तेण संतुट्टु बे वि भायर णियमंतिहि रञ्जु देवि^१ । 5
 गय सिवमंदिरु वित्थारएण कवडें णडिवेसायारएण ।
 दरिसिउ रायहु पडिहारएण जं संजुत्तउं सिंगारएण ।
 दूएण कहिउ तं एउ राय को सहइ तुहारा विसमघाय ।
 अवराइएण लइ दिणु तुज्जु कामिणिजुयलुल्लउं खीणमज्जु ।

घत्ता — ता कडयमउडमणिकुंडलहिं कंचीदामहिं भूसियउ ॥ 10
 दमियारें मायामाणिणु सुइसुमहुरु संभासियउ ॥ ६ ॥

7

करणंगहारबहुरसविसट्टु वीयइ दिणि अवलोएवि णट्टु ।
 वीणाञ्जुणि घणधण मज्झखाम अदुईय धीय कणयसिरिणाम ।

४ A जे पियसुय वसुहवसुंधरीहि; P जे पियसुहवसहि वसुंधरीहि. ५ AP^० भवणि थिएण. ६ P तियजमलु.

6 १ AP वि. २ AP मउलियवयणणलिणु. ३ AP चिरुभव^० ४ AP add after this: जंपति णवंति सदूइयाउ, चिरु सामिहि दासत्तणु गयाउ, को पहणहु को आणहु धरेवि. ५ AP add after this: परिमिय (P परमिय) जणेहि णीसरिय बे वि. ६ AP दूयएण.

7 १ A तहिं आय धीय.

8 b जे बलकेशवौ; वसुंधरी हि अपराजितमाता वसुंधरी तस्याः. 9 b संपय विउल्लु संपदा विपुल्लु.

6 1 b खयराहिउ दमितारिः; देव हे अपराजितराजन्. 2 a मलिणु भग्नमानः, अस्मद्विग्रहे कृतलज्जो वा. 4 b रिउवहु शत्रुवधम्. 11 सुइसुमहुरु कर्मभुरम्.

7 1 a करण^० अष्टोत्तरं शतं हस्तनर्तनं करणमुच्यते; ^०अंगहार^० अङ्गविक्षेपः. 2 b अदुईय अद्वितीया.

अप्यिय तापं मायाविणीहिं
णञ्चंतिहि तंहि पुणु कामवेसु
कण्णाइ भणिउं को सो अणिंदु
कित्तिमरूवाजीवाइ वुत्तु
परमेसरु पहयरिपुरिणिवासु
उवमिज्जइ सो भुवणयलि कासु
सा भणइ मोरकेक्कारवाइ
दूसहविरहग्गिगुलकभीउ

घत्ता — ता कवडणडित्तणु अवहरिवि थिउ हरि पायडु तणु करिवि ॥
जोयंति तरुणि णं सिसुहरिणि विद्धी मयणं हुंकरिवि ॥ ७ ॥

णाडउं सिक्खाविय भाविणीहिं ।
गाइउ अणंतवीरिउ णरेसु ।
किं किंणरु किं सुंरु किं फणिंदु । 5
सो कुमरु थिमियसायरहु पुत्तु ।
अवराइउ भायरु होइ जासु ।
ता कण्णहि लग्गउ कामपासु ।
तहु दंसणु लब्भइ केर्म माइ ।
दक्खालहि जाम ण जाइ जीउ । 10

8

मणि खुत्तु कुमारिहि कामबाणु
णिय सुंदरि तायडु कहिय वत्त
पेसिय मंडलिय अणयभेय
ते जित्त घित्त रणराइएण
सयमेव पत्तु ता चावपाणि
किर बेण्णि वि सर संधंति जाव
जुज्झिय बेण्णि वि बहुपहरणेहिं
पच्छइ पुणु कित्तिहरहु सुएण
तं लेप्पिणु हरिणा तहु जि दिण्णु
रिउ मारिवि किर च्छंति जाम

घत्ता — ता पेक्खंतहिं सयलउ दिसउ समवसरणु अवलोइउं ॥
हरिबलहिं विहि मि विभिंयवसहिं णियविज्जामुहुं जोइउं ॥ ८ ॥

आरोहिवि धयचंचलु विमाणु ।
तेण वि पारंभिय समरजत्त ।
सुर विज्जाहर चंदक्कतेय ।
हंलिणा बलिणा अवराइएण ।
हणु हणु भणंतु अहिमाणि दाणि । 5
अंतरि पइट्टु दणुयारि ताव ।
ते केसव पडिकेसव घणेहिं ।
मुक्कउ रहंगु णिट्टुभुएण ।
विथलंतरुहिरु वच्छयलु भिण्णु ।
पयमेत्तु णं चलइ विमाणु ताम । 10

२ AP पुणु तहि. ३ A णरु. ४ तिमिय°. ५ AP कण्हइ. ६ P किं ण माइ.

8 १ AP विवाणु. २ AP हरिणा. ३ A अहिमाणदाणि; P अहिमाणखाणि. ४ A णिमांत-
रुहिरु. ५ AP पयमेत्तु विवाणु ण चलइ ताम. ६ AP विभय°.

4 a काम वे सु कन्दर्पसदृशः 6 a कि त्ति मरूवा जी वा इ कृत्रिमवेश्यया. 10 a °मुलक्क° ज्वाला.
11 कवडणडित्तणु अवहरिवि कपटनटीत्वमपहृत्य.

8 4 a घित्त क्षिताः; रणराइएण रणशोभिना. 6 b दणुयारि कृष्णः. 9 b विथलं-
रुहिरु विगलद्दधिरम्.

9

सा भणइ महापहु विजयकंखु
तहु तणउ तणउ कित्तिहरु राउ
संतियरहु सीसु मुएवि राउ
अच्छइ भो केवलि जाहुं एहु
ता सव्वइं भव्वइं तहिं गयाइं
लायणवण्णणिज्जियसिरीइ
भणु देवंदव णियजणणमरणु
तं सुणिवि केहइ समसत्तुमित्तु

घत्ता - इह दीवि भरहि संखउरवरि वणि देविलु चक्कलयणिय ॥

बंधुसिरि घरिणि गुणगणणिलय सुय सिरिदत्त ताइ जणिय ॥९॥ 10

होंतउ सिवमंदिरि कणयपुंखु ।
एयहु दमियारिहि होइ ताउ ।
थिउ वरिसमेत्तु परिमुक्ककाउ ।
भत्तिइ वंदहुं वोसट्टेदेहु ।
वंदेप्पिणु परमण्यपयाइं । 5
आउच्छिउ चामीयरसिरीइ ।
मइं दिट्टुउ किं सुहिसोयकरणु ।
भुवणत्तयणवराईवमित्तु ।

10

पुणु कुंठिं पंगु अण्णेक्क दीण
अण्णेक्क बहिर णउ सुणइ वाय
अण्णेक्क एक्कलोयणिय जाय
लहुबहिणिउ करुणं तोसियाउ
वणि संखमहीहरि सीलवाहु
पालिय अहिंस वयणेण तासु
दिण्णउं सुव्वयखंतियहि दाणु
सम्मत्ताभावे कयउ बालि
सोहम्मसग्गि सामण्णदेवि
हई दमियारिहि तणिय पुत्ति

घत्ता—तं वयणीवमणविणिंदाणहु फलु पइं सुइ अणुंहुंजियउं ॥

हियउउं जणणहु राणि वडिउ दिट्टुउं रुहिरं मंडियउं ॥ १० ॥

णिल्लक्खण हई हत्थर्हाण ।
खुज्जी अण्णेक्क विमुक्कजाय ।
पिउ मुउ कालं गय मरिवि माय ।
छे वि एयउ पइं घरि पोसियाउ । 5
अवल्लोइउ सव्वजसंकु साहु ।
अण्णेक्कु धम्मचक्कोववासु ।
आहारवमणि विदिगिंछंटाणु ।
मोहेण पडइ जणु जम्मजालि ।
होइवि मुय माणुसदेहु लेवि ।
जं दिट्ठी पिउखयदुहपवित्ति । 10

9 १ AP दमियारिहि. २ AP केवलि भो. ३ AP भणइ. ४ A भरह.

10 १ A कुंठि; P कुट्टि. २ AP सच्छवि. ३ A मच्चजसंक°. ४ K धम्म. ५ AP विजि-
गिंछ°. ६ A तं वहणीव°; P त वहणीव°. ७ AP अणुंहुंजियउं. ८ AP रंजियउं.

9 1 a सा भणइ विद्या कथयति; विजयकंखु दिग्विजयवाञ्छकः. 2 a तणउ संबन्धी;
तणउ पुत्रः. 4 b वोसट्टेदेहु कायोत्सर्गयुक्तः. 8 b °णवराईवमित्तु °नवीनपद्मस्य सूर्य इव. 9 वणि
वणिक्रु; चक्कल° विस्नीर्णो. 10 सिरिदत्त श्रीदत्ता.

10 3 a एकलोयणिय काणा. 4 b पइं त्वया श्रीदत्ताचर्यो. 6 b धम्मचक्कोववासु अरा-
णामष्टोत्तरशतेन धर्मचक्रं भवति । तत्र एकोपवामेन आरात्रयं लभ्यते इति पट्टत्रिशदुपवासाः । तुम्बस्य चैक
उपवासः । आदाववसाने च षष्ठः । एवमशीतिदिवसैः समाप्यते । किंविकल्पाः किमेदा अरतुम्बकोपवासाः
क्रियन्ते इति चेदुच्यते । दर्शनस्याष्टौ । ज्ञानस्याष्टौ । चारित्रस्य प्रवचनमात्वापेक्षयाष्टौ । तपसो द्वादशोप-
वासाः । इति पट्टत्रिंशत् । अरात्रिभोजनस्य चैकः उपवासः. 7 a सुव्वयखंतिहि मुत्रतार्यायाः. 9 वयणी-
वमणविणिंदाणहु व्रतिनी आर्या तस्या वमननिन्दनस्य फलं तत् .

11

तं णिसुणिवि हरि बल णियघरासु
 गोविंदतणउ कइकामधेणु
 रिउसुय तं तहु पइसहुं ण देति
 कंचणसिरियहि संरंभगाढ
 आवेण्णिणु चवलाउहकरेहिं
 सोयग्गि दहु सरीररुक्खु
 बलकेसव पत्थिवि गय कुमारि
 सुप्पहहि पासि थिय संजमेण
 सोहम्मि अमरु हई मरेवि
 खग माणव दाणव जिणिवि सैमरि

गय कण्ण लेवि पहयरिपुरासु ।
 सिवमंदिरु गयउ अणंतसेणु ।
 करवालहिं सूलहिं उत्थरंति ।
 भायर सुघोस वर विज्जदाढ ।
 ते वे वि णिहय हरिहलहरेहिं । 5
 असहंति संबंधवपलयदुक्खु ।
 जिणु णविवि सयंपहु णाणधारि ।
 गणणिहि संतिहि कहिपं कमेण ।
 एत्तहि महि चक्खं वसि करेवि ।
 णारायण सीरि पइइ णयरि । 10

घत्ता—बलएवें विजयासुंदरिहि हई सुय णामें सुमइ ॥

कंकलिपल्लवारत्तकर पाडलपिल्लयमंदगइ ॥ ११ ॥

12

णियमियदुद्धममणवारणासु
 संपुण्णु अण्णु दिण्णउं समिद्धं
 दिट्ठी पिउणा सुय दिण्णदाण
 सांणहियसयंवरमंडवंति
 जोवइ वरु जा किर रहवरत्थ
 हलि दिल्लिदिलिए ण भरहि काइं
 जा पुव्वमेव ण लहइ णिजंमु
 सुणि बिहिं मि भवंतरु कहमि माइ
 भरहे णंदउरइ णं सुरिंदु
 तहु अत्थि अणंतमइ त्ति भज्ज
 धणासिरि अणंतसिरि तहि सुयाउ

घरु आयउ दमवरचारणासु ।
 पंचच्छेरउ पत्ती पसिद्धं ।
 णवजोव्वण रूवें सोहमाण ।
 देसंतरायणररायकंति ।
 तावच्छर चवइ वरंवरत्थ । 5
 पइं मइं मि सग्गि भणियाइं जाइं ।
 सा इयरहि अक्खइ परमधम्मु ।
 पुक्खरवरद्धपुव्विल्लभाइ ।
 णामेण अमियविक्कमु णरिंदु ।
 वरकइविज्जा इव जणमणोज्ज । 10
 हउं तुहुं वेण्णि वि सुललियभुयाउ ।

घत्ता—वाणि सिद्धमहागिरि गंपि हलि णंदणमुणिवरपयजुयलु ॥

वंदेण्णिणु वैंउ उववासतउ चिण्णउं दुच्चरु गलियमलु ॥ १२ ॥

11 १ AP पहयरपुरासु, २ AP दाणव माणव, ३ AP सवरि, ४ AP णाराइण.

12 १ AP संपक्क, २ A समिद्ध, ३ A सिद्ध, ४ A सरहि, ५ A नृजम्भु, ६ P णंदउरिहि.
 ७ AP वउ.

11 3 a रिउसुय दमितारिपुत्रौ; b उत्थरंति संमुखमागच्छन्ति. 4 a संरंभगाढ संरंभेण
 क्रोधेन गाढौ दृढौ. 6 a दहु दग्धा. 7 a पत्थिवि प्रार्थनां कृत्वा. 12 पा ड ल पि ल्ल यं बालहंसः.

12 5 b वरंवरत्थ विमलाकाशस्था. 6 a दि ल्लि दि ल्लि ए हे वात्ते; भरहि स्सरसि. 7 a
 णि ज म्भु मनुष्यजन्म.

13

वज्जंगउ णामें ससहराहु
कंताइ कुलिसमालिणिइ सहिउ
गउ णियपुरि णियपणइणि थवेवि
वेणिण वि जणीउ संचालियाउ
आयासि जाम धावइ तुरंतु
भत्तारचित्तगइ संभरंतु
णिक्करुणें दइवुंप्पेल्लियाउ
परिहरियभीमवणयरभयाउ

तहिं आयउ कत्थइ तितउरणाहु ।
अम्हइं णियंतु मारेण महिउ ।
कामाउरु पडियागउ वलेवि ।
णं हंसें कुवलयमालियाउ ।
ता दिट्टुउ तेण कलत्तु पंतु । 5
ईसाकसायवसु विप्फुरंतु ।
भीपण वेणुवणि घल्लियाउ ।
तहिं वेणिण वि संणासें मुयाउ ।

घत्ता—णउ कंदु ण मूलु ण फलु ण दलु अहिलसियउ णउ किं पि वणि ॥

जोईसरु सासयसिद्धियरु परमजिणेसरु धरिवि मणि ॥ १३ ॥ 10

14

हउं णवमी आहंडलहु देवि
णामें रइ पवर कुबेरणारि
मंदरयलि दिट्टुउ चरियतिक्वु
पुच्छिउ सिद्धत्तणु कम्मि कालि
चोत्थइ णित्थरह भवद्विणीरु
आउच्छिवि हरि बल बे वि ताय
णिवकुमरिहिं सहुं सत्तहिं सएहिं
पयारहमइ दिवि सुहणिहाणि
केसवु महि भुंजिवि कम्मणडिउ
सुउ रज्जि थवेवि अणंतसेणु
तउ चरिवि सीरि विहडियकसाउ

हई तुहु माणुसतणु मुपवि ।
णंदीसरजत्तहि दुक्खहारि ।
दिहिसेणु णाम पणवेवि भिक्खु ।
होसइ रिसि भणइ भवंतरालि ।
तं सुणिवि कण्ण विहुणिवि सरीरु । 5
वंदिवि सुव्वयसंजइहि पाय ।
पावज्ज लइय भूसियवएहिं ।
सुरवरु हई प्राणावसाणि ।
रयणप्पहवसुहाविवरि पडिउ ।
जसहरैरुचरणंबुरुहि लीणु । 10
सोलहमइ सगि सुरिंदु जाउ ।

घत्ता—पिउ जायउ जो उरयाहिवइ तासु पासि दंसणैरयणु ॥

पावेप्पिणु णरयहु णीसरिउ सो अणंतवीरियउ पुणु ॥ १४ ॥

13 १ A सहसवाहु. २ P °मालिणए. ३ AP दइउ पेल्लियाउ.

14 १ A नृवकुमरिहि; P णिवकुअरिहिं. २ AP पाणावसाणि. ३ P जसहरचरणंबुरुहे णिलीणु. ४ AP दंसणु रयणु. ५ P °वीरिउ.

13 1 a ससहराहु शशधराभः चन्द्रप्रभः. 2 b णियंतु अवलोकयन्. 7 a दइवुप्पेल्लियाउ कर्मप्रेरिते द्वे; b वेणुवणि वंशवने.

14 1 a णवमी नवमीनाम्नी. 2 a कुबेरणारि रातिनाम्नी कुबेरभार्या. 3 a चरियतिक्वु उग्रचारित्रः. 5 a णित्थरह भवद्विणीरु संसाराब्धि तरिष्यथ. 12 पिउ स्तिमितसागरः; उरयाहिवइ धरणेन्द्रः.

15

भरहम्मि एत्थु विजयाचलिदि
 णहवल्लहपुरि घणबाहु राउ
 घणवण्णउ जायउ ताहं पुत्तु
 सो सयलखयरखोणीवईसु
 पण्णत्तिविज्ज संसाहमाणु
 सम्मत्तु लएप्पिणु तिमिरणासु
 अण्णहिं दिणि गउ पंदणगिरिंदु
 हयकंठभाइ णामें सुकंठु
 जायउ भीमासुरु सरिवि वेरु
 उवसग्गहु ण चलइ किं पि जाम
 रिसि साहिवि आराहण अमंदु
 इह दीवंतरि सुरदिसिविदेहि

घत्ता — पुरि रयणसंचि मणिवेंचइइ थिरु आउंचियारिपसरु ॥
 राणउ खेमंकरु दीहकरु धीमहंतु उद्धरियधरु ॥ १५ ॥

उत्तरसेदिहि धवलहरुंदि ।
 घणमालिणिवरकंतासहाउ ।
 घणणाहु णाम णवणल्लिणणेत्तु ।
 मंदरणंदणवणि णमियसीसु ।
 अञ्चुयणाहें बोहिउ सणौणु । 5
 णिकखंतु सुरामरगुरुहि पासु ।
 थिउ पडिमाजोपं मुणिवरिंदु ।
 संसारु भमिवि दुक्खवाहिदहु ।
 आहत्तु तेण मुणि मेरुधीरु ।
 सइं लज्जिउ गउ रिउ गयणु ताम । 10
 अञ्चइ इंदहु ह्यउ पडिंदु ।
 मंगलवइदेसि विचिचत्तेहि ।

16

तहु कणयच्चित्त णामेण देवि
 जाया हियमाणिणिहिययसार
 सिरिसेणहि सुउ सहसाउहेण
 णियसंति णामु सुरणाहमहिउ
 जांवच्छइ ता दिवि देवसत्थु
 अण्णहिं वण्णिउ कुलिसाउहासु
 तं णिसुणिवि सुरवरु चित्तचूलु
 जिणजेट्टतणुम्भवु भणिउ तेण

घत्ता—णउ अत्थि तो वि दीसइ पयहु जिह सिविणउ तेलोक्कु तिह ॥
 लइ सुण्णुं जि णिच्छउ आवडिउं कहिं अच्छइ गय दीवसिह ॥१६॥ 10

तहि णंदण इंद पडिंद बे वि ।
 वज्जाउह सहसाउह कुमार ।
 जणियउ णेहु व कुसुमाउहेण ।
 खेमंकरु पुत्तपउत्तसहिउ ।
 पभणइ भुवि को सइंसणत्थु । 5
 णिम्मलुं सम्मत्तु गुणावयासु ।
 आयउ णिवंघरु णहलग्गचूलु ।
 अण्णण्णु होइ तिहुवणु खणेण ।

15 १ A वण्णिउ. २ A पण्णत्त. ३ P अणाणु; K अणाणु but corrects it to सणाणु.
 ४ AP जयवरिंदु. ५ AP संसारि. ६ P दुक्खेहि दहु.

16 १ A तहि णंदणु अञ्चवइंदु ए वि. २ A reads this line and 3 a as: वज्जाउहु
 णामें तिजयसारु, तें परिणिय सिरिमइ णं कुमार, तीए जणियउ सहसाउहु कुमार. ३ AP को भुवि.
 P भण्णिउ. ५ A णिम्मल. ६ A नृवघरु. ७ AP सुण्णउ णिच्छउ.

15 3 a घण वण्णउ मेघवर्णः कृष्णवर्णः. 8 a हयकंठ भा इ अश्रमीवस्य भ्राता; b दुक्खा-
 हि दहु दुःखसर्पेण दष्टः. 9 a सरि वि वेरु वैरं स्मृत्वा. 13 °चें च इ इ देदीप्यमाने.

16 3 a सिरि सेण इ श्रीषेणायां सहस्रायुधभार्यायाम्. 4 a णिय संति कनकशान्तिः, निज-
 शब्देन कनकम्. 5 a देव सत्थु देवसमूहः; b सइंसणत्थु सदृशेनस्यः. 10 आवडिउं शतम्.

17

तं सुणिवि भणइ पविपहरणक्खु
जइ अवैरु जि खणि खणि होइ सव्वु
पज्जायारूढी सव्वसिद्धि
अण्णयविरहिउं जि जगु भणंति
जइ सिविणु व तच्चु परोवहासि
जइ सुण्णत्तहु दीवच्चि जाइ
तं सुणिवि पवुद्धउ सुरुं वउद्ध
को करइ वप्प पइं सहं विवाउ

अण्णणहं दुक्करु णाणचक्खु ।
तो किं जाणइ जणु णिहिउ दव्वु ।
आउंचिउ हत्थु जि होइ मुट्ठि ।
खकुसुमुं ते सससिं गे हणंति ।
तो सिविणयभोयणि किं ण धासि । 5
तो खप्परि कज्जलु केमं थाइ ।
संसइ तुहुं णरवइ णाणसुद्धु ।
अरहंतु भडारउ जासु ताउ ।

घत्ता—गउ चित्तचूलु सणिहेलणहु इंदचंदफणिपरियरिउ ॥

खेमंकरु पढमहु तणुरुहहु अप्पिवि वसुमइ णीसरिउ ॥ १७ ॥ 10

18

घरु मेल्लिवि वणि थिउ मुक्कगत्तु
रायाहिराउ णिव्वढमाणु
वजाउहु अवइण्णइ वसंति
तडिदाढे चिरभववइरिपण
खयरेण णायपासेण वद्धु
सा तेण णिहय दढकरयलेण
रिउ णासिवि गउ भयभीयजीउ
वसिकयसुरणरविज्जाहरासु
घरु आयइं ता परिहरिवि मरणु

काले अरहंतावत्थ पत्तु ।
गोमिणिकामिणि अणुहुंजमाणु ।
जलि रमइ सुदंसणसरवरंति ।
दुक्कम्मभावसंचारिपण ।
विउलइ सिलाइ संह संणिरुद्धु । 5
गय सयदंलु णारि व रयमलेण ।
णियंघरि पइट्टु कुलहरपईउ ।
णवणिहि चउदहरयणाइं तासु ।
घरि णहयरु पक्कु पवण्णु सरणु ।

घत्ता—तहु अणु आगय असियरखयरि चवइ हणामि की मइं धरइ ॥ 10

पहरणकरु थविरु अवरु अइउ णिवहु सवइयरु वज्जरइ ॥ १८ ॥

17 १ AP जइ खणे खणे अवरु जि होइ. २ P खकुसुम. ३ AP किं ण थाइ. ४ A सुरु पवुद्धु: P सुरु ववुद्धु.

18 १ AP सहसा णिरुद्धु. २ A सयदण. ३ AP णियपुरि. ४ AP मइं को.

17 1 a पवि पहरण क्खु वजायुधाख्यः. 3 a पज्जा यारूढी पर्यायमारूढा; सव्वसिद्धि सर्व-
सृष्टिः. 4 a अण्णयविरहिउं अन्वयरहितम्; द्रव्यरूपतया अपरापरपर्यायेष्वनुवर्तनमन्वयः; b सससिं गे
शशशृङ्गेण. 5 a परोवहासि हे परोपहासिन्; b ण धासि न तृयसि. 6 a दीवच्चि दीपशिखा. 7 a
वउद्धु क्षणिकवादी; b संसइ प्रशंसति.

18 1 a मुक्कगत्तु मुक्तशरीरः; b अरहंतावत्थ केवलज्ञानम्. 3 a अवइण्णइ अवतीर्णे
प्राप्ते; b सुदंसणसरवरंति सुदर्शननाम्नि सरोवरे. 4 a तडिदाढे विद्युदंष्ट्रेण. 6 a णिहय निहता
चूर्णिकृता; b सयदंलु शतखण्डम्; णारिव रयमलेण यथा रजस्वला स्त्री लज्जया शतखण्डं व्रजति रक्त-
मलेन. 9 a परिहरिवि मरणु मरणभयात्. 10 अणु पश्चात्. 11 थविरु वृद्धः; अइउ आगतः.

19

इह वरिसि खगायलि अरिहंभत्तु
तहु देवि जसोहर वाउवेउ
तेत्थु जि पुरु किणरगीउ अत्थि
तहु सुय सुकंत महुं तणिय कंत
ओहच्छइ तुह पयणय विणीय
विजासाहाणि थियवणयरासु
किर साहइ इच्छियसिद्धि जाव
तं अवगण्णिवि मृगंलोयणाइ
आरूसिवि कद्धिउ मंडलग्गु
आवेप्पिणु तुज्झु पइट्टु गेहि
आगच्छमि जा महिहरधरिसि
इह आयउ अक्खिउ तुज्झु राय
गंभीरघोरवइराउहेण

सकंप्पहपुरि पडु इंदयत्तु ।
हउं पुत्तु पुण्णसंपुण्णतेउ ।
तहि चित्तचूलु खगु जसगभत्थि ।
बहुतंतमंतविहिवुद्धिवंत ।
संतिमइ णाम महुं तणिय धीय । 5
उवगय मुणिसायरागिरिवरासु ।
गुरुविग्घु पउंजिउ एण ताव ।
सिद्धी देवय जाणिवि अणाइ ।
एहु वि लंघिय णहमंडलग्गु ।
हउं पुज्ज लेवि खे भमियमेहि । 10
ता पेच्छिवि णहि धावंति पुत्ति ।
पेक्खहि परिरक्खहि णायंछाय ।
तं सुणिवि वुत्तु वजाउहेण ।

घत्ता—इह दीवइरावयविंझउरि विंझसेणु णामें नृवइं ॥

णामेण सुलक्खण मृगंणयण तहु रायाणी हंसगइ ॥ १९ ॥ 15

20

तहु णंदणु णामें णल्लिणकेउ
तेत्थु जि वणिवरु णामें सुमित्तु
पीयंकरि णामें तासु भज्ज
महिलाविरहेण मुण्णिदवासि
भंजिवि दुम्महु कंदप्पदप्पु
जंबूदीवंतरि कच्छदेसि
पुरि कणयतिलइ णं पुण्णयंदु
तहु पणइणि णामें णीलवेय

णं थिउ णररुवें मयरकेउ ।
सिरिदत्त कंत तणुरुहु सुदत्तु ।
सा हित्ती णिवंतणएं मणोज्ज ।
रिसि हुउ सुदत्तु सुव्वयहु पासि ।
संणासें गउं ईसाणकप्पु । 5
वेयडुइ उत्तरसेढिवासि ।
णामें महिदधिकमु खगिंदु ।
सुरु मेह्लिवि सुरतणु अमियतेय ।

19 १ A अरुह°. २ A सुक°. ३ P सिग°. ४ AP णहि मंडलग्गु. ५ P णायणाय.
६ AP णिसुणिवि. ७ P णिवइ. ८ A सलक्खण. ९ P सिग°.

20 १ AP पीइंकरि. २ A नृवतणएं. ३ AP हुउ. ४ A पुण्णिविदु; P पुण्णयंदु.

19 ३ b जसग भत्थि यशःकिरणः. 6 a थियवणयरासु स्थिता वनचरा यत्र तस्य; b मुणिसायरागिरिवरासु पर्वतस्य नामेदम्. 9) b अणाइ अनया शान्तिमत्या. 12) b णायछाय नीतिप्रभावः.

20 ३ a पीयंकरि प्रीतिकरी; b हित्ती हृता; णिवतणएं, नलिनकेतुना.

चिरु वणि सुदत्तु जो दुक्खरीणु
इंदीवरदलसंकासणेत्तु
सीमंकरसुरिहि णविवि पाय
णियदुक्किउ णिंदिवि णायणेउ

सो तहि सुउ जायउ अजियसेणु ।
जं हित्तउ वणितणयहु कलत्तु । 10
तउ चरिवि घोरु चूरिवि कसाय ।
गउ मोक्खहु सो नृवु णल्लिणकेउ ।

घत्ता—पीइंकरि सुव्वयसंजइहि पासि मुण्णिणु घरणियलु ॥

चंदायणु चरिवि पसण्णमइ मय पक्खालिवि पावमलु ॥ २० ॥

21

ईसाणि देवि तित्थाउ आय
इहु अजियसेणु चिरवरु दुलंघु
इय णिसुणिवि कण्णइ पुव्वजम्म
संतिमइ सुगंथवियक्खणाहि
देवत्तु लहेप्पिणु बीयसग्गि
ता पेक्खइ जो णरजम्मि ताउ
जिह सो तिह अवरु वि अजियसेणु
थुइसयहिं पसंसिवि वरगिरेण
देविं चित्तिउ संसारु चित्तु
काणीणदीणदिज्जंतदाणि

संतिमइ तुहारीय धीय जाय ।
विज्जउ साहंतिहि करइ विग्घु ।
खेमंकरणाहहु पासि धम्मु ।
हुई सीसिणिय सुलक्खणाहि ।
संचरइ जाम गयणयलमग्गि । 5
सो जिणवरु जायउ वाउवेउ ।
रयणत्तयजलधुयकम्मरेणु ।
बेण्णिं वि वंदिय पणमियसिरेण ।
जिणधम्मि ण किज्जइ केम चित्तु ।
चक्केसरराजि पवड्डुमाणि । 10

घत्ता—खगमहिहरदाहिर्णपंतियहि सिवमंदिरि घणवाहणहु ॥

विमलादेविहि संभूय सुय कणयमाल संपसाहणहु ॥ २१ ॥

22

संगरभरमारियखत्तियासु
गुणमणिउज्जोइयकुलहरासु

दिण्णी वसुहाहिवणत्तियासु ।
सोवण्णसंतिणामहु वरासु ।

५ A अमियसेणु. ६ A नृउ; P णिउ. ७ A पीइंकर. ८ AP मुय. ९ A पायमलु.

21 AP तुहारी. २ AP इय णिसुणेप्पिणु अप्पणउ जम्म. ३ AP गयणमग्गमग्गि. ४ AI बेण्णि वि पणविवि वंदिवि सिरेण. ५ A देवे; P देविए. ६ AP °दाहिणसेदियहि. ७ AI सुपसाहणहु.

13 a णा यणेउ ज्ञातपदार्थः. 14 घरणियलु गृहनिगडम्. 15 चंदायणु अमावास्यायामुपवासं कृत्व एकादिग्रासानामेकोत्तरेण चतुर्दशपारणानि । पुनरुपवासं कृत्वा चतुर्दशग्रासानामेकोत्तरहान्या चतुर्दशपारणानि । तत एक उपवासः; मय मृता.

21 4 a सुगंथवियक्खणाहि सुशास्त्रविचक्षणायाः 6 a ताउ पिता वायुवेगः. 7 °धुय कम्मरेणु °प्रक्षालितकर्मरजाः 9 a चित्तु वैचित्र्यम्. 12 सपसाहणहु ससैन्यस्य समण्डनस्य वा.

22 2 b सोवण्णसंति° कनकशान्तेः श्रीषेणपुत्रस्य.

वसुसारयणयरि समुद्रसेण
दोहिं मि सहं गउ गहणंतरालु
विमलप्पहु णामे तेत्थु साहु
णिसुणेवि तच्चु पावज्ज लइय
णारिहि णं चल मइ जणियसंति
सिद्धायलि काओसग्गु देवि
अवियाणियसमच्चित्तं जडेण
लहुपणइणिमेहुणएण ताहं
तज्जिउ खयरिंदं असिगहेण

रायहु जयसेण वसंतसेण ।
घोलंतणीलदलवेल्लिजालु ।
अवलोइउ णाणजलोहवाहु । 5
सहुं घरणिहिं तेण विमुक्कदइय ।
आसंघिय विमलमइ त्ति खंति ।
तिण्णि वि थियाइं मणि जोउ लेवि ।
विज्जाहरेण वइरुम्भडेण ।
उवसग्गु रइउ तीहिं मि जणाहं । 10
गउ चित्तचूलु णासिवि णहेण ।

घत्ता—णिवसुयसुउ कणयसंति णिवइ कणयमाल परिसेसिवि ॥

आहिंडइ महियलि सुद्धमणु अण्णउ तविण विह्वासेवि ॥ २२ ॥

23

रयणउरइ राणउ रयणसेणु
अण्णेक्के वणि अचछंतु संतु
एयहं दोहं मि मुणिवर समाणु
देवागमु पेक्खिवि हीणु दीणु
सो खलु वसंतसेणाहि सयणु
णियणत्तिउ णिवि अणंतणाणि
खेमंकरतायहु पासि दिक्ख
सिद्धइरिहि लेप्पिणु वरिसजोउ

तें तहु भयवंतहु दिण्णु दाणु ।
आढत्तु हणहुं कम्मइं खवंतु ।
संजायउ केवल्लि तिजगभाणु ।
पुणु मुणिवरकमकमलयलि लीणु । 5
पणविउ हिरिभावोणल्लवयणु ।
णिब्बिण्णउ रइसुहि चक्कपाणि ।
मणि धरिवि असेस वि समयसिक्ख ।
थिउ देहविसग्गे मुक्कभोउ ।

घत्ता—संज्ञायइ पंचमहव्वयइं पंचहिं पंचे जि भावणउ ॥

पंचमगइणिच्चलणिहियमइ परिगयपंचेदियपणउ ॥ २३ ॥ 10

22 १ A adds after this: तह सुय उण्णणी वरभुएण, सा पुणु परिणिय पहुसुयसुएण.
२ AP णिच्चलमइ.

23 १ AP मुणिवरु. २ A हरिवाहोणवल्लवयणु. AP पंच वि.

6 b विमुक्कदइय प्रव्रज्याया विशेषणमिदम्; विमुक्ता दयिता भार्या यस्यां सा प्रव्रज्या. 10 a लहु-
पण इ णि मे हु ण एण वसन्तसेनामातुलपुत्रेण चित्रचूलेण.

23 3 a एयहं दातृमारकयोरुपरि. 5 a सयणु मेहुणकः मातुलपुत्रः; b हिरि भावो ण ल-
व यणु हीभावेन लज्जाभावेन अवनतबदनो नीचमुखः. 6 b चक्कपाणि वज्रायुधः. 7 b समयसिक्ख
आगमजिनशासनशिक्षाम्. 19 पणउ स्नेहः.

24

चिरु हरिगीवहु सुय धम्मभट्ट
 संसारु भमेप्पिणु जाय देव
 आयइ रंभाइ तिलोत्तिमाइ
 अइबलु समहाबलु खणि पलाणु
 सहसाउहेण सयबलिहि रज्जु
 व्रैउ लइयउं पिहियासवहु पासि
 वइभारमहीहरि रिद्धिठाणि
 तउ चरिवि तहिं जि रिसिजुवलु मयउं
 घत्ता—एक्कणतीससायरसमइं बेण्णि वि सुहुं भुजंत थिय ॥
 भरहुवरिगांमि हिमअहिमर्यर पुष्पयंतसुरणियर पिय ॥ २४ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे वजाउहचक्रवट्टिवण्णं णाम
 एक्कसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६१ ॥

24 १ AP संसारि. २ AP वउ. ३ AP वइभारि महीहरि सिद्धिठाणि. ४ P सुयउं.
 ५ AP णवर. ६ A अहिमरय. ७ AP पुष्पदंत°.

24 सा व ले व पापसहितौ. 3 b वं दि य ज इ क मा इ वन्दितयतिचरणया. 6 b गे ह वा सि
 गृहवासे गृहपाशे वा. 7 b जो या व सा णि ध्यानावसाने.

पढमदीवि थियमेहइ
पुक्खलवइदेसंतरि

सुरगिरिपुव्वविदेहइ ॥
पवरपुंडरिगिणिपुरि ॥ धुवकं ॥

1

तहिं घणरहु पहु सयमहणमिउ
तहु देवि मणोहर तुंगथणि
वज्जाउहु जो अहामिंदु हुउ
तणुतेओहामियभाणुरहु
सहसाउहु अमरु मणोरमइ
णिवकंतइ णंदणु संजणियउ
भायरहं विहिं मि कमभाणियउ
हुउ पक्कहि णंदिवुहु तणउ
अवरेक्कहिं दिणि सुसेण गणिय
सा घणमुहु कुक्कुड लेवि गय
पडिपक्खि पक्खणक्खहिं हणइ
घत्ता—दिज्जइ सालंकारहं
एह वत्त गिसुणेप्पिणु

तिहुयणसरिरमणीप्राणपिउ ।
गलकंदलंबियहारमणि ।
संभूउ गम्भि सो ताहि सुउ । 5
हकारिउ तापं मेहरहु ।
गेवज्जहि आयउ सुहसमइ ।
सो सज्जणेहिं दढरहु भणियउ ।
पियमित्त सुमइ वरराणियउ ।
अण्णाहि वरसेणु वराणणउ । 10
पियमित्तहि घरु कोड्ढावणिय ।
भासइ देविहि पणमंति पय ।
कियवाउ एहु जो रणि जिणइ ।
ताहं सहस्सु दीणारहं ॥
अवरं वि पक्खि लपप्पिणु ॥ १ ॥ 15

2

कुलिसाणणु कुक्कुड कंचणिय
गरुडेण वि जिप्पइ एहु ण वि
ता हरिसें वाइय जयवडह
तहिं आया घणरह मेहरह
पियमित्तसुमइकरयलपुसिय

अक्खइ सुमइहि घरं कामिणिय ।
उडुंतहु संकइ गयणि रवि ।
खुज्जुय णच्चंति लडहमडह ।
दढरह वरसेण णंदि सुमइह ।
चिरजम्मणिवद्धवैरिवसिय । 5

1 १ AP थिए मेहए, २ AP पाणपिउ, ३ AP णिवकंताणंदणु, ४ A सहासु, ५ AP अवरु.

2 १ P घरि कामिणिय, २ AP कुज्जय, ३ A णंदिपसुह, ४ AP वहररसिय.

1 1 a पढमदीवि जम्बूद्वीपे; थियमेहइ स्थितमेघे, 7 b सुहसमइ शुभसमये, 9 b कम-
माणियउ क्रमेण भणिते, 12 a घणमुहु घनमुख इति कुक्कुटनाम, 13 b कियवाउ कृकवाकुः कुक्कुटः,
15 b अवर अपरा प्रियमित्रा नाम.

2 1 a कुलिसाणणु वज्रतुण्डः; कंचणिय काञ्चनानाम्नी सा सुमतेर्गणिका, 3 b लडहमडह
मनोहरम्, 4 b णंदि नन्दिवर्धनः; सुमइ सुतेजाः.

जुञ्जंति पक्खि ते पवलबल
उल्ललणवलणपरियत्तणहिं
रोसुद्धयकंधरकेसरय
तं तापं पुच्छिउ मेहरहु
किं तंबचूल जुञ्जंति सुय

घत्ता—कहइ कुमार सुहावइ
सयडजीवि तिट्टावर

चंचेलचंचुचरणारचल ।
पेहुणसिरसिहरवियत्तणहिं ।
जं केव वि ण ओसरंति सरय ।
संबोहहुं भव्वजीवणिवहु ।
भणु अवहिवंत सग्गग्गचुय । 10

पत्थु दीवि अइरावइ ॥
रयणउरइ णर भायर ॥ २ ॥

3

पहरेवि परुप्परु कढिणभुय
णामेण पसिद्धा भइ धाणि
बहुपुंडरीयपंचाणणइ
सियकण्ण तंबकण्ण त्ति गय
कोसलणयरिहि गोउलियघरि
एप्पिणु जुञ्जेप्पिणु खयहु गय
वरसेणसत्तिसेणहं णिवहं
ए चूलि पट्टया संभरमि
दीवाइदीवि खगसिहंरि वरि
खगु गरुलवेउ दिहिसेण प्रियं

घत्ता—कुसुमालुद्धइदिंदिरि
जइवरु तेहिं णियाच्छिउ

बलिवइहु कारणि कोवजुय ।
ते बे वि मरेप्पिणु तेत्थु धणि ।
कंचणसरितीरइ काणणइ ।
संजाया पुणु जुञ्जेवि मुंय । 5
जाया सेरिह णववयहु भरि ।
तेत्थु जि पुरि कुरंर पलद्धजय ।
अग्गइ जुञ्जिवि उज्झियकिवहं ।
भउ पेक्खालुअहं मि वज्जरमि ।
उत्तरसेट्ठिहि कणयाइपुरि ।
सुय चंदविचंदतिलय सुहिय । 10

सिद्धकूडजिणमंदिरि ॥
णियजम्मंतरु पुच्छिउ ॥ ३ ॥

4

थिउ लंछणु धादइविडवि जहिं
सुरदिसि अइरावइ तिलयपुरि

रिसि अक्खइ धादइसंडि तहिं ।
पइ अभयघोसु सिरि तासु उरि ।

५ A चरणा चवल. ६ AP केम वि णोसरंति.

3 १ AP वणि. २ A °तंबकण्णंत गय. ३ A मय. ४ A उरय लद्धजय; P उरर पलद्ध-
जय; T कुरय मेपौ, K कुर मेपौ, पलद्धजय प्रलब्धजयौ. ५ AP चूलिय ह्या. ६ AP °सिहरिसि.
७ AP पिय. ८ A कुसुमलुद्ध°.

6 b चंचेलचंचु वक्खञ्जुः. 7 a °परियत्तण हिं परिवर्तनैः; b पेहुण° पिच्छानि. 8 b सरय
कोपयुक्तौ. 11 a सुहावइ सुखास्पदे. 12 a सयडजीवि शकटजीविनौ; तिट्टावर तृष्णापरौ.

3 3 a °पुंडरीय व्याघ्रः. 4 a सियकण्ण श्वेतकर्णः, तंबकण्ण ताम्रकर्णः इति गजौ जातौ.
5 b सेरिह महिपौ. 6 b कुरर मेपौ. 8 b पेक्खालुअहं प्रेक्षकयोर्द्वयोर्विद्याधरयोः. 9 a दीवाइदी वि
जम्बूद्वीपे; खगसिहरिवरि विजयार्थे. 10 चंदविचंदतिलय चन्द्रतिलकषिचन्द्रतिलकौ.

जिह तिह गेहिणि कंचणतिलय
मयरद्धयबाणवरोल्लियहि
णामे जगि जाणिय जय विजय
विज्जाहरगिरिदाहिणइ तडि
तहि संखु खयरु तहु जय घरिणि
दिण्णी जयविजयजणेरयहु
संवच्छरंति कइयवणिलय
पभणइ सुवण्णतिलयहि तणउं
आवेहि जाहुं जोयहि णिवइ
मेरउं वणु जोव्वणु किं ण सुहुं

घत्ता—ताहि वयणु अवगणिवि
गउ महिवइ वणजत्तहि

णावइ रइणाहहु रइविलय ।
जाया सुय वेणिण पियल्लियहि ।
णं कामदेव णिम्मैयरधय । 5
मंदरपुरि सरसु णंडंतणडि ।
सुय पुहइतिलय ससिमुहि तरुणि ।
तहु अवर ण रुच्चइ तहि रयहु ।
णामेण विसारि चंदतिलय ।
वणु फुल्लिउं फलियउं घणघणउं । 10
ता चवइ सवत्ति विरुद्धमइ ।
जे जोयहि दूयहि तणउं मुहुं ।

पडिवक्खु जि बहु मणिवि ।
मलिवि माणु मृगणेत्तहि ॥ ४ ॥

5

साहीण काहि भत्तारदय
करपंकयल्लुहियभालतिलय
रिसिणाहहु संजमवयधरहु
अवलोइवि पंचमहब्भुयइं
अण्णउं मोहें ण विडंविउं
इंदियपडिबल्लु रणि णिज्जियउं
मुउ सव्भावें सम्मयणिरउ
सिसु तासुं वे वि तेत्थु जि अमर
दिवि मरिवि वे वि ते भाइवर
भुवि जाया गरुलवेयधणहि

सुमईगणिणिहि सा सरणु गय ।
तबवरणि लग्ग पुहईतिलय ।
पहुणा किउ भोयणु दमवरहु ।
सुरकिंणरणायरायथुयइं ।
ससुएण वउ जि अवलंबियउं । 5
अरहंतणामु तेणज्जियउं ।
हुउ अंतिमकण्णि पुरंदरउ ।
जाया अचल्लरकरधुयचमर ।
तिलयंतिम चंद विचंद णर ।
जाउडयजडिलमंडियथणहि । 10

4 १ AP °बाणविरोल्लियहि. २ AP णं मयरधय. ३ AP मंदिरपुरि. ४ AP णंडंति णडि.
५ AP कहवयणिलय. ६ A फलियउं घणउं घणउं; P फलियउं घणघणउं. ७ A नृवइ. ८ A जं
जोयहि; P जं जायहि. ९ P मिगणेत्तहि.

5 AP अरहंतु. २ AP वे वि तासु. ३ P जाउडय°.

4 3 b रइ विलय रतिवनिता. 4 a °बा ण व रो ल्लि य हि बाणवरपंकेः. 5 b णि म्म यरध य
कामदेवौ परंतु मकरध्वजरहितौ मस्तके. 8 a °जणेरयहु पितुरभयघोपस्य; b त हि रयहु तस्यां रतस्य.
9 a क इ य व णि ल य कपटगृहभूता; b वि सारि दूतिका. 11 b स व त्ति पृथ्वीतिलका. 12 b जे जो य हि
दू य हि त ण उं मु हुं येन चन्द्रतिलकाया मुखे वनगमनार्थमवलोकयसि. 13 b प डि व क्खु काञ्चनतिलकाम्.

5 1 a सा ही णे त्या दि स्वाधीना न कस्या अपि भर्तृदया. 2 a °लु हि यं° मृष्टः स्फेटितः. 3 b
पहुणा अभयघोषेण. 5 b ससुएण पुत्राभ्यां सह. 7 सम्मयं° जिनमतम्. 9 b तिलयंतिमचंद-
विचंदणर चन्द्रतिलकः विचन्द्रतिलकश्च. 10 b जाउडय° कुङ्कमम्.

तं सुणिवि कुमारहिं बोल्लियउं
भणु अभयघोसु उप्पणु कहिं
जइ चवइ पुंडरिकिणिपुरिहि

घत्ता— तणु मेल्लिवि तियसाहिउ
जो सक्के पणविज्जइ

मुणि जम्मंतरु उव्वेल्लियउं ।
पिउ वसइ जहिं जि गच्छामि तहिं ।
णंदणु घणमालिणिसुंदरिहि ।

जायउ तेलुक्कोहिउ ॥

सो जिणु किं वणिज्जइ ॥ ५ ॥ 15

6

तहिं अच्छइ देउ सवंधुयणु
परिभमणणमणउट्टाणणिहि
दिव्वासें एहउ वज्जरिउं
गय बेणि वि चिरजणणासयहु
तायत्तणु तहु ससुयत्तणउं
गुणवंतहु गुत्तिगुत्तमणहु
गय णिव्वाणहु खरतवतवण
भउ णिसुणिवि पक्खिहिं कंदियउं
किमिपिंहु ण भक्खिउ मरिवि गय
वेंतरसुर जाया भूयकुलि
अण्णेक्कु भूयरमणंतवाणि
तहिं जहिं अच्छइ सुउ घणरहहु

घत्ता— भणिउं तेहिं जडपक्खिहिं
तुज्जु पसाएं आयउं

जोयंतु कूडकुक्कुडयरंणु ।
चितंतु घोरसंसारविहि ।
तं सुणिवि खयरभायर तुरिउं ।
पयडेप्पिणु अग्गइ जणसयहु ।
कम्माणुबंधविणियत्तणउं । 5
वेंउ लइउ णविवि गोवद्धणहु ।
ते चंदविचंदतिलय सवण ।
अप्पाणउं गरहिउं णिंदियउं ।
जिणवयणें ट्टैक्खियवेल्लिहय ।
तहिं एक्कु देववाणि गिरिगुहिलि । 10
भूयाहिव बेणि वि पत्त खणि ।
संदरिसियविमलणाणपहहु ।

अम्हंहिं किमिउलभक्खिहिं ॥
दिव्वंभवंतरु जायउं ॥ ६ ॥

7

मेहरहदेव पइं दिणु सुहुं
मणुंउत्तरमहिहरपरियरिउं
पणयाललक्खजोयणविउलु

आवहि विमाणि आरुहहि तुहुं ।
सरसरिकुलसिहरिअलंकरिउं ।
अवलोयहि मणुयखेत्तु सयलु ।

४ A गच्छामु; P गच्छमि. ५ AP तइलोक्का°.

6 १ A °रयणु. १ AP वउ. ३ A दुक्खिय बेणि हय; P दुक्खियवेल्लिहय. ४ AP सुउ
अच्छइ. ५ A अम्हं. ६ AP दिव्वु.

7 १ AP विवाणि. २ P मणुसुत्तर°. ३ P °परियरउं. ४ AP सरिसर°.

11 b उव्वेल्लियउं प्रकटीकृतम्.

6 ३ a दिव्वासें दिव्वाससा. 4 a °जणणासयहु पितृग्रहम्. 7 b सवण श्रमणौ. 8 a
भउ पूर्वभवम्. 10 b देववाणि देवारण्ये.

7 2 a मणुउत्तरमहि हरपरियरिउं मानुप्रोत्तरगिरिवेष्टितं मनुष्यक्षेत्रम्.

उवयारहु पडिउवयारु किह
दुछंयु सदेवहं दाणवहं
तां इच्छिवि कीलाभवणु मणि
णिर्यसहयरकिंकरगुरुसहिउ
णहि सुरहरि जंति विविहँपुरइं

घत्ता—एहु भरहु अवलोयहि
पह दिव्व गंगाणइ

तुह किज्जइ जसु जगि रिद्धिसिह ।
अहिवंदणिज्जु वरमाणवहं ।
आरूढउ सुंदरु सुरभवणि ।
कुक्कुडदेविहिं भत्तिइ महिउ ।
दावंति देव देसंतरइं ।

इहु हिमवंतु विवेयहि ॥

एह सिंधु मंथरगइ ॥ ७ ॥

5

10

8

इहु दीसइ णिम्मलु पोमसरु
हइमवँउ एहु पूरियदरिउ
तुहिणइरि एहु गरुयउ अवरु
हिरिदेवि एत्थु णिष्णु जि वसइ
इहु एत्थु वहइ णामेण हरि
इहु मंदरु ए गयदंतगिरि
इहु णिसहु णाम महिहरु पवरु
दिहिदेवि एत्थु विरइयभवर्ण
एयाइं विदेहइं दोणिण पिय
इहु णील्लिहि केसंरि णाम दहु
इहु रम्मु एउ णइणारिवर
इहु रुम्मिंधेराहरु पुंडरिउ

घत्ता—बुद्धिदेवि इहँ अच्छइ
जिणवरसेवासिद्धउं

सिरिदेविसहिउ रंजियंभमरु ।
वररोहियंरोहियाससरिउ ।
अण्णेक्कु महासयवत्तसरु ।
हरिवरिसु एउ सग्गु वि हसइ ।
अण्णेक्कु पेक्खु हरिकंतसरि ।
इहु सुरंकरु उत्तरकरु सँसरि ।
इहु जोवहि णिव तिंणिंछिसरु ।
अच्छइ सुरंरायणिहँत्तमण ।
सरि सीया सीओया वि थिय ।
इहु दीसइ कित्तीदेविसँहु ।
णरकंत एह पवहइ अवर ।
सरु एत्थु देव पाणियभरिउं ।

जगि माणउ जो पेच्छइ ॥

तेण णयणफलु लद्धउं ॥ ८ ॥

5

10

५ P तो. ६ AP णिउ सहयर°. ७ A विविण्फुरइं. ८ K देसंतरइं.

8 Mss. read एहु and इहु promiscuously here. १ A रंजिय°. २ A हइमवइ. ३ P रोहिणि रोहियासउ सरिउ. ४ A तुहिणयरि. ५ P reads this line after 8 b. ६ A सरु करु. ७ A ससरि. ८ AP °भवणु. ९ A सुयराय°. १० AP णिहित्तमणु. ११ A केसरु. १२ A ओ दीसइ; P पहु दीसइ. १३ A सुहु. १४ AP पहु, probably प is confounded with ए. १५ A रम्मि. १६ AP एह.

4 b रिद्धि सि ह ऋद्धिशिखा लक्ष्मीपरमप्रकर्षः. 6 a कीला भवणु कीलाभ्रमणम्. 7 b कुक्कुडदेवि हिं कुक्कुटचराभ्याम्. 9 b विवेयहि जानीहि.

8 2 a हइमवउ हैमवतगिरिः; b रोहियरोहियास रोहितरोहितास्ये नद्यौ. 3 a तुहिण-इरि महाहिमवान्; b महासयवत्तसरु महापद्महृदः. 5 a a हरि हरिन्नदी. 6 b ससरि नदीसहितौ. 8 b सुररायणि हत्तमण सौधर्मेन्द्रे आरोपितचित्ता. 10 a दहु हदः; b °देविसहु °देव्या सह.

9

णिव खेत्तु हिरण्णवंतु णियहि
रुपयकूल वि इह एम गय
सो एहु सिहरिगिरि सिहरपिउ
लच्छीदेविहि रुच्चइ रमइ
रत्तारत्तोयसरिहिं सहिउं
फुल्लियतरुमालापारिमलइं
पिच्चंति कलमकर्यलीहलइं
कच्छाइयाइं विसयंतरइं
दरिसंति^१ अमर जोयंति णर

घत्ता—कंदरदरिकीलियसुर
अकयइं मणियरतंबेइं

सोवण्णकूलसरिजलु पियहि ।
जहिं कुद्धहिं सीहहिं हात्थि हय ।
सरु एत्थु महापुंडरिउ हिउ ।
ओहच्छइ इह वासरु गमइ ।
अइरावउ एउं खेत्तु कहिउं । 5
वरिसंति मेह धारोजलइं ।
णच्चंतमोरपिच्चलुज्जलइं ।
खेमाइयाइं णयरइं वरइं ।
विम्हइयहियय कंपवियकर ।

जोइवि णाणागिरिवर ॥ 10
वंदिवि जिणपडिविबइं ॥ ९ ॥

10

णरखेत्तु गिरीसरिमालियउं
तहु उप्परि मणुयहं णत्थि गइ
पडिआया घणरहनृवणयरु
पुज्जिवि कुमारु गय तियस तहिं
संसारु असारु विवेइयउ
घणरहिण पुत्तु हकारियउ
लोयंतिएहिं उद्दीवियउं
जाणें माणिक्कविराइएण
गउ वैंणि किउ देवें तवचरणु

घत्ता—भूगोयरखगरायहिं
णमिउ जिणिंदु हयत्तिइ

मणुसुत्तरु जाम णिहालियउं ।
पल्लट्ट सविम्हयभिण्णमइ ।
जयजयसइं पइसरिवि घरु ।
णंदणंवाणि णियणयरइं जहिं । 5
इंदियकंखइ पडिचोइयउ ।
मेहरहु राज्ज वइसारियउ ।
वेरग्गु तेणं णिरु भावियउं ।
णरखयरसुरिंदुच्चाइएण ।
उप्पायउ केवल्लु मलहरणु ।

चउविहदेवाणिकायहिं ॥ 10
तणपं जाइवि भत्तिइ ॥ १० ॥

9 १ A वरिसंत. २ A जलधाराइं. ३ A °केली°. ४ AP णच्चंति. ५ P °पिंलुज्जलइं. ६ P दरिसंति य अमर°. ७ P विंभइय°. ८ A दरकेलिय°.

10 १ A मणुउत्तरु. २ AP सविंभय°. ३ AP णिवणयरु. ४ A पइसेवि; P पइसरवि.
५ A °वणणिय°. ६ AP तेहिं. ७ A वणु. ८ AP णविउ.

9 3 a सि हरि गिरि शिखरी नाम पर्वतः; सि हर पि उ शिखरैः प्रियः. 4 b ओ हच्छइ एपा लक्ष्मीः तिष्ठति. 5 a रत्तारत्तोयं रक्ता रक्तोदा च. 7 a पि चंति पक्कानि भवन्ति. 8 a विसयंतरइं कच्छादिदेशाः. 11 a अकयइं अकृत्रिमाणि; मणियरतंबेइं रत्नकिरणताम्राणि.

10 1 a मालियउं °मालायुक्तम्, सहितमित्यर्थः. 3 a घणरहनृवणयरु पुण्डरीकिणी.
5 b पडिचोइयउ पश्चादलितः, पुनः प्रेरितो वा. 11 a हयत्तिइ हतपीडया भक्त्या.

11

अण्णहिं दिणि वणि तरुकोमलइ
 आसीणउ राणउ मेहरहु
 विज्जाहरविजाचोइयउं
 तं ताहं ण वच्चइ पँउ वि किह
 आरूढउ वड्डियअमरिसउ
 महियलि कीलंतु रत्तुं सुयणु
 उत्थल्लिवि घल्लमि एउ खलु
 इय चिंतिवि कुद्धु अकारणइ
 तलि पइसिवि चालिय तेण सिल

घत्ता—अरिवरु तणु व वियप्पिवि
 मेहरहे पँडिपेल्लिय

पियमित्तइ समउं सिलायलइ ।
 जांवच्छइ ता ढकंतुं णहु ।
 उप्परि विमाणुं संप्राइयउं ।
 वायरणावियारणु जडहुं जिहं ।
 खेयर अवलोयइ दसदिसउ । 5
 दिट्टउं उवविट्टउं णरमिहुणु ।
 अणुहवउ विमाणणिरोहफल्लु ।
 विज्जइ पायालवियारणइ ।
 डोल्लिउ वहुवरु थरहरिय इल ।

सिल चरणयलें चप्पिवि ॥ 10
 तासु जि मत्थइ घल्लिय ॥ ११ ॥

12

संचलहुं ण सकइ सो खयरु
 तहु घरिणि भणइ उद्धराहि लहुं
 मा मारहि रमणु महं तणउ
 तं णिसुणिवि करपल्लवि धरिवि
 पहु भणइ म मेल्लहि करुणसरु
 विहल्लुद्धारणि पसरियहरिस
 थिउ वीलावसु ओणल्लमुहु
 पियमित्तइ णाहु पपुच्छियउ
 तं णिसुणिवि ओहिणाणयणु

घत्ता—धादइसंडपरावइ
 रामगुत्तुं नुवु होंतउ

आकंदइ रवपूरियविवरु ।
 दे देहि वप्प पइभक्ख महं ।
 तुहुं देवै वइरिविहावणउ ।
 कड्डिउ कारुणें दय करिवि ।
 लइ अम्मि तुहारउ एहु वरु । 5
 पिसुणहं मि खमंति महापुरिस ।
 णहंयलु अवलोइवि जायँदुहु ।
 कहु तणउ एहु कहिं अच्छियउ ।
 अक्खइ णरवइ पँहुल्लवयणु ।

तहिं संखउरि सुहावइ ॥ 10
 संखिणिरमणीरत्तउ ॥ १२ ॥

11 १ P ढकंतु. २ A विजाहर. ३ AP विवाणु संप्राइयउं. ४ P वच्चइ उवरि किह. ५ A आरूढउ. ६ A चत्तसुयणु. ७ A घल्लिवि एहु; P घल्लिमि एउ. ८ AP विवाणु?. ९ P विजाइ. १० A तेणुच्चइय सिल. ११ A अरिवर. १२ A पडिमेल्लिय.

12 १ A महं तणउ. २ AP देउ. ३ P तें. ४ AP ओणल्लमुहु. ५ AP णहयर. ६ A जायसुहु. ७ AP महिवइ. ८ A पफुल्लवयणु; P पफुल्लवयणु. ९ AP णिउ.

11 2 b ढकंतु आच्छादयन्. 4 a पउ वि पदमपि; b वा यरण वियारणु व्याकरणविचारः. 8 b पायालवियारणइ पातालविदारिण्या. 9 b इल पृथ्वी. 10 a तणु व तृणमिव. 11 घल्लियक्षिता.

12 2 b पइभक्ख पतिभिक्षा; पतिजीवितमित्यर्थः. 3 a महंतणउ मदीयः. 6 a विहल्लुद्धारणि दुःखितजनोद्धरणे. 7 a वीलावसु लज्जापरः; ओणल्लमुहु अशोमुखः. 9 b पहुल्लवयणु प्रफुल्लवदनः.

13

संजियसदूलणिरंतरइ
मुणि सव्वगुत्तु आसंघियउ
जिणगुणउववासैं खविवि तणु
दिहिसेणहु दाणु पयच्छियउं
विरपप्पिणु परमेट्टिहि णवणु
संणासैं मुउ बंभेंदु हुउ
सीहरहु एहु खयरहिवाइ
इहु पुण्णवंतु जयलच्छियउ

घत्ता—अंगइं गेण्हैवि छंडिवि
दुल्लहभोयाकंखिणि

संखइरिगुहाकुहरंतरइ ।
दोहिं मि संसारु विलंघियउ ।
जिणचरणकमलि थिरुं करिवि मणु ।
पंचविहु वि चोञ्जु णियच्छियउं ।
पणविवि समाहिगुत्तु समणु । 5
कालेण णवर तेत्थाउ चुउ ।
देवहुं दुज्जउ तिहुवणविजइ ।
मइं जित्तउ तो किं मज्झु मउ ।

चिरु संसारि विहंडिवि ॥
जिणतवेण सा संखिणि ॥ १३ ॥ 10

14

गय सग्गहु पुणु वेयइधरि
विज्जाहरु इंदकेउ वसइ
सुप्पह उप्पण्णी ताहं सुय
पयइ पिययमु ओलगियउ
णिसुणिवि भवि संसरिउं विउलि
घणरहजिणकमंमकमलउं मंहिउं
पियमित्तवेयर्गणणिकहिउ
थिय मयणवेयविरइइ किह
दक्खालइ लोयहुं णायवहु

घत्ता—गंदीसरि संपत्तइ
दंसणु णाणु समिच्छइ

दाहिणसेट्ठिहि वसुमालपुरि ।
पिय मयणवेय तहु अत्थि सइ ।
ओहच्छइ बालमुणालभुय ।
भत्तारभिकख हउं मगियउ ।
सुउ थविवि सुवण्णातिलउ सउलि । 5
सीहरहें मुणिचरित्तु गंहिउं ।
संजमु जमु अवलंबिवि सहिउ ।
कइमइ दुक्करकहरीण जिह ।
ताहिं रज्जु करइ सो मेहरहु ।

जिणु झायंतु सचिंत्तइ ॥ 10
उववासिउ जावंच्छइ ॥ १४ ॥

13 १ A खवियतणु, २ AP संणिहिउ मणु, ३ A गिण्हं, ४ A संसारु.

14 १ A वेयइधरि, २ A तासु, ३ P has तं before णिसुणिवि, ४ A भव संसरियउ; P भवि संसरियउं, ५ AP कमजुयलउं, ६ P महियउं, ७ P गहियउं, ८ A °गणिणी°, ९ A सइ-त्तइ, १० A जा अच्छइ; P जामच्छइ.

13 2 a आ सं घियउ आश्रितः, 3 a जिणगुणउववासैं पञ्चकल्याणानां क्रमेण पञ्चोप-
वासाः । षोडशतीर्थकरत्त्वकारणानां षोडश । अष्टप्रातिहार्याणामष्टौ । चतुस्त्रिंशदतिशयानां चतुस्त्रिंशत् ।
आदावसाने च षष्ठाष्टमम्, 4 b णियच्छियउं दृष्टम्, 8 a धउ धवो भर्ता; b मउ मदो गर्वः.

14 4 a ओ ल गिय उ सेवितः, 5 b सउ लि स्वकुले, 7 b सहिउ स्वहितम्, 8 b कइ-
मइ दुक्करकहरीण जिह कविमतिर्यथा दुष्करकथाकथने श्रान्ता, 9 a णायवहु न्यायपथः, 11 b
जां वच्छइ यावत्तिष्ठति मेघरथः.

15

भवभावपवेवियसव्वतणु
तावेच्छु कवोउ पराइयउ
किर झ त्ति झैडप्पिवि लेइ खलु
ता पक्खिण्णारिं दे वारियउ
किं मारहि वारहि अप्पणउं
ता पुच्छइ ददरहु देव किह
पहु अक्खइ मंदरउत्तरइ
पुरि पउमिण्णिखेडइ मंदगइ
धणमित्तु तासु वल्लहु तणुउ
मुइ वणिवरि भायर जायरइ
ते लुद्ध मुद्ध मुय बे वि जण

घत्ता—इहु मारइ इहु णासइ
णहि पंतं हउं दिट्टउ

चलेमरणुत्तासिउ सरणमणु ।
तहु पच्छइ गिद्धं पराइयउ ।
णियवइरिहि लुं चिवि खाइ पलु ।
पइं एहु भवंतरि मारियउ ।
मा पावहि भवि दुहुं घणघणउं । 5
महुं कहहि कहाणउं वित्तु जिह ।
खेत्तंतरि सोक्खणिंरंतरइ ।
धेण सागरसेणहु अमियमइ ।
पुणु जायउ णंदिसेणु अणुउ ।
अवरोप्परु पँहणिवि धणहु कइ । 10
जाया खग मारणदिण्णंखण ।

भीयउ रक्ख गवेसइ ॥
मज्झु जि सरणु पइट्टउ ॥ १५ ॥

16

अण्णोण्णु जि भक्खिवि जणु जियइ
इहु दीणु इहु णिरु भुक्खियउ
किं किज्जइ खगु दिज्जइ जइ वि
तहिं अवसरि कुंडलमउडधरु
जइ देसि ण तो गिद्धहु पलउ
चाइत्तणु तेरउ किं करइ
मइं चाउ करेवउ तेम तिह
घर अच्छउ णिग्गुणु लुहियतणु

ण णिहालइ णिवडंती णियइ ।
ईय चिंतिवि राउ द्रवक्कियउ ।
णउ लब्भइ धम्मलाहु तइ वि ।
अंवरयलि थिउ भासइ अमरु ।
पलि दिण्णइ पारावयहु खउ । 5
तो विहसिवि महिवइ वज्जरइ ।
जिउ ण मरइ ण हवइ हिंस जिह ।
णउ ओर्याविज्जइ प्राणिग्गुणु ।

15 १ AP चल. २ AP सेणु. ३ A झडेप्पिणु. ४ P भवि भवि दुहुं घणउं. ५ P वणि-
सागर°. ६ A पहरिवि. ७ P °दिण्णमण.

16 १ A एउ. २ A दुवक्कियउ; P दुवक्खियउ; T दुवक्खियउ पक्षद्वयः. ३ A हिज्जइ.
४ AP सेणहु. ५ A तो. ६ A उज्जाविज्जइ. ७ A पाणिग्गुणु; P पाणिग्गुणु.

15 1 a °पवे विय° प्रकम्पिता. 2 a कवोउ कपोतः. 4 a पक्खि गृध्रः. 8 b धण भार्या.
9 b अणुउ अनुजः. 10 a जायरइ जातरजसी जातकालुष्यौ; b धणहु कइ धनस्य कृते, धनार्थम्.
11 b °दिण्णखण °दत्तप्रस्तावौ. 12 b रक्ख रक्षणम्.

16 2 b द्रवक्कियउ भीतः. 5 a पलउ क्षयः; b पलि दिण्णइ मांसे दत्ते सति. 6 a
चाइत्तणु त्यागित्वम्. 7 b जिउ जीवः. 8 b ओयाविज्जइ उपद्रवं प्राप्यते, मार्यते.

किं वग्घु भणिज्जइ पत्तु गुणि
घत्ता—जेहिं णियागमि वुत्तउं
ते लहंति दुणिरिक्खइं

आहारु असुद्ध ण लेंति मुणि ।
आमिसु दिण्णउं भुत्तउं ॥ 10
भवि भवि विविहइं दुषखइं ॥ १६ ॥

17

तं णिसुणिवि देवें संसियउ
गउ अमरु णिवाणुएण भणिउ
को एहु किमत्थु समागमणु
पइं दमियारिहि रणि पाइयउ
भवि भमिवि सुइरु कइलासयडि
वरसिरिदत्ताकंतावसहु
चंदाहु णाम प्रिउ पाणपिउ
जोइसकुलि उप्पणउ अमरु
ईसाणणामकप्पाहिवइ
महुं केरी चायसुभोयथुइ
आपं महु सीलु णिरिक्खियउ

मेहरहु सिरेण णमंसियउ ।
कोऊहलु महुं हियवइ जणिउ ।
तां कहइ णराहिउ रिउदमणु ।
हेमरहु णाम णिउ घाइयउ ।
वणि पण्णकंततीरिणिणियडि । 5
सुउ जायउ सोम्महु तावसहु ।
पंचग्गिताउ तउ तेण किउ ।
गउ जहिं हरि अच्छइ कुलिसंकरु ।
तहिं तियसहं णिसुणिवि वयणगइ ।
इहु आयउ कुद्धं अजायरुइ । 10
चित्तेण असेसु परिक्खियउ ।

घत्ता—एउ वयणु णिसुणेप्पिणु
वंदिवि जिणवरसासणु

पक्खें रोसु मुएप्पिणु ॥
कयउं बिहिं मि संणासणु ॥ १७ ॥

18

वेणिण वि सुरूवअइरूववर
णरणाहु तेहिं संमाणियउ
पइं रउरवि णिविडमाण धरिय
गय सुरवररापं दमवरहु
दुंदुहिरउ मणिकंचणवरिसु

सुररमणवणंतरि जाय सुर ।
पइं देवं धम्मु जगि जाणियउ ।
अम्हइं मि कुजोणिहि णीसरिय ।
कय भोज्जुत्ति संजमधरहु ।
सुरजयसरु पाउसु कयहरिसु । 5

17 १ A तो. २ AP पण्णकंति°. ३ A सोमहु. ४ AP पिउ. ५ A कुलिसंकरु. ६ A वायसुभोय°. ७ A कुद्ध व जायरुइ. ८ P णिसुणेप्पिणु.

18 १ AP धम्मु देव.

17 2 a णि वाणु एण नृपातुजेन दृढरथेन. 4 a पइं त्वया अनन्तवीर्येण सता दमितारिनृपस्य भृत्यो हेमरथो मारितः; पा इ य उ पदातिः. 5 b पण्ण कं तं पर्णकान्ता नाम नदी. 6 a वरेत्या दि वरा श्रीदत्ता कान्ता तस्या वशस्य. 10 a चा य सु भो य थु इ त्यागभोगस्तुतिः; b अ जा य रु इ अजातरुचिः.

18 1 a सुरूव अ इ रू वं सुरूपातिरूपनामानौ; b सुररमणवणंतरि देवारण्ये. 5 b पाउसु गन्धोदकवृष्टिः.

मरु सुराहियंगु मंथरु वहइ
पुणु णंदीसरि पोसहु करिवि
ईसाणसुरिदे वणिणयउ
वणिणउ कहु केरउं चरिउ पइं

घत्ता—ते^३ णियगुज्जु ण रक्खिउ
मइं संथुउ परमेसरु

जणु जणहु दाणु विलसिउ कहइ ।
थिउ पडिमाजोएं जिणु सरिवि ।
अण्णहिं देवहिं आयण्णियउं ।
को तुज्जु वि गरुयउ देवें सइं ।

सुरवररापं अक्खिउ ॥
सिरिमेहरहु महीसरु ॥ १८ ॥

10

19

तं णिसुणिवि देवि सुरुविणिय
जहिं अच्छइ राउ समाहिरउ
दोहिं मि गाढउ आलिंगियउ
दोहिं मि सुमहुरु संभासियउ
णीवीणिबंधु आमेल्लियउ
दोहिं मि सवियारु पलोइयउ
अचलत्ते अहिणवमंदरहु
तं बेणिण मि वंदेप्पिणु गयउ
अण्णहिं दिणि सुर चवंति जुवइ
ता भासइ ईसाणाहिवइ

घत्ता—ता देवय मणि कंपइ
रुवे मण्णइ माणवि

अणेक्क दुक्क अइरुविणिय ।
तहिं ताहिं तासु दाविउ समउ ।
दोहिं मि मुहचुंबणु मग्गियउ ।
दोहिं मि आहरणाहिं भूसियउ ।
दोहिं मि थणकलसहिं पेळियउ । 5
दोहिं मि उरुउप्परि दोइयउ ।
जं हियउ ण हित्तउ सुंदरहु ।
वंदारयघरिणु अवरियउ ।
णरलोइ अत्थि किं रूववइ ।
पियमित्तहिं केरी रूवगइ । 10

पुरहूयउ किं जंपइ ॥
आगय रइ रइसेण वि ॥ १९ ॥

20

अइंसणीहिं सुरकामिणिहिं
अब्भंगिउ अंगु मणोहरउं
बेणिण वि पुणु दारि परिट्टियउ
अक्खिउ कण्णइ कट्टियहरइ

जोइवि अइरावयगामिणिहिं ।
उग्घाडउं तुंगपयोहरउं ।
देविउं दंसणउक्कंठियउ ।
अच्छंति त्थुउं दारंतरइ ।

२ AP देउ. २ AP तं.

19 १ A समहुरु. २ AP पुरुहूअउ.

20 १ A सहंसणीहिं. २ P देविहिं. ३ AP तियउ.

6 b सुर हिं यंगु सुरमिताङ्गः; सुगन्धस्वरूप इति भाष्ये.

19 2 a समा हिरउ समाधिरतः; b दा वि उ समउ अवसरो दर्शितः. 5 a णी वी णि बंधु कटीवस्त्रबन्धनम्. 6 b उरउप्परि हृदयोपरि, वक्षसि. 8 b अ विरयउ अवरिते अन्ते द्वे. 11 b पुर-हूयउ देवेन्द्रः. 12 a माणवि मनुष्यस्त्री.

20 1 a अइंसणी हिं प्रच्छन्नाभ्याम्. 3 a दारि द्वारे.

किं खेयरीउ किं अच्छरउ तं ण्हाइवि जणमणसाहणउं सुरणारिउ पुणु पइसारियउ अवल्लोइवि शीणु रूवविहवु तेरउं सरूउ रूवहु ढल्लिउ	तुह दंसणमणउ अमच्छरउ । लहुं लइयउं ताइ पसाहणउं । माणवजणदूरोसारियउ । देवयहिं पवुत्तु ण किं पि धुवु । पुव्विल्लहि रेहहि परिगलिउ ।	5
घत्ता—ता रइसुहि णिव्विणी उम्मण दुम्मण थक्की	सा पियमित्त विसण्णी ॥ माणमरट्टे मुक्की ॥ २० ॥	10

21

तं पेक्खिवि गउ मणहरवणहु चउपव्वपयारि अणासयहं सावयअज्झयणु ण तं र्हइ विविहउ घरधम्मपवित्तिउ दढरहिण ण रज्जु समिच्छियउ सुउ मेहसेणु पच्छइ थविवि सहुं भाइइ सहसा लइउ तउ धीरहिं णिदियइंदियसिवहिं	राणउ पणविवि घणरहजिणहु । आउच्छइ वित्ति उवासयहं । सत्तमउ अंगु रिसिवइ कहइ । किरियाउ असेसउ उत्तियउ । णीसारु दुंगु दुगुंछियउ । मेहरहिं जिणवरु विण्णंवि वि । बारहविहु सोसिउ विसमभंउ । भयसमसहसहिं सह पत्थिवहिं ।	5
घत्ता—सिरिपुरि घरि सिरिसेणहु अंतयपुरि णिर्वणंदहु	भुंजिवि दिण्णसुदाणहु ॥ थाइवि अमराणंदहु ॥ २१ ॥	10

22

तहिं भत्तपाणगिद्धिइ रहिउ पइसिवि वणंगिरिवरकंदरइ	इच्छिवि णिच्छियमत्तासहिउ । फाणिविच्छियंघरि तरुक्कोडुरइ ।
---	---

४ A समच्छरउ. ५ A सुहणिव्विणी.

21 १ A हरइ. २ A विण्णिविवि; P वेण्णविवि. ३ A विसमतउ. ४ A णिवदाणहु.

22 १ AP भत्तु पाणु. २ A वणे गिरि°. ३ A विच्छियतरुगिरि°. ४ AP °कोडुरइ.

5 b अमच्छरउ मत्सररहिते. 9 b रेहहि शोभायाः. 10 रइसुहि रतिसुखे.

21 2 a चउपव्वयारि चतुःपर्वप्रकारे; अणासयहं अनाशानामुपोषितानाम्, अथवा कर्मा-
भवरहितानाम्; b उवासयहं श्रावकाणाम्. 3 a-b सावयअज्झयणु सत्तमउ अंगु उपासकाध्ययनं
सत्तममङ्गम्. 4 a घरधम्मपवित्तिउ अणुव्रतगुणव्रतशिक्षाव्रतानि; b किरियाउ एकैकरय व्रतस्य पञ्च
पञ्च भावनाः. 7 b विसमभउ संसारः. 8 a °इंदियसिवइं °इन्द्रियसौख्यानि. 10 a अंतयपुरि
दत्तपुरे इत्याषे; णिवणंदहु नन्दनराजगृहे.

22 1 a °गिद्धिइ रहिउ °आकांक्षारहितः; b णिच्छियमत्तासहिउ निश्चितमात्रासहितम्.
2 b °विच्छियं वृश्चिकः.

णिष्णासइ सँत्त वि सो भयइं
दिदु बंभचेरु णवविहु धरिउ
दहभेउ विकालु वि लक्खियउ
वारह अर्णुपेक्खउ चिंतवइ
अउदहगुणठाणइं अब्भसइ
परिभाविवि सोलहकारणइं

घत्ता—सहुं बंधवेण अणिदहु
दूसहणिट्टाणिट्टिउ

मयचिंधइं तहु अट्ट वि गयां ।
दहविदु जिणधम्मु परिप्फुरिउ ।
एयारह अंगइं सिक्खियउ । 5
तेरहँ चारित्तइं थिरु थवइ ।
पण्णारहविदु पमाय पुसइ ।
तित्थयरत्तणहकारणइं ।

गउ णहतिलयगिरिंदहु ॥
तहिँ अणसणिण परिट्टिउ ॥ २२ ॥ 10

23

हियउल्लउं मुणिमग्गेण णिउ
जइपुंगम घणरहरायसुय
सव्वत्थासिद्धिसुरैहरि धवल
तेत्तीससमुंइजीवियपवर
तइ वरिससहासइं लेँति खणु
जगणाडिपल्लोयणाणधर
ते णिप्पडियार पसण्णमइ
रिज्झंति धम्मसंभासणइं
केवलि उप्पण्णइ जिणवरहं
सहुं भायरेण अहमिंदु सुरु

घत्ता—गोत्तमेण जं अक्खिउ
जं सुहु सोत्तहिँ माणइ

पाउंगमरणु मासंतु किउ ।
मैय बेणिण वि ते अहमिंद हुय ।
करमेत्तदेह वरमुहकमल ।
तेत्तिय जि पक्ख णीसासधर ।
आहारु वि चिंतिउ सुहँमु अणु । 5
तेत्तियवीरियविकिरियकर ।
कत्थइ णउ ताहं विर्यारइ ।
कत्थइँ मुयंति सीहासणइं ।
भुवि जाइजराजम्मणहरहं ।
जाणंतु तच्चु पर्णमंतु गुरु । 10

जं भरहेसँ लक्खिउ ॥
पुप्फयंतु तं जाणइ ॥ २३ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे मेहरहतित्थयरगोत्ताणिबंधणं
णाम दुसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६२ ॥

५ AP सो सत्त वि भयइं. ६ AP अणुवेक्खउ. ७ P तेरह वि चरित्तइं थिरु थरइ.

23 १ A पाउवगमणु. २ AP मुय. ३ A ०हरधवल. ४ AP ०जलहिं. ५ A सुहुमु.
६ AP विहारइ. ७ A कत्थइ ण मुयंति. ८ A पणवंतगुरु.

3 b मय चिंधइं मदस्य लक्षणानि. 5 a दहभेउ वि कालु दशवैकालिकं यतीनामाचारशोपनिरूपकम्.

23 2 a घणरहरायसुय तीर्थकरपुत्रौ. 3 a धवल उज्ज्वलशरीरौ; b करमेत्तदेह एक-
हस्तमात्रशरीरौ. 5 a तइ तावन्मात्रम्. 6 b तेत्तिय० जगन्नाडीपर्यन्तम्. 8 a रिज्झंति ऋद्धि गच्छन्ति.
12 a सोत्तहिँ कर्णाभ्याम्.

छम्मासइं आउससेसइं थियइं जाम अहमिंदहु ॥
ता रम्मइ तहिं सोहम्मइ जाय चित तियसिंदहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

जिणवरण्हवणण्हवियगिरिमंदरु
कुंजरकरताडियसीयलजलि
णवखरदंडसंडमंडियसरि
सीमारोमगामरमणीयइ
गंधसालिकैणसुरहियपरिमलि
दिब्बुज्जाणविडविणिवडियफल्लि
हत्थिणयरु तहिं मंडलि छज्जइ
सग्गे सरिसउ अप्पउ मण्णइ
अजियसेणु तहिं पडु पियवाइणि
बंभक्कप्पचुउ वइरिविमइणु
सुणि गंधारदेसि गंधारइ
तहिं णरणाहु णाम अजियंजउ

धणयहु अक्खइ देउ पुरंदरु ।
सिसिरकिरणविलसियणीलुप्पलि ।
दसदिसु गुमुगुमंतमयमहुयरि । 5
दीणाणाहदिण्णतवणीयइ ।
कीरकुररकलहंसीकलयलि ।
जंबूदीवि भरहि कुंरुजंगलि ।
तूरहं सहें णं गलगज्जइ ।
घरसिहरहिं हरइ व तिजगुण्णइ । 10
तहु पियदंसण णामे पणइणि ।
वीससेणु उप्पणउ गंदणु ।
पुरि पंडुरघरि पुहईसारइ ।
अजियंदविवल्लहु परदुज्जउ ।

घत्ता—तें राएं सुहिअणुरापं णिरु भल्लारउं भाविउं ॥

15

अइरा सुय णवकिसलयभुय वीससेणु परिणाविउ ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

बन्धः सौजन्यवार्धैः कविखलधिपणाध्वान्तविध्वंसभानुः
प्रौढालंकारसारामलतनुविभवा भारती यस्य नित्यम् ।
वल्काम्भोजानुरागक्रमनिहितपदा राजहंसीव भाति
प्रोद्यद्गम्भीरभावा स जयति भरते धार्मिके पुष्पदन्तः ॥ १ ॥

AP read बन्धुः in the first line for बन्धः, but K has a gloss सेतुः on it. P reads °भावः for °भावा in the third line.

1 १ AP °वियसिय°. २ A सीमागामराम°. ३ AP °कणपसरियपरिमलि.

1 4 b सि सिरकिरणविलसिय° चन्द्रविकसितानि. 5 a णवखरदंड° नवपद्मानि;
b मयमहुयरि °मदोन्मत्तमधुकरे. 9 a मंडलि देशे; छज्जइ शोभते. 11 a पियवाइणि प्रियवादिनी;
b पियदंसण प्रियदर्शनानाम्नी. 12 b वीससेणु विश्वसेनः. 15 तें राएं तेन राज्ञा अजितसेनेन.
16 अइरा इति नाम; णवकिसलयभुय कोमलभुजा.

2

एयहं होसइ धुवु तित्थंकरु
धणय धणय लइ तेरउ अवसरु
तं णिसुणिवि तें कमलदलक्खें
हरियउं मरगयतोरणमालहिं
कोमलगत्तइ मउलियणेत्तइ
णिहापंतिइ पुण्णपवित्तिइ
एरादेविइ दिट्ठुउ कुंजरु
सिरि दामाइं दोणिण विलुलंतइं
कुंभजुयल्लु झसजुयलउं कीलिरु
सीहासणु विमाणु अमैराणउं
रयणरासि सत्तच्चि वि जोइउ
गय सुंदरि सुविहाणइ तेत्तइ

सोलहमउ कंदप्पखयंकरु ।
करि पुरु मणियरहयदिवसेसरु ।
कंचणपट्टणु णिमिउ जक्खें ।
जलइ व पउमरायकरजालहिं ।
सउहयलइ पैल्लं कपसुत्तइ । 5
पच्छिमरत्तिइ गुणगणजुत्तिइ ।
पसुवइ केसरि खरणहपंजरु ।
ससिरविधिंबइं णहि उर्ययंतइं ।
सरवरु जलहि जलावलिचालिरु ।
भवणु फणिदहु तणउं पहाणउं । 10
मुहु धोइवि दप्पणु अवलोइउ ।
थिउ अत्थाणि णराहिउ जेत्तहि ।

घत्ता—सिविणंतरु णिहिलु णिरंतरु कंतइ कंतहु ईरिउं ॥
अवहीसें तेण महीसें तं फलु ताहि वियारिउं ॥ २ ॥

3

तुज्जु उयरि तेलोक्कपियारउ
रायंगणि लोएहिं वि दिट्ठुउं
हिरि सिरि बुद्धि कंति कित्ती सइ
भइवयहु भयसंखावासरि
जणणिहि मुहि पइट्टु गयवेसें
मेहरहेण तेण अहमिंदें
आय देव सयल वि पंजलियर
णवमासइं णिहित्तु चामीयरु
पल्लचउत्थि भाइ तइयसें

होसइ सिरिअरहंतु भडारउ ।
जा छम्मा सताम वसु वुट्टुउं ।
आगय घरु जिणगुणरंजियमइ ।
भरणिरिक्खि णिसिपरपहरंतरि ।
किउ गम्भावयारु परमेसें । 5
पुण्णपवणकंपावियइंदें ।
पुज्जिय सयण असेस वि सपियर ।
धणएं किउ पहुपंगणु पिंजरु ।
ऊणि तिसायरि गलियजमंसें ।

2 १ A तोरणदारहिं. २ P पल्लंकि पसुत्तइ. ३ AP अहरादेविइ. ४ A उवयंतइं. ५ P अमरालउ. ६ A सत्तच्चिय.

3 १ A चउत्थभाय°. २ A ऊणतिसायर°.

2 1 a एयहं विश्वसेनैरयोः. 2 b मणि यरहयदिवसेसरु मणिकिरणैस्तिरस्कृतादित्यम्. 4 b जलइ ज्वलति. 7 b पसुवइ वृषभः. 8 b उययंतइं उदयं प्राप्ते. 11 a सत्तच्चि सत्तार्चिरमिः. 14 वियारिउं विवेचितम्.

3 4 a भयसंखावासरि सप्तम्याम्; b °परपहरंतरि पश्चिमप्रहरे. 9 b गलियजमंसें गलितः संयमल्लेशो यस्मिंस्तत्र.

धम्ममहामुणिदेवजिणंतरि	चित्तौजुत्तमासपक्खंतरि ।	10
कालइ दिणि चउदहमइ जायइ	जामइ जोइ सुहंकरि आयइ ।	
पच्छिमसंझहि जणियउ मायइ	जिणु रेहइ णाणत्तयछायइ ।	

घत्ता—परावइ चडिवि सुरावइ सहसा पत्तु पुरंदरु ॥
सहुं देवहिं णाणारूवहिं अरुहु लेवि गउ मंदरु ॥ ३ ॥

4

इंदचंदखयरिंदर्फणिंदहिं	ण्हाणितउ तहिं वंदारयवंदहिं ।	
पुज्जित कुंदकुडयकणियारहिं	बउलतिलयचंपयमंदारहिं ।	
जणसंतीयरु संति भणेप्पिणु	तं गुरु सुरगिरिसिहरु मुएप्पिणु ।	
आणिवि भवणहु अप्पिउ जणणिहि	जिणवरसुरतरुसंभवधरणिहि ।	
हरि घरि पायंडणहु व पणच्चिउ	तेण ण को को किर रोमंचिउ ।	5
गउ सग्गहु पणविवि सक्कंदणु	कालें जाउ णाहु णवजोव्वणु ।	
कणयवणु णं बालपयंगउ	दह दह तैह दह दह धणुतुंगउ ।	
लक्खवरिसपरमाउ महामहु	दढरहु णाम अवरुहसयमहु ।	
वीससेणराएण रवणणउ	जसवइदेविहि सो उप्पणणउ ।	
णामें चक्काउहु पियतणुरुहु	छणसत्तावीसंजोयणमुहु ।	10

घत्ता—ते भायर चंददिवायरणिह परिणाविय तापं ॥
णिर्वकणणउ बहुलायणणउ जयजयपडहणिणापं ॥ ४ ॥

5

पंचवीसवरवरिससहासइ	वोलीणइ कुमरत्ति पयासइ ।
जेट्टहु अप्पिय धरणि णरिंदें	अप्पणु बद्धउ पट्टु सुरिंदें ।

३ A जिट्ठा^० but gloss चैत्रः; T चित्तजुत्तमास^० चैत्रः.

4 इ^० खयरिंदसुरिंदहिं. २ AP पायडु णडु व. ३ AP दह तह दह. ४ AP लक्खु वरिसु परमाउ. ५ A अवरु अहसयमहु. ६ A नृव^०.

10 b चित्तौजुत्तमासपक्खंतरि ज्येष्ठवदि चतुर्दश्याम्; सर्वो वैशाखः अर्धश्रैत्रः तदन्तरे ज्येष्ठकृष्णे इत्यर्थः. 11 b जामइ जोइ भरणीनक्षत्रे. 12 a पच्छिमसंझहि. निशात्यये इत्यार्थे. 13 सुरावइ शोभनशब्दे.

4 3 a जणसंतीयरु जनानां शान्तिकर्ता. 5 a हरि इन्द्रः; पायडणडु व सामान्यनटवत्. 7 b दहेत्यादि चत्वारिंशद्वर्षेषु तुङ्गत्वेन. 8 b अवरुहसयमहु अपरः अहमिन्द्रः, इन्द्रसदृश इत्यर्थः. 10 a चक्काउहु चक्रायुधः; b छणसत्तावीसंजोयणमुहु सत्तावीसंजोयणश्चन्द्रः कथ्यते, पूर्णचन्द्रमुख इत्यर्थः.

रञ्जु करंतहु देंतहु णियघणु
जइयहुं तइयहुं पुण्णविसेसं
चक्कु छत्तु असि पहरणसालहि
कागणि मणि उप्पण्णइं सिरिहरि
कण्णा गय तुरंग खगभूहरि
छंक्खंड वि महिवीदु पसाहिवि
पणवीसहसहस महि पालिवि

घत्ता— णिव्वेइउ णाहु पंसाइउ लोयंतिएहिं पबोहिउ ॥

अवमत्तउ इंदे सित्तउ रयणाहरणहिं सोहिउ ॥ ५ ॥

गलिय समासहास तेत्तिय पुणु ।
आयइं विट्ठइं तेण णरेसं ।
संभूयउं दंड वि सुविसालहि । 5
थवइ पुरोहु चमूवइ गयउरि ।
णवणिहि जलणिहिणइसंगमघरि ।
वितर सुर विज्जाहर साहिवि ।
दप्पणयलि णियवयणु णिहालिवि ।

10

6

थिउ सव्वत्थसिद्धि सिवियासणि
सिलहि णिसणो उत्तरवयणे
जेट्टहु मासहु सतिमिरपक्खइ
अवरण्हइ णिक्खवणु करंते
उप्पाइउ मणपज्जउ देवं
जो धम्मिल्लभारु आलुंचिउ
घल्लिउ णवर खीरमयरालइ
संजमु णिवसहसे पडिवण्णउ
गउ मंदरपुरु जिणु तवताविउ
महि विहरंतु मुणियसत्थत्थउ
संतु दंतु भयवंतु सरिसिगणु

घत्ता— णववत्तहु णंदावत्तहु तरुहि मूलि आसीणउ ॥

खंचियदुहु सुरदिंसिसंमुहु रिउमित्ते वि समाणउ ॥ ६ ॥

जाइवि तहि लहु सहसंबयवणि ।
कयपलियंके दीहरणयणे ।
दिवसि चउहसि भरणीरिक्खइ ।
छट्टुववासिण गुणवंते ।
किं ण होइ भणु संजमभावे । 5
सो सुरणाहे कुसुमे अंचिउ ।
चक्काउहुपमुहहिं तक्कालइ ।
वीयइ वासरि समसंपण्णउ ।
पियमित्तं राणं पाराविउ ।
सोलह वरिसइं थिउ छम्मत्थउ । 10
पुणु आयउ तं सहसंबयवणु ।

7

पूसहु मासहु
दहमदिणंतरि

सोक्खणिवासहु ।
सियपक्खंतरि ।

5 १ A असि पहरणु सालहि; P असि चम्भु वि सालहि. २ P गेहवइ दंडु वि. ३ AP
°संगमहरि. ४ A छक्खंडु. ५ AP पयासिउ.

6 १ A जिणतवताविउ. २ A विरहंतु. ३ AP णवपत्तहु. ४ A सुरदिसिमुहु.

7 १ A °दियंतरि.

5 3 b तेत्तिय पञ्चविंशतिवर्षसहस्राणि. 6 b गयउरि हस्तिनागपुरे. 7 b जलणिहिणइ-
संगमघरि गङ्गासागरसंगमस्थाने. 10 पसाइउ प्रसत्ति नीतः प्रसन्नोक्तः. 11 अवमत्तउ अप्रमत्तः
त्यक्तपरिग्रहो वा.

6 2 a उत्तरवयणे उत्तराभिमुखेन. 3 a सतिमिरपक्खइ कृष्णपक्षे. 7 a खीरमयरालइ
क्षीरसमुद्रे. 10 a मुणियसत्थत्थउ ज्ञातशास्त्रार्थः. 12 णववत्तहु नवीनपत्रस्य. 13 सुरदिसि-
संमुहु पूर्वाभिमुखः.

छद्मवासै	वियलियपासै ।	
दरसंझालइ	जाइ वियालइ ।	
कम्मं णिवाइउ	खणि उप्पाइउ ।	5
केवलदंसणु	दोसविहंसणु ।	
धुवें सिवमाणणु	केवलजाणणु ।	
कयमयविलपं	कुरुकुलतिलपं ।	
कासवगोत्तं	सुयसुइसोत्तं ।	
पत्तउं कित्तणु	सिरिअरुहत्तणु ।	10
दहविह वसुविह	अवर वि वयविह ।	
सुर सोलहविह	भूसणयरसिह ।	
गुणगणवत्तं	पंकयणेत्तं ।	
अइरापुत्तं	खमदमजुत्तं ।	
खाइयंभावं	संतिं देवं ^{११} ।	15
ते ^{१२} वंदंते	सुहुं ज्ञायंते ।	
पंजलिहत्था	पणवियमत्था ।	
भत्तिरसाला	विलुलियमाला ।	
घत्ता—मउ वज्जइ गेइ पडिवज्जइ पंचिदियइं वि दंडइ ॥		
पइ होंते मग्गु दिसंतं जणु संसारि ण हिंडइ ॥ ७ ॥		20

8

तओ कोसिएणं	जसेणं सिएणं ।	
कयं मुक्कडंभं	महामाणखंभं ।	
महाधम्मलंभं	महापंकयंभं ।	
महाखाइयालं	महापुष्फमालं ।	
महाधूलिसालं	महाणट्टसालं ।	5

२ AP जायवियालइ. ३ A कम्मणिवाइउ. ४ A धुउ; P धुव. ५ AP कयमलविलपं. ६ AP गणवंतं; AP add after this: ससहरवत्तं. ७ AP ०णत्तं. ८ AP ०पुत्तं. ९ A omits खमदमजुत्तं; P adds: दोसविचत्तं. १० AP ०भावं. ११ AP देवं. १२ A तं वंदंति; P तं वंदंते. १३ A सुहुं जोयंतं; P सुहुं जोयंतं. १४ A मइ.

8 १AP मुक्कदंभं.

7 4 b वियालइ संध्यायाम्. 5 a णिवाइउ निपातितम्. 7 b केवलजाणणु केवलज्ञानम्. 9 b सुयसुइसोत्तं श्रुतस्य शुचिः प्रवाहो यस्मात्. 10 a कित्तणु कीर्यते श्लाघ्यते इन्द्रादिभिरिति कीर्तनम्. 12 b भूसणयरसिह भूषणकिरणशिखाः 13 a गुणगणवत्तं गुणगणपात्रम्. 19 मउ मदः; गइ मुक्तिः.

8 1 b सिएणं श्वेतन.

महासाहिवंतं	महाकेउकंतं ।	
महावेइयम्मं	महार्थूहहम्मं ।	
महादेवछण्णं	महासाहुपुण्णं ।	
महारिद्धिरूढं	महासीहैपीढं ।	
महासोयैरत्तं	महासेयछत्तं ।	10
महाचामरिल्लं	महादुंदुहिल्लं ।	
महापुप्फवासं	महादिव्वभासं ।	
महादित्तिवंतं	महंतं पवित्तं ।	

घत्ता—पडिहारहिं णायकुमारहिं सेविज्जंतुं दयावरु ॥
गंभीरहिं हयजयतूरहिं समवसरणु गउ जिणवरु ॥ ८ ॥ 15

9

अक्खइ धम्मु कम्मु ओसारइ	सत्त वि तच्चइं जणहु वियारइ ।	
अट्टुह धराणिहिं माणु पयासइ	सग्गविमाणहं पंतिउ भासइ ।	
पायालंतरि भवणसहासइं	चलणिच्चलइं मि जोइसवासइं ।	
जीवकम्मपोग्गलपरिणामइं	कहइ भडारउ णाणाणामइं ।	
चक्काउहपहइ तहु गणहर	जाय छत्तीस विं जणमणहर ।	5
अट्टुसयइं पुव्वंगवियाणहं	रिसिहिं कट्टुतणकणयसमाणहं ।	
एकतालसहसइं वसुसमसय	सिक्खंसुदिक्खसिक्खपारंगय ।	
सहसइं तिण्णि अवहिणाणालहं	चउ केवलिहिं पि हियतमजालहं ।	
विकिरियावंतंहं छह भणियइं	मणपज्जवधराहं चउ गणियइं ।	
वाइहिं दोसहसाइं णिरुत्तइं	सयचउक्कु अगलउ पउत्तइं ।	10

घत्ता—हिरिसेणहि वर्यविहिखीणहि पायपोमथुरायइं ॥
णरमहियइं तिसंयहि सहियइं सद्विसहासइं जायइं ॥ ९ ॥

२ A °धूलहम्मं. ३ AP सीहवीढं. ४ AP महासोयवंतं. ५ A महादित्तदित्तं; P महादित्तिदित्तं.
६ A समवसरणगउ.

9 १ A अट्टमिधराणिहि; २ AP °विवाणहं. ३ A °परिमाणइं. ४ P जि. ५ A सिक्खयदिक्ख-
सिक्ख°. ६ A केवलिहिं पहयतम°; P केवलिहिं मि हयतम°. ७ A °वत्तहं. ८ AP °विहिलिणहि.
९ P तिसइं सहियइं.

6 a °सा हि वंतं °वृक्षयुक्तम्. 7 a महावेइयम्मं महावेदिकर्मरचनायुक्तम्. 13 a महादित्तिवंतं
भामण्डलयुक्तम्.

9 1 b वियारइ विचारयति.

10

झाणमोणणियमियणियमइयउ
लक्खइं दुइ सावयहं सल्लघहं
अरुहदासिपमुहाहं सुइत्तइं
देव असंख संख मृगकुलरुह
पंचवीससहसइं वोलीणइं
ह्मिडिवि महियलि धम्मु कहेप्पिणु
गिरिसंमेयारुहणु करेप्पिणु
जेट्टुचउहसिवासरि काँलइ
गउ जगसिहरहु संति भडारउ
सहुं चक्काउहेण तर्वरिद्धइं

पत्तियाउ भणियउ संजइयउ ।
सुरकित्तीपमुहहं णिव्विग्घहं ।
सावईहिं चउलक्खइं वुत्तइं ।
एकदुखुर गयवय जाया बुह ।
वरिसहं सोलहवरिसविहीणइं । 5
मासमेत्तु जीविउ जाणेप्पिणु ।
चरमसुक्क दियहेहिं धरेप्पिणु ।
भरणिरिक्खि धरणीमुहि विमलइ ।
देउ समाहि बोहि भवहारउ ।
णवसँहसइं रिसिणाहहं सिद्धइं । 10

घत्ता—सुविलेवणु घल्लिवि कुसुमइं मेल्लिवि पणविउ तहिं अग्गिदहिं ॥
मणि ईहिय सिद्धणिसीहिय णविय भरेण सुरिदहिं ॥ १० ॥

11

नृवु सिरिसेणु पुणु वि जो कुरुणरु
वज्जाउहु सुरवइ घणसंदणु
दरिसउ मज्झु सयलु सयलायरु
देवि अर्णिदिय कुरुँणरु माणउ
अमयासउ अणंतवीरिउ हरि
मेहणाउ पडिहरि सहसाउहु
पुणु सव्वत्थासिद्धि परमेसरु
संति भंति विहुणेवि महारी

देउ खयरु सुरु हलि पवरामरु ।
सव्वत्थाहिवु अइरहि णंदणु ।
होउ पडंतहु लहु लगणतरु ।
सुरु सिरिविजउं महीयलराणउ ।
णारउ जोइयवइतरणीसरि । 5
कप्पणाहु दढरहु पहसियमुहु ।
चक्काउहु सुहुं देउ रिसीसरु ।
करउ कसायसंति गरुयारी ।

घत्ता—भरहेसरु जियसरु मुणिपवरु जहिं गउ जिण तुहुं तेत्तहि ॥
मइं पावहि सिद्धालयमहि पुष्पयंतरुइ जेत्तहि ॥ ११ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे संतिणाहणिष्वाणगमर्ण
णाम तिसट्ठिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६३ ॥

10 १ P सल्लघहं. २ P णिव्विग्घहं. ३ A सुवत्तइं. ४ AP मिग°. ५ A बहलइ. ६ AP गुणरिद्धइं. ७ A णवसयाइं. ८ AP कालायरु घल्लिवि सुरतरु दिण (णण ?) अग्गि अग्गिदहिं.

11 १ AP णिउ. २ A विजाउहु. ३ P कुरुतणुमाणउ. ४ AP सिरिविजउ महियलि. ५ AP पुष्पदंत°.

10 1 a °णियमियणियमइयउ °नियमिता बद्धा निजमतिर्याभिः. 3 a सुइत्तइ सुचित्तानि. 4 b गयवय गजपदा ज्ञानव्रता वा. 9 b देउ ददातु.

11 2 a घणसंदणु मेघरथः 6 a पडिहरि अच्युते प्रतीन्द्रः; b कप्पणाहु इन्द्रः. 9 जियसरु जितस्मरः. 10 पुष्पयंतरुइ चन्द्रादित्यसदृशी दीप्तिर्यत्र.

जिणगिरिपवरहु णीसरिय बारहंगपाणियसरि ॥
पुव्वमहण्वगामिणिय पणवेप्पिणु वाईसरि ॥ धुवकं ॥

1

जो भुवणि भणित छट्टु गिराउ
जो इंदियकूराहिहिं विराउ
जो ण मरइ ण हवइ कालएण
घणमणतिमिरेँ अलिकालएण
जो णग्गु णिरंजणु लुक्कवाळु
जेँ वुत्तु अहिंसावित्तिसुत्तु
जो दांसियसासयपरममोक्खु
जो तिउरडहणु जियकामदेउ
जेँ रक्खिउ सणहु वि जीउ कुंथु
पणु कहमि कहंतरु दिव्वु तासु

जो हियवएण णिञ्जु जि गिराउ ।
जो सत्तारहमउ जिणु विराउ ।
जो को जाणिजइ कालएण । 5
ण समंकिउ जो कंकालएण ।
जो ण करइ करि कत्तियकवाळु ।
जो गणिवि णं याणइ अक्खसुत्तु ।
णउ करइ पिणाएँ कंडमोक्खु ।
पहु परमप्पउ देवाहिदेउ । 10
सो वंदिवि रिसिपरमेट्टि कुंथु ।
दालिदुक्खदोहगणासु ।

घत्ता—एत्थु जि जंबूदीववरि पुव्वविदेहि महाणइ ॥

णामेँ सीय सलक्खणिय तं को वण्णहुं जाणइ ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

आखण्डोडुमरारवोडुमरुकं (?) चण्डीशमाश्रित्य यः
कुर्वन्कामकाण्डताण्डविधि डिण्डीरपिण्डञ्छविम् ।
हंसाडम्बरमुण्डमण्डललसद्गागीरथीनायकं
वाञ्छन्निथमहं कुनूहलवती खण्डस्य कीर्तिः कृतेः ॥ १ ॥

P reads °डमरारुचण्डमरुकं; P reads चण्डीसमासत्य; K reads चण्डीसमासत्य. P reads कुर्वत्काम°; A reads कुर्वत्कीड°; P reads °छवेः. A reads डिण्डमण्डल°. P reads कृते. K has a marginal gloss on the stanza: अखण्ड एव आखण्डः, उडुमरो भयानकः, आरव-शब्दः तेन युक्तं उडुमरुकं वाद्यं यस्य हरस्य तम् । अकाण्ड° अप्रस्तावेन । रुद्रमाश्रित्य या कीर्तिर्वर्तते इत्य-ध्याहार्यम् । रुद्रादप्यहं अतिशयेन निर्मला इति भावार्थः । कृतेः काव्यस्य. The stanza, all the same, is not clear.

1 १ A जो जाणिजइ इह कालएण. २ A अइकालएण. ३ A चमंकिउ. ४ A लुवकवाळु. ५ AP कत्तियकराळु. ६ A omits this foot. ७ P ण जाणइ. ८ P जंबूदीव वरि.

1 1 a °सरि नदी. 3 a णिराउ चक्रवर्ती; b णिराउ निर्गतारागः. 4 a विराउ पक्षिराजो गरुडः; b विराउ विशिष्टः शब्दः 5 b को ब्रह्मा परमज्ञानम्. 6 a °मणतिमिरेँ ज्ञानदर्शनावरणेन; अलिकालएण भ्रमरवत्कृष्णेन; b समंकिउ चिह्नितः; कंकालएण मृगकलेवरेण. 8 b अक्खसुत्तु जपमालाम्. 9 b कंडमोक्खु बाणमोक्षम्. 11 a सणहु सुक्ष्मः.

2

तहि दाहिणतीरइ वच्छेदेसि
 सोहिल्लसुसीमाणयरि रम्मि
 सीहरहु सीहविक्रमु महंतु
 अणुहुंजिवि भोउं सुदीहकालु
 णिवंडंत णिहालिय तेण उक्क
 जइवसहहु पासि हयत्तिपहि
 प्यारहंगधरु सीलवंतु
 तिणिं कणि सच्चित्ति णउ चरणु देइ
 बंधिवि तित्थंकरणामकम्म
 पत्तउ पंचाणुत्तरविमाणु
 छम्मास परिट्टिउ आउ जाम

डिंडीरपिंडपंडुरणिवासि ।
 अणवरयमहारिसिकहियधम्मि ।
 णरवइ णियारिकुलबलकयंतु ।
 जोयंतें कहि मि णहंतरालु ।
 संसारिणि रइ णीसेस मुक्क । 5
 पावइयउ सहुं बहुखत्तिपहि ।
 वणि णिवसइ रुक्खु व अणलवंतु ।
 वयविहिअजोग्गु दिण्णु वि ण लेइ ।
 मउ उवरिमिल्लु ससिबिबसोम्मु ।
 भुंजिवि तेत्तीसजलणिहिपमाणु । 10
 वइसवणहु कहइ सुरिंदु ताम ।

घत्ता— दीवि पहिल्लइ पविउलइ भरहि देसु कुरुजंगलु ॥

गयउरि माहिवइ तहिं वसइ सूरसेणु जंगमंगलु ॥ २ ॥

3

कुरुकुलरुहुं सिरिजयसिरिणिकेउ
 सिरिकंत कंत कमणीयरुय
 णरणाहहु सा वल्लहिय केव
 पयहुं दोहं मि होही ण भंति
 करि पुरवरु घरं णंदणवणालु
 तं णिसुणिवि धणणं तं विचित्तु
 पवणुद्धेयपहकप्पूरफंसु
 पासायचूलियालिहियमेहु

कासवगोत्तं भूसिउ सुतेउ ।
 सुरखयरणियंबिणितिलयभूय ।
 सुवियहुहु वरकइवाणि जेव ।
 जिणु कुंथु णाम केवलि कहंति । 5
 पुज्जिज्जइ भत्तिइ सामिसालु ।
 किउ णयरु कणयमाणिक्कदिनु ।
 सरंसरिनीरंतररामियहंसु ।
 गयणुंगयसुरहियधूमरेहु ।

घत्ता— सुहुं सुत्ती रयणिहि सयणि बालहंसगंयगामिणि ॥

पच्छिमजामइ सोलह वि पेच्छइ सिविणय सामिणि ॥ ३ ॥

2 १ A भोय. २ AP णिवडंति. ३ A तणे. ४ A दिणणउ ण लेइ. ५ AP जयमंगलु.

3 ३ A °कुलरुहजयसिरिसिरी°. २ A सुकेउ. ३ AP णरणाहहु तहु वल्लहिय. ४ AP घर.
 ५ A पवणुद्धयपंकयरयविमीसु; P पवणुद्धयपहकप्पूरफंसु. ६ AP सरिसर°. ७ A गयणमाय°. ८ P
 धम्मरेहु. ९ A सुहसुत्ती. १० P °गइगामिणि.

2 ३ b °कयंतु यमः. 6 a हयत्तिपहिं हतार्तिभिः. 7 b अणलवंतु अलपन् मौनवान् अब्रु-
 वाणः. 8 a तिणि तृणे; b °अजोग्गु अयोग्यम्. 11 b वइसवणहु धनदस्य.

3 1 a °कुलरुहुं °कुलोत्पन्नः. 3 b सुवियहुहु चतुरस्य. 5 a करि त्वं कुरु.

4

घारणं मयालीणलुण्णयं
 केसरिं गलालंबिकेसरं
 उगगयं हिमंसुं^३ दिणेसरं
 सायकुंभकुंभाण संघेडं
 खीरवारिरासिं महारवं
 मंदिरं सुराणं विहावियं
 मेलयं मणीणं विचित्तयं
 राइछेयए संविउद्धिया
 रत्तियाविरामे णियच्छियं
 कहइ तीइ तिस्सा फलं पई
 इंदचंदणाइंदवंदिओ
 चक्कवट्टि भोत्तूण भूयलं

गोवइं खुंरुभिण्णवण्णयं ।
 गोमिणी सुमालाजुयं वरं ।
 रत्तमीणजुम्मं रईसरं ।
 पंकयायरं लच्छिपायडं ।
 विट्टरं सकंठीरयं णवं । 5
 णायगेहमहिरायसेवियं ।
 झत्ति धूमकेउं पलित्तयं ।
 सा णिवस्स वज्जरइ मुद्धिया ।
 दंसणावलं कयसुहच्छियं ।
 होहिर्हा तुहं सुउ महामई । 10
 दिव्वणाणि णिज्जियमणिदिओ ।
 पाविही पयं परमणिक्कलं ।

घत्ता—तं णिसुणिवि संतुंइ सइ आइय मंदिरु मीणइ ॥

बुद्धि लच्छि सिरि कंति हिरि दिहि कित्ति वि लीलागइ ॥ ४ ॥

5

कय धणपं दरिसियसुयणतुट्टि
 सावणमासंतरि कसणपक्खि
 कत्तियणक्खत्ति णिसाविरामि
 सीहरहु राउ अहमिंदु देउ
 वणवासहिं घल्लियकब्बुरेहिं
 गइ संतिणाहि मलदोसहीणि
 वइसाहमासि पडिवयहि दियहि

लुम्मासु जाम ता रयणंबुट्टि ।
 दहमइ दिणि माणवजणियसोक्खि ।
 थिउ गग्भि भडारउ पउरधामि ।
 वण्णिज्जइ किं णिव्वाणहेउ ।
 थुउ इंदपडिदाइहिं सुरेहिं । 5
 पल्लोवमद्धि सायरि वि खीणि ।
 अग्गेयजोइ णरणाहपियहि ।

4 1 A खुरविमिण्ण°. २ AP गोमिणि. ३ A हिमेसुं. ४ P संघणं. ५ A मेलयं विचित्तं मणीणयं. ६ AP तुहं सुओ पहीही महामई. ७ A संतुइमइ.

5 १ A रयणविद्धि. २ AP कित्तिय°. ३ A वइसाहमासि पडिवयह दियहि; P वइसाहमासि सेयपडिवयहि दियहि.

4 1 b खुंरुभिण्णवण्णयं खुरैर्भिन्नवप्रम्. 3 b रईसरं क्रीडापरम्. 4 a संघेडं युग्मम्; b लच्छिपायडं लक्ष्म्या प्रकटम्. 6 a विहावियं दृष्टम्. 7 a मेलयं राशिम. 8 a राइछेयए रजन्यवसाने. 11 b णिज्जियमणिदिओ निर्जितचित्तेन्द्रियः. 13 मीणइ मेनका देवाङ्गना.

5 3 a कत्तियणक्खत्ति कृत्तिकानक्षत्रे. 5 a वणवासहिं व्यन्तरैः; घल्लियकब्बुरेहिं पातितसुवर्णैः. 6 b सायरि साकारके लक्ष्मीकारके इत्यर्थः. 7 b अग्गेयजोइ कृत्तिकानक्षत्रे; णरणाहपियहि श्रीकान्तायाः.

जायँउ जिणु कयतइलोकखोहु
णिउ सुरगिरिसिरु सुरणाहणाहु

सुरवइ संपत्तु ससुरवरोहु ।
णाणत्तयसलिलवरंभवाहु ।

घत्ता—सिंचिवि खीरघडेहिं जिणु अंचिउ णवसयवत्तहिं ॥
इंदे रुंदाणंदयरु जोइउ दससयणेत्तहिं ॥ ५ ॥

10

6

वंदिवि पुणु णामु केहिवि कुंथु
पुरु आविवि जणणिहि दिण्णु बालु
पोढत्तभावि थिउ कणयवण्णु
पहु पंचतीसघणुतुंगकाउ
तेवीससहसवरिसइं सयाइं
चरणंभोरुहणैमियामरासु
पुणु तेत्तिउ मंडलियत्तणेण
जइयहुं परिछिण्णउ कालु दीहु
गउ कहि मि वणंतरु रमणकामु
मत्तंडचंडकिरणइं सहंतु

लंघेप्पिणु दीहरु पवणपंथु ।
गउ सग्गहु हरि सुंरचक्कवालु ।
कंतीइ पुण्णचंदु व पसण्णु ।
सिरिलंछणु जयदुंदुहिणिणाउ ।
सत्तेव सपण्णासइं गयाइं ।
णियवालकलिलालाइ तासु ।
तेत्तिउ जि चक्कपरियत्तणेण ।
तइयहुं परमेसरु पुरिससीहु ।
दिट्टउ रिसि तेण तवेण खामु ।
दुंम्मुक्कजम्मविलसिउ महंतु ।

5

10

घत्ता—सो तज्जणियइ दंसियउ मंतिहि तेण णरिंदे ॥
जोयहि दुच्चरु तवचरणु चिण्णउं एण रिसिंदे ॥ ६ ॥

7

छड्डिवि कुंडंबु कुविडंबु सव्वु
वणि पइसिवि णिहसिवि इंदियाइं
चंगउ ववसिउ जइपुंगमेण
तं णिसुणिवि मंतें वुत्तु एम
जाएसइ कहिं णिम्मुक्कगंथु
जाएसइ तहिं जहिं भूयगामु

छड्डिवि कुलवलु छलमाणगवु ।
अवगणिवि दुज्जणणिंदियाइं ।
लइ हउं मि जामि एण जि कमेण ।
एयइ णिट्टइ तउ करिवि देव ।
तं णिसुणिवि भासइ देउ कुंथु ।
णउ पहवइ लोहु ण कोहु कामु ।

5

४ AP जायउ जिणिंदु तेलोकखोहु.

6 १ AP करिवि. २ A सरु चक्कवालु. ३ AP^०णविय^०. ४ AP दुक्कजम्म^०. ५ A दुद्धर.

7 १ A कुडंबु.

9 b^०वरंभवाहु वरमेघः.

6 2 b सुरचक्कवालु देवसमूहपालकः. 4 b सिरिलंछणु श्रीवत्सलाञ्छनः. 7 b चक्कपरि-
यत्तणेण चक्रित्वेन. 10 a मत्तंड^० मारतण्डः सूर्यः; b महंतु मध्नन्. 11 तज्जणियइ अप्राञ्जल्या.

7 1 a कुविडंबु कुत्सितविडम्बनम्. b छलमाणगवु शत्रुवञ्जनम्. 2 a णिहसिवि निघृष्य,
जित्वेत्यर्थः.

जाएसइ तर्हि जर्हि हेमकंति
हो हउं मि पवञ्चमि तेत्थु तेम
घरु आवेप्पिणु ससरासईहि
अहिसेउ विरइउ पुरंदरेण

घत्ता—सिवियहि तेणारुहणु किउ विजयहि विजयपयासहि ॥

णाणामणिसिहरुज्जलहि लग्गखगाहिवतियसहि ॥ ७ ॥

गउ परमप्पउ परमेट्टि संति ।
ण णियत्तमि काले कर्हि मि जेम ।
ता पडिबोहिउ सुरवरजईहि ।
कुलि णिहिउ सतणुरुहु जिणवरेण । 10

8

वणि विउलि सहेउयरुक्खणीलि
दिणि तम्मि चेय विच्छुलियपंकि
वैउ लइउ लइवि छट्टोववासु
संसारि सणेहु ण किं पि बडु
बीयइ दिणि दिणयरकयपयासि
गयउरि दाविउ आहारु चारु
अमरहिं घल्लिय मंदारयाइं
सोलहवरिसई तउ तिव्वु चरिवि
दिक्खावणि पत्ति चइत्ति मासि
कयछट्टे तिलयतलासिएण
अप्पेणप्पाणउं मुणिउं तेण
पैरिजाणिउं तिजगु अणंतु गयणु

णियजम्ममासपक्खंतरालि ।
कित्तियणक्खत्तासिइ ससंकि ।
तें सहुं पव्वइयउं णिवसहासु ।
मणपज्जउ णाणु जिणेण लद्धु ।
परिभमइ णाहु णरवासवासि । 5
थिउ धम्ममित्तघरि हयवियारु ।
विहियइं पंच वि अच्छेरयाइं ।
भवभामिरु दुक्कियभाउ हरिवि ।
चंदिणि तइयइ दिणि सुहणिवासि ।
खणि खीणकसापं जससिएण । 10
उग्गमिपं णाणे केवलेण ।
जायउ सजोइजिणु अचलणयणु ।

घत्ता—दिव्वंबरदिव्वाहरणइं सुर णमंति चउपासहिं ॥

पुणु वि पुरंदरु अवयरिउ णाणाजाणसहासहिं ॥ ८ ॥

9

थिओ समवसरणि
जिणो विहियकरुणो

सया विउससरणि ।
हयावरणमरणो ।

२ A सुसरासईहि; KT record: 'सुसुहासईहि इति पाठे अतीव शोभनभाषिभिः.

8 १ AP °रुक्खमूलि. २ A विच्छलिय°. ३ AP वउ. ४ A गृवसहासु. ५ P पर जाणित.

8 b ण णियत्तमि पश्चान्नागच्छामि. 9 a ससरासईहि स्ववाण्या. 11 विजयहि विजयानाम्भ्यां शिबि-
कायाम्; विजयपयासहि विजयप्रकाशिन्याम्.

8 2 a विच्छुलियपंकि निर्मले; b कित्तिय° कृत्तिका. 5 b णरवासवासि गृहे गृहे.
6 a आहारु चारु चर्यामार्गः. 9 b चंदिणि शुक्ले. 10 a तिलयतलासिएण तिलकवृक्षमूलाश्रितेन.

9 1 b विउससरणि विदुषां शरणे.

समुद्धरइ समयं	णया हरइ कुमयं ।	
मुसावयणमुइयं	पसूहणणरुइयं ।	
जणं करइ विमयं	पहे थवइ दुमयं ।	5
मलं महइ कसणं	घणं दमइ वसणं ।	
फणीसुरनृभवेणं	फुडं कहइ भुवणं ।	
चलं खलइ कविलं	हरं हसणमुहलं ।	
तणूणिहियमहिलं	महीधरणसबलं ।	
बला विणिहयपुरं	हरिं भणइ ण वरं ।	10
मुणिं कणयचरणं	ण तं तिमिरहरणं ।	
खणाभावविगयं	ण पत्तियह सुगयं ।	
अयं अमरतरुणी-	रयं णमइ ण गुणी ।	
परं रिसहचरियं	मैहोपसमभरियं ।	
जिणा किमवि गहियं	मणे अहव महियं ।	15
णं सो पडइ गहिरि	णरो णरयविबरि ।	

घत्ता—पंचतीस गणहर जिणहु जाया हयरयसंगहं ॥

भयसयाइं दिव्वहं रिसिहिं मणमाणियपुव्वंगहं ॥ ९ ॥

10

चालीस तिणिण सहसाइं होंति	सहुं अद्धसपं सउ तहिं ण भंति ।	
एत्तिय सिक्खुय सिक्खाविणीय	गुरुभत्तिवंत संसारभीय ।	
दोसहसइं पंचसयाइं ओहि-	णाणिहिं केवलिहिं ति दोणिण लेहि ।	
पंचेव सहस सउ एक्कु ताहं	महरिसिहिं विउव्वणरिद्धि जाहं ।	
दोसहसइं पण्णासाहियाइं	गुणवंतहं वाइहिं साहियाइं ।	5
सहसाइं तिणिण तिणिण जि सयाइं	मणपज्जववंतहं गयमयाइं ।	
सहसाइं सट्ठि आहुट्टसयइं	अज्जियहं तेत्थु थुयकुंथुपयइं ।	

9 AP °सुरणिभवणं. 2 A विणिहयपरं. 3 A महापसम°. 4 P omits ण. 5 AP हय-
रइसंगहं. 6 AP मणि माणिय°.

10 1 A केवलिहि वि दोणिण.

3 a समयं जिनशासनम्; b णया नयात्. 4 a मुसावयणमुइयं असत्यभाषणेन मुदितं (जनम्).
5 a विमयं मदरहितम्; b दुमयं दुर्मदं दुर्मतं वा. 6 a कसणं कुत्सनम्. 8 a खलइ कविलं
कपिलमतं खलयति; b हसणमुहलं हास्यमुखरम्. 10 a विणिहियपुरं स्थापितद्वारवतीम्. 11 a
कणयचरणं अक्षपादम्. 12 a खणाभावविगयं क्षणेन आत्मनोऽभावस्तत्र विशेषेण गतं प्राप्तम्.
क्षणभङ्गवादिनमित्यर्थः. 13 ab अमरतरुणीरयं देवस्त्रीरतम्. 15 a जिणा येन; किमवि स्वल्प-
मपि; b महियं प्रशंसितम्.

10 7 a आहुट्ट अर्धचतुर्थ°.

सावयहं लक्ख दो तिण्णि लक्ख
संखेज्ज तिरियगणु णहकरालु
तेत्तिउ सोलहवरिसूण कालु
गउ संमेयहु सम्मयगुणालु
पडिमाइ परिट्टिउ मासमेत्तु

सावइहिं ण याणमि देव संख ।
जेत्तिउ होइवि थिउ चक्कवालु ।
महि विहरिवि हयणरमोहजालु । 10
तं^३ सुक्कझाणु पूरिउ विसालु ।
रिसिसहसें सहं णिम्मुकुगत्तु ।

घत्ता—वइसाहहु सियपडिवइ जामिणिमुहि णिहयक्खहु ॥

गउ जिणु सहसक्खें कित्तियउ कित्तियरिक्खे मोक्खहु ॥ १० ॥

11

कय तियसहिं तासु सरीरपुज्ज
भंभाभेरीदुंदुहिणिणाय
पयपणइपयासियदुरियदलणं
उव्वसिरंभाणच्चणरसिल्लुं^३
तुंवरुणारयसंगीयगेय
मालाविज्जाहरपिहियगयण
णवकमलकलसदप्पणसमेय
दूवंकुरदहिचंदणपसत्थ
सण्णाणि सुदंसणि विउलबुद्धि

सुरकिंकरकरहयविविहवज्ज ।
घणथणियामरमुहुमुक्कणाय ।
जैय जयहि जिणसर कम्ममलण ।
सयमहकरपंजलिघित्तफुल्लुं ।
विरइय जिणपडिविषाहिसेय । 5
मुणिघोसियणाणाथोत्तवयण ।
धवलायवत्तधयसंखसेय ।
वंसग्गविलंबियदिव्वत्थ ।
णिव्वाणपुज्ज महुं देउ सुद्धि ।

घत्ता— सुहुं कुंथु भडारउ देउ महुं वंदिउ भरहणरिंदिहिं ॥

सियपुप्फयंतउज्जलमुहहिं णामिउ फण्णिदसुरिंदिहिं ॥ ११ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे कुंथुचक्कहरतित्थयरणिव्वाणगमणं
णाम चउसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६४ ॥

२ A सावयहं संख दो. ३ A omits this foot.

11 १ AP °दलणु. २ AP वरजलणकुमारणिहित्तजलणु. ३ A °रसिल्ल. ४ A °फुल्ल.
५ AP खेयरविसहरचंदहिं. ६ AP कुंथुचक्कवट्टित्थयरपुराणं.

9 a णहकरालु नखकरालो रौद्रः. 13 णिहयक्खहु अतीन्द्रियस्य.

11 3 a पयपणइ° पादप्रणतिः. 9 b सुद्धि कर्मक्षयः.

सुयदेवयहि पसत्थहि पसमियदुम्मइहि ॥
वंदिवि सिरेण सउव्वइं अंगइं भयवइहि ॥ धुवकं ॥

I

जो भयवंतो मुक्कसवासो	जं णीसासो सुरहियवासो ।	
जेण कयं उत्तमसंणासं	जो ण समिच्छइ चउसण्णासं ।	
जिणदिट्ठं पंचिदियणासं	जं पणवंतो पावइ णा सं ।	5
भीममुहा वग्घाइणवासा	जस्स गया दूरेण सवासा ।	
रक्खइ भुवणं जस्स खमा णं	णाणं जस्साणंतखमाणं ।	
जेणुवइट्ठं धम्मणिहाणं	संमियं चित्तं भिल्लणिहाणं ।	
जो जीवाणं जाओ ताणं	गुरुयणभत्ती जाणं ताणं ।	
अत्ताइणं वत्थुपयाणं	जो वत्तारो सव्वपयाणं ।	10
दिण्णं जेणं अभयपयाणं	सासयसिवणयरस्स पयाणं ।	
भयहंतारं धीरं हं तं	णमिउं देवं अरमरिहंतं ।	
तस्स भणामि चरित्तं चित्तं	जणियसुरासुरविसहरचित्तं ।	

घत्ता—जंबूदीवइ सुरगिरिपुव्वदिसासियइ ॥

पुव्वविदेहइ पविउलि केवलिभासियइ ॥ १ ॥

15

All Mss. have, at the beginning of this sam̐dhi, the following stanza:-

आजन्मं (?) कवितारसैकधिपणासौभाग्यभाजो गिरां

दृश्यते कवयो विलाससकलग्रन्थानुगा बोधतः ।

किं तु प्रौढनिरूढगूढमतिना श्रीपुष्पदन्तेन भोः

साम्यं विभ्रति (?) नैव जातु कविता शीघ्रं ततः प्राकृते ॥ १ ॥

AP read विशाल in the second line; A reads प्रौढनिगूढ° in the third line; and AP read कविना, A reads शीघ्रं तत प्राकृतैः, P reads शीघ्रं त्वतः प्राकृतेः in the fourth line.

1 १ A सम्मियचित्तं. २ A अत्ताइणं; P अत्थाइणं. ३ A तेणं. ४ AP वीरं.

1 सउव्वइं पूर्वयुक्तानि; भयवइहि भगवत्याः श्रुतदेवतायाः चतुर्दशपूर्वयुक्तानि एकादशाङ्गानि. 3 a °सवासो स्वगृहं वल्लं च; b णीसासो नृणां शासः शिक्षा यस्मात्; अथवा नृणां सा लक्ष्मीः सा स्वा निजा यस्य; नीसा वा मुकुटवद्धराजादयः स्वा निजा यस्य; सुरहियवासो सुरभितगन्धः. 4 a °संणासं सर्वसङ्गत्यागम्. b चउसण्णासं आहारादिसंज्ञासुखम्. 5 b णा पुरुषः; सं सुखम्. 6 a भीममुहा वेतालाः; वग्घाइणवासा व्याघ्रचर्मवस्त्राः; b सवासो प्रेतरक्षकाः पाशयुक्ता वा. 7 b अणंतखमाणं अनन्ताकाशप्रमाणम्. 8 b भिल्लणिहाणं भिल्लसदृशानाम्. 10 a अत्ताइणं आत्तादीनाम्; वत्थुपयाणं जीवादिवस्तुपदानाम्. 13 b जणिय... चित्तं जनिताश्रयम्.

2

सीयहि उत्तरकृलि रवण्णइ
खेमणयरि धणवइ पुहईसरु
णंदणाहतिथयरसमीवइ
अप्पउं तेण णिओइउं राएं
चत्तकुपंथं जाणियसत्थं
जाउ जयंताणुत्तरि सुरवरु
आउ तासु तेत्तीसमहोयहि
तप्पमाणविकिरियातेएं
भुंजंतहु सुहुं अहमिंदाणउं

कच्छाणामदेसि वित्थिण्णइ ।
रूवें रमणीसरु वम्मीसरु ।
बुज्झवि धम्मु णाणसंभावइ ।
समैणु हवेप्पिणु मणवयकाएं ।
किउ पाओवगमणु परमत्थं । 5
कायमाणु तहु पक्कु जि किर करु ।
लोयणाडि सो पेक्खइ सावहि ।
वीरिएण संजुत्तु अमेएं ।
आउहि थिउ छम्मासपमाणउं ।

घत्ता—सोहम्माहिउ भव्वहु जिणपयरयमइहि ॥ 10
ताहिं कालिहिं आहासइ सुरवइ धणवइहि ॥ २ ॥

3

पत्थु भरहि कुरुजंगलि जणवइ
राउ सुदंसणु तहु गुणजलसरि
पयहं दोहं वि होसइ जगगुरु
ता तं जाइवि जक्खें रइयउ
णिसि सुहुं सुत्तइ पियकमणीयइ
करि करोहु पंचाणणु गोमिणि
सफरुल्लय दो कलस सुहायर
सीहासणु विमाणु णायालउ
जायवेउ दीहरजालावलि

कुंजरपुरवरि मारुयधुयधइ ।
मित्तसेण णामेण घरेसरि ।
तुहुं करि ताहं तुरिउ कंचणपुरु ।
पट्टणु रयणकिरणअइसइयउ ।
सिविणयपंति दिट्ठ रमणीयइ । 5
मालाजुयलु चंडु णहयलमणि ।
विमलसलिलकमलायर सायर ।
मणिणउरुंबु मैऊहकरालउ ।
इय जोइवि ताए सिविणावलि ।

घत्ता—देविइ सुत्तविउद्धिइ अक्खिउ णरवइहि ॥ 10
तेण वि फलु विहसेप्पिणु भासिउ तहि सइहि ॥ ३ ॥

2 १ A बुज्झवि णाणु धम्मु. २ AP णिओविउ. ३ AP सवणु. ४ AP पायोगमरणु.
५ AP अहमिंदाणं. ६ A पवाणं; P पमाणं. ७ AP तहि जि कालि आहासइ.

3 १ AP तुरिउ ताहं. २ A सुहसुत्तइ. ३ AP मयूहं. ४ A विउद्धइ.

2 2 a धणवइ धनपतिनीम; b रमणीसरु स्त्रीणां स्वामी. 4 a णिओइउ प्रेरितः. 7 b
सावहि अवधिज्ञानयुक्तः. 8 a तप्पमाणं लोकनाडिप्रमाणेन; b अमेएं अमर्यादेन. 11 धणवइहि
धनदस्य.

3 1 b धुयधइ कम्पितध्वजे. 2 b घरेसरि गृहिणी. 5 a पियकमणीयइ प्रियस्य मनो-
ज्ञायाः, भर्तृचरणलीनाया वा. 6 a करोहु वृषभः; b णहयलमणि आदित्यः. 7 a सफरुल्लय मत्स्यौ;
b कमलायर पद्मसरः. 8 b मऊहकरालउ किरणयुक्तः. 9 जायवेउ अग्निः.

4

जो जाणइ तिहुंयणि पर अप्पउ
तं णिसुण्णिवि हरिसिय सीमंतिणि
कंति कित्ति सइ बुद्धि भडारी
जा छम्मास ताम घरि चंदिरु
फग्गुणि चंदविसुद्धहि तइयहि
थिउ गम्भंतरालि जो धणवइ
थुउ अमरिंदचंदधरणिंदहिं
बुद्धउं विसरिसेहिं वसुहारहिं
परिवट्टंतइ दिणसंतानइ
थक्कइ कुंथुणाहणिष्वाणइ
वैरमग्गसिरमासि सिसिरहु भरि

सो तुह सुउ होसइ परमप्पउ ।
आइय घरु सिरि दिहि हिरि कामिणि ।
गम्भसुद्धि कय सुहइ जणेरी ।
घत्तिउं जक्खें लोयाणंदिरु ।
णिसिपच्छिमसंझहि रेवइयहि । 5
सो अहमिंदु चवेप्पिणु सुहमइ ।
तहु दिव्वंसहु लग्गिावि जक्खिदहिं ।
अट्टारहपक्खंतरमेरहिं ।
वरिसकोडिसहसेण विहीणइ ।
पल्लच्चउत्थभायपरिमाणइ । 10
पूसजोइ चउदहमइ वासरि ।

घत्ता—सग्गमग्गसंखोहणु बुहयणदुरियहरु ॥

णाणत्तयसंजुत्तउ णासियजम्मजरु ॥ ४ ॥

5

सत्तमचक्कवाट्टि हयपरमउ
मंदेरसिहरि तूरणिग्घोसहिं
णामु करोप्पिणु परमेसहु अरु
गउ पोलोमीवइ णियमंदिरु
हेमच्छवितणु दहदहधणुतणु
एक्कवीसवरिसहं सहसइं सिसु
एक्कवीससहसइं मंडलवइ
चउदह रयणइं णव वि णिहाणइं
सारयब्भु पविलीणु णियच्छिवि
जीविउ देहु असारु वियप्पिवि

संभूयउ जिणु अट्टारहमउ ।
ण्हविउ पुरंदेरेहिं बत्तीसहिं ।
अम्महि करि अप्पिउ आविवि घरु ।
वड्डइ पुण्णवंतु जिणु सुंदरु ।
गरुयारउ गुणगणरंजियजणु । 5
लीलइ थिउ डिंभयकीलावसु ।
एक्कवीससहसइं पुणु महिवइ ।
भुंजिवि पीणिवि दविणें दीणइं ।
लच्छिविहोउ असेसु दुगुंछिवि ।
अरविंदहु महिरज्जु समप्पिवि । 10

4 १ AP तिहुवणु. २ P सुणिवि. ३ A खित्तउ; P घित्तउ. ४ A देवसहु; P दिवहहु.
५ AP परिवट्टंतइ. ६ AP दिणि. ७ P सियमग्गसिर^०. ८ A सिसिहरभरि; P सिसिरहे भरि.

5 १ K मंदिरसिहरि. २ P एक्कवीससहसहसइं.

4 1 a पर पुद्दलादिकम्. 3 b सुहइं जणेरी सुखोत्पादिका. 5 a चं दिरु कनकम्. 5 b
णि सि पच्छिमसंझहि प्रभातसंध्यायाम्. 8 a विसरिसेहिं अनुपमैः; b अट्टारहपक्खंतरमेरहिं नव-
मासान् यावत्. 11 b पूसजोइ रेवतीनक्षत्रे.

5 1 a हयपरमउ हतमिथ्यामतः. 4 a पोलोमीवइ इन्द्रः. 7 b महिवइ चक्री. 9 a
सारयब्भु शरत्कालाभ्रम्; b लच्छिविहोउ लक्ष्मीविभोगः. 10 अरविंदहु अरविन्दनाम्नः पुत्रस्य.

घत्ता—खीरवारिपरिपुण्णहिं तारहारसियहिं ॥
पहाइवि मंगलकलसहिं सुरपल्हत्थियहिं ॥ ५ ॥

6

णिसुणिवि सारस्सयसंबोहणु
करिवि सहेउयवणु तं जेत्तहि
मियसिरजुत्तमासि दहमइ दिणि
अवरण्हइ छट्टेणुववासं
लुंचिवि कुंतल णिमोहालउं
मणपज्जयधरु सुद्धिणिरिक्खहि
चक्कणयरि अवराइयणरवें
तहु घरि पंच वि चोज्जइं घडियइं
तवतावें णियतणु तावंतउ

वइजयंतसिबियहि आरोहणु ।
गउ तुरिण महापहु तेत्तहि ।
चंदिणि रेवइरिक्खि सुसोहणि ।
णिक्खंतउ सहुं रायसहासं ।
लिंगु असंगु लेवि णिच्चेलउं । 5
वीयइ दियहि पइट्टउ भिक्खहि ।
पाराविउ अमरासुरसुरवें ।
कुसुमइं रयणइं गयणहु पडियइं ।
सोलहवरिसइं महि विहैरंतउ ।

घत्ता—दिक्खावणु आवेप्पिणु कत्तियमासि पुणु ॥
सियवारहमइ वासरि सुरवरणवियगुणु ॥ ६ ॥

10

7

अवरण्हइ अंबयतलि थक्कउ
जायउ केवलि केवलदंसणि
धरणु वरणु ससि तरणि धणेरु
धुणइ अणयहिं थोत्तपउत्तिहिं
तेत्थु णिसण्णणु तं सिट्टउ
चउ णिरूवि अज्जीव पयासिय
मग्गणगुणटाणाइं समासिय
सत्तपंचणवछव्विहभेयइं

छट्टुववासिउ मोहें मुक्कउ ।
आयउ भेसइ अंगारउ सणि ।
पवणु जलणु भावेण सुरेसरु ।
समवसरणु किउ विविहविहत्तहिं ।
जं अवरैहिं मि देवहिं दिट्टउ । 5
रुविखंधेसाइ वि भासिय ।
जीव सकाय अकाय वि दरिसिय ।
एयइं अवरइं कहियइं णेयइं ।

6 १ A सारयस्स. २ AP तावंतहु. ३ AP विहरंतहु.

7 १ A भेसउ. २ AP अंगारय. ३ AP णीरूवि.

6 1 a सारस्सय^० लौकान्तिका देवाः. 3 a मियसिरजुत्तमासि मार्गशीर्षे; b चंदिणि शुक्रे. 5 a णिमोहालउ निर्मोहयुक्तम्. 6 a सुद्धिणिरिक्खहि शुद्धनिरीक्षायाम्. 7 a ^०णरवें नरपतिना राज्ञा; b ^०सुरवें शोभनशब्देन.

7 1 a अंबयतलि आम्रवृक्षतले. 2 b भेसइ वृहस्पतिः. 4 b ^०विहत्तहि ^०विभक्तिभिः. 6 a चउ णिरूवि चत्वारो रूपरहिता धर्माधर्माकाशकालाः. 8 b णेयइं प्रमेयाणि ज्ञेयवस्तूनि.

तहु संजाया तहिं मउलियकर गणहर तीस रिद्धिबुद्धीसर ।
 गणमि दहुत्तर वम्महदमणहं तिण्णि तिण्णि सय सिक्खुय सवणहं । 10
 घत्ता—पंचंतीससहसइं भणु अट्टसयइं कियइं ॥
 तीसणिउत्तइं जाणसु मुणिहिं वयंकियइं ॥ ७ ॥

8

एत्तिय ओहिणाणि तहु ह्यकलि दुसहस वसुसय साहिय केवलि ।
 जिणवरचरणुण्णामियसीसइं दोसहसइं पणवण्णविमीसइं ।
 मणपज्जयधराहं वरचरियहं चउसहसइं तिसयइं विकिरियहं ।
 सोलहसयइं परागमहारिहिं सट्टिसहासइं संजमणारिहिं ।
 सावयाहं पुणु लक्खु भणिज्जइ सुण्णचउक्क छडग्गइ दिज्जइ । 5
 लक्खइं तिण्णि गेहधम्मत्थहं माहिलहं मंगलद्व्वविहत्थहं ।
 संखावज्जिएहिं गिञ्वाणहिं खग्गमृगेहिं पुव्वुत्तयमाणहिं ।
 एक्कवीससहसइं धुत्तुं माणइं वरिसहं सोलहवरिसंविहीणइं ।
 भूयलि भमिवि भव्व पहि लाइवि मासमेत्तु णियजीविउ जोइवि ।
 सहं रिसिसहसे थिउ संमेयइ मुइवि दिव्वंतणु पडिमाजोयइ । 10
 फग्गुणपुरिममासि कसणंतिमि दियहि चंदि कयरेवइसंगमि ।
 पुव्वणिसागमि णिक्कलु जायउ गउ तहिं जिणु जहिं गयउ ण आयउ ।
 घत्ता—चउविहदेवणिकायहिं जयजयकारियउ ॥
 अरु अग्गिदकुमारहिं तहिं साहुंकारियउ ॥ ८ ॥

9

अरु अरविदगम्भकयचारउ अरु अरुहंतु अणंगवियारउ ।
 अरु अरमाणिहीहिं णउ रुच्चइ अरु अरहिल्लु तष्टु जगि सुच्चइ ।

४ AP समणहं. ५ P पंचवीस.

8 १ AP एत्तिय तीयणाणि; T तइयणाणि. २ AP °मिगेहि. ३ AP पुव्वुत्तपमाणहिं.
 ४ A जुयमाणइ. ५ A °वरिसइं हीणइं. ६ T चोइवि. ७ AP कलेवरु. ८ A कसणतमि. ९ AP
 सकारियउ.

9 १ AP जणि.

9 a रिद्धिबुद्धीसर पूर्वधराः. 10 a दहुत्तर तिण्णि तिण्णि सय दशोत्तरपदशतानि.

8 2 a °उण्णामियसीसइं उच्चामितमस्तकानि. 4 a परागमहारिहिं मिथ्यामतहारकाणां
 वादिनाम्. 9 a पहि लाइवि मोक्षमार्गे प्रेरयित्वा. 11 b कयरेवइसंगमि चन्द्रे कृतरेवतीसंगमे सति.

9 2 a अरमाणिहीहिं अरमा दारिद्र्यं निधिर्निधानं येषां तेषां दरिद्राणाम्; b अरहिल्लु
 प्रकटः; सुच्चइ भ्रूयते.

अरु अरसिल्लु अगंधु अरूअउ
अरु अरईरईहिं णउ छिप्पइ
अरु अरवें गुणेण संजुत्तउ
अरु अरैयाणिवासु अजरामरु
अरु अरुहक्खरेहिं जगि भाणुउ
सो संसारि भमंतु ण थक्कइ
अरु अरिहरु आवरणु महारउ

अरु अरामु अविरामउ ह्यउ ।
अरु अरोसु किहं पावें लिप्पइ ।
अरु अरुणं पवणं पहु बुत्तउ । 5
अरु अरुद्धु विहुरेण सुहायरु ।
अरु अरु बर्पं जेण णउ जाणुउ ।
अरुअरु करहुं ण सक्कु वि सक्कइ ।
णिहणउ दंसणणाणणिवारउ ।

घत्ता—अरतित्थंकरि णिव्वुइ रंजियविउससह ॥

10

हई णिसुणि सुंभउमहु चक्किहि तणिय कह ॥ ९ ॥

10

एत्थु भरहि लंबियधयमालइ
पहु भूवालु णाम भूमंडणु
बहुयहिं आहवि एक्कु णिरुज्झइ
खज्जइ बहुयहिं भरियभरोलिहिं
बहुयहिं मिलिवि माणु तहु खंडिउ
लोहमोहमयभयजमदूयहु
भोयाकंखइ करिवि णियाणउं
सोलहसायराउ सो जइयहुं
कालं कालु जाम पल्लट्टइ
पवरिक्खाउंवंसु सियमंदिरि
दुद्धरवइरिवीरसंघारउ

रणसिहरघरि णयरि विसालइ ।
तहु जायउं परेहिं सहुं भंडणु ।
बहुयहिं सुत्तहिं हत्थि वि बज्झइ ।
विसहरु विसदारुणु वि पिपीलिहिं ।
तेण वि पुरु कलत्तु घरु छंडिउं । 5
रिसिद्धं लइउ णियडि संभूयहु ।
मुउ लद्धं महसुक्कविमाणं ।
अच्छइ सुरवर सहुं दिवि तइयहुं ।
एत्थु कहंतरु अवरु पवट्टइ ।
सहसबाहु णरवइ कोसलपुरि । 10
कण्णाकुज्जहि राणउ पारउ ।

घत्ता—णाम विचित्तमइ सइ तेण मुणालभुय ॥

सहसबाहुंणरणाहहु दिण्णी णियय सुय ॥ १० ॥

२ किम. ३ A अरुणं. ४ AP वरुणं. ५ A अरुवाणिवासु. ६ AP जेण बर्प. ७ P सुभोमहु.

10 १ AP भूवालु. २ P लद्धिउ. ३ AP रिसिवउ. ४ AP विवाणउ. ५ AP ०वंसि तहु मंदिरि. ६ AP सहसबाह°.

3 a अरसिल्लु तित्तादिरससहितः; b अरामु स्त्रीरहितः; अविरामउ विनाशरहितः. 5 a अरवें गुणेण संजुत्तउ अशब्देन गुणेन युक्तः, तस्य गुणा वक्तुं न शक्यन्ते इत्यर्थः. 6 a अरुयाणिवासु आरोग्यनिवासः. 9 b णि हणउ हन्तु.

10 1 b विसालइ विशालनाम्नि. 4 a भरियभरोलिहिं भूतवल्मीकामिः; भरोलि वल्मीकः. 10 a सियमंदिरि उज्ज्वलसौधयुक्ते गृहे. 11 b कण्णाकुज्जहि कन्याकुब्जपुरे; पारउ पारतनामा.

11

सुंदरु लक्खणलक्खिक्खिकायउ
वीणालावहि मज्झे खामहि
सयबिंदुं णरिंदकुलहंसं
सिसु जमयग्गि णाम उप्पण्णउ
बाल्लत्तम्मि तेण सेविउ वणु
अवरु तहिं जि दढगाहिणरेसरु
बेण्णि मि समउं सोक्खु भुंजेप्पिणु
णिउ जिणवररिक्खि सोत्तिउ तावसु
मित्तं मिच्चु वुच्चु णउ जुज्जइ
विप्पे तासु वयणु अवहेरिउ
जिणवरहरपयाइं सुमरेप्पिणु
खत्तिउ मरिवि जाउ सोहम्मइ

तहि कयवीरु णाम सुउ जायउ ।
पारयविहिणिहि सिरिमइणामहि ।
णियजसससहरधवलियवंसे ।
जणणिमरणसोएं णिव्विण्णउ ।
जग्गि जायउ तवतिव्वु तवोहणु । 5
तासु मिच्चु हरिसम्म सुदियवरु ।
जइ जाया इच्छिउ वउं लेप्पिणु ।
हयउ मोहमंदुं मिच्छावसु ।
तावसमग्गे जम्म ण छिज्जइ ।
उत्तरु किं पि वि णेय समीरिउ । 10
बेण्णि मि सुय संणासु करेप्पिणु ।
वंभणु पुणु जोइससुरहम्मइ ।

घत्ता—चित्तिउ पत्थिवदेवे सुहि वसुमलमइहि ॥

तउ अण्णाणु चरेप्पिणु हुउ जोइसगइहि ॥ ११ ॥

12

मइं सयणेण वि णउ उत्तारिउ
इय णिज्झाइवि दुक्कउ तेत्तहिं
णेहपरव्वसेहिं भुयमंडिउ
अवलोइवि जोइसु मउलियकरु
पइं जिणवयणु वप्प अवगण्णिउ
णच्चइ देउ गेयसरु गायइ
उहइ पुरइं रिउवग्गु वियारइ

जायउ वंधुं दीहसंसारिउ ।
अच्छइ सुरवरु जोइस जेत्तहिं ।
दोहं मि एकमेक्कु अवरुंडिउ ।
आहासइ विहसिवि कप्पामरु ।
अण्णाणु जि गुरुयारउं मण्णिउ । 5
महिलउ माणइ वज्जउ वायइ ।
एहउ किं संसारहु तारइ ।

11 १ A सुंदर°. २ AP °बहिणिहि. ३ A बालत्तणि जि. ४ AP तउ तिव्वु. ५ AP वउ.
६ A °वरसिरि सोमिच्चिउ; P °वररिसि सोमिच्चिउ. ७ P मेहमंदु.

12 १ दीह वंधु. २ A जोइससुरवरु. ३ AP गरुयारउ.

11 1 a त हि तस्यां विचित्रमत्याम्; क य वी र कृतवीरः. 2 b पार य वि हि णि हि पारतभगि-
न्यां श्रीमतीनाम्न्याम्. 3 a स य बि दुं शतविन्दुना. 4 a ज म य ग्गि जमदग्निः. 8 a णि उ नृपः. 11 a
जिण वर हर प या इं सु म रे प्पिणु मुनिना जिनपादानां स्मरणं कृतं तापसेन हरपादानाम्. 12 b जो इ स-
सुर ह म्म इ ज्योतिष्कविमाने. 13 व सु म ल म इ हि शङ्कायष्टदोषमतौ.

12 1 a म इं इ त्या दि सुदृष्टिदेवश्चिन्तयति स्वचित्ते. 3 a भु य मं डि उ भुजौ प्रसार्य. 6 b
दे उ रुद्रः.

णिक्कलु किं सिद्धंतु समासइ
सहं विणु कहिं सँथपरिग्गहु
तं णिसुणिवि इयरेण पवुत्तउं

विणु वयणेण सहु कहिं होसइ ।
पइं कुमग्गि किं किउ णियणिग्गहु ।
मइं ण सिवागमि इट्टु तउ तत्तउं । 10

यत्ता—गउरीमुहकमलालिहि वरगोवइगइहि ॥

भासिउ किं पि ण वुज्झिउ देवहु पसुवइहि ॥ १२ ॥

13

ता पभणइ सुरु सम्माइट्टिउ
सो दावहि तावसु जो गयमलु
सुहिणा उत्तउ मयणणिवारउ
ते वेणिण वि जेण गुणगणसिक्खहि
गय कलविंकिमिहुणु होणप्पिणु
कणु चुणंति कीलंति भमंति वि
अण्णहि दिणि जंपइ चिडउल्लउ
गच्छमि लगउ एत्थु जि अच्छहि
ता चिडउल्लियाइ पडिवोल्लिउ
पइं विणु एक्कु वि दिवहु ण जीवमि
करंहि सवह जइ परइ ण आवहि

जो तुम्हारइ णिट्ठइ णिट्ठिउ ।
आउ आउ वैच्चहुं धरणीयलु ।
पेच्छंहि रिसि जमयग्गिभडारउ ।
सज्जण लग्गा धम्मपरिक्खहि ।
थिय मुणिमीसियवासु रणप्पिणु । 5
तावसंमासुरवासि रंसंति वि ।
कंति कंति हउं भमणपियल्लउ ।
कलइ आयहु महु मुहुं पेच्छहि ।
हियवउ णाह महारउ सल्लिउ ।
अज्जु वियालइ जमपुरि पावमि । 10
तो मइं णिच्छंउ मुइय विहावहि ।

यत्ता—भणइ पक्खि हलि पक्खिणि परइ ण एमि जइ ॥

हउं एयहु जमयग्गिहि दुक्किउ लेमि¹¹ तइ ॥ १३ ॥

14

तं णिसुणिवि सयविंदुहि णंदणु
अरि अरि पिसुण पक्खि किं बुक्कउं

पभणइ रोसजलणजालियतणु ।
महुं गुणवंतहु किं किर दुक्किउं ।

४ AP सहं°.

13 १ AP वचहं. २ P पच्छहि. ३ A जिण. ४ A तावसभासुर. ५ A रमंति. ६ A भवण°; P भणमि. ७ महुं. ८ A डोल्लिउ. ९ A करहु. १० A णिच्चउ. ११ A लेवि.

14 १ A पक्खि पिसुण. २ AP बुक्किउं.

8 a णिक्कलु सदाशिवः; b वयणेण वदनेन. 10 a इयरेण विप्रचरेण ज्योतिष्कदेवेन. 11 गउरी-मुहं पार्वतीमुखम्; वरगोवइगइहि वृषभोपरिगतेः. 12 पसु वइहि स्वरस्य.

13 5 a कलविंकिं चटकः; b मुणिमीसियवासु मुनिश्मश्रुकूर्चैः वासः. 6 b तावसमासुर-वासि तापसश्मश्रुवासिनौ; रंसंति शब्दं कुर्वन्ति. 7 b भमणपियल्लउ भ्रमणप्रियः. 8 b आयहु महु आगतस्य मम. 10 b वियालइ मंथायाम्. 11 a सवह शपथान्; b मुइय मृताम्.

14 2 a बुक्कउं उक्तम्.

जइ दुक्किउ तो पइं संघारमि
एव चवेप्पिणु कयसंकीलणु
पेहुणिल्ल थिय अंवरि जाइवि
तवहु ण जुत्तउं जीवविणासणु
ता भासइ छारेणुद्धलिउ
किं मइं कियेउं पाउ तवचरणे
ता घरपक्खि कहइ लइ चंगउं
परं किं वेयवयण ण वियाणिउं
सुयमुहकमलु ण कहिं वि णिहालिउं
णत्थि अपुत्तहु गइ विष्पागमि

हत्थे णिहसिवि पेहुं समारमि ।
करहि णिहिद्धउ सउणिणिहेलणु ।
पभणिउ तवसि तेणे पोमाइवि । 5
खमहि ताय खम मुणिहिं विहूसणु ।
हउं तुम्हाहिं किं ज्ञाणहु चालिउ ।
गणवइतिणयणपूयाकरणे ।
पइं तवतावे ताविउं अंगउं ।
णवउ कलत्तु ण कत्थु वि माणिउं । 10
दुरिपं अप्पाणउं किं मइलिउ ।
ता संजाय चित्त जइणुगमि ।

घत्ता—अण्णाणिउ तवभट्टउ मायावयणहउ ॥

सो तहु पारयणामहु मामहु पासि गउ ॥ १४ ॥

15

तणुरुहकारणि मग्गइ कण्णउ
वेयालु व वियरालु जडालउ
थेरु जराजज्जरिउ ण लज्जइ
कीलंती अण्णेक्क पियारी
रेणुय भणिवि तेण हक्कारिवि
वइसारिय अंचोलिहि लुद्धे
णिसुणि ससुर एयइ हउं इच्छिउ
पह देवि लहुई किं बुच्चइ

कज्जलकंचणमरगयवणणउ ।
अवल्लोएप्पिणु णट्टउ बालउ ।
घरघरिणीवापं किह भज्जइ ।
कुयरि रेणुधूसर लहुयारी ।
कयलीहलु दंसेवि पयारिवि । 5
भणिउं अणंगसरोहणिरुद्धे ।
मुद्धइ पंतु मणेण पडिच्छिउ ।
जाहि महारउ बोल्लिउ रुच्चइ ।

घत्ता—णासउ तणुगरुयत्तणु पत्थिवपुत्तियहं ॥

वड्ढियजोव्वणगव्वहं मज्जु विरत्तियहं ॥ १५ ॥

10

३ AP पिहु. ४ AP तहि. ५ AP कयउ. ६ A सुरपक्खि; T घरपक्खि. ७ AP पइं.

15 १ AP घरि घरिणी°. २ P °धूसरि. ३ A वियारिवि; P'T पवियारिवि. ४ A अच्चो लिहि. ५ AP देहि. ६ लहुधी; P लहुवी. ७ P वडगसुय°.

3 b पेहु चूर्णम्. 4 a कयसंकीलणु कृतमंकीडम्; b णि हि द्ढउ निघृष्टम्; सउणिणिहेलणु पक्षि-नीडम्. 5 a पेहुणिल्ल पक्षिणौ. 6 a छारेण भस्सना. 8 b गणवइ गणेशः; तिणयण रुद्रः. 9 a घरपक्खि ग्रामचटकः.

15 1 a तणुरुहकारणि पुत्रनिमित्तम्; b कज्जल° श्यामलवर्णा. 2 b णट्टउ बालउ कन्याः नष्टाः. 4 a कुयरि कुमारी. 5 b पयारिवि प्रतार्ये. 6 a अंचोलिहि उत्सङ्गे. 9 णासउ तणुगरु यत्तणु नश्यतु तनुउत्तत्वम्, कुब्जा भवन्वित्यर्थः.

16

कण्णउ खुज्जियाउ तहु सावें
कण्णाकुज्जणयरु तं घोसिउ
एयहं पासिउ एह रवण्णी
गउ वणवासहु महिहरकंदरि
जाया तणुरुह दोणिण महाभुंयं
दोहिं मि णिहियेइं जयजसधामइं
रेणुयभायरु साहु अरिंजउ
आउ णिहालिवि ससइ णमंतिइ
जइयहुं महु विवाहु किउ तापं
अज्जु देहि बंधव जइ भावइ

जायउ तिब्बतवोहपहावें ।
देवहिं जडचरित्तु उवहासिउ ।
देहि मज्जु ता तापं दिण्णी ।
तहिं णिवसंतहं ताहं सणिज्जरि ।
दोणिण वि चंद सूर णं णहचुय । 5
इंदसेयरामंतइं णामइं ।
रिद्धिवंतु तवतत्तु सुसंजउ ।
मग्गिउ किं पि हसंतहसंतिइ ।
तइयहुं धणु ण दिण्णु पइं भापं ।
जेण दुक्खु दालिहु वि णावइ । 10

घत्ता—भणइ मुणीसरु सुंदरि छिंदहि कुमयमइ ॥
दंसणणाणचरित्तइं रयणइं तिण्णि लइ ॥ १६ ॥

17

ता सम्मत्तु वियारें सहियउ
तुट्टु भडारउ सुट्टु वियक्खणु
परसुमंतु पेरिरक्खणु देंतें
ह्वई रेणुय ताइ कयत्थी
तुम्हारिसहं सजीउ वि देंतहं
ससहि महंतु हरिसु पयणेप्पिणु
कामधेणु हियइच्छिउ दुब्भइ
अण्णहि वासरि सुरगिरिधीरें
गहणणिहेलणु लुहु जि पइट्टउ

सावयवउ मुद्धेइ संगहियउ ।
करुणें करिवि सबहिणिणिरिक्खणु ।
दिण्णी कामधेणु भयवंतें ।
पभणइ भिक्खुहि पंजलिहत्थी । 5
दोणुद्धरणु सहाउ महंतहं ।
गउ रिसि धम्मविद्धि पभणेप्पिणु ।
तं तावसकुडुंतु तहिं रिज्जइ ।
सहसवाहु संजुउ कयवीरें ।
राउ तवोहणेण तें दिट्टउ ।

घत्ता—अब्भागयपडिवत्तिइ भोयणु दिण्णु तहु ॥ 10
हियेंउं भिण्णउं दोहं मि कुअरहु पत्थिवहु ॥ १७ ॥

16 १ AP कण्णाखुज्जु. २ A तहु घोसिउ. ३ A कुडचरित्तु. ४ A महभुय. ५ A दिण्णइं.
६ A जं भावइ. ७ A दालिहु ण आवइ; P दालिहु वि ण आवइ. ८ P छुहुहि.

17 १ A सुद्धे. २ P पररक्खणु. ३ P तें. ४ P तहिं. ५ AP हियवउं. ६ A कुमरहु.

16 1 b तवोह^० तपःसमूहः. 2 b देव हि देवाभ्याम्. 6 b इंदसेयरामंतइं इन्द्ररामः
श्वेतराम इति. 8 a आउ णिहालिवि आगतं दृष्ट्वा; ससइ भगिन्या रेणुकया. 9 b भापं भ्रात्रा.

17 1 a वियारें ज्ञानेन. 4 b सहाउ स्वभावः. 7 b रिज्जइ ऋद्धिं प्राप्नोति. 9 a गहण-
णिहेलणु बनस्थगृहं तापसगृहम्. 11 भिण्णउं साश्चर्यं जातम्.

18

णियजणणीसस णविवि णियच्छिय
अम्मि अम्मि भोगणु भल्लारउं
एहउं नुवहं मि णउं संपजइ
अक्खिउ रेणुयाइ विहसेप्पिणु
ताइ वुत्तु अम्हहं चित्तिउ फलु
जं अंबाइ एम आहासिउं
रयणइं होंति महीयलवालहं
तासु वि तहिं जि चित्तु आसत्तउं
चउरासमगुरु रयणिहिं अंचहि

माउच्छिय कयवीरें पुच्छिय ।
जहिं चक्खिज्जइ तहिं रससारउं ।
तुम्हहं तावसाहं किह जुजइ ।
गउ बंधवु सुरधेणुय देप्पिणु ।
णं तो पुणु वणि भुंजहुं दुमहलु । 5
तणपं तं णियैपिउहि पयासिउ ।
णउ तवसिहिपसरियजडजालहं ।
कयवीरें कर मउलिवि वुत्तउं ।
दिव्वगाइ दिय देहि म वंचहि ।

घत्ता—गाइ ण देमि म पत्थाहि अरितरुणियरसिहि ॥

10

चिणु गाइइ अम्हारइ ण सरइ होमविहि ॥ १८ ॥

19

ता तं सुणिवि तेण महिणाहें
झत्ति अमरवरसुरहि मंहद्विय
भुयहिं धरइ जमयग्गि ण संकइ
तवसिहि करु करेण अच्छोडिउ
णीसारिय णंदिणि मढवांसहु
उद्धाबद्धाणिविडजडमंडलु
सोत्तरीयउववीययउरयलु
बद्धतोणु परिवद्वियअमरिसु
दोणिण तिण्णिण चउ पिच्छंविचिय वर

गोहणलुद्धें णं वणवाहें ।
कंचणदामइ धरिवि णियद्विय ।
रेणुय कलयलु करहुं ण थक्कइ ।
णिच्चलु मेइणियलि सो पाडिउ ।
णं णियैजीयावित्ति तणुदेसहु । 5
सव्वेणोलंबियतंबयकुंडलु ।
धूलिधवलु अवलोइयभुयवलु ।
धाइउ सर मुयंतु राणि तावसु ।
पंच सत्त णव दह चंचलयर ।

18 १ AP णिवहं. २ P ण वि. ४ AP दुमफल. ४ णियपियहि. ५ A तवसियपसरिय°.

19 १ P ता तं सुणिवि. २ AP महिद्विय. ३ A तहिं पाडिउ. ४ AP add after this: चलिउ लेवि जाम णियवासहु (A णियदेसहु). ५ A omits this foot. ६ P तणु देतहु. ६ A समणोलंबिय°. ८ A सोत्तरीउ. ९ A धवल. १० AP सर.

18 1 b मा उ च्छि य मातृष्वसा. 6 a अंबा इ लघुमात्रा मातृष्वसा. 7 b त व सि हि प स रि य-
ज ड जाल हं तपोमिना प्रसारितं जटाजालं येषां तेषां स्नानि न भवन्ति. 9 a च उ रा स म गुरु चतुर्णा-
माश्रमाणां गुरुः राजा; b दिय हे यतं. 10 °सि हि हे अग्ने. 11 सरइ संपद्यते.

19 1 b व ण वा हें मिल्लेन. 2 a अ म र व र स उ र हि कामधेनुः; b णि य द्द्वि य आकृष्टा. 4 a
त व सि हि करु यतिहस्तः; अच्छो डि उ मोचितः. 5 b णि य जी य वि त्ति; निजजीवप्रवृत्तिः तणुदेसहु
शरीरप्रदेशात्. 6 a उ द्धा ब द्ध ° ऊर्ध्वं बद्धम्; °ज ड मं ड लु जटामण्डलम्.

बारह तेरह पुणु पण्णारह सोलह बाण मुक्क सत्तारह । 10
 णहयल्लु सरसंछण्णु ण दीसइ सहसबाहु णियरहियहु भासइ ।
 घत्ता—वाहि वाहि रहु तुरिपं संघारमि कुमइ ॥
 पहा महियलि जइ जइ तो केहा णिवइ ॥ १९ ॥

20

बाणहिं बाण हणेप्पिणु विद्धउ	णं चंदणतरु णायहिं रुद्धउ ।
जइ विचित्तमइदइएं घाइउ	सयबिंदुहि तणुरुहु विणिवाइउ ।
णाहमरणि दुक्खेण विसट्टइ	गाइ ण जाइ हयवि पलट्टइ ।
महिपलोट्टु णियसामि णिहालइ	पुच्छि विज्जइ जीहइ लालइ ।
दुद्धे सिचइ वयणु समिच्छइ	ओरसंति णियडुल्लइ अच्छइ । 5
जाम ताम णियवईरिहिं चप्पिवि	रोवइ रेणुय विहुरु वियप्पिवि ।
हा हा कंत कंत किं सुत्तउ	किं ण चवहि महं काइं विरत्तउ ।
मुच्छिओ सि किं तवसंतावें	किं परवसु थिय ज्ञाणपहावें ।
लइ कुसुमाइं घट्टु लइ चंदणु	करहि भडारा संज्ञावंदणु ।

घत्ता—उट्टि णाह जलु ढोवहि तण्हाणिरसणउं ॥ 10
 करि सहवासियहरिणहं करयलफंसणउं ॥ २० ॥

21

दावहि एयहु कुवलयकंतिहि	जलु होमावसेसु सिसुदंतिहि ।
उट्टि णाह तुहुं पक्कु जि जाणहि	तणयहं वेयपयइं वक्खणाहि ।
तेहिं वि अज्जु काइं सुइराविउं	अवरु किं पि किं दुग्गि विहाविउ ।
जहिं गय कंदमूलफलगुंछेहं	तहिं किं कमि णिवडिय खलमेच्छहं ।

११ A णहयल्लु संछण्णउ णउ दीसइ; P णहयल्लु छण्णु ण बाणहिं दीसइ. १२ वाहु वाहु.

20 १ AP चंदणतरु णं. २ A णियडुल्लिय; P णियडुल्लइ. ३ A णियवइउरि.

21 १ A दुग्गु. २ AP ०गोच्छहं.

11 a सरसंछण्णु बाणैराच्छादितम्; b ०रहियहु सारथेः. 12 वाहि वाहय. 13 एहा ईदशाः; जइ यदि; जइ यतयः; केहा कीदशाः.

20 2 a जइ यतिः; विचित्तमइदइएं विचित्रमत्या भर्त्रा सहस्रबाहुना. 3 b हयवि शृङ्गादिना हत्वा. 4 b विजइ वीजयति. 5 b णियडुल्लइ निकटे. 9 a घट्टु घृष्टम्.

21 1 a सिसुदंतिहि बालगजस्य. 2 b वेयपयइं वेदपदानि. 3 b दुग्गि वने. 4 b कमि णिवडिय हस्ते पतितौ.

गउ मुणंति जं जणैयहु जायउ
 आर्येणवि तर्हि जणणिहि रुण्णउं
 जाइवि दोहि मि थीयणसारी
 भणु भणु केण ताउ संघारिउ
 कुलिसिहि कुलिसु केण मुसुमूरिउ
 केसरिकेसरग्गु किं छिण्णउं
 केण सदेहु हुणिउ कालाणणि

ता तर्हि सुयजुवल्लुउं आयउं । 5
 पिउमडउल्लुउं बाणविहिण्णउं ।
 पुच्छी अम्मापवि भडारी ।
 केण सैपाणणासु हकारिउ ।
 सेसफडाकडप्पु किं चूरिउ ।
 केण गरलु हालाहलु चिण्णउं । 10
 को पइहु वइवसमुहघघलि ।

घत्ता—इज्जइ कहिउ रुयंतिइ भोयणरिद्धिभरि ॥

सहसबाहु कयवीरु वि भुंजिवि मज्झु घरि ॥ २१ ॥

22

जर्हि भुत्तउं तर्हि भाणउं भिंदिवि
 गय रिउ हरिवि महारिय धेणुय
 गज्जिवि पुणु वि रोसरसभरियउ
 ता जेट्टहु उवइट्टुउ मायइ
 गय वेणिण मि जण वीरं महाइय
 करि तुरंगु रहवरु णरु णावइ
 लंबिरकेसइं भउहाभीसइं
 णासंत वि खत्तिय णिक्खत्तिय
 जो भूर्भालु णाम चिरु राणउ
 देउ महासुक्कंतरि जायउ
 संमउं तेण गम्भेण पलाणी

कंतु महारउ कंडर्हि छिंदिवि ।
 ता संथविय संपुत्तिर्हि रेणुय ।
 णयणजुयलजलु जणणिहि पुसियउ ।
 परसुमंतु दिण्णासीवायइ ।
 तं साकेयणयरु संप्राइय । 5
 दसदिसु चडलु परसु परिधावइ ।
 पिउपुत्तहं खणि छिण्णइं सीसइं ।
 वइवसमुहकुहरंतरि घत्तिय ।
 जो तउ चरिवि मरिवि सणियाणउ ।
 जो पुणरवि जम्मंतरि आयउ । 10
 सइ विचिच्चमइ णामे राणी ।

घत्ता—णियपइपुत्तहं मरणे सोयविसंतुलिय ॥

सुंदरि भयकंपियतणु कत्थइ संचलिय ॥ २२ ॥

३ AP जणणहु. ४ A आयणिवि तर्हि; P आयणंतर्हि. ५ A जोयवि. ६ P ताउ केण. ७ A सुपाण-
 णासु. ८ A जि छित्तउ. ९ AP भुत्तउं. १० AP हरि.

22 १ AP गउ. २ AP महारी. ३ A सपुत्तहि. ४ P धीर. ५ AP संपाइय. ६ AP
 भूपाञ्च. ७ AP सो.

5 a जं जण यहु जायउं तातस्य मरणम्. 6 b पिउमडउल्लुउं पितुर्मृतकम्. 7 a थीयणसारी
 स्त्रीजनमध्ये उत्तमा. 9 कुलिसिहि इन्द्रस्य. 10 b चिण्णउं भक्षितम्. 11 b °घघलि °विघ्नप्राये.
 12 इज्जइ मात्रा; °रिद्धिभरि °ऋद्धिभृते मम गृहे.

22 2 a महारिय मदीया; b सपुत्तिर्हि स्वपुत्राभ्याम्. 3 b पुसियउं मार्षितम्. 4 b
 दिण्णासीवायइ दत्ताशीर्वादया मात्रा. 6 a णावइ अभिमुखं नागच्छति. 7 a भउहाभीसइं भुक्कुटि-
 भौषणानि. 8 a णिक्खत्तिय निपातिताः; b वइवसमुह° यममुखम्. 9 a भूर्भालु भूपालो विशाल-
 नगरपतिः. 13 a सुंदरि विचित्रमतिः.

23

सा गुरुहार दिदृ संडिल्ले
अप्यिय सा सुबुद्धिणिगंथहु
वसैइ जिणालइ गइ रणयालइ
पुचु पसूइ देवहिं रक्खिउ
पुच्छिउ साहु समंजसु घोसइ
सोलहमइ पत्तइ संबच्छरि
देवीभायरेण ह्यसल्ले
पडिभडवरसिरखुडणसमत्थइं
पत्तहि रिसिजमयगिहि पुत्ते

तावसेण संसयणवच्छल्ले ।
सुद्धसहावहु कहियसुपंथहु ।
फुल्लियकाणणि तहिं मिगमेलइ ।
मायइ कुलउद्धरणु णिरिक्खिउ ।
णंदणु छक्खंडाहिउ होसइ । 5
तुहुं पेच्छिहिसि चिंधु तणुरुहवरि ।
णिउ णियभवणहु सिंसु संडिल्ले ।
परिपालिउ सिक्खिउ सत्थत्थइं ।
जयसिरिरइरसलंपडचित्तै ।

घत्ता—जणणमरण सुअरंते मारिय रायवर ॥

10

परसुमंतमाहणै रणि करवालकर ॥ २३ ॥

24

एक्खीसवारउ णिक्खत्तिवि
वड्ढियवेयवयणमाहण्णहं
जाया रिद्धिइ सक्कसमाणा
जहिं दीसइ तहिं पसु मारिज्जइ
सोमपाणु महुमहुरउ पिज्जइ
विउलजणमंडवसिरि दावइ
णिच्चमेव संठियपडिहारइ
पयडियदंतपंतिवियरालइं
ताराणियरसिसिरकरधवलइं
जायउ सर्व्वभोमभूवालउ
गुरुहारहि कह कह व चलंतहि

खत्तिय सयलु वि छारु पैरसिधि ।
पुहइ असेस वि दिण्णी विप्पहं ।
जहिं दीसहि तहिं दियवर राणा ।
पियरहं ढोपप्पिणु पलु खज्जइ । 5
सामवेयपउ मणहरु गिज्जइ ।
होमहुयासभूसु णहि धावइ ।
परसुरामदेवसंदुवारइ ।
खंभि खंभि कीलियइं कवालइं ।
णं जसवेल्लिहि फुल्लइं विमलइं ।
किं वण्णिज्जइ तावसवालउ । 10
मायहि पसवणवियणकिलंतहि ।

23 १ A सिंसुजणवच्छल्ले; P संसयणि वच्छल्ले. २ AP सइ सुबंधु°. ३ A तेत्थु सा वि जा वसइ जिणालइ; P वसइ जिणालइ गय रणयालइ. ४ A सचिंधु तणु°. ५ A सिरिजम°. ६ AP सुमरंते. ७ A °मंतिमाहणै रण°.

24 १ A सयल वि. २ AP पवत्तिवि. ३ A सुदुवारइ. ४ A सर्व्वभूमिभूवालउ.

23 1 a गुरुहार गर्भिणी; b संसयण° निजस्वजन°. 3 a गइ रणयालइ रणकाले गते सत्ति. 5 a समंजसु न्यायवान्. 6 b चिंधु ध्वजम्.

24 1 b परत्तिवि भस्मीकृत्य. 8 b कीलियइं कवालइं जटितानि हतानां राशं कपल्यमि. 10 a सर्व्वभोमभूवालउ सर्व्वपृथ्वीपरिपालकः.

उप्पज्जइ सो को वि सुणंदणु
जामयग्गिणरणहं जेहउ

किज्जइ जेण वहरिसिरिंछिदणु ।
अण्णहु जयविलासु कंहु प्पहउ ।

घत्ता—भरहु असेसु वि भुत्तउ हय रिउ तायवहि ॥
पुष्कदंत तहु तेएं सभय चरंति णहि ॥ २४ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्कयंतविरश्य महाकव्वे अरतित्थंकरणिव्वाणगमणं
परसुरामविहववण्णं णाम पंचसट्ठिमो
परिच्छेओ समत्तो ॥ ६५ ॥

५ A कहिं. ६ A सुभूमचक्कवट्टिउप्पत्ती.

11 a गुरुहार हि गर्भिण्याः. 14 हय रिउ ता यव हि पितृवधे रिपवो हताः. 15 a तहु तेएं तस्य
इन्द्ररामस्य तेजसा.

LXVI

एत्तहि गिरिगहणि तावसघरि वड्डइ सुंदरु ॥
लक्खणचेंचइउ णहणिवडिउ णाइ पुरंदरु ॥ ध्रुवकं ॥

1

करताडियवरफणिफेणकडप्पु
लीलाइ धरियकेसरिकिसोरु
दियसिहिं वड्डिउ णं बालयंदु
सत्तुहि छिंदंतहु अमरसेण
णं सहसबाहुकुलजसणिहाउ
चक्कं कियकरयल्लु पायपउमु
विहवत्तणट्टुक्खोहरियछाय
सांडिल्लु मामु तुहुं जणणि माइ
विणु तापं पुत्तु ण होइ जेण

उद्दालियवणमायंगदप्पु ।
तरुकीलिरकिणरिचित्तचोरु ।
णं सो णिववंसहु तणउ कंदु । 5
उव्वरिउ कहिं मि जो विहिवसेण ।
णं परसुरामसिरिक्कुलिसघाउ ।
हक्कारिउ मामें सो सुभैउमु ।
अण्णहि दिणि पुच्छिय तेण माय ।
पर ताउ ण पिच्छमि महुरवाइ । 10
महु संसउ वट्टइ कहहि तेण ।

घत्ता—भणुं हउं कासु सुउ महियलि मंडणउ पहिल्लउं ।
भणु किं कारणेण तुह हत्थि णत्थि कहुंल्लउं ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this saṃdhi, the following stanza:-

यस्येह कुन्दामलचन्द्रोच्चिःसमानकीर्तिः ककुमां मुखानि ।
प्रसाधयन्ती ननु बम्भ्रमीति जयत्वसौ श्रीभरतो नितान्तम् ॥ १ ॥

पीयूषसूतिकिरणा हरहासहार-
कुन्दप्रसूनसुरतीरिणिशक्रनागाः ।
क्षीरोद शेष बल याहि निहंस चैव
किं खण्डकाव्यधवला भरतः स्थ यूयम् ॥ २ ॥

A reads in the third line: बलयासिति हंस चैव; P reads बलसत्तम हंस चैव; AP reads in the fourth line भरतस्तु यूयम्. K has a gloss: या हि त्वं गच्छ; निहंस नितरां हंस त्वमपि गच्छ । यूयं किं भरतः अतिशयात् खण्डकाव्यवत् धवला वर्तध्वे, अपि तु न । तर्हि गच्छन्तु.

1 १ AP णहि णिवडिउ. २ P °फणिफड°. ३ P उड्डालिय°. ४ A णिरु कीलिरकिणर°. ५ P omits णं. ६ AP °सिरि कुलिस°. ७ A सुभूमु. ८ A °दुक्खे हरिय°. ९ A भणु कासु सुउ हउं महिलहि मंडणउ. १० AP कडउल्लउं.

1 1 तावसघरि शाण्डिल्यगहे. 2 °चेंचइउ भूपितः. 7 a °कुलजसणिहाउ कुलजशः-
षमूहः. 9 a °दुक्खो हरियछाय °दुःखेन अपहृता शोभा यस्याः.

2

तावम्महि अंसुजलोहियाइं
जाणिवि णियतणयहु तणिय सत्ति
सुणि सुय जो सुव्वइ परसुरामु
तावट्टवीसधणुदंडतुंगु
तं णिसुणिवि णं जमरायदूउ
चूडामणिंकिरणालिहियमेहि
दिउ णारायणकमकमलभसलु
सो पुच्छिउ तेण कयायरेण
सहसयरसिरुप्पललूरणेण

णयणइं णं कमलइं फुल्लियाइं ।
पडिलवइ सहसभुयरायपत्ति ।
तं मारिउ तुह पिउ अतुलथामु ।
वण्णे कणयच्छवि रणि अहंगु ।
आरुट्टु अरिहि सिहिचुरुलिभूउ । 5
तावेत्तहि रेणुयतणयगेहि ।
संपत्तउ कैहि मि णिमित्तकुसलु ।
उद्धरियसंधरधरुगुरुभरेण ।
णियजणणिमणोरहपूरणेण ।

घत्ता—पइं विप्पेणं जगि जीवहं भवियव्वु पमाणिउं ॥

10

महु कइयहुं मरणु भणु भणु जइ पइं फुहु जाणिउं ॥ २ ॥

3

तं णिसुणिवि विप्पे वुत्तु पम
भोयणकालइ रसरसियभावि
रिउदसण असणभावेण जासु
ता रापं णयरि महाविसाल
संणिहिय णिओइय दिण्णु दाणु
पीणिवि देसिय तित्तिइ डेरंत
दसदिसिर्वेहि पसरिय पइ वत्त
अइदीहरपंथे मंथिपण
भो भो कुमार लहु जाहि जाहि

रायाहिराय भो णिसुणि देव ।
अगइ दक्खालिइ कयसरावि ।
णिव परिणमंति तुहुं वज्जु तासु ।
काराविय तक्खणि दाणसाल ।
घिउं दुद्धु दहिउं इच्छापमाणु । 5
णिच्चं त्रिय दाविज्जंति दंत ।
कयवीराणुयसुइसुसिरु पत्त ।
वणि जंतं वुत्तउ पंथिपण ।
साकेयणयरि भुंजंतु थाहि ।

घत्ता—किं वणतरुहलोहिं खद्धेहिं मि तित्ति ण पूरइ ॥

10

पेच्छिवि तुज्जु तणु महुं भायर हियवउं जूरइ ॥ ३ ॥

2 १ AP ता अम्महि. २ AP रिउहि. ३ A कह व. ४ A सधरगुरुभायरेण. ५ A °पूरएण.
६ A विप्पेण वर जगि; P विप्पे वर जगि. ७ AP पमाणियउं. ८ AP जाणियउं.

3 १ AP पीणिय. २ A फुरंत. ३ A दहदिसिपह°; P दसदिसिपह°. ४ A कुमारहु अन्वितउ
ता पंथिपण.

2 1 a अंसुजलोहियाइं अश्रुजलाद्राणि. 2 b °पत्ति विचित्रमतिः. 5 b सिहिचुरुलिभूउ
अग्निज्वालासदृशः. 7 a दिउ द्विजः. 9 a सहसयरं सहस्रबाहुः. 11 कइयहुं कदा.

3 2 a रसरसियभावि रसज्ञायको रसिकः भावः परिणामस्तत्र; b कयसरावि स्थापित्त-
शरावे. 3 a असणभावेण ओदनभावेण; शरावे ये शत्रूणां दन्ताः स्थापिताः ते यस्य पुरुषस्य दर्शनेन
ओदनो भविष्यति तेन त्वं वध्य इत्यर्थः. 5 a णिओइय किंकराः. 6 a देसिय यात्रिकाः; डेरंत
भीताः. 7 b कयवीराणुयं सुभौमः; °सुइसुसिरु कर्णविवरम्.

4

जहिं रायहु केरउं अत्थि दाणु
 भोयणपत्थावइ मुहरुहोहु
 सो जासु कुरु होही सुरामु
 तहिं गच्छहि पेच्छहि चोज्जु बप्प
 तं णिसुणिवि मणि चिंतइ कुमारु
 दुज्जणकरगाहगलत्थियाइं
 दरिसावियबंधवलोयवसण
 सो णिहयंजणणिजोव्वणवियारु
 वरिसहं परमाउसु जमदुगेज्जु
 लइ णियइ ण दुक्कइ अंतरालि
 अह वा जइ मरमि ण तो वि दोसु

जहिं जणवउ भुंजइ अप्पमाणु ।
 जहिं दरिसिज्जइ ससिअंतसोहु ।
 तहु हत्थे मरिही परसुरामु ।
 किं अच्छइ काणणि णिव्वियप्प ।
 डहु डहु णेरु जंगलपुंजु फोरु । 5
 जें दिट्ठइं सयणइं दुत्थियाइं ।
 जेणायणिय पंदंत पिसुण ।
 अम्हारिसु जीवइ भूमिभारु ।
 धुवु सट्ठिसहासइं आउ मज्जु ।
 रिउ चूरामि मारमि कलहकालि । 10
 लइ अज्ज करमि हउं सहलु रोसु ।

घत्ता—तायवियारणउं जं वैइरु रिणु य चिरु दिण्णउं ॥

तं हउं तासु राणि लइ अज्ज देमि उच्छिण्णउं ॥ ४ ॥

5

इय भणेवि वीरो^१ धुरंधरो
 कायकंतिधवैलियदिसावहो
 धरणिविजयसिरिविजयलंपडो
 दंडपाणिपोत्थयपरिग्गहो
 कुसपवित्तयंकियकरंगुली
 सहयरेहिं सह लच्छिमाणणो
 दाणमंडवं खणि पइइओ

समरभारवहणेक्ककंधरो ।
 चिकरंतैच्छक्कणुपाणहो ।
 कसणकुडिलधम्मिल्लक्षंपडो ।
 रत्तचीरवेंचइयविग्गहो ।
 कोसलं पुरं पत्तओ बली । 5
 वेयघोसबहिरियदिसाणणो ।
 तं णिउत्तमणुपहिं दिट्ठओ ।

4 १ P °पत्थारइ. २ A मरही. ३ A णरजंगल. ४ AP भार. ५ AP णिहियजणणिहि जोव्वण°. ६ AP समरकालि. ७ A वइरु रिणु चिरु ण दिण्णउं; P वइरु रिणु व चिरु दिण्णउं.

5 १ AP धीरो. २ AP °कविलिय°. ३ A चिकरंतु छक्कणुवाणहो; P चिकरंतु छक्कणुवाणहो.

4 1 b अप्पमाणु अतिबहुलम्. 2 a भो यणपत्थावइ भोजनप्रस्तावे; मुहरुहोहु दन्त-समूहः; b ससिअंतसोहु चन्द्रकान्तसदृशः. 2 a सुरामु मनोहरः 4 a चोज्जु आश्चर्यम्. 5 b जंगल-पुंजु मांसपुञ्जः. 8 a णिहयजणणि जोव्वणवियारु निहतः जननीयीवनविकारः कुचानामधःपतना-द्येन सः.

5 2 b छक्कणुपाणहो ° 3 b °धम्मिल्लक्षंपडो मुक्तकेशः. 5 a कुस-पवित्तय° दर्भमुद्रिका.

तेहिं तस्स णविऊण णीरयं
आसणे णिविट्ठस्स णिम्मलं

पायपोमपक्खालणं कयं ।
णीलदब्भंखंडं पुणो जलं ।

घत्ता—पुणु अहियारिपहिं ढोपप्पिणु मिट्ठउ भोयणु ॥
दसणुक्केरु तहु दक्खालिउ जायउ ओयणु ॥ ५ ॥

10

6

जं दंत जाय णवकलमसित्थ
हणु हणु भणंत करफुरियखग्ग
परमेसरु ते णउ गणइ केव
जो दसणपुंजु तं^३ कुरु जाउ
उट्ठिवि दिट्ठिइ चप्परिय सव्व
विण्णविउ तेहिं पहु परसुधारि
आपसपुरिसु संपत्तु भीमु
सपसाहणेण हरिवाहणेण
आवंतु दिट्ठु बालें अणेण
जइ अत्थि को वि सुक्कियपहाउ
इय चिंतिवि तेण सुकम्मवाउ
भामिउ णहि जायउ णिज्जियक्कु

तं उट्ठिय भड रणभेरसमत्थ ।
बालहु अखत्तधम्मेण लग्ग ।
कंठीरउ वणि गोमाउ जेव ।
तं जोयइ णं णियजसणिहाउ ।
गय णासेप्पिणु भड गलियगव्व । 5
भो पुहइणाह रिउ जीवहारि ।
तं णिसुणिवि णिग्गउ इंदरामु ।
संणज्झिवि लहु सहुं साहणेण ।
भुयदंड तुलिय हरिसियमणेण ।
तई एउ जि पहरणु मज्झु होउ । 10
तं दंतकूरपूरिउ सराउ ।
आरासहासविप्फुरियउ चक्कु ।

घत्ता—रिसिसुउ तेण हउ मारिउ गउ णरयणिवासहु ॥
दुग्गइ सावडइ सव्वहु वि लोइ कयहिंसहु ॥ ६ ॥

7

दुइसय कोडिहिं वरिसहं गयहं अरतित्थे
राउ सुभोमउ रामाकामउ हुउं सुत्थे ।

४ AP णमिऊण. ५ A आसणोपविट्ठस्स. ६ A णीलडब्भं.

6 १ A भड समत्थ. २ P अखत्तधम्मेण. ३ AP तहिं कुरु. ४ A चप्परिवि. ५ A adds after this: बोल्लिउ पडिभडल्लडभंजणेण. ६ A तइ एउ; P ता एउ. ७ A सकम्मवाउ. ८ A दंतंतकूर. ९ AP^०विप्फुरिउ.

7. १ A दुइसय वरिसहं गइयहं कोडिहिं; P दुइसय वरिसहं कोडिहिं गइयहं. 2 AP सुभउमउ. ३ A हुवउ सुत्तित्थे; P हुउ सत्थे.

8 a णीरयं धूलिहितं यथा भवति तथा. 11 द सणुक्केरु दन्तसंघातः.

6 2 b अखत्तधम्मेण अक्षत्रधमेण अन्यायेन, स एकः ते बहवः इति अक्षत्रत्वं जातम्. 3 a परमेसरु सुभौमः; b गो माउ शृगालः. 5 a चप्परिय उत्सारिताः. 8 a सपसाहणेण शृङ्गारितेन; हरिवाहणेण अश्ववाहनेन. 10 b एउ ओदनशरावः. 11 a सुकम्मवाउ सुकर्मपाकः. 13 रिसिसुउ इन्द्ररामः. 14 सावडइ संपद्यते; लोइ लोके.

7 2 सुत्थे प्रशस्ते अरतीर्थे.

माणु मलेपिणु दुँडुहं धिट्टुहं दुज्जणहं हित्तइं छत्तइं चमरइं चिधइं बंभणहं ।	5
रहजंपाणइं पिउंसंताणइं लद्धाइं चउदहरयणइं णव वि णिहाणइं सिद्धाइं ।	
छक्खंड वि महि जयलच्छीसहि भुत्त किह आसिणा तासिवि णापं भूसिवि दासि जिह ।	
एकहिं वासरि उग्गइ दिणयरि उत्तसिउ विरइयभोयणु अमयरसायणु भाणसिउ ।	10
कयलालाजल णावइ कोमल झंडुलिय तेण सिरीधरि दिण्णी णिवकरि अंबिलिय ।	
सा भक्खंतं रसु चक्खंतं सिरु धुणिउं रीणं तं रूसिवि तहु गुण दूसिवि जं भणिउं ।	
तं खलसंदहिं णिरु दुवियडुहिं पोसियउं जीविउ धीरहु तहु सूवारहु णासियउं ।	15
मरिवि सतामसु जायउ जोइसु दुक्कु तहिं छण्णं रोसं वणिवरवेसं राउ जहिं ।	
तं माहिवालहु जीहालोलहु ढोइयइं फलइं अणेयइं बहुरसंभेयइं जोइयइं ।	20
गइं पक्खंतरि अह मासंतरि रहइ खलु वणिउ सरापं मग्गिउ राणं देहि फलु ।	
तेण पवुत्तउं देव णिहंत्तउं णिट्ठियइं णिरु दूरंतरि परदीवंतरि संठियइं ।	
यत्ता—फलसंदोहु मइं सुरवरहं पसाणं लद्धउ ॥ णिच्छउ णिट्ठियउ लइ पइं जि भडारा खद्धउ ॥ ७ ॥	25

8

सच्चउं वसुहाहिव कहमि तुज्जु
तुह पुणु पहु अवलोयणि तसंति

एवहिं ते देव ण देंति मज्जु ।
इयरहं कह महिमंडलि वसंति ।

४ AP धिट्टुहं दुँडुहं. ५ A चमरइं छत्तइं चिधइं; P चमरइं चिधइं छत्तइं. ६ जाणइं सयणइं लद्धाइं.
७ P अमियं. ८ A झिंदुलिय. ९ A भक्खंतइं. १० A चक्खंतइं. ११ A राणं रूसिवि. १२ P राइ-
यइं. १३ AP बहुविहभेयइं. १४ P ढोइयइं. १५ P गहपक्खंतरि. १६ A णिउत्तउ.

8 णाणं न्यायेन. 11 झं दु लिय अम्लिका चिञ्चा. 18 छण्णं प्रच्छन्नेन. 22 सराणं सराणेण. 26 णि-
ट्ठियउ समाप्तिं गतम्.

रापं पंडिवणुणउं वयणु तासु
णिउ णरपरमेसरु तेण तेत्थु
जीहिंदियविसयवसेण खविउ
चडुयविहत्थु रोसेण फुरिउ
पभणिउ मइं जाणहि किं ण पाव
चिचिणिहलत्थि दप्पिट्टु दुट्टुं
इय कहिवि तेण सयखंडु करिवि

भणु भुवणि ण दुक्कइ णियइ कासु ।
करिमयरभयंकरु जलहि जेत्यु ।
तहिं सिहरि सिलायलि णिवइ थविउ 15
स्यारवेसु देवेण धरिउ ।
खलवयणणाडिय रे कूरभाव ।
हउं पइं जम्मंतरि णिहउ कट्टुं ।
मारिउ गउ णरयहु भउमु मरिवि ।

घत्ता—गोत्तमु वज्जरइ मगहाहिव चारु चिराणउं ॥ 10
अण्णु वि णिसुणि तुहुं बलणारायणहं कहाणउं ॥ ८ ॥

9

इह खेत्ति णिसेविवि जइणमग्गु
तहिं एक्कु सुकेउ संहं ससल्लु
इह भारहंति संपुण्णकामु
इक्खाउवंसगयणयलि चंदु
तहु देवि पढम पिय वइजयंति
जइयहुं सुभउमि मुइ जाणियाहं
तइयहुं संचुउ सोहम्मदेउ
अण्णेक्कु लच्छिमइयहि ससल्लु
तहिं एक्कु पकोक्किउ णंदिसेणु
णांमइं हक्कारिउ पुंडरीउ
ते वेण्णि वि णीलसुपीयवसण
दोहं मि विच्छिण्णउ आवयाउ

दो पत्थिव गय सोहम्मसग्गु ।
किं वण्णमि मूढंउ मोहगिल्लु ।
चक्कउरि णाहु वरसेणु णामु ।
दाणोल्लियकरु णं सुरकरिंदु ।
लच्छिमइ वीय णं ससिहि कंति । 5
छहसयसमकोडिहिं शीणियाहं ।
हुउ पुत्तु जयंतिहि सोक्खहेउ ।
किं वण्णमि अप्पडिमल्लुमंहु ।
अण्णेक्कु वि दुत्थियकामधेणु ।
किं थुणमि वइरिमुग्गुपुंडरीउ । 10
ते वेण्णि वि भायर धवलकसण ।
दोहं मि संसिद्धउ देवयाउ ।

घत्ता—सीरिहि साहियइं छप्पणसहासइं वरिसहं ॥

चक्किहि णाहियइं परमाउसु एंव सुपुरिसहं ॥ ९ ॥

8 ३ A वडिवणुणउं. २ AP^० विसयविसण. ३ A चडुवविहत्थु; P चहुअविहत्थु. ४ A दुट्टुं.
५ A कहु.

9 १ A मुउ. २ A मोहें मूढगिल्लु. ३ A चक्कउरणाहु. ४ AP अण्णेक्कु वि लच्छिमइहि. ५ AP
अप्पडिमल्लु. ६ AP मिग^०. ७ AP read a as b and b as a. ८ P संछिणुणउ. ९ AP एउ.

8 3 b णियइ भवितव्यता. 5 a खविउ क्षितः. 6 a चडुयविहत्थु चाटुकारेण व्याकुलः.
8 a चिचिणिहलत्थि चिञ्चिणीफलनिमित्तम्; b णिहउ मारितः.

9 3 a भारहंति भरतमध्ये. 4 b दाणोल्लियकरु दानार्द्रकरः. 6 b छहसयसमकोडिहिं
षट्शतवर्षकोटिभिः. 7 b जयंतिहि वैजयन्त्याः. 10 b पुंडरीउ व्याघ्रः. 12 a आवयाउ आपदः.
14 णाहियइं न अधिकानि, तत्समानि एव षट्पंचाशद्वर्षसहस्राणि.

10

छवीसचाव देहुहु पमाणु
 इंदउरि णरिंदु उविंदसेणु
 तहु तेण धीय दामोयरासु
 तं हरहुं पराइउ पहु णिसुंभु
 जायउं रणु विज्जहि लग्ग वे वि
 पडिहरिणा घल्लिउ धगधगंतु
 तेणाहउ उरयलि पडिउ वेरि
 गउ णरयहु णियमणगहियखेरि
 हरि हलहर रज्जु करंत थक्क
 सब्भंतरि णिवडिउ चक्कपाणि
 सिवघोसगुंरुहि उवएसएण

तहिं ताहं पडुत्तणु जाणमाणु ।
 जो देवहिं गेज्जइ धरिवि वेणु ।
 पोमावइ दिण्ण कयायरासु ।
 चिरभवि सुकेउ सो रिउणिसुंभु ।
 अवरोप्परु णउ सक्किय हणेवि । 5
 धरियउं कण्हेण रहंगु पंतु ।
 अइभीसणु कयधम्मावहेरि ।
 महि सांहिवि पहयाणंदभेरि ।
 ता काले अणुयहु दिट्ठि मुक्क ।
 हलिणां विरइय कम्मावहाणि । 10
 सिद्धउ मुक्कउ मोहें मएण ।

घत्ता -- भरहणराहिवहिं मणभरियभत्तिपइरिक्कहिं ॥

वंदिउ विसहरेहिं खगपुप्फयंतगहचक्कहिं ॥ १० ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सुभउमचक्कवट्टि-
 वलणववासुणवपडिवासुणवकहंतंरं णाम
 छसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६६ ॥

10 १ AP सहिवि. २ AP हलिणा पुणु विरइय कम्महाणि. ३ A °रिसिहि. ४ AP omit पडिवासुएव°. ५ P adds सत्तमचक्कवट्टि अर स एव तित्थयर अट्टमचक्कवट्टि सुभौम छट्टवलएव णंदिमंण, वासुदेव पुंडरीय, पडिवासुएव णिसुंभ एतच्चरियं सम्मत्त; K gives this in margin.

10 5 b ण विसक्कियहणेवि हन्तुं नैव शक्तौ. 7 b कयधम्मावहेरि धर्मनिरादरः. 8 a °गहियखेरि गृहीतकलहः. 9 b काले अणुयहु दिट्ठिमुक्क कालेन यमेन अनुजस्योपरि टट्टिः मुक्ता, अनुजो मृत इत्यर्थः. 10 a सब्भंतरि श्रभ्रमध्ये. 12 °भत्तिपइरिक्कहिं भक्तिप्रगुणेः. 13 °गहचक्कहिं ग्रहसमूहैः.

तिहुवणसिरिधरो सल्लुविवज्जिओ ॥
जो परमेसरो सयमहपुज्जिओ ॥ ध्रुवकं ॥

1

जेण हओ णीहारओ	रुइणिज्जियणीहारओ ।	
सुजसोधवलियहंसओ	जस्स भुवणसरहंसओ ।	
जा कंती मयलंछणे	संपुण्णा जाय छणे ।	5
सा वि जस्स मुहपंकए	इर मज्जइ णिप्पंकए ।	
मोत्तूणं महिवइचलं	चित्तं सोदामणिचलं ।	
गाढं जेण वसं कयं	मुणिमग्गे णीसंकयं ।	
हिंसायारो वारिओ	जो कोवाणलवारिओ ।	
कामभोर्यआसी हया	सरहस्स व वणसीहया ।	10
णट्ठा जस्स विवाइणो	अइबहुकम्मविवाइणो ।	
सोउं जस्स सुआमयं	हंतूणं मोहामयं ।	
पुरिसा णिकलधामयं	पत्ता णाणसुधामयं ।	
आयंबुज्जलकरणहं	भयवंतं णियकरणहं ।	

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

इह पठितमुदारं वाचकैर्गीयमानं
इह लिखितमजसं लेखकैश्चारु काव्यम् ।
गतवति कविमित्रे मित्रतां पुष्पदन्ते
भरत तव गृहेस्मिन्भाति विद्याविनोदः ॥ १ ॥

1 १ A सिरिवरो. २ K reads a p : मिजइ इति पाठे मीयते. ३ A महिवइबलं. ४ T reads a p : कामभोइआसी इति पाठे काम एव भोगी सर्पस्तस्य आसी दंष्ट्रा.

1 3 a णीहारओ नृणामीहारजः मिथ्याचेष्टाजनितं कर्म; b णीहारओ हिमांशुः. 4 a सुजसोधवलियहंसओ शोभनेन यशसा धवलितः हंसः आदित्यः येन; a भुवणसरहंसओ भुवनसरसि हंसवद्रमते (यशः). 5 b छणे पौर्णमास्याम्. 9 b इर किल; मज्जइ बुडति; णिप्पंकए निमैले. 7 a महिवइचलं राजलक्ष्मीम्. 6 b वारिओ मेघः. 10 a कामभोर्यआसी हया कामभोग एव आशी सर्पस्य दंष्ट्रा हता येन; अथवा कामभोगानामासी प्रार्थना सा हता येन; b सरहस्सव अष्टापदस्यैव. 11 a विवाइणो मिथ्यावादिनः; b कम्मविवाइणो कर्मविपाकवन्तः. 12 a सुआमयं श्रुतामृतम्; b मोहामयं मोहव्याधिम्. 13 a णिकलधामयं सिद्धस्थानम्. 14 a आयंबुज्जलकरणहं आताम्रो-ज्ज्वलहस्तनखम्; b णियकरणहं निजेन्द्रियघातकम्.

णिम्मलत्तणिरसियणहं तं मल्लिं णमिऊण हं । 15
 वोच्छं तस्सेव य कहं इयरह मोक्खविही कहं ।
 घत्ता—पढमइ दीवइ सुरगिरिपुव्वइ ॥
 कच्छादेसइ सोहादिव्वइ ॥ १ ॥

2

वीयसोयणयरेसरो रायां रूवी विव सरो ।
 धीरो जियपरमंडलो विहवेणं आहंडलो ।
 कोसेणं वइसवणओ णामेणं वइसवणओ ।
 अण्णसिंस दियहे घणं गंतूणं कीलावणं ।
 पंकेरुहरयधूसरो रमइ जाम पुहईसरो । 5
 ताम पवासियदिहिहरो सुरधणुमंडियजलधरो ।
 थोरथेमंथिप्पिरणहो पच्छाइयदसादिसिवहो ।
 फुल्लियफुडयकयंबओ वियसावियदालिंबओ ।
 णीरपूरपूरियधरो किडिकरडीण सुहंकरो ।
 पत्तो वासारत्तओ दूरं कंको मत्तओ । 10
 णच्चावियसिहिउलणडो विज्जुजलणजलिओ वडो ।
 पर्यलियपल्लवराहयं हुयवहपउलियसाहयं ।
 ददूणं तं पायवं चिंतइ णिवई णवं णवं ।
 होइ जयं पुणु णासण णिच्चं विय ण हु दीसण ।
 घत्ता—जिह णग्गोहओ दाणिं दिट्ठओ ॥ 15
 तडिदंडाहओ सहसा णट्ठओ ॥ २ ॥

3

णासिंहिति तिह हय गया विंधलत्तचामरचया ।
 देहो जो रसपोसिओ रयणाहरणविट्ठसिओ ।

५ A णविऊण.

2 १ A रायं रूवे जियसरो. 2 AP वीरो. ३ AP अण्णेमं. ४ AP^०जलहरो. ५ AP^०थिंमं.
 ६ A पयडियं. ७ A णरवह.

3 १ A^०चामरचया.

15 a णि म्मलत्तणिरसियणहं निर्मलत्वेन तिरस्कृतं गगनं येन. 16 b इयरह अन्यथा.

2 1 b सरो स्मरः कामः. 6 a पवासियदिहिहरो पथिकधृतिहरो वर्षाकालः. 7 a^०थंमं^०
 बिन्दुः; थिप्पर^० क्षरत्. 8 b^०दालिंबओ गोमयच्छत्रं शिलीन्ध्रकम्. 9 b किडि^० सूकरः; करडी गजः.
 10 b कंको बकः. 11 b विज्जुजलणजलिओ विद्युदग्निना भस्मीकृतः. 12 a पयलियपल्लवराहयं
 प्रगलितपल्लवशोभं वटवृक्षम्; पउलियं प्रज्वलिता दग्धाः.

3 1 b^०चामरचया चामरसमूहाः.

सिंभवसापित्तासओ
इय भणिउं दाउं सिरिं
सिरिणायं सिहरुण्णयं
संबोहियवहुवणयरं
णैविऊणं जाओ जई
एयारह वि सुयंगइं
धरिऊणं हिययं दढं
इंदचंदकयकित्तणं
अहमिंदहिं विराइए
तेत्तीसंबुहिकालए

सो वि ण होही सासओ ।
णियतणयस्स गओ गिरिं ।
दरितरुकीलियपण्णयं ।
सिरिणायं कं मुणिवरं ।
सामंतेहिं समं वई ।
पढिऊणं अविहंगइं ।
च्चिण्णं चरियं णीसढं ।
वद्धं तित्थयरत्तणं ।
संभूयउ अवराइए ।
गइ थिइ छम्मासालए ।

5

10

घत्ता—तम्मि कालए अमलिणवेसहो ॥

सोहम्माहिवो कहइ धणेसहो ॥ ३ ॥

4

सुणि इह भरहे अंगए
मिहिलाउरणयरहिवो
रिसहगोत्तवंसुब्भवो
किं किर कहमि महासई
णिक्कंदप्पो णिब्भओ
भुवि हिरण्णगब्भो गुणी
कुणसु तस्सं णयरं तुमं
सहसा रइयं तं पुरं
पुण्णाणं पिव संचए
राइविरामे सुत्तिया
साहियसिरियणुभवणए

विसए धम्मवसंगए ।
दीणेसुं य पसरियकिवो ।
कुंभो णाम महाणिवो ।
देवी तस्स पैयावई ।
होही ताणं अब्भओ ।
जं थुणंति देवा मुणी ।
ता धणएण अणोवमं ।
रयणजालफुरियंवरं ।
पासाए मणिमंचए ।
पेच्छइ पंकयणेत्तिया ।
एए सोलह सिविणए ।

5

10

घत्ता—पूणं मत्तयं धोरेयं सियं ॥

सारंगहिवं गोवद्धणपियं ॥ ४ ॥

२ A णमिऊणं. ३ P पढिऊणं.

4 १ A महिलावरं. २ A दीणेसुं; P दीणेसु पसरियं. ३ AP महाहिवो. ४ AP पहावई.
५ A तासु.

3 a °पित्तासओ पित्ताश्रयः. 5 a सिरिणायं श्रीनागपर्वतम्. 6 b सिरिणायं कं श्रीनागाङ्कम्.
7 b वई स्फुटम्. 8 b अविहंगइं परिपूर्णानि. 9 b णीसढं निष्कपटं शठःवरहितम्. 12 b छम्मासालए षण्मासकाले स्थिते सति.

4 5 b अब्भओ अर्भकः. 7 b अणोवमं अद्वितीयम्. 11 a साहियसिरिअणुभवणए साधितं श्रियाः अनुभवनं अनुभवो यैस्तादृशान् स्वप्नान्. 12 पूणं गजम्; धोरेयं त्रुपभम्. 13 सारंगहिवं सिंहम्; गोवद्धणपियं गोवर्धनो विष्णुस्तस्य प्रिया लक्ष्मीः ताम्.

5

मालाओ कयजणदिहिं	अमयरुहं सररुहसुहिं ।	
भावभरियवम्महरसं	अणिमिसमिहुणं रइवसं ।	
धवलघडाणं जुयलयं	हंसीचुंबियकुवल्यं ।	
पुलिणालीणबलाययं	सजलं कमलतलाययं ।	
सरिरायं रसणारवं	मणिवीढं हरिभइरवं ।	5
अच्छरणाइणिगेयए	इदफणिदणिकेयए ।	
हरियं पीयं तंबयं	रयणाणं णिउरुंबयं ।	
ददुणं मरुजालियं	अग्गिं जालामालियं ।	
पडिबुद्धा परमेसरी	कहइ सपइणो सुंदरी ।	
मइं विइणणलोयणरइं	दिट्ठा सिविणयसंतइं ।	10

घत्ता—तिस्सां तं फलं कहइ नृसारओ ॥

तुह होही सुओ देवि भडारओ ॥ ५ ॥

6

धरिही जो रयणत्तयं	णविही जस्स जयत्तयं ।	
लहिही जो छत्तत्तयं	जाइजरामरणत्तयं ।	
डहिही जो णिब्भंतयं	जाही मांक्खमणंतयं ।	
सो ते होही डिंभओ	सुहिजणलग्गणखंभओ ।	
अमरविलासणिसत्थओ	पत्तो मंगलहत्थओ ।	5
सुविसुद्धे गब्भासए	धणधारावरिसे कए ।	
पढममासि पढमे दिणे	आंसिणिगइ हरिणंकणे ।	
राणैउ जो रइकंदओ	वइसवणो अहमिंदओ ।	
गयरूवेणवइणणओ	राणीगब्भि णिसण्णओ ।	
सो सुरेहिं अहिणंदिओ	फणिकिंणरणरवंदिओ ।	10

5 १ A °वलालयं. २ A तडालयं. ३ A तस्सा. ४ AP णिसारओ.

6 १ A सो तव होही. २ A अस्मिणि°. ३ A राओ जो. ४ AP रुहंरुंदओ.

5 1 b अमयरुहं चन्द्रम्; सररुहसुहि सूर्यम्. 2 b अणिमिसमिहुणं मत्स्ययुग्मम्. 4 a °बलाययं बलाका; b °तलाययं तडागम्. 5 a सरिरायं सरितां राजानं समुद्रम्; रसणारवं जलमानुषशब्दयुक्तम्; b हरिभइरवं सिंहैर्मयानकम्. 11 नृसारओ नृपु प्रधानो राजा.

6 1 b णविही नमस्यति. 3 a णिब्भंतयं भ्रान्तिरहितम्. 7 a पढमेत्यादि चैत्रप्रतिपदायाम्; b आसिणिगइ हरिणंकणे चन्द्रे अश्विनीगते. 8 a रइकंदओ सौख्यकन्दः. 2 a तुहिणा यरे चन्द्रे.

णिष्वाणं पत्ते अरे	वरिसकोडिसहसंतरे ।	
मग्गसिरे तुहिणायरे	सियएयारसिवासरे ।	
आसिणिरिक्खे जायओ	तित्थयरो हयरायओ ।	
एक्कणवीसमओ इमो	णररूवेण व संजमो ।	
अहिसित्तो अमरायले	हरिणा पंडुसिलायले ।	15

घत्ता—मल्लियमालागंधो जाणिओ ॥

इंदेण जिणो मल्ली भाणिओ ॥ ६ ॥

7

अणुअत्थं पवियप्पिओ	जणणीहत्थे अप्पिओ ।	
घणडंबरघल्लियपया	देवा णियवासं गया ।	
बुहुमुहपोमाणं इणो	वडुइ कालेणं जिणो ।	
जाओ जायरूवाहओ	पंचवीसघणुदीहओ ।	
आउसु तस्स सहासइं	वरिसहं पणपण्णासइं ।	5
वरिससए वोलीणए	आरूढो सुरपूणए ।	
कुणइ विवाहपवट्टणं	पेच्छइ कुंअरो पट्टणं ।	
परिहापाणियदुग्गमं	बहुदुवारकयणिग्गमं ।	
हेमघडियपायारयं	पवरट्टालयसारयं ।	
पोमरायंकयभारुणं	उब्भियधुयधयतोरणं ।	10
हसियणिसावइकंतियं	पेच्छंतो घरपंतियं ।	
सरइ पहू अवराइयं	सुकयं मज्झु पुराइयं ।	
खीणं तेण विमाणयं	मुक्कं अहमिंदाणयं ।	
एण्हि होही किं थिरं	णरजम्मे णयरं घरं ।	

घत्ता—छत्तायारयं सिवमहिमंडलं ॥

15

करमि तवं परं लहमि धुवं फलं ॥ ७ ॥

५ A अस्सिणि°.

7 १ A अणुअत्थे and gloss आश्चर्यम्; T' अणुअत्थं आश्चर्यम्. 2 A °घणुदेहओ. ३ A सुरपूणए. ४ AP कुमरो. ५ AP पोमरायकिरणारुणं.

13 b हयरायओ वीतरागः. 15 a अमरायले मेरौ.

7 1 a अणुअत्थं अन्वर्थम्. 2 a घणडंबर° आकाशम्. 4 a जायरूवाहओ सुवर्णाभः. 6 b सुरपूणए सुरगजे. 10 b °धुय° आन्दोलिताः. 12 a अवराइयं अपराजितं अनुत्तरविमानम्. 15 छत्तायारयं सिवमहिमंडलं छत्राकारं शिवानां सिद्धानां महिमण्डलं मोक्षस्थानम्.

8

ता सारस्सयभासियं	सोऊणं सुइमीसियं ।	
कुंभणिवस्स य तणुरुहो	तरुण्णिणं विवरंमुहो ।	
इंदेणं ससहरमुहो	ण्हविओ दिक्खासंमुहो ।	
जयणे जाणे थक्कओ	कुवल्लयकुमुयमियंकओ ।	
कामेसुं सुविरत्तओ	सरयवणं संपत्तओ ।	5
जम्मदिणे णक्खत्तए	पक्खे तम्मि पउत्तए ।	
णिववरंतिंसयइए जुओ	मोहणिबंधाओ चुओ ।	
सायण्हे सुतवे थिओ	णाणचउक्केणंकिओ ।	
धित्तं पच्चक्खाणयं	मोत्तुं भत्तं पाणयं ।	
विहिं दिवसेहिं गण्हिं सो	दसदिसिवहपसरियजसो ।	10
णिण्णेहो णीसंगओ	मिहिलाए भिक्खं गओ ।	
णंदिसेणवररोइणा	दिण्णं भत्तं जोइणा ।	
भुत्तं तणुणिव्वाहणं	संजमजत्तासाहणं ।	
घत्ता—पुणु दिक्खावणे सुरहियपरिमले ॥		
थक्क असोयहो तलि धरणीयले ॥ ८ ॥		15

9

दिणि छक्के विच्छिण्णए	भिण्णे मिच्छादुण्णए ।	
हुउ देवाण वि देवओ	लद्धो खाइयभावओ ।	
रिसिविज्जाहरसंसिओ	इंदपडिंदणमंसिओ ।	
समवसरणि आसीणओ	अरिसुयणे वि समाणओ ।	
जीवमजीवं आसवं	संवरणिज्जरणं तवं ।	5
बंधं मोक्खं भासए	लोयं धम्मविसेसए ।	
थवइ तस्स णिसुणियञ्जुणी	अट्टवीस जाया गणी ।	

8 १ A सुयमीसियं. २ A °तिसइए; P °तिसइएण. ३ P वेत्तुं. ४ A मोत्तं. P ५ °राइणो. ६ A भिक्खं; P भक्खं. ७ जोइणो.

9 P adds after this: पूसक्किण्हकीयए तओ, पंचमु णाणुप्पणओ. २ A अरिसयणे; P अरिसयणा.

8 1 a सारस्स य° लौकान्तिकाः; b सु इ मी सि यं आगमयुक्तम्. 2 b वि व रं मु हो पराङ्मुखः. 4 a ज य णे जयननाम्नि; b कु व ल य° भूमण्डलम्.

9 1 a दि णि छ क्के पारणानन्तरम्; तृतीये दिने पारणं जातं तदनन्तरं द्वितीयं पारणं न जात-मित्यर्थः.

सयइं पंचपण्णासइं
एक्कुणतीससहासइं

पुव्वधराहं णिरासइं ।
सिक्खुयाहं मलणासइं ।

घत्ता—दुसहसदुसयइं सावहि हयकलि ॥
तहिं जेत्तिय ते तेत्तिय केवलि ॥ ९ ॥

10

10

चउदहसय वाईसहं
णवसय दोण्णि सहासइं
मणजाणहं सत्तारह
पंचावण्णसहासइं
सावयलक्खु अहीणउं
सुर असंख उम्मोहिवि
भवसमुद्दतडपाविण
पंचसहासहिं जुत्तओ
संमेण सिरहयणहे
भरणीरिक्खे मुक्कओ

विकिरियहं वि रिसीसहं ।
कुच्चियणयविद्धंसइं ।
सयपण्णास समीरह ।
विरइहिं मुक्कसवासइं ।
सावईहिं तं तिउणउं ।
पसु ससंख संबोहिवि ।
माससेसथियजीविण ।
रिसिहिं णाहु तमचत्तओ ।
फग्गुणि सियपंचमियहे ।
अट्टमपुहंइहि थक्कओ ।

5

10

घत्ता—हरउ भयंकरं भवविब्भमदुहं ॥

मल्लिसुणीसंरो देउ सुहं महं ॥ १० ॥

11

मल्लितित्थसंताणे कयपडिवक्खवहं

बुहयणसुइसुंइयरणं णिसुणह चक्किहं ।

जंबूदीवसुरोयलि पुव्वाविदेह्वरे

विउलि सुक्कच्छाजणवइ सिरिहरि सिरिणयरे ।

तडिकरालअसिधारातासियसयलखलो

पयपालो पुहईसो पोसियपुहइयलो ।

३ A सिक्खुवाह; P भिक्खुयाह. ४ AP तहिं हुय जेत्तिय तेत्तिय.

10 १ A पण्णावण्ण°. २ A मुक्कसवासइं; P मुक्कभवासइं. ३ A संमोहिवि. ४ AP मास-
सेसि थिइ जीविण. ५ AP °पुहविहि. ६ AP महं सुहं.

11 १ A °सुहजणणी; P °सुहजाणण. २ A सुरालए. ३ A विदेहि वरे.

10 सा व हि अवधिज्ञानसहिताः.

10 3 b समीरह प्रतिपादय, कथय त्वम्. 5 a अ ही ण उं परिपूर्णमेकलक्षम्; b तिउणउं
त्रिगुणम्. 9 a सिरहयणहे मस्तकेन हतनभसि. 12 देउ ददातु.

11 2 ° सुइसुहयरणं श्रुतिसुखकारकम्. 3 °सुरायलि मेरो. 5 तडिकराल°:विद्युता रौद्रः.

णिसिसमप ददृणं उक्कं ण्हल्हसियं	
सिधगुत्तस्स समीवे सुकियं तेण कियं ।	
वारहविहतवचरणं इंदियमयहरणं	
मुक्काहारसरीरं सल्लेहणमरणं ।	10
जायउ अच्चयकप्पे अमरो मरिऊणं	
सग्गसिहरभवणाओ पुणु ओयरिऊणं ।	
इह भरहे कासीए वाणारसिणाहो	
आइदेवकुलतिलओ पहु पंकयणाहो ।	
मज्जे खामा सामा रामा तस्स सई	15
जाओ देवो पोमो ताणं सुद्धमई ।	
तीसवरिससईसउ धणुवावीसतणु	
णयसंणिहियणरोहो पहु णं चरममणु ।	
गंगासिंधूणविओ साहियमहियमरो	
णिहिरयणालंकारो णवमो चक्कहरो ।	20
घत्ता—पुहईसुंदरीपमुहउ धीयउ ॥	
अट्ट वि सिद्धेउ सुट्टु विणीयउ ॥ ११ ॥	

12

णेहे णिउत्ताण विण्णाणजुत्ताण
णिच्छिज्जमाणेण दीहेण कालेण
देवेण सव्वावणीरिद्धिरेद्धेण
कम्मरिचारित्तत्ती कया जाम
जायंति भूयाण संजोयभावेण
दिक्खाइ भिक्खाइ किं होउ हे राय
जं णैत्थि णो तस्स उप्पत्तिसंताणु
कूराण कउलाण कंकालिंधाण

दिण्णाउ ताओ सुकेयस्स पुत्ताण ।
रज्जं करंतेण भूचक्कवालेण ।
दिट्ठो घणो खे पणट्ठो खणद्धेण ।
दुब्भंतिणा मंतिणा जंपियं ताम ।
जीवा ण बज्जंति पुण्णेण पावेण । 5
णाहेण सो उत्तु भो बुद्ध णिण्णाय ।
णो जम्मु णो कम्मु णो कस्सं णिव्वाणु ।
कीलालमत्ताण कंतारयंधाण ।

४ A उक्क उल्हसियं. ५ A रामा सामा तस्स. ६ A °सहसाऊ. ७ A सिद्धउ.

12 १ A दिण्णाउ ता ताउ. AP सुकेउस्स. ३ A पिच्छिज्जमाणेण. ४ A खं पणट्ठो. ५ A अत्थि. ६ P धम्मणिग्वाणु. ७ A कंकालगिद्धाण.

7 णहल्हसियं गगनात् च्युताम्. 14 पंकयणाहो पद्मनाभः. 15 रामा रामानाम्नी. 16 पोमो पद्मनामा चक्री. 18 णयसंणिहियं न्याये स्थापितः.

12 1 a णेहे णिउत्ताण स्नेहयुक्तानाम्; b ताओ ता अष्टापि पुत्रीः. 2 a णिच्छिज्जमाणेण निश्चिद्यमानेन गच्छता. 3 b घणो मेघः. 4 a कम्मरिचारित्तत्ती कर्मशतुर्जनस्तस्य चारित्रस्य तत्ति-
श्रिन्ता; b दुब्भंतिणा दुष्टभ्रान्तिना चार्वाकमतानुसारिणा. 5 a भूयाण भूतानां पृथ्यादीनाम्. 7 a जं
णत्थि यद्वस्तु खपुष्पादिकं नास्ति. 8 b कीलालमत्ताण मयमत्तानाम्; कंतारयंधाण स्त्रीरत्नान्धानां
भार्यारमणान्धानाम्.

सुत्तेण किं मज्झु किं बंधुणेहेण
एवं पवोत्तुण तच्चाइं णाऊण
सूरिस्स तिव्वं समाहीइ गुत्तस्स
सोमो व्व सोमेण णिम्मुकुपोमेण
संहुं इसी जायया णिकसाएण
खीणां तवेणं खरं णिकलत्तेण

साहामि सोक्खं धुवं एण देहेण ।
पुत्तस्स भूमिं असेसं पि दाऊण । 10
काउं तवं पायमूले सुजुत्तस्स ।
राया सुकेऊं वि अण्णे वि पोमेण ।
णिल्लोहणिम्मोहिणा णिव्विसाएण ।
मोक्खं गया संठिया णिकलत्तेण ।

घत्ता—एत्थइ तित्थइ जे हयवइरिणो ॥

15

जाया भाणिमो ते हरिसीरिणो ॥ १२ ॥

13

ससहरधवलहरे धणरिद्धे
मंदरधीरो वीरो राया
एए किर दुम्मइपइरिक्का
लग्गा ते ण हु पिउणो चित्ते
लक्खियतच्चे रक्खियजीवे
धम्मणाहतित्थे हयमारा
णो समियं णियचित्तं कुद्धं
जइ वयवेल्लिहलं पावामो
एम भरंतो णिग्गयंप्राणो
पढमे कप्पे पिहुल्लैविमाणे
पिसुणंमहंतो ता संसारे
उत्तरसेढीमंदिरणांमे
जाओ धरणावइ खयरिंदो

इह भरहे साकेयपसिद्धे ।
पुत्ता रामविरामा जाया ।
पिसुणमंतियवणेण विमुक्का ।
भाउं वि णिहियउ जुवराइत्ते ।
गुरुणो सिरिसिवगुत्तसमीवे । 5
ते पावइया रायकुमारा ।
अणुजाएण णियाणं बद्धं ।
तां तं खलमंतं णिहणामो ।
अणसणेण जाओ गिन्वाणो ।
जेट्ठो वि हु तत्थेय विमाणे । 10
अणुहविऊणं दुक्खपयारे ।
णयरे कामिणिकामियकामे ।
वल्लिवलणासो णाम बल्लिंदो ।

घत्ता— चंडा राइणो असिणा दंडिया ॥

तेण तिखंडिया मेइणि मंडिया ॥ १३ ॥

15

८ AP साहम्मि. ९ P सोमो ण. १० A सुकेऊविइण्णेण. ११ A सुद्धं इसी जायओ; P सक्कं इसी जायया. १२ A खीणं तवेणं.

13 १ P साकेयए पसिद्धे. २ A रामविराम विजाया. ३ A भाऊ णिहिओ. ४ A लक्खियचित्ते. ५ A तो. ६ AP ०पाणो. ७ AP ०विमाणे. ८ P तत्थेअ समाणे; K records: तत्थेअ समाणे इति पाठे पूजासहिते. ९ P पिसुणु. १० A णरिंदो.

9 a सुत्तेण आगमेन चार्वाकादीनाम्. 12 सो मो व्व सो मेण चन्द्रवत्सौम्येन; णि म्मुक्कपो मेण मुक्क-लक्ष्मीकेण. 13 स हुं सार्धम्. 14 a णिकलत्तेण स्त्रीरहितेन; b णिकलत्तेण निःशरीत्वेन.

13 3 a ०पइरिक्का प्रचुराः; b पिसुणं मन्त्रिनामेदम्. 7 a अणुजाएण लघुभ्रात्रा विरामेण. 11 b दुक्खपयारे दुःखप्रकारान्. 13 b बल्लिवलणासो बल्लिष्ठानां बलनाशकः.

14

एत्थंतरए	सिरिसुंदरए ।	
खेत्तविवित्ते	भारहखेत्ते ।	
कासीदेसे	सज्जनवासे ।	
बहुगुणरौसी	वाणारासी ।	
उण्णयहम्मा	णयरी रम्मा ।	5
पडिभडमल्लो	अग्गिसिहिल्लो ।	
सत्तिसहाओ	तस्सि राओ ।	
सिसुहंसगई	अवराइय ई ।	
णं पञ्चक्खा	कयरयसोक्खा ।	
अलिकेसवई	थी केसवई ।	10
बीया सरसा	पियघरसरसा ।	
विस्सुयणामो	जो चिररामो ।	
कयजिणसेवो	आयउ देवो ।	
थक्को गब्भे	रवि व सियब्भे ।	
जाओ तीए	पढमसईए ।	15
रमियरईए	केसवईए ।	
अवरो हूओ	वम्महरूओ ।	

घत्ता—लीलागामिणो णाइ मरालया ॥
णवजोवणसिरिं पत्ता बालया ॥ १४ ॥

15

तहिं पहिल्लओ णंदिमित्तओ	बीयओ वि णामेण दत्तओ ।
खरपयावभरतसियवासवा	वे वि ते णिवा सीरिकेसवा ।
वे वि सिद्धहरिरहविहंगया	वे वि कासकज्जलणिहंगया ।

14 १ A गिरिसुंदरए. २ P खेत्ति विवित्ते. ३ A °गुणवासी. ४ A उग्गयहामा. ५ AP णाओ.

15 १ A हुवा.

14 2 a खेत्त वि चित्तं धान्यक्षेत्रैः विचित्रे. 6 b अग्गि सिहिल्लो अग्निशिखः. 8 b ई लक्ष्मीः त्यक्षा. 9 b कयरयसोक्खा कृतरितिसौख्या. 10 a अलिकेसवई भ्रमरसमानकृष्णकेशयुक्ता; b केस-
ई केशवतीनाम्नी. 11 b पियघरसरसा भर्तृगृहतडागलक्ष्मीः. 15 b पढमसईए अपराजितायाम्.

15 3 a सिद्धहरिरहविहंगया सिद्धा सिंहशवाहिनी विद्या बलस्य, गरुडरथवाहिनी कृष्ण-
य; b कास° श्वेतपुष्पम्.

विहिं मि अत्थि महिपंसुपिजरो
मग्गिओ यं सो रायराइणा
अट्टहासहिमरासिवण्णओ
दूयवयणविहिवाड्ढिओ कली
चारु अमरकंतारवासिणा
बद्धणेहरसमुणियसाउणा
सहिय बे वि बंधू वि णिग्गया
जाययं रणं वलियसंमुहा
चूरिया रहा दारिया हरी
णञ्चिया णहे अमरसुंदरी
अंतरे भडो संठिओ हरी

खीरसायरो णाम कुंजरो ।
धीरिवइरिसंतावदाइणा ।
तेहिं तस्स सो णेय दिण्णओ ।
सह चमूइ आर्येउ णिवो बली ।
दाहिणिल्लसेदीखगीसिणा ।
माउलेण केसवइभाउणा ।
सह बलेण समराइरं गया । 10
सीरिणा हया वइरितणुरुहा ।
लूरिया धया मारिया करी ।
बद्धमच्छरो धाइओ अरी ।
तेण दौळिओ खयरकेसरी ।

घत्ता—दोहिं मि जं कयं विज्जापहरणं ॥

15

फो तं वण्णए बहुरूवं रणं ॥ १५ ॥

16

जं दिणयरबिंबु व विप्फुरिउ
सुहडत्तदीउ ण संचरिउ
हउ वइरि तेण मारिउ तुमुलि
इह एव एहु थिउ गंपि जहिं
तहिं अवसरि सील्लु परिग्गहिउं
संभूयजिणेसरु सेवियउ
सहियइं बावीसपरीसहइं
अणयार महाकेवलिववरु
ससहावें तिहुवणसिहरु णिउ
सो बुद्धु सिद्धु णिद्धयरउ

पडिबक्खें चक्कु मुक्कु तुरिउ ।
तं दत्तएण हत्थे धरिउ ।
गउ णिवडिउ सत्तमधरणियलि ।
महि भुंजिवि कण्हु वि गर्येउ तहिं ।
हलिणा हियउल्लउं णिग्गहिउं । 5
तंवतावें अण्णउ तावियउ ।
महियइं चउकम्मइं दुम्महइं ।
जायउ कालेण अजरु अमरु ।
बीयउ परमेट्ठि हवेवि ठिउ ।
धुवकेवलदंसणणाणमउ । 10

२ AP वि. ३ AP वीर°. ४ AP आइओ. ५ A दाहिणल्ल°. ६ A दुच्छिओ.

16 १ A पडिबक्खें. २ AP तेण वइरि. ३ A इह एम गंपि थिउ एहु जहिं. ४ A जाम तहिं; P तेम तहिं. ५ AP तवभावें. ६ A दुम्मयइं. ७ AP धुउ.

4 a °पंसु पिंजरो धूलिधूसरः 5 a रायराइणा प्रतिवासुदेवेन. 8 a अमरकंतार° नगरस्थ नामेदम्. 10 b समराइरं संग्रामाङ्गणम्. 14 b दौं छिओ भर्त्सितः. 15 a विज्जापहरणं विद्याभिः संग्रामः.

16 1 पडिबक्खें शत्रुणा. 7 चउकम्मइं चत्वारि घातिकर्माणि. 8 a अणयार मुण्डकेवली. 9 b परमेट्ठि सिद्धः.

मयरद्वयचावसमुल्ललियं

णिसियं संछिंदु आवलियं ।

घत्ता—भरहणमंसिउ महं देहाणियं ॥

सुकुसुमयंतउ कुसुमसराणियं ॥ १६ ॥

इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे
 मल्लिणाहंपउमचक्किणांदिमित्तदत्तयवलिपुराणं णाम
 सत्तसद्धिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६७ ॥

८ A णिसि पासिउ छिदिउ आवडियं. ९ A महं. १० A मल्लिणाहणिव्वाणगमणं णाम सत्तसद्धिमो.

11 b णि सि यं तीक्ष्णाम् ; आ व लि यं कामवाणपंत्तिमित्यर्थः. 12 दे हा णि यं देहानीताम् . 13 सु कु सु म-
 यं त उ सुष्ठु कुन्दवत्कान्तिः; कु सु म स रा णि यं पुष्पवाणमयीम् .

LXVIII

जो तित्थंकरु वीसमउ वीसु विसयविसवेयणिवारणि ॥
जोईसरु जोईहिं णमिउ जो बोहित्थु भवण्णवतारणि ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो दिव्ववाणिगंगापवाहु	जो रोसहुयासणघारिवाहु ।	
जो मोहमहाघणगंधवाहु	जो मोक्खणयरवंहसत्थवाहु ।	
तणुगंधे जो समु चंदणासु	पउणइ जो तेपं चंदणासु ।	5
जो पणमिउ रामे लक्खणेण	धम्मणेण अहिंसालक्खणेण ।	
जणु जेण णिहिउ सग्गापवग्गि	जो सरिसच्चित्तु रिउबंधुवग्गि ।	
जे मिच्छतुच्छधीरंगरत्त	दप्पिट्टु दुट्ठ तिट्ठागरत्त ।	
जे घुम्मिरच्छ पीयासवेण	जे बद्धा गुरुक्कम्मासवेण ।	
जे कयलालस मासासणेण	जे विरहिय परहियसासणेण ।	10
जे णारिहिं वसं आया रएण	ते मुक्क जासु आयारएणं ।	
सुद्धोयणि सुरगुरु कविल भीम	वयणेण विणिज्जिय जेण भीम ।	
तिहुयणि ण कोइ दीसइ समाणु	सण्णाणु जासु आयासमाणु ।	
णिच्चलपरिपालियसुव्वयासु	पणवेप्पिणु तंहु मुणिसुव्वयासु ।	

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

चञ्चन्द्रमरीचिचञ्चुरचुराचातुर्यचक्रोचिता
चञ्चन्ती विचट्चमत्कृतिकवि प्रोदामकाव्यक्रियाम् ।
अञ्चती त्रिजगन्ति कोमलतया बान्धुर्यधुर्या रसेः
खण्डस्यैव महाकवेः सभरतान्नित्यं कृतिः शोभते ॥ १ ॥

P reads अचन्ती; A reads तृजगन्ति; and P त्रिजगत्र in the third line; and AP read सभरता in the fourth line.

1 १ AP णविउ. २ A °वहे सत्थ°. ३ AP पणविउ. ४ AP जो. ५ AP घुम्मिरच्छि. ६ AP add after this: जे विरहिय (P रहिय) सया वि आयारएण. ७ A वसु जाया. ८ A जे मुक्क. ९ AP add after this: तेलोइयसुद्धायारएण. १० P तुहु.

1 1 वीसु वीनामीशो गरुडः; °वेय° वेग आतङ्को वा. २ वो हित्थु नौः. 3 a दिव्ववाणिगंगापवाहु दिव्यवाण्येव गङ्गाप्रवाहो यस्य; b °वारिवाहु मेघः. 4 a °गंधवाहु वायुः; b °वह° मार्गः. 5 b चंदणासु चन्द्रामिभवः, चन्द्रतिरस्कारं जनयतीत्यर्थः. 8 a मिच्छतुच्छधीरंगरत्त ये मिथ्या च तुच्छधीरागरक्तास्ते यस्य भगवत आचारेण मुक्ताः; b तिट्ठागरत्त तृष्णाविषार्ताः. 9 a घुम्मिरच्छ घूर्णितनेत्राः पीतमयेन. 10 b परहियसासणेण परं यद्धितं तदर्थं शासनं, जैनमतमित्यर्थः. 11 a रएण स्या; b आयारएण अनुष्ठानेन. 12 a सुद्धोयणि सौगतः; सुरगुरु बृहस्पतिश्चावीकः; b वयणेण बचनेन. 13 b सण्णाणु सम्यग्ज्ञानम्; आयासमाणु आकाशप्रमाणम्, अनन्तमित्यर्थः.

घत्ता—तद्दु जि कहंतरु वज्जरमि जेण विमुञ्चमि दुग्गइदुक्खहु ॥ 15
अट्ट वि कम्मइं णिट्ठविवि देहु मुएप्पिणु गच्छमि मोक्खहु ॥ १ ॥

2

एत्थेव य कयकूरारिकं प
तहिं असिजलधारइ हरियछाउ
सो एक्कहिं दिणि उज्जाणु पत्तु
अणगार णाणि परमत्थसवणु
सत्तंगसंगु सुइ णिहिउ रज्जु
तत्तउं तउ सहुं बहुपत्थिवेहिं
होइवि एयारहअंगधारि
तणुं चापं मुउ हुउ प्राणइंदु
तहु आउ वीससायरइं तेत्थु
सियलेसु चित्तपाडिचारवंतु
णीससइ देउ दहमासएहिं

भरहंगदेसि पुरि अत्थि चंप ।
जगु जेण कियंउ हरिवम्मराउ ।
दिट्ठउ अणंतवीरिउ विरत्तु ।
वंदेप्पिणु णिसुणिवि धम्मसवणु ।
अप्पणु पुणु कियंउ परलोयकज्जु । 5
णिग्गंथमग्गपत्थियसिवेहिं ।
अरहंतपुण्णपव्वभारकारि ।
हरिवम्म सुकंतिइ जित्तचंदु ।
तणु भणु विहत्थि पुणु तिउणु हत्थु ।
अवहीइ णियइ पंचमधरंतु । 10
पुणु वीसहिं वैरिससहसगएहिं ।

घत्ता—देउ मणेण जि आहरइ सुहमइं पोग्गलाइं रसरिद्धइं ॥
अयणमेत्तु जीविउ थियउ पयइइं जायइं कालहु च्चिधइं ॥ २ ॥

3

ता तद्दु चरित्तु णिञ्चप्फलेण
इह भरहि मगहरायं गिहि दित्तु
जिणपायपोमज्जुयरेणुलित्तु
अप्पडिमसत्ति णं सिद्धमंतु
एयहं णंदणु जिणु सोक्खहेउ
भो धणय धणय कल्लणमित्त

धणयहु भासिउ आहंडलेण ।
पुरि वसइ राउ णामं सुमित्तु ।
हरिवंसकेउ कासवसुगोत्तु ।
कि वण्णामि सोमाएविकंतु ।
होही प्राणयत्तु देवदेउ । 5
एयहं दोहं मि करि पुरि विचित्त ।

2 १ AP कयउ. २ P हरिवम्म. ३ A तणु चइवि मुउ. ४ AP पाणइंदु. ५ A वाससहा-
एहिं; P वाससहसगएहिं.

3 १ AP णिच्चफलेण. २ A ०रायगिहु. ३ AP पाणयत्तु.

2 2 a हरि यछाउ हतमाहात्म्यः. 4 a परमत्थ सवणु परमार्येन श्रमणः. 5 a सत्तंगसंगु
सत्ताङ्गैः सह; सुइ पुत्रे. 9 b विहत्थिपुणु तिउणु हत्थु वितस्ति युक्तास्त्रयो हस्ताः. 10 a ०पडि या रं
मनःप्रवीचारः; b पंचमधरंतु पञ्चमनरकपर्यन्तम्. 13 अयणमेत्तु पण्मासान्; कालहु मरणस्य.

3 1 a णिच्चफलेण निश्चपलेन. 2 a दित्तु दीप्तिमान्. 4 a अप्पडिमसत्ति अप्रतिम-
शक्तिः.

ता रइय णयरि दविणाहिवेण दिप्पंतं तव्वेणिज्जे णवेण ।
 पासायपंतिरहचच्चरेहिं गयणयललग्गवरगोउरेहिं ।
 सरिसरणंदणवणजिणघरेहिं राक्खिज्जंती णिर्यक्किंकरेहिं ।

घत्ता—तहिं सँउहहु सत्तमि तलि घणथणमंडलहारबिलंबिणि ॥ 10
 सुहुं सोवंती सयणयलि पेच्छइ सिविणय रायणियंबिणि ॥ ३ ॥

4

मत्तसिधुरं	सियधुरंधरं ।	
हरिणराययं	लच्छिकाययं ।	
फुल्लदामयं	दिट्टिकामयं ।	
चंदविंबयं	उययतंबयं ।	
चंडकिरणयं	मीणमिहुणयं ।	5
कुंभजुयलयं	दलियकमलयं ।	
कमलवासयं	सुरहिवासयं ।	
अमयमाणिहिं	अमरवारिहिं ।	
सीहंभूसणं	दिव्वमासणं ।	
सिहरसुंदरं	इंदमंदिरं ।	10
धुयधयालयं	विसहरालयं ।	
णिहिंर्यतिमिरयं	रयणणियरयं ।	
कविलच्चलसिहं	जलियहुयवहं ।	

घत्ता—इय जोइवि सिविणय सइइ सुत्तविबुद्धइ भासिउं दइयहु ॥
 तेण वि तं तंदि अक्खियउं जं फलु होसइ पुव्वविरइयहु ॥ ४ ॥ 15

5

तुह कुच्छिहि इच्छियगुणमहांति होसइ सुंउ तिहुवणणाहु कंति ।
 सुरधणधारंचिइ रायगेहि अच्छरहिं पसाहिइ देविदेहि ।

४ P तवणिज्जे तवेण. ५ P °यले लग्ग°. ६ P णिवक्किंकरेहि. ७ AP सउहहि.

4 १ A लच्छिकामयं. २ A धरियकमलयं. ३ A सीहभूसियं. ४ A विहिय°; P विहय°. ५ A तहु.

5 १ A जिणु.

7 b तवणिज्जे सुव्वणेन. 11 रायणियं विणि सोमादेवी.

4 1 b सियधुरंधरं श्वेतवृषभम्. 2 b लच्छिकाययं लक्ष्मीमूर्तिम्. 6 b दलिय° विकसितम्. 7 a कमलवासयं पद्मसरः. 6 b अमरवारिहिं क्षीरसमुद्रम्. 15 a पुव्वविरइयहु पूर्वोपाजितपुण्यस्य.

5 1 b कंति हे कान्ते भार्येः.

7

जहिं णरणाह वि होंति गय	कालेण हय ।	
तहिं किं किज्जइ सिरिधरणु	जिणतवचरणु ।	
किंज्जइ काणणि पइसरिवि	थिरु मणु धरिवि ।	
सुररिसिहिं वि सो तहिं संथविउ	सक्के ण्हविउ ।	
विजयहु रज्जु समणियउ	तिणु कं पि य उं ।	5
गउ सिवियइ अवराइयइ	सुं विराइयइ ।	
ओइणणउ जिणु णीलवणि	तरुवेल्लिघणि ।	
वइसाहइ दसमीदियहि	णिच्चंदवहि ।	
सवणि सहासें सहुं णिवहं	जगबंधवहं ।	
छट्टुववासें तवु गहिउं	अमरहिं माहिउ ।	10
भिकखाहि मुणि गउ रायगिहु	विच्छिण्णल्लिहु ।	
वसहसेणरायस्स धरि	थिउ पुण्णभरि ।	
जं पासुययरु लद्धु जिह	तं भोज्जु तिह ।	
भुंजिवि पुणु तेत्थाउ गउ	कयसुं हिविजउ ।	
खरतयतावें तत्ताहो	सुविरत्ताहो ।	15
णव झीणइं णिम्मच्छरइं	संवच्छरइं ।	
आयउ पुणु तं तरुगहणु	वम्महमहणु ।	
दिक्खारिक्खि पक्खि कहिए	मासें सहिए ।	
णवमीदिणि चंपयहु तलि	थिउ धरणियलि ।	
पोसहजुयलें गलियमलु	हूयउ सयलु ।	20
केवलविमलु अणंतयरु	सुरखोहयरु ।	
घत्ता—कोमलकरयलघ्रंत्तियहिं कुसुमहिं चित्तलंतु गयणंगणु ॥		
णं चित्तवहु पसारियउ जलि थलि महियलि माइ ण सुरयणु ॥ ७ ॥		

8

सहसकखें विरइउ समवसरणु	उवविट्टु भडारउ तिजगसरणु ।
चरु अचरु असेसु वि जणहु कहइ	तहिं पसु वि चारु चारित्तु वहइ ।

7 AP कीरइ. २ A काणणु. ३ AP मणु थिरु. ४ AP कणियउ. ५ A रुहराइयइ; K omits सुविराइयइ. ६ AP उवइणउ. ७ A णिच्चंदयहि. ८ A सवणसहासें. ९ A विच्छिण्णल्लुहु. १० A सुहविजयो. ११ तत्तयो. १२ A सुविरत्तयो. १३ AP णिल्लियहि. १४ AP चित्तवट्टु. १५ AP णहयलि.

7 5 b तिणु कं पि य उं तृणवरसंकल्पितम्. 7 a ओ इ ण उ अवतीर्णः. 8 b णिच्चंदवहि निर्गतश्चन्द्रपथो यत्र. 9 a सवणि श्रवणनक्षत्रे. 11 b विच्छिण्णल्लिहु गतस्पृहः. 13 a पासुययरु प्रासुकतरम्. 14 b कयसुं हिविजउ मुद्दां कुतविजयः. 15 b सुविरत्ताहो सुविरत्तस्य. 17 b वम्महमहणु काममथकः. 18 a दिक्खारिक्खि श्रवणनक्षत्रे. 21 a अणंतयरु अनन्तानन्तम्. 22 चित्तलंतु चित्रयन्. 23 चित्तवहु चित्रपटः.

जाया देवहु रिसिवित्तिअरुह
दहदोअंगइं रिसि जे धरंति
सिक्खुयहं सहासइं एकवीस
वइकिरियहं दुसहस दोसयाइं
णियणयविद्धंसियपरमयाहं
पणदहसय पुणु मणपज्जयाहं
पण्णाससहासइं संजईहिं
मंदिरवयणारिहिं तिण्णि लक्ख
हिंडेप्पिणु एव महीयलंति
फग्गुणतमदसमिहि सवणजोइ
रिसिसहसें सहं संमेयकुहरि

अट्टारह गणहर मल्लिपमुह ।
पंचसयइं ताहं वि वज्जरंति ।
तेत्तिय केवलि ओहीविहीसे । 5
भुवणंतपसिद्धिहि संगयाइं ।
वाइहिं बारहसय संजयाहं ।
णासियसुप्पयरिउसंपयाहं ।
सावयह लक्खु हयदुम्मईहिं ।
सुर तिरिय असंख णिरुद्धसंख । 10
मासाउसेसि थिइ जीवियंति ।
णिसि पच्छिमसंझहि मुक्ककाइ ।
सिद्धउ थिउ जाइवि तिजगसिहरि ।

घत्ता—अरसु अंगंधु अवणमउ फाससहवज्जिउ गयरुवउ ॥

मुणिसुव्वउ महं दय करउ सुद्ध सिद्ध हुउ णाणसहावउ ॥ ८ ॥ 15

9

णिव्वुइ सुव्वइ जो णिज्जियारि
हरिसेणु णाम तहु तणउं चरिउं
वरभारहवरिसि अणंततिन्धि
णरपुरवरि णाहु णराहिरामु
सुविसालविमोणि विमाणसारि
इह खेत्ति भोयपुरि दीहवाहु
तहु देवि क्खिसोयारि सुद्धसील
पयहं सो सुरु अंगरुहु जाउ
सुहलक्खणु वीसधणुप्पमाणु
गउ तेण समउं पिउ पुहइवीरु

इह जायउ महिवइ चक्रधारि ।
णिसुणह पविन्तु परिहरिवि दुरिउं ।
गंथियकुंगंधबंधणवहित्थि ।
तउ करिवि हरिवि कलि कोहु कामु ।
संभूयउ अमरु सणक्कुमारि । 5
इक्खाउवंसि णिउ पउमणाहु ।
अइरा परावयगमणलील ।
हेमाहु समाजुयपरिमियाउ ।
कंतीइ चंदु तेण भाणु ।
मणहरवणि णविवि अणंतवीरु । 10

8 १ A ओहीविमीस. २ A महि डिडेप्पिणु इम महियलंति. ३ A सिद्धसिहरि.

9 १ A °कुगंधिबंधण°. २ AP °विवाणि विवाण°. ३ AP पुहइवीरु.

8 3 a °अरुह योग्याः. 4 a दहदो° द्वादश. 5 b ओ ही वि ही स अव धि वि धी शाः अव-
धिज्ञानवन्तः. 8 b णा सि य सु प्प य रि उ संप या हं नाशिताः शोभनपदस्य मोक्षपदस्य रिपवो मिथ्यादर्शना-
दयः तेषां संपदः यैः 10 a मं दि र व य णा रि हि गृहस्थव्रतस्त्रीणां श्राविकाणामित्यर्थः; b णि रु द्ध सं ख
संख्याताः. 14 ग य रू व उ मूर्तपदार्थस्वरूपरहितः.

9 3 b गं थि ए त्या दि जै ना भा स ग्र न्थि का नां मि थ्या दृ ष्टी नां कु स्मि त ग्र न्थ स्य बन्धनं रचनं तस्माद्
बहिःस्थे बाह्ये. 7 b अ इ रा ना मे दम्. 8 b स मा जु य प रि मि या उ अ यु त वर् षे प्र मा णा युः; स मा जु यं द श वर् षे
सहस्राणि.

रिसि हूर्यउ पद्दु पंकरुहणाहु पुत्तं आयणिणावि धम्मं साहु ।
 घत्ता — लहयइं पंचाणुव्वयइं पंचं वि इंदियाइं णियमंतं ॥
 आवेप्पिणु पुहं रज्जि थिउ पुण्णपहावें कालें जंतं ॥ ९ ॥

10

उप्पणुणउं पहरणु घरि रहंगु णित्तिंसु तहिं जि धवलायवत्तु जणणहु केवलसिरि देहुं पत्त जाइवि जिणु वंदिवि रसियवज्ज मंदिरवइ थवइ पुरोहु अवरु करितुरयणारिरयणाइं जाइं उल्लंघियाइं सायरजलाइं काराविय किंणरखयरसेव महिं हिंडिवि खंडिवि वइरिमाणु कत्तिइ णंदीसरि सरकयंतु उववासिउ छणवासरि पसण्णु	पविदंहु चंडु रिउदिण्णभंगु । सिरिहरि कागणि मणि चम्मजुत्तु । एक्कहिं खणि तणपं णिसुय वत्त । घरु आविवि विरहय चक्कपुज्ज । सेणावइ णिज्जियवीरंसमरु । 5 विज्जाहरेहिं दिण्णाइं ताइं । संसाहियाइं धरणीयलाइं । वसिकय अणय गणबद्धदेव । आवेप्पिणु तं पुणु णिययटाणु । अहिसिचिवि अंचिवि अरुहु संतु । 10 जावच्छइ णिसि णरवइ णिसण्णु ।
---	---

घत्ता — इंदणीलणीलगण चंदबिंबु ता गिलिउं विडप्पे ॥
 णहभायणयलि संणिहिउ घोट्टिउ दुद्दु व कसणं सप्पे ॥ १० ॥

11

णं ढंकिउ अलिजूहेण कमलु संणिहिय विहाएण व विविचि चित्तइ पद्दुं विहु गहगत्यु जेम लइ जामि हणमि दुक्कम्मजोणि गउ पुहइणाहु वेरगभूरि	णं पावें सुक्किउ छइउ विमलु । मयणाहि धोयकलहोर्यवत्ति । कालें कउलेवउ हउं मि तेम । महसेणहु ढोइवि सयलखोणि । सिरिमंतसेलि सिरिणायसूरि । 5
--	---

४ AP जायउ. ५ A धम्मलाहु. ६ P पंचेदियाइं. ७ P omits पुर. ८ A जंतं कालें.

10 १ A देहि. २ A °धीरसमरु.

11 १ A कलहोयपत्ति. २ A इहु. ३ AP महिसेणहु.

11 b धम्म साहु धर्ममाकर्ण्य, साधु यथा भवति तथा.

10 २ a णि त्तिंसु असिः; b सिरि हरि भाण्डागारे. 4 a रसियवज्ज शब्दितवाद्यः.
 5 a मंदिरवइ गृहपतिः. 10 a सरकयंतु स्मरस्य कृतान्तः. 11 a छण वासरि पौर्णमास्याम्.
 12 विडप्पे राहुणा. 13 घो ट्टिउं पीतम्.

11 1 a अलिजूहेण भ्रमरसमूहेण; b सुक्किउ छइउं पुण्यं स्थगितमिव. 2 a विहाएण विधाना; विविचि विशेषेण वृत्ते वर्तुले; b मयणाहि कस्तूरिका; धोयकलहोयवत्ति रूप्यमये पात्रे.
 3 a विहु चन्द्रः; गहगत्यु राहुणा प्रस्तः.

पणवेप्पिणु लइयउ तवोविहाणु
 तें दिण्णउं जीवदयालुएण
 विसंहेवि भीमु रविकिरणताउ
 तवदंसणणाणचरित्तरिद्धि

तसथावरजीवहं अभयदाणु ।
 गिरिसिहरि सुइरु लंबियभुएण ।
 विद्धंसिवि मिच्छामोहभाउ ।
 आराहिवि गउ सव्वत्थसिद्धि ।

घत्ता—हरिसेणहु भरहाहिवहु अहमिदत्तणु तं तहु सिद्धउं ॥
 दिव्वसोक्खसंदोहयरु जं ण पुप्फदंतेहिं वि लद्धउं ॥ ११ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे मुणिसुव्वयणिव्वीणं हरिसेण-
 कहंतरं णाम अट्टसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६८ ॥

४ P विसहेवि मुणिवरु रवि°. ५ A °णिव्वाणगमणं. ६ I' adds another पुष्पिका: मुणिसुव्वय
 जिणदसमचक्कवद्धि हरिसेण एतच्चरियं सम्मत्तं; K gives it in the margin in second hand.

मुणिसुव्वयजिणत्तिथि तोसियसुररामायणु ॥
हरिहलहरगुणथोत्तु जं जायउं रामायणु ॥ छ ॥

1

णियबुद्धिपवित्थरु णउ रहमि
णिव्वाहमि भरहंभत्थियउं
कलिकालें सुट्टु गलत्थियउ
सामग्गि ण पक्क वि अत्थि महु
कइराउ सयंभु महायरिउ
चउमुहहु चयारि मुहाइं जहिं
महु पक्कु तं पि मुहुं खंडियउं
मइं छंदु ण लक्खणु भावियउं
बुहहियवइ जइ वि ण पइसरमि
महु खमउ भडारी विउससह

लइ तं पि किं पि एवहिं कहमि ।
परिपालमि पडिवणुणं थियउं ।
जणु दुज्जणु अणुणु वि दुत्थियउ । 5
किर कैवण लीह चिरकइहिं सहुं ।
सो सयंणसहासहिं परियरिउ ।
सुकइत्तणु सीसउ काइं तहिं ।
विहिणा पेसुणुणं मंडियउं ।
अणुणं जणि हासउ पावियउ । 10
धिट्ठत्तें तइ वि कव्वु करमि ।
आयणुणहु रहुवइरायकह ।

घत्ता—सुकइपयासियमग्गि मणि दइमुहु वि चैमकइ ॥
रामधम्मगुणसहिं अमुहु पिसुणु कहिं दुकइ ॥ १ ॥

2

जिणचरणकमलभंसलें झुणिउं
सुइपेसलु कण्णविइणुणसुहु
सैइं लग्गइ चित्ति वियक्खणहु
वइदेहिसइत्तणु भूसियउं

मइं एउं णिरत्थु वि हणुहणिउं ।
वियसावियमाणिणिडिंभमुहु ।
जसु रामहु पोरिसु लक्खणहु ।
जलविंदु व पोमपत्ति थियउं ।

1 १ P^० बुद्धि वित्थर. २ P भरहंभत्थियउ. ३ P कमण. ४ AP चिर कइहि. ५ A सुयणसहासें; A सुयणसहासेहि. ६ P सीसइ. ७ P चकवइ. ८ A समहु.

2 १ AP^० भमरे. २ AP एत्थु. ३ A लइ. ४ P पोमवत्ति.

1 1^० सुररामायणु सुरस्त्रीगणः स्त्रीजनों वाः 2 रामायणु रामचरितम्. 4 b पडिवणुणं अङ्गीकृतम्. 6 b चिरकइहिं चिरकविभिः. 7 a सयंभु महायरिउ स्वयंभूः महाचार्यः; दीहरसमास-
णालं सहदले अत्थकेसरघवियं । बुहमहुयरपीयरसं सयंभुकव्वुणुणं जयउ. 8 a चउमुहहु चतुर्मुखनाम्नः
कवेः. 9 b पेसुणुणं मंडियउं दुर्जनत्वं कृतम्. 12 a विउससह विद्वज्जनसभा. 13 सुकइ^० सुकविः
वानरश्च; दहसुहु रावणः; चमकइ विभेति. 11 रामधम्मगुणसहिं रामस्य धर्मगुणयोर्वर्णने, रामस्य
वा धर्मो धनुस्तस्य गुणो दोरस्तस्य शब्दे टङ्कारे; अमुहु पिसुणु अमुखाः खरदूषणादयः.

2 2 a कण्ण विइणुणसुहु कर्णयोः वितीर्णसुखम्. 4 a वइदेहिं सीता.

मुत्ताहलवणु समुव्वहइ
जं विरइउं मंदमंदमईहिं
जं जगि पसिद्धु सीयाहरणु
जं विडसुग्गीवरायमरणु
जं लवणसमुद्धंसमुत्तरणु

आसयगुणेण कव्वु वि सहइ । 5
अम्हारिसेहिं जगि जडकईहिं ।
जं अंजणेयगुणवित्थरणु ।
जं तारावइअम्भुद्धरणु ।
जं णिंसियरवंसहु खयकरणु ।

घत्ता—भरहहु भत्तिभर्रासु बहुरसभावजणेउं ॥

10

तं आहासमि जुञ्जु रावणरामहु केरउं ॥ २ ॥

3

जिणचरणजुयलसंणिहियमइ
णिरु संसयसल्लिउं मञ्जु मणु
किं दहमुहु सहं दहमुहहिं हुउ
जो सुम्मइ भीसणु अतुलवल्लु
किं अंचिउ तेण सिरेण हरु
किं तहु मरणावह रामसर
सुग्गीवपमुह णिसियासिधर
किं अञ्जु वि देव विहीसणहु
छम्मासइं णिई णेय मुयइ
किं मद्दिससहासाहिं धउ लहइ
वम्मीयवासवयणिहिं णाडिउ

आउच्छइ पहु मगहाहिवइ ।
गोत्तमगणहर मुणिणाह भणु ।
किं जम्मं गरुयउ तासु सुउ ।
किं रक्खसु किं सो मणुयं खल्लु ।
किं वीसणयणु किं वीसकरु । 5
किं दीहर थिर सिरिरमणकर ।
किं वाणर किं ते णरपवर ।
जीविउ ण जाइ जमसासणहु ।
किं कुंभयणु घोरइ सुयइ ।
लइ लोउ असञ्चु सव्वु कहइ । 10
अण्णाणु कुम्भगकूवि पडिउ ।

घत्ता—गोत्तम पोमंचरित्तु भुवणि पविच्चु पयासहि ॥

जिह सिद्धत्थसुएण दिट्ठउं तिह महुं भासहि ॥ ३ ॥

५ A °समुद्धं उत्तरणु. ६ P भत्तियरासु. ७ AP रामण°.

3 १ P किं जम्मे. २ AP सो सुम्मइ. ३ A मणुबकुल्ल ४ AP णेय णिइ. ५ APT पउम°.

5 b आसयगुणेण आश्रयगुणेण स्थानमाहात्म्येन. 7 b अंजणेय° हनुमान्. 8 a विडसुग्गीवराय° बालिनरेन्द्रस्य; b तारावइ° मूलशुग्रीवः. 9 b णिसियर° राक्षसाः.

3 1 b पहु श्रेणिकः. 3 a दहमुहु रावणः किं ~~दहमुहु~~ b जम्मि गरुयउ तासु सुउ इन्द्रजित् किं रावणाद्रपैज्यैष्ठः. 4 b खल्लु स्फुटम्. 5 a तेण रावणेन. 6 a मरणावह मरणकराः; b सिरिरमण° लक्ष्मणः. 7 a णिसियासिधर तीक्ष्णखड्गधराः. 9 b सुयइ स्वपिति. 10 a धउ वृत्तिम्. 11 a वम्मीय° वाल्मीकिः; वास° व्यासः; णाडिउ वञ्चितः. 12 पोमंचरित्तु रामचरितम्. 13 सिद्धत्थसुएण श्रीवीरेण.

4

ता इंदभूइ गंभीरञ्जुणि
इह भरहि भवौवहारिणिलइ
मायंदगोदगोदलियसुइ
णिप्पीलिउच्छरससलिलवहि
मलरहिय मलयदेसंतरइ
तहिं वसइ पयावइ पयधरण
जे सत्थे जित्त सरासइ वि
जे रिद्धिइ जित्तउ सुरवइ वि
तहु रायहु णयणसुहावणिय
रूवेण सरिच्छी उव्वसिहि
सुउ चंदचूलु चंदु व उइउ

सेणियराहु कहं कहइ मुणि ।
फुल्लियकणयारबउलतिलइ ।
महमहियकलमकेयारजुइ ।
संतुट्टुपुट्टुपंथियणिवहि ।
रयणउरि भवणरुइहयसरइ । 5
जे दंढे जित्तउं जमकरण ।
जे बुद्धिइ जित्तउ भेसइ वि ।
जे भोएं जित्तउ रइवइ वि ।
णं वाणावलि मयणहु तणिय ।
गुणवंत कंत कंति व ससिहि 10
सिसु मंतिमिचु तेण वि लइउ ।

घत्ता—सो विजयंकु पंसिद्धु णं ससिरवि गयणंगणि ॥

वेण्णि वि सह खेलंति बद्धणेह घरपंगणि ॥ ४ ॥

5

तरुणीकडक्खोहविकखेवमूढाइ
णिण्णट्टदप्पिट्टुणिक्किट्टुत्तुट्टीइ
णं तावसा के वि अरहंतदिकखाइ
अण्णम्मि तंवासरे तम्मि णयरम्मि
गोत्तमवणिदेण वइसवणघरिणीइ
विण्णाणवंतस्स संसारसारस्स
करधरियाभिंगारचुयवारिधारेण
बालेण बालालयं झ त्ति गंतूण

जोव्वणसिरीए सरीराहिरूढाइ ।
घोराण जाराण चोराण गोट्टीइ ।
ते बे वि ण चरंति रायस्स सिक्खाइ ।
णिद्धणजणे दिण्णबहुदविणणियरम्मि ।
जायस्स कलहस्स णं चारुकरिणीइ । 5
सिरिदत्तणामस्स वणिवरकुमारस्स ।
णियधीय रमणीय दिण्णा कुबेरेण ।
णमिऊण जय देव देव त्ति वोचूण ।

4 १ AP सहं. २ A भयावहारि. ३ A °कणियार°. ४ A मायंदगोच्छ°; P मायंदगोदि°. ५ A केयारहुए. ६ A °उच्छु°. ७ A बुद्धे. ८ P रूपं. ९ P omits पंसिद्धु.

5 १ A कडक्खेवविकखोह°; P °कडक्खोहविकखेय° २ A °बुद्धीइ. ३ AP ता वासरे. ४ A णविऊण.

4 2 a भवा ष हारि णिलइ सर्वज्ञस्थानभूते. 3 a मायंदगोद° आपन्नवृक्षसमूहः; °गोदलियसुइ °शब्दितशुके. 5 a °उच्छरसं इक्षुरसः. 5 b भवणरुइहयसरइ सौधशोभाभिर्हिता तिरस्कृता शरत्काल-शोभा यस्मिन्. 7 a सत्थे शास्त्रेण; b भेसइ बृहस्पतिः. 8 b रइवइ मदनः. 11 a चंदचूलु भविष्यलक्ष्मणः; उइउ उदितः.

5 1 a °कडक्खोहविकखेवमूढाइ कटाक्षसमूहविक्षेपमूढया. 4 a तंवासरे तस्मिन् वासरे एकस्मिन् दिने. 8 a बालालयं चन्द्रचूलग्रहम्.

केणावि पावेण रहरहसजुत्तीइ रूवं वरं वणियं वणियउत्तीइ ।
 रेहंतराईवदलदीहणेत्ताइ तीं संगिहा का कुबेराइदत्ताइ । 10
 तं सुणिवि सिरु धुणिवि विद्धर्थधम्मेण संचरिवि वियडं तुरं कूरकम्मेण ।
 वणिभवणि पइसरिवि बहुसहसहाएण हित्ता कुमारी धराणाहजाएण ।
 रोवंति वेवंति वरइत्तहत्थाउ णट्टाउ णारीउ विलुलंतवत्थाउ ।

घत्ता—णिव परिताहि भणंतं पुरि अण्णाउ कुमारहु ॥

गय तरुसाहाहत्थ वणिवर रायदुवारहु ॥ ५ ॥

15

6

आउच्छिउ रापं पउरयणु विण्णवइ णवंतु तसंततणु ।
 तुह तणुरुहु परदविणइं हरइ परिणियउं कलत्तु ण उव्वरइ ।
 पइसरउ भडारा वियणु वणु अण्णेत्तहि जीवउ जाउ जणु ।
 ता रापं पुरवरतलवरहु आप्सु दिण्णु असिवरकरहु ।
 सिरकमलु विलुंचवि णिट्टरहु पेसहि तणुरुहु वइवसपुरहु । 5
 अण्णाणु णायविद्धंसयरु खलु सो^३ किं बुच्चइ रज्जधरु ।
 जो दुट्टु कट्टु णिद्धम्मयरु सो खंडमि हउं अण्णणउं करु ।
 हियउल्लउं दुक्खे सल्लियउं ता पउरें मंतिहि^१ बोह्लियउं ।

घत्ता—णंदणु हणहुं ण जुत्तउं जइ सो मणहु ण रुच्चइ ॥

गिरिदुग्गमि कंतारि तो^२ दूरंतरि मुच्चइ ॥ ६ ॥

10

7

पहु भणइ जाउ किं तेण महुं हउं णंदमि चिरु धम्मेण सहुं ।
 गुणदूसणु अप्पपसंसणउं तवदूसणु मिच्छादंसणउं ।
 णडदूसणु णीरसंपेक्खणउं कइदूसणु कव्वु अलक्खणउं ।

५ A थी संगिहा. ६ A विद्धत्थकामेण. ७ A^०सहावेण. ८ P तट्टाउ. ९ AP भणंता.

6 १ AP तसंतमणु. २ A परसरणु; P पइसरह. ३ P किं सो. ४ A महिवइ. ५ A ता.

7 १ AP णीरसु.

10 a रेहंतराईव^० शोभमानकमलम्; b ती स्त्री; संगिहा सदशी; कुबेराइदत्ताइ कुबेरदत्तया.
 11 b तुरं शीघ्रम्. 12 a बहुसहसहाएण बहुभिः सहैः समर्थैः सह. 13 a वेवंति वेपमाना कम्पमाना.

6 2 b परिणियउ कलत्तु परिणीता स्त्री. 3 a पइसरउ प्रविशतु; वियणु वणु विजनं वनम्.
 7 a कट्टु निन्द्यः 9 मणहु चित्तस्य.

7 2 a अप्पपसंसणउं आत्मप्रशंसनम्. 3 b अलक्खणउं व्याकरणरहितम्.

धनदूसणु सढंखलयणभरणु
रहदूसणु खरभासिणि जुवइ
सिरिदूसणु जइ सालसु णिवइ
गुरुदूसणु णिकारणहंसणु
ससिदूसणु मिगमलु मसिकसणु

वयदूसणु असमंजसैमरणु ।
सुहिदूसणु पिसुणु विभिण्णमइ । 5
जणदूसणु पाउ पत्तकुगइ ।
मुणिदूसणु कुसुइसमम्भसणु ।
कुलदूसणु णंदणु दुव्वसणु ।

घत्ता—लइ जं तुम्हहं इट्टु मइं वि तं जि पडिवण्णउं ॥

जाइवि कुलबुद्धेहिं बालहं उत्तरु दिण्णउं ॥ ७ ॥

10

8

किं परकलत्तु उद्दालियउं
किं वप्प सुदंप्प कुसंगु किउ
कुञ्जउ पिउ एवहिं को धरइ
तं णिसुणिवि सिंसु चवंति गहिरु
को रक्खइ आवंतउं मरणु
कु वि अग्गइ कु वि पच्छइ मरइ
मंतीसैं करपैल्लवधरिया
तरुवरविलग्गचलदवदहणि
गणणाहहु हयवम्महबलहु
रायागमणायवियाणएण
परमेसर ए णर भव्व जइ

उज्जलु अप्पाणउं मइलियउं ।
परयारचोरकीलाइ थिउ ।
तुम्हारउं जीविउ अवहरइ ।
अत्थंतु णिवारइ को मिहिरु ।
जगि कासु ण दुक्कइ जमकरणु । 5
वइवसदंततरे पइसरइ ।
सुय बेण्णि वि किंकरपरियरिया ।
पइसारिय बेण्णि वि गिरिगहणि ।
दक्खविय णंवंत महाबलहु ।
कुच्छियमइ धाडिय राणएण । 10
वर एवहिं तुहुं उद्धरहि तइ ।

घत्ता—दुम्मइमलमइलेहिं कुंअरिहिं कहिं जाएवउं ॥

भणि भवियव्वु भयवंत एहिं काइं पावेवउं ॥ ८ ॥

9

मुणि भणइ पत्थु दिहिं करिवि तवे
णामेण रामलक्ष्ण विजई

होहिंति सीरि हरि तइयभवे ।
तं णिसुणिवि जाया तरुण जई ।

२ A सह खलयर^०. ३ AP असमंजसु. ४ A^०भसणु. ५ A जि.

8 १ A सदप्पु. २ A उदयंतु. ३ AP^०पल्लवि धरिया. ४ AP णमंत. ५ AP कुमरहिं.
६ P भयवंतहिं.

9 १ P विहिं.

4 a सढं सर्वत्र वक्रहृदयाः; b असमंजसमरणु सशल्यमरणं आत्मघातो वा. 6 a सिरि^० राज्यलक्ष्मीः;
b पाउ पापम्. 7 b कुसुइसमम्भसणु मिथ्याशास्त्राभ्यासः. 8 a मिगमलु मृग एव मलः.

8 2 b परयार^० परदाराः. 4 b अत्थंतु अस्तं गच्छन्; मिहिरु सूर्यः. 5 b जमकरणु रोगः.
10 a रायागम^० नीतिशास्त्रम्; b कुच्छियमइ कुमती द्वौ पुत्रौ. 12 कुंअरिहिं कुमाराभ्याम्.

9 1 b सीरि हरि बलदेवो वासुदेवश्च.

गउ मंति णिहेल्लेणु पय णवइ
वसुहाहिव तणुरुह गिरिविवरि
कासु वि सकम्मउग्गममहो
विसहावियदंडेणमुंडणं
णिवणयणइं मुक्कंसुयजलइं
हा हा मइं रूसिवि किं कियउं
अइरहसें किज्जइ कज्जरइ
मणु मंतें परियाणिवि पइहि
जिह दोहिं मि लइयउं तवचरणु
कोमलतणु णीसारिवि घरहु

णरणाहहु वइयरु विण्णवइ ।
आरण्ण णिहिय वणवासिघरि ।
तणुदुक्खलक्खविहिंसंमहो । 5
पंचिदियदण्णविहंडेणइं ।
ओसासित्ताइं व सयदलइं ।
किं बालजुयलु दुक्खे हयउं ।
जा सा णिदहइं ण कासु मइ ।
अक्खिउ जिह पासि णिहिय जइहि । 10
ता जायउं तायहु सिसुकरुणु ।
णंदण पट्टंविचि वणंतरहु ।

घत्ता—डहु बुहणिंदिरु रज्जु रज्जु जि पाउ णिरुत्तउं ॥

रज्जमएण पमत्तउ ण सुणंइ जुत्ताजुत्तउं ॥ ९ ॥

10

णियंणोत्तिउ णियकुलि संपिहिउ
भरहेण व अहिवंदिवि रिसहु
गउ मोक्खहु अक्खयसोक्खमइ
खग्गउरहु बहि कयधम्मकिसि
थिय जइयहुं तइयहुं महि जिणिवि
सुण्णह पुरिसोत्तम दिट्ठे पहि
दीसइ णरणाहहु जेरिसउं
मुंउ सणकुमारु हुउ रिसि विजउ
कमलण्णहि विमलविमाणवरि
मणिचूल देउ जायउ पवरि

वणु जाइवि रापं तवु गहिउ ।
पणवेवि महावल्लु मुणिवसहु ।
थिउ णाणदेहु णिव्वाणपइ ।
आयावणजोपं बालरिसि ।
महस्यणु समरंगणि हणिवि । 5
ससिचूले चित्तिउं हिययरहि ।
महु होउ पहुत्तणु तेरिसउं ।
सुरु णामु सुवण्णचूलु सदउ ।
णिवतणउ मणिण्णहि अमरघरि ।
कलहंसु व विलसइ कमलसरि । 10

घत्ता—जं अणिमाइगुणेहिं बहुंविहवेण णिउत्तउं ॥

तं दिवि दीहरु कालु बिहिं मि दिव्वु सुहुं भुत्तउं ॥ १० ॥

२ A णिहेल्लेणु पइ. ३ A उग्गममहो. ४ A दिहि°. ५ AP डंडेण°. ६ P मुंडणहो. ८ AP णिडुहइ. ९ A पट्टविय. १० AP पमत्तु. ११ AP मुणइ.

10 १ AP णियणत्तिउ. २ A दिट्ठि. ३ A मुए. ५ AP सणकुमारे. ५ A बहुविहववेण.

4 b वण वा सि° मुनयो भिल्ला वा. 5 a सकम्मउग्गममहो स्वकर्मणः. उग्रः रौद्रः उदयस्तस्मात्. 7 b ओ सा सि ता इं अवदयायावसिक्तानि. 9 a अइरहसें अतिरभमेन उत्सुकेन. 10 a पइ हि राज्ञः.

10 4 a कयधम्मकिसि कृतधर्मकर्मणो. 5 a जइयहुं इत्यादि पूर्वं यदा काले अनन्तजिन-तीर्थे चन्द्रचूलेन चतुर्थबलकेरावौ मार्गे दृष्टौ. 6 b हिययरहि मनोरथं. 8 b सदउ दया-सहितः. 9 b णिवतणउ चन्द्रचूलः.

11

सरवरमरालचंक्खियभिसइ
जहिं सालिरमणकीलाहरइं
जहिं सालिकमलल्लणइं सरइं
सिसुहंसपयइं मयरंदरइ
रोमंथंतइं संतुट्टाइं
उच्छुरसु जंतणालील्लहसिउ
ओयणु सीयलु दहिओल्लियउं
जहिं जिम्मइ पहिययणहिं पवहि
ओहामियअलयाउरिसिरिहि
तहिं दसरहु दसदिसिणिहियजसु

इह भरहवरिसि कासीविसइ ।
जहिं सालिधण्णछेत्तंतरइं ।
जहिं सालिहियाइं व अक्खरइं ।
गोहणइं चरंतइं पइ जि पइ ।
दीसंति हरियतणपुट्टाइं । 5
दक्खारसु पिज्जइ मुहरसिउ ।
फणिवेह्लिपत्तपत्तलि थियउं ।
देसियढक्करिजंपणरवहिं ।
जणभरियहि वाणौरसिपुरिहि ।
णिवसइ णिउ जियरिउ थिरु सवसु । 10

घत्ता—कुवलयबंधु वि णाहु णउ दोसायर जायउ ॥

जो इक्खाउहि वंसि णरवइरूढिइ आयउ ॥ ११ ॥

12

करगेज्जु मज्जु उतुंगथणि
सिविणंतरि पेच्छइ उग्गमिउ
ससि कुमुयकोसवित्थारयरु
सुविहाणइ कंतहु भासियउं
तुह होसइ तणुरुहु सीरहरु
अण्णहिं द्विणि सग्गहु अवयरिउ
मधेरिक्खयंदि णीरयदिसिहि
देविइ णवमासहिं सुउ जणिउ
करिवरलोहियर्पव्वालियउ

तहु सुबल णाम वल्लह धरिणि ।
रवि सहसकिरणु णहयलि भमिउ ।
गज्जंतु जलहि जुज्झियमयरु ।
तेण वि तहु गुज्जु पयासियउं । 5
हलि चरमदेहु णं तित्थयरु ।
सुरु कणयच्चूलु उंयरइ धरिउ ।
फग्गुणि तमकालिहि तेरसिहि ।
तणुरामु रामु रापं भणिउ ।
सिविणंतरि सीहु णिहालियउ ।

11 १ A °चालियभिसए. २ P रोमंथंतइं पसुसंतुट्टाइं. ३ AP वाराणसि°. ४ A °रूढि आयउ.

12 १ A सुकल. २ AP रमणि. ३ AP सुउ. ४ A उयरे; P उवरें. ५ A °रिक्खे चंदे; P °रिक्खि इंदे. ६ P °पच्चालियउ. ७ P सुविणंतरि.

11 1 a °चक्खियभिसइ °आस्वादितपद्मिनीकन्दे. 2 a सालिरमणकीलाहरइं स्त्रीपुरुषयुक्तक्रीडागृहाणि. 3 a सालिकमल्ल° सभ्रमराणि कमलानि; b सालिहियाइं लक्ष्मीलिखितानि. 4 a मयरंदरइ मकरन्दरजसि; b पइ जिपइ पदे पदे. 8 a पवहि प्रपायाम्. 11 दोसायरु चन्द्रः; दोषाणामाकरश्च.

12 1 a करगेज्जु मुष्टिग्राह्यम्. 7 a मधेरिक्खयंदि मधानक्षत्रस्थे चन्द्रे; णीरयदिसिहि निर्मलदिशायाम्. 8 a तणुरामु शरीरेण उज्ज्वलः. 9 a °पच्चालियउ लिप्तः.

माहहु मासहु सियपढमदिणि
मणिचूलु देउ दसरहरयह
जोइउ लक्खणलक्खंफियउ

सविसाहि जसाहिउ पहु भुवंगि। 10
सुउ अवरु वि जायउ केकयह।
सो ताए लक्खणु कोकियउ।

घत्ता — बेणि वि ते गुणवंत भुयबलतासियदिग्गय ॥

णाइं सियासियपक्ख पत्थिवगरुद्धु णिग्गय ॥ १२ ॥

13

रेहांति वे वि बलएव हरि
णं गंगाजउणाजलंपवह
णं पुण्ण मणोरह सज्जणहं
अवरोप्परु णिरु णिम्मच्छराहं
सहसाइं विहिं मि णिदेसियइं
पण्णारहचावइं तुंगतणु
पुरबाहिरि उववणसंठियहु
अवलोइवि रामहु सरपसर
करि आउहु जं लक्खणु धरइ

णं तुहिणगिरिंदंजणसिहरि।
णं लच्छिहि कीलारमणवह।
णं वम्मवियारण दुज्जणहं।
तेरहवारहसंवच्छराहं।
परमाउसु जइवरभासियेइं। 5
ते सत्थु सुणांति गुणंति धणु।
विद्धंतहु जयउक्कंठियहु।
मउ चेष मुयंति ण वइरि सरु।
तहु परपहरणु जि ण संवरइ।

घत्ता — कंप्इ महिसंचारें ससरसरासणहत्थहं ॥

10

संकइ जमुं जमदूउ को णउ तसइ समत्थहं ॥ १३ ॥

14

रिसहाहिवसंताणाइयहं
संखापरिवज्जिय पुरिस गय
ताहिं अण्णहु कहिं जीवियकहइ
सव्वत्थसिद्धि हरिसेण गइ
सुयसुइदिणाउ जायविजइ

सिरिभरहसयररायाइयहं।
अहमिंद वि जिहिं कालेण मय।
लइ अत्थमियइ पत्थिवसहइ।
दिणमाणें वरिसहं सहसहइ।
पुण्णइ पंचुत्तरवरिससइ। 5

८ AP सविसाहु. ९ AP भवणि. १० P जायउ अवरु वि.

13 १ AP तुहिणगिरिंदं नीलसिहरि. २ A ०जलपवाह; P ०जलणिवहु. ३ A ०रमणगह;
P ०रवणवहु. ४ A णिदेसियउ. ५ A भासियउ. ६ A जम.

14 १ A अण्ण वि कहिं; P अण्णहिं किं. २ A अइ अत्थमिए; P लइ अत्थमिए.
३ P दिणमाणहं. ४ A सहासरुए; P ०सहसि हए. ५ AP ०दिणाउ जाएवि लए.

10 b स वि सा हि विज्ञाखानक्षत्रयुक्ते. 14 सि या सि य पक्ख शुक्कृष्णपक्षौ.

13 1 b ०अंज ण सि हरि नीलपर्वतः. २ b की लारमण वह क्रीडारमणमार्गो. 8 b सरु
शब्दं बाणं वा. 10 ससर बाणयुक्तम्.

14 3 b पत्थिवसहइ पार्थिवसभया. 5 a सुयसुइदिणाउ पुत्रोत्पत्तिदिवसात्.

असुरिंदे विद्धंसियसयरि
परियाणिवि तणयहुं तणउं वलु
सहुं पुत्तहिं जायधरारइहिं
तहिं सुहुं णिवसंतहु णरवइहि
अण्णेकहि भरहु पसण्णमणु
महियइ संपुण्णमणोरहहिं
सोहइ पुत्तहिं सकयायरहिं

घत्ता—मिहिल्लाणयरिहि ताम णामे जणउ णरेसर ॥

पसुवहकम्मं सग्गु चितइ जण्णहु अवसर ॥ १४ ॥

देहरहु पइट्टु उज्झाणयरि ।
हुउ महियलि सयलु वि खलु विबलु ।
सुपरिट्टिउ पहु णियसंतइहिं ।
उप्पणउ संतोसु व जइहि ।
अण्णेकहि घरिणिहि सत्तुहणु । 10
चउहिं वि जणेहिं परबलमहहिं ।
णं भूमिभाउ चउसायरहिं ।

15

महु मेरउ रक्खइ को वि जइ
तं णिसुणिवि मंते जंपियउं
सो जासु ण जाउहाणु गहणु
सो रक्खइ धुवु काकुत्थु तिह
ता राणं पेसिय दूयवर
उज्झहि दसरहहु णिवेइर्यउं
जो रक्खइ अद्धर परमंकुय
णामेण सीय वेल्लहलभुय
तं बुद्धिविसारएण भणिउं
कउकरणुं णिहालणु रक्खणु वि

घत्ता—कारावय होआयार हुणिय पसु वि देवत्तणु ॥

जेण लहंति णरिंद तं करि जण्णपवत्तणु ॥ १५ ॥

वसुहासुय दिज्जइ तासु तइ ।
जसु णामे तिहुयणु कंपियउं ।
जसु लहुवभाइ भडु महमहणु ।
खेयरहिं ण हम्मइ होमु जिह ।
गय ते बहुपाहुंडलेहकर । 5
आलिहियउं पण्णउं वाइयउं ।
तहु दिज्जइ णं पञ्चक्ख सूर्य ।
किर कहु उवमिज्जइ जणयसुय ।
इहरत्ति परत्ति चारु झुणितं ।
लइ रक्खउ राहुउ लक्खणु वि । 10

६ AP दसरहु. ७ A सुपइट्टु. ८ A महिला°.

15 १ A णाउहाणु. २ A रक्खइ बंधुसमेउ. ३ A पाहुड लेवि कर. ४ P णिवेवियउं.
५ A अद्धर परमरूअ; P अद्धर परमक्रिय. ६ AP सिय. ७ P कणु. ८ A कारावय होयारहुणिय;
P कारावयहोआयारि.

6 a असुरिंदे इत्यादि इयं कथा अग्रे कथयिष्यते. 9 b जइ हि यते: 10 b सत्तुहणु शत्रुघ्नः. 11 b
परबलमह हि शत्रुसैन्यमथकै: 12 a सकयायरहिं स्वेषु द्रव्येषु ज्ञातिषु वा कृत: आदरो यै: पुत्रैः,
सागरपक्षे तु स्वकीयै: आकरै:.

15 1 a महु मखो यज्ञः; b वसुहासुय सीता. 2 a मंते जनकमन्त्रिणा. 3 a जाउहाणु
राक्षसो रावणः; b महमहणु मधुसूदनः 4 a काकुत्थु रामः. 6 b पण्णउं पर्ण पत्रम्. 7 a परमंकुय
परमक्रिया; b स्य लक्ष्मीः. 8 a वेल्लहल° कोमलौ. 9 a बुद्धिविसारएण दशरथमन्त्रिणा. 10 a
कउ° ऋतुर्यज्ञः; b राहुउ राघवो रामः. 11 कारावय यज्ञे धनव्ययकारिणः; होआयार होतारः
पण्डितवत्स्वयं कर्तारः; हुणिय पसु घातितः पशुरपि यज्ञेन कृत्वा देवत्वं प्राप्नोति.

16

जं जुंजिवि' सग्गहु सयरु गउ
तं नृंव रक्खिज्जइ किज्जइ वि
जगि धम्ममूलु वेउ जि कहिउ
ते हुंति देव दिव्वंगधर
रक्खेवि जणु सा घणथणिया
ता अइसयमइणा ईरियउं
सुणि भारहि चारणजुयलि पुरि
तहिं अत्थि सुजोहणु दिण्णदिहि
सुय सुलस सुलक्खण जहिं जि जहिं
तहि णिरुवमु रूउ गुणघवियउं

सहुं सयणहिं तणयहिं मुक्करउ ।
भावें वित्थारहु णिज्जइ वि ।
सो जेहिं महापुरिसहिं गेहिउ ।
लहु पेसहि कुलसरहंसवर ।
सिसु परिणउं सुय जणयहु तणिया । 5
पइं बप्प असच्चु वियारियउं ।
जिणधम्मपहाउज्झियविहुरि ।
महएवि तासु णामे अतिहि ।
दीसइं भल्लारी तहिं जि तहिं ।
णिउणे विहिणा कहिं णिम्मविउं । 10

घत्ता—णउवेयालियउत्तबंदिणघोसाऊरिउं ॥

ताहि सयंवरु जाउ सयंरु राउ हक्कारिउ ॥ १६ ॥

17

सो कोसल मेल्लिवि णीसरिउ
दप्पणि अवलोइउ सिरपंलिउं
राएण वुत्तु किं परिणयणु
थेरत्तणि परिहउ पेम्मविहि
ता तहु धाईइ किसोयरिइ
सियकेसे चंगउ दीसिहइ
ते वयणे महिवइ पुणु चलिउ
दियहेहिं पराइउ तं णयरु

पहपरहरि मज्जाणि संचरिउ ।
णवचंपयतेल्ले विच्छुलिउं ।
एवहिं किं छिप्पइ तरुणियणु ।
विसहिज्जइ वर तवतावसिहि ।
पडिवयणु दिण्णु मंदोयरिइ । 5
तुंह सिरिहरि संपय पइसिहइ ।
गरुडइउ णहयलि परिघुलिउ ।
ससुरग्गइ संथुउ णिवसेयरु ।

16 १ A जुंजिवि; P हुंजेवि. २ AP णिव. ३ A कज्जइ व. ४ A णिज्जइ व. ५ A महिउ.
६ P परणउ. ७ AP अवलोइय मारइ तहिं जि तहिं. ८ AP सयरगउ.

17 १ A पहु पुरिवहि. २ AP सिरि पलिउ. ३ A पेम्मणिहि. ४ AP तहु. ५ A णिउ
सयरु; P णिउ सगरु.

16 1 a जुंजिवि कारयित्वा; b मुक्करउ मुक्तपापः. 2 b विस्थारहु णिज्जइ विस्तारं नीयते.
6 a अइसयमइणा अतिशयमतिमन्त्रिणा. 7 a चारणजुयलि नगरस्य नामेदम्; b °उ विज्ञयविहुरि
°त्यक्तदुःखे. 11 °छत्तं छात्राः.

17 1 b पहपरहरि प्रभां परामुक्कृष्टां भरति यो दर्पणः स प्रभापरधरः, अथवा प्रभां माहात्म्यं
परेषां हरतीति; मज्जाणि स्नानावसरे; संचरिउ प्रतिबिम्बितम्. 2 b विच्छुलिउं भ्रक्षितमभ्यक्तम्.
3 b छिप्पइ स्पृश्यते. 4 a परिहउ परिभवः. 6 b सिरिहरि श्रीगृहे.

जाइवि धाइइ मंदोयरिइ

सइं दिण्ण कण्ण तुच्छोयरिइ ।

घत्ता—कण्णइ गुणसंदोहे हियवउं सयरि णिहिउं ॥

10

मायइ विहसिवि ताम अवरु पडुत्तरु वुत्तउं ॥ १७ ॥

18

सुणि देसि सुरभमइ सहलवणि
 बाहुबलिनराहिवसंतइहि
 तिणपिंगु तासु पिय सुजसमइ
 तहि तणउ तणउ णं कुसुमसरु
 महुपिंगु णामुं तुह मेहुणउ
 अण्णेत्तहि म करहि रमणंमइ
 णियभाइणेज्जु वरु इच्छियउ
 सासुयइ पइत्तु समारियउं
 अण्णेक्के सयरहु साहियउं
 जं कण्णारयणु समहिलसिउं

पोयणपुरि धणपरिपुण्णजणि ।
 जायउ महु बंधु कुलुण्णइहि ।
 वीणारव णं मणसियहु रइ ।
 तरुणीयणलाइयविरहजरु ।
 सुइ अच्छइ आयउ पाहुणउ । 5
 तुह जोगु जुवाणउ सो ज्जि लइ ।
 अण्णेक्कु असेसु दुगुंछियउ ।
 पडिवक्खागमणु णिवारियउं ।
 जं आहरणेहि पसाहियउं ।
 तं दुल्लहु वट्टइ विहिवसिउं । 10

घत्ता—अतिहीदेविहि बंधु जो तिणपिंगलु राणउ ॥

महुपिंगलु तहु पुत्तु आयउ मयणसमाणउ ॥ १८ ॥

19

देहिंति तासु सुय जाहि तुहुं
 गुरु चवइ एउ किर कित्तंडउं
 जइ णउ परिणावमि कण्ण पइं
 इय भणिवि कव्वु कइणा विहिउ
 तं कासु वि कहिं मि ण दावियउं

ता पहुणा जोइउं मंतिमुहुं ।
 महुं तिहुंयण सरिसव जेत्तंडउं ।
 तो मंतित्तणु किउं काइं मइं ।
 वरलक्खणु दलसंचइ लिहिउ ।
 मंजूसहि तेण छुहावियउं । 5

६ AP णिहत्तउं.

18 १ A णाउं तसु पेहणउ. २ A अण्णहे तहे. ३ A रमणरइ. ४ A सवारियउ; P संवारियउ.

19 १ A कित्तंडउं; P केत्तंडउं. २ A तिहुवणु सरिसउ.

9 b दिण्ण कण्ण कर्णो दत्तः, सुलसया सगरगुणाः श्रुताः.

18 4 a तहितणउ तणउ तस्याः संबन्धी तनयः पुत्रः. 5 a मेहुणउ मातुलपुत्रः;
 b पाहुणउ प्राघूर्णकः. 6 a अण्णेत्तहि अन्यत्र सगरादौ. 7 a भाइणेज्जु भ्रातृपुत्रः; b अण्णेक्कु
 अद्वितीयः. 8 a सासुयइ मातुलान्या अतिथिदेव्या; पइत्तु प्रयत्नः; b पडिवक्खागमणु प्रतिपक्षय
 सगरस्यागमनम्.

19 2 a कित्तंडउं कियन्मात्रम्; b सरिसव जेत्तंडउं सर्पपमात्रम्. 4 b दलसंचइ
 पत्रसंपुटे. 5 b छुहावियउं निक्षिप्तम्.

बहुवण्णविचित्तचीरैपिहिउं
हलियहिं हलि हत्थु जेत्थु णिहिउ
कउं वड्ढियतणकट्टयराहिउ
वावारिय कम्म करंति जहिं
आयद्धिवि णीय णिहेलणहु
उग्गाडिय पोत्थउं जोइयउं

णिवउववणमहियलि संगिहिउं ।
जहिं छुडु भूभाउ समुल्लियउ ।
जहिं पग्गाहि धवलु परिग्गाहिउं ।
णंगैरि मंजूस विलग्ग तहिं ।
दक्खालिय पडुहि सुजोहणहु । 10
अण्णेकं भल्लउं वाइयउं ।

घत्ता—दियवरवेसें दुक्कु कई पच्छण्णु सरायइ ॥

वरइत्तहु सामुहु भासइ कोमलवायइ ॥ १९ ॥

20

काणकुंटपिंगलाहं
णिद्धणाहं णिब्बलाहं
माणलज्जवज्जियाहं
कुट्टणट्टुकाययाहं
णीयकम्मकारयाहं
णिग्घिणाहं णिइयाहं
वड्डमाणदुज्जसाहं
बुड्डकुच्छियंगयाहं
गोत्तवित्तत्त जा वि

अंधमूयपंगुलाहं ।
बुद्धिहीणवेंभलाहं ।
रोयभावणिज्जियाहं ।
छिण्णपाणिपाययाहं ।
इत्थिडिंभमारयाहं । 5
साहुकम्मणिंदयाहं ।
दुक्कुलाहं सौलसाहं ।
दीणभावणं गयाहं ।
दिज्जए ण कण्ण सा वि ।

घत्ता—मंडवमज्झि विवाहि पिंगलु जो पँइसारइ ॥

10

सो विहवत्तणु दुक्खु णियधीयहि वित्थारइ ॥ २० ॥

21

ता सो महुपिंगलु लज्जियउ
एक्किंल्लेउ लिहक्किवि बंधवहं

गउ चामरल्लत्तविवज्जियउ ।
लग्गउ दहदुविहहं जिणतवहं ।

३ A चीर पिहिउ. ४ AP समुल्लिहिउ. ५ A omits this foot. ६ P adds after this :
पंसालग्गा रइ णिर गहिउ. ७ A लग्गलि; P लंगलि. ८ A कइकयपच्छण.

20 १ A °विब्भलाहं; P °विभलाहं. २ A दुज्जणाहं. ३ A दुग्गुहाहं. ४ A कुच्छियारयाहं.
५ A वइसारइ. ६ P omits सो.

21 १ AP एकल्लउ.

7 a हलिय हिं कर्षकेः; b समुल्लियउ समुल्लिखितः. 8 b पग्गा हि प्रग्रहे रश्मी; धवलु बलीवर्दः.
9 b णंगरि लाङ्गले हले. 12 कइ स एव मन्त्री; सरायइ रागपूर्विकया वाचा. 13 सामुहु लक्षणम्.

20 2 b °वें भलाहं विहलानाम्.

21 2 a लिहक्किवि तिरोभूत्वा.

सेवइ हरिसेणगुरुहि पयइं
एत्तहि सो सयरु वि बालियइ
अणुहुंजिवि तहिं णववहुसुरउ
उज्झाउरि जाइवि पाणपिउ
महुपिगु भडारउ कहिं मि पुरि
जां तावेकें विप्पे कहिउ
रिसिसीलु एण अवलंबियउं
अवरेकें ता तहिं भासियउं

णिकखवइ अणंतइं दुक्कियइं ।
वरु लइउ सयंवरमालियइ ।
पुणु आमेल्लेप्पिणु सासुरउं । 5
सिरि सुलसइ सहं भुंजंतु थिय ।
पइंसइ भिकखहि चउवणघरि ।
सामुहु असेसु सच्चरहिउ ।
लच्छीमुहु काइं ण चुंबियउं ।
पइ लक्खणु किं किर णिरसियउं । 10

घत्ता—सुणि पोयणपुरि राउ होंतउ पहु महीसरु ॥

गउ सुलसावरयालि चारणजुयलउं पुरवरु ॥ २१ ॥

22

पिउसससुय परिणइ जाम किर
पोत्थइ वित्थारिवि दक्खविय
सासुयससुरहं मणु हारियउं
अप्पणु पुणु खलु वरइत्तु थिय
तं णिसुणिवि हियवइ कुडु जइ
पाविट्टु दुट्टु खलु खुहमइ
रिसि रोसु भरंतु भरंतु मुउ
सो सट्टिसहसमाहिसाहिवइ

ता सयरमंतिकय कवडगिर ।
विवरिवि बहुसइसमग्घविय ।
इहु पिंगदिट्ठि णीसारियउ ।
तेणेयहु दुक्खणिहाँणु किउ ।
जिणदेसिउ तवहलु अत्थि जइ । 5
मइं पुरउ हणेव्वउ सयरु तइ ।
असुरिदहु वाहणु देउ हुउ ।
किं वण्णमि महिसाणीयवइ ।

घत्ता—जिणवरधम्मु लहेवि खमभावें परिचत्तउ ॥

खणि सम्मत्तु हणेवि सुरदुग्गइ संपत्तउ ॥ २२ ॥

10

23

पुणु तक्खणि असुरे जाणियउं
जिह मामिहि मामहु हित्त मइ

जिह कव्वु करेप्पिणु आणियउं ।
जिह पिंणं पडिवण्णी विरइ ।

२ A अणुहुंजहि; P अणुभुंजहि. ३ AP पइसरइ. ४ A जा ता विप्पे एकें. ५ A मुणि.

22 १ A दिक्खविय. २ A °णिहाउ.

5 b आ मे ल्ले प्पिणु त्यक्त्वा; सासुरउं श्वशुरकुलम्. 7 b चउवणघरि चतुर्वर्णानां गृहा यत्र पुरे.
12 सुलसावरयालि सुलसाया विवाहकाले.

22 1 a पिउसससुय पितृभगिन्याः पुत्री. 2 b विवरिवि विस्तारीकृत्य. 4 a खलु दुर्जनः.
7 a भरंतु स्मरन्. 7 b °अणीयवइ सेनापतिः.

जिह गहिय तणूयरि मंदगइ
सहुं मंतिहिं साकियाहिवइ
ईय चितिवि तंबिरलोयणउ
मुहकुहरविणिगयवेयमुणि
सुलसावइजीवियसिरिहरहु
जायउ सहाउ जो दुम्मयहु
उत्तंगसत्तघरणियलघरि
विस्सावसु राणउ विमलजसु

तिह पवहिं धुउ पावामि कुगइ ।
कहिं पवहिं वच्चइ लहु लइ ।
जायउ सो सालंकायणउ । 5
हिंसालउ दूसियपरममुणि ।
तहिं तासु महाकालासुरहु ।
आयणहु तहु केह पव्वयहु ।
एत्थेव खेत्ति सांवत्थिपुरि ।
तहु सिरिमइदेविहि पुत्तु वसु । 10

घत्ता—णामे खीरकलंबु दियवरु सत्थवियारउ ॥

तासु चट्टु वसु जाउ पव्वउ अवरु वि णारउ ॥ २३ ॥

24

सहुं सीसहिं सो परमायरिउ
अम्भावयासणिद्विवियणिसि
उज्झापं पणविवि पुच्छियउ
तीहिं वि दियवरुत्तहं तणउ
वसु पव्वय णारयधरणियलि
जिणणाणंसुणिच्छउ मणि वहइ
तं णिसुणिवि गुरु उव्विग्गंमणु
खेलंतु दिएसं धाडियंउ
कंपंतदेहु सुहदाइणिहि

एक्कहिं दिणि काणणि अवयरिउ ।
उव्विट्टउ दिट्टउ तेत्थुं रिसि ।
भवियेव्वमग्गु सुणियच्छियउ ।
आहासइ मुणि पणट्टपणउ ।
पडिंहिति दो वि कयजणफलि । 5
णारउ सब्बत्थसिद्धि लहइ ।
आयउ पुरु थिय भूसिवि भवणु ।
अण्णहिं दिणि लंट्टिइ ताडियउ ।
वसु विसइ सरणु उज्झाइणिहि ।

घत्ता—पत्थिवि रक्खिउ ताए कंत म तासहि बालउ ॥

पत्थिवपुत्तु सुसीलु कमलगम्भसोमालउ ॥ २४ ॥

10

23 १ A अच्छइ लहु जह. २ P तं चितिवि. ३ A कयकव्वयहु. ४ AP उत्तुंग°. ५ A सावत्थपुरि; P सावत्थिपुरि.

24 १ A तेण. २ A भवियपु मग्गु. ३ A °णाणि विणिच्छउ; P °णाणु विणिच्छउ. ४ A उव्विण्णमणु. ५ AP पीडियउ. ६ A लहं ताडियउ.

23 3 a तणूय रि कुशोदरी. 5 a सालंकायणउ सालङ्कायणनामा विप्ररूपः. 8 a सहाउ सहायः; b आयणहु आकर्णयत. 12 चट्टु शिष्यः.

24 1 a परमायरिउ परमाचार्यः. 2 a अम्भावयासं अम्भावकाशे माले. 3 a उज्झापं उपाध्यायेन; b सुणियच्छियउ सुष्ठु निरीक्षितः. 5 a णारयधरणियलि नरकभूमौ. 8 b लट्टिइ यष्ट्या. 10 पत्थिवि प्रार्थनां कृत्वा.

25

घरणिहि वयणं वरु ओसरिउ
 महुं उप्परि पंतउ कुद्धमणु
 तं णिसुणिवि इज्जइ भासियउं
 जइयहुं मग्गहि तइयहुं जि वरु
 वैंउ लैंतैं संतैं पीणभुउ
 सहुं सहयरकिंकरहिं रमइ
 पक्खिउलु णहंगाणि पक्खलइ
 णीरुवु ण णहयलु परु धरइ
 इय चित्तिवि तेण विमुक्कु सरु
 आयासफलिहमउ खंभु हउ
 परिमंइउ हत्थे जाणियउ
 तहु खंभहु उप्परि हरिगीढि

सिसु चवइ माइ पइं गुरु धरिउ ।
 भैणि एव्वंहिं दिज्जउ वरु कवणु ।
 महुं पुत्त चित्तु संतोसियउं ।
 तुहु देज्जसु धवलबलूढभरु ।
 विस्सावसुणा कमि णिहिउ सुउ । 5
 अवरहिं दियहुल्लइ वणि भमइ ।
 पहु पेक्खइ तं तहिं पडिल्लवइ ।
 पक्खलणहु कारणु संभरइ ।
 धणुंणुणु आयड्ढिवि पिंछधरु ।
 उच्छलिवि बाणु धरणियलि गउ । 10
 उच्चाइवि भवणहु आणियउ ।
 सइं चडियउ कंचणमयइ पीढिं ।

घत्ता—आसणु चलइ ण किं पि जणु जणु जणवइ पयडइ ॥
 धम्मं णियसच्चेण वसु गयणाउ ण णिवडइ ॥ २५ ॥

26

अण्णेक्कहिं वासरि विविहहलु
 चंदकउ कलाउ ण जलि करइ
 पत्तइं तित्ताइं मयूरियहं
 इय तेण कज्जु परिहच्छियउं
 कइ णीलकंठ सुविचित्तियउ
 सो ण मुणइ ण भणइ पहि चरइ

णारय पव्वय गुरुंगिरिगुहिलु ।
 पच्छाउहपायहिं ओसरइ ।
 सरिवारिपवाहाऊरियहं ।
 पुणु मित्तहु वयणु णियच्छियउं ।
 भणु पव्वय मोरिउ केत्तियउ । 5
 विहसेप्पिणु णारउ वज्जरइ ।

25 १ AP भणु. २ A एमहि. ३ AP वउ. ४ P पडिवलइ. ५ AP धणुणुणि.
 ६ AP थंसु. ७ A हरिवीढि; P हरिहि गीढि. ८ वीढि.

26 १ A ता एक्कहि. २ AP गय गिरिगुहिलु. ३ P पच्छामुह°. ४ A सिंताइं (तिताइं ?)

25 3 a इज्जइ उपाध्यायभार्यया. 4 b °बलूढ भरु अतिशयेन महान्. 5 b कमि संतान-
 क्रमे. 6 b दि य हु ल्ल इ दिवसे. 8 b पक्खलण हु स्वलनस्य; सं भरइ स्मरति विचारयति. 9 b आ य-
 ङ्घि वि आकृष्य. 10 a °फलिह मउ स्फटिकमयः. 11 a परि मंइउ परामृष्टः सृष्टः. 12 a हरिगी ढि
 सिंहोच्चलिते सिंहधृते, सिंहासने इत्यर्थः. 14 ग य णा उ आकाशात्.

26 1 a वि वि ह ह लु नानाफल्युक्तम्; b गुरु गिरिगुहिलु महागिरिगह्वरम्. 2 a चंद क उ
 मयूरः; b पच्छा उ ह पा य हिं पश्चात्पादैः. 3 a तित्ताइं जलाद्रोणि; b सरि वा रि° नदीजलस्य. 5 a
 क इ णी ल कं ठ कति मयूराः.

सिहिणीउ सत्त इह एकू सिहि
बहुबुद्धिगहीरें पीलुरय
पयमगें जाणिय हत्थिणिय
पुच्छिवि पव्वउ पुरि पइसरिवि

ओसंरिउ सरहु जो पिंछणिहि ।
पयलंतपेम्मजलसित्तरय ।
अवर वि आरूढणियंबिणिय ।
गउ तक्खणि मच्छरु मणि धरिवि ॥ 10

घत्ता—अक्खइ मायहि गेहि णिरु तापं संताविउ ॥

हउं ण पढाविउ किं पि णारउ चारु पढाविउ ॥ २६ ॥

27

सो जाणइ अम्मि असिद्धाइं
करिकरिणिहिं पयबिबइं कहइ
सहुं कंतें पयडियगरहणउं
पइं काइं वि पुत्तु ण सिक्खविउ
तं णिसुणिवि भट्टें घोसियउं
मयरंदगंधमीणाहरणु
सुउ तेरउ सुंदरि मंदु जडु
इय पभणिवि पिट्टुं मेस कय
ए वच्छ लपपिणु तरुगहाणि
जहिं को वि ण पेक्खइ धुवु मुणिवि
तं णिसुंणिवि जाइवि विविणपेहि
कर मउलिवि जोइणि का वि थुय

वणि मोरिगियइं अदिद्धाइं ।
ता बंभणि रोसु चित्ति वहइ ।
विरइउ कोणीहल्लकलहणउं ।
परडिंभु जि सत्थमग्गि थविउ ।
अलिकंकहं केणुववेसियउं । 5
हंसहं वि खीरजलपिहुकरणु ।
णारउ पुणु ससद्दावेण पडु ।
सुय भासिय जणणें णवियपय ।
पइसरिवि दूरु पंविमुक्कजणि ।
तहिं आवहु बिहिं वि कण्णुं लुणिवि ॥ 10
पच्छण्णें थाईवि रुक्खरहि ।
पव्वइण उरब्भहु कण्ण लुय ।

घत्ता—इयरें पइसवि दुग्गें चित्तिउं चंददिवायर ॥

इह णियंति पसु पक्खि किंणर जक्ख णिसायर ॥ २७ ॥

28

जहिं गच्छमि तहिं तहिं अत्थि परु
किह कण्णं उरब्भहु कत्तरमि

जइ णरु णउ तो पेक्खइ अमरु ।
घरु गंपिणु तायहु वज्जरमि ।

५ AP ओसरइ. ६ AP मणि मच्छरु.

27 १ AP अदिद्धाइं. २ AP कोलाहल°. ३ AP परिमुक्कजणि. ४ AP कण्ण. ५ AP जायवि णिसुणिवि. ६ AP वियणवहि. ७ A आइवि. ८ A किवायर.

28 १ AP कण्णु.

7 a सि हि णी उ मयूर्यः; b सरहु जलात्. 8 a पी लुरय गजरता; b पे म्म जल° शुक्रम्; ९ य धूलिः.

27 1 a असिद्धा इं अकथितानि; b मो रिं गि य इं मयूराणामिङ्कितानि चिह्नानि. 3 b को णी-हल्लकलहणउं कोपरघातकलहं रात्रौ करोति. 5 b अलिकंकहं भ्रमरवकानाम्. 6 a मीणा हरणु मत्स्याहारः; b पि हु करणु पृथक्करणम्. 11 a वि वि ण प हि अरण्यमार्गः; b रुक्खरहि एकान्ते रहस्ये कुहरे वा. 12 उरब्भहु मेषस्य.

गय बेणिण बे पेसणु अप्पियउ
 विप्पेण वुत्तु हलि हंसगइ
 जहि गम्मइ तहिं असुण्णु णिलउ
 सुरगुरु वि समाणु ण णारयहु
 सुय घरिणि वि तासु समप्पियइं
 तवचरणु जिणागमि संचरिवि
 बहुकाले विहिं वि हेउभरिउ
 णारउ अर्यं जव तिवरिस चवइ
 अय पसु भणंतु सो वारियउ
 गउ मच्छरेण थरहरियतणु

घत्ता— तहिं दियवरवेसेण पव्वणण सो दिट्ठउ ॥

असुरसुईउ पढंतु तरुतलि सिलहि णिविट्ठउ ॥ २८ ॥

णारयकिउ चारु वियप्पियउ ।
 अवलोयहि तुहु णंदणहु मइ ।
 पसुसवणहं किह विरइउ विलउ । 5
 लइ पहु वि जोग्गउ गुरुवयहु ।
 वसुरापं सहं जंपिवि पियइं ।
 दिउ मुउ थियु दिव्वबोदि धरिवि ।
 पारज्जु विवाउ पवित्थेरउ ।
 तं पव्वउ वयणु अइकमइ । 10
 अघरेहिं बुहेहिं णीसारियउ ।
 संपत्तउ णीलतमालवणु ।

29

मणपणयपसंगुप्पायणउं
 बुद्धेण वि पडिअहिवाउ किउ
 सुय जायउ जाणितु किं ण पइं
 दोहिं मि सुभउमु गुरु सेवियउ
 आयउ किर जोइहुं तासु मुहुं
 लइ जणमहाविहिकारियहं
 सयराइराय अब्भुद्धरहि
 हउं कंचुइ अज्जु परइ मरमि
 दियतरुणि ता तहु इच्छियउं
 पुरदेसहं घल्लिउ मारि जरु
 गय बेणिण वि तं कोसलणयरु

घत्ता— हुंणिवि तुरंग मयंग दणुपं दाविय मायइ ॥

कुंडलमउं डंफुरंत दिट्ठ देव णहभायइ ॥ २९ ॥

तं तासु कयउं अहिवायणउं ।
 पुणु वुत्तु होउं तुज्जु जि विणउ ।
 चिरु खीरकलंवे अवरु मइं ।
 सत्थत्थु असेसु वि भावियउ ।
 ता पवसिउ सो सुउ दिट्ठु तुहुं । 5
 सहसाइं सट्ठि पसुवहरियहं ।
 मैह महियलि कारावहि करहि ।
 णियविज्जइ पइं जि अलंकरमि ।
 तं विज्जादाणु पडिच्छियउं । 10
 पहु को वि गवेसइ संतियरु ।
 दोहिं वि संबोदियु णिवुं सयरु ।

२ A गुरुरहु. ३ AP सुउ. ४ AP बहुकालहिं. ५ AP पवित्थरिउ. ६ A अइजव.

29 १ A मणे. २ A तं तासु. ३ P अभिवायणउं. ४ A ५ AP होइ.
 ६ A कंचुवे. ७ A महु. ८ A कंचु अज्जु. ९ P तं विजा. १० AP णिउ सगर. ११ A हणवि.
 १२ A मउल.

28 5 a असुण्णु णिलउ न शून्यं निलयं स्थानम्; b पसुसवणहं मेषकर्णयोः. 6 b गुरु-
 षयहु उपाध्यायपदस्य. 8 b दिव्वबोदि देवशरीरम्. 9 a हेउभरिउ हेतुभूतः युक्तिपरिपूर्णः; b विवाउ
 विवादः. 14 असुरसुईउ असुरश्रुतीः.

29 1 a मणेत्यादि चित्ते स्नेहप्रसङ्गोत्पादकम्; b अहिवायणउं अभिवादनम्. 2 a पडि-
 अहिवाउ प्रत्यभिवादनम्. 5 a जोइहुं द्रष्टुम्. 6 a जणमहाविहिकारियहं यत्तमहाविधिकर्त्रीणाम्.
 b पसुवहरियहं पशुवधक्त्रचाम्. 7 b महयत्तम्. 8 a कंचुइ वृद्धः. 12 हुणिवि अम्री हुत्वा.

30

अप्पाणउं तहिं जिं हुणावियउं
सत्तच्चिणिहिच्छं चउपयहं
माथारपण जणु मोहियउ
हारावलिरुइरंजियथणिय
गोसवि णियजणणि वि अहिलसिय
विप्पहं वंभणिवरंगु विहिउं
बहु वंचिय धुत्तेणेव जड
घरु जाइवि तणु घल्लिवि सयणि
हा सुलसि काइं मइं तुज्जु किउ
तां तहिं जि पराइउ पवरजइ
किं धम्मु भडारा पसुवहणु

देवत्तु णहंगणि दावियउं ।
णिट्ठियइं सट्ठिसहसइं मयहं ।
संतीइ सुहेण पयासियउं ।
सुलसा वि तेण हुयवहि हुणिय ।
सउयामणिमहि मइर वि रसिय । 5
महुणा लित्तउं जीहइ लिहिउं ।
अवलोयवि होमिज्जंतं भड ।
पहु सोयइ हा हा मिगणयणि ।
किह जीवियव्वुं णिड्ढुहि वि णिउ ।
पुच्छइ पणामु विरइवि णिवइ । 10
किं सच्चजीवदयसंगहणु ।

घत्ता—तं णिसुणिवि करुणेण तेण मुणिंदे वुत्तउं ॥

होइ अहिसइ धम्मु हिंसइ पाउ णिरुत्तउं ॥ ३० ॥

31

पहु जंपइ पच्चउ दक्खवहि
रिसि भासइ णहयलरंगणडि
णिवडेसहि णरइ मं भंति करि
तं रायं रइयणरावयहु
तेण वि बोह्लिउ मलपोट्टलउ
असुरिंदे दरिसिय देवि णहि

अप्पाणउ किं मुहिइ खवहि ।
तुह सत्तमि दिणि णिवडिहइ तडि ।
किं सग्गुं जंति पसुं खंत हरि ।
आवेण्णिणु अक्खिउ पावयहु ।
किं जाणइ सवणउं विट्टलउं । 5
विउणारउ लग्गउ पुणु वि म्महि ।

30 १ P तहि तो. २ P णिहिच्छं. ३ P सोयामणि°. ४ A होमिज्जंति. ५ A जीवियस्थु.
६ P तो.

31 १ A पइ जंपइ सच्चउ. २ A ण. ३ AP सग्गि. ४ A पसु खंत. ५ AP पव्वयहु;
but T पावयहु. ६ A महि; P महो.

30 1 a अप्पा णउं सालङ्कायनेन . . . क्षेपितः. 2 a सत्तच्चि° अग्निः; चउपयहं
चतुष्पदानाम्. 5 a गो स वि गोवधयज्ञे; b सउयामणिमहि सौत्रामणीयज्ञे; मइर मदिरा. 6 b °वरंगु
योनिः. 12 करुणेण कारुण्येन.

31 1 a पच्चउ प्रत्यक्षम्; b मुहिइ मुखेव. 2 a °ण डि नदी; b त डि वियुत्. 3 b पसु
खंत हरि मृगादीम् खादन्तः सिहाः. 4 a रइयणरावयहु रचिता नराणामापदो येन; b पावयहु
पर्वतस्य. 6 a देवि सुलसा; b विउणारउ द्विगुणः.

सो असणिणिहाँपं घाइयउ
भणु पावें को व ण मारियउ
जं पिंगलु हउं पइं दूसियउ
जं वरलक्खणु महं कयउ छलु

वालुयपहमहि संप्राइयउ ।
रिउणा जाइवि पञ्चारियउ ।
जं णियकरु कण्णइ भूसियउ ।
भुंजहि एवहिं तहु तणउं फलु । 10

घत्ता—पुणु असुरेणं नहमग्गि मायारूवे हारिसियइं ॥

सा सुलस वि सो सयरु विण्णि वि मंतिहिं दरिसियइं ॥ ३१ ॥

32

ता खद्धकंदेण
गउ णारओ सेउ
तेणुत्तु दियसीह
वणयरइं मारंतु
चम्माइं छिंदंतु
इसिदिदु सुपसत्थु
तइ खग्गु किं णेय
जइ पोरिसेओ वि
वण्णज्जुणी गयणि
अक्खरइं कहिं विंदु
कयमणपयत्तेण
कहिं हेउं कहिं वेउ
कहिं गयणि अरविंदु
वेयम्मि कहिं हिंस
हिंसाइ कहिं धम्मु
कत्तार दायार
जहिं होंति होयार
तो सूणगारा वि
पसुंखद्धबद्धा वि ।
अमरा ण किं होंति

सह तवसिविंदेण ।
तं णयरु साकेउ ।
पव्वय दुरासीह ।
अट्ठियइं चूरंतु ।
वम्माइं भिदंतु ।
जइ वेउ परमत्थु ।
जज्जाहि कुविवेय ।
णउ होइ भणु तो वि ।
किं फुरइ णरवयणि ।
कहिं अत्थु कहिं छंदु ।
विणु पुरिसवत्तेण ।
कहिं णाणु कहिं णेउ ।
णीरूवि कहिं सद्दु ।
दिय गिलियपरमंस ।
जड मुयहि तुहं छम्मु ।
जण्णस्स णेयार ।
सुरणारिभत्तार ।
मीणावहारा वि ।
जइ जण्णि णिवडंति ।

5

10

15

20

७ P °णिवारं. ८ AP संपाइयउ. ९ P जीयवि.

32 १ A तवसिविंदेण. २ AP देउ. ३ A अविचार; PT अविचार. ४ AP omit this foot. ५ AP add after this: किं दुग्गइं जंति. ६ A णिवडंत.

7 a अस णि णि हा एं अशनिघातेन. 8 b रि उ णा कालासुरेण. 10 a छ लु वञ्चना.

32 2 a सेउ श्वेतं आवासैः कृत्वा (सौधैः). 3 a तेणुत्तु नारदेन उक्तः; b दुरासीह दुराशा चेष्टा. 8 a पोरिसेओ पौरुषेयः. 11 a कयमणपयत्तेण कृतमनःप्रवर्तनेन; b °वत्तेण वक्त्रेण.

पसु सग्गु गच्छंति ।

दीसंति सकयत्थ तो अप्पयं तत्थ ।

होमेविं मंतेहिं सहुं पुत्तकंतेहिं ।

गम्मिज्जए सग्गु भुंजिज्जए भोग्गु ।

घत्ता—जलमद्वियचम्मेण दब्भे सुद्धि कहेप्पिणु ॥

25

भट्टे खद्धउ मासु खगमिगकुलइं वहेप्पिणु ॥ ३२ ॥

33

जइ सच्चउ विप्प पवित्तु जलु
जइ गंगाण्हाणु जिं दुरियहरु
जइ मद्वियमंडणि तमु गलइ
जइ हरिणाइणु धम्मज्जलउं
किं बंभणु उत्तमु तुहुं कहदि
जइ दब्भे पुण्णु पवित्थरइ
तं रत्तिदियहु दब्भे जि चरइ
गोफंसणपिप्पलफंसणइं
जइ पाउ हणंति हुंत पउर
किं बहुवे पुणु वि मंति भणइ
णिगंथु णियत्थु वि परिभमउ
सो पावइ तं सिद्धत्तुं किह

तो किं तं जायउं मुत्तु मलु ।
तो झस वि लहंति वि मोक्खु परु ।
तो कोलु विमाणे संचरइ ।
तो हरिणउलु जि जगि अग्गलउं ।
तं मारिवि मासगासु महदि । 5
तो किं मयउलु भवि संसरइ ।
किहं इंदविमाणि ण पइसरइ ।
सुत्तुद्वियाहं घयदंसणइं ।
तो वसहकायराया वि सुर ।
जो परु अप्पाणउं समु गणइ । 10
लुहु मोहु लोहु मच्छरु समउ ।
रसविद्धु धाउ हेमत्तु जिह ।

घत्ता—हिसारंभु वि धम्मु वयणु असच्चु वि सुंदरु ॥

जैणु धुत्तहिं ददमूदु किज्जइ कालउं पंडुरु ॥ ३३ ॥

34

जवहोमे संतियम्मु कहिउ
अय जव जि पयरिय हुंति णउ

जं तं पइ छेलएहिं गंहिउ ।
पइं लंघिउं तायहु वयणु कउ ।

७ A गच्छंत. ८ A होमेहिं.

33 १ AP मुत्तमल. २ A वि. ३ A सोक्खु. ४ P मारिवि. ५ AP दब्भु. ६ A किं.
७ AP अप्पाणे. ८ AP लोहु मोहु. ९ A सिद्धत्तु. १० AP जगु.

34 १ P कहिउ.

21 b तत्थ यत्ते. 22 a हो मे वि हुत्वा. 25 मा सु मांसम्; व हे पि णु हत्वा.

33 2 a दुरियहरु पापविनाशकम्. 3 a मद्वियमंडणि मृत्तिकया शरीरलेपने; b कोलु सूकरः. 4 a हरिणाइणु हरिणचर्म; b अग्गलउं श्रेष्ठम्. 9 b वसहेत्यादि वृषभाणां गोशरीरस्पर्शात् काकानां पिप्पलस्पर्शात्. 11 a णियत्थु निर्वस्त्रः. परिधानरहितः. 12 a सिद्धत्तु सिद्धत्वम्; b हेमत्तु सुवर्णत्वम्.

34 1 b छेलएहिं छागेषु. 2 a पयरिय उताः.

गिरि घोसइ गुरुणा पिसुणियउं
ता णारउ पव्वउ रुहँधय
पव्वयजणणइ अब्भत्थियउ
जइ सुंअरहि भासिउं अप्पणउं
तं अम्महि भासिउं परिगणिउं
जं चविउ असञ्चु सुदुच्चरिउ
मँहिकंपे ठाणहु विहँडियउं
णहँफलिहखंभचुउ चूरियउ

तेँ तँइयहुं वसुणा णिसुणियउं ।
तावस सावित्थिहि झ त्ति गय ।
वरकालु पहु पहु पत्थियउ । 5
तो थवहि वयणु भाइहि तणउं ।
अय जव ण होंति तेण वि भणिउं ।
तं सधरु धरायलु थरहरिउ ।
आयासहु आसणु णिवडियउं ।
वसु चुणु चुणु मुसुमूरियउ । 10

घत्ता—णियमित्तहो मरणेण पव्वउ थिउ विच्छायउ ॥

पडियउ णरयणिवसि वसु असञ्चु संजायउ ॥ ३४ ॥

35

पुणु दणुपं मायाभाउ किउ
ता सयरमंति आणंदियउ
पुणु तेण विं रायसूउ रइउ
णिवमासहोमु विद्धंसियउ
णारयहियउल्लउ तोसियउं
मा णासहि पव्वय कहिं मि तुहुं
जिणबिंबइ चउदिसु थवहि तिह
ता तेँ सिद्धउं तेहउं करिवि
महिसिंदेँ लोयहु भासियउं
देहिहि दुक्खावहु धम्मु कहिं
तँवचरणेँ जालिवि मयणपुरि
अज्ज वि अच्छइ जिणगुण महइ

वसु दाविउ सग्गविर्माणि थिउ ।
मूढेहिं जणु किं णिंदियउ ।
दिणयरदेवेँ खयरं लँइउं ।
महकालवियंभिउ णासियउ ।
अमरारें पुणरवि घोसियउं । 5
मंतीसर माणहि अमरसुहुं ।
खेयरविज्जाउ ण एंति जिह ।
गय णरयविवरि बिण्णि वि मरिवि ।
अप्पाणउं वइरु मइ साहियउं ।
पलु खज्जइ पिज्जइ मज्जु जहिं । 10
णारउ अहमिद विर्माणवरि ।
अइंसयमइ दसरहासु कहइ ।

२ A तं. ३ A रुद्धवय. ४ A भासिउप्पणउ. ५ A महिकंपइ. ६ A विथडियउ. ७ A फलिहमउ
खंभु धुउ चूरियउ.

35 १ P ०त्रिवाणि. २ AP जि. ३ A लविउ. ४ A णरयवोरि. ५ AP तवजलणे.
६ A विमाणु धरि; P विवाणुवरि. ७ AP इय सयमइ.

3 a गिरि पर्वतः; पिसु णियउं कथितम्. 4 a रुद्धधय रुद्राक्षचिह्नास्तापसाः. 5 a अब्भत्थियउ
संमुखं प्राप्तः. 6 a सुंअरहि स्मरसि; b भाइहि पर्वतस्य. 10 b मुसुमूरियउ चूर्णः संजातः.

35 3 b लइउं भंक्तुं स्वीकृतः. 1 a णिव मासहोमु नृपमांसहोमः; b महकालवियंभिउं
महिषासुरविज्जुभिमतम्. 5 b अमरारें दैत्येन महिषासुरेण. 9 a महिसिंदेँ दैत्येन महिषेन्द्रेण.
10 a देहिहि जीवस्य. 11 b विमाणवरि विशिष्टे विमाने.

घत्ता—भरहकुमारजणेर हो हो जणु किं किज्जइ ॥
जगमहंतु अरहंतु पुप्फदंतु पणविज्जइ ॥ ३५ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे रामंलक्खणभरहसत्तुहणुप्पत्ती
णाम जण्णिवारणं णाम एकूणहत्तरिमो
परिच्छेओ समत्तो ॥ ६९ ॥

८ AP ण. ९ A रामभरहलक्खण^०. १० A जण्णिवारणं. ११ A एकसत्तिमो; P णवसट्ठिमो.

13 भरहकुमारजणेर भरतकुमारपितः हे दशरथ.

आयणिावि मंतिसुहासिर्यं मिच्छादंसणु णिट्टिउं ॥
दसरहहियउल्लउं मेरुथिरु जिणवरधम्मि परिट्टिउं ॥ ध्रुवकं ॥

1

अवरेहिं मि अरुहि णिहिचु चित्तु
चमुवइणा मारियपरवलेण
तंवारवारु सो जणु जाउ
झसमुसलगयासणिधणुहरेहिं
विण्णाणणाणणंयविहयमोहु
भणु भणु तणयहं महिरयणरिद्धि
ता वुत्तु णिमित्तवियक्खणेण
तहिं तहिं गोमिणि संमुहिय थाइ
ए अट्टम मइं णिसुणिउं पुराणि
जगतावणु रावणु रणि हणेवि
बलपव जणहण सुय ण भंति

संथुउ समंति कल्लामित्तु ।
एत्थंतरि उत्तु महाबलेण ।
णिव जोयहि णिर्यणंदणपयाउ । 5
जिप्पंति ण जिप्पंति व परेहिं ।
ता राएं आउच्छिउ पुरोहु ।
तं गमणं होइ ण होइ सिद्धि ।
जहिं जाइ रामु सहं लक्खणेण ।
दामोयरु मुइवि ण पउ वि जाइ । 10
संठिय सलायपुरिसाहिठाणि ।
महि भुंजिंहंति खगं जिणेवि ।
दससंदणु पुच्छइ विहियसंति ।

यत्ता—महं कहहि पुरोह लद्धविजउ भुवणत्तयविकखायउ ॥
दहगीउ दसासापत्तजसु केण सुंपुण्णं जायउ ॥ १ ॥

2

जसु आसंकइ जमु वरुणु पवणु
ता कहइ विपु महुरइ गिराइ
आरामगामसंदोहसोहि
रंभंतगोउलावासरम्मि
गोवालवालकीलाणिवासि

तहु एयहु भणु सियचिंधु कवणु ।
सुणि धादइसंडहु पुव्विलभाइ ।
खरदंडसंडमंडियसरोहि ।
जवणालसालिजवळेत्तसोम्मि ।
तहिं सारसमुच्चइ णाम देसि । 5

1 १ A सुहासियउं. २ AP णिट्टियउं. ३ AP परिट्टियउं. ४ P णिवणंदणं. ५ A णय-
विहियमोहु; P णयणिहियमोहु. ६ AP णिसुणिउं मइं. ७ P भुंजिंहंति. ८ A omits लद्धविजउ.
९ A दहगीव; P दसगीउ. १० P सुपुण्णं.

2 १ P कमणु. २ AP कीलणणिवासि.

1 1 सुहासियइं सुभापितानि सुवचनानि. 5 a तंवारवारु नरकद्वारं क्षयम्; b पयाउ
प्रतापः. 7 a विहयमोहु विहताज्ञानः. 10 गोमिणि लक्ष्मीः.

2 1 b सियचिंधु श्रियो निमित्तं चिह्नं वा. 3 b खरदंडं कमलानि; सरोहि तडागसमूहे.
4 a रंभंतं शब्दं कुर्वन्तः.

णायउरि अरिथि णरदेउ राउ
संतइहि थवेप्पिणु भोयदेउ
विज्जाहरु पेच्छिवि चवलवेउ
बद्धउ णियाणु महु जम्मि होउ
सुररमणीरमणविलासमग्गि
इह भरहँवरिसि वेयइसेलि
दाहिणसेढिहि हयवइरिजीउ

वंदिवि अणंत गुरु वीयराउ ।
जइ जायउ मेल्लिवि बंधहेउ ।
णहयलि आवंतु विच्चित्तेकेउ ।
पहउ मणहरु खेयैरविहोउ ।
मुउ उप्पणउ सोहम्मसग्गि । 10
गयणग्गलगमणिमोहँमेलि ।
पुरि मेहसिहरि पहु सहसगीउ ।

घत्ता—उव्वेयउ केण वि कारणिण अंतरंगि णिहँ जायउ ॥

कलहणउं करिवि सहुं बंधवहिं सो तिकूडगिरि आयउ ॥ २ ॥

3

लग्गइ अकंडि दुव्वयणकंडु
किं किज्जइ पिसुणणिवासि वासु
तहिं गम्मइ जहिं तरुवरहलाइं
तहिं गम्मइ जहिं गुणणिरसियाइं
इय चिंतिवि धैत्तिवि दुट्टसंक
उप्परिथियगिरिहँत्थिहिं विहाइ
णं सण्णइ एहिं जि पुणु वि एम
सिहँरें णं भिंदिवि विउँलमेह
जोयइ पुत्तलियाणयणएहिं
परिवित्थारिवि किन्तीमुहाइं

मउलाविज्जइ सुहि तेण तुंडु ।
तहिं गम्मइ जहिं कंदरणिवासु ।
तहिं गम्मइ जहिं णिज्जरजलाइं ।
सुव्वंति ण खलयणभासियाइं ।
काराविय राएं णयरि लंक । 5
चल्लियधयहत्थहिं णडइ णाइं ।
किं सग्गें मइं जोयंतुं देव ।
ससि पावइ किं घरतेयरेह ।
णं हसइ फुरंतहिं रयणएहिं ।
दावइ पारावयरवसुहाइं । 10

घत्ता—जहिं चंदसाल चंदंसुहय चंदकंतिजल्लु मेल्लइ ॥

कामिणिपयंपहउ असोयतरु उववाणि धियसइ फुल्लइ ॥ ३ ॥

३ A खेयरहु होउ. ४ A °वरिस° ५ A °मऊह°. ६ AP णिउ.

3 १ AP °वरफलाइं. २ AP सुम्मंति. ३ A पावियदुट्टसंक. ४ A °हत्थिय विहाइ. ५ A जोयंति. ६ AP सिहरेहि वि. ७ AP णीलमेह. ८ A °रइसुहाइं. P °रयसुहाइं. ९ A °पयहयउ.

6 a णायउरि नागपुरनगरे. 7 b बंधहेउ पापबन्धकारणम्. 9 a जम्मि आगामिभवे; b °वि होउ विभोग ऐश्वर्यम्. 11 b °मो ह मेलि किरणसंघाते. 13 उव्वेयउ उट्टिमः कलुपितः. 14 सो सहसग्गीवः.

3 1 a अकंडि अप्रस्तावे; °कंडु बाणः; b मुहि सुहदः. 4 a गुणणिरसियाइं गुण-च्छेदकानि. 7 a सण्णइ संज्ञया. 8 b घरतेयरे ह गृहतेजसः शोभाम्. 10 किन्तीमुहाइं कीर्तिमुखानि शिखराण्येव. 11 चंदसाल शिरोग्रहमाच्छादितोपरितनभूमिः; चंदंसुहय चन्द्रकिरणैर्हता. 12 °पयपहउ पादप्रहतः-

4

सा पुरि परिपालिय तेण ताव
सयगीउ खगाहिउ पंचवीस
णिहलिवि वहरि भूमंगभीस
दसपंचसहासइ वच्छराहं
सुंदरि तहु पणइणि मेहलच्छि
अंकग्गि चडिउ चंडंसुमालि
आहासिउ दइयहु फलपयासि
संभूयउ सयणहं सुहु जणंतु
णिवरूवें आपंदु व पयाहं

गय वरिसहं वीससहास जाव ।
थिउ विहवंतु णाणामहीस ।
पण्णासगीउ मुउ जिहवि वीस ।
संठिउ पुलत्थि राइयधराहं ।
सां पेच्छइ घरि पइसंति लच्छि । 5
सिविणंतरंति पंरिगलियकालि ।
णंरदेव देव थिउ गब्भवासि ।
णं बहुरूविणिघसियरणमंतु ।
आवासु व णहयरसंपयाहं ।

घत्ता—कुलधवलु धुरंधरु दहवयणु जायउ मायहि जइयहुं ॥ 10
मंदरगिरिदुग्गु पुरंदरिण महुं भावइं किउ तइयहं ॥ ४ ॥

5

णवतरणि व सुरकुमुयायराहं
कटिणंकुसु णं दिग्गयवराहं
णं मत्तभमरु णंदणवणाहं
पवहंतमहासरिजलगलत्थु
वण्णेण गरलभसलउलकालु
जायउ जुवाणु जमजोहजूरु
णं विसमविसंकुरु विसविसित्तु
तज्जियदासि व भउ धरइ चरइ
जसु सत्तसत्तसहसाइं आउ

पडिमल्लु व गज्जियसायराहं ।
मंणमत्थइ सूलु व अरिवराहं ।
णं कामवासु तरुणीयणाहं ।
महिमहिहरसंचालणसमत्थु ।
आयंवणयणु पडिवक्खकालु । 5
दुइंसणु णं मज्झणसूरु ।
णं पलयकालु हुयवहु पलित्तु ।
जसु असिर्धारइ धर मरइ तरइ ।
वरिसहं जो सुव्वइ वज्जकाउ ।

4 १ AP तीससहास. २ AP ओहामियरूवें जाइ लच्छि (A जायलच्छि). ३ P पडि-
गलिय°. ४ AP णरदेउ देउ. ५ A भावहि.

5 १ A कुमुयावराहं. २ AP मणि मत्थय. ३ AP कामवाणु, ४ A णं सविसु विसंकुरु
विसपसित्तु; P'T णं समविसमंकुरु; K records a p; समविसमंकुरु. ५ P करइ डरइ. ६ P °धारइ.

4 4 b राइयधराहं राजिता भरा येपु वपेपु. 6 a चंडंसुमालि सूर्यः; b परिगलियकालि
गलितराश्रयवसरे, प्रभाते इत्यर्थः.

5 1 a °तरणि सूर्यः. 2 b मणमत्थइ चित्ते मस्तके च. 3 b कामवासु कामपाशः.
6 a जमजोहजूरु यमभटानां चूरकः. 7 a विसमविसंकुरु विसपसित्तु विप्रमविषस्याङ्कुरो विषेण
विषिक्तश्च; समविसमंकुरु इति पाठे सह मया लक्ष्म्या वर्तन्ते इति समा राजानः तेषां विषयाङ्कुरः; विगतः
समः उपशमः कोपः तस्याङ्कुरो वा. 8 a भउ धरइ भयं धरति; b धर भूः पृथ्वी.

घत्ता—जसु भईपं रवि णं अत्थवइ चंदु व चंदगाहिल्लउ ॥ 10
फणि पुरिसरूवु परिहरिवि हुउ दीहदेहु कीइल्लउ ॥ ५ ॥

6

खयरेण कण्ण इच्छियजएण आरुहिवि चारु पुप्फयविमाणु रययायलि अलयावइहि धीय जोइवि मणिवइ झ्झाणुलग्ग पारद्धु विग्घु परिगालियतुट्ठि बारहसंवच्छरपीडियंगि णासिउ बीयक्खरलीणु झाणु महु वप्पु होउ मइं रणिण हरउं णिक्किउ विरत्तु विवरीयचित्तु गउ दहमुहु खेयरि मरिवि कालि	मंदोर्यरि तहु दिण्णी मएण । सहुं कंतइ णहयलि विहरमाणु । विज्जासाहणि संजमविणीयं । मइ रायहु मयणवसेण भग्ग । उववाससोसकिसकायंलट्ठि । 5 कुझी कुमारि णं खैयभुयंगि । इहु खगवइ चिंधे जाउहाणु । आयामि जम्मि महुं कज्जि मरउं । जाणिवि रोसंगिउं रत्तणेत्तु । थिय मंदोर्यरिगम्भंतरालि । 10
--	--

घत्ता—उप्पण्णी धीय सलक्खणिय कंपावियकेलासहु ॥
णं लंकाणयरिहि जलणसिह णां भवित्ति दसासहु ॥ ६ ॥

7

दिणि पड्डिउ जल्लिउ उक्काणिहाउ महि कंपइ जंपइ को वि साहु एयइ धीयइ संभूइयाइ खयकाले ढोइय मरणजुत्ति सुइसुहहराउ विहुणियसिराउ	अप्पंपरि जायउ णरणिहाउ । किह चुक्कइ एवहिं पुहइणाहु । खज्जेसइ णां विस्सूइयाइ । वणि णिज्जाणि विप्पइ कहिं वि पुत्ति आयण्णिवि णेमित्तियगिराउ । 5
--	---

७ AP जसु रवि णं भइयए अत्थमइ.

6 १ मंदोवरि. २ A °विलीय. ३ A महिवइ. ४ P झाणेणुलग्ग. ५ A °कायजट्ठि.
६ P खए भुयंगि. ७ A हरइ. ८ A मरइ. ९ P रोसें इंगिउं रत्तु णेत्तु.

7 १ A तां वि; P तासु वि. २ A °सुहयराउ.

10 अत्थवइ अस्तं याति.

6 1 b मएण मयनाम्मा असुरेण. 3 a अलयावइहि धीय अलकापुरीनरेन्द्रस्य पुत्री.
4 b मइ मतिश्चित्तम्. 6 b खयभुयंगि कालसर्पिणी. 7 a बीयक्खरलीणु बीजाक्षरलीनम्; b जाउ-
हाणु राक्षसः. 9 a णिक्किउ निष्कृपः. 10 a खेयरि मणिवती खेचरी. 12 भवित्ति मरणहेतुः.

7 1 a उक्काणिहाउ उल्कासमूहः; b अप्पंपरि स्वयमेव; णरणिहाउ नरसन्दो हाहाकारः.
3 b विस्सूइयाइ विष्वक्तया वमनेन. 5 a सुइसुहहराउ कर्णसुखहराः.

खगभूगोयरसिरिमाणणेण
किं गरलवारिभरियइ सरीइ
बंधवयणहिययवियारणीइ
णवकमलकोसकोमलयराउ
णिम्माणुसि काणणि धिवहि तेम

मारियउ पवुत्तु दसाणणेण ।
किं सविसकुसुममयमंजरीइ ।
किं जायइ धीयइ वइरिणीइ ।
उद्दालिवि मंदोयरिकराउ ।
पाविट्टु दुट्टु णउ जियइ जेम । 10

घत्ता—तं णिसुणिवि तें मारीयएण भणिय देवि वररूवउं ॥

तुह गच्छि भड्दारी थीरयणु गोत्तखयंकरु हूयउं ॥ ७ ॥

8

मुइं मुइ दहमुहखयकालदूय
वाहापवाहओहलियणयण
मारीयय णवतरुफलरसहि
घल्लिज्जसु कत्थइ पुत्ति तेत्थु
अह एयइ काइं जियंतियाइ
गिरिदारणीइ किं गिरिणईइ
आलिहिउं पत्तु मच्छरकराल
बहुदुक्खजोणि बंधुहुं असीय
इय भासिवि मंजूसहि णिहित्त
दहगीवजीवरक्खणकएण
चंपयचैवचंदणचूयगुज्झि

तें होंतें होसइ अवर धूय ।
ता तरुणि चवइ ओहुल्लवयण ।
कीलंतपक्खिरमणीयसहि ।
रविकिरणु ण लग्गइ देहिजेत्थु ।
कूरइ णियतायकयंतियाइ । 5
हो हो किं एयइ दुम्मईइ ।
रावणदेहुवभव एह वाल ।
सुविसुद्धवंस णामेण सीय ।
सहुं रयणहिं वरराईवणेत्त ।
णिय णिविसें णहि मारीयएण । 10
वहि मिहिलाणयरुजाणमज्झि ।

घत्ता—मंजूसइ सहुं छणयंदमुहि सरिसरणिज्जरसीयलि ॥

णं रहुवइसिरिलयकंदसिरि णिक्खय सुय धरणीयलि ॥ ८ ॥

9

गउ विज्जापुरिसु णहंतरेण
आरामुहच्छित्तधुरंधरेण

तिकखें महि दारिय लंगलेण ।
मंजूस दिट्ठ पामरणरेण ।

३ A मारीयउ बुत्तु. ४ A गरुडवारि°. ५ A णिसुणंतं मारियएण. ६ P भड्दारेण धीरयणु.

8 १ A मुय मुय. २ A बाह्यपवाह°. ३ A घल्लिज्जइ. ४ P अच्छर°. ५ P रावण°. ६ A णिविसें. ७ AP धवचंदण°.

7 a सरीइ नद्या. 9 a° कोमलयराउ कोमलतरात् हस्तात्. 11 वररूवउं विशिष्टरूपं स्त्रीरत्नम्.

8 1 a मुइ मुच्च; b तें होंतें राज्ञा जीवता. 2 a वाहापवाह° बाण्यप्रवाहः; °ओहलिय° क्कपिते; b ओहुल्लवयण म्लानमुखी. 5 b° कयंतियाइ यमरूपया. 8 a असीय संतापकारिणी अलक्ष्मीर्वा. 10 b णिविसें निमिषेण.

9 1 a विज्जापुरिसु मन्त्री. 2 a आरामुहच्छित्त° हलारामुखाकृष्टा; b पामरणरेण कर्षकेण.

वणवालहु अप्पिय तेण णीयं
वाइवि वइयरु वुज्झिय विणीय
वड्डइ परमेसरि दिव्वदेह
णं ललिय महाकइपयपउत्ति
णं गुणसमग्ग सोहग्गथत्ति
लायण्णवन्तं णं जलहिवेल
थिर सूहव णं सँप्पुरिसक्कित्ति

रायाँलउ रापं दिट्टु सीय ।
णियपियहि दिण्ण पडिवण्ण धीय ।
णं बीयाँयंदहु ताणिय रेह । 5
णं मयणभावविण्णणजुत्ति ।
णं णारिरूवविरयणसमँत्ति ।
सुरहियं णं चंपयकुसुममाल ।
बहुलक्खण णं वायरणवित्ति ।

घत्ता—जसवेह्लि व अट्टमराहवहु अमरदिण्णकुसुमंजलि ॥ 10
पुरि वड्ढिय जणयणरिंदसुय रामणरामहं णाहं कलि ॥ ९ ॥

10

पयकमलहं रत्तत्तणु जि होइ
गुँफहं पुणुं गूढत्तणु जि चारु
जंघाबलेण जायउ अजेउ
णालोइउ जाणुहुं संधिठाणु
ऊरुयलच्चितइ हयसरर
कडियल्लु गरुयत्तर्णुणाणिहाणु
गंभीरिम णाहिहि णवर होउ
पत्तलउं उयरु सिंगारु करइ
सकयन्थउ मुँद्धिहि मज्झु खीणु
वलियाहिं तीहिं सोहइ कुमारि

इयरह कह रंगु वहन्ति जोइ ।
इयरह कह मारइ तिजगु मारु ।
इयरह कह वग्गइ कामएउ ।
इयरह कह संघइ कुसुमबाणु ।
इयरह कह जालंधरियसार । 5
इयरह कह गरुयहं महइ माणु ।
इयरह कह णिवडिउ तहिं जि लोउ ।
इयरह कह मुणिपत्तु हरइ ।
इयरह कह दंसणि विरहि रीणु ।
इयरह कह तिहुयणहिययहारि । 10

घत्ता—रोमावलिमग्गु मणोहरउ कण्णहि केरउ संघइ ॥

इयरह कह सिहिणसिहरिसिहरु मयरकेउ आसंघइ ॥ १० ॥

9 १ A सीय. २ AP रायाँलह. ३ AP बीयाँयंदहु. ४ A °समग्गि. ५ A लायण्णवण्ण.
६ P सुरहिय णवचंपय°. ७ P सुँप्पुरिस°. ८ A णं रामहं रावण कलि; P रावणरामहं णाहं कलि.

10 १ A गुँफहं; P गुप्फहं. २ A omits पुणु. ३ A जणुहि; P जं तुहुं. ४ AP गरुयत्तणु.
५ A मुद्धिहि. ६ AP कह विरहै विरहि.

4 a वा इ वि वयरु वाचितो व्यतिकरः पत्रम्; b णि य पिय हि वसुधायाः; प डिव ण्ण धी य पुत्रिकात्वेन प्रतिपत्ता. 5 b °बी या यं द हु द्वितीयाचन्द्रस्य. 6 a °पयपउत्ति पदप्रयुक्तिः. 7 b ° विरयणसमँत्ति विरचना निर्माणं तस्याः समाप्तिः परमोत्कर्षः. 10 अट्टमराहवहु अष्टमबलभद्रस्य.

10 1 b इयरह इतरथा अन्यया धोर्गा कथमेतस्या दर्शने रागं वहति. 5 b जालंधरियसार जालंधरी कदली असारा. 8 b °पत्तत्तु पात्रना. 11 संघइ श्लाघते. 12 सि हि ण सि हरि सि हरु स्तन-गिरिशिखरम्; आसंघइ आश्रयति.

11

देविहि थण रहरसपुण्णकुंभ
भुय मयणपाससंकास गणमि
कंधरु बंधुरु रेहाहिं सहइ
तंबउ बिंवाहरु हरइ चक्खु
दियदित्तिइ जित्तइं घत्तियाइं
मुहससिजोणहइ दिस धवेल थाइ
लोयणहिं वि दीहत्तणु जि जुत्तु
भालयलु वि अद्धिदु व वरिट्टु
कौतलकलाउ कुडिल्लु वहइ

इयरह पुणुं कामतिसाणिसुंभ ।
इयरह कह मणबंधणु जि भणमि ।
इयरह कह कंबु रसंतु कहइ ।
इयरह कह तग्गहणेण सोक्खु ।
इयरह कह विद्धइं मोत्तियाइं । 5
इयरह कह ससि शिज्जंतु जाइ ।
इयरह कह पत्तइं जणमणंतु ।
इयरह कह तहु मयणांस दिट्टु ।
इयरह कह माणववंदु वहइ ।

घत्ता — जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणिय सीय काइ वण्णिज्जइ ॥ 10
रक्खेवि जणु जणयहु तणउ रामे धुवु पंरिणिज्जइ ॥ ११ ॥

12

ता कुलजयलच्छिसुहावहेण
बलणाहें समउं महाबलेण
गर्यं ससुरणयरु सुरं सणर तसिय
भड रहं करि तुरियं तुरंग चलिय
घरु आयंहें मामे कुसलु कयउ
गय कहवय दियह मणोरेहेहिं
चलपंचवण्णधयधुव्वमाणु
दिज्जइ दीणहं आहारदाणु
खज्जइ मासु वि किज्जइ विहाणु

पेसिय णियतणुरुह दसरहेण ।
परिवारिय चउरंगे बलेण ।
चलवलिय मयर मयरहरल्हसिय ।
दसदसिवह एकहिं णाइं मिलिय । 5
प्रंगणि जयमंगलु तूरु हयउ ।
हा पडु वेहाविउ पसुवहेहिं ।
मंडउ णिहित्तु जोयणपमाणु ।
धिप्पइ कंपतहं मृगंहं प्राणु ।
महुं मिट्टउं पिज्जइ सोमपाणु ।

11 १ AP कह. २ A कंबुरु. ३ A कंठ रसंतु. ४ A इहरहं. ५ A धवलि. ६ AP खिज्जंतु.
७ AP मयणासु. ८ A कुडिल्लु. ९ P माणवविंदु. १० A परणिज्जइ.

12 १ A गउ. २ A सुरसेणु तसिय; P सुर सणर तसिय. ३ AP करि रह. ४ A तुरय.
५ आयउ. ६ AP पंगणि. ७ A मंगलतूरु; P मंगलतरु. ८ AP मणोरेहेहिं. ९ AP मिगहं पाणु.

11 3 b कंबु रसंतु शंखः शब्दायमानः. 5 a दि य दि त्ति इ दन्तकान्त्या; घत्तिया इं तिर-
स्कृतानि. 6 a थाइ तिष्ठति, भवति. 7 b जणमणंतु लोकमनःपर्यन्तम्. 8 b मयणास मृगनाशो
मदनाशश्च. 9 b वहइ हन्ति.

12 3 a सुर सणर तसिय तयोः प्रयाणे नरसहिताः सुरा अपि त्रासं प्राप्ताः; b मयर मत्त्याः;
मयरहरल्हसिय समुद्राद्बहिः पतिताः. 6 b वेहाविउ अनुरजितो यद्धि वा नीतः. 9 a विहाणु यज्ञविधिः.

इय णिव्वत्तिउं कउ रिच्छिएहिं
हिंसाइ धम्मु पावासवेण

भणु को ण वि खञ्जउ सोसिएहिं । 10
अण्णाहिं वासरि जयजयरवेण ।

घत्ता—धणुकोडिचडावियघर्णंगुणहु दरिसियवइरिविरामहु ॥

णियधीय सीय णवकमलमुहि जणपं दिण्णी रामहु ॥ १२ ॥

13

वइदेहि धरिय करि हलहरेण
णं तिहुयणसिरि परमप्पण
णं चंदे वियसिय कुसुंममाल
दुव्वारवइरिवारणभुएण
अच्छइ दासरहि सुहेण जाम
आणिउ विणीयपुरि सीरधारि
अहिसिंचिवि जिणपडिमउ घएहिं
णिव्वत्तिय जिणपुज्जा महेण
अवराउ सत्त कण्णाउ तासु
सोलह तहु महिलच्छीहरासु
गंभीरधीरसाहसधणाहं
कोणाहयतूरइं रंसमसंति
संमाणवसइं सयणइं णडंति

णं विज्जुल धवलं जलहरेण ।
णं णायवित्ति पालियंपण ।
गोविंदे णं सिरि सारणाल ।
सहुं सीयइ सहुं केक्कयसुएण ।
पिउणा णियदूयउ पहिउं ताम । 5
सकलत्तु सभाउ दुहावहारि ।
दहियहिं दुद्धहिं धारापपहिं ।
सिसुणेहं तूसिवि दसरहेण ।
दिण्णाउ मुसलकरपहरणासु ।
अलिकुवल्लयकज्जलसामलासु । 10
रइयउ विवाहु दोहं मि जणाहं ।
मिहुणाइं मिलंतइं दर हसंति ।
पिसुणइं चिंतासायरि पडंति ।

घत्ता—काणिणहुं दीणहुं देसियहुं दिण्णइं दाणइं लोयहुं ॥

तहिं समइ पराईउ महुसमउ णं विवाहु अवलोयहुं ॥ १३ ॥ 15

14

सोहइ वसंतु जगि पइसरंतु
महुकारि व महु धारहिं सवंतु

अहिणवसाहारहिं महमहंतु ।
हेमंतपहुत्तणु णिड्ववंतु ।

१० A णिव्वत्तिउ. ११ A दाणगुणहु; P धणुगुणहु.

13 १ A पालियवएण. ५ P कुमुयमाल. ३ AP पिहिउ. ४ P धारवएहिं. ५ A समसमंति.
६ AP पराइयउ.

10 a रिच्छिए हिं ऋत्विग्भिः. 11 a पा वा स वेण निन्द्यमद्येन. 12^o घ ण गु ण हु^o निविडदोरस्य.

13 2 b णायवित्ति न्यायवृत्तिः; पालियपण राज्ञा. 3 b सारणाल कमलेन सहिता.
4 b केक्कयसुएण लक्ष्मणेन. 5 b पहिउ प्रेषितः. 6 a विणीयपुरि अयोध्यायाम्. 7 b धारापप हिं
धाराजलैः. 10 a महिलच्छीहरासु लक्ष्मणस्य. 12 a कोणाहयं कोणो वीणादिवादनेन तेन हतानि.
15 महुसमउ वसन्तः.

14 1 b^o साहारहिं आग्नेः. 2 a महुकारिव कल्पमालीव, कलालीव; महुधारहिं सवंतु
मकरन्दो माक्षिकं मद्यं च तस्य प्रवाहैः; b हेमन्त^o शीतकालः.

णियचिंधइं दसदिसु पट्टवंतु
 सारंतु सुवाविहि वारिचीरु
 खरकिरणपर्याउ वि णेसरासु
 पयडंतु असोयहु पत्तरीद्धि
 वउलहु वउ सुच्छोयउं करंतु
 तिलयहु दलतिलयविलासु देंतु
 वल्लहकामुयवम्मइं हणंतु
 माणिणिहिं माणगिरि जज्जरंतु
 उत्तंगमड्डि दियहइं गमंतुं ।
 मंदीरकुसुमरयमहमहंतु

अंकुरंफुरंतु पल्लवचलंतु ।
 दावंतु णीलसेवाँलतीरु ।
 अवरु वि दीहत्तणु वासरासु । 5
 मोक्खयहु दुफग्गुणमोक्खसिद्धि ।
 वणलच्छिहि ओसासुय हरंतु ।
 वेल्लीकामिणियहं रसु जणंतु ।
 कणंयारफुल्लरयधूसरंतु ।
 हिंडिरभसलावल्लिगुमुगुमंतु । 10

रमणाहिलासविब्भम भमंतु ।

घत्ता—जो मोणे चिरु संचरइ वणि सो संपइ महुसेविरु ॥

कलकोइल्लु पुण वि पुण वि लवइ मत्तउ को ण पलाविरु ॥ १४ ॥

15

वज्जइ वीणा पिज्जइ पाणं
 गिज्जइ महुरं सत्तमरालं
 परिमलपउरं पोसियरामं
 गंधकयंवयल्लडयवियारे
 सुप्पइ दवणयविरहयगेहे
 संघइ कामो कुसुमखुरुत्तं

पियमाणुसचित्तं साहीणं ।
 दहपेम्मं पसरइ असरालं ।
 वज्जइ फुल्लियमल्लियदामं ।
 णेवरं कलरवणाच्चियमोरे ।
 पुष्पत्थरणे भमियदुरेहे । 5
 णासइ तावसतवमाहृत्तं ।

14 १ A फुरंत. २ A ललंतु. ३ AP मवालणीरु. ४ AP पयाउ दिणेसरासु. ५A सच्छा-
 यउ. ६ AP ओमंसुय. ७ AP कणियार. ८ AP उत्तंगमड्डि ९ AP add after this: मज्जंत-
 पक्खिकुल्लुमुचुमंतु; K writes it but strikes it off. १० AP read this line as: रमणा-
 हिलासविब्भम भमंतु (A: रमणीहिं विलासविब्भमि भमंतु), मायंत्तं पु. ११ A कोकिलु.

15 १ A गंधकुडंवय. २ AP णेउर. ३ A सुप्पय. ४ P खुरुत्तं.

4 a सारंतु सुवाविहि वारिचीरु सुवापीनां जलमेव चीरु वस्त्रमुत्सारयन्. 5 a णेसरासु सूर्यस्य.
 6 a मोक्खयहु दुफग्गुणमासरिद्धि मोक्षकनामा वृक्षविशेषः. तस्य फाल्गुनमासे पत्राणि क्षरन्ति, तेन
 कारणेन फाल्गुनमासस्तस्य वृक्षस्यातिष्ठः, तेन दुःफाल्गुनः कथ्यते; तस्य फाल्गुनस्य मोक्षं विनाशं कुर्वन्
 वसन्तः. 7 a वउ वपुः शरीरम्; b ओसासुय अवस्थाप एव अश्रुणि. 8 a तिलयहु तिलकवृक्षस्य
 दलेषु पत्रेषु तिलकविलासं ददत्. 11 a उत्तंगमड्डि मड्डि वृक्षविशेषः तस्य दिनैः गमयन्, स वृक्षस्तदा-
 काले न विकसति किं त्वग्रे. 12 महुगं विरु मधुनो मद्यस्य मकरन्दस्य च मेवकः.

15 2 b असरालं अपर्याप्तम्. 3 a पोसियरामं पोषिताः प्रचुरीकृता रामाः स्त्रियो येन.
 4 a गंधेत्यादि श्रीखण्डादिगन्धद्रव्यस्य कदम्बकं समूहः तेन कृताद्रिलयाविकारं पुष्पग्रहं लतामण्डपे;
 b णेवरं नूपुरम्. 5 a सुप्पइ शयनं क्रियते; दवणयं दमनकपुष्पम्. 6 a कुसुमखुरुत्तं कुसुमबाणम्.

अणुणिज्जइ रूभंति पियल्ली
सरजलकेलीसित्तसरीरो
तिम्मइ पणइणिसुहुमकडिल्लो
कुवल्लयमालाताडणललियउ
इच्छांमाणियकंताकंतो

दाविज्जइ कंदप्पसुहेल्ली ।
जंतविमुक्कसकुंकुमणीरो ।
दिट्ठावर्यववृद्धरसिल्लो ।
फुल्लपलासंदुमिहिं पज्जलियउ । 10
एव वियंभइ जाम वसंतो ।

यत्ता— ता दसरहपयपंकय णविवि विहसिवि रामं बुच्चइ ॥
संताणकमागय तुह णयरि वाणारसि किं मुच्चइ ॥ १५ ॥

16

णासिज्जइ किं सो कामिदेसु
गुरुगय णियगय णिव दुविह बुद्धि
दीसंति जाइ सच्छिह्वरि
विहुरे वि हु अणिहालियदिसेण
पहुसन्ति कासंदेडिहिं देव
जाणंवा अवर अलद्धलाह
वोद्धिज्जइ पहिलारउ जि सामु
वीयउ पुणु सीकिज्जंति किच्च

सुणि ताय रायसत्थोवएसु ।
बुद्धीइ पंचविह मंतसिद्धि ।
सा मंतमत्ति साहंति सूरि ।
उच्छाहसात्ति पुणु पोरिसेण ।
एयइ विणु महियत्तु वहइ केव । 5
चत्तारि उवाय धरत्तिणाह ।
पियवयणु जवजणियाहिरामु ।
संमाणिवि वइरिविरत्त भिच्च ।

यत्ता—ते थद्ध लुद्ध अवमाणणिहिं भीरु कंहंति विवक्खहु ॥
णियरायहु केरउ दुच्चरिउ विर्यलियपह परिरक्खहु ॥ १६ ॥ 10

17

उवदाणु वि हरि करि हेमं रयणु
अवयारु देसपुरगामडहणु
जिण्पंति हरिस मय कोह काम

दिज्जइ जइ लच्चमइ को वि सयणु ।
सो दंडु भणंति वगरिमहणु ।
रिउ माण लोह दुक्कम्मधाम ।

५ A णिम्मियं; P तिम्मियं. ६ P वयवमुवुद्धरसिल्लो. ७ A लल्लो. ८ A दुमेहि णं जल्लो;
P दुमेहि णं जल्लियउ. ९ A इच्छियं; P इच्छए.

16 १ A कोसु दंडेहि. २ A जाणंवा; P जाणंव. ३ AP धरत्तिणाह. ४ A वियडियं.

17 १ AP हेसु.

9 a ति म्मइ आर्दीक्रियते; सुहुमकडिल्लो मूहं कटीवस्त्रम्; b वृद्धं धृतो वर्धितः

16 1 b रायसत्थोवएसु नीतिशास्त्रोपदेशः. 2 a गुरुगय गुरुगता आहार्यो. 3 a सच्छिह्व
वेरि सच्छिद्रो वैरी. 4 a विहुरेवि कष्टेऽपि, संकटेऽपि; अणिहालियदिसेण क्रिकर्तव्यतामूढत्वरहितेन.
8 a सीक्किज्जंति स्वीक्रियन्ते; किच्च कृत्या भेद्याः. b वइरिविरत्त शत्रुविरक्ताः. 10 परिरक्खहु
माहात्म्यरक्षणस्य.

17 2 a अवयारु अपकारः. 3 b रिउ अभ्यन्तरशत्रवः.

जउ वक्खाणिउ इंदियजपण
सावहि गिरवहि इच्छंति के वि
विग्गहु विरइज्जइ दोसदुट्टु
आसणु गुरु कहइ असक्कालि
जाणु वि सलाहु परिवारपोसि
जा किर विग्गहसंधाणवित्ति
जहिं ण वहइ णियकरहत्थियारु
णरवइ अमच्चु जणठाणु दंड
सत्त वि पयईउ हवंति जेण

घत्ता—तं णिसुणिवि जणसंतावहर ताएं चावविट्टसिय ॥

णं जलहर बे वि धवल कसण सुय वाणारसि पेसिय ॥ १७ ॥

सांधि वि मित्तत्तणसंगएण ।
पट्टणइं वत्थु वाहणइं लेवि । 5
दोसेण होइ बंधु वि अणिट्टु ।
अवरोहि विउलि रणंतरालि ।
किज्जइ वज्जियदुंदुहिणिघोसि ।
तं दोहीअरणु ण का वि भंति ।
असरणि रिउसेव वि किं ण चारु । 10
धणु दुग्गुं मित्तु संगामचंड ।
उज्जउं णउ मुच्चइ ताय तेण ।

18

णियतायपसायपसण्णभाव
देहच्छविदूसियरवियरोह
मणिमउडसुपट्टुलिणियंग
सेविज्जमाण णरखेयेरेहिं
जोइज्जमाण जणवयजणेहिं
अलिकसणपीयणिषसणणित्त
दियहेहिं बंधु ते जंत जंत
पहचोइय गय सुहजणणपत्त
धयमालातोरणमंगलेहिं
णाणाणायरियहिं दीसमाण

घत्ता—जणु बोलइ दसरहजेट्टसुउ इहु सँसहोयरु आवइ ॥

कंचीकलाव गुण्पंतुं पहि पुरणारीयणु धावइ ॥ १८ ॥

सविणय पर्णमंत विमुक्काव ।
जुवरायत्तणसिरिलइसोह ।
णं सुरमहिहर उत्तंगंसिग ।
विज्जिज्जमाण चलचामरेहिं ।
पेल्लिज्जमाण कामिणियणेहिं । 5
सुंदर सुबलाकेक्कयहिं पुत्त ।
रमणीयपपसहिं थंत थंत ।
वाणीरसि बिण्णि वि वीरं पत्त ।
देहिदोवहिं सियकलसुण्णलेहिं ।
पइंसंति णयरि णं कामबाण ॥ 10

२ A दोहीकरणु; P दोहीअरणु. ३ A दुग्ग मित्त. ४ A जलहर धवल बे वि कसण.

18 १ A पणवंत; P णयवंत; K records a p; णयवंत. २ A °भूसिय°. ३ P सुपहा°. ४ AP उत्तुंग°. ५ P रवणीय°. ६ P वाराणसि. ७ P धीर. ८ A दहिदुवहिं. ९ A पयसंति. १० A एहु सहोयरु. ११ A गुण्पति पहे. १२ AP पुरे णारी°.

4 A जउ जयः. 7 a आसणु दुर्गाश्रयणम्. 8 a जा णु गमनम्; सलाहु श्लाघ्यः; b वज्जियदुंदुहिणिघोसि प्रच्छन्नतया शत्रुपरि गम्यते. 9 a विग्गहसंधाणवित्ति स्वल्पो विग्रहः स्वल्पश्च संधिरिति मिश्रत्वं द्वैधीकरणं कथ्यते; संधानपूर्वको विग्रहो द्वैधीकरणम्. 10 b असरणि रिउसेव यदा शरणं न दृश्यते तदारिपोरपि सेवा क्रियते. 11 a जणठाणु राष्ट्रदेशः; b धणु कोशः. 12 a पयईउ प्रकृतयः; b उज्जउं उद्यमः.

18 2 a °दूसियरवियरोह°तिरस्कृतरविकिरणसमूहौ. 3 b °सिग°शिखरौ. 5 a जोइज्जमाण विलोक्यमानौ. 6 a अलीत्यादि कृष्णपीतवस्त्रयुक्तौ. 8 a °पत्त°वाहनौ. 9 b °दोवहिं°दूर्वाभिः. 10 a णायरियहिं नागरिकैः.

19

क वि मेल्लइ कौतलकुलदामु
 काइ वि थणजुयलउं विहल्लु गणिउं
 क वि दावइ ककणु का वि हारु
 पयलंतउं क वि परिहाणु धरइ
 क वि सिंचइ पेम्मजलेण भूमि
 जइ इच्छइ कह व धरित्तिसामि
 दारें भत्तारु ण जाहुं देइ
 मणि का वि विसूरइ चंदवयण
 णं तो जोयमि उब्भिवि करग्ग
 कर मउलिवि सण्णइ का वि पोमु
 क वि णेउरु पहि णिवडिउ ण वेइ
 जोयंति रायसुयजुयलतोड

णीससइ का वि जोयंति रामु ।
 हां एउ ण लक्खणणहहिं वणिउं ।
 क वि ऊरैयलु क वि मुहबिंबयारु ।
 क वि कट्टदिट्ठि जोयंति मरइ ।
 क वि वित्तइ एवहिं घरु ण जामि । 5
 तो जियमि माइ सच्चउं भणामि ।
 पायारु किं पि अंतरु करेइ ।
 तर्लहत्थि ण जाया मज्जु णयण ।
 गच्छंतु सुहय सुहसारमग्ग ।
 आवेसमि जावहि सुवइ पोमु । 10
 क वि भिक्खाचारिहि भिक्ख देइ ।
 अण्णेत्तहिं घल्लइ कूरपिंडु ।

घत्ता—क वि विहसिवि बोल्लइ चंदमुहि सीयइ काइ वउत्थउं ॥
 जेणेहउं लद्धउं पययणु दरिसियकामावत्थउं ॥ १९ ॥

20

अण्णेकइ वुत्तउं जाहि माइ
 वयणें बहुणेहपवत्तणेण
 जइ एहु ण इच्छइ विउलरमणि
 इय पुररमणीयणजूरणेण
 दंहिअक्खयबहुसेसाउ लेवि
 पियवयणें किं वि किं वि पाहुडेण
 किं वि सुहिसंबंधपयासणेण
 किं वि णेहें किं वि भुयबल्लिण घित्त

लग्गेज्जसु णाहहु तणइ पाइ ।
 हरि आणहि महु दूयत्तणेण ।
 तो मारइ मारु मरालगमणि ।
 सज्जणहं मणोरइपूरणेण ।
 रायालइ भाइ पइट्टु वे वि । 5
 किं वि दुव्वयणेण रणुब्भडेण ।
 किं वि वसिकय वित्तविहसणेण ।
 वणवाल चंड मंडलिय जित्त ।

19 १ A मुणुउं. २ A हो. ३ AP उरयल. ४ A पयलंतु का वि. ५ A मणि स विसूरइ क वि चंद°; P मणि सुविसूरइ क वि चंद°. ६ AP हलि हत्थि ण. ७ A गच्छंत; P गच्छंति. ८ AP अण्णहिं सा घल्लइ. ९ AP पययणु.

20 १ AP सिद्धत्यक्खयसेसाउ. २ A बलवाल.

19 4 b कट्टदिट्ठि अस्पन्दलोचना. 7 a दारें इत्यादि द्वारे कान्तः स्थितः रामावलोकनार्थं गन्तुं न ददाति. 8 b तलहत्थि हस्ततले. 9 a उब्भिवि करामूर्ध्वं कृत्वा; b सुहसारमग्ग शुभस्य सुखस्य वा उत्कृष्टमार्गो. 10 b जावहि सुवइ पोमु यस्यां वेलायां पद्मं स्वपिति. 11 a णवेइ न जानाति. 13 वउत्थउं व्रतमाचरितम्.

20 1 a माइ हे मातः, हे दूति. 2 b हरि लक्ष्मणः. 3 b मारु कामः. 8 b वणवाल मिष्ठादिकाः.

घत्ता—मयरहरहु मलु दूसणु जिणहु अमयहु विसु किं सीसइ ॥
गुणवंतहं दसरहतणुरुहहं दुज्जणु को वि ण दीसइ ॥ २० ॥ 10

21

अच्छंति बे वि ते तेत्थु जाव	एसहि लंकहि दहवयणु ताव ।	
वरकणयवीढसंणिहियपाउ	सीहासणग्गि रायाहिराउ ।	
अत्थाणि णिसण्णउ सामदेहु	अवइण्णु महिहि णं काममेहु ।	
करवालियाइं चमरइं पंडंति	कप्पूरपउरधूलिउ घुलंति ।	
पाढय पढंति तहिं णड णडंति	वाइत्तताल तेत्थु जि घंडंति ।	5
गिज्जंति गेय सरठाणलग्ग	णच्चंति असेस वि देसिमग्ग ।	
पडिहारहिं अणिबद्धउं चवंतु	णियमिज्जइ लोउ वियारवंतु ।	
विण्णप्पइ भण्णंइ जीय देव	अमर वि करंति कमकमलसेव ।	

घत्ता—दसकंधरु दुद्धरु धरियंधरु तेयविहूसियदिसवहु ॥
जहिं अच्छइ भरहधरत्तिवइ पुष्पयंतसंकावहु ॥ २१ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे सीयाविवाहकलाणं णाम
सत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७० ॥

21 १ A P णवकणय^०. २ AP चलंति. ३ A घुलंति. ४ A देसमग्ग. ५ P जणवइ.
६ A धरियकरु. ७ AP ^०धरित्तिवइ.

9 मयरहरहु समुद्रस्य.

21 ३ a सामदेहु कृष्णवर्णः. 6 b देसिमग्ग देशीभाषागीतानुसारेण. 7 a चवंतु वदन्
प्रलपन्. 9 ^०दि सबहु दिशां मार्गः. 10 पुष्पयंतसंकावहु चन्द्रसूर्यभयजनकः.

णरसिरकरखंडणु कहिं तं भंडणु पम भणंतु जि संबरइ ॥
तहिं विष्पियगारउ आंयउ णारउ अत्थाणंतरि पइसरइ ॥ धुवकं ॥ ६ ॥

1

उद्धाबंद्धपिंगजडमंडलु
तारतुसारहारपंडुरतणु
विमलफलिहमणिवलयालंकिउ
दीसइ पंतउ रायहु केरुंउं
कडियलणिहियहेममयमेहलु
सोत्तरीयउववीर्यंउरुज्जलु
कयदेवंगवत्थवेवीणउ
दिह्णुउ रंवणेण पडिवसिइ
पुच्छिउ पडुणा परमणसूलउ
तं णिसुणिवि संगामपियारउ

पोमरायरयणमयकमंडलु ।
णं ससहरु णावइ सारयघणु ।
णं जसुं पुरिसरूधु विहिणा किउं । 5
रणकायरभइभयइं जणेरउं ।
इसणु भसणु सवसणु सकलुसु खलु
हिंडणसीलु समीहियकलयलु ।
जुज्जु अपेच्छमाणु णिरु झीणउ ।
वइसारिउ आसणि गुरुभसिइ । 10
कहहि वत्त को महु पडिकूलउ ।
आहासइ वइगीवहु णारउ ।

घत्ता—सुरगिरिसिरि णिवसइ महिहि ण विलसइ संचइ धणयहु तणउं धणु ॥
णिसि णिइ ण पावइ सयमहु भावइ णावइ तुज्जु जि भीयमणु ॥ १ ॥

2

सिहि णं करइ तुहारउं भाणसु
णेरिउ णेरियंदिस ता रुंभइ
रयणायरु जं गज्जइ तं जहु
वाउ वाइ किर तुह णीसासें
चंदु सूरु किरं तुह घरदीवउ
ससरु सणरु खगु जगु तुह बीहइ

उहु वइवसु वइरिहिं तुहुं वइवसु ।
नाव ण तुज्जु पयाउ वियंभइ ।
तुहुं जि एक्खु तइलोकि महाभहु ।
बज्जइ फणिवइ तुह फणिपासें ।
सीहु वराउ वसउ वणि सावउ । 5
पर पइं जिणिवि एक्खु जसु ईहइ ।

1 १ AP णरकरसिर^०. २ A बोलइ णारउ; P आइउ णारउ. ३ P उद्धावहु पिंगु जडमंबलु.
४ P पंडर^०. ५ A जसरूउ पुरिस विहिणा. ६ A एतहो; P एत्तउ. ७ P केहउ. ८ AP वसणु.
९ A^० उरज्जलु. १० A रामणेण.

2 १ AP णेरियदेसि. २ AP किह.

1 4 b सारयघणु शरन्मेवः. 6 a एंतउ आगच्छन्. 7 b सवसणु युद्धाशक्तियुक्तः.
10 a पडि वसि इ प्रतिपत्त्या स्वागतैन.

2 1 a भाणसु सूपकारत्वम्. b उहु भस्मीभवतु; वइवसु यमः. 5 b सावउ श्रापदः.

दसरहृतणउ मुसलहलपहरणु
परबलपबलसलिलषडवामुहु
लकखणु सुहडलकखविकखेवणु
जणपं कणणारयणु विइणणउं

घत्ता—सा तुज्जु जि जोगी लयललियंगी हिप्पइ मडुई किंकरहं ॥
सुरसरि झसमुद्दहु होइ समुद्दहु णउ जम्मि वि पंकयसरहं ॥२॥

दूरमुक्कपररमणीपरहणु ।
जासु भाइ रणरसवियसियमुहु ।
अण्णु वि जासु पँवरपीणत्थणु ।
ताँसु रूचि थिउ विहिणेउण्णउं । 10

3

विष्फुरियाणणु णं पंचाणणु
धीर विमुक्ककेर करिकरभुय
रामसाम गयसाम सहोयर
हरमि घरिणि गुणमणिसंचयखणि
पभणइ णारयरिसि किं गावें
सरह सीह को वणि संघारइ
चंद सूर को खलइ णहंगणि
केसरिकेसँछटा को छिप्पइ
चवइ राउ विरइयअवराहहं
सिरकमलइ खंडेसमि जइयहुं

घत्ता—तेलोकैभयंकरु वइरिखयंकरु धणुगुणटंकारु जि झुणइ ॥

खेयरउरदारणि महुं सरधोरणि रणि रामहु वम्मइं लुणइ ॥३॥

तं णिसुणिवि पेंडिलवइ दसाणणु ।
खल बलपँबल चवल दसरहसुय ।
मारमि सुहड तुमुलि भूगोयर ।
अहिणवहरिणणयण मयणावणि ।
रावँण विहलें वीरपलावें । 5
काल कयंत बे वि को मारइ ।
हरि बल को णिहणइ समरंगणि ।
जाणइ केण णराहिव हिप्पइं ।
बालहं वाणाँरसिपुरिणाहहं ।
तुहुं वि तेत्थु आवेसहि तइयहुं । 10

4

ता परियाणवि कलहहु कारणु
गउ णारउ णियमणि संतुट्टुउ

अवसें होसइ पत्थु महारणु ।
वीसपाणि मंतणइ पँइट्टुउ ।

३ AP पीणपीवरथणु. ४ AP ताहि. ५ AP मंडइ. ६ P ससमुद्दहु.

3 १ AP रणपबल. २ P रामण. ३ A °केसरसड; P °केसरसड. ४ AP किं. ५ AP विप्पइ. ६ AP वाराणसि°. ७ A तइलोक°.

4 १ A परितुट्टुउ. २ A P वइट्टुउ.

8 b भाइ भ्राता. 9 a °विक्खेवणु हन्ता. 10 b विहिणेउण्णउं विधिनैपुण्यम्. 11 मडुइ हठात्.
12 सुरसरि गङ्गा; झसमुद्दहु समुद्रस्य.

3 2 a विमुक्ककेर अवधीरिता आशा याभ्यां तौ. 3 a रामसाम श्वेतकृष्णवर्णौ द्वौ; गयसाम सामबचनरहितौ; b तुमुलि रौद्रसंग्रामे. 4 b मयणावणि कामभूः. 8 b जाणइ जानकी सीता; हिप्पइ हियते. 11 झुणइ कथयति.

4 2 b वीसपाणि रावणः.

दुदु भणिदु विसिदु णं सिदुउ
तणुलायणवणजलवाहिणि
मारिज्जंति भाइ ते भीसण
तं णिसुणिवि मारीएं वुत्तउं
परवहुरमणु धम्मणिल्लुरणु
परवहुरमणु कित्तिविद्धंसणु
परवहुरमणु पराहवगारउं

घत्ता — परयारु सुविदुलु दुक्खहं पोदुलु दुग्गमु दुज्जसपरियरु ॥ 10
बहुभवसंसारणु सिवगइवारणु पावासवविहिवासघरु ॥ ४ ॥

मंतिउं मंतु सधुद्धिइ दिदुउ ।
हिप्पइ रहुकुलणाहहु गेहिणि ।
भणु मारीयय भणइ बिहीसण । 5
परवहुरमणु णारिंद अजुत्तउं ।
परवहुरमणु सयणसयजूरणु ।
परवहुरमणु विमलकुलदुसणु ।
परवहुरमणु णरयपइसारउं ।

5

दुत्तरमोहमहण्णवि लूढउ
तुहुं घंइं बहुसत्थत्थवियाणउ
जो पडिकूलु होइ सो हम्मइ
भणइ दसाणणु जणसांमण्णहं
थीयणसारी णयणपियारी
सेलसिहरसंचालणचंडहिं
तो सकयत्थु महारउं जीवित्त
जइ तहि तं मुहकमलु ण चुंभमि
कम्मणिबंधणेण णिक्कज्जे

घत्ता—हरिणाच्छिहि वत्तइ सुइसुहमेत्तइ उप्पाइउ मणि कलमलउ ॥ 10
रइकायरु कंपइ पुणु पुणु जंपइ दहमुहु विरहविसंदुलउ ॥ ५ ॥

परवहुरमणु करइ जो मूढउ ।
अण्णु वि सयलहि पुहइहि राणउ ।
परवहु पुणु सिविणि वि ण रम्मइ ।
जणएं जाणिवि दिण्णी अण्णहं । 5
चंपयगोरी हिययवियारी ।
सां अवरुंडमि जइ भुयदंडहिं ।
तो मइं णरभवफलु संपाविउं ।
तो अण्णाणउं काइ विडंबमि ।
किं महुं महियलेण किं रज्जे ।

6

बुज्झिवि अंतरंगु दहगीवहु
कामबाणसंताणहिं भग्गउ

वाय विणिग्गय मुहि मारीयहु ।
जइ तुहुं महिवइ सीयहि लग्गउ ।

३ AP वसिदुउ. ४ AP मंतिए.

5 १ AP सइं. २ A °सावण्णहं. ३ AP हिययपियारी. ४ AP omit सा; A अवरुंडिवि
५ AP संपाविउ. ६ A णियकज्जे. ७ A सुयसुह°.

3 a बि सि दु ण सि द्दउ विद्वान्मन्त्री न पृष्टः; b मंतिउ मंतु मन्त्रः स्वबुद्ध्या मन्त्रितः. 10 परयारु परकलत्रम्.

5 2 a घंइ पादपूरणे. 4 b जणएं जनकेन राज्ञा. 5 a थीयणसारी स्त्रीजनमध्ये उत्कृष्टा. 9 a णिक्कज्जे निःकार्येण निष्प्रयोजनेन. 10 वत्तइ वार्तया; सुइसुहमेत्तइ कणीसुखमात्रया; कलमलउ अरतिः. 11 °विसंदुलउ शिथिलमात्रः.

तो वि मयणु मगं माणेवउ
तं जाणिज्जइ विविहपयारं
अंसयदेसिजाइपरइत्थहु
कामिणीउ जो महियलि जाणइ
भइ मंद लय हंसि चउत्थी
भइ भणमि सव्वंगसुरूविणिं
लय दीहरतणु लय जिह पत्तल
रिसिविज्जाहरजक्खपिसायहं
तावसि उज्जुय भुंभुलभोली
जक्खणि धणकणलोहपरव्वस

घत्ता—सारसि मिगि रिट्ठिणि ससि धयंरट्ठिणि महिसि खरी मयरि वि जुवइ ॥
ससं दीसतं^{१०} रइसइकंतं वसुविह कहिय णिसुणि णिवइ ॥ ६ ॥

रत्तविरत्तचित्तु जाणेवउं ।
विडगुरुभासिपण सुयसारं ।
इंगियसत्तभावरसंगुत्थहु । 5
सो लंकाहिव रइसुहुं माणइ ।
चउविह महिलाजाइ पसत्थी ।
मंदं थूलगुरुपेढालत्थणिं ।
खुज्जी णारि मरालि समासल ।
अंस होंति रमणीसंघायहं । 10
खेयरि मइराकुसुमरसाली ।
अडण पिसल्ली भणिय सतामस ।

7

वरुत्थलु थणकलसहिं पेळइ
मिगि^१ णियबंधवदाणं मण्णइ
पुत्तहंडुक्खिणि वायसरव
ससि णिम्मिलियच्छि दुहभायण
धयरट्ठिणि सररुहसरकीलिणि
खरि खेलंति दसइ कहकहसरु
मयरि मासगासिणि दढगाहिणि

सारसि पिययमसंगु ण मेलइ ।
तज्जिय तसइ गेउ आयण्णइ ।
रिट्ठिणि ठाणु मुयइ रणभइरव ।
णिग्घिण परहरगासालोयण ।
महिसि कराल रोसरसवालिणि । 5
सहइ पायपहरु वि घल्लिउ करु ।
कयसाहस कुकम्मणिवाहिणि ।

6 १ AP माणिव्वउ. २ P जाणेव्वउ. ३ A °जाइपयओ; P °जाइपयइत्थउ. ४ A °रस-
गुइपउ. ५ P adds after this: णरवर मंदा णिसुणि णियंविणि. ६ P जाणि थूलगुरुपोढविलासिणि.
७ AP add after this: णउ सेविज्जइ सा वि यलक्खणि. ८ AP भुंभुरभोली; T भुंभुर°. ९ AP
धयरिट्ठिणि. १० AP दीसतं.

7 १ A मृगि णिवबंधव°.

6 4 b विडगुरु° कामाचार्यः; सुयसारं कामशास्त्रेण. 5 a अंसयइत्यादि हंसकादिभिरुप-
लक्षितस्य; परइत्थहु परस्त्रीसमूहस्य संबन्धि रत्तविरत्तचित्तु इति संबन्धः; b इंगियेत्यादि इङ्गितसत्त्व-
भावरसैरनुविद्धस्य. 7 a भद्देत्यादि भद्रा मन्दा लता हंसीति चतुर्विधा स्त्रीजातिः. 8 b °पेढालत्थणि
विस्तीर्णस्तनी. 9 b मरालि हंसी; समासल मांसला. 11 a भुंभुलभोली अव्युत्पन्ना; b मइराकुसुम-
रसाली मद्ये पुष्पे चासक्ता. 12 b अडण पर्यटनशीला. 15 रइसइकंतं रतिरेव सती तस्याः कान्तेन
भर्त्रा कामेनेत्यर्थः; वसुविह अष्टविधा.

7 2 a मण्णइ मानयति; b तज्जिय भस्तिता. 3 a पुत्तहंड° पुत्रभाण्डम्. 5 b रोसरसवालिणि
रोषरसपालिनी निर्वाहकारिणी.

सुंणि देसीउ णिहिलदेसाहिव
ससहावें लंपडि खरभासिणि

इह मालविणि होइ इच्छियसिव ।
वाणारसिसंभव वणवासिणि ।

घत्ता—अंबुइ जा कामिणि मंथरगामिणि सा पहिलउं जि दव्बु हरइ ॥ 10
दिणमेर णिबंधिवि रइरसु संधिवि पच्छइ सरकीलणु करइ ॥ ७ ॥

8

सिंधुवि पुणु पियंगेयहु रप्पइ
मायाबहुलु भाउ कोसलियहि
दंघिडि दंतणहछेयहु सक्कइ
ललियालावें लाडि लइजइ
कालिंगी उवयारु पँउंजइ
सोरट्टिय आउंवणतुट्टी
अवरु महारट्टी जइ सीसइ
कोंकणियहिं जइ काइं वि दिजइ
दरिसियहरिसियवम्महलीलउ
करइ किं पि चंगउं ववसायउं
हिमवंती वि मंतबीयक्खरु
मज्झैपसणारीउ कलालउ

प्राणु वि दविणु वि दइयइ अप्पइ ।
लम्भइ रइगुणेणं सिघलियहि ।
अंध्रिणिं णिम्भररयहु चमक्कइ ।
उड्डि रमणविण्णणं भिजइ ।
रक्खसु सुंक्कउ रुक्खु वि रंजइ । 5
गुज्जरि णिच्चसयज्जहु लट्टी ।
ता तहि धुत्तत्तणु पर दीसइ ।
तो तं चितवंति सा झिंजइ ।
पाडलिउत्तियाउ करणालउ ।
पारियत्तपणइणि पुरिसाइउं । 10
जाणइ जेणं पडइ पायहिं वरु ।
होंति राय सयदलसोमालउ ।

घत्ता—देसंसयजुत्तहं जाइहिं सत्तहं सयलहं पयइणिवासु किह ॥
गिरिसरिहैरैठाणहं अमरविमाणहं मयरहरहं तेलोक्कु जिह ॥८॥

२ AP मुणि. ३ A अक्कए. ४ AP सुरयकील.

8 १ AP संघवि. २ A पियणेहहु; P पियंगेहहु. ३ AP पाणु. ४ P धणेण. ५ AP दिविडि.
६ AP अंधणि. ७ AP पवजइ. ८ AP सुक्खउ. ९ P रुक्ख. १० A भिजइ. ११ AP जेहिं.
१२ AP मज्झदेस°. १३ AP °महि°.

3 a देसीउ देशोत्पन्नाः; b इच्छियसिव वाञ्छितसौख्या. 9 b वणवासिणि वनक्रीडा. 10 अंबुइ
अर्बुदाचले. 11 दिणमेर दिनमर्यादा दिनसंख्या; सरकीलणु स्मरक्रीडा.

8 1 a पियगेयहु प्रियगीतश्रवणात्; रप्पइ रज्यते. 3 a दविडि द्राविडा; b चमक्कइ
बभेति. 4 b उड्डि उद्देशजा. 5 a उवयारु उपचारः. 6 a आउंवणतुट्टी चुम्बनतुष्टा; b सयज्जहु
उद्धी स्वकार्ये दक्षा. 8 a काइंवि किमपि तुच्छमपि. 9 b करणालउ ऊर्वोरुपरि ऊरुनिवेशनं करणं
क्कलीलाः. 10 b पुरिसाइउ पुरुषागतं रतं विपरीतं वा. 12 a मज्झैपसणारीउ ढेलीदेशोत्पन्नाः;
कलालउ कलायुक्ताः. 13 सत्तहं अष्टभेदसत्त्वानाम्; पयइणिवासु प्रकृतिरेव निवासः स्थानम्.
14 मयरहरहं समुद्राणाम्.

9

सा वि तिविह णरजम्मि णिबंज्झइ
 पित्तपयइ आरूसइ खणि खणि
 गोरी बुद्धिवंत णहपिगल
 उण्णयसिहिणवरंगु मुणेज्जसु
 सीयलु गंधु सेउं पंगुरणउं
 सिंभपयइ सामल वण्णुज्जल
 दिट्ठइ दोसि णिरुत्तउ चुक्कइ
 सच्चं विणएं दाणें विण्णइ
 रइजल पौंभल मउ सोणीयलु
 आयंबिरणह सोहियकमकर
 कसण फरुस मरुपयइ विलासिणि
 घत्ता—करकढिणपहारहिं सहगहीरहिं पयडउं पडु विहु जइ रमइ ॥
 परिभमंणपरिक्खहि कालकडक्खहि तां कामग्गि ताहि समइ ॥ ९ ॥

पित्तसिंभमारुयहिं णिरुज्झइ ।
 संतोसेवी भुत्ते दिणि दिणि ।
 मउएं किज्जइ सा रइभिंभैल ।
 सीयलु तहि आलिंणु देज्जसु ।
 सीयलु ताहि जि सुरयारुहणउं । 5
 अहिणवकयलीकंदलकोमल ।
 पुणु जम्मि वि ण संमुहु दुक्कइ ।
 इयरह पुणु तहि अंगु ण छिप्पइ ।
 णिप्पडियंध चारु तणुपरिमलु ।
 सुंदरि साहारणसुरयायर । 10
 बहु आहारु लेइ बहुभासिणि ।

10

जहिं पयइइ पयइइ फुडु भिण्णी
 जिह पर्यइउ तिह बिहिं बिहिं जायइं
 जाँइउ देसिउ तिह मइं बुद्धउ
 पहिलारउ सँवत्तिसहवासँ
 आसंकइ चामीयरलोहँ
 वहइ असुद्धभाउ णारीयणु
 आलोयंतहं संमुहुं जोयइ

सा तौतडिय दोहिं संकिण्णी ।
 अंसयसत्तइं मइं विण्णायइं ।
 भाउ दुविहु अविमुद्धु विसुद्धउ ।
 वयपरिणामें दीहँपवासँ ।
 अंबरेहिं वि कारणसंदोहँ । 5
 तेण वि वेयारिज्जइ जईयणु ।
 मुहुं वियसौवइ करयलु ढोवइ ।

9 १ A P विबज्झइ. २ AP रइवैभल. ३ AP उण्हय°. ४ A सीउ. ५ AP सीयलु सीयलु सुरयाहरणउं. ६ APT णिप्पडियम्म; K णिप्पडियंध but records a p; णिप्पडियम्म इति पाठे संस्काररहितः. ७ AP °भवण°. ८ A तो.

10 १ A पइओ. २ P जणुउ. ३ AP सवित्ति°. ४ AP °पयासँ. ५ AP अवरणेण. ६ AP जडमणु. ७ AP विहसावइ.

9 3 b मउ एं मृदुत्वेन; रइ भि भल रतिविह्वला. 4 b सी यलु मन्दं मन्दम्. 5 b सेउ श्वेतम्. 6 b सिंभपयइ श्लेषमप्रकृतिः; b °कंदल° आर्द्राङ्कुरः. 8 b इयरह अन्यथा. 9 a पौंभल प्रचुरम्; b णिप्पडियंध दुर्गन्धरहिता. 10 b साहारणसुरयायर साधारणे मन्दनिष्ठस्वरहितसुरतादरा. 11 a मरुपयइ वातप्रकृतिः. 13 परि भमण परिक्खहि परिभ्रमणे आलिङ्गनचुम्बनकरणविशेषादिलक्षणे परीक्षा चतुरत्वं यस्याः; कालकडक्खहि कालेन तुल्यः कटाक्षो यस्याः.

10 1 b तौतडिय मिश्रा. 4 b वयपरिणामें यौवनवयसा. 6 b वेयारिज्जइ विकार्थते.

सो वि देव विउसहिं पालिज्जइ बुद्धिइ संकिण्णत्तणु णिज्जइ ।
 मंडु तिक्खु तिक्खयरु पउत्तउ सुद्धभाउ तिहिं भेयहिं जुत्तउ ।
 घत्ता—भल्लारउं णिवसणु रयणविहूसणु जोव्वणु णारिहिं हरइ मणु ॥ 10
 तं पुणु पियदूएं णियडीहूएं मयणहुयासें डंइइ तणु ॥ १० ॥

11

ता तहिं दूवि का वि पेसिज्जइ ताइ भावसंभवु जाणिज्जइ ।
 इंगिणहिं देडुब्भवलिगहिं कयणिण्णेहसणेहपसंगहिं ।
 भुक्खइ भग्गी अण्णहु लग्गी धणलंपडि कयखलसंसग्गी ।
 गमणकंख णिहालस मत्ती सुहिसोयाउर परगयचित्ती ।
 रुद्धी णिदुर कट्टपलाविणि एही णउ सेविज्जइ भाविणि । 5
 सीयं विसोसिं परकुलउत्ती एक्क वि एत्थु जुत्ति णउ जुत्ती ।
 तो वि जाउ चंदणहिं सुदेहिहिं मणअवहरणु करउ वइदेहिहिं ।
 ता पेसिय सां राएं तेत्तहिं तं वाणौरसिपुरवरु जेत्तहिं ।
 गय गयणंगणेण सा खेयरि पंडुरभवणावलि जोइवि पुरि ।
 जोर्येइ चित्तकूडु णंदणवणु णं महिमहिलहिं केरउं जोव्वणु । 10
 घत्ता—महुधारहिं सित्तउं णावइ मत्तउं मलयाणिलसंचालिउं ।
 णवतरुवरसाहहिं पसरियबाहहिं णं णञ्चतु णिहालिउं ॥ ११ ॥

12

रुक्खमूलरोहियंधरायलं कुसुमधूलिधूसरियणहयलं ।
 कीलमाणसाहामयालयं गयणलग्गतालीतमालयं ।
 बिल्लचिल्लवेइल्लसइलं हरिणदंतदूरमलियकंदलं ।
 सच्छविच्छुलुच्छलियजलकणं अयरुदेवदारुयहिं घणघणं ।
 विडविणिहसणुग्गामियहुयवहं सुरहिधूमवासियदिसामुहं । 5

८ A सा वि. ९ P तै पुणु. १० AP दहइ.

11 १ सीलविसेसिं. २ AP राएं सा. ३ AP वाराणसि°. ४ AP जोइय.

12 १ A सोहिय°. २ AP वड्डमाणहिंतालतालयं. ३ P °दरदरिय°. ४ AP °धूव°.

S a सो वि अशुद्धभावोऽपि; b सं किण्णत्तणु सर्वथा अशुद्धस्वरूपतां परित्याज्य शुद्धाशुद्धरूपत्वं नीयते.
 10 भल्लारउं णिवसणु उत्तमं वस्त्रम्.

11 1 b सु हि सो या उर सुहृच्छोकदुःखार्ता. 7 a चंदणहिं शूर्पणखा, चन्द्रनखा द्वितीयं नाम; सुदे हि हि सुष्ठुशरीरायाः.

12 1 a °रो हिय° रुद्धम्. 2 a °सा हा मय° मर्कटाः. 3 a °चिल्ल° चिञ्जा. 4 b अयरु° अगुरुः कृष्णचन्दनः. 5 a णिहसणु° निर्घर्षणम्.

परिघुलंतकंकेल्लिपल्लवं
बालवेल्लिविलपहिं णवणवं
अलयवलयविलुलंतअलिउलं
केयईरउक्खुसियमाणवं

पवणचलियमहिलुलियमहुलवं ।
कीरकुररकारंडकंलरवं ।
विविहकीलणावासपविउलं ।
रमियखयरजक्खिवदाणवं ।

घत्ता—तहिं पयडियभावइ बहुरसदावइ सिसुमाणिमणमोहणइ ॥ 10

जणइच्छियकोमलि वरवण्णुज्जलि णाइ कवि सुकइहि तणइ ॥ १२ ॥

13

उग्गयचंदणि उरगयचंदणं
लोहियकंदइ सुहितरुकंदौ
वड्डियमोयइ कयरइमोयो
लगपियाले णिच्चपियांला
खगरावाले बहुरावाला
महुयरगीए मणहरगीयइ
बहुपुहईरुहि पुहइसमेया
पइरिक्कामइ कामियकामा

उण्णयवंदणि कयजिणवंदणं ।
गुरुमाइंदइ जियमाइंदौ ।
फुल्लासोयइ वियलियसोर्या ।
कीलासेले धीर व सेला ।
सरकमलाले गुरुकमलाला । 5
छौहियसीयइ ते सहं सीयइ ।
सिवए सिवढोइयरिउमेया ।
लक्खणरामइ लक्खणरामा ।

५ A °कारंडकुलरवं. ६ A °रउ उक्खुसिय°.

13 १ AP °चंदणे. २ AP °वंदणे. ३ AP °कंदए. ४ AP °मायंदए. ५ AP °मोयए.
६ P °सोया. ७ P °पियाले. ८ P °वीर व सेला; T वीर बसेला वशा इला ययोस्तौ वशेलौ. ९ AP
°गीयइ. १० A °गीया. ११ AP छाही°; T छाहिय°. १२ A सीया. १३ AP पयरिक्कीमए.

6 b °महुलवं °वसन्तलता यत्र. 8 a अलयवलय° अलकवलयवत्; °अलिउलं भ्रमरकुलम्.
9 a °उक्खुसिय° लिप्ताः.

13 1 a उग्गयचंदणि उद्वतचन्दनवृक्षवने; उरगयचंदण हृदयलम्बचन्दनौ रामलक्ष्मणौ;
b उण्णयवंदणि उन्नतरक्कचन्दने. 2 a लोहियकंदइ रक्तकन्दे वने; सुहितरुकंदा सुहृदवृक्षेषु मेघौ;
b गुरुमाइंदइ प्रचुराम्नवृक्षे वने; जियमाइंदौ लक्ष्मीः किल चन्द्रे कमले च वसति; लक्ष्मीसहितचन्द्रसदृशा
राजानः ते जिता याभ्यां तौ जितलक्ष्मीचन्द्रौ. 3 a वड्डियमोयइ मोचा कदलीवनम्; तद्वर्धितं यस्मिन्;
कयरइमोया कृतरतिहर्षो; b वियलियसोया विगलितशोकौ. 4 a लगपियाले गगनलम्बचारवृक्षे;
णिच्चपियाला निर्यं प्रियायुक्तौ भार्यायुक्तौ; b कीलासेले क्रीडागिरौ; धीरवसेला पर्वताविव धीरौ;
अथवा वसेला वशा इला पृथ्वी ययोस्तौ. 5 a खगरावाले पक्षिशब्दवति; बहुरावाला बहु प्रचुरं रा
द्रव्यं तस्य पालकौ; b सरकमलाले सरःकमलयुक्ते; गुरुकमलाला गुरुकमयोर्लालकौ वाञ्छकौ. 6 a महु-
यरगीए भ्रमरस्य गीतं शब्दो यत्र; मणहरगीयइ मनोहरप्रीवया सीतया सह प्रविष्टाविति संबन्धः;
b छाहियसीयइ छाहिका छाया शीतला यत्र वने. 7 a बहुपुहईरुहि प्रचुरमहीरुहे वने; पुहइसमेया
लक्ष्मणस्य पृथ्वी नाम महादेवी तथा सहितौ; b सिवए शिवदे सौख्यदे वने; सिवढोइयरिउमेया
शिवानां शृगालीनां दत्तरिपुमेदसौ. 8 a पइरिक्कामइ पइरिक्कं प्रचुरं अमरं जलं यस्मिन्वने; कामिय-
कामा अनुभूतवाञ्छितार्थो; b लक्खणरामइ लक्ष्मणाः सारसास्तौ रामे रमणांयौ.

पंढणवणि लुडु लुडु जि पइटा
सहुं अंतेउरेहिं कीलारय

घत्ता—कयकिसलयकण्णउ कुसुमरवण्णउ पं देविउ वणेंवासिणिउ ॥

दुमसाहंदोलणि उववणकीलणि लग्गउ रायविलासिणिउ ॥ १३ ॥

लंकेसरवरबहिणिइ दिटा ।
गहियणवल्लुकुह्मंजरिय ।

10

14

काइ वि जणणयणहं रुषंतिइ
सोहइ कमलु दुवासिहिं धरियउं
णाइं कंडु रइणाहहु केरउ
काइ वि समउं वि हंसु चमकइ
काहि वि छप्पउ लग्गउ करयलि
काहि वि णियडउं पं ओलग्गइ
काइ वि उप्पलु सवणि णिहित्तउं
कुवलयाकिंकिणिमालाजुत्तउं
काइ वि जाइवि मंडुइ धरियउ
संझारपं पं मयलंछणु
जाइहुलु अण्णइ तहु ढोइउं
जाइवंत किं जाइ भणिज्जइ
तो वि भडारी सीसें वज्जइ

घत्ता—सव्वंगहिं सुरहिउ वरमरुवउ पिउ रुपुहंटेपिणु धुत्तंडिय ॥

मोग्गरउ मुएप्पिणु अंगु धुणेप्पिणु तारुप्परि महुरियरि चडिय ॥१४॥ 15

मोरें सहुं सहासु णषंतिइ ।
णालंतालिपिंछविच्छुरियउं ।
दावइं सुरणरहिययवियारउ ।
गइलीलाविलासि सो चुक्कइ ।
जहु अप्पउं मण्णइ थिउ सयदलि । 5
एणउ दीहकडक्खिउं मग्गइ ।
कुम्माणउं पं णयणिहिं जित्तउं ।
काइ वि बद्धु वेल्लिकडिसुत्तउं ।
कुसुमरण रामु पिंजरियउ ।
तेण य सोहइ पं सारयघणु । 10
अण्णइ सरसु वयणु संजोइउं ।
जा महुरयरसएहिं माणिज्जइ ।
अप्पकज्जि जणु सयलु वि मुन्हाइ ।

10

15

१४ A उववण°.

14 १ AP दुवासहिं. २ P दावइ णं सुर°. ३ AP समउं हंसु चमकइ. ४ को माणउ तं गयणहिं. ५ P मंथइ; K मत्थइ but corrects it to मंडुइ. ६ AP तेण जि. ७ A धुत्तलिया. ८ AP जासुप्परि.

) b लंकेसरवरबहिणिइ शूर्पगखया. 10 b °रय रती. 11 कयकिसलयकण्णउ कर्णे कृतकर्णपूराः; कुसुमरवण्णउ पुष्पैर्मनोहराः.

14 2 a दुवासिहिं द्वयोः पार्श्वयोः; b णालंतालिपिंछविच्छुरियउं नालावसाने ये भ्रमरास्त एव पिच्छानि तैर्विस्फुरितम्. 3 a कंडु काण्डो बाणः. 4 a चमकइ गच्छति. 5 b जहु मूर्खो भ्रान्तः. 6 b एणउ मृगः. 7 b कुम्माणउं स्नानम्. 8 a कुवलयाकिंकिणि° कुवलयान्येव किङ्किण्यः. 10 a मयलंछणु चन्द्रः. 11 a जाइहु लु जातीपुष्पम्. 12 a जाइवंत कुलीना विशिष्टपुष्पजातिश्च; ताइ जातिपुष्पम्. 13 b अप्पकज्जि आत्मनः कार्यं प्रयोजनं यत्र वस्तुनि. 14 सव्वंगहिं डालशाखा-देभिः; मरुवउ मरुवकः; धुत्तंडिय धूर्ता भ्रमरी. 15 मोग्गरउ मोग्गरपुष्पम्; तारुप्परि तस्व रक्षकस्योपरि.

15

का वि कुंदकुसुमइं णियदंतहिं
 बउंलु परिक्खइ णियतणुगंधं
 क वि फुल्लिउ साहारु णिरिक्खइ
 जंपमाणु णवकलियइ मत्तउ
 धरिउ ताइ रूसिवि मणदूसउ
 का वि उच्छुकरयल सुहकारिणि
 का वि फुल्लमालउ संचोरइ
 का वि पलासपसूयइं वीणइ
 णिद्धइं रत्तइं कुडिलइं तिक्खइं
 काइ वि कोइल कसण णिरिक्खिय
 संपहिं पइं वि बोह्लंणसीली
 एयहि सहु महुरु महुरउ विसु
 जइ मेहुं लक्खणु अज्जु रमेसइ
 घत्ता — लयमंडव माणिवि कील समाणिवि कामभोयसंपण्णरइ ॥

जोयइ दप्पणि समउ फुरंतहिं ।
 बिंबीहलु अहरहु संबंधं ।
 वाली हरिसांहारणु कंखइ ।
 खरसंताउ ण मुणइ सइत्तउ ।
 अग्गिवण्णु जायंउ मुहि पूसउ । 5
 णाँवइ विसमसरासणधोरिणि ।
 सरुं सरपंतितु णं दक्खालइ ।
 केकयंतणयहु पाहुडु आणइ ।
 णाइ वसंतमइंदहु णक्खइं ।
 पुंच्छिय अवरइ विहसिवि अक्खिय ।
 जणविरहाणलधूमं काली ।
 दोहिं मि हम्मइ पवसितु माणुसु ।
 ता हलि कलपलविउं सुहुं देसइ ।

णं^३ करिवरु करिणिहिं सहुं णियघरिणिहिं सरि पइसंति णराहिवइ ॥१५॥

16

सीयापंजलिपाणियसित्तहु
 दीसइ रामहु उरि णोलुप्पलु
 कसणं हरिणा का वि महासइ

णं दप्पणयलि पुण्णपवित्तहु ।
 सोहइ णं छणचंदहु मयमलु ।
 सित्ती णं मेहेण वणासइ ।

15 १ A ववल. २ KT record a p: अथवा हरियासायणं चुम्बनम्. २ AP मुहि जायउ. ३ AP णं विसमसरासरा°. ४ A °धोरिणि. ५ AP संचालइ. ६ AP सर. ७ A केकइतणयहु; P केइयतणयहु. ८ A अच्छिय अंबइ विहसिय अक्खिय; P अच्छिय अवरइ विहसिवि अक्खिय. ९ P एह जि. १० AP बोलण°. ११ AP मइ. १२ A कललवियउं. १३ P omits णं.

16 १ AP पाणियपंजलि°. २ A छणयंदहु; P छणइंदहु.

15 2 a बउल बकुलपुष्पम्. 3 b वाली तरुणी; हरि सा हारणु वासुदेवेन सह बाहुयुद्धम्. 4 b खरसंताउ विरहोत्पन्नस्तीव्रतापः; सइत्तउ निःप्रपञ्चितः. 5 b अग्गिवण्णु रक्तवर्णः; मुहि मुखे; पूसउ शुक्रः. 6 b उच्छुकरयल इक्षुधृतकरा; b विसमसरासणं कामधनुः. 7 b सरु स्मरः कामः. 8 a °पसूयइं पुष्पाणि. 9 b वसंतमइंदहु वसन्त एव मृगेन्द्रः सिंहस्तस्य. 12 b दोहिं मि द्वाभ्यामपि शुक्रकोकिलाभ्यां हन्यते परदेशं प्राप्नो नरः. 13 b कलपलविउं कोकिलाया मधुरशब्दः. 14 माणिवि युक्त्वा; कील समाणिवि क्रीडां कृत्वा. 15 सरि सरोवरे.

16 1 b दप्पणयलि दर्पणसदृशे हृदये, निर्मले इत्यर्थः. 3 b वणासइ वनस्पतिः.

णं रोमावलिअंकुर मेल्लइ
 क वि घणथणफलसंपय दावइ
 सिंचिय सिंचिय हसइ सलीलउं
 काहि वि पियकरजलविच्छुलियहि
 अल्लउं परिहणु ढेलिउ विहाविउ
 काइ वि महुमहकंतिइ कालिउं
 सहियहु दंसिवि कैहिवि वियण्णिउं
 सिंचहि ललिय एह पोमावइ
 कुंकुमपिंडउ पयहि घल्लहि

मुहकमलेण णाहं पप्फुल्लइ ।
 सुंदरि वेल्लि अणंगहु णावइ । 5
 उच्छलंतकप्पूरकणालउं ।
 सुत्तजालु तुट्टउं कंचुलियहि ।
 लज्जइ सलिलि अंगु ल्हिक्काविउं ।
 रत्तउं सयदलु कण्हुं णिहालिउं ।
 कण्णालग्गइ काइ वि जंपिउं । 10
 विरहिणि जेणं भडारा जीवइ ।
 एह देव वच्छयलें पेल्लहि ।

घत्ता—तं सुणिवि कुमारें माणवसारें पक्क धरिय चीरंचलइ ॥

अण्णेक्कहि जंतें दरविहसंतें मुक्कउं सलिलु थणत्थलइ ॥ १६ ॥

17

तं हारावलि तिम्मिविं, पडियउं
 कहि लम्भइ पियसंगे आयउं
 काइ वि वल्लहहत्थ गलत्थिय
 णहणिवडंत धरिय धवलामल
 का वि णियंबिणि णाहहु णासइ
 सरि परिघोलिरु सण्हउं पंडुरं
 का वि उरत्थलि चडिय उविंदहु
 पत्तिणिपत्तइ पेच्छिवि जलकण
 क वि हियउल्लइ विभिय मंतइ
 का वि ण इच्छइ जलपक्खालणु

विहिणा किं णउ तेत्थु जि जडियउं ।
 काहि वि मणि उच्छल्लउं जायउं ।
 देहतावहंय ते जि समत्थिय ।
 तोयविंदु णावइ मुत्ताहल ।
 वणि णिम्मज्जइ दूरहु दीसइ । 5
 पाणियल्लि व कड्डइ अंबरु ।
 णावइ विज्जुल अहिणवकंदहु ।
 हारु ण तुट्टउं अवलोइय थण ।
 अलयहं अलिहिं मि अंतरु चितइ ।
 कज्जलतिलयपत्तपक्खालणु । 10

३ AP पफुल्लइ. ४ AP पुल्लं; K records a *p*: पुल्लं. ५ A णहसिउ; P रहसिउ. ६ AP किण्हु.
 ७ A कह व. ८ AP एह ललिय. ९ A जेम भडारा णीवइ.

17 १ AP णं. २ P णिम्मिवि. ३ AP उच्छुल्लउं. ४ P हत्थि. ५ AP तावहर.
 ६ P णहणियडंत. ७ P पंडरु. ८ AP तुट्टइ. ९ A जलपक्खालणु.

7 a विच्छु लियहि स्नापितायाः. 8 a अल्लउं आर्द्रम्. 9 a महुमहकंतिइ मधुमथनो हरिस्तस्य
 कान्त्या पक्कं कृष्णं जातम्. 10 b कण्णालग्गइ कर्णे लगित्वा. 12 b वच्छयलें वक्षःस्थलेन. 14 जंतें
 जलयन्त्रेण.

17 1 तिम्मिवि आर्द्रीकृत्य. २ b उच्छल्लउं उत्सुकत्वम्. 3 b तेजि तावेव हस्तावेव.
 5 b वणि जले. 6 a सरि तडागे; सण्हउं श्लक्ष्णं सूक्ष्मम्; b पाणियल्लि व जलस्य त्वचा इव;
 अंबरु वस्त्रम्. 7 a उविंदहु लक्ष्मणस्य; b अहिणवकंदहु कृष्णमेघस्य. 8 a पत्तिणिपत्तइ
 पद्मिनीपत्रे. 9 a विभिय विस्मिता; मंतइ विचारयति; b अलयहं चूर्णकुन्तलानाम्; अलिहिं भ्रमरेषु.

उड्डइ अंतरि करइवीवर
चघलरहल्लिजलोल्लियकेली

यत्ता - सरि ण्हाइवि गिग्गय णावइ दिग्गय थणंयलघुलियहारमणिंहिं ॥
पयलियरसधारहु तलि साहारहु सहं णिसण्णु णियपणइहिं ॥१७॥

तहु णवणोंलु ष थिउ धारासरु ।
एम करेप्पिणु चिरु जलकेली ।

18

णावइ सीयसुरूवें णिज्जिय
तहिं अवसरि कंचुइ होएप्पिणु
जोयैइ सीय पसाहिज्जंती
भालयलहु कलंकु परि किज्जइ
का वि ण बंधइ मोत्तियकंठिय
का वि कवोलइ पत्तु लिहेप्पिणु
चित्तइ खेयरि माणाणसुंभहं
रूवें सीयाए वि गुरुक्की
हा हा हय किं कयउ पयावइ
जासु एह कुलंहरि कुलउत्ती
णिच्छउ होसैइ जित्तमहाहउ
घत्ता— जरधवलियकेसइ कंपिरसीसइ मायारूवें भावियउं ॥

मणहरणवियेड्डइ खेयेरिबुड्डइ तरुणीयणु पहसावियउ ॥ १८ ॥

विज्जाहरि तारुणें लज्जिय ।
सा चंदणंहि तेत्थु आवेप्पिणु ।
कवि संकइ तिलउल्लउ देंती ।
एणं णं महुं हासउ दिज्जइ ।
कंबु पलोइवि णिहुणियं संठिय । 5
जूरइ किं पह पहयं णिहेप्पिणु ।
उव्वंसिगोरितिलोत्तमरंभहं ।
पुरिसहं वम्महभल्लि व दुक्की ।
दुक्कर रामंणु जोइवि जीवइ ।
रिद्धि विद्धि तहु तहु जि धरिन्ती । 10
धण्णउ पुण्णवंतु जगि राहउ ।

19

ता तहिं एक भणइ नुवरण्णी
हलि हलि कंचुइ काइं णियच्छसि

का तुहुं किं कारणु अवइण्णी ।
भणु भणु किं लिहिया इव अच्छसि ।

१० AP °णालु थविउ. ११ P थणयलघुलिय°.

18 १ सीयारूवें; P सीयासुरूवें. २ A चंदणवि. ३ P जोइय. ४ AP कंटु. ५ AP णिहुवी संठिय. ६ AP णिहिय पिहेप्पिणु. ७ A उव्वसिगोरी°; P उव्वसिमीणी. ८ AP कियउं. ९ A रावणु. १० A कुलहर. ११ A होसइ तहि जि महाजउ. १२ A °विसड्डहे. १३ P खेयरबुड्डइ.

19 १ A णिरवण्णी; P णिवरण्णी.

11 b तहु इन्दीवरस्य; धारासरु धाराजलम्. 12 a °रहल्लि° लहरी, कल्लोलाः. 14 साहारहु आम्रवृक्षस्य.

18 1 b विज्जाहरि शूर्पणखा. 2 a कंचुइ वृद्धा; b चंदणहि शूर्पणखा. 3 a पसाहिज्जंती विभूयमाणा; b कवि पुष्पदन्तः; संकइ उपेक्षते. 5 b कंबु ग्रीवा; णिहुणिय निभृता निश्चला. 6 b पह पहय णिहेप्पिणु प्रभां प्रहतां दृष्ट्वा. 7 b °गोरि° पार्वती. 9 a पयावइ हे हतविधे. 11 a जित्तमहाहउ जितसंभ्रामः; b राहउ रामः. 13 °वियड्डइ विदग्धया चतुरया.

19 1 a नुवरण्णी राज्ञी; b अवइण्णी अवतीर्णा आगता.

तं गिसुणिवि बोह्लैह मायारी
 तुम्हहिं परभवि जं व्रैउं चिण्णउं
 लद्धा जेण णाह हलहर हरि
 तं मज्झु वि उवइसह वइत्तणु
 ता तं सीयइ ह त्ति दुगुंछिउं
 रयसलवासरि चंडालत्तणु
 अण्णहिं कुलि कत्थइ उप्पज्जइ
 सयणविओयवसेण रुयंती
 मंतिकेज्जि णउ कासु वि भावइ
 दूहउ दुट्टु दुगंधु दुरासउ
 असहणु अहणु कुडिलु जाणेव्वउं
 घत्ता—जइ सइं चकेसरु अहव सुरेसरु तो वि अण्णु णरु जणणसमु ॥
 चिंतेव्वउ णारिहिं कुलगुणधारिहिं णउ लंघेव्वउ गोत्तकमु ॥१९॥ 15

हउं मायरि वणवालहु केरी ।
 जेणेहउं जायउं लायण्णउं ।
 जेण लच्छि एही सवसुंधरि । 5
 साहमि सर्वसा हं वि जुवइत्तणु ।
 महिलत्तणु किं किज्जइ कुच्छिउं ।
 णउ पावइ णियवंसपहुत्तणु ।
 वहुंती अण्णेण जि णिज्जइ ।
 बहलशाहविंदुयइं मुयंती । 10
 जा जीवइ ता परवस जीवइ ।
 अंधु बहिरु वाहिल्लु अभासउ ।
 जो भत्तारु सो ज्जि माणेव्वउ ।
 जो भत्तारु सो ज्जि माणेव्वउ ।

20

विहवत्तणि पुणु सिरु मुंडेव्वउं
 रक्खइ पिउ अव्वत्तसिसुत्तणि
 रक्खइ बुद्धत्तणि तणुरुहु तिह
 परवसहिंडण सयणाहारहु
 बुद्धिइ बुद्धयालि णिभग्गिउ
 किज्जइ जिणवरिंदभासिउ तउ
 रुहिररसावहु अट्टियपंजरु
 जहिं इंदियइं ण इच्छियकामइं
 तं मग्गिज्जइ मोक्खमहासुहुं
 हियवउं भिण्णउं तक्खणि एयहि
 जाणियतच्चहि सच्चहि संतहि

अप्पउं तवचरणे वुंडेव्वउ ।
 रक्खइ त्रयं पइ पुणु पोढत्तणि ।
 ण करइ किं पि वि कुलविप्पिउ जिह ।
 महिल ण मुच्चइ कारागारहु ।
 डज्जउ महिलत्तणु किं मग्गिउ । 5
 तं मग्गिज्जइ जहिं णउ संभउ ।
 तं मग्गिज्जइ जहिं ण कलेवरु ।
 जहि सुव्वंति ण जारहं णामइं ।
 तं गिसुणिवि बुद्धिहि मउलिउं मुहुं । 10
 भरइ सीलु को खंडइ सीयहि ।
 जहिं एहउ वियप्पु गुणवंतहि ।

२ P भासइ. ३ AP वउं. ४ AP रामसामि°. ५ A मंतकज्जि. ६ P परवसि.

20 १ A डंडेवउ. २ A अव्वत्तसिसुत्तणि. ३ AP तिय. ४ AP पुणु पइ. ५ A बुद्धिइ. ६ A भणह; T भरइ चिन्तयति.

3 b मायरि माता. 4 b एहउ ईडशम्. 6 b साहमि साधयामि; सवसा स्ववशा; जुवइत्तणु स्त्रीत्वम्. 8 a रयसलवासरि रजस्वलादिने. 10 b बहलशाह° प्रचुरत्रायम्. 13 a असहणु ईर्ष्यालुः; अहणु निर्धनः.

20 2 a पिउ पिता. 3 b कुलविप्पिउ कुललाञ्छनम्. 5 a बुद्धिइ बुद्धया त्वया; णिभग्गिउ निर्भोग्यं भाग्यरहितम्. 6 b जहिं यत्र मोक्षे; संभउ संभवो जन्म. 10 b भरइ स्मरति. 11 b वियप्पु स्त्रीजन्मनिन्दालक्षणो विकल्पः.

तहिं मइं धुत्तिइ काइं करेव्वउं पासहिं हिंडिवि णवर मरेव्वउं ।
 घत्ता—इय चितिवि सुंदरि णिवसें णहयरि चंचलगय गयणंगणइ ॥
 थिय मणियरणिम्मलि कणयधरायलि लंकाहिवधरप्रंगणइ ॥ २० ॥

21

अंजणसामहु लच्छिविलासहु णविवि ताइ विण्णविउ दसासहु ।
 देव वियंतदंतिदंतच्छवि- जसपसरणयर जगपंकयरवि ।
 पैइ इच्छइ सा जइ सिहि सीयलु जइ ठाणाउ चलइ धरणीयलु ।
 जइ णियमेण वसंति ण सायर जइ पडंति सिसिरयर दिवायर ।
 जइ जिणु राएं दोसें छिजइ तो पैइ सीय खगिंद रमिजइ ।
 तं णिसुणिवि दहवयणे वुच्चइ अवसु वि वसि किजइ जं रुच्चइ ।
 किं विसभइयइ फणिमणि मुच्चइ अलसहु सिरि दूरेण पवच्चइ ।
 सुहिसयणत्तणु पुरिसपहुत्तणु गिरिर्मसिणत्तणु सहहि सहत्तणु ।
 दूरयरत्थु सुणंतहं चंगउं पासे असेसु वि दरिसियभंगउं ।
 हरमि सीय किं पउरपलावे ता सा पुणुं वि कहइ सव्भावे ।
 वहमुह एउ अजुत्तु अकित्तणु इय बोळंति संति मंतित्तणु ।
 घत्ता—चंदणहि णिवारिवि असिवरु धारिवि सुरसंमरओहिं असंकियउ ॥
 भरहद्धणरेसरु सुरकरिकरकरु रीवणु पुष्पयंति थियउ ॥ २१ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिय
 महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे णारयआगमणं रीवणमणखोहणं
 णाम एकहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७१ ॥

६ A धुत्ते. ७ P णिविसें. ८ AP °पंगणइ.

21 १ A °दंतहो छवि. २ A °पसरणजगवणपंकय°; P °पसरणपर. ३ A इच्छइ पैइ सा; P इच्छइ पैइ सा जइ. ४ A ससिरयर. ५ A पय. ६ AP गिरिहि महत्तणु. ७ AP कहइ पुणु ।
 ८ P अखत्तणु. ९ A °समरेहिं असं°; P समरउहे असं°. १० P रामणु. ११ AP रामणखोहणं.

13 णिवसें निमेषेण.

21 2 b °छवि जसपसरणयर शुक्लयशःप्रसरणकर. 3 a जइ सि हि सी यलु चेदा
 शीतलः तर्हि सीता त्वां वाञ्छति; b ठाणाउ स्थानात्. 4 b सि सिरयर शिशिरकरश्चन्द्रः. 5 a छिज
 क्षीयते. 6 b अवसु अवशमपि वस्तु. 7 a °भइयइ °भयेन. 8 a सुहिसयणत्तणु सुहदां सुह्रवं दूर
 मेव श्रूयते; b गिरिमसिणत्तणु गिरेर्मसृणत्वं कोमलत्वं रम्यत्वम्. 9 a दूरयरत्थु दूरतरस्थानाम्
 11 b बोळंति संति ब्रुवाणा सती. 12 सुरसमरओहिं असंकियउ सुरसमरसमूहान्न भीतः. 13 पु
 यंति पुष्पकविमानमध्ये.

सहं मारीयपण पद्दु मुक्कदेसजइसंजमु ॥
पुप्फविमाणे थिउ गउ सीयंहरणकयउज्जमु ॥ ध्रुवकं ॥

1

कामबाणोहविद्धेण मुद्धेण णो किं पि आलोइयं
ता विमाणं विमाणे णहे राइणा तेण संचोइयं ।
तारयाऊरियायाससंकासबद्धुज्जलुल्लोवयं 5
हेमघंटाविसट्टंतटंकारसंतासियासागयं ।
चारुचंदकभाभारि माणिक्कंसमुक्कञ्जुबुक्कयं
वाउधुव्वंतकेऊलयालोलणाइण्णदिच्चक्कयं ।
तुंगसिगगणिब्भिण्णणीलब्भसच्छंभुधारोल्लियं
वोमपोमायरे हंसवत्तम्मि पोमं वं पप्फुल्लियं । 10
दिण्णध्रुवं रयक्खं गवक्खंतलंबंतंभिगंचियं
पक्खिसेहीरंसारंगमायंगउक्किण्णरूवंचियं ।
बद्धसोहिल्लकप्पंधिर्वुद्धयपत्तावलीतोरणं
इदणीलंसुकालं असीयंसुसीयंसुणिव्वारणं ।
तेयवंतं णहुम्मिल्लकंतिल्लदिव्वत्थसोहावहं 15
भम्मपिगं पलित्तं व सत्तच्चिणा रंजियासावहं ।
कित्तिवेल्लीइ फुल्लं व सेयं दसासालिणा माणियं
जायवेयं कुधीरेण वीरेणं वाणारसी आणियं ।

घत्ता—दिट्टउ तेत्थु वणु अण्णेक्क वि सीयहि जोव्वणु ॥

रावणु चितवइ विहि समसंजोयवियक्खणु ॥ १ ॥ 20

1 १ P °विवाणे. २ P सीयाहरण°. ३ AP माणिक्कणिम्मुक्क°. ४ A हंसवंतम्मि. ५ P च पुप्फुल्लियं. ६ AP गवक्खंतलंगंत°. ७ A °सीहीर°. ८ AP °ध्रुवुभूय°. ९ P omits सुसीयं°. १० A धीरेण.

1 2 °कयउज्जमु कृतोद्यमः. 3 आ लो इयं विचारितम्. 4 वि मा णे विगतमाने अनन्ते ऋसि. 5 तारयेत्यादि तारकापूरिताकाशसदृशं बद्धोज्ज्वलचन्द्रोपकम् (°वितानम्). 6 °विसट्टंतटंकार-
ंतंतासियासागयं विसर्पन्तः टंकाराः तैः संत्रासिता दिग्गजा येन. 7 °चंदकभाभारि मयूरपिच्छं सुवर्णं
ण तस्य प्रभाधारि; °भुबुक्कयं °स्तवकम्. 8 वाउधुव्वंतकेऊलया° वातान्दोलितध्वजलता. 9 °धारो-
ल्लियं धाराद्रम्. 10 वोमपोमायरे गगनसरोवरे; हंसवत्तम्मि सूर्यवति. 11 रयक्खं रक्ताक्षमासक्ते-
न्द्रेयम्; °भिगंचियं °भृङ्गसहितम्. 12 °सहीरं सिंहः. 14 इंदणीलंसुकालं इन्द्रनीलकिरणकृष्णम्;
असीयंसुसीयंसुणिव्वारणं सूर्यचन्द्रकिरणनिषेधकम्. 15 °दिव्वत्थं दिव्यास्त्राणि दिव्यप्रहरणानि.
16 सत्तच्चिणा अग्निना. 17 दसासालिणा दशास्यो रावणः स एव भ्रमरस्तेन. 18 जायवेयं जात-
गम्; कुधीरेण कुबुद्धिदायकेन.

2

वणु दीसइ णच्चियणीलगलु
 वणु दीसइ णिम्मलभरियसरु
 वणु दीसइ संचरंतकमलु
 वणु दीसइ ललियलयाहरउं
 वणु दीसइ कालालिं गियउं
 वणु दीसइ अलयतिलयसहिउ
 वणु दीसइ फुल्लासोयतरु
 वणु दीसइ दुग्गउं कंचुइहिं
 वणु दीसइ तरुकीलंतकइ
 वणु दीसइ मूलणिहँद्वरसु
 वणु दीसइ वड्डियधवलवलि
 हियउल्लउं कामसरहिं भरिउं

सीयहि जोव्वणु मर्णमीणगलु ।
 सीयहि जोव्वणु णिरु महुरसरु ।
 सीयहि जोव्वणु वरमुहकमलु ।
 सीयहि जोव्वणु विंवाहरउं ।
 सीयहि जोव्वणु सालिं गियउं । 5
 सीयहि जोव्वणु विहलीसहिउ ।
 सीयहि जोव्वणु परसोयतरु ।
 सीयहि जोव्वणु धरकंचुइहिं ।
 सीयहि जोव्वणु वण्णांति कइ ।
 सीयहि जोव्वणु कयमयणरसु । 10
 सीयहि हारावलि धवलवलि ।
 लंकालंकारें संभरिउं ।

घत्ता—इय पयहि तणउ णरु माणइ जो णउं जोव्वणु ॥
 मंदिरु परिहरिवि रिसि होइवि सो पइसउ वणु ॥ २ ॥

3

अहो कयत्थो भुवणंतरे हली
 पलोयप लोयणपहिं संमुहं

महेलिया जस्स घरम्मि मेहली ।
 मुहेण मल्लंति विउंबण मुहं ।

- 2 १ A मणिणीलगलु. २ A घरु. ३ P °णिबद्धरसु. ४ A वल्लियधवल°. ५ AP ण वि.
 3 १ P लोयणेहिं. २ A विओवण; P विउवण.

2 1 a °णीलगलु मयूरः; b मणमीणगलु मनोमत्स्यस्य बन्धने गलो लोहकण्टकः.
 2 a °भरियसरु °भृतसरोवरम्; b महुरसरु मधुरशब्दयुक्तम्. 3 a संचरंतकमलु प्रवहजलम्.
 4 a ललियलयाहरउं मनोहराणि लतागृहाणि यस्मिन्वने; b विंवाहरउं बिम्बं पक्कतुण्डीरकं तत्तुल्योऽध-
 रोष्ठो यत्र यौवने. 5 a कालालिं गियउं कालाश्च ते अलयश्च तेषामिङ्गितं चेष्टितं यत्र; b सालिं गियउं
 लक्ष्म्या चिह्नितमालिङ्गितं वा. 6 a अलयतिलयसहिउं अलमत्यर्थं तिलकवृक्षसहितम्; b विह-
 लीसहिउं विशेषेण हलीशस्य रामस्य हितं सुखदम्. 7 b परसोयतरु परेषां शोककारकम्. 8 a कंचु-
 इ हिं सर्पैः; b धरकंचुइहिं गृहमहल्लकैः. 9 a °कइ कपयः; b कइ कवयः. 10 a °रसु जलं पृथ्वी
 वा; b कयमयणरसु कृतकामरसम्. 11 a वड्डियधवलवलि वर्धिता धवाश्च लवलयश्चन्दनलताश्च
 यस्मिन्; b धवलवलि धवला कण्ठे वलिता च. 12 a कामसरहिं कामवाणैः; b लंका लंकारें लङ्काया
 अलंकारभूतेन रावणेन; संभरिउं चिन्तितम्.

- 3 1 b मेहली मैथिली सीता. 2 b मल्लंति हर्षमाणा; विउंबण चुम्बति.

हरौमि एयं कवडेण संपयं
 उयार मारीयय होहि तं मओ
 कुकम्मए मंतिवरो णिवेसिओ
 जसो ण जाओ भुवणंतमेरओ
 भणामि किं सिंभजरे पयं पियं
 तओ विसाएण वियारियंगओ
 णिसण्णिया जत्थ धरासुया सई
 कुरंगओ बालतणंकुरासओ
 णियच्छिओ दिट्ठिमओ रवणणओ
 महीरुहाए भणियं हिया सयं
 णरिंद हे राम पुलिंदकायरं
 अणेयमाणिकमयं मयं महं

करेइ मंती महिणाहसंपयं ।
 खुरेहिं सिंगेहिं जवेण तम्मओ ।
 विचितए हा विहिणा णिवे सिओ । 5
 कहं परत्थीरंमणे तमे रओ ।
 दुलंघमेयं पहुणा पयंपियं ।
 खणेण होऊण मओ तहिं गओ ।
 पिए मणो जीइ समप्पिओ सइं ।
 सुयाहिरामं कियरामरासओ । 10
 विचित्तिपिणोहमऊरवणणओ ।
 इमं महं लोयणलोलणासयं ।
 रएणं गंतुं धरिऊण कायरं ।
 कुलीण दे देहि णिर्यच्छिमो महं ।

घत्ता—णिसुणिवि प्रियवर्यणु सो रामे दीसइ केहउ ॥

15

सावउ चित्तलउ चलु मणु काउरिसइ जेहउ ॥ ३ ॥

4

पविरलपएहिं लंघंतु महि
 थोवंतरि मणहरु जाइ जवि
 पहु पाणि पसारइ किर धरइ
 दूरंतरि णियतणु दक्खवइ

लहु धावइ पावइ दासरहि ।
 कह कह व करंगुलि छित्तु ण वि ।
 मायामउ मउ अगइ सरइ ।
 खेलइ दरिसावइ मंदगइ ।

३ AP हरेमि. ४ A रमणंतमेरउ. ५ A जाइ. ६ A लोयणलोयणासयं. ७ A रएण तुंगं. ८ T णिय-
 स्थियामहं पश्याम्यहं, पश्यामि तेजः (उत्सवः ?). ९ AP पियवयणु.

3 a संपयं संप्रति इदानीम्; महिणाहसंपयं महीनाथस्य संपदम्. 4 a उयार उदार; तं त्वम्; मओ मृगः;
 b तम्मओ तन्मयस्तदाकृतिः. 5 a कुकम्मए कुत्सितकर्मणि; b णिवे नृपे; सिओ सितं श्वेतम्.
 6 a जसो ण जाओ यशः शुक्लं न जातम्; भुवणंतमेरओ त्रिभुवनान्तमर्यादं (यशः); b तमे पापे;
 रओ रतः 7 a सिंभजरे पयं पियं श्लेषमञ्जरे पयः पीतम्; b पयंपियं प्रजल्पितं कथितम्. 8 a विसा-
 एण वियारियंगओ विषादेन खेदेन विकारिताङ्गः; b मओ मृगः. 9 a धरासुया सीता; b जीइ यया;
 सइं सदा. 10 a बालतणंकुरासओ बालतृणाङ्कुरभक्षकः; b सुयाहिरामं कियरामरासओ श्रुतौ कर्णे
 अभि समन्ताद्रामयाङ्कितरामस्य शब्दो येन मृगेण, अथवा, सुयाहिरामं आकर्णनाभिरामं यथा भवत्येवं कृतो
 रामस्य रासः शब्दो येन मृगेण. 11 a दिट्ठिमओ दृष्टिमृदुः; रवणणओ रमणीयः; b °मऊरवणणओ
 मयूरसदृशवर्णः. 12 a महीरुहाए सीतया; हिया हे हितः सयं स्वयमेव; b लोयणलोलणासयं मम
 नेत्रयोः क्रीडाश्रयं स्थानम्. 13 a पुलिंदकायरं पुलिन्द्रकाणामादरो यत्र मृगे; b रएण गंतुं वेगेन
 गत्वा. 14 a महं मद्यं मम; b महं उत्सवभूतम्. 16 सावउ श्रापदो मृगः.

4 1 a °पएहिं पादैः. 2 a जवि वेगवान्. 5 a णवदूवा° नवदूर्वा.

णवदुवाकंदकवलु भरइ
कच्छंतरि सच्छसलिलु पियइ
सुयचंचुघायर्परियलियफलि
खणि वेल्लिणिहेलणि पइसरइ
ओहच्छइ अइकोडुवाणउ
इय चिंतिवि राहउ संचरइ
धरिओ वि करणहु णीसरइ
णिइइयहु किं करि चडइ णिहि

तरुवरकिसंलयपल्लव चरइ । 5
वंकियगलु पच्छौउहुं णियइ ।
खणि दीसइ चंपयचूंयतलि ।
अणणणपर्वसहिं अवयरइ ।
लइ माणमि णयणसुहावणउ ।
पसु पुणु धरणास तासु करइ । 10
कहिं वेसायणु कहिं णीसरइ ।
कहिं कवडहरिणु कहिं बंधविहि ।

घत्ता—गउ गयणुल्ललिउ मिगु णं कुवाइहत्थहु रसु ॥
थिउ दसरहतणउ समणीससंतु विंभियवसु ॥ ४ ॥

5

भयणभूमिआयासगामिणो
दवंदेव जयलच्छसंगमो
ता ससकंतेल्लोक्करामणो
कासकुसुमसंकासदेहओ
कसणवाससोहियणियंबओ
इ त्ति जणयतणयासमीवयं
वइरिमाणणिम्महणसत्तिणा
दूरयं पि मणपवणवेययं
आणियं मण हरिणपोययं
ता सईइ अवलोइओ मओ

मंतिणा वि कहियं ससामिणो ।
वंचिंओ रहरायपुंगमो ।
राम एव रूवेण रावणो ।
चावधारि णं सरयमेहओ । 5
हत्थणिहियमणिमयसिलिंबओ ।
आगओ कयाणंगमावयं ।
भासियं कुसीलेणं णं तिणा ।
पंचवण्णमाणिक्कतेययं ।
कुणसु देवि कीलाविणोययं ।
णं सुदूसहो दुक्खसंचओ । 10

4 १ AP °कमलु. २ AP तरुवरपल्लवकिसलय. ३ AP पच्छामुहं. ४ AP °परिगलिय°. ५ P °चूंयतलि. ६ P पवेसहिं. ७ P इहु अच्छइ. ८ A णिइइयहु कहि करि; P णिइइवहु करि कहिं.

5 १ A गयणभूमि°; T भयणभूमि°. २ A वणि वइइ रहुवंसपुंगमो; .P वणि पइइ रहुवंस-पुंगमो. ३ A संसक°. ४ P तइलोक्क°. ५ AP °रावणो. ६ A °सिलंबओ. ७ A °तावयं. ८ A कुसीलेण मंतिणा. ९ A दूरियं.

6 a कच्छंतरि वनमध्ये; b पच्छाउहुं पश्चान्मुखम्. 7 a सुयेत्यादि शुक्चञ्चुघातपरिगलितफले आम्राद्ये. 9 a ओहच्छइ एष तिष्ठति. 10 b धरणास धारणास्याशाम्. 11 b वेसायणु वेद्याजनः; णीसरइ निःस्वानां दरिद्राणां रतिः क्र. 12 a णिइइयहु निर्भाग्यस्य. 13 रसु पारदः. 14 सम° श्रमेण; विंभियवसु विस्मितस्य विस्मयस्य वशः.

5 1 a भयणभूमिआयास° नक्षत्रसमूहाधिष्ठानमाकाशम्. 3 a °रामणो °आक्रन्दनः. 4 a °संकासदेहओ °उज्ज्वलशरीरः. 5 b °सिलिंबओ मृगः. 6 b °भावयं अभिलाषणम्. 7 b तिणा रावणेन. 9 a हरिणपोययं हरिणबालकम्.

विष्फुरंततणुकिरणमालओ
विंभियाबलायाणमाणिया

विरहसिहि व वित्थिण्णजालओ ।
रयणिगमणचिंघेण भाणिंया ।

घत्ता—पिण जरदिवसयरु अत्थंगउ दसिइ रत्तउ ॥

जरजुण्णु वि तिजगि भणु अत्थहु को णासत्तउ ॥ ५ ॥

6

उज्झिऊण इंदियसमं
सव्वत्थ वि भंहं सियं
बुद्धं किं पि णवं च णं
तं धरणीयलरूढिया
उववणवासविणिग्गयं
दहवयणेण विलासिणा
तीण पुंरओ दावियं
सा तुरियं लंकं णिया
सारसजुयमाणियवणि
माणवाहिरामं गओ
पयडीकयससरीरओ
इंर भुवणयले विस्सुओ

सविमाणं सिवियासमं ।
तीण तेणं दंसियं ।
णं हु खलरइयं वंचणं ।
अमुणंती आरूढिया ।
अप्पाणं हरिवरगयं ।
रिउकित्तीयविलासिणा ।
वइयालियसदावियं ।
वम्महधणुगुणकणिया ।
संणिहिया णंदणवणि ।
दूरमुक्करामंगओ ।
भूहरभेइसरीरओ ।
रक्खकेउ महिवइसुओ ।

5

10

घत्ता—कालउ दहवयणु णवमेहु व दुहयरु सीयइ ॥

पियविरहाउरइ दिट्ठउ कंठट्ठियजीयइ ॥ ६ ॥

१० A भासिया.

6 १ A भदासियं. २ P तहु खल°. ३ AP पुरउं. ४ P वम्महु. ५ AP इह.

11 वि स्थि ण्ण जालओ विस्तीर्णज्वालः. 12 a विंभिया विस्मिता; अबला सीता; अया ण मा णिया मायापुरुषमजानती; b रयणि ग म ण चिंघेण राक्षसध्वजेन रावणेन. 13 पि ए हे प्रिये. 14 णा सत्तउ न आसक्तः.

6 1 a इंदियसमं इन्द्रियखेदं शरीरश्रमम्; b सिवियासमं शिविकाकृति. 3 a-b बुद्धं किं पि णवं च णं नवं जन्म अपूर्वं विमानं च णं एतत् णहु न खलु बुद्धम्; b वंचणं मृगलक्षणं वञ्चनम्. 4 a धरणीयलरूढिया भूमण्डले प्रसिद्धा सीता. 5 b हरिवरगयं अश्वारूढम्. 6 a विलासिणा विलासयुक्तेन; b रिउकित्तीयविलासिणा रिपुकीर्तिरेव अविला मेढिका, गडुरिका इत्यर्थः; तस्याः असिना खड्गेन. 7 b वइयालियसदावियं वैतालिकशब्दवर्णितम्. 8 b °कणिया बाणविशेषः. 9 a °वणि जले. 10 a माणवाहिरामं गओ मनुष्यरमणीयतां प्राप्तः; b °रामंगओ रामशरीरवेषः; भूहरभेइसरीरओ भूधरभेदिनी चासौ सरिच्च तद्वद्रयो वेगः शब्दो वा यस्य. 12 a इर किल प्रसिद्धौ; b रक्खकेउ राक्षसध्वजः; महिवइसुओ पुलस्तिपुत्रः. 14 कंठट्ठियजीयइ कण्ठस्थितजीवितया सीतया.

7

चित्तं मउलंतं मउलियउं
 आपंडुरंतु गंडत्थलइ
 कढकढकढंति ससहरपहइं
 कां दिसि केणाणिय केंव कहिं
 इय चित्तवंति मोहेण हय
 पइवय परपइवयभंगभय
 भन्तारविओयविसंतुलियं
 णं कामभल्लि महियलि पडिय
 सुहिसुंयरणंपसरियवेयणिय
 परिहाणु ण तो वि ताहि ढलइ

लोयणंजुयलंसुउ पयलियउं ।
 विलासिउ विलासिइ विरहाणलइ ।
 अंगइं लायण्णवारिवहइं ।
 को पावइ एवहिं रामु जहिं ।
 परपुरिसु णिहालिवि मुच्छ गय । 5
 णं पवणं पाडिय ललिय लय ।
 विहिवस सिलसंकडि पक्खलिय ।
 णं बाउल्लिय कंचणग्रडिय ।
 सा जइ वि थक्क णिञ्चेयणिय ।
 चल जारदिट्टि कहिं परिघुलइ । 10

घत्ता—दढणिवसणु सइहि सुहडहु करासि ण वियट्टइ ॥

मरणि समावडिइ परियरिविहि विहिं वि ण फिट्टइ ॥ ७ ॥

8

परदारलुद्धु दुकंतु खलु
 रावण किं आणिय परजुवइ
 वणु णाई करइ साहुद्धरणु
 अलि कण्णासण्णउ रणुरुणइ
 इच्छइ दससिरु पररमणिसुहुं
 णं सो वि णिवहु उव्वेइयउ
 दुज्जसु महु महणिहु महाहि जइ
 हंसावल्लि लवइ व लोयपिय
 मा मइलहि माणिवि एह तिय
 अंबउ लोहियपल्लवल्लिउ

किं लज्जइ कहिं मि गामकमलु ।
 तरु चुयसिण्हंसुएहिं रुवइ ।
 हा पत्तउं णारिरयणमरणु ।
 पहु एउं अजुत्तु णाई भणइ । 5
 कणइल्लउ वंकिवि जाइ मुहुं ।
 कोइल्लु विलवंतु व आइयउ ।
 वइदेहि भडारा रमहि तइ ।
 मइं जेही तेरीं कित्ति सिय ।
 मा णासहि लंकाउरिहि सिय ।
 णं णिवअण्णायसिहिं जलितु । 10

7 १ P °जुउ अंसुय. २ A आपंडुरत्थु. ३ AP का दिस. ४ A विसंतुलिया. ५ A सुहि-
 सुअरण°; P सुहिसुमरण°. ६ AP परियरिविहि.

8 १ P रामण. २ A तं सो. ३ A कोकिलु. ४ A तेही कित्ति.

7 1 a मउ लियउ नेत्रमपि मुकुलितम्. 3 a कढकढकढंति अतिशयेन दहन्ति; ससहर-
 पहइं चन्द्रकिरणप्रहतानि अङ्गानि. 6 a पइवय पतिव्रता. 7 b सिलसंकडि शिलासंकटे प्रदेशे.
 8 b बाउल्लिय पुत्तलिका. ९ a °सुंयरण° स्मरणम्; b णिञ्चेयणिय अचेतना. 10 a परिहाणु
 परिधानं वस्त्रम्. 12 परियरिविहि परिकरबन्धः.

8 1 b गामकमलु श्वा पुंश्वलः कुक्कुरः. 2 b चुयसिण्हंसुएहिं च्युतोष्णांशुभिः. 4 a कण्णा-
 सण्णउ कर्णसमीपस्थः. 5 b कणइल्लउ शुकः. 6 a णिवहु नृपात्. 7 a महुमहणिहु मत्तेजः-
 सहस्रं, कृष्णमित्यर्थः; महहि वाच्छसि. 10 a अंबउ आम्रवृक्षः; b °सिहिं° अग्निना.

चंदणु पुणु विसहर दक्खवइ
रामाणीरमणकम्मतुरिउ

पडिवक्खंवाणमाणु व थवइ ।
खर्यरिंदे मणु मडुइ धरिउ ।

घत्ता—परवस परमसइ जइ छिवमि करे थणु पेळ्ळिवि ॥
अंबरयारिणिय तो जाइ विज्ज महं मेळ्ळिवि ॥ ८ ॥

9

इय णिज्झाइवि पंकयकरिहिं
जीवावहु भावहु कह वि तिह
ता तरलइ तारइ णाइणिइ
अंविउलइ अंबइ अंबालियइ
पियछंदइ णंदइ णंदिणिइ
कप्पूरपूरपरिमलजलइं
सीयहि अंगंगि रमांति किह
णियपत्थिवपेसणकारिणिहिं
दहमुहवहदाइणि कालणिह
उट्टिय परणरणिट्टुरहियय

आएसु दिण्णु विज्जाहरिहिं ।
मइं इच्छइ सुंदरि अज्जु जिह ।
चंपयमालइ मंदाइणिइ ।
मयमत्तइ मल्लहणसीलियइ ।
रइरुंदइ चंदइ चंदिणिइ । 5
पल्लत्थियाइं हिमसीयलइं ।
सीयइं रहुवइअंगंगइं जिह ।
लहु विज्जिय चामरधारिणिहिं ।
संधुक्किय णं खयजलणसिह ।
संचितइ हा हउं किं ण मय । 10

घत्ता—हा रहुवंसपहु हा लक्खण कहिं पइं पेच्छमि ॥
दावहि तां व मुहुं जांवज्जु जि मरेवि ण गच्छमि ॥ ९ ॥

10

चउपासिहिं थियउ णियच्छियउ
भणु भणु संदेहु मज्जु हुयउ

पुणु खंयरपुरंधिउ पुच्छियउ ।
णिवु कालउ जमु किं वा मणुउ ।

५ पडिवक्खमाणमाणु व. ६ AP खर्यरिंदे. ७ A मंडइ. ८ P ता जाइ विज्जु.

9 १ A कह व. २ AP अवलोइय अंबं बालिये. ३ AP रुइरुंदइ. ४ AP कप्पूरपउर°. ५ A पइं कहि पेच्छमि. ६ AP मरेवि.

10 १ AP खर्यरि°.

11 b थ व इ स्थापयति. 12 a रा मा णी° रामभार्यो. 14 a अंबरयारि णिय आकाशगामिनी; विज्ज विद्या.

9 1 a पंकय करि हिं कमलसदृशकरयुक्तानाम्. 2 a जीवावहु जीवापयत; भावहु मां भाव-
यन्तु, ममोपरि रुचिं कारयन्तु इत्यर्थः. 3 a तरलइ तरलानाम्या. 6 b पल्लत्थियाइं आवर्जितानि.
7 a अंगंगि शरीरावयवेषु; b सीयइं शीतलानि. 9 a °वहदाइणि वधदात्री. 10 a उट्टिय
सावधाना जाता.

10 2 a णिवु युष्मन्नृपः

पुरि पइ कवण किं जमणयरि
जसु तलवरु जसु किर भणइ जणु
जसु इंदु वि संगरि थरहरइ
जसु वांसइ वइसाणरु धुवइ
जसु अगइ णडइ सरासइ वि
जसु पंगणि मेहहिं दिणु छइ
सो एयहि लंकहि पइ पइ
भत्तारु समिच्छहि माइ तुहुं

तावेक्क पजंपइ तहिं खयरि ।
जसु देइ णिच्च वइसवणु धणु । 5
जसु मारुउ घरंकरारु हरइ ।
दिक्करिउलु णामे मउ मुयइ ।
कुसुमंजलि धिवइ वणासइ वि ।
जसु को वि णत्थि पडिमल्लु भइ ।
रावणु णामे तिहुवणविजइ ।
अणुभुंजहि इच्छियं कामसुहुं । 10

घत्ता—सामिणि राणियहं णीसेसहं होइवि अच्छहि ॥

महएवित्तणयहु परमेसरि पट्टं पडिच्छहि ॥ १० ॥

11

किं किजइ हरिणु अधीरमइ
किं किजइ दीवउ तुच्छछवि
किं किजइ वाइसु जइ गरुलु
किं किजइ खरु जइ दुद्धरहु
किं किजइ पिप्पलु सलसलिउ
किं किजइ राहँउ मुद्धि तइ
ता सीयइ उत्तरु माणि थविउ
जहिं कंकु रायहंसु व गणिउ
जहिं गुणवंतु वि दोसिल्लसमु
ते विउस पसंसिय विउँसजणि

जइ लब्भइ सीहँकिसोरु पइ ।
जइ अंधयारु णिटुवइ रवि ।
सुपसणु होइ बहुवाहुवलु ।
पाविजइ कंधरु सिंधुरहु ।
जइ दीसइ सुरंतवरु फलिउ । 5
रावणमहिलत्तणु होइ जइ ।
एयइ अण्णाणिइ किं लविउ ।
परंहु कप्परुक्खु व भणिउ ।
तहिं जे विरयंति वयणविरमु ।
णिक्खिवइ बुद्धि को मुक्खँयणि । 10

घत्ता—पेयहु तणउं मुहुं वियसावइ को जगि चुंबिवि ॥

इय चिंतिवि हियइ मोणव्वउ थिर्य अवलंबिवि ॥ ११ ॥

२ A घर कयारु. ३ AP वत्थइ. ४ A omits this foot. ५ A इच्छिउ काम°. ६ A महएविहि तणउ; P महएवीए पट्टत्तणहु. ७ A पडु.

11 १ A सीहु किसोरु. २ AP वायसु. ३ P गरुल. ४ AP सुरवरतरु. ५ AP रामे. ६ AP विउसयणि. ७ A मुक्खमणि. ८ A थिउ.

5 b घरकयारु गृहकचवरपुञ्जः. 6 a वासइ वस्त्राणि; b मउ मदम्. 7 b वणासइ वनस्पतिर्वन-देवता. 12 महएवित्तणयहु महादेवीत्वस्य महादेवीपदस्य.

11 4 b सिंधुरहु गजस्य. 5 a सलसलिउ शब्दं कुर्वाणः कम्पमानो वा. 6 a राहउ रामः. 8 a कंकु बकः. 9 b विरयंति वयणविरमु विरचयन्ति वचनविरामं मौनम्. 10 a विउस विद्वांसः; b णिक्खिवइ प्रेरयति. 11 पेयहु प्रेतस्य मृतकस्य.

जयजसरामहु रामहु तणिय
 जइहुं पेसियलेहेण सहुं
 णं तो पुणु जिणवरिंदु सरणु
 एत्तहि जक्खाहिर्वेरक्खियउं
 पहरणपरिपाले रक्खियउं
 आउहसालाहि खंयरविसरिसु
 ता णिर्वह हिउं रोमंचियउं
 णिवमंतिहिं इय बोळिउ वयणु
 संभूयउं भवणि चक्ररयणु
 जं तं कलत्तु रामहु तणउं
 उप्पाउ णयरि भीयरु हँवइ
 उप्पणु चक्क सीयागमणि

णिसुणेसविं वत्त सुहावणिय ।
 तइहुं आहारपविसि महुं ।
 संपज्जउ सल्लेहणमरणु ।
 पहवंतु फुरंतु णिरिक्खियउं ।
 पणविवि दहगीवहु अक्खियउं । 5
 उप्पणउ चक्क जणियहरिसु ।
 तं जाइवि कुसुमहि अंचियउं ।
 एवंहि कहिं चुक्कइ दहवयणु ।
 आणुअं अण्णेक्क वि मिगणयणु ।
 अप्पिज्जउ घणचक्कलयणउं । 10
 तं णिसुणिवि णहयरिंदु लवइ ।
 किं तुम्हहुं अज्ज वि भंति मणि ।

धत्ता—छिंदिवि^{१२} अरिसिरइं असिकंपावियदेवासुरु ॥

भरहहु हउं जि पहु सिरिपुप्फयंतभाभासुरु ॥ १२ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सीयाहरणं णाम
 दुसत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७२ ॥

12 १ AP जइयहुं लक्खणरामहु तणिय. २ AP जइयहुं. ३ AP तइयहुं. ४ K records
 a p: आरक्खियउ इति पाठे अरिः क्षितं प्राप्तं अराणां वा निवासः ५ AP खररवि°. ६ AP महिवइ-
 वउ. ७ A जोइवि. ८ AP सुंदर पडिबज्जइ दह°. ९ AP भवणि वि. १० P अप्पिज्जइ.
 ११ AP वहइ. १२ AP छिंदमि. १३ AP बहत्तरिमो.

12 1 a जयजसरामहु जयश्च यशश्च ताभ्यां रामस्य रमणीयस्य; b सुहावणिय क्षेमकुशला.
 4 b पहवंतु प्रभावत् चक्रम्. 6 a खयरविसरिसु प्रलयकालसूर्यसदृशम्. 10 b घणचक्कलयणउं
 घननिबिडस्तनम्. 14 सिरिपुप्फयंतभाभासुरु चन्द्रसूर्यवत्तेजाः.

मायारउ किं माणिक्रमउ जो रहुसीहहु णेंदुउ ॥
महुं णावइ भावइ सो हरिणु चंदहु सरणु पइदुउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—एत्तहि रामसामि मृगपंच्छइ गउ दूरंतरं वणे ॥
एत्तहि णीय सीय दहवयणे एत्तहि सोउ परियणे ॥ छ ॥

एत्तहि दिणंति ^३ अत्थहरिसाणु	संपत्तउ लहु अत्थमिउ भाणु ।	5
णरतिरियणयणपसरणु हरंतु	चक्रउलहं तणुतावणु करंतु ।	
णं दिसइ लइउ रहरसणिहाउ	णं णिण्णेंदुउ रावेंणपयाउ ।	
णं रइउ समुद्धें रयणसंगु	णं महिइ गिलिउ रईरहरहंगु ।	
देउ वि वारुणिसंगेण पडइ	णं इय भणंतु पक्खिउलु रडइ ।	
गच्छंतु अहोमुहु तिमिरमंथु	णं दावइ णरयहु तणउ पंथु ।	10
रामहु कलत्तु इह हित्तु जेण	जापसइ सो मग्गेण एण ।	
गउ अत्थवणहु कंदोदुजूरु	करसहसेण वि णउ धरिउ सूरु ।	

घत्ता—णिवडंतु जंतु हेड्डामुहउ रवि किं पक्कु भणिज्जइ ॥
जगलच्छीमंदिरणिग्गयहि मंदहिं को रक्खिज्जइ ॥ १ ॥

2

दुवई—माणवभवणभरहखेत्तोघरि वियरणगामियवासरो ॥
सीयारामलक्खणाणंदु व जामत्थमिओ दिणेसरु ॥ छ ॥

पच्छाइयसयलायासतीरु	णं संझारयकोसुंभचीरु ।
णहसिरि परिहइ रंडिज्जमाण	दिणवइविओउं अइअसहमाण ।
सिसुससि भग्गेंउ णं वलयखंडु	मउलियउं कमलु णं ताहि तुंडु ।

1 १ AP भावइ णावइ. २ AP मिग°. ३ A दियंति; K दिणंति, corrects it to दियंति but has a gloss दिनस्यान्ते. ४ AP णिड्डिउ. ५ AP रामणसुय°. ६ A रविरह°.

2 १ A P जामत्थमिउ णेसरु. २ A संझाराएं. ३ A °विओयअइ°. ४ AP णं भग्गउ.

1 1 किं मा णि क्रमउ कथं रत्नमयः सारभूतः, अपि तु निःसारः. 5 a अत्थ इ रि सा णु अस्ताचलतटम्. 7 a रहरस णि हा उ रतिरससमूहः. 8 b °रहरहंगु रथचक्रम्. 9 a वारुणि° पश्चिम-दिशा मयं च. 10 a तिमिरमंथु सूर्यः. 12 a कंदोदु° उत्पलम्. 14 जगेत्यादि जगलक्ष्मीमन्दिरं जगदेव पद्मं तस्मान्निर्गतैः किरणैः, अन्यत्र, जगति लोके लक्ष्मीगृहान्निर्गतैः पुरुषैः; मंदहिं जडैः मन्दप्रतापैर्वा.

2 1 मा ण व भ व ण भ र हं नराणां गृहं भरतक्षेत्रम्. 3 a पच्छाइयसयलायासतीरु प्रच्छा-दितसकलगगनतटः. 4 a परिहइ परिषत्ते; रंडिज्जमाण वैधव्यं प्राप्ता. 5 a सिसुससि बालचन्द्रः भग्गवलयखण्डमिव.

विक्रिण्णैउ पत्तु दियंतपारु

गय णिसि उययायलकरिहि चडिउ

उग्गउ उण्णइं पहरेण पत्तु

दिणयरु विहडावियपउमसीउ

णं सीयाविरहहुयासचंहु

णं दिर्सकामिणिसिरि रत्तु फुल्लु

तारायणु णावइ तुहु हारु ।

तमवइरिणरिंदहु समरि भिडिउ ।

परिपालियखसु व रायउत्तु ।

सोहइ णावइ दहवयणु बीउ ।

णं तियसाणीकरघुसिणुपिंहु । 10

णं खयररायतणुरुहिरतल्लु ।

घत्ता—हयँसीयउं कयरणागमणु अइरत्तउ सउंहाइयउ ॥

दीहरपंहरीणें राहविण रवि परवाहं व जोइयउ ॥ २ ॥

3

दुवई—पुच्छिउ तेण तेत्थु णियपरियणु बालमरालगामिणी ॥

कहिं सा सीय भणसु भो लक्खण सइंगुणरयणसामिणी ॥ छु ॥

तं णिसुणिवि भायरु कहइ एवं

जावहिं हउं अच्छिउ सरैवरंति

विण्णवइ एवं भिच्चयणु सव्वु

पंवहिं जाणइ दीसइ जियंति

तं णिसुणिवि मुच्छिउ पडिउ रामु

सीयल्लु विसु विसु व ण संति जणइ

णालिणु वि सूरहु सयणत्तु वहइ

पियविरहुं जलइइ सिहि व जलइ

जावहिं तुहुं गउ मृगमग्गि देव ।

तावहिं जि ण दिट्ठी उववणंति ।

कंदइ उब्भियकरु गालियगव्वु । 5

जइ तो तुहुं पुण्णाहिउ ण भंति ।

जलसिंचिउ उट्ठिउ खामखामु ।

हरियंदणु सिहिकुल्लु अंगु छणइ ।

सयणांयलि घिसउ देहु डहइ ।

चमराणिल्लु तासु सहाउ घुलइ । 10

घत्ता—सरु गेयहु वइरिविमुक्कसरु कव्वु कायकव्वासउ ॥

विणु सीयइ भावइ राहवहु णाडउ णाडयपासउ ॥ ३ ॥

२ APT विक्रिण्णउ पत्तदियंतराल्लु. ६ A दिसिकामिणिकररत्तु फुल्लु. ७ AP हिय°. ८ A सविहायउ; P सउहाइउ. ९ P °पहरेण. १० AP परिवारु वि जोइउ.

3 १ A सयगुण°. २ AP गउ तुहुं भिग°, ३ A सरवणंति. ४ P तइ. ५ A विरइजलइइ. ६ A सहासु.

3 a विक्रिण्णउ विक्रीणो यत्र तत्र पतितः; दि यंतपारु दिगन्तपर्यन्तं प्राप्तः. 8 a उण्णइ पत्तु उन्नतिं प्राप्तेः. 9 a °पउम सी उ पद्मानां शीतं येन, अन्यत्र, वियोगं प्राप्ते रामसीते येन. 10 b तियसाणी° इन्द्राणी. 11 b °तल्लु तडागः. 12 °रण्णा° आदित्यभार्या, पक्षे अरण्यागमनम्; सउंहाइयउ संमुखं शवितः सूर्यः. 13 परवारु परदारः रावण इव.

3 2 सइगुण° सतीगुणाः. 8 a विसु जलम्; विसुव विषमिव; b सिहिकुल्लु अंगु छणइ अग्निकुलं अङ्गं दहति चन्दनकाष्ठजातित्वात्. 10 a जलइइ जलार्द्रवस्त्रेण; b सहाउ सहायः सखा. 11 कायकव्वासउ शरीरमांसभक्षकम्. 12 णाडउ नाटकम्; णाडयपासउ नाटकबन्धनम्.

4

दुवई—जलि थलि गामि गामि पुरि घरि घरि गिरिकंदरणिवासए ॥
जोयह कहिं मि घरिणि जइ जाणह बहुदुग्गमपवेसए ॥ छ ॥

अवियाणिउं जगि को कहइ कासु	पेसिय किंकर दससु वि दिसासु ।
सइं काणणि रहुवइ हिंडमाणु	पुच्छइ वणि मिगइं अयाणमाणु ।
रे हंस हंस सा हंसगमण	पइं दिट्ठी कथंइ विउलरमण । 5
चंगउं चिम्मक्कहुं सिक्खिओ सि	महुं अकहंतु जि खल किं गओ सि ।
रे कुंजर तुह कुंभत्थलाइं	णं महं महिलाइ थणत्थलाइं ।
सारिक्खउं लइयउं एउ काइं	भणु कंतइ कहिं दिण्णइं पयाइं ।
सारंग कहहि महु जणयधीय	णयणाहिं उवजीविय पइं मि सीय ।
अलि घरिणिकेसणिद्धत्तचोर	णिसि सररुहदलकयबंधणार । 10
ण वियाणहि कंतहि तणिय वत्त	रे णीलगीव घणरामवत्त ।
णञ्चति दिट्ठ भणु कहिं मि देवि	इयरह कहिं णञ्चहि भाउ लेवि ।
रे कीर ण लज्जहि जंपमाणु	जइ दिट्ठउं पइं मुद्धहि पमाणु ।

घत्ता—णिरु विरहें झीणउ दासरहि देविहि अज्जु जि सुञ्चहि ॥
णीसेसजीवसंतावहर मेह दूर्अउ तुहुं वञ्चहि ॥ ४ ॥ 15

5

दुवई—अइउकंठिएण धरणीसें सज्जणदिण्णजीययं ॥
ता दिट्ठं मयच्छिथणकुंकुमपिंजरुं उत्तरीययं ॥ छ ॥

दीसइ वंसग्गविलंबमाणु	णं रिउं गयगयणंगणणिवाणु ।
णं दावइ कंतहि तणिय वट्ट	इह दहमुहमारियइं पयट्ट ।
णं उब्भिय सीयइ सइवडाय	तं लेप्पिणु किंकर झ त्ति आय । 5

4 १ A जोवहु. २ A वणमिगइं. ३ A कथवि. ४ P चिमक्कहं. ५ A णं महु महिलाहि
अणयणथलाइं. ६ A किं. ७ A घणरावमत्त; P घणरामपत्त; T घणरावमत्त अतिशयेन रमणीयपिच्छ.
c AP दूउ.

5 १ AP °पिंजरि. २ A णं रिउ गयणंगणि णिज्जमाणु. ३ AP °मारीयय.

4 6 a चिम्मक्कहुं गन्तुम्. 9 a जणयधीय जनकपुत्री सीता; b उवजीविय साहस्यं
प्रापिता. 10 a °णिद्धत्तं स्निग्धकान्तिः; b °बंधणार बन्धनयुक्त. 11 b घणरामवत्त अतिशयेन-
रमणीयपिच्छः. 13 b पमाणु वचनम्, चिह्नम्.

5 3 b °णिवाणु निदानं कारणं चिह्नम्. 4 a वट्ट मार्गः; b पयट्ट प्रवृत्तौ गन्तुम्. 5 उब्भिय
ऊर्ध्वीकृता; सइवडाय सतीत्वपताका.

आलिङ्गितं रामे णीससेवि
जंपितं णिय सुंदरि ख्यरेहिं
सहुं लक्खणेण संदेहि छूदु
तावायउ दूयउ दसरहासु
उच्चाइवि तं सहसा सिरेण
दसरहु जिणंवरणंभोयभसलु
मइं दिट्ठउं सिविणउं ह्यविलासु

पुणु बाहुल्लइं णयणं पुसेवि ।
मायाविपहिं रणदुद्धरेहिं ।
जामच्छइ पडु किंज्जमूदु ।
तें धिचु पसु आलिहिउ तासु ।
इय वाइउं देवें हलहरेण ।
उवइसइ सुयहं णियदेहकुसलु ।
हिय राहुं रोहिणि ससहरासु ।

10

घत्ता—एकल्लउ ससि गहयलि भमइ अबलोइवि अवहारिउं ॥
वज्जरिउं पहाइ पुरोहियहु तेण वि मज्झु विरियारिउं ॥ ५ ॥

6

दुवई—जो दिट्ठउ विडप्पु सो रावणु जा णिसि पइं विलोइया ॥
रोहिणि तुहिणकिरणविच्छोइय सा तुह सुयविओइया ॥ छु ॥

परमत्थे जाणसु राय सीय
जा हिप्पइ सां पुणरवि णिरुत्तु
जे चक्खवाट्टि पालइ सजीव
तहिं सायरि लंकादीवु अत्थि
पुरि लंका राउ दहवयणु णाम
आयण्णिवि विसरिसविसम वत्त
हिंसंततुरय गज्जंतणाय
आवेप्पिणु तणयासोक्खहेउ
दुम्मणु जोइवि रिउमइणेण

अज्जु जि खयरिंदें घरहु णीय ।
ता किज्जइ णियदेहहु पयत्तु ।
भरहंतरालि छप्पण दीव ।
अण्णु वि तिकूहु गिरि मणिगभत्थि ।
णिय तेण सीय रामाहिराम ।
ते बे वि भरह सत्तुहण पत्त ।
सामंत सुहड दसदिसिहिं आय ।
ससुरेण णिहालिउ रामपउ ।
गलगज्जिउ तेत्थु जणइणेण ।

5

10

घत्ता—रिउ जरकुरंगु महु आवडइ हउं हरि उद्धुयकेसरु ॥
जइ दुट्ठु दिट्ठिगोयरि पडइ तो मारमि लंकेसरु ॥ ६ ॥

४ P रणि दुद्धरेहिं. ५ AP जिणकमलंभोय°. ६ A राहें. ७ AP विवारियउं.

6 १ A सो. २ A जो. ३ उद्धयकेसरु.

6 b बाहु ल्लइं बाणैरार्द्राणि. 8 a संदेहि छूदु संदेहे पतितः. 12 b राहुं राहुणा; ससहरासु चन्द्रस्य. 13 अवहारिउं अवधारितं चित्ते धृतम्.

6 1 विडप्पु राहुः. 2 सुयवि ओइया सुतवियुक्ता सीता. 4 a जा यावत्; हिप्पइ आनीयते. 5 a सजीव जीवसहिताः; b छप्पण दीव रत्नद्वीपसुवर्णद्वीपलङ्काद्वीपप्रभृतयः. 6 b मणिगभत्थि मणिकिरणः. 7 b रामाहिराम स्त्रीणां मनोहरा. 9 a °णाय गजाः. 12 आवडइ आभासते; हरि सिंहः.

7

दुवई—सीयागुणविसेससंभरणचुयंसुयसित्तवसुमई ॥

उम्मोहिउ विओयविसघारिउ कह व णिवेहिं मेहिवई ॥ छ ॥

पियेविप्पओयकहमणिमण्णु	जांवच्छइ सेज्जायलि णिसण्णु ।
तावाय बेणिण खग विमलदेह	णं रामसासथिरकरणमेह ।
णं सीयामग्गपयासदीव	बेणिण वि पणवेप्पिणु थिय समीव । 5
संमाणिय हरिणा संणिसण्ण	सुहिदंसणरुहरोमंचभिण्ण ।
बोलाविय बेणिण वि दिव्वकाय	कहुं तुम्हई किं किर पत्थु आय ।
तं णिसुणिवि भासइ जेडु खयरु	खगदाहिणसेढिहि अत्थि णयरु ।
णामे किलिकिलु कलहंससहिय	जहिं विविहवास चोरारिरहिय ।
तहिं मेहु बलिंदु माणियपियंगु	तहु धण पियंगंसुंदरि पियंगु । 10
सामल सलोण उडुणिहणहालि	तहि पढमपुत्तु णामेण वालि ।
हउं लहुयारउ सुग्गाउदेव	अणवरउ करमि णियपियरसेव ।

घत्ता—ता तेत्थु मरंतें पुरि पिउणा वालि रज्जि वइसारिउ ॥

हउं जुवराणउ कउ मइ जर्णाणि दाइएण णीसारिउ ॥ ७ ॥

8

दुवई—सुणि रायाहिराय हे हलहर मंणिमयसिहरमंदिरे ॥

तित्थु जि रययसिहरि खगसेढिहि खणरुइकंतपुरवरे ॥ छ ॥

विज्जाहरु णामे अत्थि पवणु	लीलाणिहि वेयविजित्तपवणु ।
तहु अंजण मणरंजणवियार	महएवि वूढंसिगारभार ।
इहु मेरउ सहयरु गयगईहि	तहि जायउ गब्भि महासईहि । 5
पांडिउ पडु भडु विज्जाणिकेउ	जगि वुच्चइ एहु जि मयरकेउ ।
एक्कहिं दिणि कोक्किवि खयरलक्ख	एपं दिण्णी विज्जापरिक्ख ।

7 १ A वसुपई. २ P has ता before पिय°. ३ P °णिसण्णु. ४ A पडु. ५ AP पियंगु-सुंदरि. ६ A जणेण.

8 १ A रमणिगणदित्तमंदिरे; P रमणियसियमंदिरे.

7 3 a °विप्पओय° वियोगः. 4 b °सास°सस्यं उच्छ्वासश्च; °मेह मेघो मेघा च. 6 b °दंसण-रुह° दर्शनोत्पन्नाः. 7 b कहुं केषाम्. 9 b °वास आवासाः गृहाणि. 10 a महु मम पिता; मा णिय-पियंगु भुक्तप्रियाशरीरः; b धण भार्या; पियंगु प्रियङ्गुरिव श्यामा. 11 a उडुणि हणहालि नक्षत्र-सदृशनखपंक्तिः. 14 मइ जणणि मृते पितरि; दाइएण भ्रात्रा.

8 2 खणरुइकंत° विद्युत्कान्तम्. 3 b वेय° वेगः 5 a गयगईहि गजगामिन्याः.

गिरिसिहरि णिवेसिउ एक्कु पाउ
दीडुडु पसारिउ गयउ ताम
पुणु रूवु धरिउ तसरेणुमेत्तु
पेक्खिवि सहायसाहसु अभेज्जु
काले जंते तं हित्तु पुणु वि
गय बेण्णि वि जण माणिक्कचूड

अण्णेक्के दिण्णु उहंडवाउ ।
गयणंगणि सासि दिवसयरु जाम ।
अणुमेत्तु मिलिवि खयरेहिं बुत्तु । 10
वालें महु दिण्णउं जैउवरज्जु ।
आसंकिवि ते सहुं ण किउ रणु वि ।
संमेयजिणालउं सिद्धकूड ।

घत्ता—तसथावरजीवहं दय करिवि धम्मि थवेप्पिणु अप्पउ ॥

तहिं देहिदेहदुहणासयरु वंदिउ जिणु परमप्पउ ॥ ८ ॥

15

9

दुवई—जय देविंदचंदखयरिंदफणिंदणरिंदपुज्जिया ॥

जय णिट्ठवियदुट्ठकम्मट्टट्टारहदोसवज्जियां ॥ छ ॥

ण भोएसु कंखा

ण णिहा ण भुक्खा ।

ण तण्हा ण सोओ

ण राओ ण रोओ ।

ण चावं ण वेरी

ण ताणं ण मारी ।

ण कायं ण चेलं

ण सीसं सिहालं ।

ण णिंदा ण थोत्तं

ण मुद्दापवित्तं ।

ण हिंसाइ सग्गो

ण सोडालमग्गो ।

ण गोभूमिदाणं

ण वेओ पमाणं ।

ण चम्मसुत्तरीयं

ण जण्णोववीयं ।

उरे णत्थि सण्णो

मणे णत्थि दण्णो ।

पसूणंतयालं

करे णत्थि सूलं ।

सिरे णत्थि गंगा

जड्ढागोवियंगा ।

भवाणी ण देहे

रई णो संणेहे ।

पुरारी ण कामी

तुमं मज्झ सामी ।

15

२ P adds वि after अण्णेक्कु. ३ A जुउविरज्जु; P जुउवरज्जु.

१ AP °पुज्जिय. २ AP °वज्जिय. ३ AP पाओ. ४ AP तावं. ५ A ण कायं सुचेलं; P ण काये सुचेलं. ६ AP ण मुद्दा ण वित्तं. ७ A ण सो जण्णमग्गो. ८ AP ण वेउप्पमाणं. ९ A वंसुत्तरीयं. १० P जडग्गोवियंगा. ११ AP सणाहे.

8 b उहंडवाउ उहण्डपातः. 11 b वालें वालिना; जउवरज्जु यौवराज्यम्.

१ 4 b रोओ रोगः. 5 b ताणं हरवत्सृष्टिरक्षणम्. 6 a ण कायं सिद्धत्वादशरीरः; b सिहालं जटायुक्तम्. 7 b मुद्दापवित्तं मुद्रिकापवित्रीदर्मादिका. 8 a सग्गो स्वर्गः; b सोडालमग्गो कल्पपालमार्गः. 12 a पसूणंतयालं पशूनामन्तकालम्. 13 b जड्ढागोवियंगा जटायो गोपितशरीरा. 14 a भवाणी पार्वती. 15 a पुरारी त्रिपुरशत्रुः.

जिणो मोक्खहेऊ भवंभोहिसेऊ ।

घत्ता—जय परमणिरंजण जणंसरण वीयराय जोईसर ॥

अलि पत्थरि पाणिइ धम्मु णउ तुहुं जि धम्मु परमेसर ॥ ९ ॥

10

दुवई—दिणयरु हरइ तिमिरु सल्लिउ वि तिस खगवइ विसवियंभियं ॥

जिण तुह दंसणेण खणि णासइ गुरुदुरियं णिसुंभियं ॥ छ ॥

इय वंदिवि जिणवरु सेस लेवि

खणु पक्कु जाम तर्हि थक्क बे वि ।

ता तेयवंतु णं विञ्जुदंडु

णं सुरवरसरिडिंडीरपिंडु ।

वियडजडजूडु विवरीयवाणि

मणिरयणंकमंडलु दंडपाणि । 5

खणखणियमणियगैणियक्खसुत्तु

कोवीणकणयकाडिसुत्तजुत्तु ।

ससहरु व विसाहारूढगत्तु

असुरसुरसमरसंणिहियाचित्तु ।

सोत्तरियफुरियउववीयवंतु

ता दिट्ठउ णारउ गयणि पंतु ।

अरहंतु णवेप्पिणु सुहुं णिविट्ठु

अग्घहिं संभासणु करिवि दिट्ठु ।

तुहुं जाणहि णिसुयसुयंगरिद्धि

पुच्छिउ पावेसहुं किह सरिद्धि । 10

मुहुं वंकइ संकइ वालि कासु

को देसइ कुलरज्जावयासु ।

ता दाणवमाणवरणरण

विहंसेप्पिणु बोल्लिउं णारपण ।

घत्ता—भो खेयरपहु भूगोयरु वि धुउ तिजगुत्तमु भावहि ॥

सेवहि रामहु पयपंकयइं जइ तो कुलसिरि पावहि ॥ १० ॥

11

दुवई—अण्णु वि हरिणणयण णियपणइणि तासु दसासराइणा ॥

विरसियअमरडमरडिडिमरवरिउबहुतासदाइणा ॥ छ ॥

दुक्खेण ण याणइ दियहु रत्ति

जो दावइ कंतहि तणिय थत्ति ।

१२ P जगसरण.

10 १ AP विज्जदंडु. २ AP मणिरइय°. ३ A °गलियक्ख°. ४ A सहु. ५ A विहसेविणु.

18 पा णि इ जले.

10 1 ख ग व इ गरुडः; वि स वि यं भे यं विषविजृम्भितम्. 2 णि सुं भि यं चूर्णितं सत् नश्यति.

6 a ग णि य क्ख सुत्तु गणितजपमालः. 7 a वि सा हा रूढ ग तु विशाखानक्षत्रारूढश्चन्द्रः; पादुकारूढो नारदः. 13 खेयरपहु विद्याधरप्रभो.

11 1 द सा स रा इ णा दशास्येन रावणेन. 2 वि र सि ये त्या दि विशेषेण रसितः शब्दितः स चासौ अमराणां डमरो भयानको डिण्डिमरवः; तेन रिपूणां बहुप्रासदायिना.

सो जाणमि जिह भमरहु सुगंधु
लब्भइ मणोज्जकजेण कज्जु
तं णिसुणिवि आया पत्थु राय
ते णहयर पुज्जिय राहवेण
हणुमत्तं मग्गियपेसणेण
भो दसरहणंदण णंद णंद
णियरामालोयणकयपयत्त

तिह रामहु होसइ परमबंधु ।
सो देसइ तुंइ सुग्गीव रज्जु । 5
जलयग्गिसिगसंणिहियपाय ।
संभासिय तोसिय माहवेण ।
जंपिउ णवजलहरणीसणेण ।
मा झिज्जहि सज्जणकुमुयचंद ।
हउं आणमि सीयहि तणिय वत्त । 10

घत्ता—सुग्गीवहु मुहुं पप्फुल्लियउं मित्तवयणु पडिवण्णउं ॥
अहिणाणु लेहु अंगुत्थलउं रामे हणुयहु दिण्णउं ॥ ११ ॥

12

दुवई—ता णविउं पयाइं हलहेइहि णवदलणलिणणिहमुहो ॥
उल्लिओ णहेण पवणो इव चलगइ पवणतणुरुहो ॥ छु ॥
तओ तेण जंतेण दिट्ठो समुदो पधावंतकल्लोलमालारउहो ।
जलुम्मग्गणिम्मग्गबोहित्थवंदो अथाहंभपम्भारसंकंतचंदो ।
झसंप्फोडफुट्तंसिप्पीसमूहो णहुक्खित्तमुत्ताहलो भाणुरोहो । 5
दिसादुक्कणक्कुग्गयंतं करालो चल्लुप्पिच्छपल्हत्थवेलाविसालो ।
पवालंकुरुक्केरराहिल्लरूहो पगज्जंतमज्जंतमायंगजूहो ।
सुभीसो असोसो असेसंबुवासो विडिंदु व्व पीयाहरो ढंकियासो ।
सरीसंगतुंगत्तणालीढरिक्खो अलंकारओ कूलकीलंतजक्खो ।
करिंदो व्व गाढं गहीरं रसंतो अहिंदो व्व पायालमूले विसंतो । 10
णरिंदो व्व धीरो समज्जायवंतो रिसिंदो व्व अंतोमलं णिग्गहंतो ।
गिरिंदो व्व रेहंतमाणिकमोहो सुरिंदो व्व देवासिओ दिण्णसोहो ।

11 १ A °कजाण कज्जु. २ P तुम्हं. ३ A पफुल्लियउं; P पहुल्लियउं.

12 १ P has गउ before उल्लिओ. २ A झसुप्फाल°. ३ P चलप्पत्थ°. ४ A असेसो.
५ AP °रिखो. ६ AP वीरो.

6 b जल य गि सिग° मेघमस्तके. 7 b माहवेण हरिणा.

12 1 हलहेइहि हलप्रहरणस्य रामस्य. 4 a °बो हित्थ° नौः; b संकंतचंदो प्रतिबिम्बित-
चन्द्रः. 5 a झसंप्फोड° मस्त्यानामास्फालनं संघट्टः; °सिप्पी° शुक्तिका; b भाणुरोहो किरणरोधः.
6 a दिसादुक्कणक्कुग्गयंतं दिशासु ढौकितनक्कैरुक्कं भीष्मं अन्तं मध्यं यथा भवति तथा; b चल्लुप्पिच्छ-
पल्हत्थवेलाविसालो ऊर्ध्वोच्छलितव्याघुटितवेलाविसालः. 7 a °राहिल्लरूहो शोभमानतटः.
8 b पीयाहरो पीताधरः; अन्यत्र पीता व्याप्ता आसमन्ताद्वरा येन; ढंकियासो प्रच्छादितमुखः प्रच्छा-
दितदिशश्च. 9 a सरीत्यादि नदीसङ्गतुक्कवेन स्पृष्टनक्षत्रः; b अलंकारओ न विद्यते लङ्काया रदो विनाशो
यस्मात्. 12 a °मोहो °मयूखः °किरणः.

घत्ता—गंभीरु घोर आवत्तहरु लीलाइ जि आसंधिउ ॥
संसारु व परमजिणेसरिण सायरु हणुणं लंधिउं ॥ १२ ॥

13

दुवई—खेयरिचरणघुसिणमसिणारुणरयणासिलायलामलो ॥
दीसइ तहिं तिकूडु गिरि दरितरुवियसियकुसुमपरिमलो ॥ छ ॥

लंबंतरत्तपत्तोहतंबु	गुरुसिहरालिगियसूरबिंबु ।	
घेलापक्खलणविसट्टकंबु	किणरसुंदरिसेवियणियंबु ।	
णाइणिणेउरबहिरियदियंतु	णच्चियजक्खिणिरसभाववंतु ।	5
करिमयकहमखुप्पंतहरिणु	गुमुगुमियभंमिरिछच्चरणसरणु ।	
हिंडंतकालेणाहलकुडंबु	खेळंतसरहसरहससिलिंबु ।	
णउलउलफणिउलाढत्तसमरु	चमरीमयचालियचारुचमरु ।	
हरिकुंजरकलहकल्लवंतु	चुयरत्तलित्तमोत्तियफुरंतु ।	
दुमणियरगलियमहुंवारिथंभु	सबरीपरियंदणसुत्तडिंभु ।	10
हयमुंहुहकिलिकिचियसहरमु	महियरदुग्गमु णहयरहं गम्मु ।	

घत्ता—णावइ णिउणइ महिकामिणिइ एइ सग्गपँरिछंदहु ॥
गिरिणियकरु उब्भिवि णिहिय तहिं दाविय लंक सुरिंदहु ॥ १३ ॥

14

दुवई—परिहादारतोरणट्टालयधयजयलच्छिसंगमा ॥
लंकाणयरि दिट्ट हंणुमंतं मणिपायारदुग्गमा ॥ छ ॥

दीहत्तं बारह जोयणाइं	वित्थारं णव हियलोयणाइं ।
बत्तीस विसालइं गोउराइं	मोत्तियमरगयघडियइं घराइं ।
जहिं घुलइ रेणु कप्पूररेणु	सुरतरु तरु धेणु वि कामधेणु ।

७ AP आसंधियउ. ८ AP लंधियउ.

13 १ AP °भमिय°. २ AP हिंडंतकोल°. ३ AP संछाइयतरुदलसूरबिंबु. ४ A °किलाल-
वंतु. ५ AP °महुपाणथिंभु. ६ AP हयमुहि°. ७ पडिछंदहु.

14 १ AP हणवतं.

13 3 a °पत्तोहतंबु पत्रसमूहेन ताम्नः. 4 a °विसट्टकंबु °भग्नशंखः. 6 b °भमिरं पर्य-
टनशीलाः; °सरणु ग्रहम्. 7 a °णाहल° भिल्लाः; b °सिलिंबु °बालकः. 9 a °कलहकल्लवंतु
°कलहद्वारेण कलं मनोज्ञं आलपन् वदन्; b चुयरत्तं च्युतं रुधिरम्. 10 b °परियंदणं आन्दोलनम्.
11 a °किलिकिचियं सुरतशब्दः. 12 सग्गपँरिछंदहु स्वर्गस्य प्रतिबिम्बं एति. 13 गिरिणियकरु
गिरिरेव निजहस्तः.

वणु णहवणु वेह्लि वि णायवेह्लि
जरु विरहजरु जि णउ अत्थि अण्णु
घरु सिरिघरु चोरँ वि चित्तचोर
वउ णववउ रूवु वि णिरु सुरूवु
रिणु तिलरिणु बंधणु पेम्मबंधु
कामिणि खगकामिणि अलिवमालु
दीव वि जलंति माणिक्कदीव
गुणुं जिणगुणु धम्म अहिंसधम्म
किं वण्णामि भूमि वि भोयभूमि

रणु रहरणु भल्लि वि मयणभल्लि ।
बहुवण्णंचित्तु णउ चाउवण्णु ।
बज्झंति केस रोवंति मोर ।
रिसि खीणदेहु वम्महु विरूवु ।
जलु चंदकंतजलु दलु सुगंधु । 10
धूमु वि कालागरुधूमु कालु ।
जीव वि वसंति जहि भव्वजीव ।
फलु पुण्णफलु जि कम्म वि सुकम्म ।
सामि वि दहमुहु खयरायसामि ।

घत्ता—एक्केऊउ जो गुण संभरइ सो तहु अंतु ण पेक्खइ ॥ 15
जंगसुंदरत्तु लंकेहि तणउं कवणु कईसरु अक्खइ ॥ १४ ॥

15

दुवई—कलरवु रुणुरुणंतमाणिणिमुहमंडणु जणमणिट्टओ ॥

छडयणरूवधारि ता पावणि रावणभवणि पइट्टओ ॥ छ ॥

चक्केसरु वरलक्खणपसत्थु
णं गिरिसिहरासिउ णीलमेहु
चामीयरवीढि णिहित्तचरणु
विज्जिज्जइ चलचमरीरुहेहिं
गाइज्जइ सरगयभावएहिं
दीसइ णवकप्पहुमफलेहिं
मउडग्गरयणमहियललिहेहिं
चित्तइ मारुइ उव्विण्णचित्तु

दिट्टउ दहमुहु सीहासणत्थु ।
पण्णारहचावपमाणदेहु ।
बलवंतकालु बलहीणसरणु । 5
वण्णिज्जइ वरवंदिणमुहेहिं ।
सलहिज्जइ सुरणरसेवएहिं ।
माणससरवररत्तुप्पलेहिं ।
पणविज्जइ सुरवइसंणिहेहिं ।
हा पण णिहित्तं परकलत्तु । 10

घत्ता—एसज्ज एउं एवडु कुलु तो वि कैयउं सकलंकणु ॥

हयविहि सुवण्णभिंजारयहु खप्परु दिण्णउं ढंकणु ॥ १५ ॥

२ AP विरहजरु णउ. ३ A बहुवण्णु चित्तु गउ वाउवण्णु; P बहुवण्णु चित्तु णउ वाउवण्णु.
४ AP चोरु वि चित्तचोरु. ५ A णिरूवु. ६ A गुण जिणगुण. ७ AP जगि सुंदरत्तु.

15 १ A ओविण्ण°. २ AP वि हित्तउं. ३ P कयं सकलंकणु.

14 6 a णहवणु नखत्रणम्, न तु कस्य शस्त्रघातः. 9 a वउ वपुः वयो वा. 10 a तिल्ल-
रि णु स्नेहक्रणम्. 11 a अलिवमालु भ्रमरकोलाहलः.

15 1 जणमणिट्टओ जनमनसि इष्टः. 2 छडयणं भ्रमरः. 5 b बलवंतकालु बलवतां
यमः. 11 एसज्ज एउं ऐश्वर्यमेतत्; सकलंकणु सकलङ्कत्वम्. 12 ढंकणु आच्छादनम्.

16

दुवई—पुणु णिवसवणपूरकत्थुरियपरिमलगहणकुसलओ ॥

दहमुह देहि सीय मा णासहि णं गुमुगुमइ भसंलओ ॥ छ ॥

सो सइं जि कामु णं कामबाणु

कोमलकरयलवारिज्जमाणु

थणजुयलि णाहिमंडलि पुलंतु

कुडिलालयपंतितउ दरमलंतु

थिउ दारि सहइ णं इंदणीलु

थिउ उरि पियपहरकिणंकु णांइं

थिउ कण्णमूलि णं मम्मणाइं

थिउ उरुयलि सहइ सुराहि

तरुणीविंवाहरि दुक्कमाणु ।

चमराणिलेण पेरिज्जमाणु ।

पिंछहिं कवोलैपत्तइं दलंतु । 5

मुहकमलवांससासहु चलंतु ।

थिउ भालि गहियवरतिलयलीलु ।

थिउ मणि सरसरपुंखु व सुहाइं ।

बोल्लइ मणिर्याइं घणघणाइं ।

णं किंकिणि कामिणिमेहलाहि । 10

घत्ता—सो महुयरु वम्महु किं भणमि णारिहिं वयणंइं चुंबइ ॥

जाइवि खयरिंदहु रयणमइ कुंडलकमालि विलंबइ ॥ १६ ॥

17

दुवई—बुज्झिावि णयणवयणतणुलिंगहिं सीयारइवसं गयं ॥

दहवयणं विमुक्कणीसासरुहाणलतावियंगयं ॥ छ ॥

गउ अलि पुरपच्छिमगोउरग्गु

दिट्ठी वणासरि सहुं खेयरीहिं

वणु देइ ससाहिहिं रामविरहु

वणि लोहियाउ पत्तावलीउ

वणि पमयइं फलसारं गयाइं

वणि एत्तहि तेत्तहि वेल्लिवलय

वणि खेल्लइ हरिसिज्जइ वि हंसु

आरूढउ जोयइ वणु समग्गु ।

सीय वि परिवारिय खेयरीहिं ।

सीयहि पुणु वट्टइ रामविरहु । 5

सीयहि पुसियउ पत्तावलीउ ।

सीयहि झीणंइं सारंगयाइं ।

सीयहि थिय पसिडिल बाहुवलय ।

सीयहि वट्टइ जीवियविहंसु ।

16 १ P भसलुओ. २ A विंवाहरं. ३ A कवोलि. ४ AP °सासवासहु. ५ AP हारि. ६ A भाइ; P जाइ. ७ AP विहाइ. ८ AP मणियाइं व घण°. ९ AP वत्तइं.

17 १ P जोइय. २ P झीणाइं.

16 2 मा णासहि विनाशं मा गच्छ. 6 a कुडिलालयं कुटिलालकाः; b °सासहु °श्वासस्य. 7 b भालि ललाटे. 8 a पियपहरकिणंकु भर्तृकरदत्तनखकणिका; b सरसरपुंखु स्मरबाण-पुंखवत्. 10 a सुराहि सुशोभमानायाः.

17 2 °णीसासरुहाणलं निःश्वासोत्पन्नोऽग्निः. 4 a खेयरीहिं पक्षिणीभिः. 5 a ससाहिहिं स्वशाखाभिः; रामविरहु रामाणां स्त्रीणां विशिष्टं रहः प्रच्छादनमेकान्तं वा. 6 b पुसियउ परामृष्टाः. 7 a पमयइं मर्कटाः; b सारंगयाइं सारभूतशरीराणि. 9 b जीवियविहंसु जीवितव्यविध्वंसः.

वणि दिसमुहि सोहइ लग्गु तिलउ सीयहि णिडौलु णिलुहियतिलउ । 10
 वणि तरुवंदइं रुढंजणाइं सीयहि णयणइं विगयंजणाइं ।
 वणि साहारु जि मारइ पियत्थि सीयहि साहारु ण को वि अत्थि ।
 भडसत्ति व बलविहडणविसण्ण जहि अच्छइ परमेसरि णिसण्ण ।
 तं सीसवितलु खगभमरु आउ णं वइदेहीजीवियहु आउ ।
 घत्ता—पडिबिबिउ दहहिं वि पयणहहिं आसण्णउ परिघोलइ ॥ 15
 सो छप्पउ सीयहि कमकमलु पसरियपत्तहिं लोलइ ॥ १७ ॥

18

दुवई—सीयासावभाउ णं भीसणु णं हुयवहु समिद्धओ ॥
 असरिससुहडचक्कचूडामणि पावणि मणि विरुद्धओ ॥ छु ॥

सीयहि केरउ दुच्चरित्तरहिउं तणुच्चिधु पलोइवि रामकहिउं ।
 णियहियवइ चितइ अंजणेउ परणारिदेहिसंतावहेउ ।
 मैरु मारमि अज्जु जि रणि दसासु गालि लायमि कालेकियंतपासु । 5
 पइवय णीरय पइबद्धपणय वाणारसि पावमि जणयतणय ।
 णं णं हउं दूयउ राहवेण पट्टुविउ मज्जु किं आहवेण ।
 किंकरु पहुवयणुल्लंघणेण णिदिज्जइ हियकारि वि जणेण ।
 अक्खमि भत्तारहु तणिय वत्त मा मरउ महासइ चारुणेत्त ।
 इय चित्तिवि अवसरु मग्गमाणु जा णिहुयंगउ थिउ कुसुमबाणु । 10
 अत्थमिउ सूरु ता उइउ चंदु णं सीर्यहि दुहवल्लरिहि कंदु ।
 आपंहु गंडमंडलि घुलंतु तहु तेउ डहइ अग्गि व जलंतु ।
 अरुणच्छवि णं रामणहु कुद्धु णहसरि णं सियसररुहु विउद्धु ।
 अहवा लइ ससहरु किं ण चारु णहसिरिकरदप्पणु अमयसारु ।

३ AP णिलाडि. ४ P तें.

18 १ AP °भाव. २ A दुचरित्तु. ३ AP °देहु संताव°. ४ P पर. ५ AP कालकयंत°. ६ A सीयादुह°.

10 a दि स मुहि दिशामुखे. 12 a साहारु आम्रवृक्षः; पियत्थि प्रियार्थिनः; b साहारु साधारः धीरत्वदाता. 13 a बलविहडणविसण्ण बलस्य चातुरङ्गस्य बलभद्रस्य वा विघटनं वियोजनं वा. 14 a सीसवितलु शिशपावृक्षतलम्. 16 °पत्तहिं पक्षैः.

18 1 °सावभाउ °शापभावः. २ असरिस° अनुपमाः; पावणि हनूमान्. 6 a णीरय निःपापा; पइबद्धपणय पतिबद्धस्नेहा. 10 b णिहुयंगउ निभृताङ्गः. 11 b कंदु कन्दो मेघो वा. 13 a अरुणच्छवि उदये सति रक्तवर्णी भवति; b णहसरि नभःसरसि; विउद्धु विकसितम्.

मिगंमुद्दइ मुदिउं कंतिपिहु
मेहलियहि णं संतोसकारि

पियलेहहु केरउ णं करंहु ।
खेयरणाहहु णं पाणहारि ।

15

घत्ता—जणलोयणणियरणिवासघरु सुहणिहि अमयकलालउ ॥
ससि सीयं वि रामणतणु डहइ णं खयसिहिसिहमेलउ ॥ १८ ॥

19

दुवई— णं सहइ हसइ रसइ परु पुच्छइ माणिणिविसयसंगहं ॥

ढंइ दोसणिवहु गुण पयडइ अहणिसु करइ संकहं ॥ छु ॥

सिरु धुणइ कणइ णीसासु मुयइ
परिभमइ रमइ णउ कहिं मि ठाणि
णायणइ गेउ मणोज्जवज्जु
णउ णहाइ ण परिहइ दिव्वु वत्थु
णउ बंधइ णियसिरि कुसुमदामु
ण विलेवणु सुराहउ अंगि^३ देइ
णउ भूसइ तणु णउ महइ भोउ
जहिं जाइ तहिं जि सो सीय णियइ
अंधारण वि संमुहउं घडिउं
पाणिउं वि पियइ सो तहिं ससीउ
करदीवदित्तु उववणहिं चलिउ

सयणयलि पडइ अलियउं जि सुयइ ।
पियमित्तभवणि उज्जाणि जाणि ।
ण पउंजइ किं पि वि रायकज्जु । 5
णउ ढोयइ विविहाहारि हत्थु ।
णउ मणणइ खगकामिणिहिं कामु ।
विरहाउरु णउ अप्पउं विवेइ ।
णउ रुच्चइ तहु एकु वि विणोउ ।
वारिजइ दुक्की केण णियइ । 10
सीयहि मुहुं पेक्खइ दिसहिं जडिउं ।
परवसु वट्टइ वीसद्धगीउ ।
पियविरहहुयासें णाइं जलिउ ।

घत्ता—जहिं अच्छइ णियेडपरिट्टियउ अंजणतणुरुहु बालउ ॥

तहिं दहमुहु रइसुहु कहिं लहइ वम्महु जहिं पडिक्कलउ ॥ १९ ॥ 15

20

दुवई—अह अणुकूलु होउ मयरद्धउ सीयहि सीलदूसणं ॥

किज्जइ कहिं मि बप्प खज्जोणं किं रवियरविट्ठसणं ॥ छु ॥

थिउ सीयहि पुरउ खगिंदु केम

णियमरणभवित्तिहि जीउ जेम ।

७ A मृग°. ८ AP णं खेयरणाहहु. ९ A सीउ; P सीयलु.

19 १ A तसइ ण हसइ सरइ परु. २ A दिव्ववत्थु. ३ AP देहि. ४ A णियडि परि°.

15 a मि ग मुद्दइ हरिणलाञ्छनेन. 16 a मे ह लि य हि मैथिल्याः. 18 सी य वि शीतोऽपि; ख य सि हि-
सि ह मे ल उ प्रलयकालाग्निशिखामेलापकः.

19 1 ण सहइ अन्यं न सहते. 2 संकहं तस्याः समीचीनां कथाम्. 3 b सुयइ स्वपिति.
4 b जाणि वाहने. 8 b विवेइ वेत्ति जानाति. 12 a स सीउ शीतयुक्तं सीतायुक्तं च; b वीसद्धगीउ
दशग्रीवो रावणः

पभणइ सत्तमु दिणु जइ वि पत्तु
वित्थिण्णु मयरहरु कवणु तरइ
दुग्गमु तिकूडु गिरि कवणु चडइ
पायालपरिह जणजणियसंक
जइ चिंतहि कुलु तो तुहुं जि कासु
जइ चिंतहि परिहउ तो सलग्घु
जइ चिंतहि एवहिं रामपेम्मु
जइ चिंतहि सिरि तो हउं जि राउ
हलि वीणालाविणि मणविमहि

पिइ तो वि ण किं संवरहि चित्तु ।
तिमिगिलतंग्गिलगिलियंगु मरइ ।
कक्करि सयसकरु होवि पडइ ।
भूगोयरु पइसइ कवणु लंक ।
पोसिय जणपं जणवैयपयासु ।
हउं उत्तमु भुवणत्तइ महग्घु ।
तो तहु दंसणि तुह अण्णु जम्मु । 10
किं लग्गउ तुज्जु सइत्तवाउ ।
महएवि महारी होहि भइ ।

घत्ता—हलि सीय महारइ खग्गजलि आहंडलु वि णिमज्जइ ॥

आलिं गहि मइं सुललियभुयहिं रामे किं किर किज्जइ ॥ २० ॥

21

दुवई—करिसिररत्तलित्तमोत्तियणियरंचियकेसरालओ ॥

संतइ सीहि सीय ससहरमुहि किं रम्मइ सियालओ ॥ छ ॥

अच्छउ स रामु लक्खणु हयासु
किं किज्जइ चरणविहूसणत्तु
किंकरमहिलाहि किं तणुंगुणेण
महु दासि वि तुहुं महएवि होहि
उरयलु मेरउं लालउ विसत्थु
अणुवसहुं एहि महु पंजलीइ
महु खग्गघायलंछणहरेण
मा वहउ विणेउरु चरणजुयलु
धिय सइ णियपिययमलीणाचित्त

दसरहु वि महारउ ताम दासु ।
जइ लब्भइ हलि चूडामणित्तु ।
किं पाउयाहि मणिमंडणेण । 5
लच्छिहि पंतिहि कोप्परु म देहि ।
मा मुसलंकिणंकिउ होउ हत्थु ।
मा सलिलु वहहि फणिचुंभलीइ ।
खंडे रहुवइसिरखप्परेण ।
करमरि कालायसलोहणियलु । 10
उत्तरु ण देंति पहुणा पउत्त ।

घत्ता—पइं सीइ अज्जु तिलु तिलु करमि भूयहं देमि दिसाबलि ॥

पर पच्छइ दूसह होइ महुं विरहजलणजालावलि ॥ २१ ॥

20 १ A °तंगिल°. २ AP जणवए पयासु. ३ AP हलि अण्णु.

21 १ AP किं किर गुणेण. २ P मुसलु किणंकिउ.

20 4 a पिइ प्रिये सीते; संवरहि रामस्योपरि संकोचय. 5 b तिमिगिलेत्यादि तिमि-
र्मस्यविशेषः स गिल्यते येन स तिमिगिलः, सोऽपि गिल्यते येन स तद्विलः, नेन गिलिताङ्गः. 6 b कक्करि
गिरिदन्ते; सयसकरु शतखण्डः. 8 b जणवयपयासु लोकप्रसिद्धिः. 11 b सइत्तवाउ सतीत्ववातः.

21 2 संतइ सीहि सिंहे विद्यमाने सति. 8 a अणुवसहुं एहि निवासं कुरु. 9 a °लंछण-
हरेण चिह्नधरेण. 10 a विणेउरु विगतनूपुरम्; b करमरि हे दासि.

22

दुवई—ता मंदोयरीइ दिण्णुत्तरु जंपासि सुयणगरहियं ॥
किं तियसिंदवंदकंदावण रावण जुत्तिविरहियं ॥ छ ॥

हा पुरिस हुंति सयल वि णिहीण कामेण तइ वि ते खयहु जंति कहिं काइहि रत्तउ रायहंसु कहिं भूगोयरि कहिं खेरिंदु दीसइ विद्धंसियतिमिरवंदु महिलंतरु णर ण मुणंति किं पि ता णियघरु गउ लज्जिवि दसासु अवलोइय सीयाएवि ताइ णं विउसमईइ सुकईत्तलीलं ओलक्खिय पयजुयलंछणेण मंजूसइ सहं कथइ वणंति	घरघरिणि जइ वि उव्वसिसमाण । परघरदासिहि लग्गिवि मरंति । कहिं खरि कहिं सुरकरिहत्थंफंसु । 5 हा मयणजोग्गपरिणाणि मंदु । जिहं गंगहि तिह वाहलहि चंदु । कामुय करंति दुचरित्तु जं पि । मयसुय दुक्की जाणइहि पासु । णं जलहिवेल ससहरकलाइ । 10 णं स जि ताइ सुविसुद्धसीलं । जा चिरु घल्लिय णिंदिय जणेण । सरिसरसीयलसिंचियदियंति ।
---	---

घत्ता—हा अँघडिउं घडिउं विहायएण इंदीवरदलणयणहु ॥
आणिय सा मेरी एह सुय कालरत्ति दहवयणहु ॥ २२ ॥ 15

23

दुवई—जणणसुयाहिलासणियवइखयचिंतामउलियच्छिया ॥
मेइणियलि दड त्ति णिवडिय मंदोयरि दुस्संहदुक्खमुच्छिया ॥ छ ॥

पच्छाइय कामिणिकरयलोहिं विज्जियै पडिचमरुक्खेवपहिं कह कह व देवि सज्जीव जाय मुहकुहरहु वियलिय महर वाय	सिंचिय सुयंधसीयलजलेहिं । आसासिय चंदणलेवपहिं । भणु कासु अवंच्छल होइ माय । 5 हा सीय पुत्ति तुहुं महुं जि जाय ।
--	---

22 १ A °परियाणि; P °परिमाणि. २ A तिमिरचंदु. ३ P omits जिह. ४ P सुकइत्तणेण.
५ P adds after this: णं जिणवरधम्म अहिंसणेण. ६ P adds after this: णं सुरसरीइ मयर-
हरलील. ७ P अयडिउं.

23 १ A जणणि. २ A omits दुस्सह°. ३ AP विंजिय. ४ A ण वच्छल.

22 5 a का इ हि काकभार्यायाम्; b सुरकरिहत्थंफंसु पुरावणकरस्पर्शः. 6 b मयण जो म-
परिणाणि कामशास्त्रपरिज्ञाने. 7 b वाहलहि नगरजलवाहिन्याम्. 9 b मयसुय मयराज्ञः पुत्री मन्दो-
दरी. 10 a सीयाएवि सीतादेवी. 11 b स जि सा सीता एव. 14 विहायएण विधात्रा.

23 1 जणणसुयाहिलासं पितुः पुत्रीवाञ्छा.

हा विलसितं किं विहिणा खलेण वोलीणुं जम्मु दुक्कियफलेण ।
तुज्जुप्परि रत्तउ तायचित्तु हा दइवें विहुरंतरि णिहित्तु ।
इय सोयभावणिम्मोयणाइं बाहुल्लकणोल्लइं लोयणाइं ।
पेच्छिवि सीयाइ सँदुक्ख रण्ण मंदोयरिथणणीसरिउ थण्णं । 10

घत्ता—आसण्णइ थिइ विहवत्तणइ पंतउं सीयइ जोइउं ॥
थण मेल्लिवि रामणगेहिणिहि हारु व खीरु पंधाइउं ॥ २३ ॥

24

दुवई—णिम्मलसीलसलिलभरवाहिणि णिच्छहं णियंयदेहए ॥
जाणइं तेण सीयदुद्धोहें जिणपडिमं व्व रेहए ॥ छ ॥

तं किं सीयलु रहुवइअसंगि णिवडंतु दुद्धु सिमिसिमइ अंगि ।
खगवइकंतइ पुणरवि पवुत्तु मा इच्छहि पुत्ति पुलत्थिपुत्तु ।
हउं जणणि तुहोरउ जणणु एहु ता सीयहि रोमन्नियउ देहु । 5
वुत्तउं पइवयगुणदिण्णछाइ सच्चउं तुहुं मेरी माय माइ ।
सच्चउं दहमुहु महु होइ वप्पु णासिवि तहु केरउ दुव्वियप्पु ।
मइं पेसहि रामहु पासि ताम कुडि मेल्लिवि जाइ ण जीउ जाम ।
जणणीइ पबोल्लिउ रामरामि कुरु भोयणु पुत्तिइ मज्झखामि । 10
आहारें अंगु अणंगधामु अंगे होंतें पुणु मिलइ रामु ।
इय भणिवि देवि गय णियणिवासु हियवउ हरिसिउं अंजणसुयासु ।
महिवइभिच्चहं घल्लिवि रउइ चेषण चण्पति महंत णिइ ।
समरंगणि णिज्जियअरिवरेण लहुं धरिउ वाणरायारु तेण ।

घत्ता—अविहियण्णहाणहि णिरु णिरसणहि मल्लिणहि मइलियवत्थहि ॥
सो सीयहि रोमविओइयहि गंडयलासियहत्थहि ॥ २४ ॥ 15

१ AP विहिणा कि. ६ A वोलीणजम्मि; P वोली गुजम्मि. ७ AP बाहुल्लकणोल्लइं. ८ A सदुक्खरण्णु;
P सदुक्खु रण्णु. ९ AP थण्णु. १० P जोइयउं. ११ P पंधाविउं.

24 १ AP णिच्छह. २ A णियइ. ३ AP सित्त तेण दुद्धोहें. ३ A जिणपडिविव.
४ A तुहारी. ५ P रामविलइयहि.

1) a °णिम्मो यणा इं निर्गतमोदानि हर्परहितानि; b बाहुल्लकणोल्लइं बाष्पकणार्द्राणि. 10 b थण्ण दुग्धम्.
.1 विहवत्तणइ विधवात्वे.

24 1 णिच्छह निःस्पृहा निजशरीरंऽपि. २ जाणइ सीता; सीयदुद्धोहें श्वेतदुग्धप्रवाहेण.
3) a रहुवइअसंगि रात्रवस्थासंगं सति. 4 a खगवइकंतइ मन्दोदर्या. 8 b कुडि शरीरम्.
1) a रामरामि हे रामभार्ये. 15 गंडयलासियं गण्डतलाश्रितः.

25

दुवई—लकखणु पेकखमाणु भारहियहि सणियं पयइं देंतओ ॥

दुकरई कइवरिंदु तहि णियडइ कइगुण अणुसरंतओ ॥ छ ॥

पत्तलवट्टुलयरतंबकणु

णवकणयकंजकिंजकवणु ।

सिहिविष्फुलिंगबलपिंगलच्छु

णीरोमभउहु लंबंतपुच्छु ।

संसिकंतिवंततिक्खग्गदंतु

कयकरजुयलंजलि बुक्करंतु । 5

अवलोइउ देविइ पमउ पंतु

थिय अग्गइ पयपंकय णमंतु ।

तेणंबहि दाविउ दइयणेहु

सहुं अंगुत्थलियइ धित्तु लेहु ।

परमेसरि मइं रंजियमणासु

परियाणहि पुत्तु पहंजणासु ।

रामहु दूयउ हणुवंतणामु

विज्जाहरु वरु वीसमउ कामु ।

तुह विरहझीणु मायंगगामि

पइं सुमरइ अणुदिणु रामसामि । 10

घत्ता—णउ बोलइ ण परिग्गहि रमइ का वि णारि णालोयइ ॥

जोईसरु सासइ सिद्धि जिह तिह पइं पइं णिज्जायइ ॥ २५ ॥

26

दुवई—दहमुहकुइयचित्तु अवलोयइ असिझसपरुसपहरणं ॥

लकखणु खणु वि माइ णउ मेल्लइ तुह कमकमलसुंयैरणं ॥ छ ॥

ता सीयइ च्चित्तिय णियमणेण

णिल्लक्खण हउं किं लकखणेण ।

महु हयरामहु कहि मिलइ रामु

कहिं वाणरु कहिं भत्तारु णामु ।

कहिं वाणरु कहिं भिच्चत्तु पत्तु

आलिहियउं कहिं आणियउं पत्तु । 5

परिचिंतिवि महु भोयणउवाउ

रिउरइउ एहु मायासहाउ ।

जाणिवि वइदेहिहि अंतरंगु

पुणु भासइ सुइसुहयरु अणंगु ।

सुणि रामदूउ हउं कह ण होमि

गूढइं अहिणाणवयाइं देमि ।

25 १ A सणियइं. २ A दुक्कउ. ३ P °पुंछु. ४ AP ससिकंतकंति. ५ A तेणं तहिं.

६ AP दाविय°. ७ A हणुमंतु; P हणुवंतु. ८ P पइं पणइणि झायइ.

26 १ AP °परसु°. २ A सुमरणं. ३ AP भत्तारं. ४ P परिचित्तइ. ५ P आणिवि.

25 1 भारहियहि भरतनामजनकस्यापश्यं भारतिः तस्याः सीताया वाण्याश्च; सणियं शनैः.
2 कइवरिंदु कविर्वानरश्च; कइगुण कविगुणान् कपिगुणांश्च. 3 a °वट्टुलयर° बर्तुलतरौ. 6 a पमउ
प्रमूगो वानरः. 9 b वीसमउ विंशतितमः. 12 पइ पतिः.

26 1 °कुइय° कुपितम्. 2 °सुंयरणं स्मरणम्. 4 a हयरामहु हतरमणीयतायाः.
8 b अहिणाणवयाइं अभिज्ञानपदानि.

पक्कहिं दिणि पइं किउ पणयकोउ
वलउल्लउ चँपिउं सहुं करेण

छिंकिउं राहवु अणुहुत्तभोउ ।
पइं णिद्धणाहणेहायरेण ।

10

घत्ता—द्वारावलि धणयलि संजमिय णयणइं वि सताधिच्छइं ॥
पइं वियसियकुसुमइं सिरि कयइं पईजीवियणेवत्थइं ॥ २६ ॥

27

दुवई—णियंघइ चित्ति धंरिवि पसरियजसु कउं मिसु णिसुउ रहुसुभो ॥
मंदिरपंजरत्थु जयजीवरवेण पसाइओ सुभो ॥ छ ॥

अभणंतिइ रहुपहुजीयभहु
थिरु चियँउ ससवणि कणयवत्तु
णासाणालिहि परिमलु पियंतु
फलघणंथणाउ अंकुरणहाउ
पल्लवकराउ महुरत्तियाउ
तइयहं तुह मणं ईसांविहिण्णु
परिहिउ पणामवित्थारएण
परिपालियधम्मसउच्चसच्च
करपल्लवेण पियलेहु गहिउ
मणु पसरइ कर पसरंति णेयं
दूरत्थ वि गाढउं देवि खेमु
मणवासिणि दहरहरायंसुण्हि

पणु रइउ तिलउ कुंकुमरसहु ।
जइयहुं थिउ पिउ उववणि रमंतु ।
दल्लेवल्लहलउ वेल्लिउ णियंतु । 5
फुल्लंधयलीलालयसुहाउ ।
णावइ वसंतरायहु तियाउ ।
णाइद्धउ कंचुउ दइयदिण्णु ।
फुट्टं पुलएं मँरुआरण ।
ता सीयइ बुज्झिउ रामभिच्चु । 10
मेल्लेप्पिणु वाइउ कवडरहिउ ।
को जाणइ दुज्जयकम्मभेय ।
णियकुसलवत्त हउं कहमि रामु ।
लइ सव्वु चारु सरयंदंजोण्हि ।

घत्ता—धीरी होज्जसु हलि जणयसुए भडरणरंगि भिडेप्पिणु ॥

ढोपवी तुहुं महुं बंधविण दससिरसीसु खुडेप्पिणु ॥ २७ ॥ 15

६ A छक्किउ; P छिक्किउ. ७ A चंपिउ. ८ P पयजोवियं.

27 १ A णियपइ. २ P वरिवि. ३ AP पसाहिओ. ४ A अभणंति परहु. ५ A थवियउ; P थविय. ६ हलवेल्लिहलउ; P दल्लेवल्लहलउ. ७ AP घणघणाउ अंकुरहणाउ. ८ AP फुल्लंधयणीला-लयमुहाउ. ९ AP मणु. १० P ईसांविहिल्ल. ११ A परिहिउ. १२ P वित्थारएण. १३ A एण. १४ A सुण्ह. १५ A जुण्ह.

11 स ता वि च्छइं सकज्जलानि कृतानि. 12 प इ जी वि य णे व त्थ इ अविधवाभूषणानि.

27 1 णि य व इ निजपतिः रामः; कउं मिसु रामचन्द्रे मङ्गलशब्दोच्चारणव्याजः कृतः; णिसुउ नृपु मध्ये श्रुतो विख्यातः; पक्षे नि अतिशयेन सुअ हे सुत. 2 पसाइओ सुओ संभूषितः शुक्रः कीरः. 4 a चियउं स्थापितम्; ससवणि स्वकर्णे. 5 a णासाणालिहि नासा एव नालिका तथा; b वेल्लहलउ कोमलाः. 6 b फुल्लंधयलीलालयं भ्रमरसदृशाः अलकाः तैः सुखाः शुभा वा. 7 b तियाउ स्त्रियः. 8 b णा इद्धउ न परिहितम्; दइयदिण्णु भर्तृदत्तम्. 11 मेल्लेप्पिणु उद्घाट्य. 13 a खेमु आलिङ्गनम्.

28

दुवई—अणुदिणु लच्छिणाहु पई सुमेरइ तसियकुरंगलोयणे ॥
 श्नायवि तिजगसामि णिवसिज्जसु कइवय दियह पँरयणे ॥ छ ॥
 तूँसेप्पिणु सीयइ अहुईउ ता कउ अंगुलियाहिं अंगुलीउ ।
 कइ पुच्छिउ लंघियविउलखयलु तेण वि अक्खिउ वित्तंतु सयलु ।
 विण्णविय देवि लइ भत्तु पाणु विणु तेण ण थक्कइ मणुयप्राणुं । 5
 तं तासु वयणु पडिवणु ताइ गउ पावणि सूरुग्गामि पहाइ ।
 सीयासुंदरिहि खगोयरीइ उवयरिउं चारु मंदोयरीइ ।
 अइरावयलीलागामिणीहिं मज्जणउं भरिउं खगकामिणीहिं ।
 पल्लत्थियाइं तत्तइं जलाइं किं तावियाइं जइ णिम्मलाइं ।
 णियकुलु वि डहइ णिग्घिणु हुयांसु कइ खमइ विवक्खहि जणियतासु 10
 तिलमुक्के तेह्लें मुक्केस विणु तिलसंबंधें सुहि वि वेसँ ।
 किं पुणु धम्मिल्लय कुडिलभाव हरिणीलणील हयभमरगाव ।
 ग्रत्ता—सण्हइं चोक्खइं ससहरसियइं राहवजससंकासइं ॥
 दीहरइं सुविउलइं सुहयरइं देविहि दिण्णइं वासइं ॥ २८ ॥

29

दुवई—थिय परिहिवि मयच्छि ण पसाहणु गेण्हइ पियविओइया ॥
 ताव रसोइ सव्व तहिं आणिय मंदोयिर पैराइया ॥ छ ॥
 वंदिइं जिणि मणि समसुहपयट्टि आसीण भडारी रयणपट्टि ।
 कलहोयथालकच्चोलेपत्त णं धरणिवीढि णक्खत्त पत्त ।
 उण्हण्हउं दिण्णउं पढमपेउ णं दाविउ दहँमुहि विरहवेउ । 5
 णं तिकखु मिट्ठु मलदोसणासु णं भासिउं परमजिणेसरासु ।
 पुणु दिण्णइं णाणासालणाइं णं दहमुहरइआसालणाइं ।
 आणेप्पिणु घल्लिउ दीहु कूरु णं दहँमुहि सीयाभाव कूरु ।
 दोइयइं ससूवइं रसवहाइं णं दहँमुहि सीयारइवहाइं ।
 उवणिय घियधार महासुयंध दहँमुहि सीयादिट्टि व सुअंध । 10

28 १ A सुअरइ. २ A परवणे; P परियणे. ३ P रुसेप्पिणु. ४ AP मणुअपाणु. ५ AP add after this: आहारें अंगु अणंगधामु, अणें होतें पुणु मिलइ रामु. ६ A हयासु. ७ AP सेस. ८ A दीहयरइं.

29 १ A परिहवि. २ AP पराणिया. ३ AP वंदिवि जिणि मणि. ४ AP घित्त. ५ A दहमुहं.

28 1 त सिय कुरंगलोयणे चकितहरिणलोचने. 2 परयणे परजनमध्ये. 3 a अहुईउ अद्वितीयम्. 6 b पहाइ प्रभाते. 10 a णियकुलु काष्ठम्. 11 b वेस द्वेषः.

29 1 पसाहणु कुक्कुमकर्पूरचन्दनादिमण्डनम्. 2 पराइया प्रेषिता. 3 a समसुहपयट्टि समतासुखप्रवर्तके. 7 b रइ आसालणाइं रत्याशावन्धनानि. 9 a ससूवइं शोभना दालिविशेषा रसयुक्ताः. 10 b सुअंध अतिशयेनान्धा.

णिण्णेहवंतु णिरु मंदु तक्कु
उवणिउ माहिसु दहि थंहु गव्वु
उवणिउ बहुविहु बोराइपाणु
अइसरसइं भक्खइं चक्खियाइं
कइकव्वु व कयमत्तापवाणु
अच्चवियउं पुणु मुद्धहि विहाइ

णं दहंमुहि सीयामणवियक्कु ।
णं दहंमुहि सीयामाणगव्वु ।
णं दहमुहरमणहु कोसपाणु ।
णं दहंमुहि सर सइं भक्खियाइं ।
भोयणु भुत्तउं खीरावसाणु । 15
पाणिउं दिण्णउं दहमुहहु णाइ ।

घत्ता—पूयफलेण सच्चुण्णएण पत्तगुणेण समग्गउ ॥

तंबोलराउ रामु व सइहि छज्जइ अहरविलग्गउ ॥ २९ ॥

30

दुवई—इय भुंजेवि भोज्जु भूमीसुय सीलगुणंबुवाहिणी ॥

थिय णंदणवणंति सीसंवतलि सीरहरस्स गेहिणी ॥ छ ॥

पत्तहि हणुंमंतु वि पत्तु तित्थु
हा सीय सीय सकलुणु कंणंतु
बोलाविउ मारुइ तं कयत्थु
भणु किं दिट्ठउं सिसुहरिणणेत्तु
किं मुच्छिउ णिवडइ जीवचत्तु
तं णिसुणिवि हणुएं उत्तु पव
दिट्ठउ रावणु णं कलिकयंतु
दिट्ठी मंदोयरि पिउ चवंति
अवरु वि दिट्ठउं आरामहंतु

अच्छइ दुग्गंतरि रामु जेत्थु ।
णियकरयलेण उरु सिरु हणंतु । 5
मउडग्गचडावियउंहयहत्थु ।
किं णउ कुमार मेरउं कलत्तु ।
किं महुं विरहें पंचत्तु पत्तु ।
दिट्ठी जाणइ जीवंति देव ।
सीयहि सकामवयणाइं देंतु ।
देविहि हियउल्लउं संथवंति । 10
उप्पण्णउं चक्कु पहांफुरंतु ।

घत्ता—सिरिमंतु सरूवु वि दहवयणु सीयहि मणु णासंघइ ॥

भरहुप्परिगामिय तेयणिहि पुप्फयंतं को लंघइ ॥ ३० ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए

महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सुग्गीवहणुवंतकुमारागमणं

सीयादंसणं णाम तिसत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७३ ॥

६ A थहुगव्वु. ७ P कोराइपाणु. ८ A कइमत्तावपाणु; P कयमत्तापमाणु. ९ AP अंचवियउं.

30 १ P सीसवयलि. २ A हणवंतु. ३ A रयंतु. ४ A उभयहत्थु. ५ AP महाफुरंतु.
६ AP सरूवु. ७ P पुप्फयंतु. ८ A हणवंतकुमारागमणं णाम तिहत्तरिमो.

12 गव्वु गव्यम्. 13 a बो रा इ पा णु बदराश्लिकादिपानम्. 14 b सर कामानुबद्धवचनादीनि स्मर-
सुखानि वा. 15 a मत्तापवाणु मात्राप्रमाणम्; b खीरावसाणु दुग्धपानमवसाने कृतम्. 16 a अच-
वियउं हस्तमुखप्रक्षालनम्. 17 पूयफलेण पूयफलेण पवित्रफलेण च.

30 २ सीरहरस्स हलधरस्य रामस्य. 5 a कयत्थु कृतार्थः कृतप्रयोजनः. 11 a आरामहंतु
आराभिर्महत् चक्रम्. 12 णासंघइ न आश्रयति नाकलयति नानुरञ्जयति च. 13 पुप्फयंत चन्द्रसूर्यौ.

परहु ण देइ मणु अवसें मउलइ सकलंकहो ॥
फुलइ पउमिणिय करफसें कहिं मि मियंकहो ॥ ध्रुवकं ॥

1

हेला—सीयादेवि देव दीहुण्ह णिससंती ॥

सुंअरइ तुह पयाइं भत्तारभत्तिवंती ॥ छ ॥

सिरि व उर्विदहु	सरि व समुंहहु ।	5
मेत्ति व णेहहु	मोरि व मेहहु ।	
भमरि व पोमहु	संति व सोमहु ।	
करिणि व पीलुहि	करंहि व पीलुहि ।	
विउसि व छेयहु	हरिणि व गेयहु ।	
णववणकंतहु	जेव वसंतहु ।	10
सुअरइ कोइल	धीरत्तें इल ।	
जिणंगुण जाणइ	तिह तुह जाणइ ।	
तुह सा राणी	खंतिसमाणी ।	
भव्वहं रुच्चइ	खणु वि ण मुच्चइ ।	
लक्खणच्चितइ	वहुजसवंतइ ।	15
वरक्खिवित्ति व	धम्मपवित्ति व ।	
समसंपत्ति व	साहसथत्ति व ।	
कुलहरजुत्ति व	जिणवरभत्ति वं ।	
णिरु परलोइणि	तुह सुहदाइणि ।	
सा आणिज्जइ	रिउ मारिज्जइ ।	20

घत्ता—विरहहुयासहउ पियवत्तइ सुइवहदुक्कइ ॥

वियसिउ रामदुमु णं सित्तउ अमियंझलक्कइ ॥ १ ॥

1 १ A मयंकहु. २ P adds after this : महि व णरिदहु, सह व सुरिदहु. ३ A मित्तेव.
४ A सोमहु. ५ AP हिरि व मुसीलहि. ६ AP णववहुकंतहु. ७ AP read *a* as *b* and *b* as *a*.
८ A °जसवंतिइ. ९ AP °कइ°. १० AP add after this : सज्जणमेत्ति व. ११ AP अमय°.

1 1 परहु चन्द्रस्य रावणस्य च; मउलइ संकुचति. 7 *b* संति शान्तिः. 8 *b* करहि व पीलुहि उष्ट्रीव पीलुवृक्षस्य. 9 *a* छेयहु छेकस्य चतुरस्य. 10 *a* णववणकंतहु नवीनवनेन कान्तस्य मनोहरस्य वसन्तस्य कोकिला यथा स्मरति. 11 *b* इल भूमिः. 12 *b* जाणइ जानकी. 15 *a* लक्खणच्चितइ लक्ष्मणचिन्तया, पक्षे व्याकरणचिन्तया. 22 विरहहुयासहउ विरहाग्निना दग्धः; सुइवहदुक्कइ कर्णमार्गं प्राप्तया. 23 अमियंझलक्कइ अमृतधारया.

2

हेला—गाढालिंगिऊण रामेण पवणपुत्तो ॥

सीयासंगमो व्व हरिसेणेव बुत्तो ॥ छ ॥

तुह समु किं भण्णइ अवरु णरु
तुहु मुहुं मणकमलहु दिवसयरु
जलु थलु णहयलु तुह गम्मु जहिं
तहिं अवसरि रूसिवि अतुलवलु
बलएवहु पायपोमु णवइ
मइ रवियरदारियतिमिरबलि
जइ सायरु सलिलु दुग्गु कमइ
तो कुंडलमंडियगंडयलु
तुह गेहिणि देमि समेइणिय

अंजणिसुय तुहुं सुहिविहुरहरु ।
विरहावडणिवडणधरणतरु ।
वण्णेव्वउं सब्बु समत्तु तहिं । 5
सिरिणाहें जोइउ भुयजुवलु ।
कोवारुणच्छु लंक्खणु चवइ ।
हणंवंतु णेइ जइ गयणयलि ।
जइ लंकाणयरिणियडि थवइ ।
तोडेपिणु दहमुहसिरकमलु । 10
णच्चावमि विडुंर डाइणिय ।

घत्ता—दे आपसु महं सरं करउ गमणु साहेज्जउं ॥

कंताहरणरुहु फेडमि अज्जु जि वयणिज्जउं ॥ २ ॥

3

हेला—ता सीराउहेण उवसामिआं अणंतो ॥

णं केसरिकिसोरओ रोसविप्फुरंतो ॥ छ ॥

भडयणु णिहिलु वि ओसारियउ
सउंवाउ अवाउ सहाउ धणु
आरंभ कम्मफलसिद्धि किह
तं णिसुणिवि मंगलेण कहिउ
दुग्गासिउ बलवंतु वि विजइ

पंचंगु मंतु अवयारियउ ।
मंतिउ महं किं वहरिहिं वलु कवणु ।
किह दइवु हवइ भणु मुणिउं जिह । 5
णिव णिसुणि मंतु विगईरहिउ ।
खगराउ तिखंडधराहिवइ ।

2 १ AP हरिसेण एम बुत्तो. २ AP अंजणसुय. ३ A धरणि. ४ A माहउ; P माहडु.
५ P हणुवंतु. ६ T डावर भयानकं संग्रामो वा; विडुर इति पाठेऽप्ययमेवार्थः. ७ AP सरु.
८ AP कंताहरणु रूहो.

3 १ A सउवायउ चाउ सहाउ वल. २ AP महं वहरिहि कवणु वलु.

2 २ हरिसेणे ष बुत्तो हणंण एवमुक्तः. 4 b बिरहेत्यादि विरहकूपपतनधरणवृक्षः. 5 b समत्तु
समाप्तम्. 6 b सिरिणाहे लक्ष्मणेन. 7 a बलएवहु बलमद्रस्य रामस्य. 9 a कमइ उत्तरयति.
11 a समेइणिय मेदिनीसहिता; b विडुर भयानका. 12 सर स्मरो हनुमान्. 13 ८हु उत्पन्नम्.

3 1 सीराउहेण हलायुधेन रामेण; अणंतो लक्ष्मणः. 4 a सउवाउ अवाउ उपायसहितोऽ-
पायः. 6 a मंगलेण मङ्गलनाम्ना मन्त्रिणा; b विगईरहिउ अन्यथात्वरहितः.

जइ सीय देइ राणि णब्भिडइ
तं^३ विहसिवि सुग्गीवें भणिउं
हणुवंतु सहाउ हउं वि पबलु
विज्जउ पहरणइं वि चिंतियइं
हलहर तुहुं राणउ देव जहिं
धुउं लक्खणहत्थें रिउ मरइ
भो मंगल मा किं पि वि भणहि

तो भल्लउं महु मणि आवडइ ।
पइं रावणजीविउं किं गणिउं ।
हरि पुण्णवंतु चालइ अचलु । 10
होहिंति मंतंविहिमंतियइं ।
पडिक्खु पसंसिउ काइं तहिं ।
णिहइवहु दुग्गु काइं करइ ।
तहु चक्कु कालचक्कु व गणहि ।

घत्ता—तेण जि तासुं सिरु छिंदेव्वउं राणि गोविंदें ॥
दिणयरि उग्गमिइ किं पयडिज्जइ चंदें ॥ ३ ॥

15

4

हेला—उत्तं रामसामिणा जइ अहं महंतो ॥
लच्छीहरपसाहिओ पउरपुण्णवंतो ॥ छ ॥

णियदुउ तो वि तहु पट्टवमि
णिय सो किं देइ ण देइ वहु
भणु कवणु वओहरविहिकुसलु
सुग्गीउ कहइ रिउछिंदणहु
गुणवंत अत्थि णैर धरणियर
सुकुलीणु अदीणु दीणसरणु
एक्किंउं भल्लउ सेल्लवहि
सूहउ सूरुउ गंभीरु थिरु
णिट्टरहं वि उप्पाइयपणउ
किं वण्णमि सहयरु अप्पणउ
ता रामें संचियणेहरसु
सुग्गीउ बंधु बुद्धिइ गहिउ

उप्पिच्छु समत्थु व णिट्टवमि ।
पेक्खहुं किं बोल्लइ पुहइपहु ।
जिणवरचरणारविंदभसलु । 5
जेट्टहु दससंदणणंदणहु ।
ते जंति ण खे ण होंति खयर ।
अग्गि व सीहु व दूसहफुरणु ।
राणि सरजालंचियसदिसवहि ।
पडिवण्णसूरु तेयंसि णिरु । 10
हियमियमहुरक्खरजंपणउ ।
दूयत्तजोग्गु अंजणतणउ ।
पुरिसुण्णउ पोरिसकणयकसु ।
विज्जाहररायत्तणिं णिहिउं ।

घत्ता—बंधिवि पट्टु सिरि हणुवंतु कियउ सेणावइ ॥

15

जोत्तिउ दूयभरि पुणु सो जि धवलु णिहयावइ ॥ ४ ॥

३ AP ता. ४ P मंत तिहि. ५ A ध्रुवु. ६ P तासु जि सिरु.

4 १ AP जइ वि अहं. २ AP किं सो. ३ A णरवरणियर. ४ AP एकल्लउ. ५ AP विहिउ.

8 a णब्भिडइ इ युद्धं न करोति. 11 b ° मंति यइं °मन्त्रितानि आराधितानि. 15 तेण तेन चक्रेण.

4 3 a उ प्पि च्छु सैन्येन सह उच्छ्रितः; णि ट्ट व मि मारयामि. 4 a व हु सीता. 5 a व ओ हर °
वचोहरो दूतः. 9 a सेल्लवहि भल्लधारके. 10 b पडिवण्णसूरु अङ्गीकृतवस्तुनि सुभटः; तेयंसि
तेजस्वी. 13 b पुरिसुण्णउ पुरुषेषु मध्ये उन्नतो महान्; ° कणयकसु °सुवर्णकषोपलः. 16 जोत्तिउ
युक्तः; णि ह या व इ निहतापदः.

5

हेला—दिण्णा राहवेण हणुयस्स खयरंगया ॥

रविगयंविजयकुमुयपवणवेयया सहाया ॥ छ ॥

गरुयारइ मंतिकज्जि थविउ
जापज्जसु भवणु विहीसणहु
बोल्लेज्जसु मिट्टुउ किं पि तिह
जइ सामे देइ ण दहवयणु
अमँहँहुं विवरोक्खइ आवडिय
अण्णाणे रइरहसेण णिय
गोधिदमुक्कगुणमग्गणहिं
सोणियजलासित्तच्छंसहिउ

बलँहँहे मारुइ सिक्खविउ ।
परिपालियखत्तियसासणहु ।
अण्णावइ सीयाएवि जिह । 5
तो पुणु भणु दँहुं चंडवयणु ।
ललियंग त्रिसवित्तिहि चडिय ।
भण्णइ अप्पिज्जउ रामपिय ।
दारियसरीरु सँहुं ससयणहिं ।
मा होहि कयंतणयरपहिउ ॥ 10

घत्ता—बोल्लिउ लक्खणिण सूर्ये सीय वसुंधरि ढोयवि ॥

जइ दहमुहु जियइ तो जीवउ किंकरु होइवि ॥ ५ ॥

6

हेला—अहवा जइ ण देइ तो जाई किं जियंतो ॥

मइ कुज्जेण हणुय णउ हणइ कं कयंतो ॥ छ ॥

तेलोककचक्कजुरावणहु
जइ तिण्णि वि एयउ देइ णउ
जइ जुज्जइ तो कालाणलहु
पेसमि दहगीउ ण दूय जइ
तो हँलि हरि जयकारिवि चलिउ
तारावलिहारावलिउरहि
पंविमलपसण्णदिसवयणियहि
आहँडलधणुउप्परियणहि
णहलच्छिहि उवरि देँतु पयइ

इय जाइवि साहहि रावणहु ।
तो तासु महु वि किर संधि कउ ।
जइ णासइ तो पुणु काणणहु । 5
रहुवइपयजुवलु ण णवमि तइ ।
तणुभूसणमणियरसंवलिउ ।
उत्तुंगहि तुंगपयोहरहि ।
चंदक्कमणोहरणयणियहि ।
रंजियविज्जाहरगणमणहि । 10
पडिसुहडँहं संजणंतु भयइ ।

घत्ता—संखपंतिदसणु वडवाणलजालाकेसरु ॥

वेलापुंळचलु मणिगणणहु सीहु व भासुरु ॥ ६ ॥

5 १ AP खयरयाया. २ AP रविगइ°. ३ P कुमुयवलवेयया. ४ AP बलभँहे. ५ A भुवणु.
६ AP चंडदंडवयणु. ७ A अमँहँ. ८ A ललियंगि. ९ A सुहुं सज्जणेहिं. १० P omits छत्त.
११ A सिय; P सीय.

6 १ P किं जाइ. २ AP हरि हलि. ३ AP °सुहडँहुं णं जणंतु.

5 3 b मारुइ हनुमान्. 7 a विवरोक्खइ विपरोक्षे. 10 b °पहिउ पथिकः.

6 4 a तिण्णि वि एयउ श्रीः, सीता, भूः; b कउ कुतः. 13 मणिगणणहु रत्नान्येव
नखा यस्य.

7

हेला—गंभीरो सरमेरउ गीढमयरमुद्दो ॥

मारुहणा तुरंतेणं लंघिओ समुद्दो ॥ छ ॥

भुवणंतरालि विक्खायपण
 तिसिहरंगारिणालें उद्धरिउ
 छुहधवलट्टालविउलदलु
 देउलहंसावलिपरियरिउ
 कामिणिमुहरसमयरंदरसु
 रावणरवियरवियसावियउ
 विन्थारियकोसु सुभुयंगपिउ
 णहि जंतु जंतु मारुहभसलु

दीहें जलणिहिसरजायपण ।
 पायोरकणिणयापरियरिउ ।
 लच्छीमंजीररावमुहलु ।
 कणयालयकेसरपिंजरिउ ।
 जसपरिमलपूरियगयणदिसु ।
 देवाहं वि भल्लउं भावियउं ।
 कह णिउणें विहिणा णिम्मविउ ।
 संपत्तउ तं लंकाकमलु ॥

5

10

घत्ता—जोयवि कुसुमसरु णारीयणु असेसु वि खुद्धउ ॥

कंपइ णीससइ हसइ व बहुणेहणिवद्धउ ॥ ७ ॥

8

हेला—कंदप्पं सुरुविणं णिएवि चित्तचोरं ॥

कां वि देइ सकंकणं चारुंहारदोरं ॥ छ ॥

क वि जोयइ दिट्ठिइ मउलियइ
 क वि च्चलियकडक्खहिं विवैलियइ
 काहि वि गय तुट्ठिवि मेहलिय

गुरुयणि सलज्जदरमउलियइ ।
 क वि वियसियाइ क वि विलुलियइ ।
 क वि मुच्छिय धरणीयालि घुलिय ॥ 5

7 १ AP समेरउ; K सरमेरउ but records a *p*: अथवा समेरउ समर्यादः; T सरमेरउ जलमर्यादः, अथवा समेरउ समर्यादः. २ AP गाढमयरसद्दो. ३ A णिसियर°. ४ A पायालें. ५ AP °हंसावलिपंडुरउ; K पंडुरिउ इत्यपि पाठः. ६ A कणयालयकेसरि°. ७ A विन्थारिय°.

8 १ AP का वि हु देइ. २ P चीरुहार°. ३ A गुरुयण°. ४ P विवालियइ.

7 1 सरमेरउ जलमर्यादः; गीढमयरमुद्दो न्यस्तमकरमुद्रः. 4 a तिसिहरं त्रिकूटः; b पायारकणिणयां प्राकार एव कर्णिका. 5 b मंजीरं नूपुरम्. 6 b कणयालयं सुवर्णगृहम्. 11 खुद्धउ क्षोभं प्राप्तः.

8 1 णिएवि दृष्टा. 3 a मउलियइ मुकुलितादिदृष्टीनां लक्षणं यथा । हिययन्भन्तरणिन्भरपहरिस-परिपेह्लिया य जा दिट्ठी । परिमउलियवित्थारा मउला णामेण सा दिट्ठी ॥ १ ॥ जारुहणिन्भरा वियसिऊण पियदिट्ठिवंचणपयट्ठा । तहंसणे सलज्जा लुलई मरुओ व्व सालु लिया ॥ २ ॥ गुरुयणपुरओ लज्जकुसेण करिणि व्व रुद्धसंचारा । जा घोलइ पियहुत्तं कडक्खवलियत्ति सा दिट्ठी ॥ ३ ॥ 5 a मेहलिय कटिमेखला.

काहि वि रइजलझलक झलियँ
 काइ वि थणजुयलउं पायडिउं
 क वि भणइ पैहु हलि दूउ जहिं
 सइ सीय भडारी वज्जमिय
 हलि एहु वि पेच्छिवि पुरिसवरु
 पायगें जइ थणग्गु छिवइ
 तो हउं सर्कयथी जगि जुवइ
 अप्पाणु परु वि ण सच्चंवइ

क वि उरयलु पईणइ झिंदुलिय ।
 काहि वि परिहाणु झत्ति पडिउं ।
 केहउ सो होही रामु तहिं ।
 ण सइत्तणावत्ति अइकमिय ।
 जइ कह व महारउं एइ घरु । 10
 तंबोलु वि जइ उप्परि धिवइ ।
 क वि पेम्मपरव्वस मूढमइ ।
 हा मुईय मुइय जणवउ चवइ ।

घत्ता—कामु हरंतु मणु पुरवरणारीसंघायहु ॥

वलइयउच्छुधणु गउ भवणु विहीसणरायहु ॥ ८ ॥

15

9

हेला—णियकुलकुमुयससहरो मुणियरायणाओ ॥

आओ तेण मण्णिओ अंजणंगजाओ ॥ छु ॥

रयणुज्जलु आसणु घल्लियउं
 पाहुणयवित्ति णिस्सेसं कय
 किं किज्जइ किं किउ आगमणु
 गुणवंतु भत्तिभाउंभवउ
 पइं जेहउ माणुसु जासु धरि
 लइ पत्थु विहीसण दोसु ण वि
 पत्थहि पउलत्थि देउ तरुणि

मणहारि समंजसु बोल्लियउं ।
 पुच्छिउ कहिं अच्छिय कहिं वि गय ।
 तं णिसुणिवि पभणइ रइरमणु । 5
 णयवंतु संतु महुरुल्लवउ ।
 किं सो लग्गइ परघरिणिकरि ।
 कालिंदिसालिलणिहदेहछवि ।
 पायालि म णिवडउ णिक्कराण ।

घत्ता—गिरि गिरिययसरिसु गोप्पउ जासु रयणायरु ॥

10

तें सहं कवणु रणु किं करई गव्वु तुह भायरु ॥ ९ ॥

५ AP गलिय. ६ A पहरइ. ७ A हलि एहु. ८ AP सकियथी. ९ A संभरइ.
 १० AP मुयइ मुयइ.

9 १ AP णीसेस. २ A भाउत्तमउ. ३ A पहुलच्छि देव. ४ P गोप्पउ व जासु. ५ A करइ
 तुहारउ भायरु.

6 a ° झलक धारा; झलिय सुता; b झिंदुलिय कामविहला. 7 a पायडिउं प्रकटितम्. 9 a वज्ज-
 मिय वज्जघटिता. 10 a पुरिसवरु कामदेवरूपो हनूमान्.

9 1 ° रायणाओ ° राजनीतिः. 5 b रइरमणु कामो हनूमान्. 8 b कालिदि° यमुना.
 9 a पत्थहि त्वं प्रार्थय; पउलत्थि पौलस्त्यो रावणः; देउ तरुणि सीतां ददातु. 10 गिरिययो कन्दुकः;
 गोष्पउ गोष्पदम्.

10

हेला—दिट्टादिट्टकट्ट पट्टवउ रामणारी ॥

णहयरणाहमउडि मा पडउ पलयमारी ॥ छ ॥

अज्ज वि णारूसइ दासरहि
चउरासीलक्खधरायरहं
आहुट्ट ताउ गयणेयरहं
अज्ज वि खुब्भांत ण नुंवबलइं
अज्ज वि अप्पावहि सीय तुहुं
मा डज्जउ लंक सतोरणिय
सरधोरणे गोविंदहु तणिय
मा रिट्टु रिट्टुलोहिउं रसउ
रायाणुपण ता भासियउं
मज्जत्थु महत्थु सच्चवयणु
पइं मेल्लिवि को वि बुहाहिंवइ

अज्ज वि ण खुहइ लक्खणउवहि ।
कोडिउ पण्णास भयंकरहं ।
बलवंतहं बहुपहरणकरहं । 5
दुल्लंघइं पडिबलघंघलइं ।
मा पइसउ बंधउ जमहु मुहुं ।
मा णिवडउ उयरवियारणिय ।
दुद्धरधणुगुणरवण्णण्णणिय ।
मा कालकियंतु मासु गसउ । 10
पइं चारु चारु उवएसियउं ।
पइं मेल्लिवि को सुपुरिसरयणु ।
को जाणइ पही कज्जगइ ।

घत्ता—इय संसिवि सुयणु पोरिसकंपवियसुरिंदहु ॥

गंपि विहीसणेण दाविउ हणंवंतु खगिंदहु ॥ १० ॥

15

11

हेला—णविऊणं दसासणं तरुणिहिययहारी ॥

आसीणो वरासणे कुसुमबाणधारी ॥ छ ॥

पभणइ पहु जडकोड्ढावणिय
हा कट्टु कट्टु कणएं जडिउ
कहिं तुहुं कहिं सो तुह सामि हुउ
अह एण वियारें काइं महुं
तं णिसुणिवि पावणि पांडलवइ
भो पुष्पविमाणपुष्पभमर

किं विहिय सेव रामहु तणिय ।
माणिकु अमेज्जमज्जि पडिउ ।
भणु को ण विहाणवसेण चुउ । 5
आओ सि काइं कहि कज्जु लहु ।
विणंओणयसिरु पुणु पुणु भणइ ।
भो सुरसुंदरिघल्लियचमर ।

10 १ P णिवबलइं. २ P कालकयंतु. ३ AP हणुवंतु.

11 १ AP °कोडावणिय. २ A कज्ज. ३ A विणएं णयसिरु.

10 1 दिट्टादिट्टकट्ट दृष्टमदृष्टमनुभूतं कष्टं यया. 2 °मउडि मुकुटे. 3 b लक्खणउवहि लक्ष्मण एव समुद्रः. 5 a आहुट्ट अर्धचतुर्थाः; गयणेयरहं खेचराणाम्. 6 b °घंघलइं विज्जप्रायाणि. 10 a रिट्टु काकः; रिट्टु° रिष्टो रावणः कृष्णवर्णत्वात्.

11 3 a जडकोड्ढावणिय जडानां कौतुकोत्पादिनी रामसेवा. 4 a कट्टु कट्टु कणएं जडिउं निन्द्यं काष्ठं सुवर्णेन जटितम्. 5 b विहाणवसेण विधिवशेन. 7 b विणओणयसिरु निन्दयनममस्तकः.

भो मंदरसुंदरकयभवन
भो देव दसास दसासगय-
लक्खणदामोयरणमियकमु
जसु णामं संकइ विसमु जउं
तें तुज्झ पांसि हउं संपहिउ

भो महिहरकंपावणपषण ।
जसंधवलियजग रयणियरधय । 10
अट्टमु हलहरु रणरसविसमु ।
किर कवणु गहणु तहु देव हउं ।
इय साहर सो विणपं साहउ ।

घत्ता—आणिय सीय जइ तो णत्थि दोसु पुणु दिज्झइ ॥

हरिविक्रमहरिणा सहं उरियं संधि रइज्झइ ॥ ११ ॥

15

12

हेला—आरूढो गयाहिवे मोरु कुल्लमगं ॥

को मग्गइ रयंधओ एलैयाण दुग्गं ॥ छ ॥

सायर किं मज्जायहि सरइ
जइ दीवउ अंधारउ करइ
जइ तुहुं जि कुकम्मइं आयरहि
तो कासु पासि जणु लहइ जउ
अण्णु वि णाणाविहदुक्खभरु
तं णिसुणिवि लंकेसरु भणइ
महु किंकरु ताव पढमु जणउ
तहु दिण्णी हउं किं^१ किर खममि

महिवइ किं अण्णणारि हरइ ।
तो किं पाहाणखंडु फुरइ ।
मणु कुवहि वहतउं णउ धरहि । 5
जहि रक्खणु तहि उप्पणु भउ ।
परहरु इहरत्तपरत्तहरु ।
को रंडकहाणियाउ सुणइ ।
पुणरत्रि दसरहु दसरहतणउ ।
घरलंजिय सीय किं^३ ण रममि । 10

घत्ता—पुव्व पउत्त महु पच्छइ रहुणाहहु दिण्णी ॥

सो छिदिवि मृगेणं मइं आणिय णयणरवण्णी ॥ १२ ॥

13

हेला—मइं चित्तेण छित्तिया कह अणुहवइ रामो ॥

हो हो मयरंकेउणा एत्थुं णत्थि सामो ॥ छ ॥

४ A सुंदरमंदर^०. ५ P भमण. ६ AP जगधवलियजस. ७ AP पासु.

12 १ AT एडयाण. २ AP किर किं. ३ AP ण किं. ४ P मिगेण.

13 १ AP मयरंकेउणो. २ A इत्थ णत्थि; P इत्थ अत्थि.

9 a मंदरसुंदरकयभवन मन्दरे सुन्दराः कृता आवासा येन. 10 a-b दसासेत्यादि दशसु दिक्षु गतेन यशसा धवलितं जगद् येन. 13 b विणपं साम्ना. 15 हरिविक्रमहरिणा सिंहपराक्रमेण रामेण.

12 1 गयाहिवे गजाधिपे. 2 को मग्गइ को मयूरं मृगयते; रयंधओ पापान्धः कोपान्धो वा; एलयाण दुग्गं छालकानां विषमं गङ्गुरकाणां दुग्गं च मृगयते स गङ्गुरकैः कृत्वा स्वस्य रक्षां बाञ्छति. 3 a सरइ चलति. 7 b परहरु परकलत्रम्. 10 b घरलंजिय गृहदासी. 12 छिदिवि छल्यित्वा.

13 1 छित्तिया स्पृष्टा. 2 मयरंकेउणा त्वया कामेन सह.

जं चंगउं तं^३ तं अवठवइ
मणिकारणि मुहि कवलउ अहि वि
सयडंगु वि मग्गइ एउ खलु
पुरि मग्गउ लग्गउ मज्झु रणि
तं णिसुणिवि सुंहु दुग्गुंछेयउं
णउं हसिउं देव पइं मणियउं
सूर्यं सीय वसुंधरि देइ जइ
सो लिहियउं तुह रूवु वि पुसइ
हरि केव वि^१ अमहइं उवसमहुं

किंकरु सुद्धत्तणु दक्खवइ ।
जइ मग्गइ तो मग्गउ महि वि ।
सो संपहि वट्टइ वूढल्लु ॥ 5
किं^२ अच्छइ तहिं हिंडंतु वणि ।
दूएण राउ णिभंछियउ ।
केसवजंपिउं णायणियउं ।
परमत्थे इच्छइ संधि तइ ।
णियभायहु उवरोहें सहइ । 10
लंकाउरि णेय अइकमहुं ।

घत्ता—मुइ मुइ एह तं^४ सुंहिणेहें कहइ कइद्धउ ॥

रावण वहइ पइं रणरंगि जणदणु कुद्धउ ॥ १३ ॥

14

हेला — ताव णिकुंभ कुंभ खरदूसणा विरुद्धा ॥

हणुंहणुसद्दारुणा मारणावलुद्धा ॥ छ ॥

फोवारुणयण भणंति भड
मयरद्धय धुवु लज्जइ रहिउ
खज्जाएं किं रवि ढंकि यउ
किं भमरें गरुहु झडप्पियउ
जेणेहउं बोह्हि मुक्ख तुहुं
तुहु एक्कु सहाउ बीय पिसुणु
ते लक्खण राम दसाणणहु
तो हरिणा इव चुक्कंति कहिं
तहिं पत्तलु दलु पइं किं थविउं
तो रामहु तुम्हहं तं सरणु

गोशाल बाल दहमूढ जइ ।
किं झंखहि णं जंरण गहिउ ।
किं सायरु गरुलें पंकि यउ । 5
किं दहमुहु अण्णे चंपियउं ।
फोडिज्जइ तेरउ दुद्ध मुहुं ।
सुग्गीउ वालिपावियवसणु ।
जइ कमि पडंति पंचाणणहु ।
वाएण जंति गिरिवर वि जहिं । 10
जइ पयजुयलउं देवहु णाविउं ।
णं तो आयउं एवहिं मरणु ।

घत्ता—हणुएं बोह्लिउं रणु घरि बोह्लंतहं चंगउं ॥

भडकलयलकलहि पइसंतहिं कंपइ अंगउं ॥ ४ ॥

३ A तं तं अल्लवइ; P तं जि अवठवइ. ४ AP कहिं अच्छइ. ५ P सुद्धदुग्गुं. ६ A जणहसिउ.
७ AP सिय. ८ AP लुहइ. ९ A वियमइं. १० AP तिय. ११ सुहिणिहे.

14 १ हणहणसहें. २ AP गरुलें. ३ AP चप्पियउं.

3 a अवठवइ अवस्थापयति राज्ञो निमित्तं धरतीत्यर्थः. 5 a सय डंगु शकटाङ्गम्; b वूढल्लु धृतबलः
वञ्चनं वा. 12 कइद्धउ हनूमान्.

14 5 a खज्जाएं खद्योतेन; b पंकि यउ दूषितः.

15

हेला—धणुजुत्ता भडा वि गजंति जेम मेहा ॥

तेम ण ते भिडंति वरिसंति सवणदेहा ॥ छ ॥

चिरु रिक्खपंतिसंणिहणहहि
सरु ससरि तिविट्ठे समरि हउ
जिह सो तिह तुहुं वि अणंगवसु
दहवयण मरेसहि आहयणि
सीहा इव कुडिलचहुंलणहर
गजंतु पंतु तिणसमु गणित
दुक्कह सयलहं सीसइं खुडमि
ता भासितु मगपयासणेण
हम्मइ ण दूउ जंपउ विरसु
असिसंकडि धणुगुणरवमुहलि

रत्तउ हयगीउ सयंपहहि ।
मुउ सत्तमणरयहु णवर गउ ।
लक्खणसरकड्डियरुहिररसु । 5
रइ किं ण करहि मेरइ वयणि ।
ता उट्टिय खग हलमुसलकर ।
मारइणा सुहडसत्थु भणित ।
तडिदंहु व पहुउप्परि पडमि ।
अंतरि पइसेवि विहीसणेण । 10
जाणेसहुं पोरिसु कणयकसु ।
रिउहक्कारणमारणतुमुलि ।

घत्ता—राएं भासियउं मा मेरउ विहि विहरेज्जसु ॥

राहवलक्खणहं संदेसउ एम कहेज्जसु ॥ १५ ॥

16

हेला—सरणं सुरवरस्स पइसरइ जइ वि कामं ॥

तो वि अहं हणांमि सहुं किंकरेहिं रामं ॥ छ ॥

धुवु पावमि भुक्खिउ कालेकलि
लक्खणहु सुलक्खणु अवहरमि
णयरिउ मंदिराणाज्जियससिउ
भइरुहिरमहासमुदि तरमि
खलणीलहु णीलउं सिरु लुणमि
दसरहदसप्राणइं णिट्ठवमि

तिलमेत्तइं खंडइं देमिं बलि ।
बंदिग्गहि पुहंइदेवि धरमि । 5
गेण्हिवि कोसलवाणांरसिउ ।
सुग्गीवहु गीवभंगु करमि ।
कुमुयहु कुमुयप्पएसु वणमि ।
जणयहु जिउ जमपुरि पट्ठवमि ।

15 १ °चवल°; P °चदुल°. २ AP वि रहेज्जसु.

16 १ AP सुरवइस्स. २ P हणेमि. ३ P कालु कलि. ४ AP देवि. ५ A छुहिवि बे वि.
६ AP बाराणसिउ. ७ A °पाण विणिट्ठवमि; P° पाण वि णिद्वमि.

15 २ सवण देहा सवणदेहा: सजलदेहाश्च. ३ a रिक्ख पं ति सं णि ह ण ह हि नक्षत्रपंक्तिसदृश-
नखायाम्; b सयंपहहि स्वयंप्रभायाम्. 6 a आहयणि संग्रामे. 11 b जाणे सहुं ज्ञास्यामः. 13 मा
मेरउ वि हि वि हरेज्जसु विधि: कर्तव्यं मा गोप्यं कुरु.

16 1 कामं अतिशयन. 4 b पुहइ देवी पृथ्वीदेवी सीता. 7 a णीलउं कृष्णकेश-
युक्तम्; b कुमुअप्पएसु नाभिकमलप्रदेशाम्. 8 b जिउ जीवः.

कुंदहु कुंदाहं अट्टियं	जाणेज्जसु एवहिं णिट्टियं ।	
कडुमि जंघाणलवस णलहु	दोइवि छुहियहु ढंढरउलहु ।	10
हणुमंत तुज्जु हणु गिद्ध जिह	भक्खंति हणमि संगामि तिह ।	
जज्जाहि मित्तं मोक्कलियउ	ता पावणि णहयलि चलियउ ।	
ता चित पइट्ट विहीसणहु	को चुक्कइ कम्मंहु भीसणहु ।	
परमेसरु अद्धधरत्तिवइ	मारेव्वउ लक्खणेण णिवइ ।	
तहु दुम्मणु मुहुं अवलोइयउं	अप्पउं पहुणा पोमाइयउं ।	15
घत्ता—सभरह एंतु खल महु ते कुमुणियदप्पहु ॥		
पुष्कयंत गयणे किं ^१ संमुहु थंति विडप्पहु ॥ १६ ॥		

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
महाकइपुष्कयंतविरहए महाकव्वे हणुमंतदूर्यगमणं
णाम चउहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७४ ॥

८ AP णेय वि. ९ A हणवंत. १० P मित्त तुहुं मोक्कलियउ. ११ A कम्मविहीसणहु. १२ AP कुमुणि
व कंदप्पहो; T कंदप्पहो कामस्य. १३ A कह संमुह थंति; P किं सम्मु थंति. १४ AP दूर्यकजं.

10 a जंघाणलवस जंघानलिकायाः वसाम्; b छुहियहु बुभुक्षितस्य; ढंढरकुलहु राक्षससमूहस्य.
16 सभरह भरतेन लघुभ्रात्रा; एंतु आगच्छन्तु; कुमुणियदप्पहु कौ पृथिव्यां मुनितो ज्ञातो दर्पो यस्य.
17 विडप्पहु राहोः.

पवणंजयसुयद्दु समागमणि णं हरि हरिहि समावडिउ ॥
रहुवइआपसें कुइयमणु लक्खणु वालिहि अब्भिडिउ ॥ धुवकं ॥

1

हणुणण णवेप्पिणु भणिउ रामु
दहवयणु ण इच्छइ संधि देव
सामहु णामें जो वेउ सामु
तं णिसुणिवि रोमंचिउ उविंदु
रणि मारमि दससिरु कुंभयणु
असिधारइ दारमि कुंभिकुंभु
जीवावहाँहं खरदूसणाहं
पहरंति केम हत्थंप्पहत्थ
मारीयउ मारिहि देमि गासु
विद्धंसंमि इंदइइंदजालु
पेच्छेसहुं कइवयवासरेहिं

भो णिसुणि भडारा हित्तरामु ।
पर गज्जइ जिह वीहंति देव ।
सो णायणणइ वण्णेण सामु । 5
गलगज्जइ हसियमुहारविंदु ।
वैणि लोहिउ दावमि कुंभयणु ।
दलवट्टमि म्म त्ति णिकुंभु कुंभु ।
दारैमि उरु रहुवइदूसणाहं ।
मइं मुक्कसरावलिछिण्णहत्थ । 10
मउ णिम्मउ रणि कासु वि खगासु ।
अरिपुरु पलित्तु लग्गगिजालु ।
परबलु पच्छाइउ महु सरेहिं ।

घत्ता—मइं कुइं राहव सो जियइ जो तुह पयपंकय णवइ ॥

तुहु देव पयावँपसरतसिउ रवि वि णिरंतरु णंउ तवइ ॥ १ ॥ 15

2

तहिं अवसरि आयउ वालिदूउ
तें वुत्तु देव अविलंबधाम
खेयरचूडामणिघंडियपाउ

वइसारिउ कज्जालाव इंडु ।
सीयासइवल्लह णिसुणि राम ।
अट्टंगु णवइ तुह वालिराउ ।

1 १ A वणलोहिउ. २ AP जीवावहार. ३ A दावमि कयरहु°; T उरु महान्वक्षस्थलं वा.
४ AP हत्थावहत्थ. ५ A विद्धंसिवि. ६ A इंदइ इंदजालु; P इंदहो इंदजालु. ७ A पयावइसरतसिउ.
८ AP णवि.

2 १ AP भूउ. २ A तो वुत्तु. ३ A अविलंबधाम. ४ A °चूलामणि°. ५ AP °घिडुपाउ.

1 1 हरि सिहः. 2 कुइयमणु कुपितमनाः. 3 b हित्तरामु दृता रामा सीता येन स रावणः.
5 a सामहु इत्यादि सामस्य नाम्ना सामवेदस्यापि नाम नाकर्णयति. 6 a उविंदु लक्ष्मणः. 7 b कुंभ-
यणु कुम्भैरणनीयम्. 9 b उरु महान् वक्षःस्थलं वा. 12 a इंदइ इंदजालु इन्द्रजितः इन्द्रजालम्;
b लग्गगिजालु लग्गामिज्वालम्.

2 3 a घडियपाउ °आरोपितपादः.

अण्णु वि विण्णवइ पडुल्लवत्तु
तो णिद्धाडहि सुग्गीव हणुय
णिवडंतु कूवि तिण्णधारि पडइ
गरुपं सहुं जायइ विग्गहेण
तुह विरहखीण गुणवंत संत
दासरहि पजंपइ लंक जाव
मयगिल्लंगल्लु मित्तत्तइउ
पच्छंइ जं इच्छइ तं जि करमि

घत्ता—लंइ इच्छउं केर महुंतणिय कुंजरु ढोइवि गिरिसरिसु ॥
इय भासिवि रापं पेसियउ सहुं तहु दूपं णियपुरिसु ॥ २ ॥

जइ इच्छहि मेरउं किंकरत्तु ।
रणभरु सहंति किं बालतणुय । 5
णंगोहविलंबिरु उदु चडइ ।
विहडिजइ हीणपरिग्गहेण ।
मारेप्पिणु रामणु हरमि कंत ।
महुं समउ खगाहिउ एउ ताव ।
करिवरं महामेहक्खु देउ । 10
अहुणा तहु सुक्किउ काइं सरमि ।

3

किलिकिलिपुंरु पत्तउ दिट्ठु वालि
मंतं पवुत्तु भो सच्छवित्त
तूसंति राय सुद्धं मणेण
जेणाहवखंधेइ भग्गएण
महुं भीएं कौउ किंकिंधि वासु
कंडुयणि होइ पंडुरियं रेह
जुज्जेसइ सीरि सिलिम्मुहेहिं
मग्गणउ धम्मु गुणु मुइवि जाइ
इय चित्तिवि बोळिउ रायमंति
देसइ खयराहिउ असिपहारु

घत्ता—ता झ त्ति वओहरु णीसरिउ आँविवि कण्णविवरक्खरउ ॥
आहासइ बलणारायणहं रिउदुब्बयणपरंपरउ ॥ ३ ॥

तेयाहिउ णं चंडंसुमालि ।
करि ढोइवि करि पडुसमउं जत्त ।
ता भणइ वालि संथुउ अणेण ।
कायरणरमग्गविलग्गएण ।
हा रामे पोसिउ पक्खु तासु । 5
मणंगूढहु केरिय वित्ति एह ।
अणउत्तु वि जाणिजइ बुहेहिं ।
सुग्गीवहु हणुयहु उवरि थाइ ।
भण्णइ ण देइ सो तुज्जु दंति ।
तोडेसइ पइ सुग्गीवहारु । 10

६ A तणुवारि; P तणुधारि. ७ P णंगोहि. ८ A दीण°. ९ A °गिल्लगिल्लमित्तत्त°. १० AP करि-
वरु वि महा°. ११ P पेच्छइ. १२ A लइ इच्छउ; P सहं इच्छउ.

३ १ P °पुरि. २ A खंधे. ३ A किउ. ४ P पंडुरिव. ५ A मणगूढहं केरी; P मणमूढहं
केरी. ६ A अणुउत्ति. ७ P आयण्णिवि कण्णविवरक्खरउ; T सुइविवर° श्रोत्रानिष्ट.

4 a पडुल्लवत्तु प्रफुल्लवदनः. 6 a णि वडंतु इत्यादि कूपे पतन् तृणधारी तृणावलम्बकः पुमान्यतत्येव;
वटवृक्षावलम्बकः पुनरुध्वै चटति. 10 b देउ ददातु. 11 b सुक्किउ उपकारः; सरमि स्मरामि.

३ 2 जत्त यात्रा गमनम्. 4 a आहवखंधेइ संग्रामधुरायाम्. 8 a मग्गणउ बाणो याचकश्च.
11 वओहरु दूतः; कण्णविवरक्खरउ श्रोत्रानिष्टाक्षराः दुर्वचनपरंपराः.

4

ता चिंताविउ मणि रामपउ
 एक्कु जि रवि अण्णु जि गिंभयालु
 एक्कु जि हरि अण्णु जि पक्खरालु
 एक्कु जि विसिं अण्णु जि सविसदिट्ठि
 एक्कु जि दहमुहु दुद्धरु विरुद्धु
 मित्तयणु खीणु बलवंत सत्तु
 विरइज्जइ एवहिं कवणु मंतु
 ता विहसिवि बोलइ वासुपउ
 केसरिकिसोरु किं मृगं छिवंति
 असमंजसु सज्जणपाणहारि
 सुहडत्ताणंदियसुरवॅरालि

एक्कुं जि सिहि अण्णु वि वायवेउ ।
 एक्कु जि तमु अण्णु जि मेहजालु ।
 एक्कु जि जमु अण्णु जि पुण्णकालु ।
 एक्कु जि सणि अण्णु जि तहिं मि विट्ठि ।
 अण्णेक्कु तहिं जि बलिपुत्तु कुद्धु । 5
 पाणिट्ठु सुट्ठु हित्तउ कलत्तु ।
 णउ कुसलकारि एक्कु वि जियंतु ।
 किं दीव जिणंति दिणेसतेउ ।
 ते जगि जियंति जे पइं णवंति ।
 परमेसर पच्छा कोवकारि । 10
 अच्छउ रावणु ता हणमि वालि ।

घत्ता—मइं कुइइ रणंगणि ओत्थरिण भीरु महागिरिकंदरहु ॥
 मा चित्तिहि राहव किं पि तुहुं सूर जंति जममंदिरहु ॥ ४ ॥

5

ता पहुणा पेसिउ तक्खणेण
 साहणु पहिं उप्पहि णहि ण माइ
 हरि खुरखयरयहयभाणुदित्ति
 चूरियभुयंगं चैलविबलियंगं
 थिउ सिबिरु धरेप्पिणु दुग्गमग्गु
 आसोसियाइं सरिसरजलाइं
 सिरणालिणारोहियणियकरेण
 दुद्धरदीहरसुंडालसोंडु
 पडिबलु गयणयलविलग्गतालि

सुग्गीउ चलिउ सहुं लक्खणेण ।
 गयघड मयवस मलहंति जाइ ।
 रंइ चक्कधारदारियघरिसि ।
 भयकंपिय दिसमायंगं तुंग ।
 उव्वेइंउ सससारंगवग्गु । 5
 णिल्लूरियाइं णवदुमदलाइं ।
 अक्खिउ वालिहि केण वि चरेण ।
 रामे तुम्हुप्परि पहिउ वंहु ।
 आवासिउ खइरवणंतरालि ।

4 १ P एक्कु वि. २ A विसु. ३ AP मिग. ४ A सुरवमालि. ५ A कुइइ; P कुइएण.

5 १ P उप्पहि पहि. २ AP णं णहि विलग्ग साहणसुकित्ति. ३ AP चलवलियअंगं.
 ४ A उव्वेयउ. ५ AP दीहरदुद्धरु.

4 1 b सि हि अग्निः; वायवेउ वायुवेगः. 3 b पुण्णकालु पूर्णमायुः. 4 a वि सि सर्पः.
 5 b बलिपुत्तु बलिपुत्रो वाली. 6 b पाणिट्ठु प्राणेष्टम्. 7 a छिवंति स्पृशन्ति. 11 a सुंरवरालि
 सुरवरश्रेणिः. 12 ओत्थरिण उच्छ्रिते सति; भीरु कातराः.

5 5 b सससारंगवग्गु शशमृगसमूहः. 7 a सिरेत्यादि मस्तकपद्मारोपितस्वहस्तेन. 8 b पहिउ
 मषितः. 9 b खइरवणंतरालि खदिरवनमध्ये.

घत्ता—सुग्गीवें सेविउ सीरधरु लद्धउ सहयरु चक्रवइ ॥ 10
तं णिसुणिवि रुसिवि संण्हिवि णिग्गउ षालि खगाहिवइ ॥५॥

6

गंभीरतूरको गहलाइं
अभिभट्टइं कयरणकलयलाइं
वणवियंलियपिच्छिललोहियाइं
मोडियरहाइं फाडियधयाइं
लुयदढगुडाइं ह्यगयघडाइं
खयपेक्खराइं गयपक्खराइं
तुट्ठच्छराइं बहुमच्छराइं
वंचियपराइं पहरणपराइं
ता तहिं रणंति पीणियकयंति
कंतीइ चंदु रिञ्जीइ इंदु
तें भणुं भाइ रे रे अराइ
पहुमाणदहं खल दुब्बियइं

सुग्गीववालिखेरबलाइं ।
सरपसरपिहियपिहुणहयलाइं ।
पयघुलियंतावलिरोहियाइं ।
आसियणहाइं तासियगहाइं ।
तौडियथडाइं पाडियभडाइं । 5
चुयहरिवराइं कंपियधगाइं ।
मरणिच्छराइं खणमुच्छराइं ।
मयणिञ्भराइं हर्यभयभराइं ।
सामंतकंति वेयालवंति ।
किलिकिलिपुरिंदु धाइउ खणिंदु । 10
विज्जाहराइं मेळिवि सजाइ ।
वज्जियगुणइं सुग्गीव संढं ।

घत्ता—मेल्लेपिणुं सेव महुंतणिय बंधुणिवंधंइ तिलरिणइं ॥
पइसरिवि सरणु भूगोयरहं जीवेसहि भणु कइ दिणइं ॥ ६ ॥

7

मा पावहि आहवि पाणणासु
तं वयणु सुणिवि सुग्गीउ चवइ
तो लक्खणु भूगोयरु णिरुत्तु
ते वे वि लग्ग विज्जाबलेण
पुणु तरुवरेण पुणु मौरुएण

जज्जाहि पाव किक्किधवासु ।
पइं फेडिवि जइ मइ णाहिं थवइ ।
अह णं तो पइं णिप्फलु पउंत्तु ।
पुणु हुयवहेण पुणु पुणु जलेण ।
पुणु फणिणा पुणु विणयासुएण । 5

३ AP सण्हिवि.

6 १ A आभिभट्टइं. २ A° विहलिय°. ३ AP फाडियधयाइं मोडियरहाइं. ४ AP तासिय°. ५ A° पेक्खराइं. ६ A हियभय°. ७ A° इंदु. ८ A दुब्बियइं. ९ A गुणइ. १० A संढु. ११ मेळिवि सेवा. १२ AP बंधुणिवद्धइं.

7 १ A णिरुत्तु. २ AP मारुवेण.

11 सण्हि वि सत्ताहं कृत्वा.

6 2 b° पिहुं° विस्तीर्णम्. 3 a वण विय लिय° व्रणविगलितम्; °पिच्छिल° जइं सघनम्. 7 b मरणिच्छराइं मृत्युवाञ्छकानि. 11 b सजाइ स्वजातीन्. 13 तिलरिणइं स्नेहकणानि. 14 कइ कति.

7 1 a आहवि रणे. 5 b विणयासुएण गरुडेन.

जुञ्जिय बेणिर्णं वि पुणु भणइ जेट्टु
ता भासइ तहिं राहवकणिट्टु
हउं विट्टु देउ दसरहकुमारु
णउं दिण्ण हत्थि रे देहि घाय

मइं कुइइ रक्खइ कवणु इट्टु ।
तुहुं ण मुणहि सिट्टु अणिट्टु विट्टु ।
हउं विट्टु सट्टुट्टियकुठारु ।
तुह पव्वहिं कुइइ रामपाय ।

घत्ता—जइ जिणवरु सुमरिवि संतमणु चरहि सुदुइरु तवचरणु ॥ 10
तो चुइइ महु रणि वइरि तुहुं जइ पइसहिं रामइ सरणु ॥ ७ ॥

8

ता हसिउ पव्वलेण बलिरायपुत्तेण
भूयरणरिदस्स किं तस्स किर थामु
जइ अत्थि सामत्थु ता मेरुगिरितुंगु
अक्खिवंसि किं मुक्ख पक्खिदवरपक्ख
रत्तोवलित्तेहिं दरिसियपहारेहिं
मारणकइच्छेहिं दुज्जणसमाणेहिं
कोडीसरत्तेणं णिव्वृढगावाइं
अण्णाइं गहियाइं अण्णाइं मुक्काइं
धावंत वेवंत सरभिण्ण हिलिहिलिय
गयघायकडयडिय रह पडियजोत्तार
अभिमट्ट ते वालि लक्खण महावीर
तडिदंडसरलेहिं तरलेहिं खग्गेहिं
खणखणखणंतेहिं उग्गयफुल्लिगेहिं

संगामपारंभपम्भारजुत्तेण ।
तुहुं गणितु जगि केण अण्णेक्कु सो रामु ।
मइं जिणिवि रणरंगि अवहरहि मायंगु ।
किं कुणसि मइं कुइइ सुग्गीवि पौरिरक्ख
गुणधम्ममुक्केहिं वम्मावहारेहिं । 5
ता बे वि उत्थरिय विप्पुरियबाणेहिं ।
छिण्णाइं चावाइं जमभउहभावाइं ।
विधाइं रुइइयंदेहिं लुक्काइं ।
अंतवलीखलिय महिवादि रुल्लुंघुलिय
भड भीम थिय बे वि संगामकत्तार ॥10
थिरहत्थ सुसमत्थ सुरगिरिवंराधीर ।
संवरणपइसरणणीसरणमग्गेहिं ।
जिगिजिगियधारापंरज्जियपयंगेहिं ।

घत्ता - रणसरवरि हयमुहफेणजलि सोणियधाराणालचलु ॥

अंसिचंचुइ लक्खणलक्खणिण तोडिउ वालिहिं सिरकमलु ॥८॥ 15

३ AP दोणिण. ४ AP णो दिण्णु.

8 १ बालेण. २ A अक्खवसि. ३ A परपक्खु; P परक्खु. ४ A कोडीसरत्तेहिं. ५ AP रुं-
द्वयंदेहिं. ६ A मुक्काइं. ७ AP हय घुलिय. ८ AP ०कत्तार. 9 A ०धराधीर. १० A संवरण०.
११ A पराजिय०. १२ AP असिधाराचंचुइ लक्खणेण.

7 a राहव कणिट्टु लक्ष्मणः; 7 b सिट्टु सायाः लक्ष्म्याः इष्टो बल्लभः, सा लक्ष्मीर्वा इष्टा यस्य; अणिट्टु
अनिष्टस्त्व शत्रुः; विट्टु विशेषेण इष्टः सुमीवस्य अहम्. 8 a विट्टु वासुदेवः; b विट्टु वीनामिष्टो गरुडः;
० अट्टियकुठारु अस्थिकुठारः.

8 4 a अक्खिवसि आक्षिपसि उत्पाटयसि; b परिरक्ख परिरक्षाम्. 5 b वम्मावहारेहिं
मर्मापहारकैः. 6 b उत्थरिय युद्धार्थमुत्थितौ. 8 b रुइइयंदेहिं रौद्रार्धचन्द्रबाणे; लुक्काइं लुक्काः.
10 a गयघायं गदाघातेन. 13 a उग्गयफुल्लिगेहिं उत्पन्नामिकणैः; b ०परजियपयंगेहिं पराजित-
पतङ्गैः पराजितसूर्यैः. 15 अंसिचंचुइ खक्खचञ्च्वा; लक्खणलक्खणिण लक्ष्मण एव सारसस्तेन.

9

फोडिवि रणि वहरिहि सिरकरोडि
दिण्णी सुग्गीवखगाहिवासु
मेल्लेप्पिणुं लक्खणु लच्छिधामु
गहियइं णियकुलच्चिधइं वॅराइं
पुरवरि घरि मंडलि णिहिय भिच्च
आरुहिवि महाघणुंवारणिदु
संपत्तु जणइणु पुण वि तेत्थु
तहु पायपणइ सीसें करोवि

किलिकिंलिपुरेण सहं गामकोडि ।
एवडु फुरणु भणु भुषणि कासु ।
सुपसणु महाजसु जासु रामु ।
सीहासणल्लत्तइं चामराइं ।
बहुबुद्धिवंत णिब्भिच्च सच्च । 5
सहं सुग्गीवेण णरिंदचंदु ।
णिवसइ वणंति बलहहु जेत्थु ।
लक्खणु सुग्गीव चवंति बे वि ।

घत्ता—महिरूढउ वारियसूरकरु कामिणिवेल्लिविलासधरु ॥

तुहुं देव पयावहुयासणिण हेलइ दहुउ वालितरु ॥ ९ ॥ 10

10

ता पिसुणमरणसंतोसिएण
जित्ताहवेण सहं माहवेण
किक्किंधपुरहु दिण्णउं पयाणु
महिणहयराहं रिउरोहिणीउ
मंडलिय मिलिय वियलियसगव्व
णहु दीसइ णउ छायाउं धपरिं
करताडिय गज्जइ गमणभेरि
उण्णिहिय रामणगिलणमारि
करिमयच्चिक्खिल्लद्रंहि णिमण्णु

मेल्लिवि तं उववणु ववसिएण ।
सुग्गीवें हणुवें राहवेण ।
संघट्टउं पॅहि जाणेण जाणु ।
चलियउ चउदह अक्खोहिणीउ ।
दिस पत्तहिं छत्तहिं छइय सव्व । 5
हरिचरणपहयधूलीरपरिं ।
भडहियवइ वडुइ वहरिखेरि ।
गोविंद कडक्खइ लच्छिणारि ।
संदणसंदाणिउ वहइ सेण्णु ।

घत्ता—हरिणीलें कुंदें परियरिउ खगसारंगविराइयउ ॥

किक्किंधसिहरि णियवंसधरु रामे रामु व जोइयउ ॥ १० ॥ 10

9 १ P किलिगिलि°. २ A मन्नेप्पिणु. ३ P लच्छिवासु. ४ A चडाइं; P चलाइं.
५ P महाघणुयारणिदु.

10 १ AP संघट्टिउ. २ A पहु. ३ AP °सुगव्व. ४ AP °दहि. ५ A संदणि संदाणिप;
P संदणसंदाणिप.

9 1 a °करोडि कपालम्. 5 b णिब्भिच्च अव्यभिचारिणः. 7 a जणइणु लक्ष्मणः;
b बलहहु बलभद्रो रामः.

10 1 b ववसिएण कृतोद्यमेन. 5 a वियलियसगव्व विगलितस्वर्गाः. 7 b °खेरि
वैरक्रोधः. 3 a उण्णिहिय जागरिता; b कडक्खइ कटाक्षेण विलोकयति. 9 a °द्रहि हृदे; b संदण-
संदाणिउ अग्नेगतस्थैः सह रथान् बद्ध्वा आकर्षण क्रियते. 10 हरिणीलें गिरिपक्षे इन्द्रनीलमणिना; °सारंग°
पक्षे सारभूतमङ्ग धनुर्वा. 11 °सिहरि गिरिः; रामु व स्वस्य आत्मा इव.

11

पइसंतहिं हलहरकेसवेहिं
जहिं णिवसइ सो सुग्गीउ खयरु
तोरणदुवारि सुपसत्थियाउ
णरचित्तसारधणंसामिणीउ
हँलि धवलउ कालउ कवणु रामु
किं पहुं जि पहु ण पहु पहु
वररूवालुद्धइ जुंजियाइं
जणवयणयणइं कसणइं सियाइं
घरु आया कहिं लभंति इट्टु
सिरपणमणणहाणविलेवणेहिं
अविचित्तियसाहसकित्तितणह
सुग्गीवें वेण्णि वि सामिसाल
तहिं दियह जंति किर कइ वि जांव

अवरेहिं मि बहुभूगोयोरेहिं ।
अवलोइउ तं किक्किंघणयरु ।
दहिअकखयमंगलहत्थियाउ ।
बोलुंति परोप्परु कामिणीउ ।
बिहिं रूवहिं किं थिउ देउ कामु । 5
दीसइ वण्णंतरमिण्णदेहु ।
अच्चंतपलोयणरंजियाइं ।
णं हरिबलतणुछायंकियाइं ।
णियमंदिरु पडिबत्तीइ दिट्टु ।
देवंगहिं णिवसणभूसणेहिं । 10
भावे संमाणिय रामकण्ह ।
खलबलगलंथल्लणबाहुडाल ।
संपत्तउ वासारत्तु तांव ।

घत्ता—घणगयवरि तडिकच्छंकियइ चड्डिउ धरेप्पिणु इंदधणु ॥

वरिसंतु सरहिं पाउसणिवइ णं गिंभे सहुं करइ रणु ॥ ११ ॥ 15

12

कायउलइं तरुघरि संठियाइं
सरवर संजाया तुच्छणल्लिण
णच्चंति मोर मज्जंति कंक
चल चायय तण्हाहय लवंति
पवसियपियाउ दुहसल्लियाउ

हंसइं सरमुंयणुकुंठियाइं ।
दिसंभाय वि णवकसणभमल्लिण ।
पंथिय वहंति मणि गमणसंक ।
पउरंदरीउ जललउ पियंति ।
महमहियउ जाइउ फुल्लियाउ । 5

11 १ AP केसवहलहरेहिं. २ A °धणमाणिणीउ. ३ A हरि. ४ A थिउ किउ देउ. ५ A पहु. ६ A °गल्लत्थण°.

12 १ A सरसुअणु°. २ A दिसभीय वि णं कसण°.

11 4 a णर चित्तसार° पुंसां चित्तमेव सारं धनम्. 5 a हलि हे सखि; b वि हिं रूव हिं द्वाभ्यां शुक्लकृष्णाभ्याम्. 7 a अच्चंतपलोयण° अत्यन्तप्रलोकनेन. 8 b °तणुछायं कियाइं शरीरशोभा-मयानि. 8 b पडिबत्तीइ प्रतिपत्त्या गौरवेण. 12 b गलथल्लण° गलहस्तदाने. 14 घणगयवरि अभ्रपटल्लाजे; °कच्छ° वरत्रा.

12 1 a कायउलइं काककुलानि; b °मुयण° मोचने. 2 b णवकसणभमल्लिण नवीन-कृष्णाभ्रेण मलिनाः. 4 a चायय चातकाः; b पउरंदरीय मेघसंबन्धि. 5 b जाइउ जातील्लाः.

दिसैपसरियकेयइकुसुमरेणु
वरिसंतं देवें भरिउ देसु
एकहिं मिलियाइं विसाणणाइं
अवलोइवि रामु विसायगत्थु

विं चिखल्लें तोसिय किडि करेणु ।
जलु थलु संजायउं णिव्विसेसु ।
एफुल्लकयंबइं काणणाइं ।
थिउ णियकओलि संणिहियहत्थु ।

हत्ता—घणु गज्जउ विज्जु वि विण्फुरउ णडउ सिहंडि वि मूढमइ ॥ 10
विणु सीयइ पावसुं राहवहु भणु किं हियवइ करइ रइ ॥ १२ ॥

13

पुणु सरउ पवण्णु सचंदहासु
विमलासउ कुवल्लयभेयकारि
परिसंतावियपोमंतरंगु
णउ रुच्चइ रामहु वट्टमाणु
ता सुग्गीवें बुत्तउ पहाणु
मैलावहि सीयारामकामु
वसुसयसंखा वरं दुण्णिरिक्ख
वरवीर कौतकरवालहत्थ
कयरयणकिरणपरिह्वविसुज्ज
पडिविज्जावारणि पुज्जणिज्ज
संभेयमहीहरि सिद्धखेत्ति
गुरुयणविहीइ आराहियाउ

बाणासणकयरिद्धीपयासु ।
बहुवंधुं जीवदोसावहारि ।
णं रावणु दावियदुक्खसंगु ।
पियविराहिउ किच्छें धरइ प्रौणु ।
केसव णिज्झायहि मंतज्ञाणु । 5
ता जाइवि सीयारामधामु ।
चउदिसहिं णिउंजिवि देहरक्ख ।
उच्चारिवि थुइमंगल पसत्थ ।
सिवधोसमहामुणिपडिमपुज्ज ।
कण्हें साहिय पण्णत्ति विज्ज । 10
सुग्गीवें हणुवेण वि पवित्ति ।
णाणाविहविज्जैउ साहियाउ ।

घत्ता—अण्णेकहिं अण्णहिं गिरिसिंहिं भरहि भरेण पसिद्धियउ ॥
पणवंतिउ आयउ देवयउ पुष्पयंतरुइरिद्धियउ ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणप
महाकइपुष्पयंतविरहप महाकव्वे वौलिणिहणणं
रामलक्ष्मणविज्जासाहणं णाम पंचहत्तरिमो
परिच्छेओ समसो ॥ ७५ ॥

३ AP दिसि पसरिउ. ४ A चिक्खल्लें. ५ AP कलंबइं. ६ P पाउसु.

13 १ AP जीवबंधुं. २ AP पाणु. ३ AP धर. ४ AP परिहवियसुज्ज. ५ AP विज्जा.
६ A गिरिवरहे. ७ P वालिणिहणं.

6 b किडि सुकरः. 9 a वि सा य ग त्थु विषादग्रस्तः. 10 सिंहंडि मयूरः. 11 पावसु मेघः.

13 1 a सरउ शरत्कालः; सचंदहासु चन्द्रभासा चन्द्रदीप्त्या सह; b बाणासणं बाणा
असनाश्च वृक्षविशेषाः; धनुश्च. 2 a विमलासउ निर्मलदिशः; विशिष्टमलचित्तश्च; b कुवल्लयभेयकारि
कुवल्लयस्य भेदकारि विकाशकारी राजा चन्द्रश्च. 3 a पौमंतरंगु पद्मस्य रामस्य चान्तरङ्गम्.
6 b सीयारामधामु सीतायां पृथिव्यां आरामस्थानं शीतं वा आरामस्थानम्. 9 a कयेत्यादि कृतो
रत्नकिरणैः परिभवो विशेषेण सूर्ये यया प्रतिमया सा. 10 a पडिविज्जावारणि शत्रुविद्यानिषेधिका.
13 मरहि भरतक्षेत्रे.

राहवलक्खणहिं जयजयघोसेण जयाणउं ॥
उप्परि दहमुहहु आरूसिवि दिण्णु पयाणउं ॥ ध्रुवकं ॥

1

मलयमंजरी—उट्टिओ रउहो विविहतूरसहो भग्गवइरिधीरो ॥
चैलियसाहणाणं तुरयवाहणाणं कलयलो गहीरो ॥ छ ॥

संचल्लंति रामि महि कंपइ	धरभरणमिउ ण फणिवइ जंपइ । 5
गयपयकुडिय कुहिणि मयपंकं	दुग्गम भावइ कयजणसंकं ।
रहरहंगगइदारियविसहर	महिहर दलिय मलिय मय वणयर ।
पवणवसेण वलियं विलुलियधय	हयमुहफेणसलिलपसमियरय ।
वरभडथडचुणीकयमहिरुह	सेण्णाउण्ण सगयणासामुह ।
सोसिय सरि सर णिसुडिय जलयर	असिविप्पुरणगसिय ससिदिणयर ॥10
रसिय भएण णाइं रयणायर	थिय देविंद विसंठुल कायर ।
देसु विलंधिवि रणरहसुम्भइ	खंधावारु धरिवि जलणिहितइ ।
आवासिउ संचारिमभवणहिं	कंताकंतहिं रहरसरमणहिं ।
असियसियारुणपीयलहरियहिं	सोहइ बहुदूसहिं वित्थरियहिं ।

घत्ता—सिमिहँ सुहावणउं परतरुणीसोहाखंडणु ॥ 15
मेइणिकामिणिहिं णं पंचवण्णुं तणुमंडणुं ॥ १ ॥

2

मलयमंजरी—रयणकंतिकंतं मयरकेउवंतं विजयलच्छिवासं ॥
सायरस्स णीरं णं विमुक्कमेरं रोहिउं^१ दसासं ॥ छ ॥

1 १ AP मलयमंजरी णाम. २ AP °वहरिवीरो. ३ P has कयपसाहणाणं before चलिय; K gives कयपसाहणाणं in margin and in second hand. ४ A संचल्लंतरामे. ५ AP °खुडिय°; K gives खुडिता वा as p. ६ AP चलिय. ७ AP सिविरु. ८ AP खंडणउं. ९ A पंचजणु. १० AP मंडणउं.

2 १ A रोहिओ.

1 1 जया णउं जयस्य आनयनं जयनशीलमित्यर्थः. 6 a गयपयकुडिय गजपदैः क्षुभिता कम्पिता खुडिता वा आकुलिता विषमोन्नता इत्यर्थः; कुहिणि मार्गः; मयपंकं मदजलकर्दमेन. 7 b मय मृताः. 9 सगयणासामुह गगनेन सह दिशामुखानि आपूर्णानि. 13 संचारिमभवणहिं गच्छद्रुहैः दूष्यादिभिः; b कंताकंतहिं स्त्रीकान्तैः.

2 2 विमुक्कमेरं विमुक्तमर्यादम्; रोहिउं रुद्धं छादितम्.

गज्जिउ परबलु दुद्धरु दिट्टुं
 हणुमंतेण तरुणिकमणीएं
 रामु रामरमंणीउ रमाहरु
 अच्छइ सायरतीरि णिसण्णउ
 सज्जणु अहिणवजलहरणीसणु
 विणैविवंसु वरखयरपहुत्तणु
 फार लच्छि देव वि घेरि किंकर
 पंतु ण पंतु होंतु बलदप्पिय
 णिहिल जंति तिमिरु व दिवसयरहु
 एक्कु जि दोसुं णवर परमेसर

चारपहिं दहवयणहु सिट्टुं ।
 सहं णियभायरेण सुग्गीवें ।
 खग्गपसाहियसयलवसुंधरु । 5
 अज्जु कल्लि दुक्कइ आसण्णउ ।
 तं णिसुणिवि विण्णवइ विहीसणु ।
 भुवणभायणिम्मलजसकित्तणु ।
 कवणु गहणु तुह किर पायड णर ।
 संगरि तुह करवालझडप्पिय । 10
 पइं होंतें कहिं दिहि रिउणियरहु ।
 जं पइं वाहिय परणारिहि कर ।

घत्ता—पूरइ तित्ति ण वि रइ पसरइ वंछइ संगहु ॥

परवहुरत्तमणु परि वडइ दिणेहि णियंगहु ॥ २ ॥

3

मलयमंजरी—मयणवणियचित्तो परपुरंधिरत्तो मरइ साणुअंधो ॥

पडइ णरयरंधे सत्तमे तमंधे बद्धकम्मबंधो ॥ छ ॥

विसहरसुरणरविरहयसेवहु
 हरिवाहिणिविज्जारहवाहहु
 वजावत्तसरासणहत्थहु
 चक्कपसूइ ण चंगउं दावइ
 अण्णहु किंकिंधेसु ण रप्पइ
 अण्णहु मारुइ किं घरु आवइ
 अण्णहु पंचयणु किं वज्जइ
 अण्णे धरणिघेणु किह बज्जइ

धीरहु वसुसंखाबलएवहु ।
 भीमगयाहलमुसलसणाहहु ।
 दिज्जउं घेरिणि देव काकुत्थहु । 5
 लक्खणु वासुएउ महुं भावइ ।
 अण्णहु किं रणि वालि समप्पइ ।
 किं पण्णत्तिविज्ज परिधौवइ ।
 अण्णु एव किं लच्छिइ छज्जइ ।
 गारुडविज्ज ण अण्णहु सिज्जइ । 10

२ A रमणीयरमाहरु. ३ AP विणमिवसुंधर. ४ A भवणभाविणिम्मल°; P भुवणभाइ णिम्मलु.
 ५ A वर किंकर. ६ A यंतु. ७ AP णवर दोसु.

3 १ A णरइरंधे. २ A °विजाहर°. ३ A दिज्जइ. ४ AP देव घेरिणि. ५ A अण्णु वि.
 ६ A परिहावइ.

3 b चारए हिं दूतैः. 5 a रामरमणीउ स्त्रीणां मनोहरः; रमाहरु लक्ष्मणः. 8 b भुवणभाय° भुवन-
 भागेषु. 9 b पायडणर सामान्यनराः. 10 b° झडप्पिय प्रहताः. 12 b वाहिय क्षिता अपहता इत्यर्थः.

3 1 °वणिय° व्रणितम्; साणुअंधो सानुबन्धः पुत्रकलत्रादिसहितः. 3 b वसुसंखाबलएवहु
 अष्टमबलभद्रस्य. 5 b काकुत्थहु रामस्य. 6 a चक्कपसूइ द्वितीयचक्रप्रसूतिः. 7 a रप्पइ रागं करोति.
 9 a पंचयणु प्राञ्जजन्यः.

परवद्दु इह पर परिह्वगारी
केवलिभासिउ देव ण चुक्कइ

अण्णु वि जाणइ धूयँ तुहारी ।
देहि बलहु जा णियइ ण दुक्कइ ।

घत्ता—जंपइ दहवयणु भोँ जाहि जाहि जइ भीयउ ॥

पूरइ आहयणि भइ कुंभयणु महु बीयउ ॥ ३ ॥

4

मलयमंजरी—रे विहीसणुत्तं किं तए अजुत्तं मुयसु मंहिणिवासं ॥

हीणदीणवेसो चरणघुलियकेसो जाहि रामपासं ॥ छ ॥

हउं किं पुणु परिवौडि ण जाणमि
एण मिसेण दंतपहविमलइं
तणुंसीयइ दंतंहं मलु फिट्ठइ
ता पणवंतु थंतु हेट्टामुहु
छेउ णिहालिउ बंधुसणेहहु
मंतिमईहिं मंतु अवलोइउ
एउं रंहंगु खगिंदणिसुंभउं
हा रावणु जियंतु णउ पेक्खमि
बलवंतइ विवक्खि असहायहं
इय चिंतंतु णिसिहि णीसरियउ

जोँ ण समिच्छइ सा णउ माणमि ।
खुडमि रामलक्खणसिरकमलइं ।
विणु सीयइ महु किं ण पर्यट्ठइ । 5
कसणाणणु णं गब्भिणिउररुहु ।
णिग्गउ बंधवु गउ णियगेहहु ।
भायरेण मणु णिच्छइ ढोइउ ।
जायउ णाइ कुलीरहु डिंभउं ।
परहु जंति णियकुलसिरि रक्खमि । 10
तंप्पएसु भल्लारउ रायहं ।
दिट्ठु समुहु तेण जलभरियउ ।

घत्ता—झिज्जइ चंदु जइ तो सार्यरजलु ओहट्ठइ ॥

पडिवणुणउं गुरुहुं आवइकालि ण फिट्ठइ ॥ ४ ॥

5

मलयमंजरी—जइ वि णिञ्चवंको देहए ससंको तो वि एस चंदो ॥

सायरस्स इट्ठो माणसे पइट्ठो कंतियाइ रंदो ॥ छ ॥

हउं पुणु खलु चुक्कउ मज्जायहि
इय जूरंतु जाम णहि वच्चइ

बंधुवइरि किं जायउ मायहि ।
ता रामहु विसारि संसुच्चइ ।

७ P धीय. ८ A हो जाहि.

4 १ A मह णिवासं. २ AP पुणु किं. ३ A पडिवाडि. ४ A जो. ५ A तणे सीयए.
६ AP दसणहं. ७ A पइट्ठइ. ८ A बंधसणेहहु. ९ A एहु. १० A जोयउ. ११ P तप्पवेसु.
१२ A सायर जलु. १३ P adds वि after कालि.

11 a पर परभवे. 12 b बलहु रामस्य. 14 आहयणि संग्रामे.

4 1 म हि णि वा सं भूरासम्. 3 a परि वा डि अनुक्रमम्. 5 a तणु सी य इ तृणसीतया (?)
11 b तप्पएसु तस्मिन् विपक्षे प्रवेशः.

5 1 देहए शरीरे; ससंको शशः अङ्करूपेण. 4 b विसारि दूतः

देव विहीसणु दंसणु मग्गइ तुह चरणारविंदु ओलग्गइ । 5
 पेक्खु पेक्खु णहि आयउ वट्टइ जिह पडिवण्णु णेहु णोहट्टइ ।
 तिह हरि^१ करि तुहुं बेणिण वि पत्थिय तेण दसासवित्ति अवहत्थिय ।
 ता रामे सुग्गीवहु पेसणु दिण्णउं आणहु तुरिउ विहीसणु ।
 गय ते तंहि सो वि सुपरिक्खिउ णिरु णिब्भिञ्चु भिञ्चु ओलक्खिउ ।
 आणेप्पिणु दाविउ हलधारिहि पणविउ दाणविंदकुलवइरिहि । 10
 तं संमाणिउ रावणभायरु किउ संभासणु सहरिसु सायरु ।

घत्ता—चित्तु चित्ति मिलिउं जगि परु वि बंधु हियगरउ ॥
 बंधु जि परु हवइ जो णिञ्चु जि वड्डियवइरउ ॥ ५ ॥

6

मलयमंजरी—पुरिससोक्खगाही अहियदेहंवाही तिच्चदुक्खवल्लिं ॥
 कुणइ कैह वि आयं सुण्णरण्णजायं ओसहं सुंहेल्लिं ॥ छ ॥

रावणरज्जदाणु वित्थिण्णउं रामे तांसु तिवायइ दिण्णउं ।
 गय कइवय वासर तंहिं जइयहुं हणुणं वुत्तु हलाउहु तइयहुं ।
 दे आएसु देव णउ थक्कमि एवहिं लंकाहि संसुहु दुक्कमि । 5
 भीमं वाणररूवे वड्डमि डहमि घरइं भडंभंडणु कइमि ।
 भंजमि वणइं लवलिदललंबइं फलणवियंगइं पल्लवतंबइं ।
 ता दसरहसुएण परवलहर अरि करिदंतंघट्टुदीहरकर ।
 कामरूवधर णावइ सुरवर तासु सहाय दिण्ण विज्जाहर ।
 वाणरविज्जइ वाणर होइवि सयल वि गय लंकाउरि जोइवि । 10
 गयणविलग्गदेह गिरिपहरण वुक्करंत वग्गिय मग्गियरण ।
 पुंछवल्लयवलइयतरुवरसिल चरणचारचालियधरणीयल ।
 छिब्बरंणास दीहदंताणण पिंगलणयण छोहभीसावण ।
 धाइय पत्त दसासहु पट्टणु मारुइणा जोइउ गंदणवणु ।

घत्ता—हरिकररुहवणिउं आलग्गसुरहिणवचंदणु ॥ 15
 वणु महु आवडइ णं लच्छिहि केरउं जोव्वणु ॥ ६ ॥

5 १ AP करि हरि. २ AP तंहि जि सो.

6 १ A °देववाही. २ A दुक्खमल्ली; P दुक्खवेल्लिं. ३ AP कंहि वि. ४ A सुहेल्ली.
 ५ AP तासु वि वायइ. ६ P देहाएसु. ७ P भडंभंडणु. ८ A विल्लदललंबइं; P लवल्लदललंबइं.
 ९ P °करिकंत°. १० AP छिब्बरं.

7 a हरि हे विण्णो.

6 1 °सोक्खगाही सुखोद्दालकः; अहियं न हितः. 2 सुहेल्लि सुखम्. 3 b तिवायइ त्रिवारवचनेन. 6 b भडंभंडणु कड्डमि सुभटसंग्राममुत्पादयामि. 13 a छिब्बरणास पृथुनासिकाः; b छोहं क्रोधः. 15 हरिकररुहवणिउं विण्णुनखत्रणितम्. 16 आवडइ भासते.

मलयमंजरी—रूढबालकंदं देवदारुमंदं सूरकिरणवारं ॥

दिष्णकुसुमवासं दिव्वमिहुणवासं जणियमयणसारं ॥ छ ॥

इंदसरासणेण घणउलमिव णीलतमालणिद्धयं ।

वणमंजणसुएण लंगूलं चउहिं वि दिसहिं रुद्धयं ॥ १ ॥

सुरकरिसोंडं चंडभुयदंडवलेण चलेण पेल्लियं ।

5

मोडियमहिरुहोहसंघट्टणचुयचंदणरसोल्लियं ॥ २ ॥

करमरकडहकुडयकडयंडरवउड्ढावियविहंगयं ।

भग्गणवल्लुफुल्लपल्लवदलगयगुमुगुमियभिं गयं ॥ ३ ॥

णिविडं वडालिवंदणुम्मूलणविहडावियरसांयलं ।

णिग्गयसविसफरुसफुक्कारभयंकरसमणिफणिउलं ॥ ४ ॥

10

चूरियचारचूयचं वचिंचिणिसमिलवलीलवंगयं ।

पायाहयपलोट्टचंपयचं यदलवट्टियं कुरंगयं ॥ ५ ॥

दलियलयाणिवासणिण्णासियसुरवरखयररइसुहं ।

सुकटिणकरंतलप्पमुसुमूरियकीलागिरिगुहामुहं ॥ ६ ॥

पविमलमणिसिलायलुत्थल्लणदिग्गयजक्खकंतयं ।

15

सरवावीणिबद्धविद्धंसियकीलासलिलजंतयं ॥ ७ ॥

हयवित्थिणसाहिसाहाचुंयवहुमहुबिंदुतंबयं ।

पडियकवित्थभग्गकिंणरकरवीणालग्गतुंबयं ॥ ८ ॥

दूरुद्धरियविडविमूलुज्झियविवरणिलीणसावयं ।

पडिरवतसियंसियविवियाणणवाणरविरइयावयं ॥ ९ ॥

20

खंडियतुंगमडुसिहंरुडियहंसविमुक्कसहयं ।

णिवडियणालिप्रसालामलफलमालाविमहयं ॥ १० ॥

घल्लियसुक्करुक्खसंघट्टसमुग्गयजलणजालयं ।

दडुपियंगुपिगउच्छलियफुल्लिगपलित्ततमालतालयं ॥ ११ ॥

मुक्कतिसुलसेलुसरधोरणिसव्वलभिडिंमालयं ।

25

धाइयभिउडिभंगभीसावणभिडिउज्जाणवालयं ॥ १२ ॥

7 १ AP °चंडसुंडभुय°. २ A करमरकुडयकडय; P करमरकुहडकुडयकडय°. ३ AP °कडय-डसरउड्ढा°. ४ A णिवडियडालिं; P णिवडवडालिं. ५ AP °रसालयं. ६ AP °चविचिचिणि°. ७ AP °चंपयरयदल°. ८ P वट्टियं. ९ A °खरतलप्य°. १० P omits बहु. ११ AP रसियतसिय°. १२ A °सिहरुडिय°. १३ AP omit तमाल. १४ A °भिडिमालयं.

7 1 °मंदं प्रचुरम्. 3 घण उलमिव मेघपटलवत्; णिद्धयं स्निग्धकान्तिमत्. 7 °कडयडरव° कटकटाशब्दः. 9 °वडालिं वट्टवृक्षश्रेणिः; °वंदणं रक्तचन्दनः. १२ °चंपयचयं चम्पकवृक्षसमूहः. 14 °करतलप्यं करप्रहारः. 20 °विवियाणणं विकसितमुखाः. 25 °भिडिमालयं गोफणी.

घत्ता—विजाणिम्मियहिं अईभीमहिं मायारक्खहिं ॥
पावणि वेढियउ रावणणंदणवणरक्खहिं ॥ ७ ॥

8

मलयमंजरी—संगरम्मि कुद्धा पमयएहिं रुद्धा वूढवीरमाणा ॥
मारिया अणेया जित्तहरिणवेया रक्खसा पलाणा ॥ ८ ॥

अवर वि आया मायाणिसियर	लउडिमुसुंडिकुंतकंपणकर ।	
कुडिल बद्धमच्छर इच्छियकलि	जलियजलणजालाकेसावलि ।	
गुंजापुंजरत्तणेत्तुम्भड	दाढाचंडतुंड पललंपड ।	5
दीह्दीहजीहादललालिर	परबलघोलिर हूलिर सुलिर ।	
ताहं रणंगणि दावियरुंडहिं	लग्गा वलिमुह गिरिसिलखंडहिं ।	
सरपुंखहिं भर्मरेहिं व मंडिय	जिह वणि तरु तिह ते रणि खंडिय ।	
जिह वेळ्ळिउ तिह अंतइं छिण्णइं	जिह पत्तइं तिह पत्तइं भिण्णइं ।	
जिह ताडहलइं तिह रिउसीसइं	पाडियाइं धरणीयलि भीसइं ।	10
जिह उजाणहु णट्टइं चक्कइं	तिह रिउरह्वरि भग्गइं चक्कइं ।	
जिह सर तिह विद्धंसिय रिउसर	लंकाणयरि पइट्टा वाणर ।	
घरि घरि चडिय जलंतहिं पुंछहिं	णीसारियउ जलणु पिंगच्छहिं ।	
दइइं णायरभवणसहासइं	जालाहार व धाहामीसइं ।	

घत्ता—लग्गउ वइरिपुरि हुयवहु हणुवंतें धित्तउ ॥ 15
राहवकोवसिहिं णं दुण्णयतणेण पलित्तउ ॥ ८ ॥

9

मलयमंजरी—छइयकेउसोहो णयणचारुहो जणियलोयवसणो ॥
चडइ गयणि धूमो रावणस्स भीमो दुज्जसो व्व कसणो ॥ ९ ॥
धूमंतरि जालोलिउ जलियउ णं णवमेहमज्झि विज्जुलियउ ।

१५ AP अहभीयहिं.

8 १ A एम एहि रुद्धा. २ AP ०णत्तरत्तुम्भड. ३ AP जीहदीह°. ४ A भमरिहिं णं;
P भमरिहिं णं. ५ AP पव्वइं; K पत्तइं and gloss वाहनानि. ६ A रिउ रहे रहे; P रिउं रहवरे.

9 १ P चारुणेहो.

8 1 प म य ए हिं वानरैः; वूढ वीरमाणा धृतवीराहंकाराः. 2 जि त्त हरि ण वे या जित्तहरिण-
वेगाः, मृगवन्नष्टा इत्यर्थः. 6 a दी ह दी ह° अतिदीर्घा. 7 b व लि मु ह वानराः. 9 b प त्त इं वाहनानि.
16 दु ण्ण य त णे ण सीतापहरणरूपान्यायवृत्तेन; प लि त्त उ प्रदीप्तः.

9 1 छ इ य के उ सो हो आच्छादितध्वजशोभः, अन्यत्र, तिरस्कृतकेतुर्ग्रहविशेषः.

पुणु वि ताउ सोहंति पर्ईहउ
संदाणियसीमंतिणिदेहउ
घरसिरकलसु वलंतें छित्तउ
सहयरु छंदगामि णउ मुणियउ
उग्गु ण सज्जणपक्खु विहावइ
गमणें जासु होइ काली गइ
वरमंदिरजडियइ माणिकइ
तेयँवंतु परतेउ ण इच्छइ
डज्जंतहिं चंदणकप्परहिं
रयभंमरइ उक्कोइयमयणइ
जिणवरवेसणिसेहकयत्थइ

णं चामीयरतरुवरसाहउ ।
सिहिणा पसरियाउ णं बाहउ । 5
सरिउणिवासु व पउलिवि धित्तउ ।
धउ परिघोलमाणु किं हुणियउ ।
उहुगामि किहँ परु संतावइ ।
तहु किर किं लब्भइ सुद्धी मइ ।
उहँइ अछेयपहापरईरिक्कइं । 10
सइं जि पहुत्तणु विहवहु वंछइ ।
पउरसुरहिपरिमलवित्थारहिं ।
वासियाइं सयलइं दिसवयणइं ।
दइइं मउदेवंगइं वत्थइं ।

घत्ता—घरदुवारु जलइ वरपोमरायविष्फुरियउं ॥

15

जालापल्लवेहिं णं दीसइ तोरणु भरियउं ॥ ९ ॥

10

मलयमंजरी—दहमुहस्स कम्मं मुक्कणायधम्मं जाणिउं व कुद्धो ॥

उक्कवाणजालं मुयइ णं विसालं सिहि सिहासमिद्धो ॥ छ ॥

होमदव्वरासिउ संपत्तउ
हुरुहुरंतु णं संति पघोसइ
होउं संधि जीवउ महिमाणु
एत्तहि अग्गिजाल पवियंभइ
माय ण पुत्तहंडु संमंग्गइ
भवणारोहणु करिवि अभग्गउ

तिलजवघयकप्पासहिं तित्तं ।
दिज्जंतु रामहु सीय महासइ ।
भुंजउ लच्छि अविग्घं दसाणणु । 5
एत्तहि वाणरविंदु णिसुंभइ ।
जणु हल्लोहलिहुउ कहिं णिग्गइ ।
णं वइसाणरु जोयहुं लग्गउ ।

२ A चंदंतें; P बलवंतें, but K वलंतें ज्वलता. ३ A किं परु. ४ AP कहि. ५ A परबलु पेक्खिवि
णावइ थक्कइं. ६ P परिथक्कइं. ७ P तेयमंतु. ८ A रइभवणइं. ९ A जिणवरभवणणिसेह^०; P जिणवर-
वेसणिवेस^०. १० P सरियइं.

10 १ A सित्तउ. २ A दिज्जहो. ३ A होइ. ४ A अविग्घु. ५ AP सामग्गइ.

4 a पर्ईहउ प्रदीर्घाः. 5 a संदा णिय^० अग्निना बद्धः. 6 a वलंतें ज्वलता; b सरिउ णि वा सु स्वस्य
अग्नेः रिपुः शत्रुर्जलं तस्य स्थानं कलशो घटः तेन प्रज्वाल्य क्षितः. 7 a सहयरु अग्नेर्मित्रं वायुः. 9 a
काली कृष्णा. 10 b अछेयपहापरईरिक्कइं अन्धेयप्रभाप्रचुराणि. 13 a रयभंमरइं रता भ्रमरा येषु;
उक्कोइयमयणइं उत्पादितकामानि. 14 a जिणवरवेसणिसेहकयत्थइं नम्रत्वनिषेधकानि वस्त्राणि.
16 भरियउं बद्धम्.

10 3 b तित्तउ तृतः. 6 a पवियंभइ प्रविजृग्भते. 7 a पुत्तहंडु पुत्र एव भाण्डम्;
संमग्गइ संवृणोति.

केसिय लंकाउरि मइं दह्नी
बाहिरपुरवरु एम डहोप्पिणु
चल्लिउ पडीवउ पावणि तेत्तहि

णं विडेण कामिणि दुवियह्नी ।
किसिमणिसियरणियरु वहेप्पिणु ॥१०
णिवसइ सँसिबिरु राहउ जेत्तहि ।

घत्ता—भरहें लक्खणेण सहुं सीरपाणि अँवलोइउ ॥
तेणंजणहि सुउ सियपुष्पयंतु पोमाइउ ॥ १० ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे णंदणवणमोडणं लंकाडाहं
णाम छहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७६ ॥

६ A वल्लिउ. ७ A ससिवस; P ससिवह. ८ P omits लंकाडाहं.

9 b का मि णि दु वि य ह्नी अचतुरा वेश्या. 11 a पडीवउ प्रतीपं पश्चात्. 13 पोमाइउ प्रशंसितः
स्लाघितः.

वणु भंजिवि पुरवरु णिडुहिवि हणुंइ णियत्तइ जयसिरिकामे ॥
अज्ज वि किं णावइ खयरवइ पुच्छिउ एम विहीसणु रामे ॥ ध्रुवकं ॥

1

हेला—सो तेलोकैकंठओ सहइ किं पराणं ॥
धणुगुणरववियंभियं विलसियं सराणं ॥ छ ॥

ता भणइ विहीसणु भयणिरीहु	जइ गिरिवरकंदरि वसइ सीहु ।	5
तो करि कुरंग किं तेंहिं चरंति	कायर तहु गंधेण जि मरंति ।	
महिंवइ लंकहि जइ हंतु देव	जीवंत एंति तो भिच्च केंव ।	
तें जीणिउं तुहुं वालिहि कयंतु	रइवइसुग्गीवसहायवंतु ।	
जसु भाइ अणंतु अणंतधामु	सो विज्जइ विणु कहि जिणमि रामु ।	
इय चिंतिवि होइवि सुइसरीरु	इंदइ णियरंक्ख करेवि धीरु ।	10
आइच्चपायमहिहरि दसासु	थिरु विरपप्पिणु अट्टोववासु ।	
अच्छइ विज्जासाहणपयत्तु	णरंतरु ज्ञाणारूढचित्तु ।	
तं णिसुणिवि आढत्ताहवेण	विज्जाहर पेसिय राहवेण ।	
धाइय ते दुद्धर विग्घकारि	हलमुसलसंवालतिसूलधारि ।	

घत्ता—णहि जाइवि दिणयरचरणगिरि मायावाणरेहिं कयरवाहिं ॥ 15
वेढिउ विंशु व जलहरहिं गज्जणसीलहिं दरिसियचावहिं ॥ १ ॥

2

हेला—घोरणीलवण्णया छण्णगयणभाया ॥
आहूया घणाघणा मुक्कधीरेणाया ॥ छ ॥

वांओलिधूलिबहलंधयारु गंडगडिय पडिय पाहाणफारु ।

1 १ P भंजिवि. २ A हणुवणियत्तइ. ३ A तिल्लोकं; P तइल्लोकं. ४ A तहि किम चरंति.
५ AP जइ महिंवइ लंकहि हंतु. ६ P तो जाणिउं. ७ AP णियरक्खणु करिवि. ८ P साहणि.
९ A सबाणतिसूलं.

2 १ AP वीरं. २ P वाउधूलियबहलं. ३ P गयघडियं.

1 1 हणुइ हनूमति; णि यत्तइ निवृत्ते सति. 5 a णिरीहु निःस्पृहः निर्भयः. 8 a तेंरावणेन;
b रइवइ हनूमान्. 9 a अणंतु लक्ष्मणः; अणंतधामु प्रचुरतेजाः. 10 सुइसरीरु पवित्रशरीरः;
b इंदइ इन्दजित्. 11 a आइच्चपायमहिहरि आदित्यपादगिरौ. 13 a आढत्ताहवेण प्रारब्ध-
संग्रामेण. 14 b b संवालं करवालं खड्गेन सह. 15 दिणयरचरणगिरि आदित्यपादनामा पर्वतः.

2 2 आहूया संजाताः; घणाघणा शब्दैर्निरन्तरा मेषाः. 3 a वाओलिं चक्रवातो वात्या.

णिवडिय तडि फोडिय गिरिखयालु
जलुं थलु महियलु जलभरिउ सयलु
दरिसिउ मंदोयरिकेसगाहु
बंधवसिरकमलइं तोडियाइं
कुद्धउ दसासु झाणाउ ढल्लिउ
इंदइणा कहिउं खगेसरासु
णीसेसु वियंभिउ एहु ताव
ता रापं विज्जादेवयाउ
आँयाउ ताउ पंजलियराउ

वरिसाविउ तक्खणि मेहँजालु ।
पइ ढोइउ आयसवलयणियलु । 5
भइ कुंभयणु फणिबद्धबाहु ।
वच्छयलइं विउलइं फाडियाइं ।
कहिं चंदहासु पभणंतु चलिउ ।
परमेसर खगमायाविलासु ।
तुहुं णिययणियमपब्भट्टु जाव । 10
णिज्जाइयाउ णिहिर्यावयाउ ।
पेसणु महंति पणमियसिराउ ।

घत्ता—भणु दसकंधर धरणिधर हरहुं जीउ अरिवरहु सणामहुं ॥
अम्हहं बलवतंहं हरिबलहं तसहुं णवर रणि लक्खणरामहुं ॥ २ ॥

3

हेला—ता भणियं महेसिणा जाह जाह तुम्हे ॥

णियभुयजुयसहायया संगरम्मि अम्हे ॥ छ ॥

सक्कहुं सीरिहि लच्छीहरासु
एत्तहि इंदइ अब्भिडिउ ताहं
आवट्टइ लोट्टइ जायमणु
दरमलइ थोट्टुंघोट्टुथट्टु
पैरिखलइ वलइ हणु भणइ हणइ
रुंभइ थंभइ तरवारिधार
सीसक्कइ फोडइ तडयडत्ति
असिवरइं खलंतइं खणखणांति
पइसरइ तरइ कीलालवारि
इंदइ णिरत्थ कयवूढगव्व

किं वसणि दीणु भणइ परासु ।
मायात्रियाहं साहामयाहं ।
संघट्टइ फुट्टइ वहरिसेणु । 5
सुँडइ विसट्ट पडिभडमरट्टु ।
उल्ललिवि मिलइ रिउसिरइं लुणइ ।
णिहँणइ विहुणइ पवरासवार ।
मुसुमूरइ छत्तइं कसमसंति ।
कडियलकिंकिणिउं झुणुझुणांति । 10
पडिवक्खहु पाडइ पलयमारि ।
आयासयलि गय परमय सव्व ।

४ P मोहजालु. ५ A जलथलणहयल जलभरिय. ६ A वणदेवयाउ. ७ P आइयउ. ८ P तसहुं धरणे सहुं लक्खणं.

3 १ A °दुग्घट्ट°. २ AP साडइ. ३ AP पडिखलइ. ४ P णिहुणइ. ५ AP खलखलंति. ६ AP किंकिणियउ णुणुणांति. ७ A पडयमारि. ८ A पवय.

4 a गिरिखयालु पर्वतानां क्षयकालो मेघः. 5 b पइ पादे मन्दोदर्याः. 8 a ढलिउ च्युतः. 10 णिययणियमपब्भट्टु निजकनियमात्प्रभ्रष्टः. 12 b महंति श्लाघयन्ति. 13 सणामहुं प्रख्यातानाम्. 14 तसहुं भयं कुर्मः.

3 3 a सक्कहुं शक्नुमः. 4 b साहामयाहं वानराणाम्. 5 a जायमणु जातक्रोधः. 6 a थोट्टुं समर्थाः; °दुग्घोट्टुं दुर्धराः; b °मरट्टु गर्वः. 12 b पमय वानराः.

घत्ता—विहुरि वि धीरु अविसंणमणु ण च्चलइ किं पि सुहडहंकारहु ॥
लंकेसरु लंकहि गंपि थिउ खंधु संमोड्ढि गुरुरणभारहु ॥ ३ ॥

4

हेला—कयरिउविग्घविब्भमा कमियगर्गणभाया ॥
आया राममंदिरं विविहखयरराया ॥ छु ॥

ता इच्छियणियाणाहसिवेणं	हणुमंतं सुग्गीवणिवेणं ।	
गिरिसंमेयसिहंरसिद्धाओ	अणिमाइहिं रिद्धिहिं रिद्धाओ ।	
विजाओ परसाहणियाओ	केसरिखगवइवाहिणियाओ ।	5
दिण्णाओ दुल्लंघबलाणं	वीराणं गोविंदबलाणं ।	
पण्णत्तीए रइयं जाणं	रयणमयं मणहारि विमाणं ।	
कूडकोडिसंघट्टियचंदं	दिब्बं कइवयजोयणरुंदं ।	
भित्तिणिरुवियचित्ति सुरूवं	बद्धसिणिद्धचिंधचंदोवं ।	
रणंमणंतमणिंकिंकिणिज्जालं	हेममयं तोरणसोहालं ।	10
णाणाविहदुवाररमणीयं	पारंभियसुरसुंदरिगीयं ।	
आयण्णियणरखयरासीसो	अक्खयदहिदोवंचियसीसो ।	
तत्थारूढो देवो रामो	हरि हरिसिल्लो अंजणसामो ।	
दरिसियहयमुसलंकुसपासं	भूगोयरसेणं णीसेसं ।	
चलियं गगणे खयराणीयं	सामिकज्जि परिछेइयजीयं ।	15
णाणाहरणविहूसियदेहं	गयवरदंतवियारियमेहं ।	

घत्ता—संदाणिय णंहि ससिदिषसयर पेलांपेल्लि जीय खगरायहं ॥
धयछत्तचलंतहं चामरहं हरिकरिरहवरभडसंघायहं ॥ ४ ॥

९ AP ण विसण्णमणु. १० AP समोड्ढि.

4 १ AP गयण°. २ AP °सिहरि सिद्धाओ. ३ AP धीराणं. ४ A दिब्बा कइ°. ५ A भित्तिणिरुविय°. ६ AP चित्तसरूवं. ७ AP रुणुरणंत°. ८ P omits हरि. ९ A °णहससि°. १० AP पेलावेह्लि. ११ P जाइ.

4 5 a परसाहणियाओ शत्रुसाधनीयाः; b केसरिखगवइवाहिणियाओ सिंहगरुड-
वाहिन्यः. 7 a रइयं जाणं रचितं विमानम्. 8 a कूड° शिखराणि. 9 a भित्तिणिरुवियचित्ति
भित्तिलिखितचित्रेण; b °चिंधचंदोवं ध्वजचन्द्रोपकम्. 12 b °दोवं वियसीसो दूर्वाञ्चित्तमस्तकः.
15 a खयराणीयं खगसैन्यम्; b परिछेइय° संकल्पितम्. 17 संदाणिय बद्धाः; पेलापेल्लि
संघट्टः.

5

हेला—णवणित्तिससंणिहे णहयले चलंतं ॥

मंयगलमयजले बलं दीसए वहंतं ॥ छ ॥

करिछाहिहिं जलकरिवर विलग्ग	जलणर णरवरपडिबिबभग्ग ।	
धावंति मयर पलगिलेणकाम	झस सुंसुमार गंभीरथाम ।	
सीमंतिणिपडिरुवइं णियंति	जलदेवयाउ सीसइं धुणंति ।	5
उज्जलमोत्तियभायणधरेहिं	पवणुद्दुयचलवीईकरेहिं ।	
गज्जइ समुद्दु वाहरइ णाइ	मरुकंपियंगु भयवसु व थाइ ।	
सायर लंघिवि परिहरिवि संक	वेढिय विज्जाहरणिवहिं लंक ।	
किउ कलयलु रैणपडहइं हयाइं	भीरुंहुं चित्तइं विहडिवि गयाइं ।	
सत्त वि पायालइं थरहरंति	उम्मगलग्ग सायर तरंति ।	10
विसहर भयरसवस विसु मुयंति	कुंचियकर दिसकरि कुक्कंरंति ।	
दित्तइं णक्खत्तइं ढलढलंति	झुलंतइं णहि एक्कहि मिलंति ।	

घत्ता—वाइत्तयसइसमुच्छलेण संखोहणु जायउ तेल्लोक्कहु ॥

किं जाणहुं णहि तडि तडयाडिय पडिउ विंबु समियंकहु अक्कहु ॥५॥

6

हेला—ता भुवणुत्तुरडिणिवडणे किं हुओ णिघोसो ॥

आहासइ दसाणणो गाढजायरोसो ॥ छ ॥

भायर किं सुम्मइ घोरु णाउ	किं उडुइ धूलीरयणिहाउ ।	
दीसइ महिमंडलु महिहैरेहिं	णहयलु संछणणउं णहयरेहिं ।	
ता विहसिवि पभणइ कुंभयण्णु	अवयरिउं देव पडिवक्खसेण्णु ।	5
हा हरि आढत्तउ जंबुएहिं	वइवसु जीवहिं जीवियचुएहिं ।	
सेरिहु मयमैत्ततुरंगमेहिं	पक्खिवइ खलियउ उरजंगमेहिं ।	

5 १ मयरायले जले; P मयरायलजले. २ A °गलिण°. ३ AP रणतूरइं. ४ P भीरुहुं. ५ A बुक्कंरंति; P कुक्कुवंति.

6 १ A °त्तकडिणिवडणे; P °त्तुक्कडिणिवडणे. २ A महियलेहिं; P महियरेहिं. ३ A मयमत्तु.

5 1 ण व णि त्तिस सं णि हे नवीनखङ्गसदृशकान्तिमति गगने. 3 a करि छा हि हि गजप्रतिबिम्बैः समुद्रजले गगने दृश्यमानैः. 4 a पल गिलण काम मांसगिलने कामो वाञ्छा येषाम्. 7 a वा हरइ व्याहरति आमन्त्रयतीत्यर्थः. 8 a संक भयम्. 10 b उम्मगलग्ग उन्मार्गलगाः; तरंति वहन्ति. 12 b झुलंतइं दोलायमानानि. 14 समियंकहु मृगाङ्कसहितस्य चन्द्रसहितस्य.

6 1 °उत्तुरडि° उत्तरंडी इति भाषायाम्. 3 a भायर हे कुम्भकर्ण. 4 a महिहरेहिं भूगोचरैः. 6 a आढत्तउ वेष्टितः; जंबुएहिं शृगालैः. 7 a सेरिहु महिपः.

किं तुञ्जु वि उप्परि पंतिं सत्तु
लइ दुक्कंउ दीसइ विहिविहाणु
तं णिसुणिवि भणिउं दसाणणेण
अरिहरिण मिलेप्पिणु किं करंति
धैव पावउ भुक्खिय पलयमारि

किं तुहुं वि समिच्छहि परकलत्तु ।
भिहु एवहिं पीडिवि रणि किवाणु ।
जीवंते मइं पंचाणणेण । 10
असिणहैरइण्डप्पिय धुउ मरंति ।
पहणाविय लहुं सणाहभेरि ।

घत्ता—विरसंतइं णरकरयलहयइं तूरइं णाइ कहंति दसासहु ॥
राहवहु सीय णउ दिण्ण पइं किं उक्कंठिउ वइवसवासहु ॥ ६ ॥

7

हेला—कंचणकवयसोहिओ णवतमालवण्णे ॥

संझारायराइओ णं घणो रवण्णे ॥ छ ॥

संणज्झमाणु रिउतासणेण
असिविज्जुइ विमलइ विप्फुरंतु
भहु को वि णिहालइ बाणपत्तु
भहु को वि पलोवइ तोणजुम्मु
भहु को वि मुयइ सणाहभारु
कासु वि पइसरइ ण पुलइयंगि
किं धणुणा कयवहुसंकएण
भहु को वि भणइ हउं कौतवाहु
मायंगकुंभु णिहिकुंभु जेव
भहु को वि भणइ मँहिघत्तियाइं
अवरु वि करिरयणहं देमि हत्थु

भहु सोहइ दिव्वमरासणेण ।
जीविययरु जीवणु जणहु दिंतु ।
लइ एयहु एवहि रिउ जि पत्तु । 5
णं रणसिरिऊरुजुयलु रम्मु ।
किं कासु वि रुच्चइ लोहँसारु ।
सो फुट्टइ पिसुणु व सुयणसंगि ।
चरणेण वि आहववंकएण ।
कौंते वाहँमि रिउरुहिरवाँहु । 10
हउं फोडमि अज्जु गयाइ तेव ।
दक्खालमि थूलइ मोत्तियाइं ।
णियणिवरिणमेह्लावणसमत्थु ।

घत्ता—दहवयणहु णिच्च विरत्तियहि को वि भणइ हियवउं संतावमि ॥

अणरसियहि सीयहि तणिय तणु राहवरत्तकुसुंभइ रावमि ॥३॥ 15

४ हुंति. ५ A दूकइ. ६ AP °णहयर°. ७ A धुउ; P धउ; K धव and gloss तृत्तिम्.

7 १ P °उरुजुयरम्मु. २ AP लोहभारु. ३ A थाहमि. ४ A °थाहु. ५ A कुंभणिहि.
६ P महिथत्तियाइं.

9 a वि हि वि हा णु पूर्वाजितम्. 11 b असि ण हर° त्वङ्गनखाः; °क्ष ड पि य प्रहताः. 12 a धव तृत्तिम्.

7 २ °राइओ राजितः शोभितः. 4 b जीवणु ग्रासवृत्तिः जलं च. 5 a बाणपत्तु बाणपुंखम्.
6 a तोणजुम्मु तूणारयुगलम्. 8 a पुलइयंगि पुलकितशरीरे गात्रत्राणं न प्रविशति. 9 a कयवहु-
संकएण स्वकार्यक्षमतया कृता वधूनां बहूनां च शङ्का येन. 10 कौंतेवाहु कुन्तपरः; b °वाहु प्रवाहः.
14 अणरसियहि अरसिकायाः अरक्तायाः; रावमि रञ्जयामि रक्तां करोमि.

8

हेला—आरूढा महासवारवाहिया तुरंगा ॥

कंचणसारिसज्जिया चोइया मयंगा ॥ छ ॥

पवणपहयं विलंबियधयवडं
सयडचक्कचिक्करणपडिरयं
विष्फुरंतकरवालधारयं
पणवतुणैवञ्जल्लरिमहासरं
चलियधूलिमइलियदिसामुहं
इंदचंदणाइंदतासणं
णिग्गयं बलं बहुलकलयलं
दुमुदुमंतरणरहसमईलं
खग्गघायविच्छिण्णसीसयं
कौंतकोडिसंघट्टेपेल्लियं
विचलियंतगुप्पंतचरणयं

विविहजाणजंपाणसंकडं ।
बद्धरोसभडभिउडिभइरवं ।
हणु भणंत दुक्कासवारयं ।
चित्तच्छत्तच्छणंवरंतरं ।
पलयकालकालग्गिसंणिहं ।
णं कयंतरायस्स सांसणं ।
रहियणहयलं पिहियमहियलं ।
जाययं च पडिसुहडगोदलं ।
हुंकरंतभूमंगभीसयं ।
वणगलंतकीलालरेल्लियं ।
हयगयासंणीदिण्णकरणयं ।

5

10

घत्ता—पणचियराहवरा मणपयइं सीयाकारणि अमरिसपुण्णइं ॥

अग्भिइइं गिरितरुवरकरइं मायावाणरणि सियरसेण्णइं ॥ ८ ॥

15

9

हेला—झंसमुग्गरमुसुंढिहिं णिहयणरवरंगं ॥

जायं दंडसंजुयं दूरमुक्कमंगं ॥ छ ॥

रंहिएहिं रहिय तुरएहिं तुरय
पायालहिं वरपायाल खलिय
हरिखुरखणित्तखउं णं मरंतु

रणि रुद्ध एतं दुरएहिं दुरय ।
कर्मसंचालेण धरित्ति दलिय ।
उट्टिउ धूलीरउ पय धरंतु ।

5

8 १ P °सारसज्जिया. २ AP °पहयपविलंबिय°. ३ A पवणरणय°. ४ AP° दणुइंदतासणं.
५ P गासणं. ६ A °मंदलं. ७ P भीमयं. ८ AP विवलियंत°. ९ P गयसिणी°.

9 १ A झसमुसलमुसुंढिहिं णिहिय°. २ A रहएहिं. ३ AP यंत. ४ AP °संचारेण.
५ A णं खउ मरंतु.

8 2 °सारि° पर्याणम्. 6 a °तुणव° करटा वाद्यविशेषः. 9 b रहिय° छादितम्.
12 a वण° व्रणः; °कीलाल° रुधिरम्. 13 a विचलियंत° व्रुटितम् अन्त्रम्; b हयेत्यादि अश्व-
गजारोहकदत्तकरणकम्. 15 गिरितरुवरकरइं वानरकरे गिरयः राक्षसकरे वृक्षाः.

9 1 °मुसुंढि दण्डविशेषः परिघायुधं च. 2 दंडसंजुयं बलयोर्युद्धम्. 3 a रहिएहिं रथिकैः;
b एतं संमुखमागच्छन्तः; दुरएहिं गजैः. 4 a पायालहिं पदातिभिः. 5 a °खणित्तखउ खनित्रैः
खनितः; b पय धरंतु मरणभयादिव पूर्वं पादे लमः.

आर्यासचडिउ णं पुहइप्राणु
चवलेण सुद्धवंसहु कएण
दीसइ पंडुरु कविलंगु केव
खुप्पइ मयथिप्पिरि करिकवो लि
महुयरु पडिवक्खीहुयउ तासु
जंपाणि गवक्खहिं पइसरंतु
रउ भावइ महु णं वीउ जारु
असिसलिलि णिलीणु णं पंकु होइ
मउडगि पडंतु जि कुंडलासु
मइलइ मंडलियहं उरपएसु

संताविर तें पिहिउ भाणु ।
णिवडंतु णिवारिउ णं धएण ।
छत्तारविदि मयरंदु जेव ।
भणु को णं विलग्गइ दाणसीलि ।
किं पिच्छं फेडइ चियदिसासु । 10
पररमणियणत्थलि मंदं थंतु ।
तें छाइउ दहमुहवहुवियारु ।
चमराणिलेण उल्ललिवि जाइ ।
धावइ मेहु व रविमंडलासु ।
ढंकइ सियहारावलि विलासु । 15

अत्ता—रयमेलउ मइलिवि भुवणयलु कलिकालेण समानउ ॥

करिगिरिवणणिज्झरवियलियहि सोणियजलवाहिणियहि लीणउ ॥९॥

10

हेला—जा कोट्टं पलोट्टियं कवडवाणरेहिं ॥

ता रविकित्ति णिग्गओ सहुं सकिंकरेहिं ॥ छ ॥

तओ तेण भूमीससेणाहिवेणं
रहत्थेण सामत्थधत्थाहिएणं
विहिज्जंतकंधच्छिरं छिण्णमुंडं
ललंतंतवेढंतथिप्पंतरत्तं
भिडंतं पडंतं रुसारत्तेणत्तं

पिसक्कासणुम्मुकजीयारवेणं ।
तमोह व्व सारंगविंबंकेएणं ।
रसालुद्धभेरुंडखज्जंतंरुंडं । 5
सदप्पं खुंरप्पोह्मच्छिज्जंतच्छत्तं ।
समुब्भूयपासेयधाराहि सित्तं ।

६ AP आयासि चडिउ. ७ AP पाणु. ८ A संताउ करंतु विणिहिउ भाणु; P संताव करंतं पिहिउ भाणु. ९ P पंडुर. १० P मा खुप्पइ. ११ P करिकणे लि. १२ A को वि ण लग्गइ. १३ A मंदु. १४ A णउ भावइ. १५ P णं महु. १६ A दहमुहमुहवियारु. १७ AP णउ. १८ गिरिवरणिज्झर.

10 १ AP सह. २ A धम्माहिएणं. ३ A सारंगचिंधंकेएणं. ४ A रुण्णच्छिरं. ५ A तुंडं. ६ A खुरुप्पेहि; P खुरुप्पोह.

6 b संता विर तापकारी; तें रजसा. 7 b धएण ध्वजेन. 9 a मयथि प्पिरि मदक्षरणेन; करि क वो लि गजकपोले. 10 b चियदि सासु व्यातदिग्गवदनम्. 11 रउ रजः; b दहमुहवहुवियारु दशमुखवधु-विकारः. 14 b मेहु व रविमंडलासु सूर्यस्य छादनार्थे अभ्रपटलमिव धावति. 15 a उरपएसु हृदय-प्रदेशम्. 16 रयमेलउ रजःसमूहः. 17 करि गिरिव णणिज्झरवियलियहि गजा एव पर्वताः तेषां ऋणनिर्झरणविगलितार्थां नद्याम्.

10 1 कोट्टं दुर्गः; पलोट्टियं पातितः. 2 रविकित्ति रावणस्य सेनापतिः. 3 b पिसक्कासणुं धनुः. 4 a धत्थाहिएणं ध्वस्तशत्रुणा; b सारंगविंबंकेएणं चन्द्रेण. 5 a च्छिरं विभेद्यमानम्. 6 a थिप्पंतरत्तं क्षरदुधिरम्. 7 b पासेयं स्वेदबिन्दवः.

गइदुग्गवंतग्गभिज्जंतगत्तं
गयाघट्टणुट्टग्गिजालापलित्तं
समप्पंतइच्छं सरुब्भिण्णवच्छं
विरुद्धंतजुद्धंतपाइक्कचंडं
वराहिंदमाणेहिं बाणेहिं रुद्धं

दिसासुं विसंतं वसातुप्पलित्तं ।
थिरत्तेण साहारियासारमित्तं ।
महाघायमुच्छाविणिग्गीलियच्छं । 10
सकोदंडकंडं कयं खंडखंडं ।
रणे रामएवस्स सेण्णं णिरुद्धं ।

घत्ता—तहु परबलु किमिणुं व ओसरिउं मग्गणवंदु घुलंतउ पेक्खइ ॥
आवरणु करइ तणु संवरइ णवउ कलत्तु व अप्पउं रक्खइ ॥ १० ॥

11

हेला—ता विज्जाहराहिवो पउंरकोवपुण्णे ॥

संणद्धो महाभडो अवि य कुंभयण्णे ॥ छु ॥

पहु कुंभु णिकुंभु अमेयसत्ति
इंदीवरलोयणु इंदवम्मु
मह्वंतु महामहु बुहमुहक्खु
खरदूसणु मउ हत्थप्पहत्थु
असिधेणु व केण वि दढंणिबद्ध
रणदिक्खहि थाइवि दिट्ठिरम्मु
संधइ समाणसरकोडि केव
केण वि चिंतिवि णियंनृवहु कुसल्लु
केण वि असिवाणिइ णयण दिट्ठ
केण वि दरिसाविउ अद्धयंदु

इंदइ इंदाउहु इंदकित्ति ।
इयदेहु सूरु दुम्मुहु अग्गम्मु ।
बलकेउ महाबलु धूमक्खु । 5
संणज्झइ भडयणु रणसमत्थु ।
परसासाहारहु किर पर्यद्ध ।
केण वि धरियउ गुणवंतु धम्मु ।
परलोउ महइ वायरणु जेव ।
रिउकणकंडणु कट्ठियउं मुसल्लु । 10
मीणा इव वेण्णि रमंति इट्ठ ।
थिउ धरिवि णांइ णहंभायछंदु ।

७ AP °घट्टणुत्थग्गि°. ८ A वराहिंदमाणेहि. ९ A विरुद्ध. १० AP किविणु.

11 १ A पवर°. २ P इंदधम्मु. ३ P अमम्मु. ४ P मह्वंतु. ५ A दडुणिबद्ध. ६ AP पइद्ध. ७ AP °णिवहु. ८ AP णहभाइ चंदु; K णहभायचंदु but glos: सादृश्यं; T णहभायछंदु नभोभागसादृश्यं.

9 b साहारियासारमित्तं माभीपिताधीरितसारमित्रम्. 10 a समप्पंतइच्छं संग्रामपूर्णेच्छम्. 12 a वराहिंदमाणेहिं सर्पप्रमाणैः दीर्घैः बाणैः. 13 किमिणु कृपणम्.

11 1 पउर° प्रचुरः. 3 b इंदाउहु इन्द्रायुधनामा. 4 b इयदेहु इतदेहनामा. 5 a बुह-मुहक्खु बुधमुखारख्यः. 6 b मउ मयः. 7 b परसासाहारहु परधान्याहारि, परक्षासाहारे च; पयद्ध प्रयुक्ताः. 8 b गुणवंतु धम्मु धर्मो धनुश्च. 9 a समाणसरकोडि समानाः सजातीयाः सप्रमाणाश्च स्वरा बाणाश्च; b परलोउ सुभटपक्षे परलोपः, व्याकरणपक्षे समानः सर्वणो दीर्घो भवति परश्च लोपः. 11 a असिवाणिइ खड्गपानीये. 12 णहभायछंदु नभोभागसादृश्यम्; नभोभागो हि अर्धचन्द्रं खण्डचन्द्रं धरति सुभटः पुनरर्धचन्द्रं बाणविशेषमिति.

संगमखेत्तकरणुज्जमेण

केण वि हलु गंहिउ सविक्रमेण ।

केण वि गंहियउ फणिपासु सारु

सोहइ णं संगेरसिरिहि हारु ।

घत्ता—मार्यगतुरंगविमाणघयरहवरवाहणदूसंचारें ॥

15

सणद्ध कुद्ध जयलुद्ध भड उब्भड णिग्गय णयरदुवारें ॥ ११ ॥

12

हेला—अमरसमरभरुव्वहो थिरंकिणंकखंधो ॥

कुलधवलो धुरंधरो वइरिबाहुबंधो ॥ छु ॥

रणणिम्मवियरणियरधयभीयरो

विक्रमंक्रमियमहिवलयगिरिसायरो ।

पवणवइसवणजमवरुणबलभंजणो

5

असुरसुरखयरफणितरुणिमणरंजणो ।

गरलतमपडलकार्लिदिजलसामलो

सुरहिमयणाहिउच्छलियतणुपरिमलो ।

कोवगुरुजलणजालोलिजालियदिसो

सरलरत्तच्छत्रिच्छोहणिजियविसो ।

10

वीरैपरिहवपरो रइयरणपरियरो

मुक्कगुणरावधणुदंडमंडियकरो ।

णिहिलजगगिल्लणकालो व्व दुक्को सयं

छत्तछण्णो महंतो जणंतो भयं ।

कढिणभुयफल्लिहसयल्लिदकंपावणो

15

कसणघणकरिवरारूढओ रावणो ।

असमपरविसमसाहसणिही णिग्गओ

विमलकमलाहिसेयस्स णं दिग्गओ ।

हरिकरिकमाहया हल्लिया मेइणी

रणरुहिरलंपडी णच्चिया डारणी ।

20

कुलिसकुडिलंकुरारावलीराइयं

धगधगंतं पुरो चक्कमुद्धाइयं ।

९ P गंहिउ विक्रमेण. १० AP लइयउ. ११ A संगरि.

12 १ AP थिर. २ P विक्रमाक्रमिय°. ३ AP धीर°. ४ A °गलिन°.

13 ७ स विक्रमेण निजपराक्रमेण. 15 °दूसंचारें दुःसंचारेण.

12 8 सुरहिमयणाहि° सुरभिकस्तूरिका. 10 °विच्छोह° क्रोधः; °णिजियविसो निजित्त-
इपमः. 15 सयल्लिदकंपावणो शैलेन्द्रकम्पकरः. 18 विमलकमला° निर्मललक्ष्मीः. 21 अंकुरारा-
वलीराइयं अङ्कुरवदाराश्रेणिशोभितम्.

घत्ता—फेडियमुहवडभुयधयवडहं दावियदूसहगयघडघायहं ॥
दलवट्टियहरिवरभडथडहं मुसुमूरियसामंतणिहायहं ॥ १२ ॥

13

हेला—विज्जाबलरउहहं जायगारवाणं ॥
वाहियरहविमहहं सहरउरवाणं ॥ छ ॥

जयकारियराहवरावणाहं	जयलच्छिरमणरंजियमणाहं ।
समुहागयाहं सपसाहणाहं	जुञ्जंतहं दोहं मि साहणाहं ।
असिणिहसणसिहिजालउ जलंति	गुडपक्खरपल्लाणहं जलंति । 5
णीवंति ताहं वणरुहजलेण	केण वि पइसिवि आहवि छलेण ।
परिमुक्कसंकु पिहुपिच्छफारु	लग्गैउ णं गयवरगिरिहि मोरु ।
गंडयलि विलग्गउ बाणपुंखु	दीसइ णं छुप्पउ दाणकंखु ।
केण वि गयणंगणि देवि करणु	करिक्कुंभवीढि थिरु थैविवि चरणु ।
लोट्टिवि आरोहु णिबद्धकोहु	कंडिल्लुरियइ पहणिवि धित्तु जोहु ॥10
अरिणरकरघल्लिय लउडिदंडं	चूरिय संदण संगामैंचंड ।
मणिजडिय पडिय मंडलियमउड	उच्छलिय रयणकरणियर पयड ।
केण वि कासु वि पविमुट्टिहयउं	सीसकैं सहं सिरु चुण्णु कयउं ।
गउ वियलियासु कंकालसिद्ध	कासु वि लोहियरसु रसिवि गिद्ध ।
उत्तेप्पिणु वच्चइ गयणमग्गु	णं पोरिसु वण्णइ गंपि सग्गु । 15
तहिं अवसरि बहुतत्तिल्लएहिं	जायवि कयजणमणसल्लएहिं ।

घत्ता—णिउ णिग्गउ भरहद्धाहिवइ चारहिं रामहु काहिउ वियारिवि ॥
थिय ता रणदिकखहि दासरहि पुष्पयंतु जिणवरु जयकारिवि ॥१३॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे राहवरावणबलसंघर्षेण
गाम सत्तहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७७ ॥

13 १ A चलंति. २ A पिच्छमारु. ३ A उग्गउ. ४ A देवि. ५ A करिं छुरियइ.
६ P °दंडि. ७ P °चंडि. ८ A बहुमत्तिल्लएहिं. ९ A उभयवलभिडणं; P उभयवलभिडणं.

24 °णि हा यहं समूहयोः द्वयो सैन्ययोः.

13 1 °गारवाणं °गर्वाणाम्. 5 b गुड? गुडः कुञ्जरसंनाहः. 6 a वण रुहजलेण रुधरेण.
7 a परिमुक्कसंकु परिमुक्कशक्कुः, शक्कुः सेल्लविशेषः. 13 a पविमुट्टिहयउ वज्रमुष्ण्या हतम्.
14 a वियलियासु नष्टाशः; कंकालसिद्धु कापालिकः. 16 a °तत्तिल्लएहिं चिन्तायुक्तैः चरैः.
17 भरहद्धाहिवइ रावणः.

पडिभंडकालाणलु जोइयभुयबलु विष्फुरंतु मच्छरि चडिउ ॥
महिकरिणिकयग्गाहु पसरियविग्गाहु कणहु दसासहु अब्भिडिउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—पहय गहीर भेरि सिरिरमणीमाणियदेहलकखणा ॥

संणज्झंति हणुव सुग्गीव महांपहुरामलकखणा ॥ छ ॥

माणिकंसुजालविण्णासइं	चंदकवयचंदियसंकासइं ।	5
आणियाइं कवयइं रहुरायहु	णउ विसंति रोमंचियकायहु ।	
बाहुजुयलु पुलपण विसट्टइ	रिसरीरबंधणइं व तुट्टइ ।	
आहवरोलहरिसपडहच्छहु	उरि संणाहु दिण्णु सिरिवच्छहु ।	
माइ ण सीयहि मणि णं रावणु	फुंट्टिवि गउ सयदलु णं दुज्जणु ।	
सुग्गीवहु गीयहु रणभरधुर	णिहिय कैंरंति काइं किर परणर ।	10
संणज्झंतु काइं सो सुच्चइ	हणुवंतु वि वम्महु जहिं वुच्चइ ।	
तहिं जगु विंधिवि मागिवि मेल्लइ	अंगंउ अंगइं वइरिहिं सल्लइ ।	
दहियदोव्वसिद्धत्थयमीसिउ	सीमंतिणिकरघिन्तउ सेसउ ।	
विरसिउ जुज्झडिंडिमाडंबरु	बहिरिउ तेण विवरु दिसि अंबरु ।	
मत्ति विजयपव्वइ सइं माहउ	अंजणगिरिकरिवरि थिउ राहंउ ।	15
बलिपुत्ते तहु बलवित्थिणी	विज्ज पहरणावरंणि विइणी ।	

घत्ता— सइ का वि पजंपइ किं पि ण कंपइ पिययम परबलु णिट्ठवहि ॥
हणु करिकुंभयलइं हिमकणधवलइं मोत्तियाइं महु पट्टवहि ॥ १ ॥

2

दुवई—का वि पुरंधि भणइ किं बहुवें अणुदिणु हिययजूरणं ॥

णियसिरंपंकरण पिय फेडहि णरवइपियविसूरणं ॥ छ ॥

1 १ A महिघरिणिकयग्गाहु. २ A महपहु. ३ P आहवि रो^०. ४ A फट्टिवि. ५ P णियंति.
६ A जगु तहिं. ७ A अंगउवंगइं. ८ A राहउ. ९ A माहउ. १० A धरणि विदिणी.

2 १ AP ^०सिरकप्पिएण. २ A ^०रिणविसूरणं.

1 2 ^०कयग्गाहु कृताग्रहः. 5 a ^०विण्णासइं विन्यासानि, रचनायुक्तानि; b चंदकवयचंदियसंकासइं मयूरपिच्छचन्द्रकाकाराणि. 6 b विसंति प्रविशन्ति. 7 a विसट्टइ स्फुटति; b ^०सरीरबंधणइं शरीरावयवबन्धानि. 8 a ^०रोल^० कोलाहलः; ^०पडहच्छहु तृप्तस्य भृतस्य; b सिरिवच्छहु हरेः. 12 a अंगउ सुग्गीवपुत्रोऽङ्गदः. 16 a बलिपुत्ते सुग्गीवेण.

2 1 बहुवें बहुनोक्तेन. 2 सिरपंकरण मस्तककमलेन; णरवइपियविसूरणं रामप्रियाया; सीतायाः खेदम्.

का वि भणइ पत्तइउं करेज्जसु
 गयपडियागयपयपरिठवणं
 का वि भणइ जं मइं थणमंडिउं
 किं वच्छयलु णाह णंदेसइ
 का वि भणइ रणि म करि णियत्तणु
 किं पुणु महिमंडलु वित्थिण्णउं
 देज्जसु पत्थिवचित्तिणिवारउं
 का वि भणइ पिययम पेयालइ
 हउं दीवउ बोहेसमि जइयहुं
 का वि भणइ पडिण वि पिंडे
 कासु वि सिद्धहु आणइ थंभिवि
 परं मुए वि हउं णडिय रइच्छइ
 घत्ता—सुहवत्तहु वंछहि णाह ण पेच्छहि चंडहि वेयालालियहि ॥
 कयतुट्टिपरिग्गहु परकंठग्गहु खग्गलट्टिपुण्णालियहि ॥ २ ॥

पउ पच्छामुहुं णाह म देज्जसु ।
 सहइ कइंदु ण भहु भयगमणं ।
 तं^३ गयदंतहं संमुहुं उड्डिउं । 5
 पुणु आलिगणंसुहुं महु देसइ ।
 सुयरिज्जइ पहुभूमिणियत्तणु ।
 इच्छियचायभोयसंपण्णउं ।
 खग्गसलिलु वइरिहिं तिसगारउं ।
 वसतुप्पे रिउसीसकवालइ । 10
 ओवाइउं महु पूरइ तइयहुं ।
 महिवि पिसल्लउ मासइ खंडे ।
 पासि धरिज्जसु वायइ हंभिवि ।
 तं परिपुच्छिवि आंवामि पच्छइ ।

3

दुवर्ह—तुह एयं सुवंसयं पिययम पणविणं विणीयं ॥

सज्जीयं सरासणं समरि हरउ वइरिजीयं ॥ छ ॥

णंदणवणु व णीलतालद्धउं
 दीसइ णीसरंतु रइयाहउ

णरवेसें णं सइं मयरद्धउ ।
 अंजणगिरिकरिवरि थिउ राहउ ।

३ A णं गय°. ४ P आलिगणु सहुं. ५ A सुमरिज्जइ. ६ A उववायउ. ७ AP थविज्जसु. ८ A आइवि.

3 १ A पणवियं.

3 b पउ पादः. 4 a गयेत्यादि आद्याक्षरादन्याक्षरं यावत् अन्याक्षरादाद्याक्षरं यावत् एका (ताह ?) दश एव वर्णरचनाविशेषोऽभिमुखपराङ्मुखपददानं च गतप्रत्यागतपदप्रतिष्ठापनं तेन; b सहइ कइंदु शोभते कवीन्द्रः, न तु सुभटः. 6 a णंदेसइ नन्दिष्यति वर्धिष्यते. 7 a णियत्तणु पश्चान्निवर्तनम्; b पहु भूमिणियत्तणु राशा पूर्वमुद्दालिता पश्चाद्गता भूः. 8 b 'चाय° त्यागः. 9 a पत्थिवचित्तिणिवारउं रामचिन्तानिवारकम्; b तिसगारउं तृषाकारकम्. 10 a पेयालइ प्रेतालये श्मशाने. 11 a बोहेसमि प्रज्वालयामि; b ओवाइउं उपयाचितकम्. 12 a पिंडे शरीरेण; b महिवि पूजयित्वा. 13 a आणइ आज्ञया, कमपि व्यन्तरं त्वं तव समीपे मरणावसरे रक्षेः, यस्मात्स तव वार्ता मम कथयतीति भावार्थः. 14 a मुए वि मृतेऽपि; णडिय कदर्थिता; रइच्छइ रतिवाच्छया; b तं पिशाचम्; आंवामि पच्छइ पश्चाद्दहमागच्छामि तव समीपम्. 15 सुहवत्तहु वंछहि हे नाथ त्वं सुभगत्वं किं वाच्छसि; चंडहि प्रचण्डायाः; वेयालालियहि वेगेन लालितायाः वाहितायाः यष्टेः. 16 खग्गलट्टिपुण्णालियहु पुंश्रल्याः खङ्गयष्टेः परकण्ठग्रहणं न पश्यसि.

3 1 सुवंसयं सुवंशोत्पन्ने धनुः; पणविणं प्रणमनशीलम्; विणीयं विज्ञातम्. 2 सज्जीयं सप्रत्यञ्जम्. 3 a °तालद्धउं तालाङ्कम्. 4 a रइयाहउ रचितसंग्रामः.

णं णवजलहरसिहरि ससंकुड
 णं जसु तिजगसिहरिपंडुरतणु
 कयसैरसोहउ णाइ मरालउ
 सीयाकंखउ विरहूण्है हउं
 एत्तहि लक्खणु रोसवियंभिउ
 लच्छीललणालोलणलोहिउ
 विजयमहीहरि कुंजरि चडियउ
 मेहहु उवरि मेहु णं थक्कउ

घत्ता — चोइयमायंगइं चलियतुरंगइं वाहियरहइं भयंकरइं ॥

संणिहियविमाणइं जरजंपाणइं रोसुद्धाइयकिंकरइं ॥ ३ ॥

णं अहरावइ इंदु अंसंकउ । 5
 धम्मालोयलीणु णं मुणिमणु ।
 सूरपहाहउ णाइ मरालउ ।
 दाणांलित्तपाणि णं दिग्गउ ।
 णं रणसिरिणञ्चणकर उष्मिउ ।
 पंचवण्णमरुडद्वयसोहिउ । 10
 कालसलोणउ जणि आवडियउ ।
 रिउहुं णां जमदूयउ दुक्कउ ।

4

दुवई—लग्गइं रामरामणाणंदइं बलइं रुसांविशालइं ॥

णरमुहकुहरमुक्कहुंकारुहीवियबाणजालइं ॥ छ ॥

मुक्कमुसलहलपट्टिससेलइं
 लुयकरसिरउरजणुयजुत्तइं
 कलिकेलासवाससंतासइं
 मायाभावगाववित्थारइं
 किलिकिलिरवसोसियकीलालइं
 मिलियदलियपक्कलैपाइक्कइं
 अंतमिलंतथंतकायउलइं
 तणुवियलंतसेयसित्तंगइं
 मयगल्लमलणमलियधयसंडइं
 सुरहरधिवणाघित्तखयरिंदइं

पसरियपाणिधरियधम्मेलइं ।
 मग्गणगणविच्छेइयउत्तइं । 5
 वहरिविलासहासणिण्णासइं ।
 हुयवहवरुणपवणसंचारइं ।
 दिसैविदिसुट्टउग्गवेयालइं ।
 वसकइमणिमण्णरहचक्कइं ।
 वालपूलणीलियधरणियलइं ।
 पक्खिपक्खमरुहयसमसंगइं । 10
 हित्तारोहजोहकोदंडइं ।
 खग्गकंपकंपावियचंदइं ।

२ AP मयंकउ. ३ AP आसंकउ. ४ A कयसरिसोहउ. ५ AP वियालउ. ६ A °कंखउ णं उण्हालउ; P °कंखउ विरहु उण्हाहउ. ७ A adds after this: अण्णेसंतु रामु णं णिग्गउ; K also has this line but scores it off. ८ A दाणविलित्त°. ९ AP °विवाणइं.

4 १ P रोसविशालइं. २ P दिसिविदिसुट्टियउग्ग°. ३ P °पक्खल°. ४ P °गलचलणमलिय°.

5 a ससंकउ चन्द्रः. 7 a °सर° बाणस्तडागं च; मरालउ हंसः; b मरालउ मरो मलः कृष्णसं तस्य आलयो मेघः. 8 a विरहुण्है विरहोष्मणा; हउ हतः. 10 a °लो हिउ लोभिष्ठः.

4 4 a °जणुयजुत्तइं जानुयुक्तानि; b °विच्छेइय° छिन्नानि. 5 a कलि° यमः; °केलास- वास° शंकरः. 8 a °पक्कल° समर्थाः. 9 a °कायउलइं काककुलानि; b वालपूल° केशनिचवः. 10 b °समसंगइं °श्रमसङ्गानि. 12 a सुरहर° विमानम्; °धिवण° पतनम्.

घत्ता—असिदंहु लएप्पिणु देहि भणेप्पिणु परबलि परिसक्कइ वियडु ॥
 फरपत्तविहत्थउ को वि समत्थउ जुज्झभिव्वख मग्गइ सुहडु ॥ ४ ॥

5

दुवई—को वि भंडु करेहिं णिहएहिं कमिहिं वि हुंकरंतइं ॥
 कोक्कइ मासगासरसियाइं पिसायइं गयणि जंतइं ॥ छ ॥

को वि सुहडु मुउ करिदंतंरि	णावइ सुत्तउ णियजसपंजरि ।
को वि सुहडु अद्धिंदे मंडिउं	भूयहिं रुदु व णिविसु ण छंडिउ ।
को वि सुहडु सिरु पडिउ ण वितइ	असिवरु अरिवरं कंठहु घत्तइ । 5
को वि सुहडु रत्तइहि ण्हायउ	सत्तु सिरत्थु णिएप्पिणु आयउ ।
कायरदोसिण हउं ण विहिण्णउ	पहरणु दीवु धरिवि उत्तिण्णउ ।
को वि सुहडु परिवहियसाहउ	णं पारोहएहिं णग्गोहउ ।
रिउबाणहिं उच्चाइउ वट्टइ	पंखुत्तिण्णरुहिरु सिव चट्टइ ।
कासु वि सुहडु गुञ्जु ण रक्खइ	कण्णालग्गु गिदु णं अक्खइ । 10
पइं संमुंडु पत्थवरिणि वूढउ	लोहिउ णाइ कलंतरि वूढउ ।
देहमासु वायसहं विहित्तउ	उत्तमंपुरिसहं एउ जि जुत्तउ ।
कासु वि अंगि रहंगु पइट्टउ	अब्भगग्भि रविबिंबु व दिट्टउ ।

घत्ता—संवहेणोसारिवि अवंर णिवारिवि जुज्झ वि मडु देहु छिवइ ॥

कासु वि सुरकामिणि लीलागामिणि माल सयंवरि सइं धिवइ ॥ ५ ॥ 15

५ AP करपत्त°. ६ P मग्गइ जुज्झभिव्वखइ.

5 १ P सुमुडु. २ A खंडिउ. ३ A रुदु व but gloss फर इव. ४ AP अरिवरणियरहु.
 ५ A वण्णविहिण्णउ. ६ A सोहउ. ७ A पंखुत्तिणु; P पुंखुत्तिणु. ८ A समुडु. ९ AP कलंतरु.
 १० AP उत्तिम°. ११ A सरवहेण. १२ P अवरउ वारिवि.

13 परिसक्कइ विजृम्भते. 14 फरपत्तविहत्थउ खेटकभिक्षापात्रहस्तः.

5 1 करेहिं णिहएहिं हस्तैर्हतैश्छिन्नैः; कमिहिं पादैः. 4 a अद्धिंदे अर्धचन्द्रेण बाणेन.
 5 b घत्तइ क्षिपति. 6 a रत्तइहि रक्तइदे; b सिरत्थु शिरःस्थम्. 7 a विहिण्णउ विभक्तः.
 8 a साहउ शाखाः कराश्च. 9 a रिउबाण हिं इत्यादि कोऽपि सुमटः बाणैर्विद्धः पतितः सन् वट-
 वृक्षसदृशो दृश्यते, ये उपरि स्थिता बाणाः ते वटस्य शाखा इव दृश्यन्ते ये अधःस्थिता बाणास्तैर्जटाभि-
 रिबोच्चलित इव दृश्यन्ते; b सिव शृगाली. 11 a समुंडु स्वमस्तकम्; पत्थवरिणि वूढउं पार्थिव-
 ऋणविषये क्षिप्तम्; b कलंतरिवूढउं व्याजे धृतं रक्तम्. 13 अब्भगग्भि मेघमध्ये. 14 संवहेणो-
 सारिवि शपथेन अन्या देवीरुत्सार्य निवार्य; जुज्झ वि संग्राममध्येऽपि; मडु हठात्; देहु शवम्,

6

दुर्घर्ष—जायइ संगरम्मि वरखयरकवालचुए वसारसे ॥

णरकंकालमहुरवीणासरगाइयरामसाहसे ॥ छ ॥

णवर जयसिरिहरो

अरिहरिणहरिवरो ।

कुलकमलदिणयरो

अणयजणभययरो ।

रणियगुणधणुरवो

जणियखलपरिहवो ।

अमियअमरिसवसो

तिजगपसरियजसो ।

सयणुकसणियदिसो

फणि व विसरिसविसो ।

कुइयवइवसणिहो

सिहि व विलसियसिहो ।

थरहरियमहियलो

धयपिहियणहयलो ।

करकलियपहरणो

पवरबलजियरणो ।

दढकदिणथिरं करो

पडिसुहडमयहरो ।

घत्ता—तिहुयणजूरावणु रूसिवि रावणु धाइउ रामहु संमुहु किह ॥

णवमेहु व मेहहु सीहु व सीहहु दिसहत्थिहि दिसहत्थि जिह ॥ ६ ॥

7

दुर्घर्ष—ता करिकरसमाणकरकद्वियगुणधणुदंडमंडलो ॥

कणयपिसकपुंखंरुइरंजियमणिमयकणकुंडलो ॥ छ ॥

उक्खयदुक्खलक्खतरुकंदहु

इंदइ इंदसरिसु गोविंदहु ।

विडविचिंधु किक्किंधणिवासहु

वालिकंठकंदलजमपासहु ।

णिद्धहु णियकुलभवणपईवहु

भिडियउ कुंभयणु सुग्गीवहु । 5

महिमहिहरचालणवलवंतहु

रणि रविकिसि वीरहणुवंतहु ।

खरकिरणु व तमतिमिरणिहायहु

णलिणकेउ लगउ खररायहु ।

अंगयभइ आहंडलकेउहि

णावइ मुणिवरिंदु मसकेउहि ।

इंदवम्मु कुमुयहु दूसीलहु

कयबहुदूसणु दूसणु णीलहु ।

संदणचलणवलणसंफेडहिं

लउडिघायजजरियकिरीडहिं । 10

6 १ AP रणियधणुगुणरवो. २ A °धियकरो.

7 १ A °मंडणो. २ P °पुंखंरुइ°. ३ A लीलहु. ४ A दंसणचलण°.

6 २ णरेत्यादि नरशरीरास्थितडतडाट एव वीणाशब्दः. 4 b अणयजणभययरो अनतानामनप्राणां भयंकरः. 6 a अमियं प्रचुरः. 7 a सयणुं स्वशरीरम्; b °विसो विषं द्वेष्यः. 8 a कुइयवइवसणिहो कुपितयमसदृशः; b °सिहो सिहः शिखा च. 11 b °मयहरो मदहरः.

7 २ कणयपिसकं कनकवाणाः. 3 a उक्खय° उत्खनिताः. 4 a विडविचिंधु वृक्षश्वजः कुम्भकर्णः. 7 a तमतिमिरणिहायहु महान्धकारसमूहस्य. 8 a आहंडलकेउहि इन्द्रकेतोः. 10 a संदणचलण° रथचक्रम्; °संफेडहिं °संस्फोटकैः.

दंतिदंतसंघट्टणघोरहिं सेलसिलायलघित्तपहारहिं ।
 सव्वलमुसलकुलिसससकौतहिं भिडिवालकरवौलफुरंतहिं ।
 घत्ता—रयछइयदियंतहिं भडसामंतहिं जुंज्झंतिहिं खयरामरहिं ॥
 संचूरियमउडहिं णिवडियसयडहिं महि मंडिय धयचामरहिं ॥७॥

8

दुवई—ता लंकाहिवेण हलहेइहि रिंछसुपिंछंसज्जिया ॥
 एक्क दुवईस तीस पण्णास सरा सहसा विसज्जिया ॥ छं ॥
 धरियलोह तेण जि ते गुणचुय उज्जय तेण जि ते मोक्खुज्जुय ।
 चित्तविचित्त तेण ते चलयर पेडुणवंत तेण ते णहयर ।
 धम्मविमुक्क तेण ते हयपर रोसवसिल्ल तेण ते दुद्धर । 5
 तिकख तेण ते वम्मूलूरण सहल तेण ते आसापूरण ।
 रयगय तेण जि ते पलच्चक्खिर वहियजोह तेण जि जयकंखिर ।
 दीहायार णाय णं आया पत्तदाणं जिह सयगुण जाया ।
 पंत णहंतं महंतं भयंकर जिगिजिगंतं पडिवक्खखयंकर ।
 बाणहिं बाण हणिवि काकुत्थं रावणु विहसिवि भणिउ समत्थं । 10
 घत्ता—णियघरिणिहि अग्गइ सयणसमग्गइ घरि बाणासणु गुणिउं जिह ॥
 भडरुहिररसारुणि आहवि दारुणि को विंधइ दहवयण तिह ॥ ८ ॥

9

दुवई—हो हो जाहि जाहि तुहुं णासहि धणुसिक्खाविवज्जिओ ॥
 मा णिवडहि करालि कालाणलि लक्खणसरि परज्जिओ ॥ छं ॥
 कहिं दिट्ठि मुट्ठि कहिं चावलट्ठि ।
 कहिं बद्धु ठाणु कहिं णिहिउ बाणु ।
 धणुवेयणाणु बुज्झंहि पहाणु । 5
 गुरुगेहु गंपि अण्णवउ किं पि ।

५ AP °करवाल मुयंतहिं. ६ A उंज्झिहिति.

१ १ A हलएवहि. २ A °सुपुंछ°. ३ A दुतीसवीस. ४ A मोक्खुज्जुय. ५ AP पत्तदाणु.

१ १ P किह. २ A बुज्झिउ. ३ A अण्णमउ; P अण्णविउ.

४ १ हलहेइ हि हलायुधस्य. ३ b मोक्खुज्जुय मोक्षोद्यताः. ३ b सहल सफलाः फल्युक्ताः.
 ७ a रयगय रजः पापं रयो वेगश्च तत्र तेन गताः; b वहियजोह हतयोधाः. ८ a णाय नागाः सर्पाः;
 b पत्तदाण सुपात्रदानफलवन्तः. ९ a णहंतं नभोमध्येन. ११ सयणसमग्गइ स्वजनपरिपूर्णे.

१ ५ a धणुवेयणाणु धनुर्वेदानम्. ६ b अण्णवउ पुनरपि.

पुणु देहि जुञ्जु	महुं तुहुं सुसञ्जु ।	
सीयावहार	जजाहि जार ।	
तहि रणवमालि	सुहडंतरालि ।	
खरकरपवहु	वडुहु रुहु ।	10
णिडुवियदुहु	इंदइ पइहु ।	
ता कुडुएण	धूमडुएण ।	
णं जलियजाल	णं विञ्जुमाल ।	
चलजलहरेण	वरिसियसरेण ।	
कयआहवेण	तहु राहवेण ।	15
धगधगधगंति	उर्मुक्क सत्ति ।	
वच्छयलि खुत्त	रत्तावलित्त ।	
णं रत्त वेस	मुच्छाविसेस ।	
पसवणु कुणंति	हियवउं लुणंति ।	

घत्ता—जं इंदइ जित्तउ कोवपलित्तउ तं दहमुहुं णं खयजलणु ॥ 20
ओत्थरिउ समत्थहिं णाणासत्थहिं दुज्जयपडिबलपडिखलणु ॥ ९ ॥

10

दुवई—पभणइ णत्थि एण इंदइणा तुह णिहएण रणंजओ ॥

भो भो राम राम मइं पहरहि संचोयहि महागओ ॥ छ ॥

हो हो एण सुहु लज्जिजइ	कुलसामिहिं किह असि कडिज्जइ ।
तुहुं वेहाविउ ताराकंते	अण्णु वि मुक्खएण हणुवंते ।
हउं देविंदेणै वि णउ छिप्पमि	तुम्हहिं माणुसेहिं किं जिप्पमि । 5
जाहि जाहि जा बंधवगत्तइं	णउ णिर्वडंति खुरुप्पविहत्तइं ।
जाहि जाहि जा चक्कु ण मेल्लमि	तुह सिरकमलु ण लुंचिवि घल्लमि ।
वप्पुब्भडभडंवंदविमइं	तं णिसुणेवि पवुत्तु बलहइं ।
पररमणीथणसिहरणिरिक्खण	मरु मरु खल अयाण दुवियक्खण ।
किं सीहेणं सरहु दारिज्जइ	पइं मि काँइ लक्खणु मारिज्जइ । 10

४ P reads this line as: जजाहि जार, सीयावहार. ५ P पधहु. ६ A पविमुक्क. ७ AP पसरणु.

10 १ AP रणजुओ. २ P मुक्कएण. ३ A देविंदे णविउ छिप्पमि. ४ AP विहडंति. ५ P भडविंद. ६ A सिहेण. ७ AP पाव.

10 a °पवहु प्रसृष्टः. 11 b इंदइ इन्द्रजित्. 18 a णं रत्तवेस रक्तवेश्यावत्. 19 a पसवणु प्रस्रवणं क्षरणम्.

10 4 a ताराकंते सुग्रीवेण. 6 a बंधवगत्तइं लक्ष्मणगान्नाणि.

रुवविसेसपरज्जियमेणइ
जामि जामि जइ सेव समिच्छहि

जामि जामि जइ अप्पहि जाणइ ।
महुं पयपंकय पणवि वि अच्छहि ।

घत्ता—पइ रणउहि मारिवि भिच्च वियारिवि ढोइवि लंक विहीसणहु ॥
बोल्लिउं पालेसमि हउं जाएसमि सहुं सीयइ सणिहेलणहु ॥ १० ॥

11

दुवई—ता दसेकंधरेण मणिकुंडलमंडियगंडएसयं ॥

छिण्णं असिसुयाइ णवणिसियइ सीयाएविसीसयं ॥ छ ॥

रूसिवि रामहु अग्गइ धित्तंउ
लइ लइ राहव ग्ररिणि तुहारी
मुय पिय पेच्छिवि मुच्छिउ रहुवइ
सित्तउ हिमसीयल्लंजलधारहिं
कह व कह व संजाउ सचेयणु
ताव विहीसणेण विण्णत्तउं
खयारेंदेण दिट्टतुहघाएं
ता दहमुहेण भाइ दुब्बोल्लिउ
विणु अब्भासवसेण सरासइ
एउ ण वित्तउ कुलविद्धंसण
परंहं मिलेवि काइं किर लद्धउं

पुणु सखारु खलखुद्धे वुत्तउ ।
एह ण होइ कया वि महारी ।
करपहरणु णिवडिउ ण विहावइ । 5
आसासिउ चमारिरुहसमीरहिं ।
कण्णांमुहणिहिंत्तथिरलोयणु ।
सीयामरणु ण देवैं णिरुत्तउं ।
इंदियाल्लु दरिसाविउ भाएं ।
पइं णियवंसुम्मूलिवि घल्लिउ । 10
गोत्तकलिइ लच्छि धुंभु णासंइ ।
दुम्मूह दुट्ट कट्ट दुइंसण ।
पइं अप्पाणउं अप्पणु खद्धउं ।

घत्ता—आरुद्धइ करिवरि चलपसरियकरि जो आसंघइ बालतणु ॥

महिहरु मेहेल्लिपिणु महि लंघेपिणु मरइ मणुउ सो मूढमणु ॥११॥ 15

८ A °परिज्जिय° ९ A रणमुहि. १० AP बोल्लिउ.

11 १ AP दहकंधरेण. २ AP असिसुयाइ मायामयसीयाएवि°. ३ P वित्तउ.
४ AP °सीययजल°. ५ AP कंतामुह°. ६ A °णिहत्त° ७ AP होइ. ८ AP इंदजाळ. ९ A पइं
णियकुल्लु उम्मूलिवि. १० AP धुउ. ११ A adds after this: एवमेव अप्पउ संतासइ; K writes
the line but scores it off. १२ AP वइरिहि. १३ A आरुद्धइ.

11 a °परिज्जिय मे ण इ तिरस्कृता मेनका यया; b जाण इ जानकी सीता. 13 रण उ हि रणमुखे.

11 1 °गंडएसयं गण्डप्रदेशम्. 2 असिसुयाइ असिधेनुकया; णवणि सियइ नवीन-
तीक्ष्णया; सीयाएविसीसयं सीतादेवीमस्तकम्. 5 b णविहावइ न विभावयति, न जानातीत्यर्थः.
9 a दिट्टतुहघाएं दृष्टत्वद्घातेन; दृष्टत्वन्मरणेन; b इंदियाल्लु इन्द्रजालम्; भाएं मम भ्रात्रा.
11 a सरासइ गीः; b गोत्तकलिइ गोत्रकलहेन. 14 आरुद्धइ रुष्टे सति; बालतणु बालतृणम्.

दुवर्ह—मई कुञ्जेण रामु किं रक्खइ भडहणहणरवालण ॥

भाइय आउ आउ जइ सक्कहि भिडु इह समरकालण ॥ छ ॥

तं णिसुणेप्पिणु	पहु पणवेप्पिणु ।	
णवघणणीसणु	भणइ विहीसणु ।	
जइ पिउ जंपहि	सीय समप्पहि ।	5
णिवणयजुत्तहु	दसरहपुत्तहु ।	
होसि सहोयरु	तो तुहुं भायरु ।	
सामि महारउ	सयणपियारउ ।	
णं तो लज्जमि	णंउ पडिवज्जमि ।	
तुज्जु सुहत्तणु	दुज्जसकित्तणु ।	10
होइ असारें	इट्टें जारें ।	
भमियकबंधइ	णिवडियच्चिंधइ ।	
महिचुयलुयभुइ	ता तहिं संजुइ ।	
कयवीराहवि	मेइणिराहवि ।	
बहुदाराहवि	लग्गउ राहवि ।	15
भीसणु रावणु	परमारावणु ।	
रंजियसुरसह	बे वि महारह ।	
रणभरधुरखम	बे वि सविक्रम ।	
पडिहरि हलहर	धवलियकुलहर ।	
बे वि महाजस	णं आंसीविस ।	20
फणिकालाणण	णं पंचाणण ।	
हिमसैमतमतणु	आयद्वियधणु ।	

घत्ता—कंपावियजलथल छाइयणहयल रणि मेलावियअमरयण ॥

सहरिस गलगज्जिय खयभयवज्जिय णाइ विसागय कुइयमण ॥ १२ ॥

12 १ A हउं. २ P आसाविस. ३ AP हिमतमसमतणु. ४ AP मेलाविय°.

12 2 भिडु संग्रामं कुरु. 6 a णिवणयजुत्तहु राजनीतियुक्तस्य. 13 a महिचुयलुयभुइ महीपतितलूनभुजे. 4 a कयवीराहवि कृतो वीराणामाह्वयः स्पर्शाशब्दो यत्र; b मेइणिराहवि मेदिन्याः राधां शोभामवति रक्षतीति मेदिनीराधावस्तस्मिन्नीदशे राधवे. 15 a बहुदाराहवि बहुश्रासी दारार्थमाहवो यस्य, बहूनां दारणं विदारणं यस्मिन्नाहवे यस्य वा. 16 b परमारावणु शत्रूणां मारकः. 17 b महारह संग्रामादनिवर्तकौ महारथौ. 19 a पडिहरि रावणः. 22 a हिमसमतमतणु हिमवर्णो रामः तमोवर्णो रावणः. 23 मेलावियअमरयण पुञ्जीकृतदेवगणौ युद्धदर्शनार्थम्.

13

दुवई—रावण राम बे वि जुझंति सुंरोसवसा महाभडा ॥

छुड छुड दुक मुक बाणावलि छुड छुड छिण्ण धयवडा ॥ छु ॥

छुड छुड गाणाजाणइं भिण्णइं

छुडं णरुंडखंडमंडिय महि

छुड संदण मुसुमूरिबि घल्लिय

छुड छुड रामु थामु जा दावइ

जाव जुझि वावरइ सहोयरु

पभणइ णिसुंणि देव सीराउह

राम राम रामामणहारण

हउं किंकरु कठोरंपिहुकरयलु

जीवमि जाम वइरिमारणविहि

ताव पउ पइं पद्विच्छुरियउं

घत्ता—रन्निखयकुलगिरिदरि हउं तेरउ हरि मुइ मुइ मइं आलद्धजउ ॥

पविखरसरणहरहिं अविरलपहरहिं दारामि दहमुह मत्तगउ ॥ १३ ॥

छुड छुड धवलइं छत्तइं छिण्णइं ।

छुड गय घट्टिय लोट्टियं सारहि ।

पडिमयगल मायंगहिं पेल्लिय । 5

जाव खगिंदु रहंगु विहावइ ।

तावंतरि पइट्टु दामोयरु ।

वीर पउम चुंबियपउमामुह ।

सुबलासुय अरिर्विदवियारण ।

भाइ तुझ्ज पँविरोलियपरबलु । 10

जंगि रयणियरन्निधणिवतरुसिहि ।

सइं करेण किं पहरणु धरियउं ।

14

दुवई—ता रामेण कण्हु मोक्कल्लिउ बोल्लिउ तेण दहमुहो ॥

रे अपवित्त धुत्त परणारीरत्त म थाहि संमुहो ॥ छु ॥

विहिदुव्विलसिउं तुहुं वि महीसरु

कुद्धइं तुह दहमुह णहईवइं

अज्जु तुज्जु परमाउसु पुण्णउं

मइं मुक्काइं दसास णियच्छहि

कयसमरेण गहियरिउजीवें

ओसरु ओसरु मा संधहि सरु ।

राहवरायपायराईवइं ।

जिह तयंरयणु कुसील ण दिण्णउं । 5

तिह एवहिं पहरणइं पडिच्छहि ।

तं णिसुणेवि वुत्तुं दहगीवें ।

13 १ AP सरोस°. २ AP छुडु छुडु णर°. ३ A लुट्टिय°. ४ AP पडिमयंग. ५ A देव णिसुणि. ६ AP कठोर°. ७ A परितोलिय°. ८ A जणरय°.

14 १ A मोक्कल्लियउ. २ AP तियरयणु. ३ AP वुत्तउ.

13 4 b घट्टिय संघट्टिताः. 5 b पडिमयगल शत्रुगजाः. 7 a वावरइ व्यापारं करोति; b दामोयरु हरिलक्ष्मणः. 8 b चुंबियपउमामुह चुम्बितलक्ष्मीमुख. 9 b सुबलासुय हे सुबलादेवीपुत्र. 10 b पविरोलिय° मथितम्. 11 b रयणियरन्निध° राक्षसध्वजाः. 14 पविखरसरणहरहिं वज्रवत्कठिनशरनखैः.

14 4 a णहईवइं नखदीप्राणि; b °पायराईवइं पादकमलानि.

तल्लरजलि कईलासु वि जलयरु
 खलसुग्गीवरामणलहणुयहं
 एयहं मज्झि तुहुं मि भडु भण्णाहि
 मुइ मुइ तेरउ आउहु केहउं
 भणइ विहीसणु जुज्झसमत्थइं
 चिंतहि तुहुं पण्णात्ति जणहण
 घत्ता—तं तेम करेप्पिणु भुय विहुणेप्पिणु अग्भिट्टउ दहमुहहु हरि ॥
 कइयणवयणुत्तिहि महणपवित्तिहि णाइ समुहहु सुरसिहरि ॥१४॥ 15

15

दुवई—बेणिण वि पीयवास बेणिण वि णीलंजणगरलसामया ॥
 दोहिं मि कुलिसंक्कसंकुसवस चोइय मत्तसामया ॥ छ ॥
 बे वि कुद्ध बद्धठाण मुक्क तेहिं दिव्व बाण ।
 रामणेण मुक्कु णाउ लक्खणेण पक्खिराउ ।
 रावणेण अंधयारु लक्खणेण मुक्कु सूरु । 5
 रावणेण मेरु चंडु लक्खणेण वज्जइंहु ।
 रावणेण आसु आसु लक्खणेण सेरिहीसुं ।
 रावणेण वारिवाहु लक्खणेण गंधवाहु ।
 रावणेण चिच्चिजाल लक्खणेण मेहमाल ।
 रावणेण दंति दीहु लक्खणेण मुक्क सीहु । 10
 रावणेण रक्खसिंदु लक्खणेण खेउविंदु ।
 रावणेण रत्तिणाहु लक्खणेण मुक्क राहु ।
 रावणेण मुक्कु रुक्खु लक्खणेण दुण्णिणरिक्खु ।
 पज्जलंतु जायवेउ दिग्गयग्गलग्गतेउ ।

घत्ता—सुरसमरसमत्थं विज्जासत्थं जेण जेण रावणु हणइ ॥ 15
 पडिवक्खीहूपं भासुररूवे तं तं लक्खणु णिल्लुणइ ॥ १५ ॥

४ A किकलासु; T किकलासु परेवकः (?) अथवा किकालसु कुरुविलः (?); K records a p; अथवा किकलासु कुरुविलजीवं न तु गजमत्स्यादयः. ५ P मयगसमयंतरु.

15 १ A कुलिसचक्कसंकुस°. २ A सेरिहासु; T सेरिहेसु.

8 a तल्लरजलि अल्पतडागे; कइलासु करकन्दुकः कर्कटः. 11 b मयंगमसयंतरु गजमशकयो-
 रिवान्तरम्. 12 b पहु रावणः. 14 विहुणेप्पिणु आस्फाल्य. 15 महणपवित्तिहि मयनप्रवृत्ति-
 युक्तस्य जलधेः मेरुविव.

15 2 मत्तसामया कृष्णवर्णौ गजौ. 4 a णाउ सर्पः; b पक्खिराउ गरुडः. 7 a आसु
 शीघ्रम्; आसु अश्वः; b सेरिहीसु प्रचण्डमहिषः. 8 b गंधवाहु वायुः. 9 a चिच्चिजाल अग्निज्वाला.
 11 b खेउविंदु क्षेमवृन्दः पूजाहोमादिशान्तिः. 14 a जायवेउ अग्निः.

16

दुर्वह—ता धगधगं तु खयजलणु व खेयरलच्छिमाणणो ॥

खणि बहुरूविणीह बहुरूवहि उद्धाइउ दसाणणो ॥ छु ॥

गयवरि गयवरि हयवरि हयवरि
खेयरि अब्भिडंति पवरा मरि
चउहुं मि पासहिं भहु भीसावणु
वीसपाणिपरिभामियपहरणु
गुंजापुंजसरिसणयणारुणु
अग्गइ पच्छइ चंचलु धावइ
गयकुंभयलइ पायहिं पेइइ
परिभमंतकरिखरकरं वंचइ
सारिउ कसमसंति मुसुमूरइ
विलुलियकण्णचमर अच्छोडइ
असिणा दारइ मारइ मयगल

रहवरि रहवरि णरवरि णरवरि ।
छत्ति विमाणि जाणि धइ चामरि ।
जलि थलि महियलि णहयलि रावणु 15
तिणयणगलतमालसंणिहतणु ।
हणु हणु हणु भणंतु रणदारुणु ।
मणहु वि पासिउ वेएं पावइ ।
झ त्ति दंत उम्मूलिवि घल्लइ ।
रिक्खइं गेजावलिय णिलुंचइ । 10
अंतरसेणासणिय वियारइ ।
कच्छोलंबिय घंटियं तोडइ ।
धिवइ णहंगणि चलमुत्ताहल ।

घत्ता—भीमाहंवचंडहिं दढभुयदंडहिं चण्णिवि हुंकरेवि धरइ ॥

करि रोहइ जोहइ करणहिं मोहइ दसणविहिणुं वि णीसरइ ॥१६॥ 15

17

दुर्वह—फोडिवि आसवारसीसक्कइं सिरइं सकवयगत्तइं ॥

छिंदिवि पक्खराउ हय मारिवि परियाणइं विहित्तइं ॥ छु ॥

गयणयलि लग्गेवि कहकहरवं हसिवि
ता रक्खधयलक्खणा गुलुगुलंतेहिं
णवजलहरेहिं व जललव मुयंतेहिं
झणझणियमणिक्किणीसोहमाणेहिं

बहुरूविणो रामकेसवहं गय तसिवि ।
रिउदुज्जया लोहदहमंढियदंतेहिं ।
चलकण्णतालेहिं सुरगिरिमहंतेहिं । 5
अणवरयकरडयलपरिगलियदाणेहिं ।

16 १ AP धगधगंतु. २ AP °रूवणीए. ३ A पउरामरि; P पउरपवरामरि. ४ P भीसा-
मणु. ५ AP धावइ. ६ A °करि वंचइ. ६ AP रिक्खे. ७ AP घंटउ. ८ A भीमाउह. ९ P °विहित्तु.

17 १ AP तोडिवि. २ A विहित्तइं. ३ A तारवधयं; P तो रक्खधयं. ४ P °गदियं.
५ AP रुणुरुणियं. ६ A अणवरयपरिगलियकरडयलदाणेहिं.

16 6 b तिणयणगल° रुद्रस्य कण्ठः. 8 b मणहु वि पासिउ वेएं पावइ मनसः पार्श्वान्
मनसः सकाशादपि वेगेनागच्छति. 10 b रिक्खइं तारकाः; गेजाव लिय श्रीवाक्षुद्रघण्टिका.
11 a सारिउ गजपर्योणानि; b अंतरसेणासणिय सेनाया अन्तर्मध्ये ये आसनिनः गजाश्चाद्यारूढाः.
15 करणहिं आवर्तनादिभिः.

17 2 परि याणइं पर्योणकानि. 3 a कहकहरवं हसिवि यथा भवत्येवं हसित्वा.

सोवण्णसारीणिबद्धद्विधेहिं करणासियागाहियगयणाहगंधेहिं ।
 दंतैग्गभिण्णग्गखगरहतुरंगेहिं भड बे वि थिय गयणि मायामयंगेहिं ।
 ता मुक्क दहंमुहिण पच्छइय णहभाय विसविसम गुरुविसह्वरायार णाराय ।
 तप्पंजरे छुं दु तेणारिविहवणु अलिकसणु हयवसणु बीभंवणु सिरिरमणु
 पुणु पहरणावरणि मणि विज्ज संभरिवि सरणियरु जज्जरिवि हुंकरिवि णीसरिवि ।
 जा वीरु उत्थरिवि चप्परिवि पइसरइ स रहंगु तहिं ताम धरणीसरो सरइ ।
 घत्ता—णवचंदणचच्चिउ कुसुमहिं अंचिउ रयणाराकिरणोहदलु ॥
 णं रावणलच्छिहि कमलदलच्छिहि करयलाउ णिवडिउ कमलु ॥ १७ ॥

18

दुवई—रुसंतेण तेण महुमहणमहासुहडे णिओइयं ॥
 तं कुडिलियरचडुलतडिवलयणिहं गयणे पधाइयं ॥ छ ॥

ता दिट्ठु णहि एंतु	सहस त्ति णिवडंतु ।	
धाराकरालेहिं	करवालेसूलेहिं ।	
झसमुसलंसेल्लेहिं	वावल्लभल्लेहिं ।	5
अरिणरकयंतैहिं	कंपणहिं कौतेहिं ।	
कयकण्हपक्खेण	गवएं गवक्खेण ।	
कुमुएण कुंदेण	चंदे मंहिदेण ।	
सत्तुहणभरहेण	णिलेण सरहेण ।	
सुग्गीवणामेण	हणुवेण रामेण ।	10
पडिखलिउ णँउ वलिउ	अमरत्थु संचलिउ ।	
रणसिरिहि कुंडलु व	णवरविहि मंडलु व ।	
जसवल्लरीदलु व	भुयजुयलतरुफलु व ।	
माणिकगणजडिउ	लक्खणहु करि चडिउ ।	

घत्ता—जं चक्कंसमिद्धउ कण्हें लद्धउं तं णारउ णहि णँच्चियउ ॥ 15
 आणंदरसोल्लिउ सिरिथणपेल्लिउ राँउ रामु रोमंचियउं ॥ १८ ॥

७ A दंतग्गिणिभिण्णख्वा° ८ A दहवयण° ९ P छट्टु. १० A धीभवणु.

18 १ A करवालवालेहि. २ A °मुसलसल्लेहिं. ३ A मयंदेण. ४ A omits this foot.
 ५ A णहवडिउ. ६ AP चक्कु. ७ AA णच्चिउ. ८ A रामु राउ. ९ AP रोमंचिउ.

7 a °सारी° गजपर्याणकम्. 9 b °विसहरायार सर्पाकाराः; णाराय बाणाः. 10 a तप्पंजरे नाराच-
 पज्जरे; b वी भवणु वीभत्सनः, भयानक इत्यर्थः. 12 b रहंगु चक्रम्.

18 1 णि ओ इयं नियोजितं मुक्तम्. 7 b ग व एं गवयराशा. 11 अ मरत्थु देवाधिष्ठितं चक्रम्.
 16 रो मं चियउ छट्टः, कृष्णेन लब्धत्वात्.

दुर्वह—णिवडिय कुसुमविट्टि कउ कलयलु हरिसिय उरयसुरणरा ॥

भामिवि चकु भणित गोविदे विसरिस णिसुणि दससिरा ॥ छ ॥

संदण तुरंग	मयमुइयभिग ।	
करि गलियगंड	मेइणि तिखंड ।	
असि चंदहासु	लंकाणिवासु ।	5
ससहरंसमाणु	पुष्कयविमाणु ।	
वइदेहि देहि	मा खयहु जाहि ।	
तूसवहि रामु	कैरि पयपणामु ।	
जीवहि अतेउ	कंतासमेउ ।	
दट्टाहरेण	असिवरकरेण ।	10
असमंजसेण	अमारिसवसेण ।	
ता भणितं तेण	णिसियरघएण ।	
पाइकतणय	णिम्मुकविणय ।	
तुम्हहं वराय	किं मज्जु राय ।	
णियजीवधरणु	सुग्गीवसरणु ।	15
पइसरहु जइ वि	णुंवरहु तइ वि ।	
विगयावलेव	देव वि अदेव ।	
भडभिडणसंगि	महुं जुज्जरंगि ।	
किं गणित रामुं	तुहुं हीर्णथामु ।	
जज्जाहि रंक	मगंतु लक ।	20
लज्जहि ण केव	हिय सीय जेव ।	
अवराउ तेव	परिचत्तसेव ।	
रामाणियाउ	रायाणियाउ ।	
लेसमि छलेण	णियभुयबलेण ।	
इय भणिवि भीमु	दुल्लंघधामु ।	25
आबर्द्धकोहु	मेल्लइ सरोहु ।	

19 १ AP मुइयसिग. २ P ससहर. ३ A कयपय°. ४ A णउ उव्वरहु तइ वि; P णउ उव्वरहो तइ वि. ५ P adds after this: णिण्णट्टणामु, संगामकामु. ६ A तुहुं दिण्णधामु. ७ A परिचत्तसेव. ८ P आबद्ध.

19 2 दससिरा हे रावण. 3 b मयमुइयभिग मदेन मुदितभृङ्गाः. 8 b करि कुरु. 9 a अतेउ निस्तेजाः सन्. 12 b णि सियरघएण राक्षसध्वजेन रावणेन. 17 a विगयावलेव विगत गर्वाः. 22 A अवराउ अपराः (स्त्रियः); b परिचत्तसेव हे त्यक्तसेव राम. 23 a रामाणियाउ रामसंबन्धिन्यः; b रायाणियाउ राज्ञीः. 24 a लेसमि ग्रहीष्यामि. 26 b सरोहु बाणसमूहः.

आङ्कचाउ	रायाहिराउ ।	
जाँ उग्गभाउ	वीसङ्गीउ ।	
ता तक्खणेण	तहिं लक्खणेण ।	
णं खयपयंगु	मुक्कउ रहंगु ।	30
आयउ तुरंतु	धाराफुरंतु ।	
अरितावणेण	तं रावणेण ।	
भुयखलिउ जइ वि	बलि महु तइ वि ।	
वच्छयलि लग्गु	को किर ण भग्गु ।	
णिवसिरिपमत्तु	परणारिरत्तु ।	35

घत्ता—दहवयणहु केरउ दुहइं जणेरउ तिकखइ धारइ सल्लियउं ।
परघरिणीमंदिरु हियउ असुंदरु चक्के फाडिवि घल्लियउं ॥ १९ ॥

20

दुवई—ता दहवयणि पडिइ पडियइं सुरकुसुमइं सिरि उविंदहो ॥
हउ दुंदुहि गहीरु जउ घोसिउ पसरिय दिहि सुरिंदहो ॥ छ ॥

ता सुहडेहिं दिट्ठु रणमहियलु	वणवियलियलोहियजलजंजलु ।	
भग्ग रहंग रहहिं सहं रहियहिं	फट्ठयग्गहिं वंसविरहियहिं ।	
चामर पडिय हंस णं मारिय	घुलिय जोह पडिजोहवियारिय ।	5
मोडियदंडइं छत्तइं धवलइं	दिट्ठइं णाइ अणालइं कमलइं ।	
छिण्णगुणइं महिलुलियइं चावइं	णं खलचित्तइं भंगुरभावइं ।	
धम्मगुणुज्झिय सुद्धिइ जुत्ता	बाण रिसि व्व मोक्खुं संपत्ता ।	
दाणवंत मत्थैयखणुज्जय	णावइ पिसुणं सढं णिरु दुज्जय ।	
कुडिल लोहणिम्मिय पडिअंकुस	दिट्ठा तुरय जंत तोडियकुस ।	10
खल्लिणइं णिवडियाइं पल्लाणइं	दिट्ठइं विहंडियाइं जंपाणइं ।	
दिट्ठइं णिवकवोळकंकालइं	मासगासु लेंतइं वेयालइं ।	
कडयमउडकोडलकडिसुत्तइं	दिट्ठइं दसदिसासु पविहत्तइं ।	

घत्ता — भडभालविणिहियइं विहिणा लिहियइं अचलइं भवियव्वक्खरइं ॥
जाँइवि गयचम्मइं संदणंरम्मइं कावाल्लिउ वायइ वरइं ॥ २० ॥ 15

१ AP आङ्कचाउ. १० AP जामुग्ग°. ११ A बलवंडु; P बलिवंडु.

20 १ A रणि महियलु. २ AP मोक्खु णं पत्ता. ३ A °मंथय°. ४ A पिसुणसत्थु.
५ A विहलियाइं. ६ A °कवाल°. ७ AP °कुडल°. ८ P भडसाल° ९ A जोइवि. १० AP दंसणरम्मइं.

34 b बलि बलवत्; महु बलात्कारेण. 37 °मं दि रु °गृहभूतं चित्तम्.

20 3 b °लो हियजलजंजलु लोहितस्य रक्तस्य तडागः. 6 b अणालइं नालरहितानि.
7 b भंगुरभावइं वक्राणि. 9 a दाणवंतेत्यादि गजा दानवन्तः तेषां मस्तकखननोद्यता अङ्कुशाः;
b सढं कपटत्वेन. 10 b तोडियकुस त्रोटिततर्जकाः. 15 वायइ वाचयति.

21

दुवई—पडिधारणविसाणजुयपेल्लियघल्लियमत्तवारणे ॥

होही रिउहुं मरणु हरिहैत्थें सीयाकारणे रणे ॥ छ ॥

तहिं हिंडंतहिं विहिविच्छोइय
काइ वि पिउ सरसयैणि पसुत्तउ
काइ वि पिउ लुलियंतहिं रुद्धउ
खंडंखंडु हुउ मुउ णोलक्खिउ
उज्जएण पडिपण महाहवि
का वि भणइ हलि जूरइ महु मणु
पायडियउं एवहिं किं किज्जइ
का वि भणइ णियणियइ ण याणिय
इज्जउ सीय सुविप्पियगारिणि
का वि भणइ उव्वसि पिउ मेल्लहि
कण्णावरु इहुं णाहु महारउ
कासु वि सिवपयगमणविसेसें

घरिणिहिं णियणियपिययम जोइय ।
दिट्टउ णं रणलच्छिहि रत्तउ ।
दिट्टउ णं जमसंकलबद्धउ । 5
काइ वि पिउ पयखंडें लक्खिउं ।
क वि अंगुलियउ भंजइ राहवि ।
लक्खणेण महु रंडालक्खणु ।
वर णियणाहें समउं मरिज्जइ ।
पहुणा गोत्तमारि कहिं आणिय । 10
खलदइवें संजोइय वहरिणि ।
रंभि तिलोत्तमि किं पि म बोल्लहि ।
अत्थंक्कइ किह होइ तुहारउ ।
समरदिक्ख दक्खालिय सीसें ।

घत्ता—ता तहिं मंदोयरि देवि किसोयरि थण असुयधारहिं धुवइ ॥ 15
णिवडिय गुणजलसरि खगपरमेसरि हा हा पिय भणंति रुइइ ॥२१॥

22

दुवई—हा केलाससेलसंचालण हा दुज्जयपरक्कमा ॥

हा हा अमरसमरडिडिमहर हा हरिणारिविक्रमा ॥ छ ॥

हा भत्तार हार मंणरंजण
हा मुंहसररुहरसरयमहुयर
हा सूहव सुरहियसिरसेहर
हा थणकलसविट्ठसणपलुव
हा करफंसजणियरोमंचुय

हा भालयलतिलय णयणंजण ।
हा रमणीयैणिलय मणोहर ।
हा रिउरमणीकरकंकाणहर । 5
हा हा हिययहारि णिष्णं णव ।
आलिंगणकीलाभूसियभुय ।

21 १ A पेल्लिवि. २ P हरिअत्थें. ३ AP सरसयणइ सुत्तउ. ४ P खंडखंड. ५ P लक्खि-
यउ. ६ A उज्जएण. ७ A झूरइ. ८ A पहु. ९ A अच्छइ कह वि; P अथक्कए किह.

22 १ P जणरंजण. २ A बुहसररुह°. ३ AP रमणीमण°. ४ A हालिंगण°.

21 1 °वि साण° दन्ताः. 3 a °वि च्छो इ य वियोगं प्रापिताः. 5 a लुलियंत हिं लुलितैरन्त्र-
जालैः. 6 b पयखंडें पादखण्डेन. 7 a उज्जएण सरलेन. 13 b अत्थंक्कइ इदानीं एवमेव वा.
14 a सिवपय° शृगालीपदं मोक्षस्थानं च.

22 2 हरिणारिविक्रमा हे सिंहपराक्रम. 3 a हार मनोश.

पेसलवयैणविहियसंभासण	हा माणंसिणिमाणविणासण ।
हा पंचेदियविसयसुहावह	हा पिय पूरियसयणमणोरह ।
हा लंकाहिव खेरसामिय	देव गंधमायणगिरिगामिय । 10
हा मंदरकंदरकयमंदिर	दिव्वपोमसरपोमिंदिर ।
पइं विणु जगि दसास जं जिज्जइ	तं परदुक्खसमूहु सहिज्जइ ।
हा पिययम भणंतु सोयाउरु	कंदइ गिरवसेसु अंतेउरु ।
घत्ता—ता णियकुलभूसणु दुक्क विहीसणु तहिं तक्खणि सुविसण्णमइ ।	
जगकाणणमाणु भडपंचाणणु जहिं णिवडिउ लंकाहिवइ ॥२२॥	15

23

दुवई—अप्पउ रयणकिरणविण्णुरियइ लुरियइ हणइ जावहिं ॥

जीविउ विइवंतु कयसंतिहिं मंतिहिं धरिउ तावहिं ॥ छ ॥

हा हा कयउं कम्मु मइं भीसणु	णियतणु पहणिवि रुयइ विहीसणु ।
अज्जु सरासइ सत्थु ण सुयरइ	अज्जु कित्ति दसदिसहिं ण वियरइ ।
जयसिंरि पत्ते अज्जु विहवत्तणु	गयउ अज्जु पट्टु सत्तिपवत्तणु । 5
अज्जु इंदु भयवसहु म गच्छउ	अज्जु चंदु सहुं कंतिइ अच्छउ ।
अज्जु तिब्बु णहि तवउ दिणेसरु	अज्जु सुयउ णिच्चित्तु फणीसरु ।
अज्जु जलणु जालैउ वित्थारउ	वइवसु अज्जु सइच्छइ मारउ ।
णोरिउ अज्जु रिंछु आवाहउ	दिक्करिउल्लु मा कासु वि बीहउ ।
अज्जु वरुणु अप्पाणु पसंसउ	अज्जु वाउ उववणइं विहंसैउ । 10
अज्जु कुबेरु कोसु मा ढोवउ	अज्जु कामु अप्पाणउं जोवउ ।
भायर पइं गइ णारयँटाणहु	अज्जु णयरि णंदउ ईसाणहु ।

घत्ता—पइं मुइ धरणीसर खगपरमेसर सुरवरं जयदुंदुहि रसउ ॥

तयै राहवचंदहु सूर्य गोविंदहु अज्जु णिरंकुंस उरि वसउ ॥ २३ ॥

५ AP विहियवयण°. ६ A °पोमिंदिर.

23 १ A विच्छुरियइ. २ AP अज्जु पत्त. ३ A जालावित्थारउ. ४ A विहंजउ.

५ A णारयगमणहु. ६ A सुरवइ. ७ AP तिय. ८ AP सिय. ९ A णिरंकुंसि.

8 a पेसलवयण° मनोहरवचनम्. 12 a जिज्जइ जीव्यते.

23 2 विइवंतु मारयन्, भन्. 13 पइं मुइ त्वयि मृते सति.

24

दुवई—अञ्जु मिलंतु मच्छ मंदाइणि वहउ ससंकपंडुरा ॥

पइं मुइ खेरिंद कंह होसइ सा णवघुसिणपिंजरा ॥ छ ॥

णारउ णाँउ आउ णासणविहि	सीय णं हित्त हित्त परियणदिहि ।
रामु ण कुद्ध कुद्ध जगभक्खउ	लक्खणु ण भिडिउ भिडिउ कुलक्खउ ।
चक्कु ण मुक्कु मुक्कु जमसासणु	तं णउ लग्गउ लग्गु हुयासणु । 5
वच्छु ण भिण्णु भिण्णु धरणीयलु	रुहिरु ण गालिउ गालिउ सज्जणबलु ।
तुहुं णउ पडिउ पडिउ कामिणिगणु	तुहुं ण मुओ सि मुउ विहलियजणु ।
चेट्ट ण भग्ग भग्ग लंकाउरि	दिट्ठि ण सुण्ण सुण्ण मंदोयरि ।
हा भायर किं ण किउ णिवारिउ	किं महु तणउं वयणु अवहेरिउ ।
लक्खण राम काइं णउ मण्णिय	किं सुग्गीव हणुव अवगण्णिय । 10
दुज्जसकारिणि णर्येणुणवंतहं	किं ण दिण्ण पणइणि मग्गंतहं ।
किह कुलिसु वि घुणेहिं विच्छिण्णउं	तुज्जु वि मरंणु केव संपण्णउं ।
हा पइं विणु मइं काइं जियंतें	हा हउं कवलिउ किं ण कयंतें ।

घत्ता—कायर मब्भीसिवि अभउ पघोसिवि विजयसंखु पूरिवि लहु ॥

तामायउ लक्खणु राउं वियक्खणु सुग्गीउ वि हणुण सहुं ॥२४॥ 15

25

दुवई—भासिउ राहवेण दहमुहु तुहुं सोयहि किं विहीसणा ॥

जासु खगिंदवंदंदारय विरइयंपायपेसणा ॥ छ ॥

विलसियचंदसूरणक्खत्तइ	एयहु को समाणु भुयणत्तइ ।
एक्कु जि णवर दोसु दमियारिहि	जं अहिलासु गयउ परणारिहि ।
जइं ण वि किउ जिणधम्मवपसणु	वारिवि कैरुण रुवंतु विहीसणु । 5
रामापसें जगकंपावणु	चउहिं जणहिं उच्चाइउ रावणु ।
होइ सुरिंदु वि गयणुणसारउ	परयारेण सब्बु लहुंयारउ ।
कंचणमइ विमाणि संणिहियउ	पेयभूसणायारु वि विहियउ ।

24 १ A कहिं. २ A आउ णाह. ३ A णिहित्त. ४ A णियं. ५ AP केम मरणु. ६ P रामु.

25 १ A विरइयणिच्चपेसणा. २ A जेहिं ण किउ; P जइ णहिं किउ. ३ AP कलुणु.

४ A हलुआरउ.

24 1 मंदाइणि गङ्गा. 3 a णारउ णाउ नारदो नागतः, किं तु नाशविधिरागतः. 4 a जगभक्खउ यमः. 7 b विहलियजणु अर्थिजनः. 8 a चेट्ट शरीरचेष्टा. 11 b पणइणि सीता. 14 मब्भीसि वि यूयं भयं मा कुरुतेत्युक्त्वा.

25 7 b परयारेण परस्त्रीदोषेण. 8 b पेयभूसणा यारु मृतकशृङ्गाराचारः.

उभिय कयलिखंभ सुहसुंभइ
 धरियइं उप्परि वण्णविचित्तइं
 पधिलंबियउ पडायउ दीहउ
 पसरिय चंदोवय णं खंलयण
 बाहसलिलधारहिं वरसंति व
 घत्ता—हउं कट्टे घडियउ चम्मं मढियउ परकरताडणु जं सहमि ॥
 णं एउं सुजुत्तउं पडहें वुत्तउं तं दसासु महिवइ महमि ॥ २५ ॥ 15

26

दुवई—एमहिं तेण मुक्कु किं वज्जमि वज्जमि परणरिंदहं ॥
 लक्खणरामचंदसुग्गीवहं णीलमहिंदकुंदहं ॥ छु ॥

रत्तउ णं विरहग्गे तत्तउ
 बहुयउ काहलाउ तुरुत्तरियउ
 भणइ व संखु अणाहु ण णीवमि
 वंसु भणइ हउं काणणि पइसमि
 डज्जउ महलु कूरं गज्जइ
 कट्टहं मज्झि णिविसिउ उत्तमु
 दिण्णु हुयासु सिहालिउ वंकइ
 णं पवणे कट्टिज्जइ लग्गउ
 घत्ता—जो सीयासावे णियमणकोवे दूसहविरहें जालियउ ॥
 सो राउ हुयासें पेयपलासें जालकरग्गे लालियउ ॥ २६ ॥ 10

27

दुवई—जाणिवि मुउ णरिंदचूडामणि सव्वंगहिं समुग्गओ ॥
 तहु सत्तच्चि सत्तधाऊहरु इ त्ति धग त्ति लग्गओ ॥ छु ॥

५ A दुज्जण. ६ A तं एउ ण जुत्तउं.

26 १ P किह. २ P omits वज्जमि. ३ P °सासाऊरिय. ४ A सीयासोए. ५ AP तावि-
 यउ. ६ AP °करगहिं जालियउ; T लालिउ स्पृष्टः.

27 १ AP समग्गओ. २ P °धाहुहरु.

9 a सुहसुंभइ सुखविध्वंसके. 11 b °सा हउ शाखाः. 14 कट्टे कोष्ठेन.

26 5 a अणाहु अनाथो रावणरहितः; b परसासाऊरिउ परश्वासपूरितः. 8 b णा सिउ
 कमु नाशितः कुलक्रमो नीतिर्वा. 9 a सिहालिउ वंकइ ज्वालायुक्तो वक्रं गच्छति. 11 सीयासावे
 सीताशापेन. 12 पेयपलासें प्रेतपिशितभक्षकेण; जालकरग्गहिं लालियउ ज्वालाएव काराम्रास्तैः स्पृष्टः.

27 1 सव्वंगहिं सर्वस्मिन् शरीरे; समुग्गओ समुद्रतः. 2 सत्तच्चि अग्निः; धगत्ति प्रज्वालय-
 मानः.

वहरिविह्वलणु कालें लद्धउ
 तासु सरीरु तेण उवजीविउ
 जं जासु वि तं तासु जि छज्जइ
 ण्हाइवि सयणहिं दिण्णउं पाणिउं
 एत्थंतरि असोयवणि पइसिवि
 अंगंगयणलणीलविहीसहिं
 पणविवि जणयवसुंधरिधीयहि
 आणिय मिलियं देवि बलहहदु
 हेमसिद्धि णावइ रससिद्धु
 दिव्ववाणि जाणियपरमत्थदु
 चित्तसुद्धि णं चारुमुणिंदु
 णं धरमोक्खलच्छि अरहंतदु
 यत्ता—जं दिट्ठु समाहउ णियपइ राहउ तं सीयहि तणुकंचुइउ ॥

पुलएण विसट्टउ उद्धु जि फुट्टउ पिसुणु व सयखंडं गयउ ॥२७॥

तिहुयणकंटउ जलणें खद्धउ ॥
 तो^३ वि ण पोरिसेण जगु दीविउ ।
 करहचरणि किं णेरु जुज्जइ । 5
 दुत्थिउ बंधुंविदु संमाणिउ ।
 रामाएसें देवि पसंसिवि ।
 अंजणेयकिक्किंधणरेसिहिं ।
 केसवविजउ समासिउ सीयहि ।
 अमरतरंगिणि णाइ समुइदु । 10
 केवलणाणारिद्धि णं बुद्धु ।
 वरकइमइ णं पंडियसत्थदु ।
 णं संपुण्णकंति छणयंददु ।
 बद्धुगुणसंपय णं गुणवंतदु ।
 15

28

दुवई—तोरणविचिहदारपायारघरावलिसिहरसोहिए ॥

अरिवरपुरि पइदु हरिहलहर धयमालापसाहिए ॥ छु ॥

मंदोयरि रुयंति साहारिवि
 बंधव सयण सयल हक्कारिवि
 मंति महंतमंति संचारिवि
 पढमजिणाहिसेउ णिव्वत्तिवि
 सत्तु मिच्चु मज्झत्थु वि चिंतिवि
 अवणिदविणपुरलोहु विवज्जिवि
 पवरपुरिसपरिहास समीहिवि
 लोयदिण्णहियइच्छियकामें

इंदइ सोयंविंसंदुलु धीरिवि^२ ।
 णायरणरहं संक णीसारिवि ।
 विग्घकारि सैयल वि णीसारिवि । 5
 होम विविहदाणाइं वत्तिवि ।
 समइ सब्वसामंत णियंतिवि ।
 गह बंधण णेमिस्सिय पुज्जिवि ।
 पालिवि धम्मु अधम्मदु बीहिवि ।
 रामोरामें राएं रामें । 10

! A तो उण. ४ A बंधुवग्गु. ५ AP किक्किंधपुरेसिहिं. ६ AP देवि मिलिय. ७ AP णं जगपरमं.
 ८ A णं तिलोक्कलच्छि.

28 १ P भोयविसंदुलु. २ AP वारिवि. ३ AP विग्घकारि णीसेस णिवारिवि. ४ A अवणि
 विणु पुरलोहु; P अवणिदविणपरलोहु. ५ A पुरि पइसेप्पिणु लक्खणरामें.

५ b करहचरणि उष्ट्रपादे. 15 स मा ह उ माधवसहितः. 16 वि सट्टउ विकसितः.

28 3 a सा हारि वि धीरयित्वा; b सो य वि संदुलु शोकेन शिथिलः. 7 b सम इ स्वमते
 नेजादेशे. 9 a पवरपुरिसपरिहास समीहिवि नर्महास्यं चिन्तयित्वा, मम वचनमन्यथा मा भवतु,
 कें तु विभीषणस्य राज्यदाने सत्य वचो भवतीति भावः.

घत्ता—पश्चिमलगलियंभहिं कंचणकुंभहिं ण्हाणिवि पट्टबंधु विद्विउ ॥
रणि मारिवि रावणु भुवणभयावणु रज्जि विद्वीसणु संणिद्विउ ॥ २८ ॥

29

दुवई—इय को करइ भिडेइ वि भडगोंदलि भुवणंगणमरावणं ॥
छज्जइ एम कासु णिव्वहइ वि सुहिपडिवण्णपालणं ॥ छु ॥

एह रूढि एहउं गरुयत्तणु	मेळ्ळिवि पउमु कासु सुयणत्तणु ।	
कोसु देसु सो तं पुरु परियणु	तं पणियंगणकुलु पीवरथणु ।	
ताइं आयवत्तइं वाइत्तइं	जाणइं जंपाणइं सुविच्चिस्सइं ।	5
ताइं वणाइं अमरतरुगंधं	ताइं जि जाउहाणनृवचिंधं ।	
ते असिंकर दुक्करकर किंकर	ते ह्यवर ते गयवर रहवर ।	
लंकादीउ तं जि सो जलणिहि	ते चामीयरभरिय महाणिहि ।	
णिहिलइं हियवइ तणु व वियप्पिवि	दहमुहाणुजायहु जि समप्पिवि ।	
मेइणिसाहणि तिजगजयाणउं	लक्खणरामहिं दिण्णु पयाणउं ।	10

घत्ता—ते रामजणहण दणुयविमहण परिभमंति भुवणयलइ ॥
आवाहियचलरह णावइ सभरह पुप्फयंत गयणयलइ ॥ २९ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्यभरहाणुमणिए
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे रावणणिहैणणं विद्वीसण-
पट्टबंधो णाम अद्भुत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७८ ॥

६ P ण्हाविवि.

29 १ AP भिडेवि भड°. २ AP°णिव°. ३ A °णिग्गहणं. ४ AP °पट्टबंधणं.

29 1 अ रा व णं रा व ण र ह इ त म्. 2 सु हि प ड ि व ण णं सु ह्द व्प ति प ष म्. 3 a रू ढि प्र सि द्धिः;
b मे ळ्ळि वि प उ मु रा मं मु क्त्वा. 4 b प णि यं ग णं वे श्याः. 6 b जा उ हा ण नृ वं रा क्ष स नृ पो रा व णः.
9 b द ह मु हा णु जा य हु वि भी ष ण स्य. 12 स भ र ह स न क्ष त्र र थौ त्वे न न क्ष त्र प्र ञ्जा द कौ वा.

णिहणिवि भीमु रणि दुज्जउ रावणु मयमत्तउ ॥
महि हिंडंतु पहु पीढइरि रामु संपत्तउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

गिरि सोहइ हरिणा भउ जणंतु	पहु सोहइ हरिणा महि जिणंतु ।	
गिरि सोहइ मत्तमऊरणाउ	पहु सोहइ णायमऊरणाउ ।	
गिरि सोहइ वरवणवारणेहिं	पहु सोहइ वारिणिवारणेहिं ।	5
गिरि सोहइ उंडियवाणरेहिं	पहु सोहइ खगधयवाणरेहिं ।	
गिरि सोहइ णववाणासणेहिं	पहु सोहइ भउवाणासणेहिं ।	
तेहिं पुव्वकोडिसिल दिट्ट तेहिं	पुज्जिय वंदिय हिरिहलहरेहिं ।	
मंतिहिं पउत्तु भो धम्मरासि	उद्धरिय तिविट्ठं एह आसि ।	
एवहिं जइ लक्खणु भुयहिं धरइ	तो देव तिखंडधरत्ति हरइ ।	10
तं णिसुणिवि पभणइ रामु एव	अज्जु वि तुम्हहं मणि भंति केव ।	
जांव वि रणि णिहलियउ दसासु	जांव वि सिरि दिण्ण विहीसणासु ।	
तांव वि तुम्हहं संदेहवुद्धि	लइ किज्जइ सव्वहं हिययसुद्धि ।	

घत्ता—जो अतुलइं तुलइ बलवंत वि रिउ विणिवायइ ॥

सो हरि कुलधवलु सिल एह किं ण उच्चायइ ॥ १ ॥ 15

2

दढकटिणथोरदीहरकरासु	दहवयणवालिजीवियहरासु ।
विहसिवि रामं लच्छीहरासु	आएसु दिण्णु णियबंधवासु ।
ता भाइवयणतोसियमणेण	उच्चाइय सिल लहु लक्खणेण ।

1 P पीयलहरि. २ A उड्डिय°. ३ AP सिलकोडिपुव्व तेहिं दिट्ट तेहिं. ४ P omits हरि°. ५ A ण धम्मरासि. ६ AP पुणरवि सिरि.

2 १ A रामु.

1 2 पीढइरि पीठगिरिं कोडिशिलाम्. 3 a हरिणा सिहेन; भउ भयम्; b हरिणा लक्ष्मणेन. 4 a मत्तमऊरणाउ मत्ता मयूरा नागा सर्पाश्च यत्र; b णायमऊरणाउ ज्ञातो मयूनां किनराणां उरोनादो हृदयध्वनिर्धेन. 5 a a^o वण वारणे हिं वनगजैः; b वारिणिवारणे हिं जलनिवारणैश्छत्रैः. 6 b खगधयवाणरे हिं विद्याधरध्वजलिखितवानरैः. 7 a णववाणासणे हिं नवैः बाणवृक्षैः असनवृक्षैश्च; b वाणासणे हिं धनुर्भिः. 8 a पुव्वकोडिसिल पूर्वकोटिशिला इति नाम.

2 2 a लच्छीहरासु लक्ष्मणस्य.

पविउलभुयचालिय णं धंरिन्ति
 णं रामहु केरी विमल कित्ति
 दीसंति लोयणयणहं सुहाइ
 उप्परि सीरिहि कसणायवत्तु
 सोहइ सिलग्गु कण्हेण धरिउं
 उययस्मि अरुणाकिरणोहंतंबु
 वीरेहिं वि मुक्कउ सीहणाउ
 चक्किहि पय वंदिवि वइरितासि

घत्ता—लक्ष्मणकयथुइहिं णरदेवहिं कण्हु पउत्तउ ॥
 सजलहेमघडहं अट्टत्तरसहसें सित्तउ ॥ २ ॥

णावइ तिखंडमहिरायधिसि ।
 णं णिरु असज्झसाहणसंमिसि । 5
 भदियभुयदंडुइरिउ णाइ ।
 णं जयंजसवेह्लिहि तणउं पत्तु ।
 बहुपोमरायकरजालफुरिउं ।
 उययाचलभाणुहि णाइ बिंबु ।
 सउणंदउ णामं जक्खु आउ । 10
 तें दिण्णु तासु सउणंदयासि ।

3

संचलिउ राउ अरितिमिरभाणु
 कल्लोलुलुलियससुंसुमारु
 हयगयंवरखंधाइण्णजोहु
 हरिणा रहु वाहिउ जलहिणीरि
 धणुगुणविमुक्कु सरु सुद्धिवंतु
 तें देवहु दाणवमइणासु
 कुंडलजुयलउं मणिकिरणणीहु
 तहिं होंतउ गउ अणुजलहितीरु
 केऊरमउडकंकणपवित्तु
 तहिं लहिवि विणिग्गउ गउ तुरंतु
 संताणमाल सेयायवत्तु
 पालेप्पिणु पुणु परियंलियगव्व

घत्ता—गउ वेयद्धिगिरि खगसेठिउ बे वि जिणेप्पिणु ॥
 हयमायंगवरखेयरकण्णाउ लपप्पिणु ॥ ३ ॥

अणुंगंग पुणु वि दिण्णउं पयाणु ।
 दियहेहिं पत्तु सुरसरिदुवारु ।
 थिउ काण्णि बल्लु दूसोहसोहु ।
 पायालमूलपूरणगहीरि ।
 संप्रायउ मागहु पय णवंतु । 5
 दिण्णउ अहिसेउ जणहणासु ।
 ससिकंतु हारु मणहरु किरीहु ।
 साहिउ वरतणु पणवियसरीरु ।
 चूडामणिकंठाहरणजुत्तु ।
 सिंधुहि पइसरिवि पहासु जित्तु । 10
 मुत्ताहलदामु मलोहचत्तु ।
 साहिय वरुणासामेच्छ सव्व ।

२ P धरिन्ति. ३ AP सवित्ति. ४ A जसजय°. ५ AP जालजडिउ.

3 १ P रामु. २ AP अणुमग्गो. ३ P सुसुआरु. ४ AP गयरहखंधा°. ५ AP उववणि.
 ६ A बलदूसोह°. ७ AP संपाइउ. ८ AP पावेप्पिणु गउ. ९ A परिगलिय°.

5 b असज्झसाहणसमित्ति असाध्यवस्तुनः साधने समाप्तिः परमोत्कर्षः. 6 b भदियभुयदंडुइरिउ णाइ विण्णुभुजदण्डोद्धृतं छत्रमिव. 7 a सीरिहि बलभद्रस्य. 8 b पोमरायं तत्र गिरौ पद्मरागमणयो वर्तन्ते. 11 a वइरितासि शत्रूणां भयानकः; b सउणंदयासि सौनन्दकनामा असिर्दत्तः. 12 लक्खणकयथुइहिं लक्ष्मणस्य कृतस्तुतिभिः. 12 सजलहेमघडहं जलभृतसुवर्णघटानाम्.

3 3 a खंधाइण्ण° स्कन्धावतीर्णाः. 7 a णीहु गृहम्. 11 b मलोहचत्तु मलसमूहरहितः
 12 a पालेप्पिणु कालक्षेपं कृत्वा.

4

पुणु वसिकिउ सुरदिसि मेच्छखंडु
 गय जइयहुं दोवालीस वरिस
 साहिवि तिखंडमेइणि दुगिज्झ
 हरिबीढि णिवेसिवि वरजलेहिं
 मंडलियहिं णं मेहहिं गिरिंद
 जैहिं दिव्वइं सत्थइं संचरंति
 जहिं देव वि घरि पेसणु करंति
 को वण्णइ हरिबलएवरिद्धि
 जं विजयतिविट्ठहं तणउ पुण्णु
 हो पूरइ वण्णवि काइं एत्थु

महिमंडलि हिंडिवि रायदंडु ।
 तइयहुं हरि हलहर दिव्वपुरिस ।
 जयजयसहेण पइट्ट उज्झ ।
 हयतूरहिं गाइयमंगलेहिं ।
 अहिसित्त रामलक्षणाणरिंद । 5
 तहिं अवसें रणि अरिवर मरंति ।
 तहिं अवसें णर भयंथरहरंति ।
 वाएसिइ दिण्णी कासु सिद्धि ।
 तं एयंहुं दोहिं मि समवइण्णु ।
 किं तुच्छवुद्धि जंपमि णिरत्थु । 10

घत्ता — सेविय गोमिणिइ रइलोहइ कीलणसीलइ ॥

रज्जु करंत थिय ते वे वि पुरंदरलीलइ ॥ ४ ॥

5

सुमणोहरणामि सयवसंति
 सिरिसिरिहररामणराहिवेहिं
 वंदेप्पिणु पुच्छिउउ परमधम्मु
 मिच्छत्तासंजम चउकसाय
 एयहिं ओहट्टइ णाणतेउ
 बंधेण कम्मु कम्मेण जम्मु
 इंदियसोकखे पुणु पुणु विसालु
 मोहें मुज्झइ संसारि भमइ
 णारयतिरिक्खदेवत्तणेहिं
 संसरइ मरइ णउ लहइ बोहि

अण्णहिं दिणि णंदणवणवणंति ।
 सिवगुत्तु जिणेसरु दिट्ठु तेहिं ।
 जिणु कहइ उयांरवियारगम्मु ।
 छंडंतहं सुहु रायाहिराय ।
 ए दुस्सहदुइमबंधहेउ । 5
 जम्मेण दुक्खु सोक्खु वि सुरम्मु ।
 संपज्जइ जीवहु मोहजालु ।
 अण्णण्णहिं देहहिं देहि रमइ ।
 बहुभेयंभिण्णमणुयत्तणेहिं ।
 ण कयाइ वि पावइ जिणसमाहि । 10

4 १ P रायचंडु. २ A reads a as b and b as a in this line. ३ A भउ थर°; P भड थर° ४ P एवहं.

5 १ A सयवसंति. २ P ओयार°. ३ A बहुभोय°.

4 1 b रायदंडु राजसैन्यम्. 3 a दुगिज्झ दुर्गाद्या. 4 a हरिबीढि सिंहासने. 6 a सत्थइं शस्त्राणि. 8 b वा एसिइ वागीश्वर्या सरस्वत्या. 9 a विजयतिविट्ठहं प्रथमबलकेशवयोः. 11 रइलोहइ रतिलोमिष्ठया.

5 2 a सिरिसिरिहररामणराहिवेहिं श्रीविष्णुश्रीरामाभ्याम्. 6 b सोक्खु वि सुरम्मु कदाचित्सुखं च रम्यं भवति विषयजं न त्वतीन्द्रियम्.

सम्मत्तु ण गेणहइ मंदमूदु
आसंककखविदिगिछवंतु

लोइयवेइयसमपहिं छूँदु ।
जहु मिच्छादिट्टि पसंस देंतु ।

घत्ता—चंगउ परिहरइ जं णिंदणिज्जु तहिं भत्तउ ॥

राहव जीवगणु जगि पउरु विदुरु संपत्तउ ॥ ५ ॥

6

अणुदिणु परिणामहु जाइ लोउ
खणि खणि अणत्तहु जाइ केव
उप्पत्तिवित्तिपलपहिं गत्थु
पजाउ जाइ दव्वु जि पयासु
जं रुच्चइ तं तहिं होउ बप्प
जो मणुयलोइ सो णत्थि सग्गि
जो घरि सो किं णीसेसणांमि
एवत्थिणत्थिणिव्वूढसच्चु
जइ जगि सव्वत्थ वि सव्वु अत्थि
जइ एक्कुं जि सयलु जि जगु णियाणि
को खंडिउ को वरइत्तु थक्कु

खणि आणांदिउ खणि करइ सोउ ।
सिहिगहिउ तेल्लु सिहिभाउ जेव ।
पेच्छहि अप्पउ पोग्गलपयत्थु ।
घड मउंड सुवण्णहु णत्थि णासु ।
णिज्जीवणिरण्णइ कहिं वियप्प । 5
जो सग्गि ण सो पायालमग्गि ।
जो गामि ण सो आरामथामि ।
अरहंतं साहिउ परमतच्चु ।
तो किं गयणंगणि कुसुमु णत्थि ।
तो को णारउ को सुरविमाणि । 10
सामण्णु अमरु को कवणु सक्कु ।

घत्ता—जइ खणि खणि जि खउ सइंनुद्धं जीवहु दिट्टुउ ॥

ता चिरु महिणिहिउ वसुसंचउ केण गविट्टुउ ॥ ६ ॥

४ AP मूदु.

6 १ AP अण्णणहु. २ A मउडि. ३ AP °विणिण्णय. ४ AP णीसेसगामि.
५ AP आरामि. ६ AP एक्कु वि सयलु वि. ७ AP सो.

11 b लो इ य वे इ य स म ए हिं छूँदु लौकिकवैदिकमतैः क्षितः.

6 2 a अणत्तहु अन्यत्वम्; b सि हि ग हि उ तेल्लु सि हि भा उ जेव अग्निना वर्तिसंयोगेन गृहीतं तैलं यथाग्निर्भवति तथा जीवपरिणामः अन्यत्वं गच्छति. 3 a °वित्ति° ध्रौव्यम्; गत्थु प्रस्तः; a अप्पउ पुग्गलपयत्थु आत्मा पुद्गलपदार्थश्च. 4 a पजाउ जाइ पर्यायो विद्यते; पयासु प्रकाशं स्फुटम्. 5 a जं रुच्चइ त्यादि उत्पादादिरूपत्रयमध्ये जीवादिवस्तुनि यद्रूपं रोचते विवक्षितुमिष्यते; b णिज्जीवणिरण्णइ जीवनिश्चयरहिते अन्वयरहिते; वियप्प उत्पादादिविकल्प्याः कुत्र जायन्ते. 7 a णीसेसणामि सर्वपदार्थेषु; b आरामथामि आरामस्थाने. 8 a एवेत्यादि एवं द्रव्यक्षेत्रकालभावैरस्तिनास्तित्ताभ्यां निर्व्यूढं प्रमाणोपपन्नं सत्यं यस्य तत्त्वस्य. 10 a णियाणि अवसाने. 11 a खंडिउ मृत-भार्यः; वरइत्तु वरः. 12 खउ क्षयो विनाशः. 13 वसुसंचउ द्रव्यकुम्भः; गविट्टुउ दृष्टः.

7

जइ जाणइ सो किर वासणाइ
जइ इंदजालु तिहुयणु असेसु
सिविणोवमु जइ णीसेसु सुणु
जिणपिसुणहु णियवयणु जि कयंतु
सयलु वि संसारिउ गोरिकंतु
जो आहवि वइरिहिं मलइ माणु
पुंरु विद्धउ जेण रइवि ठाणु
विणु वत्तारं सिद्धंतु केत्थु
अप्पउं अंबरिं संजोयमाणु
णिञ्जेयणि सुसिरि सिवत्तु थवइ
परु मोहइ सइ तमणियरभरिउ
णिवंडइ रउइ घणि घणि तमंधि

घत्ता—झायहि जिणधवलु अण्णेण ण दुक्किउ जिप्पइ ॥
करयलकंतिहरु पंकेण पंकु किं धुप्पइ ॥ ७ ॥

तो ताइ केम्व खणधंसणाइ ।
तो किं किर चीवरधरणवेसु ।
तो गुरु ण सीसु णउ पाउ पुणु ।
सिवु णिक्कलुं णिप्परिणामवंतु ।
णञ्चइ गायइ तो किं महंतु । 5
धणुगुणि संधिवि अग्गेयबाणु ।
किं तासु वयणु होसइ पमाणु ।
सिद्धंतं विणु किह मुणइ वत्थु ।
कउलु वि भावइ महु मुक्कणाणु ।
पसुमासु खाइ महु सीहुं पिबइ । 10
इंदियवसु णिंदियसाहुचरिउ ।
णारयहणहणरवि णरयरंधि ।

8

जइ काउ सरंतहं जाइ गरलु
जो सेवइ गुरु पाविट्टु दुट्टु
सो सइ जि पाव पावहु जि सरणु
सो गुरु जो मित्तु व गणइ सत्तु
सो गुरु जो मुक्काहरणवत्थु
सो गुरु जो तिणु कंचणु समाणु

तइ पावेण जि जणु होइ विमलु ।
देउ वि णिट्ठुरु दंठोडु रुट्टु ।
पइसउ ण लहइ संसारतरणु ।
सो गुरु जो मायाभावचत्तु ।
सो गुरु जो मेहिमाणुमहत्यु । 5
सो गुरु जो णिरहुप्पणणाणु ।

7 १ A णो पाउ. २ A किं सो महंतु; P किं तो महंतु. ३ A अग्गेउ बाणु. ४ P पूरणु वेद्धउ. ५ A अंतरि. ६ A मज्जु. ७ A घणघणरउहिं णिवडइ तमंधि. ८ AP किह धुप्पइ.

8 १ A गरुड. २ A दुट्टु. ३ A omits this foot. ४ AP गुणमहिमामहंतु. ५ A तणकंचणसमाणु.

7 1 b ताईत्यादि तथा वासनयापि किं क्षणविध्वंसनशीलया. 2 b चीवरधरणवेसु बौद्धानां त्कब्रह्मणवेषः. 3 a सि वि णो व मु स्वप्पोपमम्. 4 a जि णपि सुणहु णियवयणु जि कयंतु जिनदुर्जनानां निजसिद्धान्तः बाधकं वा; स्ववचनेनैव ते बाधिता इत्यर्थः. 5 a सयलु सशरीरः; गोरिकंतु मार्वतीभर्ता शिवः. 6 b अग्गेय° आग्नेयः. 9 a अप्पउ अंबरि संजोयमाणु परमब्रह्मदर्शनवशादशेषभेदविद्याविनाशादिति वेदान्तवादिनः; b कउलु वेदान्ती. 10 a सुसिरि आकाशे; b सीहु मद्यम्. 14 करयलकंतिहरु करे स्थितः कर्दमः हस्तकान्तिस्फेटकः; धुप्पइ प्रक्षाल्यते.

8 1 a काउ सरंतहं काकं स्मरताम्. 6 b णिरहुप्पणणाणु निःपापोत्सन्नज्ञानः.

णिखलखमदमसंजमसमेण
 कुरुज्जियदुज्जयरायरोसु
 तद्दु धम्म अहिंसालक्खणिल्लु
 अहवा सो भण्णइ सूणयारु

गुरुरयणु भणिउ एपं कमेण ।
 अरहंतु देउ परिहरियदोसु ।
 मयमारउ विप्पु वि होइ भिल्लु ।
 जण्णे कहिं लब्भइ सग्गदारु । 10

घत्ता—मेल्लिवि विसयविसु जिणभावे हियवउ भावह ॥
 पालिवि जीवदय सग्गापवग्गसुहु पावह ॥ ८ ॥

9

तं णिसुणिवि परिरक्खियमयाइं
 सम्मइंसणविप्पुरियएहिं
 लक्खणहियवउं दुणियाणसहिउं
 दसरंहि मुइ णिहिय णिरूढसयरि
 गय भायर वारणांसि तुरंत
 रामे सुउ जायउ विजयरामु
 अहिमाणणाणविण्णाणजुत्त
 गोविदहु णंदणु पुहइचंदु
 अण्ण वि णं मत्तमहागइंद
 गुणगणरंजियभुवणत्तएहिं

धरियइं रामे सावयवयाइं ।
 अवरेहिं मि भव्वपुंडरियएहिं ।
 तेण जि वंउ तेण ण किं पि गहिउं ।
 सत्तुहण भरह साकेयणयरि ।
 थिय रज्जु करंत हली अणंत । 5
 सीयहि रूवे णं देउ कामु ।
 अवर वि संजाया सत्त पुत्त ।
 पुहइहि ह्यउ पुहइसवंदु ।
 सुय संभूया जियरिउणरिंद ।
 परिवारिय पुत्तपउत्तएहिं । 10

घत्ता—थिय भुंजंत महि गर्उ कालु अकलियपरिवत्तउ ॥
 एक्कहिं णिसिसमइ हरि फणिसयणि पसुत्तउ ॥ ९ ॥

10

पेच्छइ सिविणंतरि पर्यहिं मल्लिउ
 केवलेवि विडप्पे तिमिरजूरु

णग्गोहु दंतिदंतग्गदलिउ ।
 कड्ढेवि पायालि णिहित्तु सूरु ।

9 १ P सरियइं. २ AP वउ. ३ A दसरहसुयविहिय^०. ४ AP वाराणसि. ५ P अवर वि जाया तद्दु सत्त पुत्त. ६ P गयउ. ७ A अहियपरिचत्तउ. ८ A फणिसयणयलि; P मणिसयणि.

10 १ A कवलियउ.

) b मयमारउ मृगमारकः. 10 b जण्णे यजेन.

9 1 a परिरक्खियमयाइं रक्षितमृगाणि श्रापदवधरहितानि. 3 a दुणियाणसहिउं दुर्नि-
 दानयुक्तम्. 4 a णिरूढसयरि नृषु मध्ये रूढः प्रसिद्धः सगरो यत्र. 11 अकलियपरिवत्तउ अकलिताः
 असंख्याता अनवधारिता वा परिवर्ता यस्य. 12 फणिसयणि शेषशयने.

10 2 a विडप्पे राहुणा; तिमिरजूरु चन्द्रः.

पासायसिहराणिवेडणु णियंतु
 अक्खिउ दुइंसणु भायरासु
 जिह वडतरुवरु चूरिउ गण
 जं अब्भपिसापं गिलिउ भाणु
 तं संचियच्चिरुसुं कयावसाणु
 जं णिवडिउं वरधवलहरसिं गु
 माहउ पावेसइ देव मरणु
 तवचरणु चरेव्वउं पइं रउहु
 तं णिसुणिवि जयंभीमाहवेण
 अहिसिच्चइं जिणविंभइं जलेहिं
 दहिपैहिं कुंभपल्लत्थिपहिं

उट्टिउ महिवइ अंगइं धुणंतु ।
 ता भणइ पुरोहिउ दुक्कु णासु ।
 तिह सिरिवइ भंजेव्वउ गपेण । 5
 चप्पिवि पाविउ महिविवरठाणु ।
 परिपुण्णउं वट्टइ आउमाणु ।
 तं धुवुं पोमामुहपोमभिं गु ।
 पइसेव्वउ जिणवरचरणसरणु ।
 लंघेव्वउ भीसणु भवसमुहु ॥ 10
 पुरि अभयघोसु किउ राहवेण ।
 दुद्धेहिं धवलधारुज्जलेहिं ।
 वरकामिणिकरणिम्मात्थिपहिं ।

घत्ता — ण्हवियइं पुज्जियइं जिणवरपडिंविंभइं रामे ॥

भत्तिइ वंदियइं परिवट्ठियसुहपरिणामे ॥ १० ॥

15

11

पुरु घर परिहाणु हिरणु धणु
 संति वि^३ विरयंतहं विहुरहम्म
 पुण्णक्खइ दुक्खु दुपेक्खु देंतु
 कइवयदिणेहिं सुहिदिणसोउ
 उप्पाइयबंधवहिययसल्लि
 काले कवलिउ महिअद्वराउ
 णं णासिउ बंधवसोक्खहेउ
 णं मोडिउ सुरतरुवरु फलंतु
 रिउसीसणिवेसियपायपंसु
 जहिं रावणु तहिं सो दुहपपैसि

जो^३ जं मग्गइ तं तासु दिणु ।
 दुक्कउं चिरसंचिउ घोरकम्म ।
 हयपरबलु भुयबलु णिक्खवंतु ।
 लच्छीहरंगि संभूउ रोउ ।
 माहम्मि मासि दिणि अंतिमिल्लि । 5
 णं हित्तउ कामिणिरेइणिहाउ ।
 अच्छोडिउ णं रहुवंसकेउ ।
 उल्लहविउ पयावाणलु जलंतु ।
 उट्टाविउ जगसररायहंसु ।
 उप्पणु चउत्थइ णरयवासि । 10

२ P °णियडणु. ३ A यमेण; P मएण. ४ A °सुकिया°. ५ AP धुउ. ६ AP जिय°. ७ A दहिएण.

11 १ P परिहणु. २ AP जं जे मग्गिउ. ३ A संतिहि. ४ AP °रयणिहाउ. ५ A °पयासि.

५ b सिरिवइ लक्ष्मणः; ग ए ण गदेन रोगेण. 6 a अब्भपिसापं राहुणा. 7 b आउमाणु आयुः-
 प्रमाणम्. 8 b पोमामुहपोमभिं गु लक्ष्मीमुखकमलभृङ्गो माधवः. 9 b पइसेव्वउ प्रवेशः कर्तव्यः.
 11 a जयभीमाहवेण जगति रौद्रसंग्रामयुक्तेन.

11 1 a परिहाणु वज्रम्. 2 a संति वि विरयंतहं शान्तिमपि कुर्वताम्; विहुरहम्म
 दुःखग्रहम्. 4 b रोउ रोगः. 5 b दिणि अंतिमिल्लि पूर्णिमादिने. 6 b रइणिहाउ रतिसमूहः.
 8 b उल्लहविउ विष्मापितः. 9 a °पायपंसु पादरेणुः.

विहिणा सोसिर्त्तु गुणणिहिगहीरु सोएण पमुच्छिउ रामु धीरु ।
 सिचिउ सलिलें माणवमहंतु उम्मुच्छिउ हा भायर भणंतु ।
 घत्ता—हा दहमुहणिहण हा लक्खण हा लच्छीहर ॥
 हा रयणाहिवइ हा वालिहरिणकंठीरव ॥ ११ ॥

12

धाहावइ सीय मणोहिरामु एक्कलुउ छंडिउ काइं रामु ।
 हां हे देवर महु देहि वाय पइं विणु जीवंतहं कवण छाय ।
 पूरपिणु दहुउं हरिसरीरु अवलंबिउ सीरें हियइ धीरु ।
 करहयसिरु हाहारउ मुयंतु संबोहिउ अंतेउरु रुयंतु ।
 लक्खणसुउ णामें पुहइचंदु सइं अहिसिचिवि किउ कुलि णरिंदु । 5
 सत्तहिं जणेहिं सीयासुएहि ण समिच्छिय सिरि पीवरभुएहिं ।
 लहुयारउ ताहं पयग्गि णविउ अजियंजउ मिहिलाणयरि थविउ ।
 साकेयणयरि सिद्धत्थणामि वणि परिभमंतचलभसलसामि ।
 सीराउहेण मयमोहेणासि तवचरणु लइउ सिवंगुत्तपासि ।

घत्ता—तहिं रामेण सहं सुग्गीउ वि सुद्धविवेयउ ॥ 10
 हणुउ विहीसणु वि पावइयउ जायणिव्वेयउ ॥ १२ ॥

13

रापं जापं इसिसीसएण तणयहं तउ लइउ असीसएण ।
 सीयापुहइहिं सुयवइहिं पाय आसंधिय भावें चत्तराय ।
 भुवणुट्टिउ तिट्ठावज्जियाउ जायाउ ताउ तहिं अजियाउ ।
 पत्ता वेण्णि वि णिम्महियकाम सुयकेवलित्तु हणुयंतु राम । 5
 इयर वि संजाया रिद्धिवंत मुणिवर णिट्टुरतवतावसंत ।
 आहुट्टसयाइं गयाइं तासु संवच्छराहं पालियवयासु ।
 पंचहिं वरिसेहिं विवज्जियाइं जइयहुं तइयहुं धुवुं णिज्जियाइं ।
 रामें चउकम्मइं घाइयाइं अमरहिं कुसुमाइं णिवेइयाइं ।

६ A सोहिउ.

- 12 १ P हा देवर महु दे देहि वाय. २ A जूरेपिणु. ३ AP सिवगोत्त. ४ P अइसुविवेयउ.
 13 १ AP मुक्कमाय. २ AP भवणुय तिट्ठाणिज्जियाउ. ३ AP धुउ.

14 °हरिणकंठीरव मृगस्य सिंह.

12 3 a पूएपिणु पूजयित्वा; b धीरु धैर्यम्.

13 1 b असीसएण अशीत्यधिकशतेन. 2 a सुयवइहि श्रुतव्रतयुक्तायाः आर्यायः.

उप्पणउं केवलु विमलणाणु
खणि सुरयणु संप्रयउ णवंतु

दिट्ठउं तिहुयणु गर्यणु वि अमाणु ।
जय णंद वद्ध रहुवइ भणंतु । 10

घत्ता—एक्कु जि छत्तु तहु पोमासणु चमरइं चवैलइं ॥
देवहिं णिम्मियइं तारातारावइधवलइं ॥ १३ ॥

14

मुसुमूरंतहु भववइरिवम्मु
छसयाइं सयद्धविमीसियाइं
संमेयसिहरि सो रामभिकखु
अवर वि सुग्गीवविहीसणाइ
ते सयल भडारा वीयराय
सा सीय पुहइ सा विमलगत्तु
लच्छीइरु णरयहु णीसरेवि
भासंति एव परमत्थवाइ
हरिणा समाण नृवखयणिसीइ

जणवइ साहंतहु परेमधम्मु ।
महियलि विहरंतहु तहु गयाइं ।
हणुवंतें सहं संपत्तु मोक्खु ।
चारित्तयंत जे दिव्वं जोइ ।
अणुदिसणिवासि अहमिंद जाय । 5
पत्ताउ कप्पि कप्पामरत्तु ।
पावेसइ सिवपउ तउ चरेवि ।
संपय कासु वि णउ समउं जाइ ।
के के ण खद्ध महिरक्खसीइ ।

घत्ता—सुंयरह गुरुवयणु मा लक्खणपंथें वच्चह ॥ 10
भरहणरिंदथुउ सिरिपुष्कयंतु जिणु अंचह ॥ १४ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्कयंतविरहए महाकव्वे मुणिसुव्वयतित्थसंभूयहंरिसेण-
चक्कवट्टिरामबलएवलक्खणवासुदेवरावणपडिवासुदेव-
गुणकित्तणं णाम एक्कूणासीमो परिच्छेओ
समत्तो ॥ ७९ ॥
॥ मुणिसुव्वयचरियं समत्तं ॥

४ A सयल वि. ५ AP संपाइउ. ६ A णमंतु. ७ AP धवलइं.

14 १ P परममग्गु. २ AP दिहजोइ. ३ AP °णिव°. ४ A सुमहुर; P समरहु.
५ A omits हरिसेणचक्कवट्टि° ६ AP omit °लक्खण°. ७ AP omit °रावणपडिवासुदेव°.

12 °तारावइधवलइं चन्द्रवत् धवलानि.

14 1 a भववइरिवम्मु भववैरिणः स्थितिहेतुत्वान्मर्म कर्मोच्यते; b जणवइ जनपदे देशे.
4 b जोइ योगिनः. 7 b सिवपउ मोक्षपदम्. 9 a नृवखयणिसीइ नृपक्षयनिशया कालरात्र्या.
11 अंचह पूजयत.

वियसावियभुवणसरोरुहहो केवलणाणकिरणधरहो ॥
पणवेप्पिणु णमिजिणादिणयरहो जणमणतिमिरभारहरहो ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—जेण जिया रउइ चल पंच वि वम्महमुक्कसाययां ॥
भवसंसरणकरणविसवेयसमा विसमा कसायया ॥ छु ॥

मुक्क मही णिवसंगया	समसिद्धंतवसंगया ।	5
उज्झियजीवसवासणा	विहिया जेण सवासणा ।	
जस्स सुधी पिसुणेहले	सरिसा सहले णेहले ।	
छिण्णं जेणुदामयं	आसारइयं दामयं ।	
णिच्चं वणयरकंदरे	जो णिवसइ गिरिकंदरे ।	
ण महइ धम्मं मंदयं	इच्छइ सासयमं दयं ।	10
जम्मि थिए सुइजाणए	जम्मजलहिजलजाणए ।	
किं पढंति मयमारया	कामंधा सामारया ।	
सइ हंसम्मि सगारवं	कीस कुणंति बैगा रवं ।	
तं णमिऊण णमीसरं	तवसिहिहुयवम्मीसरं ।	

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

लोके दुर्जनसंकुले हतकुले तृष्णावशे नीरसे
सालंकारवचोविचारचतुरे लालित्यलीलाधरे ।
भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कलौ सांप्रतं
कं यास्यस्यभिमानरत्ननिलयं श्रीपुष्पदन्तं विना ॥ १ ॥

1 १ P वहइ. २ A वि गारवं.

1 3 व म्म ह मुक्क सा य या मन्मथमुक्तवाणाः. 4 °वि स वे य स मा विपवेगसदृशाः. 5 a णि व-
सं ग या नृपसंगता; b स म सि द्धं त व सं ग या उपशमसिद्धान्तयोर्वशं गता विहिता येन. 6 a उज्झिय जी व-
स वा स णा उज्झितं स्यक्तं जीवैः मृतकभक्षणं यया वासनया; b स वा स णा निजस्वभावः. 7 a सु धी शोभना
बुद्धिः; पि सु णे ह ले दुर्जने अ ह ले फलरहिते; b स ह ले सफले; णे ह ले स्नेहले; यस्य शोभना बुद्धिः निःफले
दुर्जने सफलेऽपि स्नेहले समाना वर्तते इति भावः. 8 a उ द्दामयं महत्; b आ सा र इ यं वाञ्छाकृतम्;
दा म यं बन्धनम्. 9 a व ण य र कं द रे वनचरा भिह्नाः कं द रा कन्दमूलग्राहका यत्र, वनचराणां कन्द-
दायके वा. 10 मं द यं शिथिलताम्; b सा स य मं शाश्वतीं मां लक्ष्मीम्. 11 a ज म्मी त्या दि यस्मिन्
नमितीर्थकरे; सु इ जा ण ए श्रुताज्ञापके स्थिते सति मिथ्यादृष्टयः किं पठन्तीति संबन्धः; b °जा ण ए यान-
पात्रे तरण्डके. 12 a म य मा र या मृगमारकाः; b सा मा र या अप्रसूता इयामा स्त्री तत्र रताः. 13 a स इ
हं स म्मि हंसे सति बका रावं शब्दं न कुर्वन्तीत्यर्थः.

घत्ता—पुणु तासु जि चरिउ किं पि कहमि सज्जनकोऊहलजणणु ॥ 15
कहिएण जेण दिहि वित्थरइ सुद्ध उप्पजइ णाणतणु ॥ १ ॥

2

दुवई—जंबूदीवि भरहि सुच्छायउ वच्छउ विसउं बहुधणा ॥
तहि कोसंबि णयरि चउदारविलंबियरणतोरणा ॥ छ ॥

घरगयमोरहंसआहरणहि	कुंकुमंपंकपसाहियचरणहि ।	
मणिविक्कयमुत्ताहलहारहि	दोसियदंसियचीरवियारहि ।	
लोहहट्टलोहेण णिबद्धहि	विक्रमाणणाणारसणिद्धहि ।	5
वलयाारावणपयडियवलयहि	णिच्चभुयंगसंगकयपुलयहि ।	
विविहधयवहुप्परियणचवलहि	महिलायणकमणेउरमुहलहि ।	
मंदिरकणयकलसथणवंतहि	पविमलपाणियछायाकंतहि ।	
वंदियधवलजिणालयसेसहि	उव्वणि णिवडियअलिउलकेसहि ।	
देउलदंतपंतिदावंतिहि	णयरीकामिणीहि णंदंतिहि ।	10
जणि जाणिउ इक्खाउ पहाणउ	पत्थिउ णामें णिवसइ राणउ ।	
सइ कलहंसवंसवीणाञ्जुणि	णामेण जि तहु सुंदरि पणइणि ।	
वासपवेसु व पुण्णपसत्थहं	सुउ सिद्धत्थु सब्वपुरिसत्थहं ।	
घत्ता—ता णरेण णरिंदहु विण्णविउं विद्धंसियजणदुच्चरिउ ॥		
मणैहरि णंदणवणि अवयरिउ मुणिवरु णामें आयरिउ ॥ २ ॥		15

3

दुवई—ता सहुं सुंदरीइ सहुं तणणं सहुं परिवाररिद्धिए ॥
गउ णरवइ वणंतु वंदिउ मुणि मणवयकायसुद्धिए ॥ छ ॥
राणं भुवणंभोरुहणेसरु पुच्छिउ तच्चु कहइ परमेसरु ।

2 १ AP देसु. २ A कुंकुमंपंकहि सोहिय°; P कुंकुमंपंकपसोहिय°. ३ A वलयारोवण°. ४ A उववणणिवडिय°. ५ A तहु णामें सुंदरि पडुपणइणि; P तहु णामें सुंदरि पियपणइणि. ६ A वासु पवेसु. ७ A मणहर°. ८ P आहरिउ.

2 1 बहुधणा बहुधनयुक्ता. 3 a °आहरणहि आभरणयुक्तायाम्; b °चरणहि °मार्गायाम्. 5 b विक्रमाण° विक्रीयमाणाः. 6 a वलयाारावण° वलयकाराणो; b °भुयंगसंग° भोगिलोकः कामी च. 7 a °उप्परियण° °उपरितनं उत्तरीयं वस्त्रम्; b °कमणेउर° चरणनूपुराणि. 13 a वासपवेसु अभिनवगृहप्रवेशः; b सिद्धत्थु सिद्धार्थनामा. 14 णरेण केनचित्पुरुषेण.

3 1 परिवाररिद्धिए छत्रचामरादिभिः.

अप्पउ एङ्गु णाणदंसणतणु
 जोय तिण्णि गारव असुहिल्लइं
 तिण्णिं गुणव्वय चउ सिक्खावय
 चउ विण्णासवयइं चउ ज्ञाणइं
 पंच महव्वयाइं आयारइं
 समिदीउ पंच रइयगुणछायउ
 जे लोउत्तमणाहें सिट्ठा
 भासियाइं पंचासवदारइं
 जीवणिकायभेय छावासय
 तच्चइं सत्त सत्त णय संसिय
 कम्मइं अट्ट अट्ट मय कयमल
 णव पयत्थ णव बलणारायण
 एयारह सावयगुणटाणइं
 बारह तव तेरह चारित्तइं

णिज्जरु दुविहु दलियदुक्कियमणु ।
 जीवगईउ तिण्णि मणसल्लइं । 5
 चउ कसाय कयचउगइसंपय ।
 पंच सरीरइं पंचं वि णाणइं ।
 पंचाणुव्वयाइं जगसारइं ।
 भणियउ पंचवीस वयमायउ ।
 ते पंचत्थिकाय उवइट्ठा । 10
 पंचिंदियइं गहीरवियारइं ।
 छह्वइं छव्विह लेसासय ।
 सत्त वि भय रिसिणा उवपसिय ।
 अट्ट महीउ अट्ट वितरकुल ।
 धम्मभेय दह पसमुप्पायण । 15
 बारह अंगइं सत्थणिहाणइं ।
 चोइह पुव्वइं मुणिणा वुत्तइं ।

घत्ता—पायाँलु सग्गु णरवरभुवणु भयवंतेण पयासियउं ॥

जं किं पि जिणागमि लब्बिस्सयउं तं णीसेसु वि भासियउं ॥ ३ ॥

4

दुवई—रापं रायपट्टु सिद्धत्थहु भालयले णिवेसिओ ॥

णिसुणिवि चारु धम्मु अरहंतहु अप्पुणु तवु समासिओ ॥ छु ॥

लइय दिक्ख जिणवरु पणवेप्पिणु
 सिद्धत्थु वि घरवयअइसइयउ

पायपुज्जगुरुपाय णवेप्पिणु ।
 थिउ सम्मत्तरयणचिंचइयउ ।

3 १ P दुक्कियगणु. २ P तिण्णि वि गुणवय. ३ P पंच जि. ४ A लोयतत्तणाहें. ५ A पायाल.

4 १ A समत्तुरयणु.

4 a णाणदंसणतणु शानदर्शनस्वरूपः; b दुविहु देशसकलभेदात्. 5 a जोय तिण्णि औपक्रमिक-
 यथाकालनिर्जराभेदात्, मनोवाक्कायभेदाद्वा; b जीवगईउ पाणिमुक्तगोमूत्रिकालाङ्गलीभेदेन. 7 a विण्णास-
 वयइं नामस्थापनाद्रव्यभावभेदात्; b पंच सरीरइं औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणभेदात्.
 10 a लोउत्तमणाहें लोकोत्तमनाथेन जिनेन. 11 a पंचासवदारइं मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमाद-
 कषाययोगा बन्धहेतवः. 12 b लेसासय लेख्यापरिणामः. 14 b अट्ट महीउ णारयभवणवासिय माणुस-
 जोएण कप्पवासी य । गोवेय सव्वसिद्धी मोक्खमई अट्टमी पुढवी.

4 2 अप्पुणु तवु समासिओ आत्मना स्वयं तपः समाश्रितम्. 3 b पायपुज्जं मुनिनामेदम्,
 4 b चिंचइयउ शोभमानः.

जलणिहिजैलघलइयजयसिरिसहि
 णिसुय वत्त जिह जणणु जईसरु
 तणयहु विणयपणयवित्थिण्णहु
 वग्गुरवेदु गाहु मणहरिणहु
 तहिं जि मणोहरवणि तणुताविउ
 सो अप्पउं जिणभावे रंजइ
 मँउणु करइ अह थोवउं जंपइ
 विकहउ ण कहइ ण सुयइ ण सुणइ
 जग्गइ इंदियचोरहं पंतहं
 रत्तिदिवसु उब्भुब्भउ अच्छइ
 देहि णहु किं पि वि ण समारइ
 मलपविलित्तइ अट्टइ अंगइ
 धीरेँ सच्चु तच्चु णिज्जायउं
 सोलह थिर हियपण धरेप्पिणु

घत्ता—सो अणसणु करिवि पसणमइ मुणि पंडियमरणेण मुउ ॥

अवराइउ ससहरकरधवलि मणिधिमाणि अहमिदु हुउ ॥ ४ ॥ 20

5

दुवई—वरणीहारहारपंडुरयर रयणिपमाणियंगओ ॥

णिप्पडियारसारसुहरसणिहि गयरमणीपसंगओ ॥ छ ॥

जो णीसासवाउ कयसंखहिं
 माणियअमरालयसिरिहइइं
 तेत्तियवरिससहासहिं भोयणु
 सुक्कलेसु मज्झत्थु महाहिउ
 तइयहुं घरसिरिसंठियखयरिहि
 इंदापसें धणपं रइयहु

मुयइ कहिं मि तेत्तीसहिं पक्खहिं ।
 आउ जासु तेत्तीससमुइइं ।
 जो अहिलसइ सोक्खसंपायणु । 5
 तहु छम्मासकालु जइयहुं थिउ ।
 वंगेसि वरंमिहिलाणयरिहि ।
 विविहमहामाणिक्कहिं खइयहु ।

२ P °जलइय°. ३ A तवयरणु. ४ AP तवताविउ. ५ AP मोणु. ६ A णिमिसु. ७ AP मंड.
 ८ P रणि. ९ P वीरें.

5 १ AP °रमणीयसंगहो. २ P खगसिरि°. ३ AP °मिहला°.

5 a °जय सिरि स हि जयश्रियः सखी. 6 b णि ण्णा सि य सरु जितस्मरः 7 b सिरि दि ण्ण हु श्रीदत्तस्य.
 8 a वग्गुरवेदु वागुराबन्धः; b ज म कर ण हु रोगस्य. 15 b मारइ लक्ष्मीरतिः.

5 1 °णी हार हिमम्; °रय णि प मा णि यं ग ओ हस्तप्रमाणशरीरः. 4 a °सिरि ह इ इं भद्राणि
 मङ्गलानि. 6 a महा हिउ महाधिकः. 7 a घरसिरिसंठियखयरिहि गृहशिखरसंस्थितविद्याधर्याम्.

विविहहृदृट्टैटारमणीयहि विविहमाणिणीयणसंगीयहि ।
 विविहारामहि विविहणिवासहि विविहसिहरआलिहियायासहि । 10
 घत्ता—तहिं विजयराउ णामें नृर्वेइ णिवसइ णवणिसियासिकरु ॥
 छायायरु जणसंतावहरु णं वरिसंतउ अंबुहरु ॥ ५ ॥

6

दुवई—तहु घरि घरिणि देवि परमेसरि वप्पिल चारुचारिणी ॥
 हिरिसिरिकंतिकित्तिदिहिलच्छिहिं सेविय हिययहारिणी ॥ छ ॥

सुहुं सुत्ताइ ताइ अलिमालिउ सिविणइ णिसिहि विरामि णिहालिउ ।
 करि करडयलगलियचुंयमयैजलु अणहुहु खरखुरजुयखयधरयलु ।
 हरि हरिकुलिसकढिणणहहयगिरि गयकरकलससलिलेण्हावियसिरि । 5
 पसरिय परिमलमहुयरसबलिय सर कुसुममय मिलिय णहविलुलिय ।
 कुवलयदलविलेसियकरु ससहरु मिहिरु गयणमहीदिसिगयतमहरु ।
 झस भमिर रमिर रइववसिय घड जलभरिय हरियकिसलयचिय ।
 सरवरु सकमलु सरिवइ समयरु मणिहरियासणु जियसुरमहिहरु ।
 विसहरभवणु सुमहु सयर्महघरु । 10
 रयणणियरु पहहयरवियरविहु हुयवहु कणयकाविलदीहरसिहु ।
 घत्ता—इय जोइवि सिविणय सोलह वि अक्खिउ मुँद्धइ णियपइहि ॥
 तेण वि देसावहिलोयणिण फलु वियरिउ गयवरगइहि ॥ ६ ॥

7

दुवई—सयलसुरिंदवंदु गुणगणणिहि णिरुवमु णिसुणि सुंदरी ॥
 होही तुज्जु पुत्तु गुरुहुं मि गुरु कामंकरिंदकेसरी ॥ छ ॥

४ P णिवह.

6 १ AP घरिणि. २ AP °चल°. ३ P °मयइल. ४ A °सुणहविसिरि; P °सुणहविय.
 ५ P °वियसिययरु. ६ P सयमयघरु. ७ A सुद्धइ. ८ AP णियवइहि. ९ AP विवरिउ गरवर'.

7 १ P कालकरिंद°.

11 °णि सि या सि करु तीक्ष्णखङ्गहस्तः. 12 छा या यरु छायाकरः; अंबुहरु मेघः.

6 1 चारुचारिणी सुन्दरगमना शोभनानुष्ठाना वा. 3 a अलिमालिउ भ्रमरयुक्तः.
 4 b अणहुहु अनइवान् वृषभः. 5 a हरि सिहः; हरि° इन्द्रः. 6 a सबलिय शबलिता मिश्रा;
 b सर माला; मिलिय युमभूता. 8 a रइववसिय रतिविपये उग्रतौ; b हरियपल्लवचिय हरित-
 पल्लवजटितौ. 9 b मणिहरियासणु रत्नसिंहासनम्. 10 a सुमहु सुतेजः. 11 a पहहयरवियरविहु
 प्रमया हता रविकरविभा तेजो येन सः.

हुउ अद्दु वरिसु	घरि रयणवरिसु ।	
सरयावयासि	भहवयमासि ।	
संसिधवलपक्खि	आसिणिसुरिक्खि ।	६
वीयहि जिणिंदु	जगकुमुयचंदु ।	
थिउ गम्भवासि	संसारणासि ।	
आयामरेहिं	चलचामरेहिं ।	
झुल्लइ णहंतु	ढंकिउ दियंतु ।	
णहंणिवडमाणु	वसु अप्पमाणु ।	10
जोइउ णरेहिं	पणवियसिरेहिं ।	
णिवभवणि तांव	णवमास जाव ।	
मुणिसुव्वयम्मि	पालियवयम्मि ।	
भवभार्वच्चत्ति	णिव्वाणंपत्ति ।	
गय संट्टि लक्ख	वरिसहं ससंख ।	15
तइयहुं अउण्ह-	आसाढकण्ह-	
पक्खंतरालि	कयअमररोलि ।	
आणंदपुण्णि	दिम्महि पसण्णि ।	
अइसुरहिवाइ	दुंदुहिणिणाइ ।	
चुयगंधसलिलि	सुरघित्तकमलि ।	20
कंतीइं कंति	दहमइ दिणंति ।	
सुहसंगमेण	जायउ कमेण ।	
तेलोकणाहु	अहयंदराहु ।	
पयपणयधणउ	वंप्पिलहि तणउ ।	

घत्ता—णिउ देवहिं मंदरमहिहरहु पुज्जाविहि संमाणियउ ॥ 25
पडुपडहभेरिमंगलरविण जयजयसहं णहाणियउ ॥ ७ ॥

२ A अद्दुवरिसु. ३ AP अस्सणहु मासि. ४ AP ससिखीणपक्खि. ५ AP णहि णिवडमाणु.
६ A °वत्ते. ७ AP णिव्वाणु. ८ AP गय लसलक्ख. ९ P कतीसकंति. 10 AP वप्पिल्लहि.

7 4 a सरयावयासि जलदावकाशे; b भहवयमासि भाद्रपदे गते सति, आश्विनवदि
द्वितीयायामित्यर्थः. ५ a ससिधवलपक्खि अधवलपक्षे कृष्णपक्षे; b आसिणिसुरिक्खि अश्विनीनक्षत्रे.
8 a आयामरेहिं प्रातै देवैः. 9 a झुल्लइ दोलायते नभः. 10 a अउण्ह° ज्योत्स्नारहिते.
22 a सुहसंगमेण अश्विनीस्थितचन्द्रेण. 23 b अहयंदराहु पापमेव चन्द्रः तस्य राहुः. 24 a °धणउ
धनदः कुबेरः.

8

दुवई—पुञ्जिवि ण्हविवि भणित्ठ णमिज्जिणवरु गुणमणिरुंइरवण्णओ ॥
णाणत्तयसमेउ परमेसरु उज्जलकणयवण्णओ ॥ छ ॥

आणिवि पुणु वि णिहिउ जणणहु घरि	वह्णित्ठ जिणु कुमारु हंसु व सरि ।	
वह्णित्ठ तवसंताउ व कामहु	वह्णित्ठ दाहु व इंदियगामहु ।	
वह्णित्ठ मेहु व कोवहुयासहु	वह्णित्ठ मंतु व भवभयतासहु ।	5
वह्णित्ठ हेउ व पवरसुहेल्लिहि	वह्णित्ठ णवकंदु व दयवेल्लिहि ।	
वह्णित्ठ देवदेउ वररुवउ	पण्णारहधणुदेहु पहूयउ ।	
दससहास वरिसहं परमाउसु	अह्वाइज्ज ताइं कीलावसु ।	
थिउ कुमारु कुमरत्तणलीलइ	पट्टु णिबद्धउ वियलियकालइ ।	
वरिसहं पंचसहासइं खीणंइं	रज्जु करंतहु तहु बोलीणइं ।	10

घत्ता—ता णवघणसमइ पराइयइ सुरधणु जणकोड्ढावणउं ॥
सोहइ उवरित्थु पयोहरहं णं णहसिरिउप्परियणउं ॥ ८ ॥

9

दुवई—णच्चियमत्तमोरगलकलरवि पसरियमेहजालप ॥
पवसियपियहि दीहणीसासरुहाणलधूमकालप ॥ छ ॥

तडिविप्फुरणफुरियपविउलणहि	वारिपूरपेल्लियदसदिसिवहि ।	
लुडु जि लुडु जि बप्पीहें घोसिउ	लुडु जि लुडु जि केयइवणु वियसिउ ।	
लुडु जि कयंबगंधु उच्छलियउ	लुडु पप्फुलउ मालइकलियउ ।	5
लुडु पंथियपिययम उक्कंठिय	लुडु लुडु वायस वासपरिट्ठिय ।	
हरियंतिणंकुरोहदिण्णाउसि	वंरिसमाणि लुडु पत्तइ पाउसि ।	
लीलाचरणचारचोइयगउ	वणकीलाविहारि पट्टु णिग्गउ ।	
कडयकिरीडहारकुंडलंधर	ता थिय सुरवर णहि मउलियकर ।	
विण्णवंति पणवंति कयायर	णिसुणि णिसुणि भो गुणरयणायर ।	10
इह दीवंतरि पुव्वविदेहइ	तहिं वच्छावइविजइ सुगेहइ ।	

8 १ AP रुइरवण्णओ. २ A आणेप्पिणु णिहिउ. ३ तणुसंताउ. ४ AP स्त्रीणइं.

9 १ AP पवसियमुक्कदीह°. २ AP केइयवणु. ३ P कमलगंधु. ४ AP °तणंकुरोह.
५ AP °कुंडलहर.

8 1 °रुइरवण्णओ °कान्त्या मनोहरः. 2 उज्जल° निर्मलम्. 4 a तवसंताउ तपसः संतापः.
11 पराइयइ प्राप्ते सति; जणकोड्ढावणउं जनानां कौतुकोत्पादकम्. 12 उवरित्थु पयोहरहं पयो-
धराणां मेघानामुपरिस्थितम्; णहसिरिउप्परियणउं नभोलक्ष्म्या उपरितनवस्त्रमिव.

9 2 पवसियपियहि प्रोषितस्त्रियाः. 4 a बप्पीहें चातकेन. 5 a कयंबगंधु कदम्बपुष्पगन्धः.
6 a पंथियपिययम प्रोषितभर्तृकाः; b वायस वासपरिट्ठिय काकाः मालके स्त्रिताः.

दविणणिवेइयकामुयकामहि
आयउ वम्महबाणकयंतउ

णयरिहि सुहँलियसीमसुसीमहि ।
अवराइयहु विमाणहु हँतउ ।

घत्ता — णिज्जियमणु तवसिहितत्तणु कम्मबंधिण्णासयरु ॥

अवराइउ णामे लोयगुरु तहि उप्पणउ तित्थयरु ॥ ९ ॥ 1।

10

दुवई — असरिसविसमविरसविससंणिहदुक्कियजलणजलहरा ॥

आया तस चरणपणवणमण रविससहरसुरासुरा ॥ छ ॥

अमराविलासिणिणच्चणतंडवि

जंपिउ केण वि तहु सहमंडवि ।

संपइ देहिदेहँहयमयजरु

जंबूदीवभरहि को जिणवरु ।

केवलणाणसमुग्गयणयणे

भणिउं जिणेण विणासियमयणे । 1।

वंगदेसि कुसुमरयसुकविलहि

णववणणीलहि णयरिहि मिहिलहि

उप्पणउ अच्छइ जगसंकरु

णमिणामकु भावितित्थंकरु ।

पवरविमाणहु हिमयरधामहु

अवइणउ अवराइयणामहु ।

भावाभावइं चित्तइं जाणइ

देवविइणइं सुक्खइं माणइ ।

धादइसंडि दीवि तँउ चिण्णउं

दोहिं मि देवत्तणु संपणउं । 1।

पढमि सग्गि सोहम्मि मणोहरि

रणकिरणजालंचियसुरहरि ।

तं णिसुणेप्पिणु मइमल धोयहुं

अमहइं आया तुह पय जोयहुं ।

तं हियउल्लइ धरिवि णरेसरु

णयरि पइट्टु ललियगम्भेसरु ।

तहु जिणवरहु जम्मसंबंधइं

सुर्यरेप्पिणु णियभवइं सच्चिंधइं ।

घत्ता — चित्तइ वसुहाहिउ णियहियइ बुद्धु सबोहिइ बुद्धउ ॥ 1।

जगि जीउ जहिं जि हुउ तहिं तहिं जि रमइ सकम्मणिबद्धउ ॥ १० ॥

11

दुवई — हिंडइ भवसमुहि अण्णाणविलुंटियणाणलोयणो ॥

पुत्तकलत्तमित्तवित्तासापासणिरुद्धचेयणो ॥ छ ॥

६ A सुल्लिय°

10 १ AP णरविसहरसुरासुरा. २ AP देहि देउ. ३ AP चित्तइ. ४ AP वउ. ५ A तहि हिय°. ६ P सुमरेप्पिणु.

11 १ A °चित्तासापास°.

12 b सुहलियसीमसुसीमहि सुफलिता सीमा यस्यः तस्याः सीमा अवधिः.

10 4 तस्स अपराजितस्य. 6 a °सुकविलहि पीतरक्तवर्णायाम्. 7 a जगसंकरु जगतां सौख्यकरः. 9 a चित्तइं विचित्राणि.

11 1 °विलुंटिय° विनाशितम्.

इय झायंतु देउ उम्मोहिउ
तणयहु वरसरीरसुहकारिणि
सुप्पहणामहु पट्टु णिबंधिवि
अमरवराहिसेउ पावेप्पिणु
सुमहिउ सयमहेण महिरूढउ
गउ आसाढमासि घणसामलि
दसमइ दिवसि मुहुत्ति पहाणइ
लइय दिक्ख सिद्धाण णवंते
मुक्कंबरइ विलुंचियकेसइ
लइयएण छट्टेणुववासं
इंदचंदणोइंदणमंसिउ
वीरणयरि दत्तहु णरणाहहु
घरि पारणउं कयउं परमेसें

सारस्सयसुरवेरहि संबोहिउ ।
दिण्ण तेण सधराधर धारिणि ।
धम्मज्ञाणु हियउल्लइ संधिवि । 5
धणु परियणु तणु जिह मिल्लेप्पिणु ।
उत्तरकुरुसिवियहि आरूढउ ।
अस्सिणरिक्खि पक्खिससिउज्जलि ।
फलपणविइ चित्तवणुज्जाणइ ।
घरपुरवरमहिमोहु मुयंतं । 10
पहु आलिगिउ दिक्खावेसइ ।
सहुं सुसीलखत्तियहं सहासें ।
मणपज्जवणाणेण विह्वसिउ ।
वीरलच्छिसुपसाहियबाहहु ।
सुरकयपंचच्छरियविलासें । 15

घत्ता—णववरिसइं दुक्करु तउ चरिवि तिणिण वि सल्लइं वज्जियइं ॥
रसगंधफाससुइलोयणइं पंचिदियइं परज्जियइं ॥ ११ ॥

12

दुवई—वसुहं हिंडिऊण गउ पुणरवि तं दिक्खावणं घणं ॥

कुसुमियफलियललियतरुसाहाकीलियहंसबरहिणं ॥ छु ॥

तहिं रिसि तवसंतावें रीणउ
मग्गासिरइ सिंसिरइ संपत्तइ
तइयइ सासिणिदियहि वियालइ
उप्पण्णेण णवियगिवाणें
सुहुमइं अवरंतरियइं दूरइं
पोग्गलाइं पूरियगलियगइं
मल्लयमुरयवज्जणिहु तिहुवणु
कालु वि लक्खिउ जायपवत्तणु

बउलमहीरुहतलि आसीणउ ।
पक्खि मियंककरावलिदित्तइ ।
णिलूरियमहंततमजालइ । 5
दिट्ठइं देवे केवलणाणें ।
पञ्चक्खाइं सुभेयंगहीरइं ।
गंधवैण्णपरिणामवसंगइं ।
ओग्गाहणलक्खणु गयणंगणु ।
अप्पउं सयणु अयणु चैयणगुणु । 10

२ AP सारस्सयसुरेहि. ३ A मुक्कंबरपविलुंचिय°. ४ AP °णायंद°. ५ AP दुक्करु चरिवि तउ.

12 १ P अंबरतरियहं. २ A समेय°. ३ AP वण्णगंधपरि°.

3 a उम्मो हिउ त्यक्तमोहः. 4 b धारिणि भूमिः. 7 a सुमहिउ सुपुजितः. 8 b अससिउज्जलि कृष्णपक्षे दशम्यामित्यर्थः. 11 a मुक्कंबरइ मुक्तवस्त्रया दीक्षावेशयया श्लिष्टः.

12 2 °बरहिणं °मयूरम्. 4 a सिंसिरइ हिमकाले; b मियंककरावलिदित्तइ चन्द्र-किरणश्रेणिदीप्ते, शुक्लपक्षे. 5 a सासिणिदियहि अश्विनीनक्षत्रे; वियालइ संध्यायाम्. 7 a अवरं तरियइं अन्तरितानि. 8 a मल्लय° शरावः; °मुरय° मुरजः. 10 b सयणु सशरीरः संसारी; अयणु अतनुः सिद्धः.

धम्माधम्मु बे वि गइठाणं बुज्झिय संते सुद्धपमाणं ।
 ता दसंसिदिसिवहेहि आवंतहिं जय जय जय मुणिणाह भणंतहिं ।
 घत्ता—पूपप्पिणु वियसियसुरहियहिं कुसुमहिं कुसुमसरत्तिहरु ॥
 चउदेवणिकायहिं णमिउ णमि पसमपरिग्गहु परमपरु ॥ १२ ॥

13

दुवई—रेहइ तुज्झु णाह भुवणत्तयसीहासणविलासओ ॥
 जस्ताहोवयम्मि देविंदुं वि बइसइ णवियसीसओ ॥ छ ॥

दह्हेउ धणघरतिट्ठावाहिइ	जगु जीवइ तुह छत्तहं छाहिइ ।	
पइं दिट्ठइ पाविट्ठु वि सुज्झइ	तुह वायइ मृगुं मंदु वि बुज्झइ ।	
तुह धम्महु ण लील संपावइ	विज्जुज्जोएं अंगउ दावइ ।	5
णिग्गुणधम्मं केत्तिउं गज्जइ	घणु तुह दुंदुहिरवहु ण लज्जइ ।	
जिण तुह भामंडलवित्थारं	लोउ ण घिप्पइ मोहंधारं ।	
तुह चामराहिं चलंतहिं पेत्तिउ	कम्मरेणु उट्ठावि वि घल्लिउ ।	
रंजिय कुसुमविट्ठिरुंरं	महुयर मत्ता तुज्झु जि संगं ।	
तुज्झु असोउ सोयणिण्णासणु	णंदउ णाह तुहारउ सासणु ।	10
घत्ता—जय जय परमप्पय परंमगुरु जम्मि जम्मि तुहुं महु सरणु ॥ रिसिचरणमूलि सल्लेहणिण महुं देज्जसु समाहिमरणु ॥ १३ ॥		

14

दुवई—इय संथुउ जिणिंदु देविंदहिं सेवियघोरकाणणो ॥
 ववगयकामकोहमयमोहमहातवलच्छिमाणणो ॥ छ ॥

देउ एकवीसमउ जिणेसरु	उग्गउ णं गयणंगाणि णेसरु ।	
सच्चं सधम्मु अहम्मु वियारइ	भवसमुदि बुद्धंतइं तारइ ।	
उवसंतइं पयपंकयणवियइं	पियवायइ संबोहियंभवियइं ।	5

४ A दसदिसिवहेण; P दसदिसिवहि णहि आवंतहिं. ५ P omits जय.

13 १ A देविंदु पइसई. २ A दह्हेउधणघरं. ३ AP मिगु. ४ A विज्जुज्जोएं. ५ AP रंइ-
 रं; K records a p: रय इति पाठे रजः. ६ P परमपरु.

14 १ P सच्चु सुतच्चु सुधम्म. २ P संबोहइ.

13 1 भुवणत्तयसीहासणविलासओ भुवनत्रयसिंहासनस्य विलासः. 2 अहोवयम्मि
 अधःपादे; बइसइ उपविशति. 3 a तिट्ठावाहिइ ० तृष्णाव्याधिना; b छत्तहं छाहिइ छत्रत्रयाणां
 छायाया. 5 a धम्महु धर्मस्य धनुषश्च; विज्जुज्जोएं विद्युतः विद्यायाश्च तेजसा. 9 a रंजिय रञ्जिता
 अकृष्णा जाता भ्रमराः; ० रुइरं गै रुचिरागेण. 10 a असोउ अशोकवृक्षः.

14 1 a गविट्ठइं गणितानि.

तद्दु उपपण्णा पुण्णमणोरह
 पुव्वधरहं पण्णास समेयइं
 उडुसयाइं बारहसहसालइं
 पुणु छसयाइं बारहसहसालइं
 तेत्तिय केवलणाणपहायर
 पंचसयाइं एकसहसिल्लइं
 सैाहहुं सहुं सहसेण गविट्टइं
 जिणवरमग्गि णिवेसियसीसहं
 मंगिणिपमुहहं हयमइमइयहं
 एकु लक्खु सावयहं समासिउ
 अमर असंख संख खग मृग जहिं

सुप्पहाइ सत्तारह गणहर ।
 चउसयाइं ससिदिणयरतेयइं ।
 सिकखुयरिसिहिं समुज्जलसीलइं ।
 णाणत्तयवंतहुं सुणिउत्तइं ।
 मुणिवरिंद तणुविक्रियायर । 10
 मणपज्जवणाणिहिं णिसल्लइं ।
 दोसयाइं पण्णास जि दिट्टइं ।
 एकु सहासु महावारसहं ।
 पर्णाचालीससहस संजइयहं ।
 तिउणउ सो सावइहिं पयासिउ । 15
 अरुहरिद्धि वण्णिज्जइ किं तहिं ।

घत्ता—दोसहसइं पंचसयाहियइं महि विहरिवि संवच्छरहं ॥
 पसुसुरणरखेयरविसहरहं धम्मु कहिवि मउलियकरहं ॥ १४ ॥

15

दुवई—णमि संमेयसिहरिसिहरोवरि दूरज्झियणियंगओ ॥
 अच्छिउ मासमेत्तु णिरु णिच्चलु पडिमाजोयसंगओ ॥ छु ॥

किरियाछिंदणु ज्ञाणु रएप्पिणु
 थियउ अजोइदेहु आसंधिवि
 रिसिहिं सहासैं सहुं णिव्वाणहु
 महिमंडलि रविकिरणहिं तत्तइ
 कसंणचउहसिदिवसि समायइ
 णिकल्लु जायउ चंदफणिदहिं
 पहयतूररवपूरिउं णहयलु
 उब्भिय धय रयणइं विच्छिण्णइं
 धरिय चारुचंदोवय चामर

तिण्णि वि अंगइं झ त्ति मुएप्पिणु ।
 पंचमंतकालंतरु लंधिवि ।
 गउ परमप्पउ अच्चुयठाणहु । 5
 तहिं वइसाहमासि संपत्तइ ।
 णिसिविरामि लुहु लुहु जि पहायइ ।
 पुज्जिउ देवदेउ देविदहिं ।
 गेयथोत्तञ्चुणि उट्टिउ कलयलु ।
 दीणाणाहहं दाणइं दिण्णइं । 10
 णच्चिय धरणिरंगि विविहामर ।

३ AP गणहर सत्तारह. ४ P सीहुहुं. ५ AP जिणवयमग्गे. ६ AP गयमयमइयहं. ७ A पंचसद्धि-
 सहसइं संजइयहं. ८ AP मिग.

15 १ P णियगओ. २ AP पंचमत्त°. ३ AP सहासहिं. ४ A कसिण°. ५ AP पूरिय-
 णहयलु. ६ AP विक्खिण्णइं.

14 a हयमइमइयहं हतमतिमदिकानाम्.

15 3 a किरिया छिंदणु उपरतक्रियानिवर्ति; b तिण्णि वि अंगइ औदारिकतैजस-
 कार्मणानि, औदारिकमिश्रकार्मणानि इति गुणभद्रः. 7 b पहायइ प्रभाते. 10 a विच्छिण्णइं
 विकीर्णानि निक्षिप्तानि.

दौरिसंतेहिं तेहिं तहिं णवरस
छत्तीस वि दिट्ठिउ पयडंतहिं
णच्चिवि विविहणट्टरूवें वर
समउ सुराहिवेण गय णहयलि

णवचालीसभावपसरियजस ।
कर चउसट्ठि तेत्थु दरिसंतहिं ।
सिद्धखेत्तु पणवेप्पिणु सुरवर ।
अरुण वरुण वइसवण सुणिम्मलि । 15

घत्ता—हरि सुरहं समासइ जंतु णहि णियचरिणं मुणिवच्छलिण ॥
उज्जोइउ भरहु जि णमिजिणिण पुष्पयंतकिरणुज्जलिण ॥ १५ ॥

16

दुवई—हुइ णिव्वाणगमणि णमिणाहहु सासयसिवणिवासहो ॥
अक्खमि चरिउ चक्किजयसेणहु सयलजणाहिरामहो ॥ छ ॥

जंबूदीवि एत्थु सुमहंतइं
अत्थि खेत्तु णामें अइरावउं
बुहंमणोज्जु सिरिउरु तहिं पट्टणु
तहिं णामें भूवालु वंसुंधरु
पउमावइ णामें तहु गेहिणि
तहिं विओयसोएं णिव्विण्णउ
मणहरि वणि धम्ममुणीसपासि
जिणकहिइ विहिइ संणासु करिवि
भासुरतणु पावियअवहिणाणु
अह वच्छाविसइ विलासठाणु
तहिं विजउ राउ अखलियपमाणु
पिय तासु पहंकरि सुहणिवास
वरकणयवण विच्छिण्णकाय

मेरुहु उत्तरेण गुणवंतइं ।
जणधणकणगोसंपयअइरावउं ।
अमरणयरसोहादलवट्टणु । 5
अतुलपरक्कमु पवरधणुद्धरु ।
रण्ण व रविहि ससिहि णं रोहिणि ।
रज्जु सुविणयंधरि सुइ दिण्णउं ।
लइयउं तउ पावासवविणासि ।
महसुकुसग्गि हुउ अमरु मरिवि । 10
सोलहसायरजीवियपमाणु ।
कोसंबीपुरवरु सुहणिहाणु ।
णियतेओहामियसरयमाणु ।
सूहवगुणपूरियदसदिसास ।
णं सग्गहु अच्छर का वि आय । 15

७ AP read in place of this line and the three following as follows:—

चवचंदणलवंगविरहयसल
णाहहु पयपणामु विरयंतहिं
दिण्णउ उरयलघोलिरहारहिं
भपीभावजायतणुलट्ठिहि

कुसुमणिवह णहणिवडिय सभसल ।
जयजयजय अरहंत भणंतहिं ।
चूडामणिसिहि जलणकुमारहिं ।
वंदिवि देहभणु परमेट्ठिहि ।
(A वंदिवि देउ भव्वपरमेट्ठिहि)

16 १ A हुय°. २ AP °गोसंपयसारउं. ३ बहुमणोज्जु. ४ P °णवर°. ५ A णरेसर.
६ A अंछर.

16 4 b अइरावउं अतिरमणीयम्. 5 b °दलवट्टणु °चूर्णकरम्. 6 a वंसुंधरु वंसुंधर-
नामा. 7 b रण्ण व रनादेवीवत्. 13 a अखलियपमाणु अखलितज्ञानः. 15 a विच्छिण्ण कायं
मध्यक्षामा.

घत्ता—सग्गाउ चवेप्पिणु सो अमरु ताहि गग्भि अवइण्णउ ॥
परिओसिउ सयलु वि बंधुयणु सत्तुवग्गु अइण्णउ ॥ १६ ॥

17

दुवई—सोहणादिणि सुरिक्खिण वणमासहिं पवरोयरविणिग्गओ ॥
पुणु जयसेणु णामु तहु विहियउं णियगइविजियदिग्गओ ॥ छ ॥

णिच्छियतिणिणसंहसवरिसाउसु	सव्वपियारउ णं णवपाउसु ।	
वरइक्खाउवंसणहससहर	बंदिणजणविहंगसुरतरुवर ।	
कणयवणु करसट्ठि समुण्णउ	सयलकलाकलावसंपुण्णउ ।	5
रज्जि णिंविट्ठु चक्कुप्पण्णउं	रविबिंबु व सेवइ अवइण्णउं ।	
परिसाहिय छक्खंड वसुंधर	सेव कराविय सुर वि सुदुद्धर ।	
एक्कहिं दिणि सउहयलि वसंतं	विज्जुवडंणु गयणाउ णियंतं ।	
कारणु तं वइरग्गहु पाविउ	सव्वु अणिञ्चु मणेण परिभाविउ ।	
रज्जु पढमपुत्तहि ण वि मण्णिउं	जिह णिवेण तिह तं अवगण्णिउं ।	10
णिरवसेसु लहुसुयहु समप्पिवि	सत्तुमित्तु सममइ संकप्पिवि ।	
केवलिवरयंतहु णिवणेसरु	जाउ समीवि साहु परमेसरु ।	
संमेयइ कयसंणासुत्तमु	हुयउ जयंतदेउ लयंसत्तमु ।	

घत्ता—संणासमरणि भरहेसरहु णरसुरवरहिं अणेयहिं ॥
पुज्जाविहाणु णिव्वत्तियउं पुप्फयंतसमतेयहिं ॥ १७ ॥ 15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे णमित्थियरजंयसेणचक्कहंर-
कहंतरं णाम असीतिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ८० ॥

७ P चएप्पिणु. ८ AP आदण्णउ.

17 १ A वरिससहसाउसु. २ A समुग्गउ. ३ AP उवइण्णउं. ४ AP विज्जुपडणु.
५ AP वरइत्तहु. ६ AP जयंति देउ. ७ A सयलुत्तमु. ८ AP पुप्फदंत°. ९ AP णमिणाहणिव्वाण-
गमणं. 10 A omits जयसेणचक्कहरकहंतरं. ११ P °चक्कवट्ठि°.

17 अ इ ण्णउ म्लानि प्राप्तः.

17 2 णि य ग इ वि जि य दि ग ओ निजगमनेन जितदिग्गजः. 4 b °वि हं ग° पक्षिणः; सुर-
तरुवरु कल्पवृक्षः. 5 a करसट्ठि पञ्चदश धनुंषि. 12 a णि व णे सरु नृपभास्करः. 13 b क य सत्तमु
अहमिन्द्रः.

NOTES.

[The references in these Notes are to Samdhis in Roman figures and to Kadavakas and lines in Arabic figures. A brief summary of the contents of each Samdhi is given in the Introduction to enable the reader to follow the Text. These Notes supplement those in Sanskrit given at the foot of the page. T stands for the Tippana of Prabhadra.]

XXXVIII

1. 12b भवइजसोहो, having the beauty of the rays born of भवइ, the lord of stars, or नक्षत्रः. 26 पयासवि, i. e., प्रकाशयामि, publish or manifest. Note v. l. पयासमि which is simpler to understand, but K sometimes shows preference to such forms; compare समासवि in the following line; as also इच्छवि and अच्छवि in 5. 10, 11; पडिच्छवि & ओहच्छवि in 3. 8 below.

2. 1b कइवयदियहहं कतिपयदिवसान्, for some days. 2a णिव्विण्णउ निर्विण्णः, dejected. णिव्विण्णउ i. e., निर्विनोदः of K is an equally good reading and may mean काव्यकरणादिविनोदरहितः, but I have adopted णिव्विण्णउ in view of उव्वेउ जि विःथरइ गिरारिउ in 4 9a below, and in view of the gloss. 9-10 खलसंकुलि कालि etc. भरत who lifted up सरस्वती, the goddess of learning, going down on an empty, very empty or dangerous path (सुण्णसुसुण्णवहि) or in the empty sky in these (bad) times, full of wicked people (खलसंकुलि), and full of people of bad character (कुसीलमइ), by covering her (संवरिय संवृतां कृत्वा) by means of his विनय, modesty.

3. 1a अइयणदेवियव्वतणुजाएं, i. e., by भरत who was the son of अइयण or ऐयण and देवियव्वा. 2b दुत्थियमित्ते, by भरत who was the friend of दुत्थिय, persons in distress. 3a महं उवयारभावु णिव्वहणे, by भरत who accomplished, i. e., showered, obligations on me, i. e., poet पुष्पदन्त. How भरत put पुष्पदन्त under his obligations can be seen from MP I. 3-10 and Introduction to Vol I. pp xxviii-xxxii. 10 तुह सिद्धहि etc., why don't you milch the milk of nine sentiments (णव रस) out of the cow, viz.; your वाणी or poetic power which is सिद्ध or accomplished to you or is at your command.

4. 7a राउ राउ णं संहहि केरउ, the king is as (fickle as) the red glow of the evening, i. e., lasting for a short time. 8b एक्क वि पउ वि रएवउ भारउ, to compose even one word is a heavy task. 10 जगु एउ etc., the world is always crooked (वंकउं) with the virtuous (गुणेण सह) as the bow is when strung with its string (गुण).

5. 2b-3a According to the poet, भरत excelled even king सालवाहण, i. e., सातवाहन, in that he (भरत) was a constant friend of poets (अणवरयरइय-

Notes

कहमेत्तिह). 4a-b. The poet here refers to an anecdote that king श्रीहर्ष carried the famous poet कालिदास on his shoulders. Historically this reference is on par with several others, e. g., those mentioned in the भोजप्रबन्ध. The date of the accession to throne of king श्रीहर्ष, the patron of बाण, is 620 A. D., while कालिदास is certainly older than Aihole Inscription of 634 A. D., than बाण (620 A.D.) and above all than वत्सभट्टि's मन्दसोर प्रशस्ति of 473 A. D. 8a-b. Poet पुष्पदन्त who styled himself as कव्वपिसह, was honoured by some and was despised by others saying that he was a dullard (थच्छु). 11 देवीसुय, a son of देवी or देवियन्वा of 3.1a above, i. e. भरत.

6. 3a-b. The poet here assures his patron भरत that his poetic genius manifests itself out of devotion for the feet of the Jinas, and not out of desire to earn his living (णउ णियजीवियवित्तिह). 10. करहु कण्णि कहकोडलु, place on your ear this ear-ring (कोडलु), viz., the narrative (कह, कथा) of अजित.

7. The narrative of अजित, the second तीर्थंकर, begins with this कडवक. I have already referred to the monotonous way in which lives of great men in Jain works are described (Vide MP Vol. I. p 599). We first get some information of the previous birth of a Jina wherein he acquires the necessary qualifications of becoming a Jina in the subsequent birth. In the case of Ajita, he was विमलवाहन, a king ruling in the town of सुसीमा of the वत्सदेश, situated on the southern bank of the river सीता in the पूर्वदिदेह of जम्बूद्वीप. There one day he acquires disgust for the worldly life, practises penance, cultivates the sixteen भावनाs such as दर्शनविशुद्धि, secures तीर्थंकर नाम and गोत्र, dies by observing fast, is born in the विजय अनुत्तरविमान, has a life of 23 सागरोपम; there when only six months of this long life remain, सौधर्मेन्द्र comes to know that this अहमिन्द्र is to be born in अयोध्या in the भरतवर्ष as a son to king जितशत्रु and queen विजया, and orders कुबेर to bestow a shower of gold on this city. The six deities, श्री, ही, धृति, मति, कान्ति and कीर्ति, come to wait upon queen विजया: The queen then sees sixteen dreams, and on waking up describes them to king जितशत्रु who tells her that she would give birth to a जिन. When विमलवाहन completes his period of life as अहमिन्द्र he descends into the womb of विजया in the form of an elephant. Gods arrive on the scene and congratulate जितशत्रु. The Jina is born as त्रिज्ञानिन् i. e., possessed of मति, श्रुत and अवधिज्ञान, on the 10th day of the bright half of माघ. Gods headed by इन्द्र, arrive on the scene once more, go round the Jina three times, salute the parents, and handing over to the mother a सायाबाल, take the Jina to the मन्दर mountain, give him a bath,

name him as अजित, offer him prayers, and, bringing him back to अयोध्या, hand him over to his mother. When अजित attained youth, he was married to thousand princesses. He was also crowned as prince, and enjoyed the earth for 19 lacs of पूर्वs. One night prince अजित saw a meteor falling, and gathering from it that his fortune was as fickle as the meteor, resolved to renounce the worldly life. Gods arrive on the scene once more and praise him for his resolve. He then placed his son अजितसेन on the throne, gods gave him a bath, and on the afternoon of the ninth day of the bright half of माघ he performed the केशलोच and took the दीक्षा. The hair of the monk अजित were picked up by इन्द्र in a golden plate and thrown in the क्षीरसमुद्र. One thousand princes renounced the world with him. In a short time the fourth knowledge, viz., मनःपर्यायज्ञान, was acquired by him. He took the vows with a fast of two days and a half (षष्ठोपवास). He broke the fast the next day at अयोध्या at the house of king ब्रह्मा, who was graced by five wonders. अजित practised penance for twelve years, and on the 11th day of the bright half of पौष, he secured केवलज्ञान under सप्तच्छद tree. इन्द्र and other gods arrived on the scene, praised him and built a समवसरण. There the Jina sat on a सिंहासन, called सर्वभद्र, had with him all the eight प्रातिहार्यs, and then delivered a discourse. He had his गण or followers devided into 12 groups, viz., गणधर, पूर्वधारिन्, शिक्षक, अवधिज्ञानिन्, केवलिन्, विक्रिया-ऋद्धिम्, मनःपर्यायज्ञानिन्, अनुत्तरवादिन्, आर्यिका, श्रावक, श्राविका and देव, देवी, तिर्यञ्च् etc. With such संघ, the Jina wandered on the earth for a period of 53 lacs of पूर्वs less by 12 years. He then went to the संमेदशिखर, and having lived the life of 72 lacs of पूर्वs, practised the प्रतिमाs for one month, and attained emancipation on the forenoon of the fifth day of the bright half of चैत्र. Gods worshipped him on this occasion, his body was burnt by अमिकुमार, the ashes were respectfully collected by Indra and thrown into क्षीरसमुद्र.

I have given all the details of the life of अजित here. The same will be repeated almost in the same form with the change of names, dates etc, in the case of all the तीर्थंकरs mentioned in this Vol. and therefore will not be described any more. I am giving these details in the tabular form to facilitate understanding.

7. 2a सीयहि दाहिणकूलि, we have a *v. l.* in K, उत्तर^o, but is corrected in the Ms. to दाहिण, perhaps on the strength of गुणभद्र's उत्तरपुराण, which reads :
सीतासरिदपाग्भागे वत्साख्यो विषयो महान् ।—उत्तरपुराण, 48. 3.

where अपाग्भाग means south. 8b हलियहि, by farmers.

8. *8a-b* जसु सोह्रगौ etc. God of love falls into background on account of the beauty of विमलबाहन, and therefore gave up his body and became अनङ्ग.

9. *2b* पंचमहव्वयमायउ, the mothers of five great vows, viz. the 25 भावनाs, five for each vow. *8a* दंसणसुद्धिविणउ, the sixteen भावनाs beginning with दर्शनविशुद्धि. For details see तत्त्वार्थसूत्र VI. 24. These भावनाs enable a soul to secure तीर्थकर नामगोत्र.

10. *9a* सो अहममराहिउ, that अहमिन्द्र, who, in the previous birth, was king विमलबाहन. *11b* कणयमयणिलयण, (अयोध्या) having houses of gold.

11. *1b* माणवमाणिवेसें, dressed as earthly ladies. *4a* गम्भि ण यंतहु, even before the descent of the जिन; into the womb i. e., इन्द्र sent a shower of gold even before the जिन descended into the womb of queen विजया.

12. For sixteen dreams see my note in MP. Vol I, pp. 600-601.

13. *4a-b* कुंजरवेसें etc. The अहमिन्द्र, on completion of his period of life at विजयविमान, entered into the mouth of the queen in the form of an elephant just as the sun enters into clouds. 9-10. These lines mention the interval between the निर्वाण of ऋषभ and the descent of अजित into the womb of queen विजया; it is fifty lacs of crores of सागरोपमs.

14. 4-5 दसणकमलसरणञ्चियसुरवरि etc. इन्द्र ascended his elephant ऐरावण on whose lotus-pond-like tusks gods were dancing. *8b* सरसरसिर, talking full of devotion.

15. *6b* मंतु पणवसाहा संजोइवि, using the मन्त्र “ ॐ स्वाहा.”

18. *9a* वसुवइवसुमइकंताकंतें, by अजित who was the lord of two wives, viz., wealth (वसुवइ) and the earth (वसुमइ).

19. *1b* ईसमणीस समासमलीणी, the mind of lord अजित was completely engrossed in peace of mind (सम, उपशम, वैराग्य). *4b* आउ वरिसवरिसेण जि व्तिजइ, man's life is lessened year by year.

20. *4a-b* गइदुचरित्तकम्मसंताणइ संताणइ, for the continuation of his race which meant a series of acts (कम्मसंताण) such as गइ (देवमनुष्यादिगति) and misdeeds (दुचरित्त). The act of continuing the race involves a series of birth and death and several other acts which are misdeeds.

21. *6a-b* कुसुमवरिसु etc. The five miraculous things are कुसुमवर्ष, a shower of flowers from heaven, सुरपट्टहनिनाद, beating of heavenly drums, वसुहारा shower of gold from heaven, चेळुक्खेव, erecting of flags, and अहोदाणं, divine sound praising the nobility of gift. Compare विवागसुयं page 78.

23. Description of समवसरण.

24. Description of eight प्रातिहार्यs, viz, अशोकवृक्ष, दिव्य पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिंहासन, भामण्डल, देवदुन्दुभि and छत्र. 10-12 and the following कडक्क mention the number of his गणs, for which see the Table.

26. 1 *a* सिहरिहि i. e; on mount Meru. 5 *b* दंडकवाडुरुज्जगजगपूरण describes the process by which the soul of a Jina proceeds to सिद्धसिला.

XXXIX

The samdhi gives the story of सगर, the second चक्रवर्तिन् of the Jainas.

1. 2 मगहाहिव, i. e., श्रेणिक, the king of the मगध country who asked गौतम इन्द्रभूति to tell him the lives of sixtythree great men. 4 *a* For दाहिनयलि AK originally read उत्तरयलि but K corrects it to दाहिनयलि which agrees with गुणभद्र's उत्तरपुराणः—

द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहस्य सीतापागभागभूषणे ।

विषये वत्सकावत्यां पृथिवीनगराधिपः ॥ 48. 58.

12 घरचूलाहयणहयल, the capital पृथ्वीपुर which struck or scratched the surface of the sky with the tops (चूला) of its houses.

2. 9 *b* सिसुमोहणीउ मुणिहिं वि दुवार, affection to children is irresistible even to monks. 10 जिणवरवयणु रसायणु, the councillors of the king gave him the elixir, viz; the teachings of the Jinas to overcome his grief.

4. 3*a* इयर वि, i. e. महारुतमन्त्री. 5*b* किउ दोहिं मि पडिबोहणणिबंधु, god महाबल (formerly king जयसेन) and god मणिकेतु (formerly महारुत मन्त्री) made an agreement that whoever was born as a human being first, should be reminded by the other who continued to be अमर or god, of this fact.

5. 9-10 The fourteen jewels of the sovereign ruler.

6. 3*a* जिव भरहु तिं व सयरहु जि होइ, i. e., सगर got as much wealth as भरत, the first चक्रवर्तिन्.

7. 1*a* मयमउलवियणयण, elephants have their eyes closed on account of their मद, rut or rutting season. 10*a* रयणकेउ, i. e., मणिकेतु.

8. 9*b* तरुणिहि कोकिजइ हसिवि ताउ, young women laugh at him and call him papa, father (ताउ, तात).

10. 2*a* देवसाहु i. e., मणिकेतु, who, being a god, assumed the form of a monk.

12. Description of the descent of the गङ्गा.

14. 2a बिहिं ऊणी सट्टि, sixty thousand sons, minus two, viz., मीम and भईरहि or भगीरथ who alone escaped death. 9b गड आवइ णउ सरिसरतरंगु, waves of the river water, once gone, do not come back (आवइ णउ).

16. 11a दढधम्महु पार्यंतिइ, at the feet of a sage named दढधम्म (दढधर्मेन्).

17. 6b गउ जेण महाजणु सो.जि पंथु, Compare: महाजनो येन गतः स पन्थाः.

XL

1. सासयसंभउ, source of eternal bliss (शाश्वत+शं+भव). संभवणासणु, one that puts an end to संभव, birth, i. e., संसार. 5b पुसियबंभहरिहरणयं, one that refuted (पुसिय) the doctrines (णय) of ब्रह्मा, विष्णु, and शिव. 20b असिआउसं. For note on this expression see MP. Vol I, page. 653. 23 अमिउं, पियह कण्णजलिहिं, drink the nectar, i. e., my poem, with the अञ्जलि of your ears. Compare कर्णाञ्जलि-पुटपेयं विरचितवान् भारताख्यममृतं यः । तमहमरागमकृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे.

4. 10b सत्था i. e., स्वस्था, quiet, peaceful, happy.

5. 14a जित्तसत्तुसुए, son of जितशत्रु, i. e., अजित, the second तीर्थंकर. 18b जंभारिणा, by इन्द्र.

6. 4a सईइ सई धारियउ, held or picked up by शची herself.

8. 12 किं जाणहुं सोसिउ उवहि, what do you think? The ocean became dry as gods were carrying water for the bath of संभवजिन.

9. 13 पइं मुइवि, त्वां मुक्त्वा, वर्जयित्वा, except yourself.

11. 7a कत्तियसियपक्खि i. e. कार्तिक+असित+पक्षे, कार्तिक कृष्णपक्षे. Compare गुणभद्र 49. 41 जन्मक्षे कार्तिके कृष्णचतुर्थ्यामपराह्णगः. 11 णाणे णेयपमाणे, his knowledge which was co-extensive with ज्ञेय, knowables, i. e., the केवलज्ञान.

13. 5a जक्खिदमउडसिहरुद्धरिउ, coming out from the top of the crown of यक्षेन्द्र, i. e., कुबेर.

14. 10b दहगुणिय तिण्णि सहस, i. e., thirty thousand. गुणभद्र however mentions twenty thousand.

15. 1a भवियतिमिह, ignorance of the भव्य persons. 14 सिंगारंगहु i. e., शृङ्गाराङ्गस्य, i. e., शृङ्गारभूमेः.

XLI

1. 1 णिदिंदियइ णिवारउ, one who wards off or controls the base, निन्द्य, sense-organs, i. e., a तीर्थंकर, here अभिनन्दन. 18 जीहासहसेण विणु, in the absence

of one thousand tongues. The फणीश्वर has one thousand tongues and hence capable of praising all aspects of a तीर्थकर, but पुष्पदन्त, the poet, has only one tongue and hence unable to do justice to the qualities of a तीर्थकर.

3. 1b सणियउं वियरइ, walks gently so as to cause no injury to a living being. 5b तिणिण तिउत्तरसय, the expression is elliptic, but clearly refers to 363 doctrines of heretics, as the *lection faciliore* of AP indicates.

5. 7b सवु सवारिउ, he accomplished it completely.

6. 12 आसणयणहरणि, by the shaking of his seat. इन्द्र learnt, on account of the shaking of his seat, that a जिन was born.

8. This कडवक gives the list of ten deities invoked at the time of the bathing of a जिन. These deities or लोकपालs are: इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत, वरुण, वायु, कुबेर, रुद्र, चन्द्र and फणीश; they are described here with a specific mention of their vehicle (वाहन) weapon (प्रहरण), wife (प्रियरमणी) and a characteristic feature (चिह्न), as line 23 says.

12. 13 भयलजामाणमयवज्जियउं जिणवउं पेम्मसमाणउं, the vow of a जिन is like the vow of love or behaviour of love, in as much as it ignores or is destitute of fear, shame, pride and self-respect. Just as a man in love ignores the feelings of fear etc, so a जिन ignores these feelings.

17. 9a जीवपक्खिखंबंदिग्गहंपंजरु, (the dead body मुक्कलेवरु) was a cage to catch the bird, viz., the soul.

XLII

1. 18 समासइ वइयरु, the व्यतिकर, story or narrative is being abridged (समासइ, समस्यते).

2. 4b पोमरयरासिपिंजरियकुंजरषडे (in the country) where the herds of elephants were reddened with the pollen of lotus flower. 5a दुक्खणिग्गमण etc. The region of पुक्कलावती was so charming that it bore the comparison with वनश्री from which the god of love, रइरमण, the lord of रति, would depart (only) with difficulty. 10b रमइ वइसवणओ आवणे आवणे, the lord of wealth, वैश्रवण, i. e., कुबेर, took delight in every shop, as it had plenty of wealth. 15 उवसमवाणिण, with the water (वाणिअ, पानीय) of tranquility of mind (उवसम, उपशम). 16 भोयतणेण, with the grass (तण, तृण) of enjoyments (भोय, भोग).

3. 17b हरिसुद्धदेहेण, with his body filled with horripilation (उद्ध, ऊर्ध्वरोम) due to joy.

4. 15a हृए हरिभणणे, when the orders of हरि, i. e., इन्द्र, were obeyed, i. e., when the town etc. was decorated at the command of Indra. 17 अणव-इण्णि अरहे, even before the arrival or birth of the अर्हत्.

5. 21 झुलंतवडायहिं, with flags (वडाय, पताका) fluttering (झुलंत).

7. 6b णिव्विककामावहो, of the जिन who continually or uninterruptedly destroys the god of love or passions. 10b जडकसरदुग्गेण, hard to be practised by dullards and mischievous people. कसर literally means a mischievous bull. गिरिककरि पडइ etc. A wretched camel throws itself or wanders over a rugged cliff (गिरिककर) for the sake of sweet (महुकारणि) herbs where they cannot be had.

9. 5b इणे पच्छिमत्ये, when the sun turned towards the west, was about to set.

12. 15b घडिमालाहयहं, the पूर्व periods counted by the series of घटिका that elapsed. Compare हयदियहपाडीहिं in 5. 14a.

XLIII

1. 5a णियायममग्गणिओइयसीसु, who directed his disciples (सीस, शिष्य) on the path prescribed by his holy texts (निज+आगम) or scriptures. 7b गलकंदडु bulblike (tender) neck.

2. 6a °णीड, nests or houses. 10a भाविणि° (भामिनी), women. 13 होउ पडुच्चइ, पूर्णं भवतु, be accomplished. पडुच्चइ normally means प्रभवति, but the gloss explains it as पूर्णं. 14 जं पुरउ etc. If the town or capital is abandoned, then one can secure emancipation quickly. If the king leaves his kingdom he can secure release from संसार.

4. 1a-b गिहीगुणठाणवएहिं विमीस,...महोवहि वीस, the period of life of the अहमिन्द्र was twenty सागरोपम (महोवहि) mixed with or plus (विमीस, मिश्र) eleven which is the number of the प्रतिमास of a householder, in all thirtyone सागरोपम.

8. 10b दुमाणसु, wretched man.

10. 4b The line should be rather read: संबंधुसु वेरिसु णिच्चसमाणु, always equanimous towards his relatives and towards his enemies.

XLIV

3. 8a परमारिसरिसहणवजायउ, born in the race (अणव अन्वय=वंश) of रिसह, the first तीर्थंकर who was परमारिस, परमर्षि, the great sage.

6. 11 परिमाणु here stands for परमाणु, atoms. All atoms or as many atoms as exist in the universe, were used to make up the body of the lord सुपार्श्व.

7. 5a उडुपलट्टउ, the falling of stars or meteors, which indicated the fickleness of संसार.

9. 5b जलहिमाणि किं आणिज्जइ घडु. Can we use or bring an earthen jar to measure (the waters of) the ocean ?

XLV

1. 17b वयणणवुप्पलमालइ, by means of a wreath of fresh lotus flowers, namely, my poetic composition (वयण, वचन).

2. 16b कलहोयमइयाउ, made of gold (कलघौत).

3. 12a-b त्ररवेँ दिस हम्मइ, the quarters (दिस, दिशा) were being beaten, i. e., filled, with the sound of trumpets (त्र, तूर्य); कण्णि वि पडिउ ण सुम्मई, even if a sound reaches our ears, it is not heard or understood owing to deep sound of trumpets.

6. 9b सरसेणा, army of सर (स्मर), god of love.

13. 13-14. The meaning of the lines is: पद्मप्रभ was born in the वैजयन्त heaven, and had a white complexion (सियंयु) and very bright lustre. On seeing this lustre of पद्मप्रभ, the wife or wives of पुष्पदन्त, i. e., of चन्द्र and सूर्य, felt that their lustre was nothing before his lustre and thus became blackened.

XLVI

5. 9b सासेहिं व चासपइण्णएहिं, like crops (चास, सस्य) sown in series of plough share marks (चास). चास is a deśī word meaning a line drawn by the ploughshare (हलविदारित भूमिरेखा) and is still preserved in Marathi in the form of तास.

6. 12 जिणतणुहि कंतिइ पयडु ण हौतउ, the milk which was used for bathing the जिन, could not be distinguished as its colour was identical with the complexion of the जिन; an instance of मीलितालंकार.

11. 5a बलदेवहं अमाइ देहि तिण्णि, put the figure 3 after 9; बलदेवs are nine. The whole passage gives the figure 93 which is the number of गणधरs of चन्द्रप्रभ. 10-11. These lines mention the eight प्रातिहार्यs such as

पिंडीट्टम, i. e., अशोकवृक्ष. The position of these प्रातिहार्यs in the middle of the list of the followers of चन्द्रप्रभ is unusual.

XLVII

4. 3a वच्छु जहिं रोसहुं, he avoids places where there is the tree (वच्छ, वृक्ष) of anger. The variant in P, 'वासु' is clearly an easier substitute for वच्छु.

6. 9a-b The child, looking at its mother and also at her reflected image, was confounded and felt it had two mothers (दोमायउं द्वैमातृकम्) and so was unable to decide which was his real mother.

XLVIII

1. 19 गुणभद्रगुणीहिं जे संथुउ, he i. e., the tenth तीर्थंकर who is glorified by the revered sage गुणभद्र. We know that गुणभद्र is the pupil of जिनसेन the author of the Sanskrit आदिपुराण. जिनसेन's work was continued after his death by गुणभद्र, which is called the उत्तरपुराण. The expression गुणभद्रगुणीहिं may also be interpreted "by pious monks possessing auspicious qualities."

4. 14 तं पट्टणु कंचणु षडिउं, that city was made or built of gold. कंचणु stands for काञ्चनं, i. e., काञ्चनमयम्. AP read कंचणुषडिउं as the copyists did not understand the meaning above of कंचणु.

9. 1 a-b तं सहं etc. The line means: Even though the water used for the bath of शीतलनाथ flowed in a downward direction, it led the pious people in the upward direction, i. e., to heaven.

10. 5b उताणाणणु गव्वेण जाइ, a man, out of pride, goes or walks with his face or head up or erect. A proud man walks with his head stiff and erect.

13. 1b संभरइ विरुद्धउ जिणचरित्तु, the gods brought to their minds the (apparent) contradictions in the life of the जिन. In the following lines we get a reference to these contradictions. For instance, the जिन is called गोपाल (cowherd boy, lord of the earth) and is very terrific to his own enemies (णियारिचंडु).

7. 1a मेहसोसु is another name of king विष्णु. 12-13. These lines give the interval between the निर्वाण of शीतल and the birth of भ्रैयांस; it is

16625999 सागरोपमस. Jainism was totally eclipsed for a पत्योपमार्ध. After this भ्रयांस was born.

18. 5a-b He who makes gifts of cows etc, goes to विष्णुलोक in golden विमानस, and enjoys (माणइ) heavenly pleasures. 11. सुज्झइ पिंपलफंसणिण, is purified by touching the पिप्पलवृक्ष.

20. 14 सइ विरइवि कब्बु, मुण्डसालायण himself composed some verses glorifying the gifts of cow etc. and brought them to the king. The king felt that these verses were as authentic as the Vedas.

IL

1. 15 किति वियंभउ महुं जगगेहि, may my fame spread over the house of the whole world. The poet is conscious of his poetic powers which, as he says, would bring him a world-wide name.

3. 3b गुणदेवहं भवदेवहं ईसरु, the अनन्तजिन is said to be the lord of गणधरस and also of gods by birth such as इन्द्र etc.

5. 9 ता णज्झइ etc. Owing to the shower of gold in the city it was very difficult for people to distinguish the night from the day. The people therefore called that time to be the daytime when lotuses in ponds bloomed.

L.

This samdhi and the two following narrate the story of the first वासुदेव (त्रिपृष्ठ), first बलदेव (विजय) and first प्रतिवासुदेव (अश्वग्रीव) of the Jain Mythology. In order that the reader should understand the background of the friendship between त्रिपृष्ठ and विजय, and the enmity between त्रिपृष्ठ and अश्वग्रीव, the poet gives us the narrative of the two previous lives of all these three.

1. 5a गौउल्लपयधाराधायपहिइ, where travellers were made to drink to their satisfaction (धाय) the streams of milk of cows. 11a जइणी i. e., जैनी which is a proper name here. 15 खलमित्तसणेहु, friendship with a wicked friend which lasts only for a short time.

2. 5a णिगेसह ण वाय, words will not come out. The root णिग here and in 7b below corresponds to निघर्णे in Marathi and may be traced to निर्+गम् or गा.

3. 5b तरइ swims. The root तर् to swim is preserved in Marathi in this sense. There is another root तर् in Prakrit which means to be able (शक्).

4. 1b वणुस्साहिलासं should have been वणस्साहिलासं, the desire to have the garden. वणुस्स is found in all the Mss. and hence retained. Or, are we to take वण+उस्स (उत्सुक) + अहिलासं, keen desire for the garden? 12b तायाउ आराहणिज्जो, to be respected after (the death of) my father. You deserve the same respect as my father.

5. 13 दुग्गु भणेवि, saying or thinking that the stone pillar was like a fortress (दुग्ग). वहरिउ i. e. विशाखनन्दी.

8. 6a छइउ (छादितः) defeated.

9. 10 तुज्जु हसियहु करमि समाणउं, I shall equalize, i. e., repay your laugh which ridicules me and insults me.

10. 8b अवरु i. e., विशाखनन्दी.

LI.

1. 6a जायासीधणुतणु, They both (विजय and त्रिपुष्ट) grew to the height of 80 bows. 9b बिहिं पक्खहिं णं पुण्णिमवासरु, like the day of the full moon which had on one side the bright half and on the other side the dark half, corresponding to विजय बलदेव who is white and त्रिपुष्ट वासुदेव who is dark in complexion.

2. 11a-b हलहरु, दामोयरु. Please note that बलदेवस and वासुदेवस will all be referred to by their various synonyms such as सीरि, हली, लंगलहर, सीराउह etc. for बलदेव, and दामोदर, माधव, श्रीवत्स, अनन्त, सिरिरमणीस, लच्छीवह, (लक्ष्मीपति) दानवारि, दानववैरिन्, विट्टरसव, विस्ससेण, etc. for वासुदेव; similarly अश्वश्रीव is mentioned under हयग्गीव, हयकंठ, तुरंगगल etc.

5. 4b पृयवयणहिं, note ऋ in पृय which has come in for प्रिय probably by extending the application of हेमचन्द्र's rule: अभूतोऽपि क्वचित्, iv. 399.

6. 13 जसु जसु, यस्य यशः whose fame.

7. 8b मृगवह्यहि जादं, by the son of मृगावती, i. e., by त्रिपृष्ठ. 9a संचालेवी, the potential passive participle. Compare also पालेवी जणेवी, परिणेवी etc. हेमचन्द्र under iv. 438 however gives एवा as substitute for तव्य in अपभ्रंश and does not mention एवी.

9. 13-14 गियजणणविहण्णु etc. The lines mean that अर्ककीर्ति understanding the signs of the brows from his father prostrated before king प्रजापति and thus saluted him.

10. 1a हरिबलेहिं, by हरि i. e., त्रिपृष्ठ, and by बल i. e., विजय. ससुरउ (श्वशुरः) the (would-be) father-in-law of त्रिपृष्ठ.

11. 12-13 पुणु भणुउ etc. They again said to अणत (त्रिपृष्ठ): “ Let us see; lift up the slab of stone, and show to us whether you would be the killer (कयंतु, कृतान्तः) of ह्यकंट (अश्वघ्रीव) or no.

15. 14 अह सो सामण्णु भणहुं ण जाइ, now he cannot be called an ordinary man (सामण्ण, सामान्य).

·LII.

1. 2 चिरभववहरवसु, under the influence of enmity of the previous birth, when both of them were विश्वनन्दि and विशाखनन्दि. 4 तिखंडखोणिपरमेसरु, the lord of the earth with three continents, i. e., an अर्धचक्रवर्ती. अश्वघ्रीव was the अर्धचक्रवर्ती before त्रिपृष्ठ.

5. 4b विजाहरभूयरभूमिणाहु, the lord of the विद्याधरभूमि and भूचरभूमि, i. e. the अर्धचक्रवर्ती, अश्वघ्रीव.

7. 3a मा रसउ काउ चप्पिवि क्वाउ, a crow sitting on the head of a person and crowing is considered to be an indication of approaching death.

8. 2 कसय etc, why do you require a mirror to see a golden bracelet which is put on your hand ? A famous लोकोक्ति. 5a भरहु लुगिगि, from the days of king भरत, the first चक्रवर्तिन्. 11 णु बोळंतहुं चंगउं, the talk of fight is pleasant. Compare युद्धस्य कथा रम्या.

9. किंकर णिहणंतहं णसिय छाय, there is no charm or pleasure in killing the servants. अश्वघ्रीव was glad to fight with त्रिपृष्ठ as he thought that there was no pleasure in fighting with the inferior or low people. 15 सारंगु is interpreted as बलवत् in T. but it appears that त्रिपृष्ठ, being a वासुदेव, should have a bow made of a horn. विष्णु is called शार्ङ्गधर in Hindu Mythology. The

other emblems of विष्णु in Hindu Mythology such as पाञ्चजन्य, कौस्तुभमणि, अंसि, कौमोदकी गदा, गरुडध्वज and लक्ष्मी, are also mentioned as emblems of वासुदेव in Jain Mythology and hence I think that सारंगु धणु should also mean शार्ङ्ग धनुः.

10. 4 *a-b* This line mentions the weapons of बलदेव; they are: लाङ्गल, a plough, मुसल, a pestle, and गदा called चन्द्रिमा.

11. 2 खगाहिवो i. e. गरुड, eagle, who is the emblem on the banner of वासुदेव or विष्णु. 8a णिच्चिच्चुं चें, thick and high. This expression, according to T seems to come from निस् and उच्च. It is likely that it can also come from नित्य, निच्च and उच्च+उच्च of which the second उच्च becomes उंच. The meaning would be "hair standing on end (रोमंच) which remain for ever high.

12. 8a-b भद्दु. etc. A warrior says : Even if my head falls, my trunk would kill the enemy and dance.

15. 2 कण्णाहरणकरणरणलग्गहं, the armies that were engaged in a fight which was due to the giving away in marriage of the girl स्वयंप्रभा. 12-13 These two lines compare the two armies to loving couples, मिहुणहं, मिथुनानि, engaged in love-sport.

16. 2 सिरिहरिमस्सु, who is mentioned above in LI. 16. 9 *b*, as the minister of king प्रजापति. 25 माहवबलवहणा, i. e., by हरिमस्सु.

17. 14b णं अट्टमउ चंदु, the moon in the eight place in the horoscope indicates death. For a different view see मृच्छकटिक VI. 9:

कस्सट्टमो दिणअरो कस्स चउत्थो अ वट्टए चंदो ।

where the moon in the fourth place is said to indicate death.

19. 3b णीलंजणपहदेवीसुएण, i. e., by अश्वग्रीव.

20. 21b भीमुहउज्झित्त, free from fear.

21. 14b सिवकामिणीइ, by beloved, viz., the female jackal (शिवा). 16 मोल्लवणु, price or return.

24. 15b कुलालचक्रु, the wheel of the potter. When the discus of अश्वग्रीव did no harm to त्रिपुष्ट and remained on his hand, अश्वग्रीव said that it was like a wheel of the potter, quite useless in warfare, although त्रिपुष्ट and his party valued it so much. अश्वग्रीव abuses त्रिपुष्ट by saying that a beggar may value a lump of oil-cake as a precious article of food, which would satisfy his hunger, but others do not think so.

25. 9 कामिणिकारणि कलहसमत्तो, engaged in fight or battle for the sake of a lady (स्वयंप्रभा).

LIII

5. 5b कजबंधवो सरम्मि दिण्णपोमिणीरई, the sun who is the friend of lotus flowers and gives delight to lotus-plants in the lake.

6. 8b तित्थणाहसंखम्मि रिक्खए, on a नक्षत्र which is twentyfourth, i. e. शतभिषा or शततारका.

8. 5a अण्णहु पासि ण सत्थविही कत्थइ सुणइ, he does not study the शास्त्रs with any teacher other than himself. The तीर्थेकर is self-enlightened and does not require a teacher.

13. 1a ससयभिसहइ, with the शतभिषानक्षत्र, i. e., शततारका नक्षत्र.

LIV

1. 14-15 The lines mean: If I (the poet) compare the face of गुणमञ्जरी to the moon, there will be no exhibition of my poetic powers, I would not be called a poet; for, the face of गुणमञ्जरी is not soiled or darkened by the deerspot as the disc of the moon is, nor is there reduction in size nor crookedness as it is in the moon.

3. 2 इहु कल्लोलणिवहु etc. The poet says that friendship between विन्ध्यशक्ति and सुषेण was so fast and intimate that it was impossible to draw any distinction between them; for who will be able to differentiate the ocean from a mass of waves? The तादात्म्य or identity between समुद्र and तरङ्ग is an accepted thing with philosophers.

8. 7b The birth of बलदेव and वासुदेव is heralded by the sun and the moon seen in dreams by their mothers.

8. 9b बीयउ उववादेविइ दढमुउ. The name of the mother of द्विपृष्ठवासुदेव is उववादेवी as given here. गुणभद्र however gives it as उषा. Compare.:

तस्यैवासौ सुषेणाख्योऽप्युषायामात्मजोऽजनि ।

द्विपृष्ठाख्यस्तनुस्तस्य चापसप्ततिसंमिता ॥ 58. 84.

9. 10b गलियंसुयइं सुहइहि णयणइं, I shall kill अचल and make his mother सुभद्रा shed tears.

12. 10-12 रायत्तणु etc. There is a pun on राय which means राजन् as well as राग.

17. 8a रासहु होइवि etc. तारक compares द्विपृष्ठ to an ass and himself to an elephant. 10a गोवाल्बाल, the son of a cowherd boy, is an epithet of

वासुदेव (कृष्ण), who, according to Hindu Mythology, lived and was brought up among the cowherds.

LV

3. 6b तहु गुण किं वण्णइ खंडकइ, how can खण्डकवि (पुष्पदन्त) describe his qualities ? खण्ड means broken, incomplete, which is one of the nick-names of पुष्पदन्त.

7. 8b पायभव, नाकभवा: i. e. gods. 16 गिंभें जित्तु सियाळउ, the season of summer (गिंभ, ग्रीष्म) defeated winter (सियाळ, शीतकाल). This was a निमित्त for विमलनाथ to realize the impermanence of the world.

LVI

1. 6a घणु सुरघणु जिह तिह थिर ण ठाइ, wealth, like the rainbow, does not remain perpetually with a person. 7a भायर णियभायहु अवयरंति, brothers misbehave (अवयरंति, अपचरन्ति) with their brother.

2. 8a-b चर etc. चर, गमण, छेज्ज and कड्डण are different types of the play of dice which are a means of attacking the opponent and taking charge of his possessions. 9b एकें उड्डिउ णियरज्जु ताम, one of them (सुकेतु) lost his kingdom. Note the use of उड्डिउ which word, in the form of उडवणें is preserved in modern Marathi.

6. 4a महुराउ भणहि महुघोट काइं, how can you call king मधु a mouthful of honey ? How can you speak of king मधु in such light terms ? 7a नीलणियासणेण, by धर्मबलदेव who wears blue clothes. बलदेव is a नीलाम्बर. Compare नीलाम्बरो रौहिणेयः कालाङ्को मुसली हली in अमरकोश.

7. 10a उविहुप्पणरोसु, उविहु+उप्पणरोसु, उपेन्द्र i. e. स्वयंभू (वासुदेव) got angry. 11a-b जइ लोहिउ etc. I swear by the feet of (my elder brother) धर्म, if I do not make the goblins drink the blood of king मधु. पायमि stand for पाययामि, make one drink, a causal form of पा to drink.

8. 1 वसुहासुउ, the son of वसुधा, i. e., स्वयंभू. The name of the mother of स्वयंभू is पृथिवी as we see from 4. 7b above; here the poet uses a synonym वसुधा for पृथिवी.

9. 4b, 6b सुंदरिहि तणुएण i. e. by मधु. 5a-b-6a विउसयणकयवयणविणुएण, by king मधु who was glorified in compositions or poems (वयण, वचन) composed by a body of learned men (विउसयण, विद्वज्जन). 36 महुमहसुकें चकें, by the discus

discharged by the enemy of मधु. महुमह or मधुमथन is one of the names of विष्णु in Hindu Mythology.

LVII

This samdhi gives the narratives of three persons, संजयन्त, मेरु and मन्दर with their several past lives. Of these मेरु and मन्दर are the two prominent गणधर of विमल. The table given below records chronologically the different previous births of persons mentioned in the narratives:—

(a) संजयन्त—(१) सिंहसेन; (२) अशनिघोष हस्ती; (३) श्रीधरदेव; (४) रश्मिवेग; (५) अर्कप्रभ; (६) वज्रायुध; (७) सर्वार्थसिद्धि अहमिन्द्र; and (८) संजयन्त. It is in this birth that he attained emancipation.

(b) मेरु—(१) मधुरा; (२) रामदत्ता; (३) भास्करदेव; (४) श्रीधरा in देवलोक; (५) रत्नमाला in the अच्युतस्वर्ग; (६) वीतभय; (७) आदित्यप्रभ; and (८) मेरु who is the गणधर of विमल.

(c) मन्दर—(१) वारुणी; (२) पूर्णचन्द्र; (३) वैङ्कर्यदेव; (४) यशोधरा; (५) रुचकप्रभ in कापिष्ठस्वर्ग; (६) रत्नायुध; (७) विभीषण; (८) द्वितीय नारकी; (९) श्रीधामा; (१०) ब्रह्मस्वर्गस्थित देव; (११) जयन्तधरणेन्द्र; and (१२) मन्दर who is the गणधर of विमल.

There are two other prominent persons mentioned in the narrative; they are: (1) सत्यघोष or श्रीभूति, the minister of सिंहसेन who became अगन्धनसर्प, चमरमृग, कुक्कुटसर्प, तृतीय नारक, अजगर, चतुर्थनारक, त्रसादिभव, सप्तमनारक, सर्प, नारकी, मृगशृङ्ग and विद्युद्दंष्ट्र; (2) भद्रमित्र the merchant who became सिंहचन्द्र, प्रीतिकर देव and चक्रायुध.

1. 5b चिज्जह comes from चि to pluck, to collect, and then eat. The T gives भक्ष्यते which is only a secondary sense of the root.

6. 10 देवदिवायराहु, of god आदित्यप्रभ who in subsequent birth became मेरु.

9. 11a विष्णि वि एयद्, i. e., यज्ञोपवीत as well as मुद्रिका.

14. 1a णावह वारुणि, like wine.

15. 6a तूलिहि, on a mattress made of cotton (तूल).

18. 4b कम्मरउ, a labourer.

LVIII

9. 1a पुणु तहु कइ etc. The line means: Now for the sake of अनन्त (तहु कइ, तस्य कृते) the royalty (राज्यश्री) suffered pangs of love; she fainted

(but was brought round (सञ्चयेण कय) by fanning) by means of chowries.

11. 8b मिहिरमहाहिय, superior in lustre (मह, महस्) to the sun(मिहिर).

13. 12a अमवासाणिसियहि, on the night of अमावास्या. Both गुणभद्र and पुष्पदन्त do not mention the month which is चैत्र. Probably we are to borrow the name of the month from 11.1a.

16. 9b महसूयणु i. e. मधुसूदन the Mss use promiscuously महसूयणु and महसूयणु. In Hindu mythology मधुसूदन is the name of विष्णु. Are we to take मखसूदन to be the name, which is confounded with मधुसूदन ?

21. Note the दामयमक or शृंखलायमक throughout the कडवक.

22. 5b रहचरणु i. e. चक्र, the discus. 13a सरसलिलि रहंगसयाइं अत्थि, there are hundreds of रयाङ्गस, i. e., चक्रवाक birds in lakes but can they catch a maddened elephant ?

LIX

4. 7 सिविणय देतु सुहुं, giving delight to men who were modest or humble though rich. Note that the word सिविणय has no case-ending of the Genitive. See हेमचन्द्र iv. 345.

6. 3a पूसरिक्खि छणससिदिवसि, there is no mention of the name of the month here. Elsewhere, i. g. in गुणभद्र, the month of माघ is mentioned, but we cannot have पुष्यनक्षत्र on the full-moon day of माघ. The month therefore must be पौष. Is the confusion due to the difference in the method of naming the months in the northern and southern India ?

14. 1a सयडंगु (शकटाङ्ग), the wheel, i. e., discus, the weapon of a चक्रवर्तिन्.

19. 10 विसरिसजलझलज्झलं, the dripping of dirty rainwater.

LX

2. 5b जहि मणियरहि ण दिडु पयंगउ, where the sun (पयंगउ, पतङ्गः) could not be seen because of the rays of gems. The gems were so numerous and vast that their rays even eclipsed the sun.

3. 5b कोडिसिलासंचालणववल्हु, the line refers to the exploit of त्रिष्टु the first वासुदेव who lifted up the कोटिशिला. See LI. above.

4. 13b पाहुडगमणागमणपवाहे, by a series of gifts passing or exchanged between विजयभद्र and अमिततेजस्. 14 णिमित्तु, नैमित्तिक; an astrologer.

5. 9b हउं पव्वइउ समउं हलीसहु, when हलीस, i. e., विजय बलदेव renounced the world, I (the Brahmin astrologer says) also became a monk with him.

6. 11a मामसमण्डि, given by my father-in-law (माम). Even in modern Marathi the father-in-law is called मामा.

8. 2a अमोहजीहु, the name of the astrologer. 7b जेणुवरसि by which you will survive the calamity.

11. 3b णिवद्धणाइं, the AP reading णिबंधणाइं is easier. The meaning of the expression is ' binding tissues. 9b वारउ turn. The word वार, meaning a turn, is preserved in Marathi.

18. 5a हरिसुउ, i. e., श्रीविजय the son of त्रिपृष्ठवासुदेव.

29. 10b समयसमियकलि, समतया स्वमतेन वा शामितः कलिः येन, who, by his equanimity or preaching, settled the quarrels of people.

LXI

1. 9a-28b These lines give the list of विद्याs acquired by अमिततेजस्.

12. 6a दिङ्गिदिलि, हे बाले. दिङ्गिदिलिअ is a deśi word meaning a boy & दिङ्गिदिलिआ a girl. See देशीनाममाला V. 40.

15. 13 आउंचियारिपसरु, who stopped the progress of his enemies.

21. 11 धणवाहणहु, i. e., मेघरथस्य.

LXII

2. 2a गरुडेण वि जिण्णइ एहु ण वि, this cock cannot be defeated even by an eagle.

5. 10b जाउडयजडिलमंडियथणिहि, whose breasts were decked by a thick paste of saffron.

7. 9a to 10. 2b We have here a description of the whole earth with its continents as seen from the sky.

17. 12b पक्षे (पक्षिणा), by the bird. Are we to have the word as पक्षि which would be the form of the Instrumental sing ?

LXIII

2. 7a एरादेवि, elsewhere the name of the mother of शान्ति is given as अहरा as for instance in 1. 16 and 11. 2b.

5. 5-6 These lines give the list of 14 gems which, as a चक्रवर्तिन्, शान्तिनाथ possessed.

11. 1-7 These lines give the previous births of शान्तिनाथ and चक्रायुध. शान्ति had in all twelve, viz., श्रीषेण, कुस्नरदेव, विद्याधर, देव, बलदेव, देव, वज्रायुध-चक्रवर्तिन्, देव, मेघरथ, सर्वार्थसिद्धिदेव, शान्ति; चक्रायुध also had the following: अग्निन्दिता, कुस्नर, विमलप्रभदेव, श्रीविजय, देव, अनन्तवीर्य वासुदेव, नारक, मेघनाद, प्रतीन्द्र, सहस्रायुध, अहमिन्द्र, ददरथ (मेघरथभ्राता), सर्वार्थसिद्धिदेव, चक्रायुध.

LXIV

1. 7b जो ण करइ करि कत्तिय कवाडु, (कुंथु or a तीर्थकर) who does not hold in his hand human skull (कपाल) and (tiger's) skin (कृत्ति) as god शिव does. The तीर्थकर is thus far superior to god शिव.

2. 8b वयविहिअजोगु दिण्णु बि ण लेह, while begging alms he does not accept things which, for his vows (व्रतविधि) he cannot accept.

8. 1b गियजम्ममासपक्खंतरालि, on the same day, month and fortnight on which he was born, i. e. on the first day of the bright half of वैशाख. 2b कित्तियणक्खत्तासिह ससंकि, when the moon was in conjunction with the नक्षत्र mentioned (कीर्तित) or कृत्तिका.

LXV

3. 4b पट्टणु रयणकिरणअहसइयउ, the town that excelled in brightness or was extremely bright owing to the rays of gems.

4. 9b-10b वरिसकोडि सहसेण विहीणइ...पल्लचउत्थभायपरिमाणइ, when after the निर्वाण of कुन्थु onefourth of the पल्लोपम minus one thousand crores of years passed.

5. 5b दहदहधणुतणु, with his body twenty शरासनस in height. गुणमद्र however mentions thirty शरासनस as the height of अर. Compare: त्रिशच्चापतनूत्सेधः चारुचामीकरच्छविः—65. 26. Which seems to be more probable.

9. 1-8 Note the play on the term भर or अरु here.

11. 8a णिउ जिणवररिस्सि सोत्तिउ तावसु, the king became a Jain monk, while the Brahmin became a तापस ascetic, i. e., an ascetic following the teaching of the Vedic religion, particularly the teaching of devotion to god शिव.

12. 6-7 णच्चइ देउ etc. These lines give the characteristic behaviour of god शिव, who performs a ताण्डवनृत्य, sings, has a woman or women (पार्वती and गङ्गा), beats the डमरु, burns त्रिपुर, and kills demons. The Jain monk says that such a godhead will not save one from संसार.

13. 6b तावसमासुरवासि रसंति, the pair of sparrows, having formed their nest in the beard of the ascetic, used to warble.

16. 1-2 These lines give the origin of the name कण्णाकुञ्जणयरु, the city of कान्यकुब्ज, because the girls in which, having refused to marry the sage, became dwarfish owing to his curse.

24. 1b खत्तिव सयलु वि झारु परत्तिवि, having burnt to ashes all the क्षत्रियस. परत्तिवि comes from परत्त a deśī root which is preserved in modern Marathi as परतणें.

LXVI

1. 9a विहवत्तणदुक्खोहरियञ्जाय, whose beauty or spirit was soiled by sufferings of widowhood (विहवत्तण, विधवास्व). 10b पर ताउ ण पिच्छमि, but I do not see or know my father (सहस्रबाहु).

5. 5b कोसलं पुरं, i. e., साकेत which is the capital of the कोसल country.

6. 3a परमेसरु, i. e. दुग्धौम, who was destined to be a चक्रवर्तिन् later. 10b एउ जि, this very earthen plate filled with the teeth of his father (सहस्रबाहु), which turned into a discus (चक्र).

10. 10a सम्भंतरि (श्वभ्रान्तरे), in a ditch, i. e., in a hell.

LXVII

4. 6a हिरण्यगन्धो, i. e., a जिन. The term हिरण्यगर्भ is used to designate god ब्रह्मा in Hindu Mythology, but in Jain Mythology it is used to denote a तीर्थंकर.

9. 1a दिणि छके विच्छिण्णए, six days after his दीक्षा, i. e., on पौष कृष्ण द्वितीया, महर्षि attained केवलज्ञान. गुणभद्र also gives this date exactly in the same form. Compare: दिने षट्के गते तस्य छाद्मस्ये प्राक्तने वने-66.51.

13. 11a पिसुणमहंतो, i. e., the minister named पिसुण, who gave a wrong report about राम and विराम to their father वीर, was born as बलि the अर्धचक्रवर्तिन् and a प्रतिवासुदेव.

14. 4b वाणारासि, i. e., वाराणसी; the lengthening of the third syllable is due to metre.

LXVIII

2. 13 पयडहं जायहं कालहु चिधहं, the signs of (coming) death or fall from heaven became manifest.

9. 3b गंधियकुंगयबंधणवहित्थि, (अनन्ततीर्थ or teaching of अनन्तजिन) which kept off or made ineffective the systems of heretic schools.

LXIX

1. 2 हरिहलहरगुणथोत्तु जं जायउं रामायणु. The रामायण is the glorification of the virtues or qualities of हरि (वासुदेव) and हलधर (बलदेव). 4a णिब्वाहमि भरहब्भत्थियउं, I (Poet) want to carry out the wishes of भरत, my patron. 6a सामग्गि ण एक वि अत्थि महुं, I possess no material or facilities for undertaking the task of composing a रामायण. 6b किर कवण लीह चिरकहहिं सहुं, how can I compete with older poets ? 7a कहराउ सयंभु, the great poet स्वयंभू who wrote on the theme of रामायण had the help of a thousand friends. 8a चउमुहहु, the great poet चतुर्मुख स्वयंभू, as his name implies, had four mouths. 9a महु एकु तं पि मुहुं खंडियउं, the poet पुष्पदन्त says that he has only one mouth as against four of चतुर्मुख, and that even this mouth is broken (खण्डित). Elsewhere पुष्पदन्त calls himself to be खण्ड or खण्डकवि, and mentions that his face or mouth was वक्र. 13 सुकइपयासियमग्गि, on the path brightened by great poets like स्वयंभू and चतुर्मुख; or on the path, i. e., सेतु, built or manifested by the good monkey, i. e. हनुमान्.

3. 3-10. These lines record some strange notions or superstitious beliefs about persons figuring in the रामायण. King श्रेणिक asks गौतम इन्द्रभूति to explain to him the truth about them. They are: (1) रावण (दशमुख) has ten mouths or faces; (2) his son इन्द्रजित् was older in age than his father, or, in other words, इन्द्रजित्, though a son of रावण, was born before him; (3) रावण was a demon and not a human being; (4) he had twenty eyes and twenty hands and that he worshipped god शिव with his heads; (5) रावण

was killed by the arrows of राम; (6) the arms of श्रीरमण, i. e., लक्ष्मण, were long and unbending (थिर); (7) सुग्रीव and others were monkeys and not human beings; (8) विभीषण is still living or is a चिरंजीविन्; (9) कुम्भकर्ण sleeps for six months and feels satiated only by eating one thousand buffalos. Those that are conversant with the Hindu version of the रामायण will see that except No. 2, all other beliefs have some sort of support in the various versions of Hindu रामायण. About No. 2 I have not come across any support for it. But before we proceed further we have to note a basic difference in the conception of personalities of राम and लक्ष्मण with the Hindus and the Jainas. राम, according to Hindu version and the Jain version is the elder of the two sons, राम and लक्ष्मण, of दशरथ; but राम who is the eighth बलदेव of the Jainas, has white complexion as against the dark complexion according to Hindus. On the other hand, लक्ष्मण who is the eighth वासुदेव of the Jainas, has dark complexion as against white complexion according to Hindus. Besides लक्ष्मण, being a वासुदेव with the Jainas, kills रावण who is a प्रतिवासुदेव with them. Other differences in the two versions will be noted as we proceed. 11a-b All Jain versions known to us say, as here, that व्यास and वाल्मीकि are responsible for creating wrong notions about the personalities of रामायण. It is clear from this statement that Jain poets, one and all, who tried their hands on the story of रामायण, have been acquainted with the versions of व्यास and वाल्मीकि, and think that they gave an altogether new interpretation of the lives of राम and लक्ष्मण.

4. 2-13 These lines mention the तृतीयभव of राम and लक्ष्मण. In the city of रत्नपुर in the मल्लदेश, there was a king named प्रजापति. His queen, कान्ता by name, gave birth to a son who was called चन्द्रचूल (who is destined to be लक्ष्मण subsequently). विजय, the son of the king's minister, was a friend of चन्द्रचूल.

5. 5b कलहस्स ण चारुकरिणीइ, like a young elephant (कलह, कलभ) born of a beautiful she-elephant. A merchant named गोत्तम had a son, श्रीदत्त by name, by his wife वैश्रवणा. This श्रीदत्त was married to कुबेरदत्ता, daughter of कुबेर. 10b ती सण्णिहा का कुबेराइदत्ताइ what lady (ती, स्त्री) is comparable (सण्णिहा, संनिभा) to कुबेरदत्ता in beauty? चन्द्रचूल carried off this कुबेरदत्ता by force.

8. 4a सिमु चवंति गहिर, the two boys, चन्द्रचूल and विजय said in deep voice, i. e., full of repentance. These two were destined to be लक्ष्मण and राम in their third subsequent birth.

9. 9a अहरहसे, rashly, in haste.

10. 4b बालरिसि, the young monks चन्द्रचूल and विजय. Of these चन्द्रचूल formed a निदान on seeing सुप्रभवलदेव and पुरुषोत्तम वासुदेव to enjoy prowess similar to theirs. 9-10 विजय was born in the सनकुमार heaven and was called सुवर्णचूल, and चन्द्रचूल was born in the कमलप्रभ बिमान and was named मणिचूल.

11. 11 कुवलयबंधु वि णाहु णउ दोसायर जायउ, although king दशरथ (णाहु) was a friend (बन्धु) to the whole earth, he was not a seat or soucre (आयर, आकर) of faults (दोस, दोष) like the moon who is a friend of night lotuses (कुवलय) and is the maker of night (दोषा).

12. Note that राम (in former births विजय and सुवर्णचूल) is the son of king दशरथ of बाराणसी (and not अयोध्या) by his queen सुबला (and not of कौसल्या) and that the day of his birth is फाल्गुनकृष्णत्रयोदशी, मघा नक्षत्र (and not चैत्र-शुक्ल नवमी); and that लक्ष्मण (in former birth चन्द्रचूल and मणिचूल) is the son of कैकेयी (and not of सुमित्रा) and is born on माघ शुक्ल प्रतिपद, विशाखाक्षत्र. It is only subsequently that king दशरथ went over to अयोध्या as mentioned in 14. 6b below.

16. 1a जं जुंजिचि सगहु सयर गउ, king सगर went to heaven by performing a sacrifice. According to Jain version of the story of सगर there is no mention of this sacrifice. 5b सिसु i. e. राम.

20. 10 पिंगलु, i. e., मधुपिङ्गल, the son of तृणपिङ्गल and अतिथीदेवी. In 22. 3b he is called पिंगदिट्टि.

28. 10a णारउ अय जव तिवरिस चवह, नारद says that अज means the जव (यव) corn three years old. This is the famous explanation of अज (goat) according to Jinas.

33. 8-9 These lines mention गोस्पर्श, पिप्पलस्पर्श etc., as meritorious acts according to superstitious beliefs; but the poet says that if they secure merit, a bull who touches the body of the cow and the crow that sits on the पिप्पल tree would be gods.

LXX

1. 11a-b ए अङ्गम, these two sons of yours are the eighth बलदेव and वासुदेव, as I heard in the पुराणस and will occupy a place among the शलाकापुरुषस.

2. This कडवक and the two following give the history of the past life of रावण. There was in the city of नागपुर a king called नरदेव. He renounced the world and practised penance. On seeing a ब्रह्मधर he formed a

निदान that he should have the fortune similar to that विद्याधर. He was then born as a god in the सौधर्मे heaven. King सहस्रग्रीव of the city of विद्याधर, got somehow displeased with his relatives, quarrelled with them and shifted to त्रिकूटगिरि. There he built the city of लङ्का. After him came शतग्रीव and पञ्चाशद्ग्रीव. His son was पुलस्ति whose wife मेघलक्ष्मी gave birth to दशग्रीव. He married मन्दोदरी, the daughter of मय.

6. 7a-b The line means that मणिवती got disturbed in her meditation on the बीजाक्षरमन्त्र, and thought that दशग्रीव, though a विद्याधर, had characteristics (चिध, चिह्न) of a demon. 8a-b मणिवती formed a निदान that he should be her father in her next birth, carry her off in the forest and die on her account. This मणिवती becomes सीता in her next birth.

8. 1b तैं होंतैं होसइ अवर धूय, if दशग्रीव is alive, you (मन्दोदरी) will have another daughter. मारीच asked मन्दोदरी to abandon सीता as she was destined to bring calamity on the family.

9. 11 रामणरामइं णाइं कलि, a source of quarrel between रावण and राम.

12. 3a समुरणयरु, i. e., मिथिला, the city of राम's father-in-law.

13. 9a अवरउ सत्त कणाउ, Over and above सीता, राम was married to seven other girls. 10a लक्ष्मण was married to sixteen girls. Note that राम in the Jain mythology has eight wives and not one.

16. 6b जाणेवा (ज्ञातव्याः). For this form see हेमचन्द्र iv. 438.

LXXI

1, 1 कहिं तं भंडणु एम भणंतु जि संचरइ, नारद, wanders over the earth finding out places where there is, or has a chance of, a quarrel. This characteristic of नारद is well-known to Hindu Mythology. Here he is approaching रावण to start the quarrel.

2. 6b पर पइं जिणिवि एकु जसु ईइइ, but one, i. e., राम, desires to obtain fame by conquering you.

5. 6a सेकसिहरसंचालणचंडहिं, with my arms, terrific in shaking the mountain peaks. This is a reference to the belief that रावण shook the कैलास mountain with his arms.

6-10. These कडवकs refer to the description of the characteristics of ladies as mentioned in कामसूत्र of वात्स्यायन.

11. 7a चंदणहि (चन्द्रनखी), otherwise known as शूर्पणखा.

15. 2a बउडु परिकखइ गियतणुगंधे, a lady compares the scent of बकुल flower to see if it is similar to the scent of her body. 11a संपहि एह वि बोळण-सीली, now in this spring, this (cuckoo) also has become talkative.

18. 2a कंचुइ होएप्पिणु, assuming the form of a कंचुकिन् or rather कञ्चुकिनी an old lady.

20. 1a विहवत्तणि पुणु सिरु मुडेव्वउं. It appears that Jainism recommends the shaving of the head by widows.

LXXII

1. 1 मुकदेसजइसंजमु, abandoning the restraint which a householder (देसजइ, देशयति, गृहस्थ) should practise, namely स्वदारसंतोष. रावण now starts in his पुष्पकविमान to carry off सीता against the rules of a Jain householder, for सीता is not his wife. He is not still aware of the fact that सीता is his own daughter. 19 दिट्टउ तेथु etc. रावण saw there the forest and also one more thing, viz., the bloom of youth of सीता. The next कडवक compares these two in similar terms.

4. A fine description of the movements of an antilop.

5. 5a कसणवाससोहियणियंबओ, who wore a blue or dark garment. बलदेव is called नीलाम्बर in Hindu as well as in Jain Mythology.

8. 11-12 These lines mean: If I ((रावण) touch this lady who is now helpless but chaste, the lore which enables me to move through the air (अम्बरचारिणी विद्या) will go away from me. रावण was unwilling to dally with the unwilling सीता, as in that case he would lose all the prowess he had.

12. 4-6 These lines mention that रावण became an अर्धचक्रिन् about the time of the arrival of सीता at लङ्का.

LXXIII

1. 3 एत्तहि etc. Three things occurred simultaneously, viz., राम followed the deer in the forest, सीता was carried off, and the attendants of सीता were filled with grief on her account.

2. 3b-6b It appears that the Jain society recommends the wearing of red-coloured saris for widows, breaking of bracelets, and not wearing ornaments like a necklace.

5. 9a According to the Jain version, दशरथ is still living when सीता was carried off by रावण. He saw a dream just at that moment that रोहिणी, the consort of the moon, was carried off by राहु, which dream indicated that a similar calamity had befallen राम.

6. 11a जणहणेण, by लक्ष्मण.

7. 4a बेणि खग, i. e., सुग्रीव and हनूमत् who were विद्याधर and not monkeys.

8. 6b हनूमत् is in Jain Mythology the 20th कामदेव and hence he is mentioned as मयरकेउ (मकरकेतु) and by its synonyms. Compare 25. 9b below.

10. 3a सेस लेवि, having taken the शेषा, i. e., flowers etc, offered to the deity. When a devotee visits a temple, he takes home with him some portion of the निर्माल्य or ashes or some article dedicated to the deity.

15. 2 पावणि, i. e., हनुमान्. 12 सुवण्णभिगारयहु खप्पर दिण्णउं ढंकणु, broken earthen plate is placed as a cover to close the mouth of a golden vessel. भिगार is भृङ्गार, known as झारी in Marathi.

22. 12a ओलक्खिय पयजुयलंछणेण, मन्दोदरी recognised सीता as her daughter by signs or marks on her feet.

24. 13b वाणरायारु, हनूमत् who was a विद्याधर, assumed the form of a monkey and stood before सीता. This explains, according to Jain Mythology, the reason for the belief that हनूमत् was a monkey.

26. 8b गूढं अहिणाणवयाइं देमि, I shall mention certain very confidential happenings between you and राम so that you will recognise me to have come from him. This अभिज्ञान is supplied in the following lines of this कडवक and a few lines of the next कडवक.

28. 10a-b णियकुल्लु वि etc. When fire burns its own race, i. e. trees or wood from which it is born, how can it forgive its enemy, i. e., water ? Water is heated by fire on this account.

29. 13b णं दहमुहरमणहु कोसपाणु, as if सीता swore that she would never dally with रावण. कोशपाणु is a शपथ or दिव्य, ordeal, which one solemnly undertakes. Compare गाथासप्तशती, 448, संज्ञासमए जलपूरिअंजलिं विहडिएक्कवामअरं, गोरीअ कोसपाणुज्जअं व पमहाहिवं णमह.

LXXIV

4. 16 जोत्तिउ दूयमरि पुणु सो जि धवळ, हनूमत् was again asked to go to लङ्का as a दूत, and the poet humourously compares him to a bull (धवळ) that is

yoked to a cart a second time. According to Hindu Mythology अङ्गद was the दूत of राम.

6. 4b तिणिण वि एयउ, i. e., श्रीः, सीता and वसुंधरा (पृथ्वी) as mentioned in 5. 11 above, and 13. 9b below.

8. 15 बलहयउच्छुषणु, God of love bears a bow made of sugar-cane.

15. 3b रत्तउ ह्यगीउ सयंपहहि, a reference to अश्वप्रीव the first प्रतिवासुदेव who made love to स्वयंप्रभा and was killed by त्रिपृष्ठ the first वासुदेव of the Jain Mythology.

16. 7a नील, one of the friends of सुग्रीव; b कुसुय, another friend of सुग्रीव. 9 and 10 mention कुन्द and नल who are allies of सुग्रीव.

LXXV

1. 8b णिकुंसु कुंसु, names of रावण's followers.

2. 9b महु समउं खगाहिउ एउ ताव, Let first बालि (खगाहिउ) come with me to लङ्का. 10b करिवर महामेहक्खु देउ, Let him give me the excellent elephant called महामेघ.

3. 7b अणउत्तु वि, even though it is not expressly said.

4. 1b एक्खु जि सिहि अणु जि वायवेउ, there is already one calamity, viz., fire, and to add to it there comes the gust of wind. 12 महं कुहइ, when I am angry.

6. 10b किलिकिलिपुरिंदु, the lord of the किलिकिलिपुर. i. e., बालि.

9. 2b एववु फुरणु, such valour or activity.

LXXVI

2. 6b अज्जु कलिं डुक्कइ, will reach this place (लङ्का) today or tomorrow. 8a विणविंसु, रावण was born in the विद्याधर race founded by विनमि (विणवि) who was the brother of नमि. See MP. Vol I, pp 121-137.

3. 5a वजावत्तसरासणहत्थहु, The name of the bow of राम is वज्रावर्त. 9a पंचयणु, the conch पाञ्चजन्य of वासुदेव, here of लक्ष्मण. 14 कुंभयणु महु बीयउ, रावण says to विभीषण that if विभीषण leaves him, he (रावण) will have कुम्भकर्ण to help him.

4. 5a तणुसीयइ, by a blade of grass one cleanses one's teeth. The form तणु for तृण is irregular.

6. 10a बाणरबिज्जइ बाणर होइवि, All विद्याधरस assumed the form of monkeys and then visited लङ्का.

9. 9a गमणें जासु होइ काली गइ, fire, the movements of which leave a black passage or smoke. अग्नि is often called धूमध्वज.

LXXVII

2. 8b चंदहासु, the sword of रावण. 14 अम्हइं बलवंतहं हरिबलहं तसहुं, we are afraid of हरि (लक्ष्मण) and बल (राम) who are very strong.

3. 13 विहुरि वि धीरु, रावण was full of courage (धीर) even in adversity (विहुरि, विधुरे सति, संकटकाले सति).

6. 1 भुवणुत्तुरडिगिवणे किं हुओ णिचोसो, Is there a noise of falling of worlds standing one upon the other ? There are several भुवनस which stand one upon the other and thus form an उत्तुरडि, उतरंड, as it is called in Marathi. 6b वइवसु, god of death (यम).

9. 5-17 A fine description of the dust raised by the fight.

13. 5a अग्निगिहसणसिहिजालउ, flames of fire produced from the clashing of swords. 13b सीसकें सहुं सिरु, head along with the crown or cap (शिरस्त्राण).

LXXVIII

1. 2 कण्हु, कृष्ण, i. e., लक्ष्मण who has a dark complexion. 15a-b विजय-पर्वन् and अञ्जनगिरि are the names of elephants of लक्ष्मण and राम. See also 3. 4b and 3. 11a below.

5. 11a-b पइं समुंडु etc. A warrior says to another warrior, " You have given your head (as capital) in paying the debt of your master, and are using your blood as interest on the capital."

8. 3a धरियलोह तेण जि ते गुणचुय, the arrows are धरियलोह, i. e., have an iron edge or have greed (लोह, लोभ) and therefore they are गुणचुय, discharged by bow-string (गुण) or are destitute of virtues (गुण).

9. 21 ओत्थरिउ, arrived on the scene.

10. 14 बोळिउं पालेसमि, I shall keep my word.

11. 3b सखारु, jarring words, words mixed with salt as it were. Compare क्षते क्षारनिक्षेपणम्.

13. 8b वीर पउम, राम who had a white complexion similar to that of a white lotus, is called पउम (पद्म) and पुराणसु describing his story are called पद्मचरित, पद्मपुराण etc.

14. 8a-b तह्हरजलि etc. The line records two popular sayings that in a small lake a crab is called a जलचर although the term means मकर, while in a place where there are no trees, एरण्ड becomes a big tree. Compare: निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते.

15. 1 बेणिण वि पीयंबास, Both रावण and लक्ष्मण wore yellow garments. In Hindu mythology कृष्ण is called पीताम्बर.

16. 6a वीसपाणि, i. e., रावण, although रावण according to Jain Mythology had only two arms, still he is called वीसपाणि owing to the influence of Hindu Mythology.

18. 1 महमहणभहासुहडे, on the great warrior who killed मधु. Note there are two प्रतिवासुदेवs, viz., मधु and मधुसूदन or महसूयण.

20. 14 भडभालविणिहयइं...भविचयव्वक्वरइं, writings about the future of warriors which were written on their forehead. 15 जाइवि (याचित्वा), having obtained by begging.

21. 7b अंगुलियउ भंजइ राहवि, cracking of fingers on some one indicates disrespect for him. बोटे मोडणे is found in modern Marathi. 13a कणावर इहु णाहु महारउ, this husband of mine has married me when I was quite young; so our love is unbroken, Compare : यः कौमारहरः स एव हि वरः.

23. 4a अजु सरासइ सत्यु ण सुयरइ, today the goddess of learning (सरस्वती) will not remember or recite the शास्त्र, owing to the death of रावण. रावण is known for his learning. In Hindu Mythology he is the son of a famous sage पुलस्त्य who is a Brahmin.

24. 3a णारउ णाउ आउ णासणविहि, It was not नारद who arrived (and induced your mind to carry off सीता), but it was your destiny bringing death upon you that had come. Note that रावण made up his mind to carry off सीता on the mischievous advice of नारद. 12a कुलिसु वि घुणेहिं विच्छिणउं, even hard adamant (वज्र) was bored by insects. Death of रावण from the hand of लक्ष्मण is as unexpected as the boring of वज्र by insects.

25. 1 दहसुहु तुहु, राम says to विभीषण that he should now take the place of दशमुख (रावण). 6b-12b These lines describe the removal of the dead body of रावण, on a palanquin decked by columns of plantain trees, with umbrella held over it.

29. 3b मेहिवि पउमु कासु सुयणत्तणु, who but राम is so noble ?

LXXIX

2. 11b सउणंदयासि, a sword called सौनन्दक because it was a gift from सौनन्दयक्ष. Of the seven gems which a वासुदेव as अर्धचक्रिन् possesses, sword is one and it is called सौनन्दक as the गदा is called कौमोदकी. According to Jain Mythology वासुदेवस and बलदेवस have seven and four marks respectively. They are given in the following verses :

असिः शंखो धनुश्चक्रं शक्तिर्दण्डो गदाभवत् ।
 रत्नानि सप्त चक्रेणै रक्षितानि मरुद्गणैः ॥
 रत्नमाला हलं भास्वद्रामस्य मुशलं गदा ।
 महारत्नानि चत्वारि बभूवुर्भाविनिर्भूतेः ॥

गुणभद्र—उत्तरपुराण—62. 148—149.

3. 8a तर्हि हौतउ गउ, he went from that place. Note the use of हौतउ with तर्हि rather than तहां. Compare हेमचन्द्र, iv. 355.

6. 10b को णारउ को सुरविमाणि, who will, in that case, be born in hell and who will be born in heaven? 12 जह खणि खणि जि खउ etc. This is the famous doctrine of क्षणिकत्व of the Buddhists. सइंबुद्धे, by self-enlightened Buddha.

9. 6-9 These lines tell us that राम had eight sons विजयराम and others, and लक्ष्मण had several, पृथ्वीचन्द्र and others, from his wife पृथिवी.

11. 4b लच्छीहरंगि, in the body of लक्ष्मीधर, i. e., लक्ष्मण.

LXXX.

3. 4a अप्पउ एक्कु etc. For detailed notes on this passage see Vol. I, pp. 628-632.

9. A fire description of the Rainy Season.

15. 12-13. For details of नवरस, छत्तीस बिट्टिउ and चउसडि कर see Vol. I, pp. 603 and 609.

16. 7b रण्ण व रविहि, the name of the wife of the sun is रण्ण or as. T says रनादेवी.

APPENDIX I
(Adapted from Mr. G. H. Khare's Mūrtivijñāna, pp. 202-5)

दिगम्बरजैनमतेन
तीर्थकरमूर्तिविज्ञानम् ।

१ क्रमाङ्कः	२ तीर्थकरनाम	३ वर्णः	४ लाञ्छनम्
१	ऋषभः	काञ्चनः	वृषभः
२	अजितः	काञ्चनः	हस्ती
३	संभबः	”	अश्वः
४	अभिनन्दनः	”	वानरः
५	सुमतिः	कुङ्कुमः	धर्मचक्रम्
६	पद्मप्रभः	”	कमलकलिका
७	सुपार्श्व	काञ्चनः	पञ्चफणः सर्पः
८	चन्द्रप्रभः	श्वेतः	चन्द्रः
९	सुविधिः (पुष्पदन्त)	”	कर्कटः
१०	शीतलः	काञ्चनः	धर्मचक्रम् (भीवृक्षः)
११	श्रेयांसः	”	हरिणः
१२	वासुपूज्यः	रक्तः	वृषभः
१३	विमलः	काञ्चनः	वराहः
१४	अनन्तः	”	ऋक्षः
१५	धर्मः	”	वज्रम्
१६	शान्तिः	”	कच्छपः
१७	कुन्धुः	”	अजः
१८	अरः	”	हरिणः
१९	मल्लिः	नीलः	घटः ;
२०	मुनिसुव्रतः	कृष्णः	कच्छपः
२१	नमिः	काञ्चनः	अशोकवृक्षः
२२	नेमिः	कृष्णः	शंखः
२३	पार्श्वः	नीलः	सप्तफणः सर्पः
२४	महावीरः	काञ्चनः	सिंहः

APPENDIX I (Contd.)
(Adapted from Mr. G. H. Khare's Mūrtivijñāna, pp. 202-5)

दिगम्बरजैनमतेन
तीर्थकरमूर्तिविज्ञानम् ।

५ यक्षः	६ वाहनम्	७ यक्षिणी	८ वाहनम्
गोमुखः	हस्ती	चक्रेश्वरी	गरुडः
महायक्षः	हस्ती	रोहिणी	गोधा
त्रिमुखः	मयूरः	प्रज्ञप्तिः	हंसः
यक्षेश्वरः	हस्ती	वज्रशृङ्खला	हंसः
तुम्बुरुः	गरुडः	पुरुषदत्ता	हस्ती
कुसुमः	वृषभः	मनोवेगा	अश्वः
वरनन्दी	सिंहः	काली	वृषभः
विजयः	हंसः	ज्वालामालिनी	मार्जारः
अजितः	कच्छपः	महाकाली (अजिता)	वृषभः
ब्रह्मेश्वरः	कमलकलिका	मानवी	पद्म
ईश्वरः	वृषभः	गौरी	वृषभो गोधा वा
कुमारः	मयूरः	गान्धासी	सर्पः
षण्मुखः	कुक्कुटः	वैरोटी	सर्पः
पातालः	नक्रः	अनन्तमतिः	हंसः
किंनरः	मत्स्यः	मानसी	सिंहः हंसो वा
किंपुरुषः	वृषभः	महामानसी	मयूरः सिंहो वा
गन्धर्वः	हरिणः	जया-विजया	मयूरः
केन्द्रः	मयूरः	अजिता	हंसः लोहपीठं वा
कुबेरः	हस्ती	अपराजिता	हंसः
वरुणः	वृषभः	बहुरूपिणी	सर्पः
भुक्कुटी	वृषभः	चामुण्डा	नक्रः
सर्वाह्वः	देवालयः (अश्वः)	कूष्माण्डिनी	सिंहः
धरणेन्द्रः	कच्छपः	पद्मावती	हंसः
मातङ्गः	हस्ती	सिद्धायिनी	हंसः

APPENDIX II

तीर्थकरवर्णना

१ तीर्थकरनाम	२ तृतीयभवः, नगरं	३ द्वितीयभवः	४ पूर्वतीर्थान्तरालम्	५ जन्मस्थानम्
१ ऋषभः	वज्रनाभ, पुंडरिंकिणी	सर्वार्थसिद्धिदेव	—	अयोध्या
२ अजितः	विमलवाहन, सुसीमा	अनुत्तरदेव	पञ्चाशलक्षकोटिसागरोपम	अयोध्या
३ संभवः	विमलवाहन, क्षेमपुर	प्रैवेयकदेव	त्रिंशलक्ष ,, ,,	श्रावस्ति
४ अभिनन्दनः	महाबल, रत्नसंचय	अनुत्तरदेव	दश ,, ,, ,,	साकेतः
५ सुमतिः	रतिषेण, पुंडरिंकिणी	वैजयन्तदेव	नव ,, ,, ,,	,,
६ पद्मप्रभः	अपराजित, सुसीमा	प्रैवेयकदेव	नवतिसहस्रकोटि ,,	कौशाम्बी
७ सुपार्श्वः	नन्दिषेण, क्षेमा	मध्यमप्रैवेयकदेव	नवसहस्रकोटि ,,	वाराणसी
८ चन्द्रप्रभः	श्रीवर्मादयः—	अच्युतदेव	नवशतकोटि ,,	चन्द्रपुर
९ सुविधिः पुष्पदन्तो वा	महापद्म, पुंडरिंकिणी	प्राणतदेव	नवतिकोटि ,,	काकन्दी
१० शीतलः	पृथ्वीपाल, सुसीमा	आरणदेव	नवकोटि ,,	राजभद्र भद्रिला वा
११ श्रेयांसः	नलिनप्रभ, क्षेमपुर	अच्युतेन्द्र	—	सिंहपुर
१२ वासुपूज्यः	पद्मोत्तर, रत्नपुर	महाशुक्रदेव	५४ सागरोपम	चम्पा
१३ विमलः	पद्मसेन, महानगर	सहस्रारदेव	३० ,,	काम्पिल्य
१४ अनन्तः	पद्मरथ, अरिष्टनेमि	षोडशस्वर्गदेव	९ ,,	साकेत
१५ धर्मः	दशरथ, सुसीमा	सर्वार्थसिद्धिदेव	४ ,,	रत्नपुर
१६ शान्तिः	मेधरथ, पुंडरीकिणी	सर्वार्थसिद्धिदेव	३ ,,	हस्तिनापुर
१७ कुन्थुः	सिंहरथ, सुसीमा	अनुत्तरदेव	१ ,,	,,
१८ अरः	धनपति, क्षेमा	जयन्तदेव	९९ लक्षकोटि	हस्तिनापुर
१९ मल्लिः	वैश्रवण, वीतशोक	अपराजितदेव	१ सहस्रकोटि	मिथिला
२० सुव्रतः	हरिवर्मा, चम्पा	प्राणतेन्द्र	५४ लक्ष	राजगृह
२१ नमिः	पार्थिव, कौशाम्बी	अपराजितदेव	६० ,,	मिथिला
२२ नेमिः	—	जयन्तदेव	५ ,,	शौरपुर
२३ पार्श्वः	आनन्द, अयोध्या	प्राणतदेव	८३७५० वर्ष	वाराणसी
२४ महावीरः	नन्द, छत्रपुर	षोडशस्वर्गदेव	२५० वर्ष	कुण्डप्रभ

APPENDIX III (Contd.)

गणधरसंख्या

[The No. of gods and goddesses is infinite and that of lower animals finite for all Tirthankaras and hence not tabulated.]

७	८	९	१०	११	१२
विक्रियर्ध्दिवादिनः	मनःपर्ययज्ञानिनः	अनुत्तरवादिनः	आर्यिकाः प्रमुखा च	श्रावकाः	श्राविकाः
२०६००	१२६५०	१२६५०	३००००० ब्रह्मी-सुन्दरी	३५००००	५ लक्ष
२०४००	१२४५०	१२४००	३२०००० प्रकुञ्जा	३ लक्ष	५ लक्ष
२९८००	१२१५०	१२०००	३३०००० धर्मा	३ ,,	५ लक्ष
२९०००	११६५०	११०००	३३०६०० मेरुषेणा	३ ,,	५ ,,
१८४००	१०४००	१०४५०	३३०००० अनन्तमति	३ ,,	५ ,,
१६८००	१०३००	९६००	४२०००० रतिषेणा	३ ,,	५ ,,
१५३००	९१५०	८६००	३३०००० मीना	३ ,,	५ ,,
१४०००	८०००	७६००	३६०००० वरुणा	३ ,,	५ ,,
१३०००	७५००	६६००	३६०००० घोषा	२ ,,	५ ,,
१२०००	७५००	५७००	३६०००० धारणा	२ ,,	५ ,,
११०००	६०००	५०००	१२०००० धरणा	२ ,,	४ ,,
१००००	६०००	४२००	१०६००० सेना	२ ,,	४ ,,
९०००	५५००	३६००	१०३००० पद्मा	२ ,,	४ ,,
८०००	५०००	३२००	१६००० सर्वश्री	२ ,,	४ ,,
७०००	४५००	२८००	६२४०० —	२ ,,	४ ,,
६०००	४०००	२४००	६०३०० हरिषेणा	२ ,,	४ ,,
५१००	३३००	२०५०	६०३५० भाविता	२ ,,	३ ,,
४३००	२०५५	१६००	६०००० यक्षिला	१६० सहस्र	३ ,,
२९००	१७५०	१४००	५५००० बन्धुषेणा	१ लक्ष	३ ,,
२२००	१५००	१२००	५०००० पुष्पदत्ता	१ ,,	३ ,,
१५००	१२५०	१०००	४५००० मंगिनी	१ ,,	३ ,,
११००	९००	८००	४०००० यक्षी	१ ,,	३ ,,
१०००	७५०	६००	३६००० सुलोचना	१ ,,	३ ,,
९००	५००	४००	३६००० चन्दना	१ ,,	३ ,,

APPENDIX IV

चक्रवर्तिनः

१ नाम	२ तीर्थम्	३ पूर्वभवः	४ जन्मस्थानम्	५ मातापितरौ
१ भरतः	ऋषभः	सर्वार्थसिद्धिदेवः	अयोध्या	ऋषभः—यशोमति
२ सगरः	अजितः	अच्युतदेवः	साकेतम्	समुद्रविजयः—विजयादेवी
३ मघवान्	धर्मः	प्रैवेयकदेवः	साकेतम्	सुमित्रः—भद्रादेवी
४ सनत्कुमारः	धर्मः	अच्युतेन्द्रः	विनीतपुरम्	अनन्तवीर्यः—महादेवी
५ शान्तिः	शान्तिः	सर्वार्थसिद्धि- अहमिन्द्रः	हस्तिनापुरम्	विश्वसेनः—अह्रादेवी
६ कुन्धुः	कुन्धुः	अनुत्तरदेवः	”	शूरसेनः—श्रीकान्ता
७ अरः	अरः	जयन्तदेवः		सुदर्शनः—मित्रसेना
८ सुभौमः	अरः	—	साकेतम्	सहस्रबाहुः—विचित्रमतिः
९ पद्मः	मल्लिः	अच्युतदेवः	वाराणसी	पद्मनाभः—श्यामादेवी
१० हरिषेणः	मुनिसुव्रतः	सनत्कुमारदेवः	भोगपुरम्	पद्मनाभः—अह्रादेवी
११ जयसेनः	नमिः	महाशुक्रदेवः	कौशाम्बी	विजयः—प्रभंकरि
१२ ब्रह्मदेवः	नेमिः	सौधर्मदेवः	काम्बिल्यम्	ब्रह्मराजः—चूलादेवी

APPENDIX IV (Contd.)

चक्रवर्तिनः

६ देहमानम्	७ वर्णः	८ आयुःप्रमाणम्	९ निर्वेदकारणम्	१० गतिः
५०० शरासन	काञ्चनः	अशीतिलक्षपूर्वाणि	पलितदर्शनम्	मोक्षः
४५० ,,	,,	५४ लक्षपूर्वाणि	पुत्रनाशः	,,
४२ $\frac{१}{२}$,,	,,	५ लक्ष	—	,,
४२ $\frac{१}{२}$,,	,,	३ ,,	देहच्छविनाशः	,,
४० ,,	,,	१ ,,	पलितदर्शनम्	,,
३५ ,,	,,	—	मुनिदर्शनम्	,,
३०(२०),,	,,	८४ सहस्र वर्षाणि	शरदभ्रविनाशः	,,
—	—	६० ,,	—	नरकः
२२ ,,	काञ्चनः	३० ,,	अभ्रविनाशः	मोक्षः
२० ,,	,,	१० ,,	चन्द्रग्रहणम्	,,
१५ ,,	,,	३ ,,	विद्युत्पतनम्	,,
७ ,	—	७ शतानि	—	नरकः

APPENDIX V

बलदेववासुदेवाः

(Only Eight of the Nine are Tabulated)

१	२ तीर्थम्	३ नाम	४ तृतीयभवः	५ वैरकारणम्	
I	{ बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	श्रेयांस " "	विजय त्रिपृष्ठ अश्वग्रीव	विशाखभूति विश्वनन्दि विशाखनन्दि	नन्दनवन — —
II	{ बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	वासुपूज्य " "	अचल द्विपृष्ठ तारक	वायुरथ सुषेण विन्ध्यशक्ति	गुणमञ्जरीवेश्या — —
III	{ बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	विमल " "	धर्म स्वयंभू मधु	नन्दिमित्र सुकेतु बलि	शूत — —
IV	{ बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	अनन्त " "	सुप्रभ पुरुषोत्तम मधुसुदन	महाबल वसुषेण चण्डशासन	नन्दादेवीहरण — —
V	{ बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	धर्म " "	सुदर्शन पुरुषसिंह मधुक्लीड	नरवृषभ सुमित्र राजसिंह	पराजय — —
VI	{ बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	अर " "	नन्दिषेण पुण्डरीक निशुम्भ	— — सुकेतु	— — —
VII	{ बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	महि " "	नन्दिमित्र दत्त बलि	राम विराम पिशुनमन्त्री	यौवराज्यस्यालाभः — —
VIII	{ बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	मुनिसुव्रत " "	राम (पद्म) लक्ष्मण रावण	विजय चन्द्रचूल —	— — —

APPENDIX V (Contd.)

बलदेववासुदेवाः

(Only Eight of the Nine are Tabulated)

६ द्वितीयभवः	७ मातापितरौ	८ देशः नगरं	९ वैरकारणम्	१० देहप्रमाणम्	११ गतिः
महाशुक्रस्वर्ग — ” —	प्रजापति-जयवती प्रजापति-मृगावति मयूरग्रीव-नीलांजनप्रभा	सुरभ्यदेश-पोदनपुर ” अलका	— स्वयंप्रभाविवाह —	८० शरासन ” —	मोक्ष नरक नरक
प्राणतकल्प ” कल्पामर	ब्रह्मा-सुभद्रा ब्रह्मा उववा or उषा. श्रीधर-श्रीमती	भारत-द्वारवती ” भरत, भोगवर्धन	— गन्धहस्ती —	७० ” ” —	मोक्ष नरक नरक
अनुत्तरविमान लान्तयस्वर्ग कल्पामर	रुद्र-सुभद्रा रुद्र पृथिवीदेवी समरकेसरी-सुन्दरी	द्वारवती ” रत्नपुर	— कल्पदान —	६० ” ६० ” —	मोक्ष नरक नरक
सहस्रारदेव सहस्रारदेव —	सोमप्रभ-जयवती सोमप्रभ-सीता विलास-गुणवती	द्वारवती ” वाराणसी	— कल्पदान —	५० ” ५० ” —	मोक्ष नरक नरक
सहस्रारदेव माहेन्द्रसुर —	सिंहसेन-विजया सिंहसेन-आम्बका —	खगपुर ” हस्तिनापुर	— कल्पदान —	४५ ” ४५ ” —	मोक्ष नरक —
सौधर्मस्वर्ग — —	वरसेन-वैजयन्ती वरसेन-लक्ष्मीमति —	चक्रपुर — —	— पद्मावतीविवाह —	२६ ” २६ ” —	मोक्ष नरक नरक
सौधर्मस्वर्ग ” —	अग्निशिख-अपराजिता अग्निशिख-केशवती —	वाराणसी ” मन्दिरनगर	— क्षीरसागर हस्ती —	२० ” २० ” —	मोक्ष नरक नरक
मणिचूलदेव सूर्वर्णचूल देव —	दशरथ-सुबला दशरथ-कैकेयी पुलस्ति मेघलक्ष्मी	वाराणसी अयोध्या च लङ्काद्वीप	— सीताहरण —	१५ ” १५ ” —	मोक्ष नरक नरक

ADDENDA ET CORRIGENDA

पृष्ठम्	कडकवम्	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
३	१	१२	भवइ जसोहो	भवइ जसोहो
४	१	१६	सण्णाणवहं	सण्णाणमहं
२३	७	१	मय मउल ^०	मयमउल ^०
२६	१२	११	मंदिर ^०	मंदर ^०
३१	१८	२५	भइरहि	भईरहि
४१	१२	२५	अहंगया	अहं गया
४३	१४	५	एक्कणवीस	एक्कणतीस
७३	७	१२	पणावेवि	पणवेवि
७४	१०	४	सुबंधु सुवेरि सुनिच्च ^०	सबंधुसु वेरिसु निच्च ^०
७९	३	७	सुरपुरसांणिहि	सुरपुरसंणिहि
८८	५	१	चूडामणि सरिस	चूडामणिसरिस
८९	५	१२	पंकणेत्तहु	पंकयणेत्तहु
९२	१०	४	पक्खमेत्तइ	पक्खमेत्तए
१२२	८	१४	धोयंदति ^०	धोयदंति ^०
१३२	५	५	सुहंकरि	सुहंकरि
१५०	६	५	पर पराइय	परपराइय
१५१	७	१	पुरएवहु	पुरएवहु
१५४	१२	१	कणहु	कणहु
१५८	१	१०	धणु लंगूलहु	धणुलंगूलहु
२४३	१४	९	वण्णामि	वण्णामि
२६२	१७	२	छुहधवलि	छुहधवलि
३१३	३	२	छम्मा सताम	छम्मास ताम
३१७	९	५	जाय	जाया
३७०	४	१	सेणियराहु	सेणियरायहु
३७०	४	११	सिसु मंतिमित्तु	सिसुमंति मित्तु
३७१	५	१२	धराणाह ^०	धरणाह ^०
३८४	२८	३	वेण्णि वे	वेण्णि वि
४१७	१	३	सिगग ^०	सिगग ^०
४२०	५	३	देवदेव	देवदेव
४६१	८	९	महिवादि	महिवीदि
४७४	२	१४	अम्हइ	अम्हइ
४८६	५	१४	मडु देहु	मडु देहु
५१६	४	१५	देहि णहु	देहि णहु

Notes

536-37 Notes on कडक 6 here are those of Samdhi II.

